


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश

भाग ४

[श - ह]

क्षु० जिनेन्द्र वर्णी



भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन

स्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा

संस्थापित

भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमालाके अन्तर्गत प्राकृत, सस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड़, तमिल आदि प्राचीन भाषाओंमें उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन-साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन तथा उसका मूल और यथासम्भव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन हो रहा है। जैन भण्डारोंकी सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन-ग्रन्थ और लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमालामें प्रकाशित हो रहे हैं।

●

ग्रन्थमाला सम्पादक

डॉ. हीरालाल जैन, एम. ए., डी. लिट्.

डॉ. का. ने. उपाध्ये, एम. ए., डी. लिट्.

●

प्रकाशक

भारतीय ज्ञानपीठ

प्रधान कार्यालय : बी/४५-४७, कनॉट प्लेस, नयी दिल्ली-११०००१

प्रकाशन कार्यालय . दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-२२१००५

मुद्रक : सन्मति मुद्रणालय, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-२२१००५

स्थापना : फाल्गुन कृष्ण ९, वीर नि० २४७० ● विक्रम सं० २००० ● १८ फरवरी, १९४४
सर्वाधिकार सुरक्षित



स्व० मूर्तिदेवी, मातेश्वरी श्री शान्तिप्रसाद जैन

JAINENDRA SIDDHĀNTA KOŚĀ

[Part IV]

by

Kshu. JINENDRA VARNĪ



BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪṬHA PUBLICATION

VĪRA SĀMVAT 2499 : V. SĀMVAT 2030 : A. D. 1973

First Edition : Price Rs. 50/-

BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪṬHA MŪRTIDEVĪ

JAIN GRANTHAMĀLĀ

FOUNDED BY

SĀHU SHĀNTIPRASĀD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

SHRĪ MŪRTIDEVĪ

IN THIS GRANTHAMĀLĀ CRITICALLY EDITED JAIN ĀGAMIC, PHILOSOPHICAL,
PAURĀNIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS
AVAILABLE IN PRĀKRITA, SAṂSKṚTA APABHRAṂṢA, HINDĪ,

KANNAḌA, TAMIL, ETC, ARE BEING PUBLISHED
IN THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR
TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS,
STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR
JAIN LITERATURE ARE ALSO BEING PUBLISHED.



General Editors

Dr. Haralal Jain, M. A., D. Litt.

Dr. A. N. Upadhye, M. A., D. Litt.



Published by

Bharatiya Jnanapitha

Head office B/45-47, Connaught Place, New Delhi-110001

Publication office Durgakund Road, Varanasi-221005.



Founded on Phalguna Krishna 9, Vira Sam 2470, Vikrama Sam. 2000, 18th Feb., 194

All Rights Reserved.

संकेत-सूची

- अमितगति श्रावकाचार/अधिकार स./श्लोक स., प वंशीधर शोलापुर, प्र. स., वि. सं. १९७६
 अनगारधर्ममृत/अधिकार स./श्लोक स./पृष्ठ स., प खूबचन्द शोलापुर, प्र. स. ई. १६.१९२७
 आत्मानुशासन/श्लोक स.,
 आलापपद्धति/अधिकार सं./सूत्र स./पृष्ठ सं., चौरासी मथुरा, प्र. सं., वी. नि. २४५६
 आप्तपरीक्षा/श्लोक स./प्रकरण स./पृष्ठ स., वीरसेवा मन्दिर सरसावा, प्र. सं., वि. सं. २००६
 आप्तमीमासा/श्लोक स.,
 इष्टोपदेश/मूल या टीका/श्लोक स./पृष्ठ सं. (समाधिशतकके पीछे) पं. आशाधर जी कृत टी. वीरसेवा मन्दिर, दिल्ली
 व घायपाहुड पुस्तक स./§ प्रकरण स./पृष्ठ स./पंक्ति स., दिगम्बर जैन सघ, मथुरा, प्र. स., वि. सं. २०००
 कार्तिकेयानुप्रेक्षा/मूल या टीका/गाथा स., राजचन्द्र ग्रन्थमाला, प्र. स. ई. १९६०
 कुल काव्य/परिच्छेद स./श्लोक स., प. गोविन्दराज जैन शास्त्री, प्र. स., वी. सं. २४८०
 क्रियाकलाप/मुख्याधिकार स.—प्रकरण स./श्लोक स./पृष्ठ स., पन्नालाल सोनी शास्त्री आगरा, वि. स./१९९३
 क्रियाकोश/श्लोक स., प. दौलतराम
 क्षणसार/मूल या टीका/गाथा स./पृष्ठ स., जैन सिद्धान्त प्र. कलकत्ता
 गुणभद्र श्रावकाचार/श्लोक स. वसुनन्दि श्रावकाचार/श्लोक सं., वसुनन्दि श्रावकाचारकी टिप्पणीमें
 गोम्मटसार कर्मकाण्ड/मूल या टीका/गाथा सं./पृष्ठ स., जैनसिद्धान्त प्रकाशनी सस्था, कलकत्ता
 ज्ञानार्णव/अधिकार स./दोहक स./पृष्ठ स., राजचन्द्र ग्रन्थमाला, प्र. स., ई. १९०७
 ज्ञानसार/श्लोक स.,
 चारित पाहुड/मूल या टीका/गाथा स./पृष्ठ सं., माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बम्बई, प्र. स., वि. स./१९७७
 चारित्रसार/पृष्ठ स./पंक्ति स., महावीर जी, प्र. स., वि. नि. २४८८
 जन्मदीवपणत्तिसगहो/अधिकार स./गाथा स., जैन सस्कृति संरक्षण सघ, शोलापुर, वि. स. २०१४
 तत्त्वानुशासन/श्लोक सं., (नागसेन सूरिकृत), वीर सेवा मन्दिर देहली, प्र. स., ई. १९६३
 तत्त्वार्थवृत्ति/अध्याय स./सूत्र स./पृष्ठ स./पंक्ति स., भारतीय ज्ञानपीठ, प्र. स., ई. १९४६
 तत्त्वार्थसार/अधिकार स./श्लोक स./पृष्ठ स., जैनसिद्धान्त प्रकाशनी सस्था, कलकत्ता, प्र. स., ई. स. १९२६
 तत्त्वार्थसूत्र/अध्याय स./श्लोक स./सूत्र स.,
 तिलोपपणत्ति/अधिकार स./गाथा स., जीवराज ग्रन्थमाला, शोलापुर, प्र. स., वि. सं. १९६६
 त्रिलोकसार/गाथा स., जैन साहित्य बम्बई, प्र. स., ई. १९१८
 दर्शन पाहुड/मूल या टीका/गाथा स./पृष्ठ स., माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बई, प्र. स., वि. स. १९७७
 दर्शनसार/गाथा स., नाथूराम प्रेमी, बम्बई, प्र. स., वि. १९७४
 देखो
 द्रव्यसंग्रह/मूल या टीका/गाथा स./पृष्ठ सं./देहली, प्र. सं. ई. १९६३
 धर्मपरीक्षा/श्लोक स
 धवला पुस्तक स./खण्ड स., भाग. सूत्र/पृष्ठ स./पंक्ति या गाथा स. अमरावती, प्र. स
 बृहद् नयचक्र/गाथा स. (श्रीदेवसेनाचार्यकृत), माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, प्र. स., वि. स. १९७७
 नयचक्र/श्रुत भवन दीपक/अधिकार स./पृष्ठ स., सिद्ध सागर, शोलापुर
 नियमसार/मूल या टीका/गाथा स.
 नियमसार/तात्पर्य वृत्ति—गाथा स./कलश स.,
 न्यायदीपिका/अधिकार स./प्रकरण स./पृष्ठ स., वीरसेवा मन्दिर देहली, प्र. स., नि.स. २००२
 न्यायबिन्दु/मूल या टीका/श्लोक स., चौखम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस
 न्यायविनिश्चय/मूल या टीका/अधिकार स./श्लोक स./पृष्ठ स./पंक्ति स., ज्ञानपीठ बनारस
 न्यायदर्शन सूत्र/मूल या टीका/अध्याय/आहिक/सूत्र/पृष्ठ, मुजफ्फरनगर, द्वि. स., ई. १९३४
 पचास्ति काय/मूल या टीका/गाथा स./पृष्ठ स., परमश्रुत प्रभावक मण्डल, बम्बई, प्र. स., वि. १९७२
 पचाध्यायी/पूर्वार्ध/श्लोक स., पं. देवकीनन्दन, प्र. स., ई. १९३२
 पचाध्यायी/उत्तरार्ध/श्लोक स. पं. देवकीनन्दन, प्र. स., ई. १९३२
 पञ्चनन्दि पंचविशतिका/अधिकार स./श्लोक स., जीवराज ग्रन्थमाला, प्र. स., ई. १९३२

पं सं./मा / /
 प स /स / . / .
 प पु / / /
 प सु / / / /
 प प /मू / . / .
 पा पु / / /
 पु सि उ / /
 प्र सा /मू / / /
 प्रति सा / / /
 वा अ / / /
 वो पा /मू / / /
 भ आ /मू / / /
 भा पा /मू / / /
 म पु / / /
 म, बं /ऽ / /
 मू आ / / /
 मो प / / /
 मो. पा /मू / . / /
 मो मा प्र. / / / / .
 यु. अत्रु / / /
 यो सा अ / / / .
 यो सा /यो / / /
 र, क श्रा / . / /
 र सा / / / .
 रा वा, / / / / /
 रा वा, हि / / / / /
 ल, सा, मू / / / /
 ला स / / / /
 लि पा मू / / / /
 वसु श्रा / / / /
 वैशे द, / / / / .
 शी पा मू / . / / /
 श्लो वा / / / . / / /
 प र्वं / / / / / / /
 स र्भं, त, / / / /
 स म / / / / . .
 स-श, मू / / / /
 स सा मू / / / / /
 स सा, आ / / / / क
 स सि / / / / /
 स, स्तो / / / / /
 सा ध / / / / /
 सा, पा, / / / / /
 सि सा. सं / / / / /
 सि, वि, मू / . / / / / /
 सु र सं / / / / /
 सू पा /मू / / / /
 ह पु / / / / /

पंचसंग्रह/प्राकृत/अधिकार सं./गाथा सं., ज्ञानपीठ काशी, प्र. सं., ई. १९६०
 पंचसंग्रह/मङ्कृत अधिकार सं./श्लोक सं., प. सु./मा की टिप्पणी, प्र. सं., ई. १९६०
 पद्मपुराण/सर्ग/श्लोक, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, प्र. सं., वि. सं., २०१६
 परोक्षामुख/परिच्छेद सं. सूत्र सं./पृष्ठ सं., स्याद्वाद महाविद्यालय, काशी प्र. सं.,
 परमात्मप्रकाश/मूल या टीका/अधिकार सं./गाथा सं./पृष्ठ सं०, राजचन्द्र ग्रन्थमाला, द्वि. सं., वि. सं. २०१७
 पाण्डुराण/सर्ग सं./श्लोक सं., जीवराज, शोलापुर, प्र. सं., ई. १९६२
 पुरुषार्थसिद्धयुपाय/श्लोक सं.
 प्रवचनसागर/मूल या टीका/गाथा सं.,
 प्रतिष्ठासरोद्धार/अध्याय/श्लोक सं
 वारस अणुवेखला/गाथा सं
 बोधपाहूड/मूल या टीका/गाथा सं/पृष्ठ सं., माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, चम्बई, प्र. सं. वि. सं. १९७७
 भगवतो आराधना/मूल या टीका/गाथा सं /पृ. सं./पंक्ति सं., सत्काराम दाशी, शोलापुर, प्र. सं. ई. १९३३
 भाव पाहूड/मूल या टीका/गाथा सं /पृष्ठ सं. माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, चम्बई, प्र. सं. वि. सं. १९७७
 महापुराण/सर्ग सं./श्लोक सं. भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्र. सं., ई. सं. १९६९
 महाबन्ध पुस्तक सं/ऽ प्रकरण सं./पृष्ठ सं., भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्र. सं. ई. सं. १९६९
 मूलाचार/गाथा सं., अनन्तकोटि ग्रन्थमाला, प्र. सं., वि. सं. १९७६
 मोक्ष पचाशिका/श्लोक सं
 मोक्ष पाहूड/मूल या टीका/गाथा सं /पृष्ठ सं., माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, चम्बई, प्र. सं., वि. सं. १९७७
 मोक्षमार्ग प्रकाशक/अधिकार सं /पृष्ठ सं /पं. सं., सस्ती ग्रन्थमाला, देहली, द्वि. सं., वि. सं. २०१०
 युग्मयुग्मासन/श्लोक सं., वीरसेवा मन्दिर, सरसावा प्र. सं., ई. १९६९
 योगसार अमितागति/अधिकार सं /श्लोक सं., जैनसिद्धान्त प्रकाशिनो संस्था, कलकत्ता, ई. सं. १९९०
 योगसार योगेन्दुदेव/गाथा सं., परमात्मके पीछे छपा
 रत्नकरुण्ड श्रावकाचार/श्लोक सं
 रयणसार/गाथा सं०
 राजवार्तिक/अध्याय सं /सूत्र सं /पृष्ठ सं /पंक्ति सं., भारतीय ज्ञानपीठ प्र. सं., वि. सं. २००८
 राजवार्तिक/अध्याय सं /पृष्ठ सं, पं. सं.
 लब्धिनार/मूल/गाथा सं /पृष्ठ सं., जैन सिद्धान्त प्र० कलकत्ता, प्र. सं
 लाटी संहिता/अधिकार सं / श्लोक सं./पृष्ठ सं
 लिंग पाहूड/मूल या टीका/गाथा सं /पृष्ठ सं., माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, प्र. सं., वि. सं. १९७७
 वसुनन्दि श्रावकाचार/गाथा सं., भारतीय ज्ञानपीठ काशी, प्र. सं., वि. सं. २००७
 वैशेषिक दर्शन/अध्याय/आह्निक/सूत्र सं /पृष्ठ सं., देहली पुस्तक भण्डार देहली, प्र. सं., वि. सं. २०६७
 शील पाहूड/मूल या टीका/गाथा सं/पंक्ति सं., माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला चम्बई, प्र. सं. वी. सं. १९७७
 श्लोकगतिक/पुस्तक सं /अध्याय सं /सूत्र सं./वार्तिक सं./पृष्ठ सं., कुच्युसागर ग्रन्थमाला शोलापुर, प्र. सं. १९४६-
 पट्टखण्डागम/पुस्तक सं./खण्ड सं /पृष्ठ सं
 सप्तभङ्गीतरङ्गिनी/पृष्ठ सं /पंक्ति सं., परम श्रुत प्रभावक मण्डल, द्वि. सं., वि. सं. १९७२
 स्याद्वादमञ्जरी/श्लोक सं /पृष्ठ सं /पंक्ति सं., परम श्रुत प्रभावक मण्डल, प्र. सं. १९६९
 समाधिगतक/मूल या टीका/श्लोक सं /पृष्ठ सं./इष्टीपदेश युक्त, वीर सेवा मन्दिर देहली, प्र. सं., २०२९
 समयसार/मूल या टीका/गाथा सं /पृष्ठ सं./पंक्ति सं., अहिंसा मन्दिर प्रकाशन देहली, प्र. सं., ३२/१२/१९६८
 समयमार/आत्मरूपाति/गाथा सं /कलश सं
 सर्वार्थसिद्धि/अध्याय सं /सूत्र सं /पृष्ठ सं. भारतीय ज्ञानपीठ प्र. सं., ई. १९६६
 स्वयम्भू दत्तोत्र/शनां सं. वीरसेवा मन्दिर सरसावा, प्र. सं., ई. १९६९
 सागर धर्ममूल/अधिकार सं./श्लोक सं.
 सामायिक पाठ अमितागति/श्लोक सं.
 सिद्धान्तसार सग्रह/अध्याय सं /शला सं /जीवराज जैन ग्रन्थमाला, प्र. सं., ई. १९३७
 सिद्धि विनिरचन/मूल या टीका/प्रस्ताव सं /श्लोक सं /पृष्ठ सं./सं., भारतीय ज्ञानपीठ, प्र. सं., ई. १९२९
 सुभाषित रत्न मदोह/श्लोक सं (अमितागति), जैन प्र. कलकत्ता, प्र. सं., ई० १९९७
 सूत्र पाहूड/मूल या टीका/गाथा सं /पृष्ठ सं., माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला चम्बई, प्र. सं., वि. सं. १९७७
 हरिवंश पुराण/सर्ग/श्लोक सं., भारतीय ज्ञानपीठ, प्र. सं.

नोट—भिन्न-भिन्न कोष्ठकों व रेखाचित्रों में प्रयुक्त संकेतोंके अर्थ क्रमसे उस-उस स्थल पर दी दिये गये हैं।

जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश

[भाग ४]



जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश

[क्षु० जिनेन्द्र वर्णी]

[श]

शंकर वेदांत—इसका अपरनाम ब्रह्माद्वैत—दे० वेदान्त/II ।

शंकराचार्य—ब्राह्मण जातिके थे। हिन्दू धर्मके (विशेषत अद्वैत-वादके) महात् प्रचारक थे। गौडपादके शिष्य गोविन्दके शिष्य थे। ब्रह्माद्वैतमतके संस्थापक थे। केवल २८ वर्षकी आयु थी। ई ७८८ में मालाबारमें जन्म हुआ था। मृत्यु ई ८२६।

शंकरानंद—बहुत बड़ा तार्किक व नैयायिक एक बौद्ध साधु था। कृति—अपोहसिद्धि, प्रतिबन्धसिद्धि। समय—ई. ८१० (स्याद्वाद सिद्धि। प्र. पु. २० प दरबारीलाल)।

शंका—१ नि. सा/ता वृ/५ शंका हि सकलमोहरागद्वेषादय। =शंका अर्थात् सकल मोहराग द्वेषादिक (दोष)।

प घ/उ/४८१ शंका भी साध्वस भीतिर्भयमेकाभिधा अमी। =शंका, भी, साध्वस, भीति और भय ये शब्द एकार्थ वाचक हैं।

द पा/प जयचन्द/२/१० शंका नाम संशयका भी है और भयका भी। और भी दे, निश्चित। २. सामान्य अतिचारका एक भेद—दे अतिचार। ३ लघु व दीर्घ शंका विधि—दे. समिति/१/७ ४ सम्यग्दर्शनके शंका अतिचार व संशय मिथ्यात्व में अन्तर—दे सशय।

शंकाकार शिखा—Super-incumbent cone, (घ. प्र ५ प्र./२८)।

शंकित—आहारका एक दोष—दे, आहार/II/४।

शंकित विपक्ष वृत्ति हेत्वाभास—दे. व्यभिचार।

शंकुसमुच्छिन्नशंक—Frustrum of cone (ज प. प्र १०८)।

शंख—१ चक्रवर्तीकी नवनिधियोंमें से एक—दे शलाकापुरुष/२। २. प्रतिमाके १०८ उपकरणोंमेंसे एक—दे, चैत्य/२/१२। ३ यादव-वंशी कुण्डका २३वाँ पुत्र—दे इतिहास/६/११; ४ लवण समुद्र में स्थित एक पर्वत—दे लोक/७, ५. अपर विदेहस्थ एक क्षेत्र—दे लोक/७, ६ आशीविप बक्षारका एक कूट व उसका रक्षक देव—दे लोक/७।

शंख परिणाम—एक ग्रह—दे ग्रह।

शंख रत्न—रुचक पर्वतस्थ एक कूट—दे लोक/७।


शंख वज्र—विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर—दे, विद्याधर।

शंखवर—मध्यलोकका चारहवाँ द्वीप व सागर—दे लोक/५।

शंखवर्ण—एक ग्रह—दे ग्रह।

शंखाकार आकृति—

ज. प. प्र ८५।



शंखावर्त योनि—दे योनि।

शंब—ह पु/सर्ग/रत्नक—पूर्व भवस ७ में शृगाल (४३/११५) फिर वायुभृति ब्राह्मण (४३/१००), फिर सौधर्म स्वर्ग में देव (४३/१४६) चौथेमें मणिभद्र सेठका पुत्र (४३/१४६) फिर सौधर्म स्वर्गमें देव (४३/१५८), फिर कैटभ नामक राजपुत्र (४३/१६०) फिर पूर्व भवमें अच्युतेन्द्र (४३/२१६) वर्तमान भवमें जाम्बवती रानीसे कृष्णका पुत्र था (४८/७) वन क्रीडा करते समय वनमें पड़े कुण्डोंमें से शराय पी ली (६१/४६) जिसके. नशेमें द्वीपायन मुनिपर उपसर्ग किया (६१/४६-५५)। द्वारका भस्म होनेकी घटनाको जान दीक्षा ग्रहण की। (६१/६८) अन्तमें गिरनारसे मोक्ष प्राप्त किया (६५/१६-१७)।

शंवरदेव—भगवान् पार्श्वनाथका पूर्व भवका भाई था। इसने भगवान् पर घोर उपसर्ग किया (म पु/७३/१२७) अन्तमें परम्पराका बैर छोड़कर भगवान्की स्तुति की (७३/१६८) यह कमठका उत्तरका नवमाँ भव है—दे० कमठ।

शंबूक—प. पु/४३/रत्नक—रावणकी बहन चन्द्रनखाका पुत्र था। सूर्यहास खड्गकी सिद्ध करनेके लिए १२ वर्षका योग वंशस्थल पर्वत पर धारण किया (४५-४७) वनवासी लक्ष्मणने खड्गकी गन्धसे आश्चर्यान्वित हो, खड्गको परखके अर्थ शम्बूक सहित वशके बीडेको काट दिया (४६-५५) यह मरकर नरकमें गया।

शक—इसका वर्तमान नाम बैक्ट्रिया है। (म पु/प्र. ५०)।

शकट—घ १४/५, ६, ४१/३८/७ लोहेण वज्रणेमि-तुम महाचक्रका लोहमरुद्धहयपेरता लोणादीण गरुअभरुव्वहणवखमा सयडा नाम। =जिनकी धुर गाडीकी नाभि और महाचक्र लोहेसे बँधे हुए हैं, जिनके झुहय पर्यन्त लोहेसे बँधे हुए हैं, जो नमक आदि भार होनेमें समर्थ हैं वे शकट कहलाते हैं।

शकटमुखी—विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर।

—दे विद्याधर।

शक वंश—मगध देशकी राज्य वंशावलीके अनुसार यह एक छोटी सी जाति थी। इस जातिको कोई भी एकछत्र राज्य नहीं था। इस वंशमें छोटे-छोटे सरदार होते थे जो धीरे-धीरे करके भारतवर्षके किन्हीं-किन्हीं भागोंपर अपना अधिकार जमा बैठे थे जिसके कारण मौर्यवंशी विक्रमादित्यका राज्य छिन्न-भिन्न हो गया था। भृत्यवशी गौतमी पुत्र साण्कणी (शालिवाहन) ने वी नि ६०५ में शक सबत प्रचलित किया था। जो पीछेसे शक सबत कहलाने लगा। इसके सरदारोंका नाम इतिहासमें नहीं मिलता है। हों, आगमकारोंने उनका उल्लेख किया है जो निम्न प्रकार है—

- १ पुष्यमित्र वी नि २५५-२८५, ई पू २७१-२४६
- २ वसुमित्र ,, ,, २८५-३१५, ,, ,, २४६-२११
- ३ अग्निमित्र ,, ,, ३१५-३४५, ,, ,, २११-१८१
- ४ गर्दभिल ,, ,, ३४५-४४५, ,, ,, १८१-८१
- ५ नरवाहन ,, ,, ४४५-४८५, ,, ,, ८१-४१

(विशेष दे इतिहास/मगधके राज्य वंश) नरवाहन की वी, नि, ६०५ में शालिवाहन द्वारा हारनेकी सगतिके लिए भी—दे इतिहास/३/३।

शक संबत्—दे इतिहास/२।

शक्ति—शक्तिके भेद व लक्षण—दे स्वभाव।

शक्तिकुमार—गुहिलोत वंशका राजा था। पाशुपत धर्मका अनुयायी था। परन्तु कुछ-कुछ जैनधर्मका भी विश्वास करता था। समय—ई श १०-११। (जैन साहित्य इतिहास/पृ २५६ प्रेमी जी) (ति प./प्र = A N Up)

शक्ति तत्त्व—दे शैव दर्शन।

शक्तितस्तप—दे तप।

शक्तितस्त्याग—दे त्याग।

शक्ति भूपाल—वंश वंशका राजा था। इसके राज्यमें ही पद्मनन्दीने जम्बूद्वीप प्रज्ञप्तिकी रचना की थी। सम्भवत गुहिलोत वंशका शक्तिकुमार ही यह शक्ति भूपाल था। समय—ई १० का अन्तिम चरण (ज प/प्र १४ A N Up, हीरालाल)।

शक्यप्राप्ति—व्या सू /टी /१/१/३२/३३/२३ प्रमातु प्रमाणानि प्रमेयाधिगमार्थानि सा शक्यप्राप्ति । —प्रमेयोंके जाननेके लिए जो प्रमाताके प्रमाण हैं, उसीको शक्यप्राप्ति कहते हैं।

शक्रपुरी—विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर।—दे विद्याधर।

शक्रावित्य—बौद्ध मतानुयायी राजा था। इसने नालन्दामें मठ बनवाये थे। समय—ई श ५।

शतपदा—रुचक पर्वत निवासिनी दिक्कुमारी देवी—दे लोक/७।

शतपर्वा—एक विद्या—दे विद्या।

शतभागा—भरत क्षेत्रथ आर्य खण्डकी एक नदी—दे० मनुष्य/४।

शतभिषा—एक नक्षत्र—दे० नक्षत्र।

शतमति—म पु /स श्लोक—ऋषभदेवके पूर्व (५/२००) भवके महानल की पर्यायिका मिथ्यारुष्टि मन्त्री था (४/१६१) नैरारमवादी था (५/४४) मर कर नरक गया (१०/२२)।

शतहृद—विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर—दे० विद्याधर।

शतानीक—कुरुवंशी राजा था। पांचाल देशका राजा तथा जनमेजयका पुत्र था। प्रवाहण जैथलिका पिता था। समय—ई पू १४२०-१४००—दे इतिहास/३/३।

शतार—१ कल्पनासी देवोंका एक भेद—दे स्वर्ग/१/५। २ कल्प-स्वर्गोंका ग्यारहवाँ पटल—दे स्वर्ग/४।

शत्रुंजय—विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर—दे विद्याधर।

शत्रु—सच्चा शत्रु मोह है—दे माहनीय/१/४।

शत्रुघ्न—१ ए. पु /सर्ग/श्लोक—पूर्वभव भव स ३ में भानुदत्त सेठका पुत्र शूरदत्त था (३४/६७-६८) फिर मणिचून् नामक विद्याधर हुआ (३४/१३२-१३३) पूर्व भवमें गंगदेव राजाका पुत्र मुनन्द था (३४/१४२) वर्तमान भवमें वसुदेवका पुत्र कृष्णका भाई था (३४/३)। उसके भयसे जन्मते ही किसी देवने उसको उठाकर मुदृष्टि सेठके घर पहुँचा दिया (३४/७)। द्रोणाग्रहणकर घोर तप किया (५६/११५-१२०) अन्तमें गिरनारसे मोक्ष प्राप्त किया (६५/१६-१७)। २ प पु./सर्ग/श्लोक स दशरथका पुत्र तथा रामका छोटा भाई था (२४/३४) मधु को हराकर मथुराका राज्य प्राप्त किया (७६/११६)। अन्तमें द्रोणाग्रहण की (११६/३८)।

शतमुख—भगवाद् वासुपुत्रका शामक यक्ष—दे यक्ष।

शनि—१ एक ग्रह—दे, ग्रह। २ इसका लोकमें अवस्थान—दे ज्योतिष/२।

शबर—मीमांसा दर्शनमें जैमिनी सूत्रके मूल भाष्यकार शायर-भाष्यके रचयिता। समय—ई श ४—दे मीमांसा दर्शन।

शबल—अमुर भवनवासी देव—दे, अमुर।

शब्द—३ शब्द सामान्यका लक्षण

स सि /२/२०/१७८-१७९/१० शब्दगत इति शब्द । शब्दनं शब्द इति । —जो शब्द रूप होता है वह शब्द है। और शब्दन शब्द है। (रा. वा /२/२०/१/१३२/३२)।

रा वा /५/२४/१/४८५/१०। शपत्यर्थमाह्वयति प्रथयाययति, शप्यते येन, शपनमात्र वा शब्द, । —जो अर्थको शपति अर्थात् कहता है, जिसके द्वारा अर्थ कहा जाता है या शपन मात्र है, वह शब्द है।

घ १/१.२.३३/२४७/७ यदा द्रव्य प्राधान्येन विवक्षित तदेन्द्रियेण द्रव्यमेव सनिकृष्यते, न ततो व्यतिरिक्ता स्पर्शादय केचन सन्तीति एतस्यां विवक्षायां कर्मसाधनत्व शब्दस्य युज्यत इति, शब्द्यत इति शब्द । यदा तु पर्याय प्राधान्येन विवक्षितस्तदा भेदोपपत्ते

औदासीन्यावस्थितभावकथनाद्भावसाधन शब्द शब्दन शब्द इति । —जिस समय प्रधान रूपसे द्रव्य विवक्षित होता है उस समय इन्द्रियोंके द्वारा द्रव्यका ही ग्रहण होता है। उससे भिन्न स्पर्शादिक कोई चीज नहीं है। इस विवक्षामें शब्दके कर्मसाधनपना

बन जाता है जैसे शब्द्यते अर्थात् जो ध्वनि रूप हो वह शब्द है। तथा जिस समय प्रधान रूपसे पर्याय विवक्षित होती है, उस समय द्रव्यसे पर्यायका भेद सिद्ध होता है अतएव उदासीन रूपसे अवस्थित

भावका कथन किया जानेसे शब्द भावसाधन भी है जैसे 'शब्दन शब्द' अर्थात् ध्वनि रूप क्रिया धर्मको शब्द कहते हैं।

पं का /प्र प्र./७६ याह्यश्रवणेन्द्रियावलम्बितो भावेन्द्रियपरिच्छेद्यो ध्वनि शब्द । —याह्य श्रवणेन्द्रिय द्वारा अवलम्बित, भावेन्द्रिय द्वारा जानने योग्य ऐसी जो ध्वनि वह शब्द है।

* कायोत्सर्गका एक अतिचार—दे, व्युत्सर्ग/१।

२. शब्दके भेद

स सि /१/२४/२६४-२६५/१२ शब्दा द्विविधो भाषाक्षणे विपरीत-श्चेति। अभाषात्मनो द्विविध प्रायोगिको वैज्ञसिकश्चेति। प्रायोगिकश्चतुर्धा तद्विततघनसोपिरभेदात्। =भाषारूप शब्द और अभाषारूप शब्द इस प्रकार शब्दोंके दो भेद हैं। अभाषात्मक शब्द दो प्रकारके हैं—प्रायोगिक और वैज्ञसिक। तथा तत्, वितत, घन और सौपिरके भेदसे प्रायोगिक शब्द चार प्रकार हैं। (रा, वा /१/२४/२-५/४८५/२१), (प का, ता वृ /७६/१३५/६), (द्र, स /टी /१६/५२/२)।

ध १३/५.५.२६/२२१/६ छविहो तद-विदद-घण-सुषिर-घोस-भास भेषण। =वह छह प्रकार है—तत् वितत, घन, सुषिर, घोप और भाषा।

* भाषात्मक शब्दके भेद व लक्षण—दे भाषा।

३. अभाषात्मक शब्दोंके लक्षण

स. सि /१/२४/२६५/३ वैज्ञसिको बलाहकादिप्रभव तत्र चर्मतनन-निमित्त पुष्करभेरीद्वुरादिप्रभवस्तत्। तन्त्रीकृतवीणासुधोपादि-समुद्भवो वितत। तालघण्टालालनाद्यभिघातजो घन। वशशङ्खादि-निमित्त सौपिर। =मेघ आदिके निमित्तसे जो शब्द उत्पन्न होते हैं वे वैज्ञसिक शब्द हैं। चमडेसे मढ़े हुए पुष्कर, भेरी और दबुरसे जो शब्द उत्पन्न होता है वह तत् शब्द है। ताँत वाले वीणा और सुधोप आदिसे जो शब्द उत्पन्न होता है वह वितत है। ताल, घण्टा और लालन आदिके ताडनसे जो शब्द उत्पन्न होता है वह घन शब्द है तथा नाँसुरी और शख आदिके फूँकनेसे जो शब्द उत्पन्न होता है वह सौपिर शब्द है। (रा वा /१/२४/४-५/४८५/२७)।

ध १३/५.५.२६/२२१/७ तत्थ तदो गाम वीणा-तिसरिआलाननि-वन्वीस-खुकुणादिजणितो। विततो गाम भेरी-मुद्विगपटहादि-समुद्भूतो। घणो गाम जयघटादिघणदव्वाण सघादुडानिदो। सुषिरो गाम वस-सख-काहलादिजणितो। घोसो गाम घससमाण-दव्वजणितो। =वीणा, तिसरिक, आलापिनी, वन्वीसक और खुकुरुणा आदिसे उत्पन्न हुआ शब्द तत् है। भेरी, मृदग और पटह आदिसे उत्पन्न हुआ शब्द वितत है। जय घण्टा आदि ठोस द्रव्योंके अभिघातसे उत्पन्न हुआ शब्द घन है। वश, शख और काहल आदि-से उत्पन्न हुआ शब्द सौपिर है। घर्षणको प्राप्त हुए द्रव्यसे उत्पन्न-हुआ शब्द घोप है।

प का/ता वृ /७६/१३५/६ तत् वीणादिक ज्ञेय वितत पटहादिक। घनं तु कसतालादि सुषिर वंशादिक विदु। वैज्ञसिकस्तु मेघादि-प्रभव। =वीणादिके शब्दको तत्, ढोल आदिके शब्दको वितत, मजिरे तथा ताल आदिके शब्दको घन और बसी आदिके शब्दको सुषिर कहते हैं। स्वभावसे उत्पन्न होनेवाला वैज्ञसिक शब्द वादल आदिसे होता है। (द्र स /टी /१६/५२/६)।

* द्रव्य व भाव वचन—दे० वचन।

* क्रियावाची व गुणवाची आदि शब्द—दे नाम/३।

४. शब्दमें अनेकों धर्मोंका निर्देश

स्या म /२२/२७०/१७ शब्देव्वपि उदात्तानुदात्तस्वरितविवृतसवृतघोप-वधोपताव्यप्राणमहाप्राणतादय तत्तदर्थप्रत्यायनशब्दव्यादयश्चाव-सेया। =उदात्तोंकी तरह शब्दोंमें भी उदात्त, अनुदात्त स्वरित, विवृत, सवृत, घोप, अवघोप, अव्यप्राण, महाप्राण आदि पदार्थोंके ज्ञान करानेकी शक्ति आदि अनन्त धर्म पाये जाते हैं।

५. शब्दके संचार व श्रवण सम्बन्धी नियम

ध १३/५.५.२६/२२२/६ सह-पोग्गला सगुप्पतिपदेसादो उच्छलिय दसदिसाम्भु गच्छमाणा उक्कस्सेण जाव लोगत ताव गच्छति। सव्वे ण गच्छति, थोवा चैव गच्छति। त जहा—सहपज्जाएण परिणद-पदेसे अणता पोग्गला अबड्डाण कुणति। विदियागासपदेसे तत्तो अणतगुणहीणा। देदियागासपदेसे अणतगुणहीणा। चउरथागासपदेसे अणतगुणहीणा। एवमणतरोनणिधाए अणतगुणहीणा होदूण गच्छति जाव सम्भदिसाम्भु षादबल्यपेर त पसाति। परदो किण्ण गच्छति। धम्ममारिथकायाभावो। ण च सव्वे सह-पोग्गला एगसमएण चैव लोगत गच्छति त्ति नियमो, केसि पि दोसमए आदि कादूण जहण्णेण अतोमुहुत्तकालेण लोगतपत्ती होदि त्ति उववेसादो। एव समय पडि सहपज्जाएण परिणदपोग्गलाण गमणावड्डाणाण परूणणा कायन्वा।

ध. १३/५.५.२६/गा ३/२२४ भासागदसमसेडि सह जदि सुणदि मिस्सय सुणदि। उत्सेडि पुण सह सुणेदि णियमा पराघादे। ३।

ध १३/५.५.२६/१२६/१ समसेडोए आगच्छमाणे सह-पोग्गले परघादेण अपरघादेण च सुणदि। त जहा—जदि परघादो णरिथ तो कडुञ्जु-वाए गइए कण्णछिइ पविट्ठे सह-पोग्गले सुणदि। पराघादे सते वि सुणेदि, दो समसेडोदो पराघादेण उत्सेडि गंतूण पुणो पराघादेण समसेडोए कण्णछिइ पविट्ठान सह-पोग्गलाणं सवणुवसभादो। उत्सेडि गदसह-पोग्गले पुण पराघादेणेव सुणेदि, अण्णहा तेसि सवणाणुवक्कीदो। =१ संचारसम्बन्धी—शब्द पुद्गल अपने उत्पत्ति प्रदेशसे उछलकर दसों दिशाओंमें जाते हुए उत्कृष्ट रूपसे लोकके अन्त भाग तक जाते हैं। सब नहीं जाते थोड़े ही जाते हैं। यथा—शब्द पर्यायसे परिणत हुए प्रदेशमें अनन्तपुद्गल अवस्थित रहते हैं। (उससे लगे हुए) दूसरे आकाश प्रदेशमें उनसे अनन्त गुणे हीन पुद्गल अवस्थित रहते हैं। तीसरे आकाश प्रदेशमें उससे लगे हुए अनन्तगुणे हीन पुद्गल अवस्थित रहते हैं। चौथे आकाश प्रदेशमें उससे अनन्तगुणे हीन पुद्गल अवस्थित रहते हैं। इस तरह वे अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा वातवलय पर्यन्त सब दिशाओंमें उत्तरोत्तर एक-एक प्रदेशके प्रति अनन्तगुणे हीन होते हुए जाते हैं। प्रश्न—आगे वधो नहीं जाते। उत्तर—धर्मास्तिकायका अभाव होनेसे वातवलयके आगे नहीं जाते हैं। ये सब शब्द पुद्गल एक समयमें ही लोकके अन्त तक जाते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। किन्तु ऐसा उपदेश है कि कितने ही शब्द पुद्गल कमसे कम दो समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा लोकके अन्तको प्राप्त होते हैं। इस तरह प्रत्येक समयमें शब्द पर्यायसे परिणत हुए पुद्गलोंके गमन और अवस्थानका कथन करना चाहिए।

२ श्रवणसम्बन्धी—“भाषागत समश्रेणिरूप शब्दको यदि सुनता है तो मिश्रको ही सुनता है। और उच्छ्रेणिको प्राप्त हुए शब्दको यदि सुनता है तो नियमसे परघातके द्वारा सुनता है”। ३। सम-श्रेणि द्वारा आते हुए शब्द पुद्गलोंको परघात और अपरघात रूपसे सुनता है। यथा—यदि परघात नहीं है तो बाणके समान ऋजुगतिसे कर्णछिद्रमें प्रविष्ट हुए शब्द पुद्गलोंको सुनता है। पराघात होनेपर भी सुनता है क्योंकि, समश्रेणिसे पराघात द्वारा उच्छ्रेणिको प्राप्त होकर पुन पराघात द्वारा समश्रेणिसे कर्णछिद्रमें प्रविष्ट हुए शब्द पुद्गलोंका श्रवण उपलब्ध होता है। उच्छ्रेणिको प्राप्त हुए शब्द पुन पराघातके द्वारा ही सुने जाते हैं अन्यथा उनका सुनना नहीं बन सकता है।

६. ढोल आदिके शब्द कथंचित् भाषात्मक हैं

ध १४/५.६.८३/६१/१२ कथं काहलादिसद्धान भाभाववएसो। ण, भ,सो व्व भासे त्ति उव्वारेण कालादिसद्धानपि तव्ववएमनिद्धोदो।

—प्रश्न—नगारा आदिके शब्दोंकी भाषा सझा कैसे है। (अर्थात् एह्दे भाषा वर्णनासे उत्पन्न क्यों कहते हो)। उत्तर—नहीं, यथाकि, भाषाके समान होनेसे भाषा है इस प्रकारके उपचारसे नगारा आदिके शब्दोंकी भी भाषा सझा है।

७. शब्द पुद्गलकी पर्याय है आकाशका गुण नहीं

प का /सू/७६ सहो स्फुट्यभवो खधो परमाणुसंगघाघो। पुट्टेष्टु तेषु जायति सहो उष्पादिगो णियदो ॥७६॥ —शब्द स्फुट्यजन्य है। स्फुट्य परमाणु दलका सघात है, और वे स्फुट्य स्फुटित होनेसे—उत्पानेसे शब्द उत्पन्न होता है, इस प्रकार वह (शब्द) नियत रूपसे उत्पाद्य है ॥७६॥ अर्थात् पुद्गलकी पर्याय है। (प्र. सा/सू/१३२)।

रा वा /१५/१२/४६८/४ शब्दो हि आवाशगुण वाताभिघातमाह्य-निमित्तवशात् सर्वत्रोपचयमान इन्द्रियप्रत्यक्ष अन्यद्रव्यासभनी गुणिनामाकाश सर्वगतं गमयति, गुणानामाधारपरतन्त्रत्वादिति, तन्न, किं कारणम्। पौद्गलिकत्वात्। पुद्गलद्रव्यविचारो हि शब्द नाकाशगुण। तस्योपरिष्टात् युक्तिर्वस्यते। —प्रश्न—शब्द आकाश का गुण है, वह वायुके अभिघात आदि बाह्य निमित्तोंसे उत्पन्न होता है, इन्द्रियप्रत्यक्ष है, गुण है, अन्य द्रव्योंमें नहीं पाया जाता, निराधार गुण रह नहीं सकते अतः अपने आधारभूत गुणों आकाशका अनुमान कराता है। उत्तर—ऐसा नहीं है क्योंकि शब्द पौद्गलिक है। शब्द पुद्गल द्रव्यका विचार है आकाशका गुण नहीं। (और भी वे सूत्र/६)।

प्र सा/त प्र/१३२ शब्दस्यापीन्द्रियग्राह्यत्वाद्गुणत्व न खण्डाश्र-नीय। अनेकद्रव्यात्मकपुद्गलपर्यायवैनाम्युपगम्यमानत्वात्। न तावदमूर्तद्रव्यगुण शब्द अमूर्तद्रव्यस्यापि श्रवणेन्द्रिय-विषयत्वापत्तेः। मूर्तद्रव्यगुणोऽपि न भवति। तत्त कादा-चित्कवोरखातनिरयत्वरय न शब्दस्यास्ति गुणत्वम्। न च पुद्गलपर्यायत्वे शब्दस्य पृथिवीस्फुट्यस्यैव स्पर्शनादीन्द्रियविष-यत्वम्। अर्थात् घ्राणेन्द्रियाविषयत्वात्। —१ ऐसी शका नहीं करनी चाहिए कि शब्द भी इन्द्रिय ग्राह्य होनेसे गुण हागा, क्योंकि वह विचित्रताके द्वारा विषयरूपत्व (अनेकानेक प्रकाररव) दिखलाता है, फिर भी उसे अनेक द्रव्यारमक पुद्गल पर्यायके रूपमें स्वीकार किया गया है। २ शब्द अमूर्त द्रव्यका गुण नहीं है क्योंकि, अमूर्त द्रव्यके भी श्रवणेन्द्रियकी विषयभूतता आ जायेगी। ३ शब्द मूर्त द्रव्यका गुण भी नहीं है अनित्यत्वसे निश्चयसे उरथापित होनेसे (अर्थात् शब्द कभी-कभी ही होता है और निरय नहीं है, इसलिये) शब्द गुण नहीं है। ४, यदि शब्द पुद्गलकी पर्याय हो तो वह पृथिवी स्फुट्यकी भाँति स्पर्शनादिके इन्द्रियोंका विषय होना चाहिए अर्थात् जैसे पृथिवी स्फुट्यरूप पुद्गल पर्याय सर्व इन्द्रियासे ज्ञात होती है उसी प्रकार शब्दरूप पुद्गल पर्याय सभी इन्द्रियोंसे ज्ञात होनी चाहिए (ऐसा तर्क किया जाये ता) ऐसा भी नहीं है क्योंकि पानी (पुद्गलकी पर्याय है, फिर भी) घ्राणेन्द्रियका विषय नहीं है। (प्र सा/ता. वृ/१३५/१८६/१९)।

८ शब्दकी जाननेका प्रयोजन

प का/ता वृ/७६/१३४/१० इह सर्वं हेयत्तत्त्वमेतन्माद्भिन्नं शुद्धारम-तत्त्वमुपादेयमिति भावार्थ। —यह सर्व तत्त्व हेय है। इससे भिन्न शुद्धात्म तत्त्व ही उपादेय है ऐसा भावार्थ है।

* शब्दकी अपेक्षा द्रव्यमें भेदाभेद—दे सप्तमगी/५/८।

* शब्द अल्प हैं और अर्थ अनन्त हैं—दे, आगम/४।

शब्द अर्थ सम्बन्ध—दे आगम/४।

शब्द कोश—जैनाचार्योंने १६ शब्दकोश बनाये हैं—१ आ पुज्यपाद (ई. श १) कृत आश्रयशास्त्र। २ भी. ऐमचन्द्रमुरि (ई. १०८८-११०३) कृत मिश्रण शब्दानुशासना। ३ रवे ऐम-चन्द्रमुरि (ई १०८८-११०३) कृत अभिधानचिन्तामणि कीटा (हीमो नामानामा कोश)। ४ रवे, ऐमचन्द्रमुरि (ई १०८८-११०३) कृत अनेकार्थसंग्रह। ५ रवे, ऐमचन्द्रमुरि (ई १०८८-११०३) कृत ऐशानाममाना। ६, पं ज्ञानार (ई ११०८-११२३) कृत 'अमरकोषकी टीका' रूप क्रिया-नशाप। ७ ज्ञानार्थ शुभ-चन्द्र (ई. १५१६-१५६६) द्वारा रचित शब्द चिन्तामणि। ८. आं भट्टानन्दक मि. (ई १६०४) द्वारा रचित शब्दानुशासना। ९, पं मनान्मीदास (ई. १६३६-१६६०) द्वारा रचित भाषाकी नाम-माता।

शब्द नय—दे नय/III/६।

शब्दपुनरुक्त निग्रह स्थान—दे, पृ. १३३।

शब्द प्रमाण—दे, आगम।

शब्द ब्रह्म—दे, मत।

शब्द लिगज ज्ञान—दे, श्रुतशास्त्र/III।

शब्दवान्—हैमवत तीर्थके बहुमध्य भागम्य वृत्के आरार वैतादय परित—दे लो/६/७।

शब्द समय—दे ममय।

शब्दाकुलित आलोचना—दे, ज नोचना।

शब्दाद्वैत—दे अद्वैतराद।

शब्दानुपात—म सि/७/३६/६३६/१० अकारान्तापुत्र्यान्तर-भ्युत्कारिसवादिनरण शब्दानुपात। —जो पुरुष किसी उपागमें जुटे हैं उन्हें उद्देश्य कर धारिना आदि शब्दानुपात है। (देशवर्तके अतिचारके प्रकरणमें), (रा वा/७/३१/३/४४६/६)।

शब्दानुशासन—दे शब्दकोश।

शब्दावतार—दे शब्दकोश।

शम—प्र. सा/ता, वृ/७/६/१० स एत धर्म। स्वात्मभावनोत्पत्त्या-मृतश्रीतलजलेन कामक्रोधादिरूपाग्निजनितस्य तन्पारुत्वशर-स्योपशमवत्त्वात् शम इति। —वह धर्म ही शम है, क्योंकि स्वत्म-भावनासे उत्पन्न सुखामृत शीतल जलके द्वारा कामक्रोधादिसे उत्पन्न तस्यार दुःखकी दाहकी विनाश करनेवाला है।

शयनासन शुद्धि—दे शुद्धि।

शब्दा परिषद्—म सि/६/६/४२३/१९ स्वाध्यायध्यानाध्वनम-परितोदितस्य मोदृष्टीकी खरविषमप्रचुरशर्करापालसद्रुटातिक्रोतो-प्येपु भूमिप्रदेशेषु निद्रामनुभवतो यथाकृतैकपारवदृष्टातितादि-शायिनप्राणिवाधापरिहारय पतितदासवद् व्यपगतासुवत्परिवर्त-मानस्य ज्ञानभावनावहितचेतसोऽनुच्छिन्नव्यन्तरादिविधिपुनर्ग-द्व्यचलितविग्रहस्यानियमितकालां तरुतताधां भ्रममाणस्य शब्दा-परिषद्क्षमा कथ्यते। —जो स्वाध्याय ध्यान और अध्व क्रमके कारण धक्कर कठोर, विषम तथा प्रचुर मात्रामें ककड और त्वत्परिके डुकड़ोंसे व्याप्त ऐसे अतिशीत तथा अत्युष्ण भूमि प्रदेशोंमें एक सुदृष्ट प्रमाण निद्राका अनुभव करता है, जो यथाकृत एक पारव भागसे या दृष्टायित आदि रूपसे शयन करता है, करवट लेनेसे प्राणियों-की होनेवाली बाधाका निवारण करनेके लिए जो गिरे हुए लकड़की

कुन्दके समान या मुदके समान करवट नहीं बदलता, जिसका चित्त ज्ञान भावनामे लगा हुआ है, व्यन्तरादिकके द्वारा किये गये नाना प्रकारके उपसर्गसे भी जिसका शरीर चलायमान नहीं होता और जो अनियतकालिक तत्कृत बाधाको सहन करता है उसके शय्या परिपहण्य कही जाती है। (रा. वा./६/६/६१०/१८), (चा सा/११६/३)।

शरण—रा वा/६/७/६००/१६ शरण द्विविध-लौकिक लोकोत्तरं चेति । तत्प्रत्येक त्रिधा—जीवाजीवमिश्रकभेदात् । तत्र राजा देवता वा लौकिक जीवशरणम्, प्राकारादि अजीवशरणम् । ग्राम-नगरादि मिश्रकम् । पञ्च गुरवो लोकोत्तरजीवशरणम्, तत्प्रति-विम्बाद्यजीवशरणम्, सधर्मोपकरणसाधुवर्णो मिश्रकशरणम् । = शरण दो प्रकारका है—एक लौकिक दूसरा लोकोत्तर । तथा वे दोनों ही जीव, अजीव और मिश्रकके भेदसे तीन-तीन प्रकारके हैं । राजा देवता आदि लौकिक जीवशरण हैं । कोट, शहर, पनाह आदि लौकिक अजीव शरण हैं और कोट खाई सहित गाँव नगर आदि लौकिक मिश्र शरण हैं । पाँचों परमेष्ठी लोकोत्तर जीव शरण हैं । इन अरहत आदिके प्रतिबिम्ब आदि लोकोत्तर अजीव शरण हैं । धर्म सहित साधुओंका समुदाय तथा उनके उपकरण आदि लोकोत्तर मिश्र शरण हैं । (चा सा./१७८/४)

शरावती—वर्तमान श्रावस्ती जो अयोध्याके पास है । (म प्र/प ६० पं पञ्चालाल)

शरीर—जीवके शरीर पाँच प्रकारके माने गये हैं—औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस व कार्माण ये पाँचों उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं । मनुष्य तिर्यचका शरीर औदारिक होनेके कारण स्थूल व दृष्टिगत है । देव नारकियोंका वैक्रियिक शरीर होता है । तैजस व कार्माण शरीर सभी संसारी जीवोंके होते हैं । आहारक शरीर किन्हीं तपस्वी जनों के ही सम्भव है । शरीर यद्यपि जीवके लिए अपकारी है पर सुमुक्त जन इसे मोक्षमार्गमें लगाकर उपकारी बना लेते हैं ।

१ शरीर व शरीर नामकर्म निर्देश

- १ शरीर सामान्यका लक्षण ।
- * शरीरोंकी उत्पत्ति कर्माधीन है । —दे, कर्म ।
- २ शरीर नामकर्मका लक्षण ।
- ३ शरीर व शरीर नामकर्मके भेद
- * औदारिकादि शरीर —दे वह वह नाम ।
- * प्रत्येक व साधारण शरीर । —दे वनस्पति ।
- * शायक व च्युत, च्यावित तथा त्यक्त शरीर । —दे निक्षेप/६ ।
- * शरीर नामकर्मको बन्ध उदय व सत्त्व प्ररूपणाएँ तथा तत्सम्बन्धी शक्ता समाधान । —दे वह वह नाम ।
- * जीवका शरीरके साथ बन्ध विषयक । —दे बन्ध ।
- * जीव व शरीरकी कथंचित् पृथक्ता । —दे कारक/२
- * जीवका शरीर प्रमाण अवस्थान । —दे जीव/३
- ४ शरीरोंमें प्रदेशोंकी उत्तरोत्तर तरतमता ।
- ५ शरीरोंमें परस्पर उत्तरोत्तर सक्षमता तथा तत्सम्बन्धी शक्ता समाधान ।

- ६ शरीरों के लक्षण सम्बन्धी शक्ता समाधान ।
- * शरीरों की अवगाहना व स्थिति ।—दे वह वह नाम ।
- * शरीरोंका वर्ण व द्रव्य लेश्या —दे लेश्या/३ ।
- * शरीरकी धातु उपधातु । —दे औदारिक ।
- ७ शरीरमें करण (कारण) पना कैसे सम्भव है ।
- * जीवको शरीर काहनेकी विवक्षा । —दे जीव/१/३ ।
- * द्विचरम शरीर । —दे चरम ।

२ शरीरका स्वामित्व

- १ एक जीवके एक कालमें शरीरोंका स्वामित्व ।
- २ शरीरोंके स्वामित्वकी आदेश प्ररूपणा ।
- * तीर्थकरों व शलाका पुरुषोंके शरीरकी विशेषता । —दे वह वह नाम ।
- * मुक्त जीवोंके चरम शरीर सम्बन्धी । —दे मोक्ष/५ ।
- * साधुओंके मृत शरीरकी क्षेपण विधि । —दे, सखलेखना/६/१ ।
- * महामत्स्यका विशाल शरीर । —दे समूच्छन ।
- * शरीरोंकी सवातन परिशातन कृति । (ध ६/३६५-२६१)
- * पाँचों शरीरोंके स्वामियों सम्बन्धी सत्त्व, सरया, क्षेत्र, रपशंन, काल, अन्नर, भाव, अल्प बहुत्व प्ररूपणाएँ । —दे वह वह नाम ।
- * शरीरके अगोपागका नाम निवेश । —दे अगोपाग ।
- ३ शरीरका कथंचित् इष्टानिष्टपना
- * शरीरकी कथंचित् इष्टता अनिष्टता । —दे आहार/II/६/२ ।
- १ शरीर दुखका कारण है ।
- २ शरीर वास्तवमें अपकारी है ।
- ३ धर्मार्थोंके लिए शरीर उपकारी है ।
- ४ शरीर ग्रहणका प्रयोजन ।
- ५ शरीर बन्ध बतानेका प्रयोजन ।
- * योनि स्थानमें शरीरोत्पत्तिक्रम । —दे जन्म/१ ।
- * शरीरका शुचिपना । —दे अनुपेक्षा/२/८ ।

१ शरीर व शरीर नामकर्म निर्देश

१. शरीर सामान्यका लक्षण

स. सि/६/३६/१११/४ विशिष्टनामकर्मोदयापादितवृत्तीनि शीर्गन्त इति शरीराणि । = जो विशेष नामकर्मके उदयसे प्राप्त होकर शीर्गन्ते अर्थात् गलते हैं वे शरीर हैं ।

ध. १४/६.६.६१२/४३४/१३ शरीर महावो सोनमिदि एयट्टो । अणंताण-तपोगल्लसमवाओ सरीर । = शरीर, शील और स्वभाव ये एवार्थ-वाची शब्द हैं । अनन्तानन्त पुद्गलोंके ममवायका नाम शरीर है ।

ध स/टी/३६/१०७/३ शरीर कोऽर्थ स्वरूपम् । = शरीर शब्दका अर्थ स्वरूप है ।

२. शरीर नामकर्मका लक्षण

स.सि./=११/३८६/६ यद्युदयादात्मन' शरीरनिर्घृ' सिद्धतच्छरीरनाम ।
 = जिसके उदयसे आरम्भके शरीरकी रचना होती है वह शरीर नाम-
 कर्म है । (रा वा./=११/३/७७६/१४) (गो क/जी प्र/३३/२८/०) ।
 घ. ६/१०.६-१२/२/६ जलम कम्मरस उदयण आहारगुणगणार पोगल-
 लंघा तेजा-कम्मह्ययगणपोगललंघा च गरीरजोगपरिणामेहि
 परिणदा सता जीवेण सवज्जति तस्स कम्मवत्तधत्स शरीरमिदि
 सण्णा । = जिम कर्मके उदयसे आहार वर्णणाके पुद्गल रक्थ तथा
 तेजस और कार्मण वर्णणाके पुद्गल रक्थ शरीर योग्य परिणामोंके
 द्वारा परिणत होते हुए जीवके साथ सम्बद्ध होते हैं उम तमें रक्थ-
 की 'शरीर' यह सज्ञा है । (घ. १३/४.६.१०१/३६३/१२)

३. शरीर व शरीर नामकर्मके भेद

प खं. ६/१.६-१/यू. ३१/६८ जं त सरीरणामरम्म त पचविह
 ओरात्तियसरीरणाम वेठविज्यसरीरणाम आहारसरीरणाम तेया-
 सरीरणाम कम्मह्यसरीरणाम चेदि । ३१ । = जा शरीर नामकर्म है
 वह पाँच प्रकार है—औदारिक शरीरनामकर्म, वैक्रियिक शरीर
 नामकर्म, आहारकशरीर नामकर्म, तेजस शरीरनामकर्म और
 कार्मण शरीर नामकर्म । २:१ । (प. खं १३/६.६.१०४/३६७)
 (प ख. १४/६.६/यू ४४/१६) (प्र सा/यू/१७९) (त. सू/१२/३६)
 (स सि/८/११/३८६/६) (प ग/२/४/४७/६) (रा वा/६/२४/
 ६/४८८/२) (रा वा/८/११/३/७७६/१४) (गो. १/जी प्र/३३/
 २८/२०)

४. शरीरोंमें प्रदेशोंकी उत्तरोत्तर तरलमता

त सू/२/३८-३६ प्रदेशोऽसत्त्व्येयगुण प्राकतेजनाम् । ३८ । अनन्त-
 गुणे परे । ३६ ।
 स सि./२/३८-३६/१६२-१६३/८.३ औदारिकादसत्त्व्येयगुणप्रदेशा वैक्रि-
 यिकम् । वैक्रियिकादसत्त्व्येयगुणप्रदेशमाहारकमिति । को गुणकार ।
 पशोपमासत्त्व्येय भाग । (१६२/८) आहारकातेजस प्रदेशतोऽनन्त-
 गुणम्, तेजसाकार्मणं प्रदेशतोऽनन्तगुणमिति । को गुणकार ।
 अभव्यानामनन्तागुण सिद्धानामनन्तभाग । = तेजससे पूर्व तीन
 तीन शरीरोंमें आगे-आगेका शरीर प्रदेशोंकी अपेक्षा अनन्त्यागुणा
 है । ३८ । परवर्ती दो शरीर प्रदेशोंकी अपेक्षा उत्तरोत्तर अनन्तगुणे
 है । ३६ । अर्थात् औदारिकसे वैक्रियिक शरीर असत्त्व्यातगुणे प्रदेश-
 वाला है, और वैक्रियिकसे आहारक शरीर असत्त्व्यातगुणे प्रदेश-
 वाला है । गुणकारका प्रमाण पशुका असत्त्व्यातवर्ती भाग है (१६२/८)
 परन्तु आहारक शरीरसे तेजस शरीरके प्रदेश अनन्तगुणे है, और
 तेजस शरीरसे कार्मण शरीरके प्रदेश अनन्तगुणे अधिक है । अभव्यों
 से अनन्तगुणा और सिद्धोंका अनन्तवर्ती भाग गुणकार है । (रा. वा/
 २/३८-३६/४.१/१४८/४.१६) (घ ६/४.१.२/३७/१) (गो. जी/जी
 प्र/२४६/७१०/१०) और भी वे अपषपट्टव)

**५. शरीरोंमें परस्पर उत्तरोत्तर सूक्ष्मता व तत्सम्बन्धी
 शंका समाधान**

त सू/२/३७.४० परं परं सूक्ष्मम् । ३७ । अपतिघाते । ४० ।
 स सि २/३७/१६२ औदारिक स्थूलम्, तत सूक्ष्म वैक्रियिकम् तत
 सूक्ष्म आहारकम्, तत सूक्ष्म तेजसम्, तजसाकार्मणं सूक्ष्ममिति ।
 = आगे-आगेका शरीर सूक्ष्म है । ३७ । कार्मण व तेजस शरीर प्रतीघात
 रहित है । ४० । अर्थात् औदारिक शरीर स्थूल है, इससे वैक्रियिक
 शरीर सूक्ष्म है । इससे आहारक शरीर सूक्ष्म है, इससे तेजस शरीर
 सूक्ष्म है और इससे कार्मण शरीर सूक्ष्म है ।

गो जी/जी, प्र./२४६/७१०/१६ मधुवेवं तर्हि वैक्रियिकादिशरीरानां
 उत्तरोत्तरं प्रदेशाभिव्येन स्थूलत्वं प्रसज्यते इत्याद्यदृश्य पर परं सूक्ष्म
 भवतीत्युक्त । यद्यपि वैक्रियिकाद्व्युत्तरोत्तरशरीरानां मधुपरमापृ-
 न्तचमत्वं तथापि तन्वपिण्डितितरणेण गुह्यमगुह्यावगाहनमभय
 तार्पमपिण्डाम पिण्डयत विगच्छते त्वनित्यति निरचेतज्जं । = प्रश्न—
 यदि औदारिकादि शरीरोंमें उत्तरोत्तर प्रदेश अधिक है ता उत्तरोत्तर
 अधिकाधिक स्थूलता ही जायेगी । उत्तर—ऐसी आशयका व्युत्त है,
 क्योंकि वे सब उत्तरात्तर सूक्ष्म हैं । यद्यपि वैक्रियिक आदि शरीरों-
 में परमाणुओंका मगच ता अधिक-प्रथिक है तथापि तन्व मध्यम
 विशेष है । जैसे—तामके पिण्डमें नारिके पिण्डमें प्रदेशपना अधिक
 होनेपर भी क्षेत्र थोड़ा गेकता है तैसे जानता ।

६. शरीरके लक्षण सम्बन्धी शंका समाधान

रा वा । २/३६/२-३/१४४/७४ यदि शीर्यन्त इति शरीरगणि घटादीनामपि
 विशरणमतीति शरीररमतिप्रमज्येत, तत्र, कि कारणम् । नामकर्म-
 निमित्ताभावात् । २ । विग्रहाभावा इति चेत्, १, ऋद्धिवाधैव्यमि
 व्युत्पत्तो क्रियाप्रमात् । ३ । = प्रश्न—यदि जो शीर्यं होवे शरीर है,
 ता घटादि पदार्थ भी विशरणकोल है, उनको भी शरीरपना प्राप्त
 हो जायेगा । उत्तर—नहीं, क्योंकि उनमें नामकर्मदिम निमित्त नहीं
 है । प्रश्न—इस लक्षणमें तो विग्रहगतमें शरीरके अभावका प्रमं
 जाता है । उत्तर—ऋद्धिमें वहीपर भी कहा जाता है ।

७. शरीरमें करण (कारण) पना कैसे सम्भव है

घ ६/४.१ ६८/३२६/१ करणेसु जं पत्रमं करणं पंचसरीरव्ययं त मूलकरण ।
 कथं शरीरस्म सूक्ष्मं । ७, तेमकरणानेदम्हादो पञ्चाऽप शरीरस्स
 मूलत पडिबिरोहाभावाद । जीवादो नत्तारादो अभिन्नासणि कत्ता-
 रत्तमुपगमस्य कथं करणत्त । ७ जीवादो सरीरस्म कथं भेदुवत्त-
 भादो । अथेदे वा चैयणत्त-गिच्चत्तादिजीवगुणा सरीरे नि हांति ।
 ७ च एव, तहाणुवत्तभादो । तदो मरीरस्म करणत्तं ७ निरुक्कदे ।
 मेमकारयभावे शरीरस्म संते सरीर करणमेवेत्ति किमिदि उच्चदे ।
 ७ एम दोसो, सुत्तं तरणमेवे त्ति अमहागणभावादो । = करणोंमें जो
 पाँच शरीररूप प्रथम करण है वह मूल करण है । प्रश्न—शरीरके
 मूलपना कैसे सम्भव है । उत्तर—चूँकि शेष वर्णोंकी प्रवृत्ति इस
 शरीरसे होती है अत शरीरको मूल करण माननेमें कोई विरोध नहीं
 आता । प्रश्न—वर्ता रूप जीवसे शरीर अभिन्न है, अत वर्तापनेको
 प्राप्त हुए शरीरके करणपना कैसे सम्भव है । उत्तर—यह तहा ही ठीक
 नहीं है । जीवसे शरीरका कथचित् भेद पाया जाता है । यदि जीवसे
 शरीरको सर्पथा अभिन्न स्वीकार किया जावे तो चेतनता और
 निरव्यव आदि जीवके गुण शरीरमें भी होने चाहिए । परन्तु ऐसा है
 नहीं, क्योंकि शरीरमें इन गुणोंकी उपलब्धि नहीं होती । इस कारण
 शरीरके करणपना विरद्ध नहीं है । प्रश्न—शरीरमें शेष कारक भी
 सम्भव है । ऐसी अवस्थामें शरीर करण ही है, ऐसा क्यों कहा जाता
 है । उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, सूत्रमें 'शरीर करण ही है'
 ऐसा नियत नहीं किया गया है ।

८. देह प्रमाणस्व शक्तिका लक्षण

प का/त प्र/२८ अतीतानन्तरशरीरमाणवगाहपरिणामरूप देह-
 मात्रत्वं । = अतीत अनन्तर (अन्तिम) शरीरानुसार अवगाह परि-
 णामरूप देहप्रमाणपना होता है ।

२ शरीरोंका स्वामित्व

१. एक जीवके एक कालमें शरीरोंका स्वामित्व
 त सू/२/४३ तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्भ्य । ४३ ।

स. सि./२/४३/१६५/३ युगपदेकस्यात्मनः । कस्यचिद् द्वे तैजसकार्मणे । अपरस्य त्रीणि औदारिकतैजसकार्मणानि वै क्रियिकतैजसकार्मणानि वा । अन्यस्य चत्वारि औदारिकाहारतैजसकार्मणानि विभाग क्रियते । = एक साथ एक जीवके तैजस और कार्मणसे लेकर चार शरीर तक विकल्पसे होते हैं । ४३१ । किसीके तैजस और कार्मण ये दो शरीर होते हैं । अन्यके औदारिक तैजस और कार्मण, या वै क्रियिक तैजस और कार्मण ये तीन शरीर होते हैं । किसी दूसरेके औदारिक तैजस और कार्मण तथा आहारक ये चार शरीर होते हैं । इस प्रकार यह विभाग यहाँ किया गया । (रा वा २/४३/३/१६०/१६)

दे ऋद्धि./१० आहारक वै क्रियिक ऋद्धिके एक साथ होनेका विरोध है ।

२. शरीरोंके स्वामित्वकी आदेश प्ररूपणा

सकेत-अप = अपर्याप्त, आहा = आहारक, औद = औदारिक, छेदो = छेदोपस्थापना, प = पर्याप्त, दा. = दादर, वैक्रि = वै क्रियिक, सा = सामान्य, सू = सूक्ष्म ।

प. ख १४/६.६/सू १३२-१६६/२३८-२४८)

प्रमाण	मार्गणा	सयोगी विकल्प	औदारिक	वै क्रियिक	आहारक	तैजस	कार्मण
१ गति मार्गणा—							
१३२-	नरक सा. विशेष	२,३	×	"	×	"	"
१३३							
१३४	तिर्यंच सा पचे प	२,३,४	"	"	×	"	"
	तिर्यंचनी प						
१३५	तिर्यंच पचे अप	२,३	"	×	×	"	"
१३६	मनुष्य सा प.	२,३,४	"	"	"	"	"
	मनुष्यणी अप						
१३७	मनुष्य अप	२,३	"	×	×	"	"
१३८-	देव सा. विशेष	२,३	×	"	×	"	"
१३९							
२. इन्द्रिय मार्गणा—							
१४०	ऐकेन्द्रिय सा, व वा प	२,३,४	"	"	×	"	"
"	पंचेन्द्र सा प.	२,३,४	"	"	×	"	"
१४१	एकेन्द्र, ना अप	२,३	"	×	×	"	"
	एकेन्द्र, सू प. अप.						
"	विकलेन्द्र प. अप	२,३	"	×	×	"	"
	पंचेन्द्र अप						
३. काय मार्गणा—							
१४३	तेज वायु सा	२,३,४	"	"	×	"	"
	" " वा. प						
"	त्रस सा प	"	"	"	"	"	"
१४२	शेष सर्व प अप	२,३	"	×	×	"	"
४. योग मार्गणा—							
१४४	पाँचों मन वचन योग	३,४	"	"	"	"	"
१४५	काय सामान्य	२,३,४	"	"	"	"	"
१४४	औदारिक	३,४	"	"	"	"	"
१४६	औदारिक मिश्र	३	"	×	×	"	"
"	वै क्रि, वै क्रि मिश्र	३	×	"	×	"	"
१४७	आहा आहा मिश्र	४	"	×	"	"	"
१४८	कार्मण	२,३	"	×	×	"	"

प्रमाण	मार्गणा	सयोगी विकल्प	औदारिक	वै क्रियिक	आहारक	तैजस	कार्मण
५. वेद मार्गणा—							
१४६	पुरुष वेद	२,३,४	"	"	"	"	"
"	स्त्री, नपुसक	२,३,४	"	"	×	"	"
१४९	अपगत वेदी	३	"	×	×	"	"
६. कषाय मार्गणा—							
१५०	चारों कषाय	२,३,४	"	"	"	"	"
१५१	अकषाय	३	"	×	×	"	"
७ ज्ञान मार्गणा—							
१५२	मतिश्रुत अज्ञान	२,३,४	"	"	×	"	"
१५३	विभग ज्ञान	३,४	×	"	×	"	"
१५४	मति, श्रुत, अवधिज्ञान	२,३,४	"	"	"	"	"
१५३	मन पर्याय	३,४	"	"	×	"	"
१५४	केवलज्ञान	३	"	×	×	"	"
८ समय मार्गणा—							
१५६	{ संयत सा सामायिक छेदो, परिहार, सूक्ष्म	३,४	"	"	"	"	"
१५७	यथाख्यात	३	"	×	×	"	"
१५६	संयतासयत	३,४	"	"	×	"	"
१५८	असयत	२,३,४	"	"	×	"	"
९. दर्शन मार्गणा—							
१५९	चक्षु अवक्षु दर्शन	२,३,४	"	"	"	"	"
"	अवधि	"	"	"	"	"	"
१६०	केवलदर्शन	३	"	×	×	"	"
१०. लेख्या मार्गणा							
१६१	कृष्ण, नील, कापोत	२,३,४	"	"	×	"	"
"	पीत, पद्म, शुक्ल	"	"	"	"	"	"
११. भव्यत्व मार्गणा—							
१६२	भव्य	२,३,४	"	"	"	"	"
"	अभव्य	"	"	"	×	"	"
१२. सम्यक्त्व मार्गणा—							
१६३	सम्यग्दृष्टि सा	२,३,४	"	"	"	"	"
"	हायिक, उपशम, वेदक						
"	सासादन	"	"	"	×	"	"
१६४	मिश्र	३,४	"	"	×	"	"
१६३	मिथ्यादृष्टि	२,३,४	"	"	×	"	"
१३. सद्गी मार्गणा—							
१६४	सद्गी	२,३,४	"	"	"	"	"
"	असद्गी					×	"
१४. आहारक मार्गणा—							
१६६	आहारक	३,४	"	"	"	"	"
"	अनाहारक	२,३	"	×	×	"	"

३. शरीरका कथंचित् इष्टानिष्टपना

३. शरीर दुःखका कारण है

स. श/सू/१५ मूल ममारदुःखस्य देह पवारमधीस्तत । त्यक्त्वेनां प्रविशेदन्तर्बहिरव्यापृतेन्द्रिय १५। = इस शरीरमें आत्ममुद्रिका

शरीर

होना संसारके दु गोंका मूल कारण है। इसनिष्ठ शरीरमें आत्मरूपको छोटकर नाश इन्द्रिय विषयसे प्रवृत्तिको रोगता हुआ आत्मा अन्तरगमें प्रवेश करे ॥१५॥

आ अत्रु/१६४ आदी तनोर्जातमत्र हस्तिन्द्रियाणि काट्यन्ति तानि विषयात् विषयारच मानहानिप्रयागभयपापव्यानिदा स्यु मूल सप्तसत्-नुरनर्थपरपराणाम् ॥१६५॥ —प्रारम्भमें शरीर उत्पन्न होता है, इसको बुद्ध इन्द्रियाँ होती हैं, वे अपने अपने विषयोंको चाहती हैं। और वे विषय मानहानि, परिश्रम, भय, पाप एवं दुर्गतिको देनेवाले हैं। इस प्रकारमे समस्त अनर्थोंकी मूल परम्पराका कारण शरीर है ॥१६४॥

आ २/६/१०-११ शरीरमेतदादाय स्वया हृत्वं विमहाते। जन्मस्यमिस्तर-तस्तद्धि नि शोपानर्थमन्दिरम् ॥१०॥ भवोद्भवानि दुस्तानि याति यानीह देहिभि। सन्नते तानि तान्युच्चैर्वयुदादाप येनयम् ॥११॥ —आत्मनः। तूने हम समासमें शरीरको ग्रहण करने हुआ पाये या गो है इसीसे तू निश्चय जान कि यह शरीर ही समस्त अनर्थोंका धर है, इसके समगसे सुखका स्रोत भी नहीं मान ॥१०॥ इस जगत्में समाससे उत्पन्न जो-जो दुःख जीवोंको गहने पड़ते हैं वे सब इस शरीरके ग्रहणसे ही सहने पड़ते हैं इस शरीरमे निवृत्त होनेपर तोई भी दुःख नहीं है ॥११॥

२. शरीर वास्तवमें अपकारी है

इ उ/१६ यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारक। तद् देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारक ॥१६॥ —जो अनशनादि तप जीवका उपकारक है वह शरीरका अपकारक है, और जो धन, वस्त्र, भोजनादि शरीरका उपकारक है वह जीवका अपकारक है ॥१६॥

अन ध/४/१४१ योगया तत्रमनुपालयतोऽपि मृत्प्या, पत्न्यस्यो मनरन्-हस्ये तव सोऽपि अन्तरया। भिक्षोऽप्यथाऽ सुखजीवितर-प्रताभ त्, तुष्या मरिद्विधुर्गम्यस्यति सत्तोऽद्रियम् ॥१४१॥ —योग रत्नप्रसारक धर्मकी सिद्धिके लिए समयमे पालनमें विरोध न आवे इस तरहमे रक्षा करते हुए भी शक्ति और युक्तिके साथ शरीरमें लगे समरवको दूर करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार साधारण भी नहीं जरासे भी छिद्रको पाकर दुर्भेद्य भी पर्वतमें प्रवेशकर जर्जरित कर देती है उसी प्रकार सुच्छ तुष्या भी समीचीन तप रूप पर्वतको छिन्न-भिन्नकर जर्जरित कर टालेगी ॥१४१॥

२. धर्मार्थोंके लिए शरीर उपकारी है

आ २/६/६ तंरेव फनमेतस्य गृहीत पुण्यकर्मभि। विरज्य जन्मन स्वार्थे वै शरीर कदथितम् ॥६॥ —इस शरीरके प्राप्त होनेका फल उन्होंने लिया है, जिन्होंने समाससे विरक्त होकर, इसे अपने कल्याण मार्गमें पुण्यकर्मसे क्षीण किया ॥६॥

अन ध/४/१४० शरीरं धर्मसंयुक्त रक्षितव्य प्रयत्नत। इत्याप्तवाच-स्त्वग्देहस्याज्य एवेति तण्डुल ॥१४०॥ —'धर्मके साधन शरीरकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए', इस शिक्षाको प्रवचनका रूप समझना चाहिए। 'आत्मसिद्धिके लिए शरीररक्षाका प्रयत्न सर्वथा निरूपयोगी है।' इस शिक्षाको प्रवचनका तण्डुल समझना चाहिए।

अन ध./७/६ शरीरमाद्य विल धर्मसाधन, तदस्य यस्त्वेव स्थितमेऽश-नादिना। तथा यथाशाणि वधे स्युरपरथ, न वातुधावन्यनुबद्धतुष्ट-वशात् ॥६॥ —रत्नरूप धर्मका साधन शरीर है अतः शयन, भोजनपान आदिके द्वारा इसके स्थिर रखनेका प्रयत्न करना चाहिए। किन्तु हम धातको सदा लक्ष्यमें रखना चाहिए कि भोजनादिकमें प्रवृत्ति ऐसी और उतनी ही जिससे इन्द्रियाँ अपने अधीन रहें। ऐसा न हो कि अनादिकालकी वासनाके बशवर्ती होकर उन्मार्गकी तरफ दौड़ने लगें ॥६॥

३. शरीर ग्रहणका प्रयोजन

आ अत्रु/१० प्रथमं तत्ररेरेभिगम्, तामादिभिर्दि। दास्यं पद-मायाति मुधायासत्तर्दि दे ॥१०॥ —इन्द्रिय तदि उत्तरा म्द होने-वाले इन आयु और शरीरानिधि द्वारा मर्मे उन्मिस्तर ५४ म्द होता है तो वृ उमे उ गमया हो जाय ४ म्द/१०।

४. शरीर बन्ध यतानेवा प्रयोजन

प या/ता ५/३५/३३/१० प्रथम एव दहादि मोऽनन्तहायादिभु-दहायमा भन्ति म प्य दुःखादुःख बन्धयिस्त्वप्यदिभु, त्वां ह्यं प्र-प्रेलोवादे ॥ अमरीगमिभिर, । —यहाँ जो म्द देहके भिन्न प्रकृत्य हायानि गुणभि म्दगण दुःखायमा बहा गता है, ५४ उन्मा ही दुःख क प्रपु म्द गण विरक्तमे परिहाय मम ४ देवकारके, उन्मादेम हा-या है ऐसा अभिप्राय है।

अ. म/दो १०/०३/३ इत्थम हास्यं, य—देहस्यार विमो र देह दुर्हिया गमाये परि म्दगि रोन काटने दहादिममम रत्नमः निर्मोहनिष्-सुटारमनि गावता बर्धयेति। —हास्यं इह है—जीव देहके साथ समरवके निमित्तमे देहका प्रपु ४ म्दगममें भयम करमा है, इमिष्प देह आदिमे ममपको हास्य निर्मोह अने दुःख भाँगे भावम रत्नो चाहिये।

शरीर पर्याप्ति—२. पर्वति।

शरीर पर्याप्ति काल—२ वान/१।

शरीर मव—२ म्द।

शरीर मिश्र काल—२ वान/१।

शर्कराप्रभा—१, म गि/३/१/२०/१८ इर्गममम हायिता गु-र्दागमया। एता मदा जीवावायेन वदुत्पापये। —जिन्को प्रभा शर्कराके समान है वह शर्कराप्रभा है। इस प्रकार नामके उ-त्तर वदुत्पाति वट सेनी चाहिए। (ति, प/२/२१), (रा म/३/१/३/१४/१५), (उ प/११/१२१)। २ शर्कराप्रभा पुष्पिनीका म-क-में अवस्थान। २ म्द/४, ३ शर्कराप्रभा पुष्पिनीका म्द/४। दे. मो/२।

शर्करावती—पतत रोत्र-प अर्गं वाहणी एव नदी-दे म्द/म/५।

शलाका—जो विवर्णित भाग करनेके उर्ग विरूप प्रमाण कबडग कीजिये तारा नाम यही शलाका जायता। विशेष—६ म्द/१/११/२

शलाका पुरुष—तेईं तर चक्रवर्ती आदि प्रसिद्ध पुरुषोंको शलाका पुरुष कहते हैं। प्रत्येक कबडगमें ६३ होते हैं। २४ तं धरं १२ चक्रवर्ती, ६ धनदेव, ६ नागनाथ, ६ प्रतिनारायण। ऊपरवा ६ नाथ, १२ रुद्र २४ कामदेव, व ५६ कुनर आदि मिताने १६६ अन्तवा पुरुष होते हैं।

१	शलाका पुरुष सामान्य निर्देश
१	६३ शलाका पुरुष नाम निर्देश।
२	१६९ शलाका पुरुष निर्देश।
*	शलाका पुरुषोंकी आयु बन्ध योग्य परिणाम। —दे. आ/३।
*	कीन पुरुष गरवार वही उत्पन्न हो और न्या गुण प्राप्त करे। —दे. अन्म/६।

३	शलाका पुरुषोंका मोक्ष प्राप्त सम्बन्धी नियम ।
४	शलाका पुरुषोंका परस्पर मिलाप नहीं होता ।
५	शलाका पुरुषोंके शरीरकी विशेषता ।
*	एक क्षेत्रमें एक ही तज्जातीय शलाका पुरुष होता है । —दे विदेह/में त्रि सा, ।
*	चरम शरीरी चौथे कालमें ही उत्पन्न होते हैं । —दे, जन्म/५ ।
*	अचरम शरीरी पुरुषोंका अकाल मरण भी सम्भव है । —दे मरण/४ ।
*	तीर्थकर । —दे तीर्थकर ।
*	गणधर चौथे कालमें ही उत्पन्न होते हैं । —दे, जन्म/५ ।
२	द्वादश चक्रवर्ती निर्देश
१	चक्रवर्तीका लक्षण ।
२	नाम व पूर्व भव परिचय ।
३	वर्तमान भवमें नगर व माता पिता ।
४	वर्तमान भव शरीर परिचय ।
५	कुमार कालादि परिचय ।
६	वैभव परिचय ।
७	चौदह रत्न परिचय सामान्य ।
८	चौदह रत्न परिचय विशेष ।
९	नवनिधि परिचय ।
१०	दश प्रकार भोग परिचय ।
११	चक्रवर्ती की विभूतियोंके नाम ।
१२	दिग्विजयका स्वरूप ।
१३	राजधानीका स्वरूप
१४	हुडावसर्पिणीमें चक्रवर्तीके उत्पत्ति कालमें कुछ अन्तर ।
*	चक्रवर्तीके शरीरादि सम्बन्धी नियम । —दे, शलाका पुरुष/१/४,५ ।
३	नव बलदेव निर्देश
१	पूर्व भव परिचय ।
२	वर्तमान भवके नगर व माता-पिता ।
३	वर्तमान भव परिचय ।
४	बलदेवका वैभव ।
५	बलदेवों सम्बन्धी नियम ।
४	नव नारायण निर्देश
१	पूर्व भव परिचय ।
२	वर्तमान भवके नगर व माता-पिता ।
३	वर्तमान शरीर परिचय ।
४	कुलकालादि परिचय ।
५	नारायणोंका वैभव
६	नारायणोंकी दिग्विजय ।
७	नारायण सम्बन्धी नियम ।

५	नव प्रतिनारायण निर्देश
१	नाम व पूर्वभव परिचय ।
२	वर्तमान भव परिचय ।
३	प्रतिनारायणों सम्बन्धी नियम ।
६	नव नारद निर्देश
१	वर्तमान नारदोंका परिचय ।
२	नारदों सम्बन्धी नियम ।
७	द्वादश रुद्र निर्देश
१	नाम व शरीरादि परिचय ।
२	कुमार कालादि परिचय ।
३	रुद्रों सम्बन्धी कुछ नियम ।
*	रुद्र चौथे कालमें ही उत्पन्न होते हैं । —दे जन्म/५ ।
८	चौबीस कामदेव निर्देश
१	चौबीस कामदेवोंका नाम निर्देश मात्र ।
*	कामदेव चौथे कालमें ही उत्पन्न होते हैं । —दे जन्म/५ ।
९	सोछह कुलकर निर्देश
१	वर्तमान कालिक कुलकर परिचय ।
२	कुलकरके अपरनाम व उनका सार्यक्य ।
३	पूर्वभव सम्बन्धी नियम ।
४	पूर्वभवमें सयम तप आदि सम्बन्धी नियम ।
५	उत्पत्ति व सख्या आदि सम्बन्धी नियम ।
१०	भावि शलाका पुरुष निर्देश
१	कुलकर, चक्रवर्ती व बलदेव निर्देश ।
२	नारायणादि परिचय ।

१. शलाका पुरुष सामान्य निर्देश

१. ३३ शलाका पुरुष नाम निर्देश

ति प/४/५१०-५११ एत्तो सलायपुरिसा तैसट्टी सयलभवणविखलादा । जायति भरहल्लेत्ते णरसीहाकेण १५१०। तित्थयरचक्रमलहरिपडिसत्तु णाम विस्सुदा कमसो । विउणियवारसवारस पयरथणिधिरधसखाए १५११। —अत्र यहाँसे आगे (अन्तिम कुलकरके पश्चात्) पुण्योदयसे भरतक्षेत्रमें मनुष्योंमें श्रेष्ठ और सम्पूर्ण लोकमें प्रसिद्ध तिरैसठ शलाका पुरुष उत्पन्न होने लगते हैं । १५१०। ये शलाका पुरुष तीर्थकर २४, चक्रवर्ती १२, बलभद्र ६, नारायण ६, प्रतिशत्रु ६, इन नामोंसे प्रसिद्ध हैं । इस प्रकार उनकी संख्या ६३ है । १५११। (त्रि सा /८०३), (ज प /२/१७६-१८४), (गो, जी /जी प्र /३६१-३६२/-७७३/३) । ति प, ४/१६१५, १६१६ हुडावसर्पिणी स । एक्का १६१५। दुस्सम-सुसमे काले अद्वावणा सलायपुरिसा य १६१६। —हुडावसर्पिणी कालमें ५८ ही शलाका पुरुष होते हैं ।

२. १६९ शलाका पुरुष निर्देश

ति प/४/१४७३ तित्थयरा तग्गुरओ चक्कीबलकेसिरुद्वारहा । अगज-कुलियरपुरिसा भविया सिउकति णियमेण १४७३। —२४ तीर्थकर,

उनके गुरु (२४ पिता, २४ माता), १२ चक्रवर्ती, ६ बलदेव, ६ नारायण, ११ रुद्र, ६ नारद, २४ कामदेव और १४ कुलकर ये सब भव्य होते हुए नियमसे सिद्ध होते हैं। ११४७३। (इनके अतिरिक्त ६ प्रतिनारायण ऊपर गिना दिये गये हैं। ये सब मिलकर १६६ दिव्य पुरुष कहे जाते हैं।)

३. शालाका पुरुषोंका मोक्ष प्राप्ति सम्बन्धी नियम

ति प ४/१४७३ तित्थयरा तग्गुओ चक्रोवलकेसिरुवणारहा। अगज-कुलियरपुरिसा भविया सिज्फक्ति गियमेण ११४७३। — तीर्थकर, उनके गुरु (पिता व माता), चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, रुद्र, नारद, कामदेव और कुलकर ये सब (प्रतिनारायणकी छोड़कर १६० दिव्य पुरुष) भव्य होते हुए नियमसे (उसी भवमें या अगले १, २ भवोंमें) सिद्ध होते हैं। ११४७३।

४. शालाका पुरुषोंका परस्पर मिलाप नहीं होता

ह पु, ४४/५६-६० नान्योन्यदर्शनं जातु चक्रिणां धर्मचक्रिणाम्। हलिनां वासुदेवानां त्रैलोक्ये प्रतिचक्रिणाम्। ५६। गतस्य चिह्नमात्रेण तत्र तस्य च दर्शनम्। शब्दस्फोटनिनादेशचर्य ध्वजनिरीक्षणै ५६०। — तीन लोकमें कभी चक्रवर्ती-चक्रवर्तियोंका, तीर्थकर-तीर्थकरोंका, बलभद्र-बलभद्रोंका, नारायण-नारायणोंका और प्रलिनारायण-प्रतिनारायणोंका परस्पर मिलाप नहीं होता। तुम (धातकी खण्डका कपिल नामक नारायण) जाओगे तो चिह्न मात्रसे ही उसका

(कृष्ण नारायणका) और तुम्हारा मिलाप होगा। एक दूसरेके शलका शब्द सुनना तथा रथोंकी ध्वजाओंका देखना इन्हीं चिह्नोंसे तुम्हारा उसका साक्षात्कार हो सकेगा। ५६-६०।

५. शालाका पुरुषोंके शरीरकी विशेषता

ति, प, ४/१३७१ आदिमसहृषण जुदा सव्वे तवणिज्जवणवरदेहा। सयलसुलवत्तण भरिया समचउरस्संगमठाणा। १३७१। — सभी वज्र-शुभ नाराच संहननसे सहित, सुवर्णके समान वर्णवाले, उत्तम शरीरके धारक, सम्पूर्ण सुलक्षणोंसे युक्त और समचतुरस्र रूप शरीर-संस्थानसे युक्त होते हैं। १३७१।

यो वा टी/३२/६८ पर उद्भूत—देवा वि य जेरइया हनहरचवफी य तह य तिरथयरा। सव्वे केसव रामा कामानिवकचिया होंति। — सर्व देव, नारकी, हलधर (बलदेव), चक्रवर्ती तीर्थपर, केशव (नारायण) राम और कामदेव मूँछ-दाढ़ीसे रहित होते हैं।

२. द्वादश चक्रवर्ती निर्देश

१. चक्रवर्तीका लक्षण

ति, प १/४८ छत्रवड भरहणादो वत्तीससहस्रसमउत्पद्मपहुदीओ। होदि हु सयल चणी तिरथयरो सयलभुवणवई ५८। — जो छत्र खण्डरूप भरतक्षेत्रका स्वामी हो और वत्तीस हजार सुवृट मद्र राजाओंका तेजस्वी अधिपति हो वह सत्त्व चक्री होता है। ५८। (ध १/१. १.१/गा ४३/५८) (त्रि सा ६८५)

२ नाम व पूर्वभव परिचय

म पु/सर्ग/श्लो.	नाम	पूर्व भव नं. २			पूर्वभव
	१ ति प ४/५६-५९ २ त्रि सा./५६ ३ प पु २०/१२४-१६३ ४ ह पु ६०/२८६-२८७ ५ म पु/पूर्वभव	१ प पु २०/१२४-१६३ २ म पु/पूर्वभव	नाम राजा	नगर	वीक्षागुरु
४८/६६-७८	भरत	पीठ	पुण्डरीकिणी	कुशासेन	{ सर्वार्थसिद्धि २ अच्युत विजय वि०
६९/६६-७८	सगर	{ विजय २ जयसेन	पृथिवीपुर	यशोधर	
६९/६९-९०१	मघवा	{ शशिप्रभ २ नरपति धर्मरुचि	पुण्डरीकिणी	विमल	{ ग्रैवेयक मारेन्द्र २ अच्युत
६२/९०१/९०६ ६३/३८४ ६४/९२-२२ ६५/९४-३० ६६/६६	सनत्कु० शान्ति* कुन्धु* अर* सुभीम	→ → →	महापुरी दे० तीर्थकर " "	सुप्रभ ← ← ←	
६६/७६-८०	पद्म	{ कनकाभ २ भूपाल	धान्यपुर	{ विचित्रगुप्त २ सम्भूत	{ जयन्त वि० २ महाशुक्र
६७/६४-६६	हरिषेण	{ चिन्त २ प्रजापाल महेन्द्रवत्त	{ वीतशोका २ श्रीपुर विजय	{ सुप्रभ २ शिवगुप्त नन्दन	{ ब्रह्मस्वर्ग २ अच्युत मारेन्द्र २ सनत्कुमार
६६/७८-८० ७२/२८७-२८८	{ जयसेन ४ जय ब्रह्मवत्त	{ अमितांग २ वसुन्धर सम्भूत	{ राजपुर २ श्रीपुर काशी	{ सुधर्ममित्र २ वररुचि स्वतन्त्रलिंग	{ ब्रह्मस्वर्ग २ महाशुक्र कमलगुप्तम मि०

* शान्ति कुन्धु और अर ये तीनों चक्रवर्ती भी थे और तीर्थकर भी।

§ प्रमाण न २,३,४ के अनुसार इनका नाम महापद्म था। यह राजा पद्म राजा बलि कृत उपसर्गसे रक्षा की थी।

३. वर्तमान भवमें नगर व माता पिता

क्र	म, पु/सर्ग शलाक	वर्तमान नगर		वर्तमान पिता		वर्तमान माता		तीर्थकर
		१. प पु/२०/१२४-१६३		१. प पु/२०/१२४-१६३		१ प. पु/२०/१२४-१६३		
		२. म, पु/पूर्ववत्		२ म पु/पूर्ववत्		२. म. पु/पूर्ववत्		
सामान्य	विशेष	सामान्य	विशेष	सामान्य	विशेष	विशेष		
१		अयोध्या	प पु	ऋषभ	प पु.	यशस्वती	मरुदेवी	दे. तीर्थकर
२	४८/६६-७८	"	×	विजय	समुद्रविजय	सुमगला	सुयाला	
३	६१/६९-१०१	भ्रावस्ती	अयोध्या	सुमित्र	अनतवीर्य	भद्रवती	भद्रा	
४	६१/१०४-१०६	हस्तिनापुर	"	विजय	दे० तीर्थकर	सहदेवी	←	
५	६३/३८४, ४१३	—	→	दे० तीर्थकर	"	←	←	
६	६४/१२-२२	—	→	"	"	←	←	
७	६५/१४-३०	—	→	"	"	←	←	
८	६६/५६, १५२	दशावती	अयोध्या	कीर्तिवीर्य	सहस्रबाहु	तारा	चित्रमती	
९	६६/७६-८०	हस्तिनापुर	वाराणसी	पन्नरथ	पन्ननाभ	मयूरी	परा	
१०	६७/६४-६६	काम्पिष्य	भोगपुर	पन्ननाभ	हरिकेतु	वप्रा	परा	
११	६६/७८-८०	"	कौशाम्बी	विजय	"	यशोवती	प्रभाकरी	
१२	७२/२८७-२८८	"	×	ब्रह्मरथ	ब्रह्मा	चूला	चूडादेवी	

४. वर्तमान भव शरीर परिचय

क्र.	म पु/सर्ग/शला. स	वर्ष	सस्थान	सहनन	शरीरोत्सेध			आयु		
					१ ति. प /४/१२६२-१२६३			१ ति प /४/१२६५-१२६६		
					२ त्रि सा /८१८-८१९			२ त्रि सा /८१९-८२०		
३ ह. पु /६०/३०६-३०६			३. ह पु /६०/४६४-४६६							
४ म पु/पूर्व शीर्षवत्			४ म पु/पूर्व शीर्षवत्							
सामान्य	प्रमाण	विशेष	सामान्य	प्रमाण	विशेष					
१	स्वर्ण	समचतुरस्र	वज्रऋषभ नाराच	धनु	५४ ला पू	४	७० ला पूर्व			
२	"	"	"	४५०	७२ " "					
३	"	"	"	४२ १/२	५ ला. वर्ष					
४	"	"	"	४२	३ " "					
५	—	—	→	दे० तीर्थकर	(शान्ति)					
६	—	—	→	"	(कुन्धु)					
७	—	—	→	"	(अरह)					
८	स्वर्ण	समचतुरस्र	वज्र ऋषभनाराच	२८	६०,००० वर्ष			३	६०००० वर्ष	
९	"	"	"	२२	३०,००० "			३	२६००० वर्ष	
१०	"	"	"	२०	१०,००० "			३	२६००० वर्ष	
११	"	"	"	१६	३,००० "			३	२६००० वर्ष	
१२	"	"	"	७	७०० वर्ष			३	२६००० वर्ष	

५. कुमारकाल आदि परिचय

प०=पूर्व, ल०=लाख, व०=वर्ष; स०=सहस्र ।

क्र	कुमार काल	मण्डलीक	दिग्विजय	राज्य काल		संयम काल	मर कर ऋहूँ गये	
	ति प/४/- १२६७-१२६६ ह पु/६०/- ४६४-४६६	ति प/४/- १३००-१३०२ ह पु/६०/- ४६४-४६६	ति, प/४/- १३६८-१३६६ ह. पु/६०/- ४६४-४६६	ति प./४/१४०१-१४०५ ह. पु./६०/४६४-४६६		ति प/४/- १४०७-१४०६ ह पु./६०/- ४६४-४६६	ति प./४/१४१० त्रि. सा /८२४ प. पु./२०/१२४-१६३ म. पु./दि. दीर्घ/२	सामान्य
१	७७ ल पू	१ स व.	६० स व	{ ६ ल पू { ६१ स. व { ७० ल. पू. { ३० स. व	{ ह पु. { ६ ल. पू { १ पू० { ६६७० स पू { +६६६६६ { पूर्वांग+८३ { ल व.	१ ल. पू*	मोक्ष	म पु.
२	५० स पू.६	५० स पू.६	३० " "					
३	२५ स व	२५ स व.	१० " "	३६० स. व, ६० स. व.	५० स व, १ ल. व.	सनस्कृमार वर्ष	मोक्ष	मोक्ष
४	५० स. व.	५० स व	१० " "					
५								
६	५ स व	५ स व §§	५०० व	४६५०० व.	६२५०० व.	७ वें नरक		
६	५०० व	५०० व	३०० "	१८७०० व		मोक्ष		
१०	३२५ "	३२५ "	१५० "	८८५० व.	२५१७५ व	"		ईसवर्षीसिद्धि जयन्त
११	३०० "	३०० "	१०० "	१६०० व		"		
११	३०० "	३०० "	१०० "	१६०० व		"		
१२	२८ "	५६ "	१६ व०	६०० व.		७ वें नरक		

* ह पु में भरतका संयम काल १ ला + (१ पूर्व—१ पूर्वांग) + ८३०६०३० वर्ष दिया है ।

§ ह पु व म पु में सगरका कुमार व मण्डलीक काल १८ लाख पूर्व दिया गया है ।

§§ ह पु की अपेक्षा सुभीम चक्रवर्तीको राज्यकाल प्राप्त ही नहीं हुआ ।

६. वैभव परिचय

१ (ति प/४/१३७२-१३६७), २ (त्रि सा /६८२), ३ (ह पु/११/१००-१६२), ४ (म. पु./३७/२३-३७,५६-८१, १८१-१८५), ५. (ज. प/७/४३-४४, ६५-६७) ।

क्र	नाम	गणना सामान्य	प्रमाण	गणना विशेष	क्र	नाम	गणना सामान्य	प्रमाण	गणना विशेष
१	रत्न	१४	(दे आगे)	{ ५ पुत्र पुत्री { सख्यात { सहस्र { ३ { भरतके ५०० { पुत्र थे { सगरके ६०,००० { पुत्र { पद्मके ८ पुत्री { थीं { १६०००	५	पुत्र पुत्री	सख्यात सहस्र	३	भरतके ५०० पुत्र थे
२	निधि	६	(" ")		४	सगरके ६०,००० पुत्र			
३	रानियाँ				४	पद्मके ८ पुत्री थीं			
४	आर्य खण्डकी राजकन्याएँ	३२,०००			५	रसीइये	३२,०००	३,४	१६०००
५	विद्याधर राजकन्याएँ	३२,०००		६	गणपद देव	३२,०००			
६	म्लेच्छ राजकन्याएँ	३०,०००		७	तनुरक्षक देव	३६०			
७	पटरानी	१		८	रसीइये	३६०			

क्र.	नाम	गणना सामान्य	प्रमाण	गणना विशेष	क्र.	नाम	गणना सामान्य	प्रमाण	गणना विशेष
६	यक्ष	३२			२७	नाट्यशाला	३२०००		
१०	यक्षोका बन्धु कुल	३५० ला.			२८	सगीतशाला	३२०००		
११	भेरी	१२			२९	पदाति	४८ करोड		
१२	पटह (नगाडे)	१२			३०	देश	३२०००		
१३	शख	२४			३१	ग्राम	६६ करोड		
१४	हल	१ को को,	ह पु	१ करोड	३२	नगर	७५०००	४	७२०००
			४	१ ल क				५	२६०००
१५	गौ	३ करोड			३३	खेट	१६०००		
१६	गौशाला		४	३ करोड	३४	खर्वट	२४०००	५	३४०००
१७	थालियाँ	१ करोड	४	१ करोड	३५	मटब	४०००		
१८	हंडे				३६	पट्टन	४८०००		
१९	गज	८४ ला			३७	द्रोणमुख	६६०००		
२०	रथ	"			३८	सवाहन	१४०००		
२१	अश्व	१८ क.			३९	अन्तर्द्वीप	४६		
२२	योद्धा	८४ क			४०	कुक्षि निवास	७००		
२३	विद्याधर	अनेक क			४१	दुर्गादिवन	२८०००		
२४	म्लेच्छ राजा	८८०००	४	१८०००	४२	पत्ताकाएँ		४	४८ करोड
२५	चित्रकार	६६०००	३	६६०००	४३	भोग	१० प्रकार		
२६	मुकुट बद्ध राजा	३२००			४४	पृथिवी	पट्ट खण्ड		

७. चौदह रत्न परिचय सामान्य

क्र.	निर्देश		सज्ञा		उत्पत्ति		दृष्टि भेद	विशेषता
	नाम	क्या है	सामान्य	विशेष	सामान्य	विशेष		
	१. ति. प / ४ / १३७६-१३८१ २. त्रि सा. / ८२३ ३. ह. पु. / ११ / १०८-१०९ ४. म पु / ३७ / ८३-८६		१. ति प / ४ / १३७७-१३८१ २. दे. आगे विभूतिके नाम		१. ति. प / ४ / १३७८-१३८० २. त्रि सा. / ८२३ ३. म. पु / ३७ / ८५-८६			
१	चक्र	आयुध	सुदर्शन	प्रमाण न० २	आयुधशाला	प्रमाण न० २	धि. प / ४ / १३८२ किन्ही आचार्योंके मतसे इनकी उत्पत्तिका नियम नहीं। यथायोग्य स्थानोंमें उत्पत्ति।	दे. पृथक् तालिका।
२	छत्र	छतरी	सूर्यप्रभ		"	"		
३	खड्ग	आयुध	भद्रमुख	सौनन्दक	"	"		
४	दण्ड	अस्त्र	प्रवृद्धवेग	चण्डवेग	"	"		
५	काक्किणी	अस्त्र	चिन्ता जननी		श्री गृह			
६	मणि	रत्न	चुड़ामणि		"			
७	चर्म	तन्बू			"			
८	सेनापति		आयोध्य		राजधानी	विजयार्ध		
९	गृहपति	भण्डारी	भद्रमुख	कामवृष्टि (ह. पु / ११ / १२३)	"	"		
१०	गज	हाथी	विजयगिरि		विजयार्ध	"		
११	अश्व		पवनजय		"	"		
१२	पुरोहित		बुद्धिसागर		राजधानी	"		
१३	स्थपति	तक्षक (भड़ई)	कामवृष्टि		"	"		
१४	युवती	पटरानी	सुभद्रा		विजयार्ध	"		

८. चौदह रत्न परिचय विशेष

९. नव निधि परिचय

क्र.	नाम	जीव अजीव	काहे से बने	विशेषताएँ
१	चक्र	अजीव	वज्र	शत्रु सहार
२	छत्र	"	"	१२ योजन लम्बा और इतना ही चौड़ा है। वर्षासे बटक की रक्षा करता है। १४/१४०-१४१।
३	खड्ग	"	"	शत्रु सहार
४	दण्ड	"	"	विजयार्थ गुफा द्वार उद्घाटन। ११/१३३०, २/४/१२४। गुफाके कांटों आदिका शोधन। २/१७०। वृषभाचलपर चक्रवर्तीका नाम लिखना। ११/१३६४।
५	काकिणी	"	"	विजयार्थकी गुफाओंका अन्धकार दूर करना। ११/१३३६, ३/१७३। वृषभाचलपर नाम लिखना। २।
६	मणि	"	वज्र	विजयार्थकी गुफामें उजाला करना।
७	चर्म	"	वज्र	म्लेच्छ राजा कृत जलके ऊपर तैरने अपने ऊपर सारे बटकको आश्रय देता है। (२, ३/१७१, ४/१४०)
८	सेनापति	जीव		
९	गृहपति	"		
१०	गज	"		हिसाब किताब आदि रखना। ३/१७६।
११	अश्व	"		
१२	पुरोहित	"		देवी उपद्रवोंकी शान्तिके अर्थ अनुष्ठान करना (३/१७६)
१३	स्थपति	"		नदीपर पुल बनाना (१/१३३४ ४/१३१)
१४	युवती	"		मकान आदि बनाना। ३/१७७। नोट—ह पु/११/१०६। इन रत्नोंमें से प्रत्येक की एक एक हजार देव रक्षा करते थे।

क्र.	१ निर्देश		२ उत्पत्ति		३ क्या प्रदान करती है		विशेष
	१. ति. प / ४/१३३४	२. ति. सा / ८२२	१ ति प ४/१३३४	२ ति प ४/१३३४	१ ति प./४/१३३६	२. त्रि सा./८२२	
१	काल	श्रीपुर	नदीमुख	धृतकेअनुसार पुष्प फल आदि	३, ४	निमित्त, न्याय, व्याकरण आदि विषयक अनेक प्रकारके शास्त्र	विशेष
२	महाबाल	"	"	भाजन	३	नौसुरी, नगाड़े आदि पंचेन्द्रिय के मनोह विषय	विशेष
३	पाण्डु	"	"	धान्य	४	पंचलोह आदि धातुएँ	विशेष
४	मानव	"	"	आयुध	४	असि, मत्सि आदिके माघन-भूत द्रव्य	विशेष
५	शख	"	"	वादित्र	४	धान्य तथा पट्टरस	विशेष
६	पद्म	"	"	वस्त्र	४	नीति व अन्य अनेक विषयोंके शास्त्र	विशेष
७	नैऋत	"	"	हर्म्य (भवन)	३, ४	शय्या, आसन, भाजन आदि उपभोग्य वस्तुएँ	विशेष
८	पिंगल	"	"	आभरण			विशेष
९	नानारत्न	"	"	अनेक प्रकारके रत्न आदि			विशेष

४ विशेषताएँ

ह पु/११/१११-११३, १२३ अमी निधयोऽनिधना नव। पालिता निधिपालाख्ये सुरैर्लोकियोगिन। १११। शकटावृत्तय सर्वे चतु-रक्षप्रचक्रका। नवयोजनविस्तीर्णा द्वादशायामसमिता। १११। ते चाष्टयोजनागाधा बहुवक्षारकुक्षय। नित्य यक्षसहस्रेण प्रत्येक रक्षितेक्षिता। १११। कामवृष्टिवशास्तेऽमी नवापि निधय सदा। निष्पादयन्ति नि शेष चक्रवर्तिमनोपितम्। १२३।—ये सभी निधियों अविनाशी थीं। निधिपाल नामके देवों द्वारा सुरक्षित थीं। और निरन्तर लोगोंके उपकारमें आती थीं। १११। ये गाड़ीके आकारकी थीं। ६ योजन चौड़ी, १२ योजन लम्बी, ८ योजन गहरी और वक्षार गिरिके समान विशाल कुक्षिसे सहित थीं। प्रत्येककी एक-एक हजार यक्ष निरन्तर देखरेख रखते थे। ११२-११३। ये नौ की नौ निधियाँ कामवृष्टि नामक गृहपति (हर्षो रत्न) के अधीन थीं। और सदा चक्रवर्ती के समस्त मनोरथोंको पूर्ण करती थीं। १२३।

१०. दश प्रकार भोग परिचय

ति प /४/१३६७-दिव्यपुर रयणणिहि चमुभायण भोयणाइ सयणिज्जं ।
आसणवाहणण्टा दसग भोगा इमे ताण १३६७ = दिव्यपुर (नगर),
रत्न, निधि, चमू (सैन्य) भाजन, भोजन, शय्या, आसन, वाहन,
और नाट्य ये उन चक्रवर्तियोंके दशांग भोग होते हैं १३६७ (ह.
पु-१९/१३९), (म पु/३७/१४३) ।

११. सरत चक्रवर्तीकी विभूतियोंके नाम

म. पु /३७/श्लोक सं

क्र.	श्लोक सं	विभूति	नाम
१	१४६	घरका कोट	क्षितिसार
२	"	गौशाला	सर्वतोभद्र
३	१४७	छावनी	नन्धावर्त
४	"	ऋतुओंके लिए महल	वैजयन्त
५	"	सभाभूमि	दिग्वसतिका
६	१४८	टहलनेकी लकड़ी	सुविधि
७	१४९	दिशा प्रेक्षण भवन	गिरि कूटक
८	"	नृत्यशाला	वर्धमानक
९	१५०	शीतगृह	धारागृह
१०	"	वर्षा ऋतु निवास	गृहकूटक
११	१५१	निवास भवन	पुष्करावती
१२	१५१	भण्डार गृह	कुवैरकान्त
१३	१५२	कोठार	वसुधारक
१४	"	स्नानगृह	जीमूत
१५	१५३	रत्नमाला	अवत सिका
१६	"	चाँदनी	देवरम्या
१७	१५४	शय्या	सिंहवाहिनी
१८	१५५	चमर	अनुपमान
१९	१५६	छत्र	सूर्यप्रभ
२०	१५७	कुण्डल	विद्य स्मभ
२१	१५८	खडाऊँ	विष मोचिका
२२	१५९	कवच	अभेद्य
२३	१६०	रथ	अजितंजय
२४	१६१	धनुष	वज्रकाण्ड
२५	१६२	बाण	अमोघ
२६	१६३	शक्ति	वज्रतुण्डा
२७	१६४	माला	सिंघाटक
२८	१६५	छुरी	लोह वाहिनी
२९	१६६	कणप (अस्त्र विशेष)	मनोवेग
३०	१६७	तलवार	सौनन्दक
३१	१६८	खेट (अस्त्र विशेष)	भूतमुग्ध
३२	१६९	चक्र	सुदर्शन
३३	१७०	दण्ड	चण्डवेग
३४	१७१	चिन्तामणि रत्न	चूडामणि
३५	१७२	काकिणी (वीपिका)	चिन्ताजननी
३६	१७३	सेनापति	अगोच्य
३७	१७४	पुरोहित	बुद्धिसागर
३८	१७५	गृहपति	कामवृष्टि
३९	१७६	शिलावट (स्थपति)	भद्रमुख

क्र.	श्लोक सं.	विभूति	नाम
४०	१७८	गज	विजयगिरि (धवल वर्ण)
४१	१७९	अरज	पवनंजय
४२	१८०	स्त्री	सुभद्रा
४३	१८१	भेरी	आनन्दिनी (१२ योजन शब्द) (म. पु /३७/ १८२)
४४	१८४	शख	गम्भीरावर्त
४५	१८५	कडे	वीरानन्द
४६	१८७	भोजन	महाकव्याण
४७	१८८	खाद्य पदार्थ	अमृतगर्भ
४८	१८९	स्वाद्यपदार्थ	अमृतकवच
४९	१९०	पेय पदार्थ	अमृत

१२. दिग्विजयका स्वरूप

ति. प /४/१३०३-१३६६ का भावार्थ—आयुधशालामें चक्रकी उत्पत्ति हो जानेपर चक्रवर्ती जिनेन्द्र पूजन पूर्वक दिग्विजयके लिए प्रयाण करता है १३०३-१३०४। पहले पूर्व दिशाकी ओर जाकर गंगाके किनारे-किनारे उपसमुद्र पर्यन्त जाता है १३०५। रथपर चढ़कर १२ योजन पर्यन्त समुद्र तटपर प्रवेश करके वहाँसे अमोघ नामा त्राण फेंकता है, जिसे देखकर मागध देव चक्रवर्तीकी अधीनता स्वीकार कर लेता है १३०६-१३१४। यहाँसे जम्बूद्वीपकी वेदीके साथ-साथ उसके वैजयन्त नामा दक्षिण द्वारपर पहुँचकर पूर्वकी भौति ही वहाँ रहनेवाले वरतनुदेवको वश करता है १३१५-१३१६। यहाँसे वह पश्चिम दिशा की ओर जाता है और सिन्धु नदीके द्वारमें स्थित प्रभासदेवको पूर्ववत् ही वश करता है १३१७-१३१८। तत्पश्चात् नदीके तटसे उत्तर मुख होकर विजयार्थ पर्वत तक जाता है। और पर्वतके रक्षक वैताद्वय नामा देवको वश करता है १३१९-१३२३। तब सेनापति दण्ड रत्नसे उस पर्वतकी खण्डप्रपात नामक पश्चिम गुफाको खोलता है १३२४-१३२०। गुफामेंसे गर्भ हवा निकलनेके कारण वह पश्चिमके म्लेच्छ राजाओंको वश करनेके लिए चला जाता है। छह महीनेमें उन्हें वश करके जब वह अपने कटकमें लौट आता है तब तक उस गुफाकी वायु भी शुद्ध हो चुकती है १३३१-१३३६। अम सर्प सैन्यको साथ लेकर वह गुफामें प्रवेश करता है, और काकिणी रत्नसे गुफाके अन्धकारको दूर करता है। और स्थपति रत्न गुफामें स्थित उन्मनजला नदीपर पुल बाँधता है। जिसके द्वारा सर्व सैन्य गुफासे पार हो जाती है १३३७-१३४१। यहाँपर सेनाको ठहराकर पहले सेनापति पश्चिम खण्डके म्लेच्छ राजाओंको जीतता है १३४२-१३४८। तत्पश्चात् हिमवान पर्वतपर स्थित हिमवानदेवसे युद्ध करता है। देवके द्वारा अतिघोर वृष्टि की जानेपर छत्र रत्न व चर्म रत्नसे सैन्यको रक्षा करता हुआ उस देवको भी जीत लेता है १३४९-१३५०। अन वृषभगिरि पर्वतके निकट जाता है। और दण्डरत्न द्वारा अन्य चक्रवर्तीका नाम मिटाकर वहाँ अपना नाम लिखता है १३५१-१३५५। यहाँसे पुन पूर्वमें गंगा नदीके तटपर आता है, जहाँ पूर्ववत् सेनापति दण्ड रत्न द्वारा तमिस्रा गुफाके द्वार को खोलकर छह महीनेमें पूर्वखण्डके म्लेच्छ राजाओंको जीतता है। १३५६-१३५८। विजयार्थकी उत्तर श्रेणीके ६० विद्याधरोंको जीतनेके पश्चात् पूर्ववत् गुफा द्वारसे पर्वतको पार करता है १३५९-१३६५।

यहाँसे पूर्व खण्डके स्लेक्ष राजाओंको छह महीनेमें जीतकर पुन कटकमें लौट आता है। १३६६। इस प्रकार छह खण्डोंको जीतकर अपनी राजधानीमें लौट आता है। (ह. पु./११/१-४६), (म पु/२६-३६ पर्व/पृ. १-२२०), (ज. प-७/११५-१५१) ।

१३. राजधानीका स्वरूप

ति, सा /७१६-७१७ रयणकवाडवरावर सहस्सदसदार ऐमपायारा । नार-सहस्सा धीही तरथ चउपपट सहस्सेवक ७७६। जयराण धहि परिदो वणाणि तिसद ससदित्ठ पुरमज्जे। जिणभवणा णरवइ जणगेए सोइति रयणमया ७१७। -राजधानीमें स्थित नगरोंके (दे मनुष्य/४) ररनमयी किवाड है। उनमें बड़े द्वारकी सरुया १००० है और छोटे ६०० द्वार हैं। सुवर्णमयी कोट है। नगरके मध्यमें १२००० धीधी

और १००० चौपथ हैं। ७१६। नगरोंके भाग चौगिर्द ३१० भाग हैं। और नगरके मध्य जिनमन्दिर, गजमन्दिर व अन्य भागोंके मन्दिर गजमयी शोभते हैं। ७१७।

१४. हुंदावशर्पिणीमें चक्रवर्तीके उत्पत्ति काळमें कुछ भपवाद

ति प /४/१६६-१६१८ सुगमपुष्पमकानरम टिटिमि थोअरमेमे १६६६। सगाने जागते परगचकी ग १६६७। चक्रिम्मविजयमर्ग। -हुंदावशर्पिणी कानमें कुछ विधेयता है। यह यह कि रम नानमें चौथा काल छेप रहते ही प्रथम चक्रवर्ती उत्पन्न हो जाता है। (यद्यपि चक्रवर्तीकी विजय कभी भंग नहीं होती। परन्तु रम नानमें उमकी विजय भी भंग जाती है।)

३. नव बलदेव निर्देश

१. पूर्व भव परिचय

क्र	म. पु./-सर्ग/श्लो	१ नाम निर्देश		२ पूर्व भव म २		पूर्व भव स १ स्वर्ग	
		१ ति प /४/११७.१४११	२ त्रि. सा /८२७	१ प पु /२०/२२६-२३५	२ म. पु /पूर्वभव	१ प. पु /२०/-२३६-२३७	२ म. पु /पूर्ववष
		सामान्य	विशेष	नाम	नगर	दीक्षा गुरु	स्वर्ग
१	६७/८६	विजय	प पु	मल (विशालभूति)	पुण्डरीकिणी	अमृतमर	{ अमृतर विमान २ महाशुक
२	६८/८०-८३	अचल	भद्र	मारुतवेग	पृथ्वीपुरी	महासुवत	"
३	६९/७९.१०६	धर्म		नन्दिमित्र	नन्दपुरी	सुवत	"
४	६०/५८-६३	सुप्रभ		महावल	नन्दपुरी	शुप्रभ	सर्लाग
५	६१/७०.८७	सुदर्शन	नन्दिमित्र	पुरुपर्षभ	वीतशोका	प्रजापाल	"
६	६५/१७४-१७६	नन्दीपेण		सुदर्शन	विजयपुर	दमवर	"
७	६६/१०६-१०७	नन्दिमित्र	नन्दीपेण	वसुन्धर	सुसीमा	सुप्रभ	{ ब्रह्म २ सौधर्म
८	{ ६७/१४८-१४९ ६८/७३१	राम	पद्म	{ श्रीचन्द्र २ विजय	{ सेमा २ मलय	अर्षव	{ ब्रह्म २ सनरकुमार
९		पद्म	मल	सखिसद	हस्तिनापुर	विद्रुम	महाशुक

२. वर्तमान भवके नगर व माता पिता

क्र	म पु/सर्ग/श्लो	नगर	पिता	माता		गुरु	तीर्थ
				सामान्य	विशेष		
			म. पु/पूर्ववत्	१. प पु/२०/२३८-२३६ २ म पु/पूर्ववत्	१ प पु/२०/- २४६-२४७ २ म पु/पूर्ववत्		
१	१७/८६	पोदनपुर	प्रजापति	म पु भद्राम्भोजा	म पु. जयवती	मुवर्णकुम्भ	के तीर्थकर
२	५८/८०-८३	द्वारावती	ब्रह्म	सुभद्रा	सुभद्रा	सस्कीर्ति	
३	४६/७१,१०६	"	भद्र	सुवैषा	"	सुधर्म	
४	६०/५८-६३	"	सोमप्रभ	सुदर्शना	जयवन्ती	मृगाक	
५	६१/७०,८७	खगपुर	सिंहसेन	सुप्रभा	विजया	श्रुतिकीर्ति	
६	६५/१७४,१७६	चक्रपुर	वरसेन	विजया	वैजयन्ती	सुमित्र	
७	६६/१०६-१०७	वनारस	अग्निशिख	वैजयन्ती	अपराजिता	२. शिवघोष भवनश्रुत	
८	{ ६७/१४८-१४९ ६८/७३१	" पीछे अयोध्या	दशरथ (१६४)	अपराजिता (कौशिक्या)	सुबाला	सुवत	
९			वसुदेव	रोहिणी		सुसिद्धार्थ	

३. वर्तमान भव परिचय

क्र	म पु/- सर्ग/श्लो	शरीर			उत्सव			आयु			निर्गमन
		ति प/४/१३७१			ति प/४/१८१८ त्रि सा/८०६ ह. पु/६०/३१० म पु./पूर्ववत्			१ ति प/४/१४१६-१४२० २. त्रि सा/८३१ ३ म पु./पूर्ववत्			
		वर्ण	सस्थान	सहजान	सामान्य धनु	प्रमाण	विशेष धनु	सामान्य	प्रमाणस	विशेष	
१	१७/८६-९०				८०			वर्ष		वर्ष	मोक्ष " " " " " " " " " " " " " " ब्रह्म स्वर्ग कृष्णके तीर्थमें मोक्ष प्राप्त करेंगे।
२	५८/८६				७०			८७ ला	३	८४ ला	
३	५६/४				६०			७७ "		"	
४	६०/६८-६६				५०	३	५५	६७ "	३	३० ला	
५	६१/७१				४५	३	४०	१७ "	३	१० ला	
६	६५/१७७-१७८				२९	३,४	२६	६७००० वर्ष	३	५६००० वर्ष	
७	६६/१०८				२२		२३	३७००० "	३	३२००० "	
८	६७/१५४				१६	४	१३	१७००० "	३	१३००० "	
९					१०			१२००० "	२	१२००० "	

४. बलदेवका वैभव

म पु/६८/६६७-६७४ सीताद्यष्टसहस्राणि रामस्य प्राणवत्सला । द्विगुणा-
ष्टसहस्राणि देशास्तावन्महीभुज ६६७। शून्य पञ्चाष्टरन्ध्रीकृत्याता
द्रोणमुख्ता स्मृता । पत्नानि सहस्राणि पञ्चविंशतिसख्यया ६६८।
कर्वटा खत्रयद्वयेकप्रमिता, प्रार्थितार्थदा । मटम्बास्तत्प्रमाणा स्युः
सहस्राण्यष्ट खेटका ६६९। शून्यसप्तकत्रस्वधिमिता प्रामा महा-
फला । अष्टाविंशमिता द्वीपा समुदान्तर्वतित ६७०। शून्यपञ्चक-

पक्षाब्धिमितास्तुङ्गमतङ्गजा । रथवर्यास्तु तावन्तो नवकोट्यस्तु-
रङ्गमा ६७१। खसप्तकद्विर्वाघ्युक्ता युद्धशौण्डा पदातय । देवा-
श्चाष्टसहस्राणि गणवद्वाभिमानका ६७२। हलायुधं महारत्नमपरा-
जितनामकम् । अमोघाख्या शरास्तीक्ष्णा। सञ्जया कौमुदी गदा
६७३। रत्नावतसिका माला रत्नान्येतानि सौरिण । तानि यक्ष-
सहस्रेण रक्षितानि पृथक्-पृथक् ६७४। =रामचन्द्र जी (बलदेव)
के ८००० रानियाँ, १६००० देग, १६००० आधीन राजा, ६८५०
द्रोणमुख, २५००० पत्तन, १२००० कर्वट, १२००० मटय ८००० खेटक,

४८ करोड गाँव, २८ द्वीप, ४२ लाख हाथी, ४२ लाख रथ, ६ कराड घोड़े, ४२ करोड पदाति, ८००० गणबद्ध देव थे। ६६६-६७२। रामचन्द्र जीके अपराजित नामका 'हलामुध' अमोघ नामके तीक्ष्ण 'बाण', कौमुदी नामकी 'गदा' और रत्नावतसिका नामकी 'माला' ये चार महारत्न थे। इन सब रत्नोंकी एक-एक रत्नार यक्ष देव रक्षा करते थे। ६७२-६७४। (ति प/४/१४३६), (त्रि मा/८२४); (म पु/५७/६०-६४)।

५. चलदेवो सम्यन्धी नियम

ति प./४/१४३६ अणिदाणमदा सञ्जे वलदेवा केमवा णिदाणमदा। उट्टह-गामी मव्जे वलदेवा केमवा अधोगामी। १४३६। -सम चलदेव निदान-ते रहित होते हैं और सभी वनदेव ऊर्ध्वगामी अर्थात् स्वर्ग व मोक्षको जाने वाले होते हैं। (व ६/१.६-६.२४३/५००/६), (ह पु/६०/२६३)।

शालाका पुरुष/१/४-६ वनदेवोंका परम्पर मिलान नहीं होता, तथा एक क्षेत्रमें एक समयमें एक ही वनदेव होता है।

४ नव नारायण निर्देश

१. पूर्व भव परिचय

क्र	१ नाम		२ पूर्व भव नं, २			३ पूर्व भव नं १
	१ ति प/४/१४१२, ४१८ २, त्रि सा/८२४ ३. प. पु/२०/२२७ टिप्पणी ४ ह. पु/६०/७८८-२८६ ५ म पु/सर्ग/१३०		१ प पु/२०/२०६-२१७ २ म पु/पूर्वभव नीचे वाले नाम प पु, मेंसे दिये गये हैं। म पु के नामों-में कुछ अन्तर है			१ प पु/२०/- २१८-२२० २ म पु/पूर्वभव
	नाम	नाम	नगर	दीक्षा गुरु	स्वर्ग	
१	५७/८३-८४	त्रिपुष्ट	विश्वनन्दी	हस्तिनापुर	मन्मृत	महाशुक्र
२	४८/८४	त्रिपुष्ट	पर्वत	अयोध्या	सुभद्र	प्राणत
३	४६/८५-८६	स्वयभू	धनमित्र	श्रावस्ती	वसुदर्शन	नान्तव
४	६०/६६, ५०	पुरुषोत्तम	सागरदत्त	कौशाम्बी	श्रेयाम	महसार
५	६१/७१, ८५	पुरुषसिंह	विकट	पीदनपुर	सुभृति	ब्रह्म (२ माहेन्द्र) माहेन्द्र (२ मौधर्म) मौधर्म
६	६६/१७४-१७६	पुरुषपत्तरीक	प्रियमित्र	शैलनगर	वसुभृति	मनखुमार
७	६६/१०६-१०७	दत्त (२.४ पुरुषदत्त)	मानमचेष्टित	सिंहपुर	घोषमेन	महाशुक्र
८	६७/११०	नारायण (३.६ लक्ष्मण)	पुनर्वसु	कौशाम्बी	पराम्भाधि	
९	७०/३८८	कृष्ण	गगदेव	हस्तिनापुर	द्रुममेन	

२. वर्तमान भवके नगर व माता पिता (प पु/२०/२२१-२२८), (म पु/पूर्व शीर्षवत्)

क्र	४ नगर		५ पिता		६ माता	७ पटरानी	तीर्थ
	प पु	म. पु	म पु	प पु	प पु व म पु		
१	पादनपुर	← द्वारावती	प्रजापति ब्रह्म	← ब्रह्मभृति	भृगावती माधवी (ऊषा)	सुप्रभा रूपिणी	श्री तीर्थकर
२	हस्तिनापुर	"	भद्र	श्रीधरनाद	पृथिवी	प्रभवा	
३	"	"	सोमप्रभ	सोम	सीता	मनीहरा	
४	चक्रपुर	खगपुर	सिंहसेन	प्रख्यात	अम्बिका	सुनेत्रा	
५	कुशाग्रपुर	चक्रपुर	वरतेज	शिवाकर	लक्ष्मी	विमलसुन्दरी	
६	मिथिला	वनारस	अग्निशिल	समसूर्धाग्निनाद	काशिनी	आनन्दवती	
७	अयोध्या	" (पीछे अयोध्या) ६७/१६४	दशरथ	←	नंकेयी	प्रभावती	
८	मथुरा	मथुरा	वसुदेव	←	देवकी	रूपिणी	

३. वर्तमान शरीर परिचय

क्र	म. पु /सर्ग/श्लो	८ शरीर			९ उत्सेध			१० आयु	
		ति प /४/१३७१ म. पु /पूर्ववत्			१. ति प/४/१४१८ २ त्रि सा /८२६ ३. ह पु /६०/३१०-३१२ ४ म पु /पूर्ववत्			ति प /४/१४२१-१४२२ २ त्रि सा /८२० ३ ह पु /६०/४१७-४३३ म पु /पूर्ववत्	
		वर्ण	संस्थान	सहनन	सामान्य	प्रमाण स.	विशेष		
१	५७/८६-६०	वर्ण—नील व कृष्ण संस्थान—समवपुरस संस्थान सहनन—वज्रशुभ नाराच सहनन।		८०	धनु			८४	ला वर्ष
२	५८/८६			७०	"			७२	" "
३	४६/-			६०	"			६०	" "
४	६०/६८-६६			५०	"	३	५५	३०	" "
५	६१/७१			४५	"	३	४०	१०	" "
६	६५/१७७-१८८			२६	"	३.४	२६	६५००	" "
७	६६/१०८			२२	"			४ (५६०००)	" "
८	६७/१५१-१५४			१६	"	४	१२	३२०००	" "
९	७१/१२३			१०	"			१०००	" "

४. कुमार काल आदि परिचय

क्र	म पु /- सर्ग/श्लो.	कुमार का	मण्डलीक काल	विजय काल	राज्य काल		निर्गमन	म पु /की अपेक्षा सभी सप्तम = एक है।
		१ ति प /४/१४२४-१४३३ २ ह पु /६०/४१७-४३३		१ ति प /४/१४२५-१४३६ २ ह पु /६०/४१७-४३३		ति प /४/१४३८ त्रि सा /८३२		
		सामान्य	विशेष	सामान्य	विशेष			
१	५७/८६-६०	२५००० वर्ष	२५००० वर्ष	ह पु	वर्ष	ह पु	राष्ट्रम नरक	म पु /की अपेक्षा सभी सप्तम = एक है।
२	५८/८६	"	"	१००० वर्ष	८३ ६०००	८३७४०००	पष्ट	
३	५९/८६	१२५०० वर्ष	१२५०० वर्ष	१००	७१४६६००	५६७४६१०	"	
४	६०/६८-६६	७००	१३००	६०	२६६७६२०	२६६७६२०	"	
५	६१/७१	३००	१२५०	१२५	६६८३८०	६६६५०५	"	
६	६५/१७७-७८	२५०	२५०	६०	६४४४०		"	
७	६६/१०८	२००	५०	५०	३१७००		पचम	
८	६७/१५१-१५४	१००	३००	४०	११५६०	१६८६०	चतुर्थ	
९	७१/१२३	१६	५६	८	६२०		तृतीय	

५. नारायणोंका वैभव

म पु /६८/६६६,६७५-६७७ पृथिवीसुन्दरीमुन्या केशवस्य मनोरमा ।
द्विगुणाष्टसहस्राणि देव्य सत्योऽभवद् श्रिय ।६६६। चक्र सुदर्शना-
ख्यान कौमुदीस्युदिता गदा । असि सौनन्दकोऽमोघमुखी शक्ति
शरासनम् ।६७५। शान् पञ्चमुख पाञ्चजन्य शङ्खो महाध्वनि ।
कौस्तुभ स्वप्रभाभारभासमान महामणि ।६७६। रत्नान्येतानि
सन्तैव केशवस्य पृथक्-पृथक् । सदा यत्सहस्रेण रक्षितान्यमित-
द्युते ।६७७। =नारायणके (लक्ष्मणके) पृथिवीसुन्दरीको आदि

लेकर लक्ष्मीके समान मनोहर सोलह हजार पतिव्रता रानियाँ थीं
।६६६। इसी प्रकार सुदर्शन नामका चक्र, कौमुदी नामकी गदा
सौनन्द नामका खड्ग, अमोघमुखी शक्ति, शान् नामका धनुष,
महाध्वनि करनेवाला पाँच मुखका पाञ्चजन्य नामका शङ्ख और
अपनी कान्तिके भारने शोभायमान कौस्तुभ नामका महामणि
ये सात रत्न अपरिमित कान्तिको धारण करनेवाले नारायण
(लक्ष्मण) के थे और सदा एक एक हजार यज्ञ देव उनकी पृथक्-
पृथक् रक्षा करते थे ।६७५-६७७। (ति प /४/१४३४), (त्रि सा /८२६),
(म पु /५७/६०-६४), (म पु /७१/१२४-१२८) ।

६. नारायण की दिग्विजय

म. पु/६८/६४३-६५५ लकाको जीतकर लक्ष्मणने कोटिशिला उठायो और वहाँ स्थित सुनन्द नामके देवको वश किया। ६४३-६४६। तत्पश्चात् गंगाके किनारे-किनारे जाकर गंगा द्वारके निकट भागरमें स्थित मागधदेवको केवल बाण फेंक कर वश किया। ६४७-६५०। तदनन्तर समुद्रके किनारे-किनारे जाकर जम्बूद्वीपके दक्षिण वैजयन्त द्वारके निकट समुद्रमें स्थित 'वरतनु देव' को वश किया। ६५१-६५२। तदनन्तर पश्चिमकी ओर प्रयाण करते हुए सिन्धु नदीके द्वारके निकटवर्ती समुद्रमें स्थित प्रभास नामक देवको वश किया। ६५३-६५४। तत्पश्चात् सिन्धु नदीके पश्चिम तटवर्ती म्लेच्छ राजाओंको जीता। ६५५। इसके पश्चात् पूर्व दिशाकी ओर चले। मार्गमें विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीके ५० विद्याधर राजाओंको वश किया। फिर गंगा तटके पूर्ववर्ती म्लेच्छ राजाओंको जीता। ६५६-६५७। इस प्रकार उसने १६००० पट बन्ध राजाओंको तथा ११० विद्याधरोंको जीतकर तीन खण्डका अधिपत्य प्राप्त किया। यह दिग्विजय ४२ वर्षमें पूरी हुई। ६५८।
म पु/६८/७२४-७२५ का भावार्थ—वह दक्षिण दिशाके अर्धभरत क्षेत्रके समस्त तीन खण्डोंके स्वामी थे।

७. नारायण सम्बन्धी नियम

ति प/१/१४३६ अग्निदाणगदा सब्बे नलदेवा केसवा गिदाणगदा।
उद्धंगामी सब्बे नलदेवा केसवा अधोगामी १४३६। = सन

नारायण (वेश्म) निदानमे सहित होते हैं और अधोगामी अर्थात् नरकमें जाने वाले होते हैं। १२३६। (ह. पु/६०/२५२)
ध. ६/१,१-६,२४३/५०१/१ तस्स मिच्छन्नाविणाभाविणिदाणपुग्गमनाथा।
= वासुदेव (नारायण) की उत्पत्तिमें उसने पूर्ण मिथ्यात्वके अविनाभावो निदानका होना अवश्यभावो है। (प पु/२०/२१५)
प पु/२०/२१४ नभवन्ति वनानुजा १२१४। = ये सभी नारायण वनभद्रके छोटे भाई होते हैं।
त्रि सा/८३३ फिरे तिरुयरे सोवि मिज्जेदि १८२३। = (अन्तिम नारायण) वृष्ण आगे सिद्ध होंगे।
दे. अलाका पुरुष/१ दा नारायणोंका परस्परमें कभी मिलाप नहीं होता। एक क्षेत्रमें एक जालमें एक ही प्रतिनारायण हाता है। उनके शरीर मूँछ, दाढ़ीसे रहित तथा म्रण वर्ण व उत्कृष्ट सदन व मर्यादते युक्त होते हैं।
प प्र/टी/१/१५२/४२/५ पूर्वभने कोऽपि जीवो भेदाभेदरत्नत्रयागधन कृत्वा विशिष्ट पुण्यबन्धं च कृत्वा पक्षादज्ञानभावेन निदानबन्ध कराति, तदनन्तर स्वर्ग गत्या पुनर्मनुष्यो भूत्वा त्रिलण्डाधिपति-वर्षासुदेवो भवति। = अपने पूर्व भवमें कोई जीव भेदाभेद रत्नत्रयकी आराधना करके विशिष्ट पुण्यका बन्ध करता है। पश्चात् अज्ञान भावसे निदान बन्ध करता है। तदनन्तर स्वर्गमें जाकर पुनः मनुष्य होकर तीन खण्डका अधिपति वासुदेव होता है।

५. नव प्रतिनारायण निर्देश

१. नाम व पूर्वभव परिचय

क्र	म. पु/सर्ग श्लो	नाम निर्देश			कई भव पहिले		वर्तमान भवके नगर	
		सामान्य	स	विशेष	नाम	नगर	प पु.	म पु
		१ ति प/४/१४१३, ५१६					प पु/२०/२४२-२४३	
		२ त्रि सा/८२८					म पु/पूर्ववत्	
		३ प पु/२०/२४४-२४५						
		४ ह पु/१०/२६१-२६२						
		५ म पु/पूर्ववत्						
२	५७/७२ ७३ ८७-८८, ६६	अश्वघोष			विशालनन्द	राजगृह	अलका	अलका
३	५८/६३, ६०	तारक			विन्ध्यशक्ति	मलय	विजयपुर	भोगवर्धन
४	५९/८५, ६६	मेरक	५	मधु	चण्डशासन	श्रावस्ती	नन्दनपुर	रत्नपुर
५	६०/७०, ८३	मधुकैटभ	५	मधुसूदन	राजसिंह	मलय	पुष्पीपुर	वाराणसी
६	६१/७४ ८३	निशुम्भ	५	मधुक्रीड			हरिपुर	हस्तिनापुर
७	६५/१०६-१११, १२५	अग्नि	५	निशुम्भ	मन्त्री		सूर्यपुर	चक्रपुर
८	६६/१०६-१११, १२५	प्रहरण	३	प्रहाद	नरदेव	सारसमुच्चय	सिंहपुर	मन्दरपुर
९	६८/१११-११२, ७२८	गवण	३	मलीन्द्र				
१०		जरासघ	३	दक्षानन			लका	लका
							राजगृह	

२. वर्तमान भव परिचय

क्र	म पु/सर्ग ग्लो.	तीर्थ	शरीर			उत्पेध		आयु		निर्गमन			
			ति. प/४/१३७१			१ ति प/४/१४१८	२ त्रि सा/८२६	३ ह पु/६०/३१०-३११	१ ति प/४/१४२२		२ त्रि सा/८३०	३ ह. पु/६०/३२०-३२१	४ म. पु/पूर्ववत्
			वर्ण	सस्थान	सहनन	सामान्य	विशेष	सामान्य	विशेष		१ ति प/४/१४३८	२ त्रि सा/८३२-८३३	३ म. पु/पूर्ववत्
१	५७/७२-७३, ८७-८८	वे तीर्थकर	X - म पु	समचतुरस्र सस्थान	वज्र ऋषभ नाराचि सहनन	धनु.	ह पु	वर्ष,	म पु	नरक			
२	५८/६३.६०					८०		८४ ला	सप्तम				
३	५९/८८.६६					७०		७२ "	पष्टम				
४	६०/७०, ८३					६०	४०	६० "	पष्ट (३ सप्तम)				
५	६१/७४, ८३					४५	५५	३० "	पष्ट				
६	६५/१८०, १८६					२६	२६	१० "	"				
७	६६/१०६-१११, १२५					२२		६५०००	३				
८	६८/११-१३, ७२८					१६		३२०००	पंचम				
९		१०		१२०००	चतुर्थ								
				१०००	तृतीय								

३. प्रति नारायणों सम्यन्धी नियम

ति. प/४/१४२३ एदे णवपडिसत्तु णवान हत्थेहि वासुदेवाण । णिय-चक्केहि रणेसु समाहदा जति णिरयत्विदि । १४२३। = ये नौ प्रति-शत्रु युद्धमें नौ वासुदेवोंके हाथोंसे निज चक्रोंके द्वारा मृत्युकी प्राप्ति

होकर नरक भूमिमें जाते हैं । १४२३।

वे शलाका पुरुष/१/४५ दो प्रतिनारायणोंका परस्परमें मिलान नहीं होता । एक क्षेत्रमें एक कालमें एक ही प्रतिनारायण होता है । इनका शरीर दाढी भूँछ रहित होता है ।

६. नव नारद निर्देश

१. वर्तमान नारदोंका परिचय

क्र	नाम निर्देश	उत्पेध		आयु		वर्तना काल		निर्गमन		
		१ ति प/४/१४६६	२ त्रि सा/८३४	३ ह पु/६०/५४८	१ ति प/४/१४७१	२ त्रि सा/८३५	३ ह पु/६०/५४९	१ ति प/४/१४७०	२ त्रि सा/८३५	३ ह पु/६०/५४७
		१	२	१	२	१	२	सामान्य	विशेष	
१	भीम	ह. पु.								
२	महाभीम									
३	रुद्र									
४	महारुद्र									
५	काल									
६	महाकाल									
७	दुर्मुख	चतुर्मुख								
८	नरकमुग्ध	नरकवज्र								
९	अधोमुख	उन्मुख								

२. नारदों सम्बन्धी नियम

ति प/४/१४७० रुद्रावड अष्टरुद्रा पात्रनिहाणा हवति सव्वे दे। कलह महाजुम्फिया अधोगया वासुदेव व ११४७०। = ये सप्त अतिरुद्र होते हुए दूसरोंको रूताया करते हैं और पापके निधान होते हैं। सभी नारद कलह एव महायुद्ध प्रिय होनेसे वासुदेवके ममान अधोगति अर्थात् नररुको प्राप्त हुए ११४७०।

प पु/११/११६-२६६ ब्रह्मन्विस्तस्य कूर्मो नाम कुट्टम्बिनी (११७) प्रभूता दारक शुभं ११४७। यौवन च ११५३। प्राप्य शुक्लरचारित्र जटामुकुटमुद्गहन् ११४७। कन्दर्पकोस्तुच्यमौगवर्त्यात्यन्तवरसत् ११५६। उवाचेति मरुतवच किं प्रारब्धमिदं नृप। हिसन् प्राणिवर्गस्य द्वारं ११६१। नारदोऽपि तत् कश्चिच्च-मुष्टिसुद्गतराहनी १०५५। शुखा रावण कोपमागत १२६४। व्यमोघयन् दयायुक्ता नाग्द शत्रुपञ्जरात् १२६६। = ब्रह्मरुचि ब्राह्मणने तापसका वेश धारण करके इसको (नारदको) उत्पन्न किया था। यौवन-अवस्थामें ही शुक्लरुचके मत निम्ने ११४३। कन्दर्प व कौरुकुच्य प्रेमी था ११४६। मरुतवात् यज्ञमें शरार्थ करनेके कारण (१६०) पीटा गया १२५६। रावणने उस समय रक्षा की १२६६। (ह पु ४४/१४ २३) (म, पु ६७/३५६-४४५)।

त्रि सा/८३५ कलहम्पिया कदाईधम्मरदा वासुदेव समकाला। भव्या गिरयगदि ते हिंसादोषेण गच्छति १८३५। = ये नारद कलह प्रिय हैं, परन्तु कदाचित् धर्ममें भी रत होते हैं। त्रासुदेवों (नारायणों) के समय में ही होते हैं। यथापि भव्य होनेके कारण परम्परासे सुक्तिकी प्राप्त करते हैं, परन्तु हिंसादोषके कारण नरक गतिको जाते हैं १८३५। (ह. पु ६०/४४६-५५०)।

२. कुमार काल आदि परिचय

क्र.	कुमार काल	मयमकाल	तप भगकाल	निगमन
	१ ति प/४/१४४६-१४६७			१ ति. प./४/ १४६८
	२ ह पु/६०/४३६-४४५			२ त्रि सा./८३५
				३ ह पु/६०/ ४४६-४४७
१	२७६६६६६ पूर्व	२७६६६६८ पूर्व	२७६६६६६ पूर्व	सप्तम नरक
२	२३६६६६६ "	२३६६६६८ "	२३६६६६६ "	" "
३	६६६६६६ "	६६६६६८ "	६६६६६६ "	पष्ठ "
४	३३३३३३ "	३३३३३४ "	३३३३३३ "	" "
५	२८ लाख वर्ष	२८ लाख वर्ष	२८ लाख वर्ष	" "
६	२० " "	२० " "	२० " "	" "
७	१६६६६६६ वर्ष	१६६६६६८ वर्ष	१६६६६६६ वर्ष	" "
	(ह. पु १६६६६-६८ वर्ष)	(ह. पु. १६६६६-६६ वर्ष)		
८	१३३३३३३ वर्ष	१३३३३३४ वर्ष	१३३३३३३ वर्ष	पंचम "
९	६६६६६६६ "	६६६६६६८ "	६६६६६६६ "	चतुर्थ "
	(ह पु. ६६६६६-६८ वर्ष)	(ह पु/६६६६६-६६ वर्ष)		
१०	३३३३३३३ वर्ष	३३३३३३४ वर्ष	३३३३३३३ वर्ष	" "
११	७ वर्ष	३४ वर्ष	२८ वर्ष	द्वितीय "
		(ह पु २८ वर्ष)	(ह. पु/२८ वर्ष)	

७ द्वादश रुद्र निर्देश

१. नाम व शरीरादि परिचय

क्र.	नाम निर्देश		वर्ष	वर्ष	आयु
	१ ति प/४/१४३६-१४४१, ५२०-५२१	२ त्रि सा/८३६			
	२ त्रि सा/८३६	३ ह पु/६०/४३४-४३६	१ ति. प/४/- १४४४-१४४५	१ ति. प/४/- १४४४-१४४७	१ ति. प/४/- १४४४-१४४७
			२ त्रि सा/८३६	२ त्रि सा/८३६	२ त्रि सा/८३६
			३ ह पु/६०/ ४३४-४३६	३ ह पु/६०/ ४३६-४४४	३ ह पु/६०/ ४३६-४४४
१	भीमावलि	त्रि सा.	५०० धनुष	८३ लाख वर्ष	८३ लाख वर्ष
२	जितशत्रु		४५० "	७१ " "	७१ " "
३	रुद्र		१०० "	२ " "	२ " "
४	वैश्वानर	विशाल नयन	१०० "	१ " "	१ " "
५	सुपतिष्ठ		८० "	८४ लाख वर्ष	८४ लाख वर्ष
६	अचल	बल	७० "	६० " "	६० " "
७	पुण्डरीक		६० "	५० " "	५० " "
८	अजितं प्र		५० "	४० " "	४० " "
९	अजितनाभि	जितनाभि	२८ "	२० " "	२० " "
१०	पीठ		२४ "	१० " "	१० " "
११	सारथिक पुत्र		७ हाथ	(२-१ला० वर्ष)	६६ वर्ष

३. रुद्रों सम्बन्धी कुछ नियम

ति. प/४/१४४०, १४४२ पीठो यच्चद्विपुत्तो अगवरा तित्यरुत्ति-मम-एसु। १४४०। गव्वे दममे पुव्वे रुद्रा भट्टा तत्रात् विमयरथ। सम्मत्तरयणरहिदा वृत्ता घोरेसु गिरएसु १४४०। = ये ग्यारह रुद्र अगधर होते हुए तीर्थकर्तियोंके समयमें हुए हैं १४४०। सव रुद्र दशमें पूर्वका अध्ययन करते समय विषयों के निमित्त तपसे ग्रष्ट होकर सम्मत्तरव रूपी रत्नसे रहित होते हुए बार नरकमें डूब गए १४४२।

ह. पु/६०/४४७। भूर्यसयमभारणां रुद्राणां जन्मभूमय। = उन रुद्रोंके जीवनमें असयमका भार अधिक होता है, इसलिए नरन्गामी होना पडता है।

त्रि सा/८/१ त्रिज्जाणुवादपठणे दिष्टफना णट्ट मज्जा भवता। कदिचि भये मिज्जति हु गदिद्विज्जिय सम्ममाहियादो १८४१। = ते रुद्र विद्यानुवाद नामा पूर्वका पठन होते इह लोफ सम्बन्धी फलके भोक्ता भए। अद्विजि नष्ट भया है, अज्ञीकार किया हुआ सन्नम जिनका ऐसै है। अद्विजि भव्य है, ते ग्रहण करके छोडा जा सम्मत्तरव ताके माहात्म्यमे केतेइक पर्याय भये मिद्ध पद पावेगे।

८ चौबीस कामदेव निर्देश

१. चौबीस कामदेवोंका निर्देश मात्र

ति प/४/१४७२ कालेसु जिणवगणां चउवीमार्णा हवति चउवीसा। ते बाहुमत्तिपमुहा कदम्पा गिरनमायागा १४७२। = चौबीस तीर्थ-करोंके समयमें अतुपम आकृतिके धारकवे बाहुमनि प्रमुप २४ काम-देव होते हैं।

१. सोलह कुलकर निर्देश

१. वर्तमानकालिक कुलकरोंका परिचय

क्र	नाम निर्देश	पिता	मस्थान	वर्ण	वत्सेध		जन्मनांतराल		आयु		पदरानी	
					१ ति प /४/गा	२ त्रि सा /७६६	१ ति प /४/गा	२ त्रि सा /७६७	१ ति प /४/गा	२ त्रि सा /७६६		प्रमाण
१	६३-७२	७२-३६/७/८७	७२/७/८७	४३०	४२२	१८०० ध०	४२२	४२२	१/१०	१/१०	४२२	स्वयंप्रभा
२	७६-६६			स्वर्ण	४३१	१३०० "	४३१	४३१	१/१००	१/१००	४३१	यशस्वती
३	१०-१०१			"	४४०	५०० "	४४०	४४०	१/१०००	१/१०००	४४०	सुमन्दा
४	१०२-१०६			"	४४५	७७५ "	४४५	४४५	१/१०,०००	१/१०,०००	४४६	विमला
५	१०७-१११			"	४४६	७५० "	४४६	४४६	१/१०,०००	१/१०,०००	४५०	मनोहरी
६	११२-११५			×	४४४	७२५ "	४४४	४४४	१/१० ला	१/१० ला	४४४	यशोधरा
७	११६-११६			स्वर्ण*	४५८	७०० "	४५८	४५८	१/१० ला	१/१० क	४५८	सुमति
८	१२०-१२४			×	४६१	६७५ "	४६१	४६१	१/१० क	१/१० क	४६१	धारिणी
९	१२५-१२८			स्वर्ण*	४६६	६६० "	४६६	४६६	१/१०० क	१/१०० क	४६७	कान्त माला
१०	१२६-१३३			"	४७१	६२५ "	४७१	४७१	१/१००० क	१/१००० क	४७१	श्रीमती
११	१३४-१३८			"	४७६	६०० "	४७६	४७६	१/१०,००० क	१/१०,००० क	४७७	प्रभावती
१२	१३६-१४५			"	४८२	५७५ "	४८२	४८२	१/१०,००० क	१/१० ला, क	४८४	सया
१३	१४६-१५१			"	४८६	५५० "	४८६	४८६	१/१० ला, क	१/१० ला, क	४८१	अमितमति
१४	१५२-१६३			"	४९५	५२५ "	४९५	४९५	१/१० ला, क	१/१० ला, क	४९५	मरुदेवी
१५	२३२					देखो तीर्थकर			१/१०० ला, क	१/१०० ला, क		
१६	"					देखो चक्रवर्ती			किंचिदुन १ परलय			

नोट-१. पत्र पुराण में विमलवाहन नाम नहीं दिया है और यशस्वीसे आगे 'विपुल' नाम देकर कमी पूरी कर दी है।

२. म. पु. की अपेक्षा यथम व भरतकी गणना भी कुलकरोंमें करके उनका प्रमाण १६ दर्शाया गया है।

* त्रि सा. की अपेक्षा न. ८ व ९ का वर्ण यथम तथा स ११ व १३ का धवल है। ह. पु की अपेक्षा ८, ९, १३ का यथम तथा स ११ का धवल है।

क्र०	ति प/श/मा	म पु/श/स्थो.	नाम	दण्ड विधान	तारानात्र परिस्थिति	उपदेश
			प्रमाण देखो पीछे	१ ति प/४/४२-४७४ २ त्रि सा/४६८ ३ ह पु/७/१४१-१७६ ४ म पु/पूर्ववत्	१, ति प./पूर्ववत् २ त्रि सा/७६६-८०२ ३, प पु/३/७७-८८ ४ ह. पु/७/१२७-१७० ५ म पु/पूर्ववत्	१ ति प/पूर्ववत् २, त्रि, मा/७६६-८०२ ३ प पु/३/७७-८८ ४ ह पु/७/१२७-१७० ५, म पु/पूर्ववत्
१	४२३-४२८	६३-७७	प्रतिश्रुति	ति प./४७२ हा.	चन्द्र सूर्यके दर्शनसे प्रजा भयभीत थी	तेजांग जातिसे मनुष्योंको जमीने कारण उप दीगने लगे हैं। यह पहने भी ये पर दीगते न थे। इस प्रकार उनका परिचय देकर भय दूर करना।
२	४३२-४३८	७६-८६	सन्मति	..	तेजांग जातिके कृष्य सूर्योरा लोप। अन्धकार व तारागणका दर्शन। व्याघ्रादि जन्तुओंमें बृहताके दर्शन।	अन्धकार व तागाङ्का परिचय देकर भय दूर करना।
३	४४१-४४३	९०-१०१	क्षेमकर	..	व्याघ्रादि जन्तुओंमें बृहताके दर्शन।	भूत जन्तुओंमें बचकर रहना तथा गाय आदि जन्तुओंकी पालनेकी शिक्षा।
४	४४६-४४७	१०२-१०६	क्षेमधर	..	व्याघ्रादि द्वारा मनुष्योंका भक्षण।	अपनी रमार्थ टण्ड आदिवा प्रयोग करनेकी शिक्षा।
५	४५१-४५३	१०७-१११	मीमकर	..	कृष्य सूर्योकी कमीके कारण उनके स्वामित्व पर परस्परमें झगडा।	कृष्य सूर्याती मीमाओंका विभाजन।
६	४५७-४५६	११२-११७	मीमधर	ति प/४७४ हा. मा.	सूर्योकी अत्यन्त हानिके कारण कलहमें वृद्धि।	सूर्योको विदित करके उनके स्वामित्वका विभाजन।
७	४५९	११६-११९	विमलवाहन	..	गमनागमनमें माधाका अनुभव।	अग्न्याराहण व गजाराहणकी शिक्षा तथा बाहनोंका प्रयोग।
८	४६२-४६३	१२०-१२४	चयुष्मात्	..	अभये पहले अपनी मन्तानका मुख देखनेमें पहले ही माता-पिता मर जाते थे। पर अब सन्तानका मुख देखनेके पश्चात् मरने लगे।	सन्तानका परिचय दे कर भय दूर करना।
९	४६७-४६८	१२५-१२८	यशस्वी	..	बालकोंका नाम रखने तक जीने लगे।	बालकोंका नामकरण करनेकी शिक्षा
१०	४७२-४७३	१२९-१३३	अभिचन्द्र	..	बालकोंका मोलना व खेलना देखने तक जीने लगे।	बालकोंकी मोलना व खेलना मिलानेकी शिक्षा।
११	४७८-४८१	१३४-१३८	चन्द्राभ	त्रि सा, हा. मा. धिक	पुत्र-कलत्रके साथ लम्बे काल तक जीवित रहने लगे। शीत वायु चलने लगी।	सूर्यको विरणोसे शीत निवारणकी शिक्षा।
१२	४८४-४८६	१३९-१४७	मरुदेव	..	मेघ, वर्षा, यिजली, नदी व पर्वत आदिके दर्शन।	नौका व छातोंकी प्रयोग विधि तथा पर्वतपर सीटियाँ बनानेकी शिक्षा।
१३	४९१	१४६-१५१	प्रमेनजित्	..	बालकोंके साथ जरायुनी उत्पत्ति।	जरायु दूर करनेके उपायकी शिक्षा।
१४	४९६-५००	१५२-१६३	नाभिराय	..	१ नाभिनाल अत्यन्त लम्बा होने लगा। २ कृष्यदुर्भोगा अत्यन्त अभाव। औषधि, धान्य व फलों आदिकी उत्पत्ति।	१ नाभिनाल काटनेके उपायकी शिक्षा। २ औषधियों व धान्य आदिकी पहचान व विवेक कराया तथा उनका व दूध आदिका प्रयोग करनेकी शिक्षा दी।
१५	५०६		ऋषभदेव भरत	..	स्व जात धान्यादिमें हानि। मनुष्योंमें अविभेककी उत्पत्ति।	दूध आदि पद विद्याओंकी शिक्षा। वर्ण व्यवस्थाकी स्थापना।

२. कुलकरके अपर नाम व उनका सार्थक्य

ति. प/४/५०७-५०६ गियजोगमुद पढिदा खीणे आउम्हि ओहिणाण जुदा। उप्पज्जिदूण भोगे केई णरा ओहिणाणेण १५०७। जादिभरणेण केई भोगमणुस्माण जीवणोवाय। भासंति जेण तेण मणुणो भणिदा मुणिदेहि १५०८। कुन-पारणादु सव्वे कुन-धरणामेण भुवणविवलादा। कुलकरणम्मि म कुपला कुलकरणामेण सुपसिद्धा १५०९।—अपने योग्य श्रुतको पढकर इन राजकुमारोंमेंसे कितने ही आयुके क्षीण होनेपर अवधिज्ञानके साथ भोगभूमिमें मनुष्य उत्पन्न होकर अवधिज्ञानसे और कितने ही जाति स्मरणसे भोगभूमिज मनुष्योंको जीवनके उपाय बतलाते हैं, इसलिए मुनोन्द्रोंके द्वारा ये मनु कहे गये हैं। १५०७-१५०८। ये सब कुलोको धारण करनेमें कुलधर और कुलोंके करनेमें कुशल होनेसे 'कुलकर' नामसे भी लोकमें प्रसिद्ध है। १५०९। (म पु/३/२१०-२११)।

३. पूर्वभव सम्बन्धी नियम

ति. प/४/५०४ एदे चउदस मणुआ पदिदुदिवहुदी हु णाहिरायता। पुव्व भवम्मि विदेहे राजकुमारा महाकुले जादा १५०४।—प्रतिश्रुतिको आदि लेकर नाभिराय पर्यन्त ये चौदह मनु पूर्वभवमें विदेह क्षेत्रके भीतर महाकुलमें राजकुमार थे। १५०४।

४. पूर्वभवमें संयम तप आदि सम्बन्धी नियम

ति. प/४/५०५-५०६ कुसला दाणादीसु सजमतवणाणवत्तपत्तान। णिम-जोग अणुदाणा मदवअज्जवगुणेहि सणुत्ता १५०५। मिच्छत्तभावणाए

भोगाउ बधिऊण ते सव्वे। पच्छा खाइयसम्मं गेण्हति जिणिदचनण-मूलम्मि १५०६।—वे सब समय तप और ज्ञानसे युक्त पाश्र्वोंके लिए दानादिकके देनेमें कुशल, अपने योग्य अनुष्ठानसे युक्त, और मार्दव, आर्जव गुणोंसे सहित होते हुए पूर्वमें मिथ्यात्व भावनासे भोगभूमि-की आयुको बाँधकर पश्चात् जिनेन्द्र भगवात्के चरणोंके समीप क्षायिक सम्यक्त्वको ग्रहण करते हैं। १५०५-५०६। (त्रि सा/५६४)।

५. उत्पत्ति व संख्या आदि सम्बन्धी नियम

ति. प/४/१५६६ वाससहस्से सेसे उप्पत्ती कुलकराण भरहम्मि। अथ चोइसाण ताण कमेण णामाणि वोच्छामि।—इस कालमें (पचम-काल प्रारम्भ होनेमें) १००० वर्षोंके शेष रहनेपर भरत क्षेत्रमें १४ कुलकरोंकी उत्पत्ति होने लगती है। (कुछ कम एक पद्यके नवें भाग मात्र तृतीयकालके शेष रहनेपर प्रथम कुलकर उत्पन्न हुआ।—दे० शलाका पुरुष/६।१)।

म पु/३/२३२ तस्मान्नाभिराजश्चतुर्दश। वृषभो भरतेशश्च तीर्थचक्र-भृता मनु १२३२।—चौदहवें कुलकर नाभिराय थे। इनके सिवाय भगवात् ऋषभदेव तीर्थकर भी थे और मनु भी, तथा भरत चक्रवर्ती भी थे और मनु भी थे।

त्रि. सा/७६४ खइयसदिट्ठी। इह खत्तियकुलजादा केइज्जाइभरा ओही ७७६।—क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव कुलकर उपजते हैं। और भी क्षत्रिय कुलमें जन्मते हैं। (यहाँ क्षत्रिय कुलका भावीमें वर्तमान का उपचार किया है।)। ते कुनकर केइ ती जाति स्मरण सयुक्त हैं, और कोई अवधिज्ञान संयुक्त है।

१० भावि शलाका पुरुष निर्देश

१. कुलकर चक्रवर्ती व बलदेव

क्र०	१ कुलकर			२. चक्रवर्ती	३ बलदेव		
	सामान्य	सं०	विशेष		सामान्य	०	विशेष
१	१ ति. प/४/१५७०-१५७१			१ ति. प/४/१५७०-१५७१ २. ति. सा/७७७-७७८ ३ ह पु/६०/५५५-५५६ ४ म पु/७६/४६३-४६६	१. ति. प/४/१५७२-१५६०		
२	२ ह पु/६०/५५५-५५६				२ त्रि. सा/७७७-७७८		
३	३ म. पु/७६/४६३-४६६			३ ह पु/६०/५५५-५५६			
४				४ म पु/७६/४६३-४६६			
१	कनक			भरत दीर्घदन्त	चन्द्र		
२	कनकप्रभ			मुक्तदन्त	महाचन्द्र		
३	कनकराज			(३ जन्मदत्त)	चन्द्रधर	४	चक्रधर
४	कनकध्वज			ब्रूढदन्त	वरचन्द्र	२,३,४	हरिचन्द्र x
५	कनकपुत्र	२,३	कनकपुत्र	श्रीपेण	सिंहचन्द्र		
६	नलिन			श्रीभृति	हरिचन्द्र	२,४	वरचन्द्र
७	प्रभ			श्रीकान्त	श्रीचन्द्र	२,४	पूर्णचन्द्र
८	राज			पद्म	पूर्णचन्द्र	२	शुभचन्द्र
९	ध्वज			महापद्म	मुचन्द्र	२,४	श्रीचन्द्र
१०	पुत्र	२,३	नलिन पुत्र	चित्रवाहन		३	बालचन्द्र
११		३	पद्म	विमल वाहन			
१२	पद्मप्रभ			(४ विचित्रवाहन)			
१३	पद्मराज			अरिष्टसेन			
१४	पद्मध्वज						
१५	पद्मपुत्र	२,३	पद्मपुत्र				
१६		३	महापद्म				

नोट—त्रि सा व ह पु में नामोंके क्रममें अन्तर है। ह पु में ५ वें वरचन्द्र नाम नहीं दिया है। अन्तमें बालचन्द्र नाम देकर कमी पूरी कर दी है।

२. नारायणादि परिचय

क्र.	नारायण			प्रति नारायण	रुद्र	
	१ ति प ४/११६०-१४६९				ति प ४/११६२	ह पु ६०/-
	२ ति सा ७०६ ८००	३	नन्दिन	हारिकण्ठ	गमद	
३ ह पु ६०/६६६ ७६०	३	नन्दि भूतिव	नीलकण्ठ	हर्ष		
४ म पु ७६/४००-४८८	२	अचन	अश्वकण्ठ	प्रयाग		
	सामान्य	प्रमाण	विशेष	सुवण्ठ	कामद	
१	नन्दी			क्षिरिण्ठ	भय	
२	नन्दिमित्र			अश्वमी	हृ	
३	नन्दिपेण			ह्यमी	मनोभा	
४	नन्दिभूति			मयूरमी	मार	
५	मल				ताम	
६	महामल				जज्ञ	
७	अतिमल					
८	त्रिपुष्ट					
९	द्विपुष्ट					

नोट—ह पु. में इसके क्रममें कुछ अन्तर है।

४. शारदके भेदोंके लक्षण

भ आ वि २४/८/०२ मिथ्यादर्शनमायाविनिदानशरणानां कारणं नमं प्रथमशरणम् । - मिथ्यादर्शनं माया, निदानं तेषां मीमांसायां जिगमे उत्पत्तिं होती है उसे कारणभूत कर्मका दृश्यजन्य कर्म है। इतने उद्यममें जीवके माया, मिथ्या व विज्ञान रूप परिणाम होते हैं वे भावजन्य हैं ।

भ आ वि ३१/०/१३ दर्शनम दक्ष्यं दृष्टादि । इत्यस्य दक्ष्यं अज्ञानं पटनं अविद्यादिभिं च । चाश्रितम् । उच्यते । नन्दि-
नार । योगस्य अगममार्गिण्यर्थम् । सत्यव्यभिचारे अर्थमवि-
यिरभया तिरिदित्युच्यते । यथियं प्रत्यक्षस्य दक्ष्यादि । अथिल
द्रव्यदक्ष्यं सुखं त्वि । यिनस्य प्रत्यक्षस्य दक्ष्यादि । अथ का कर्म
आदि सम्प्रत्यक्षजनके जन्म है । जगत् में अज्ञान और अविद्यादि
वर्ना ज्ञानके जन्म है । नन्दिमित्र और नन्दिमित्रे अज्ञान व ज्ञान
चाश्रितजन्य है । अगममार्ग प्रकृति होता योगजन्य है । सत्यव्यभिचारे
चाश्रितमें जन्म ही होनेसे भावजन्य के ही जन्म है । दक्ष्यादि
नन्दि प्रथम जन्म है, सुखं यद्यपि पदार्थ अविज्ञान जन्म है और
प्रामादिक मिश्र जन्म है ।

भ आ वि ३१/०/१३ महिम्नस्य भेदेन सत्यव्यभिचारेण करोति
जगत्तादात्म्यं अत्यन्तम् । इत्यभिज्ञाननिर्दिष्टपरमात्मैवमयं इति
रचित्यात्मस्य सरादिद्विजातमि-मादात्म्यं अत्यन्तम् । इत्युक्तं
भागेऽपि यन्निगद्यते निम्नतरं दक्षिणं ददाति मन्दिनात् ३-
योगतः - महं ज्येष्ठं यत्रमं बभूवे ज्येष्ठे अथो धारणं कर, लोकका
प्रमत्त करता है, मह माया दक्ष्यं बहूनां ही है । जगत् निगज्ज
रहित परमात्मा है, उपदे है । ऐसे ही रचित सत्यव्यभिचारेण -
मिथ्यादक्ष्यं बहूनां ही है । देशे, सुने और अत्रायमं प्राप्ति दृष्ट
भागोंमें जा निम्नतर विचरते देश है, बह निदान दक्ष्य है । और
भी - ५० बह बह ताम ।

शलाका निष्ठापन—Log filling (ज. प्र १०८) ।

शल्य—१. शल्य सामान्यका लक्षण

स ति १/१/३४६/६ शृणाति हिनस्तोति शल्यम् । शरीरात्पुत्रवेशि
काण्डादि प्रहरणं शल्यमिव शल्यं यथा तत् प्राणिनो बाधाकरं तथा
शारीरमानसबाधाहेतुत्वात्कर्मोदगविनाश शल्यमित्युपचर्यते ।
-“शृणाति हिनस्त इति शल्यम्” यह शल्य शब्द की व्युत्पत्ति है ।
शल्यका अर्थ है पीड़ा देनेवाली वस्तु । जब शरीरमें तौटा आदि चुभ
जाता है तो वह शल्य कहलाता है । यहाँ उसके समान जो पीडा-
कर भाव वह शल्य शब्दसे लिया गया है । जिग प्रकाश यौटा आदि
शल्य प्राणियोंको बाधाकर होती है उसी प्रकार शरीर और मन
सम्बन्धी बाधाका कारण होनेसे कर्मोदय जन्तु विकारमें भा
शल्यका उपचार कर लेते हैं । अर्थात् उसे भी शल्य कहते हैं ।
(रा वा १/१/१-२/४४४/२६)

२. शल्य के भेद

भ आ धृ १/१३८-१३९/०४४-०४६ मिच्छादसणसल्ल मायासल्ल निदान-
सल्ल च । अथवा सल्ल कुविहं दवेभे भावे य मोघकव १७३८। तिनिहं
तु भावसल्ल दसणणाणे चरित्तजोगे य । सच्चित्तं य मिससेगे वा वि
वक्खम्मि १६२६। - १ मिथ्यादर्शनशल्य, मायाशल्य और निदान-
शल्य ऐसे शल्यके तीन भेद हैं । (भ. आ./धृ १/२१४/१०१३), (स
वि ७/१०/३४६/८), (रा वा ७/१०/३/१४६/३३), (भ आ वि /
२६/८/२४) । (द्व स/टी १२/१८३/१०) । २ अथवा द्रव्य शल्य और
भावशल्य ऐसे शब्दके दो भेद जानने चाहिए १६२८। (भ. आ / वि /
२६/८/२४) । ३ भाव शल्यके तीन भेद हैं—दर्शन, ज्ञान, चाश्रित
और योग । द्रव्य शल्यके तीन भेद हैं—सचित्तशल्य अचित्तशल्य
और मिश्रशल्य १६३६।

४ बाहुयन्त्रिकीकी मी शारद थी

भा पा धृ १/१०४ वेदादिचयन मया माधुमत्यां कल्पिमिषी धीम् । अभा-
नकेण जाश बाहुमती कित्तिरं यान् १४४। - बाहुयन्त्रिकीने देशादि
ने समस्त गणित ही है; जिया और निर्णय पद धारण किया । ही
भी मान क्याय रूप परिवर्तने कारण विरले काल जातापत्त य.गने
रहनेपर भी गिञ्जि नहीं पायी १४४।

आ अतु २/१८ चक्र निहाम निजवक्षिणभाटसस्य मत्प्रभजननृ एनेन
स तेन मञ्चत् । कनेश तमाप विन बाहुमती चिगय मानो मनागपि
एति मज्जतीं तरासि १८७। - अपनी दार्ष्टिकी भजापर स्थित चक्रको
काहुकर जिम समय बाहुमतीने द्रोहा धारण की थी उस समय उन्हें
तपके द्वारा मुक्त हो जाना चाहिए था । परन्तु वे चिरकाल उन्
लेशोक्तो प्राप्त हुए । नो डीक है बोझा या भी मान नहीं भारी हानि
करता है ।

म पु १६/६ सुगन्दायां महाभाहू अष्टमिन्द्रो दिवोऽग्रत । च्युराना
बाहुमतीत्यामीय बुमारोऽमरभ्रनिभ १६।

म पु १६/१०/४-श्रुतानेन विशवाहृष्टं विस्वादिनिस्तर १४६।
परमावधिमुक्तदृश्यस्य सर्वनिधिमासहय । मन पर्ययभाषे च मशपह
विपुनां मतिपु १४७। सविनद्योभरतापीश सोऽस्मत् इति वरिस्त ।
दृश्यस्य हार्दे वेनासीय तस्यैवाऽपेक्षि केवलय १८६। - आनन्द पुरो-
हितरा जीव जो पहले महाभाहू था सर्वविशिष्टसे च्युत होकर
सुगन्दाके बाहुमती हुआ १६। (अत नियमसे सम्प्रवृत्ति ये) बाहुमती-
की दीक्षाके पश्चात् श्रुतज्ञान बहनेसे समस्त जगत् तथा पूर्वोको
ज्ञानकी शक्ति बह गया थी १४६। वे आधिज्ञानमें परमावधिको
उल्लंघन पर सर्वविधिको प्राप्त हुए थे तथा मन पर्यय ज्ञानमें विपुल-
मति मन पर्यय ज्ञानको प्राप्त हुए थे १४७। (अत सम्प्रदर्शनमें कभी

बताना युक्त नहीं)। वह भरतेश्वर मुझमें सबलेशको प्राप्त हुआ यह विचार बाहुबलीके हृदयमें विद्यमान रहता था, इसलिए केवलज्ञानने भरतकी पूजाकी अपेक्षा की थी। १८६।

* अन्य सम्बन्धित विषय

१. सशाल्य मरण — दे० मरण/१।
० व्रती सशाल्य नहीं होता। — दे० व्रती।

शल्य — पा पु/सर्ग/श्लोक—यह एक विद्याधर था। कौरवोंकी तरफसे पाण्डवोंके साथ लड़ाई की (१६/१९६) उस युद्ध में युधिष्ठिरके हाथों मारा गया (२०/२३६)।

शशिप्रभ—विजयार्थकी उत्तर श्रेणीका एक नगर।—दे विद्याधर।

शाहाबुद्दीन—दिल्लीका सम्राट्। पृथिवीराजको इसने केद किया था। समय—वि १२४६ (ई. ११६३) (सागर धर्मामृतमें उद्धृत-हितैषी पत्रमें प्रकाशित प आशाधर जीका परिचय)।

शान्तनु—१. कुरुवंशकी वशावली स० १ के अनुसार शान्तिपेणका पुत्र तथा धृतराष्ट्रका पिता था। महाभारत कालसे बहुत पहले हुआ था।—दे इतिहास/७/५। २. कुरुवंशकी वशावली स० २ के अनुसार पराशरका पिता था, तथा महाभारतके समय हुआ।—दे इतिहास/७/५। ३. यादव वंशकी वशावलीके अनुसार मथुराके राजा वीरका पुत्र तथा महासेनादि छ पुत्रोंका पिता था।—दे इतिहास/७/१०।

शांतनु—यादव वंशकी वशावलीके अनुसार कृष्णके भाई बलदेवका १४ वाँ पुत्र—दे इतिहास/७/१०।

शांतभद्र—ई. स. ७०० में न्याय विन्दु टोकाकार एक बौद्ध मतानुयायी था। (सि. वि/३३ पं महेन्द्र)।

शातरिक्ष—२क नौद्र मतानुयायी था। ई स ७४३ में तिब्बतकी यात्रा की थी। कृति—तत्त्वसंग्रह, वादन्यायकी टोका। समय—ई ७०५-७६२ (सि वि/३५ प. महेन्द्र)।

शांति—दे सामायिक/१/१।

शांति कीर्ति—नन्दिसस्य बलात्कार गणकी गुर्वावलीके अनुमार आप मेघचन्द्र स १ के शिष्य और मेरुकीर्तिके गुरु थे। समय—वि श स ३२७-६४२ (ई ७०५-७२०)—दे० इतिहास/५/१२।

शांति चक्र पूजा—दे पूजापाठ।

शांति चक्र यंत्रोद्धार—दे यत्र।

शांतिनाथ—(म पु/सर्ग/श्लोक—पूर्व भव स ११ में मगधदेशका राजा शीपेग था (६२/१४०) १० वें में भोगभूमिमें आर्य हुआ (६२/३५७) ६ वें में सोधर्म स्वर्गमें शीप्रभ नामक देव (६२/३७५) ८ वें में अर्ककीर्तिका पुत्र अमिततेज (६२/१५२) ७ वें में तेरहवें स्वर्गमें रविचूल नामक देव हुआ (६२/४१०) छठेमें राजपुत्र अपराजित हुआ। (६२/४१२ ४१३) पाँचवेंमें अच्युतेन्द्र (६३/२६-२७) चौथेमें पूर्व विदेहमें वज्राग्रुध नामक राजपुत्र (६३/३७-३६) तीसरेमें अधो ग्रवे-यकमें अहमिन्द्र। (६३/१४०-१४१) दूसरेमें राजपुत्र मेघरथ (६३/१४२-१४३) पूर्वभवमें सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र था। वर्तमान भवमें १६वें तीर्थ कर हुए हैं। (६३/५०४) युगपत सर्वभव (६३/५०४) वर्तमान भव सम्बन्धी विशेष परिचय—दे० तीर्थकर/५।

शांतिनाथ पुराण—१ ऋचि असग द्वारा (ई ६८८) द्वारा रचित हिन्दी छन्द बद्ध ग्रन्थ है। २. आ शोधर (ई श १४) कृत शान्ति जिन चरित्रकी एक प्राकृत छन्द बद्ध रचना।

शांति यंत्र—दे यन्त्र।

शांति विधान यंत्र—दे यन्त्र।

शांतिसागर—आप दक्षिण देशके भोज ग्राम (बेलगाम) के रहने वाले थे। क्षत्रिय वंशसे सम्बन्ध रखते थे। आपके पिताका नाम भोगगौडा और माताका नाम सत्यवती था। आपका जन्म आपाठ कृ ६ वि स, १६२६ को हुआ था। ६ वर्षकी अवस्थामें आपका विवाह हो गया था परन्तु छह माह पश्चात् ही आपकी पत्नीका देहान्त हो गया। पुन विवाह न कराया। स १६७२ में आपने देवेन्द्रकीर्ति मुनिसे क्षुल्लक दक्षि धारण कर ली। और स, १६७६ में उन्हींसे मुनि दीक्षा ले ली। उस समय आपकी आयु ४७ वर्षकी थी। आपके चारित्रसे प्रभावित होकर आपकी शिष्य मण्डली बढ़ने लगी। यहाँ तक कि जब आप वि १६८४ में सस्य सम्मद शिखर पधारे तो आपके सधमें सात मुनि और क्षुल्लक व ब्रह्मचारी आदि थे। वर्तमान युगमें आपके समान कठोर तपश्चरण करनेवाला अन्य कोई हो सकेगा यह बात हृदय स्वीकार नहीं करता। आप वास्तवमें ही चारित्र चक्रवर्ती थे।

इम कलिकालमें भी आपने आदर्श समाधिमरण किया है यह बड़ा आश्चर्य है। भगवती आराधनामें उपदिष्ट मार्गके अनुसार आपके १२ वर्षकी समाधि धारण की। स २००० (ई १६४३) में आपने भक्त प्रदाराख्यान व्रत धारण कर लिया और १४ अगस्त सन् १६६५ में आकर कुन्धुलगिरि क्षेत्रपर इगिनी व्रत धारण कर लिया।—१८ सितम्बर सन् १६६५ रविवार प्रात ७ बजकर १० मिनटपर आप इस नश्वर देहको त्यागकर स्वर्ग सिधार गये।

२४ अगस्त १६६५ को आप अपने सुयोग्य शिष्य वीर सागर जी को आचार्य पद देकर स्वयं इस भारसे मुक्त हो गये थे। इस प्रकार आपका समय—वि १६७६-२०१२ ई १६१६-१६६५), (घा. सा./प्र./ व श्रीलाल)।

शांतिसेन—१ पुत्राट सधकी गुर्वावलीके अनुसार आप श्री जयसेनके गुरु थे। समय—वि ८६०-१०, ई ७०३-७५३—दे इतिहास/५/१८, २ लाडु ढागड सधकी गुर्वावलीके अनुसार आप धर्मसेनके शिष्य तथा गोपसेनके गुरु थे। समय—वि ६८० (ई ० ६१३)—दे, इतिहास/५/२५।

शातयष्टक—आ पूज्यपाद (ई श ४) द्वारा रचित सस्कृतके ८ रत्नाकमें निम्न शान्तिपाठ।

शात्याचार्य—१ सौराष्ट्र देशके वल्लभीपुर नगरमें इके शिष्य जिनचन्द्रने इके मारकर श्वेताम्बर सधकी स्थापना की। समय—वि १३६-१५६ (ई ७६-६६) विशेष—दे श्वेताम्बर। २ ई ६६३-१११८ में जैन तर्क वार्तिक वृत्तिके वर्ता जेनाचार्य। थे। (सि. वि प्र ७६ प महेन्द्र)।

शाकटायन न्यास—आ प्रभाचन्द्र (ई ६२५-१०२३) द्वारा सस्कृत भाषामें रचित न्याय विषयक ग्रन्थ।

शाकल्य—एक अज्ञानवादी—दे अज्ञानवाद।

शाखा—school (घ/५/प्र २८)।

शातंकर—आरण स्वर्गका प्रथम पटल य इन्द्रज—दे स्वर्ग/५।

शाप—रा वा १/२०/७/२३५/१३ शापोऽनिष्टापादनम्। = अनिष्ट बात कहना शाप है।

शामकुंड—आप तुम्बुलूर आचार्यसे कुछ ही पहले हुए हैं। आपने पद खण्डके प्रथम पाँच खण्डोंपर पठति रूप टोका लिखी है। समय—ई. श. ३ का अपरार्ध। (प स १/प्र ६ H L Jain)।

शामिला यव मध्य—दे यव।

शालगुहा—भरत क्षेत्र का एक नगर—दे मनुष्य/४।

शालिभद्र—भगवान् गीरके तीर्थमें अनुत्तरोपपादक हुए हैं।—दे, अनुत्तरोपपादक।

शालिवाहन—१ भूय वशके मोतमी पुत्र सातकर्णिका ही दूसरा प्रसिद्ध नाम शालिवाहन था। इसने बी नि ६०५ (ई. ८०) में शक वशके अन्तिम राजा नरवाहनको परास्त करनेके उपलक्ष्यमें शक सवत् चलाया था। यह भूय वशका दूसरा राजा था। मगध देशकी राज्य वशावलीके अनुसार इसका समय—बी. नि ६००-६४६ (ई ७४-१२०) विशेष—दे इतिहास/३/३। २. शालिवाहन विक्रम सवत् शक सवत्को ही कहते हैं—दे इतिहास/२।

शालि सिक्थ मत्स्य—दे समूर्च्छन/७।

शाल्मली वृक्ष—देवकुरुमें स्थित अनादि क्षाण्मलीका वृक्ष। यह पृथिवीकायका है।—दे, वृक्ष।

शाल्मली वृक्षस्थल—देवकुरुमें स्थित एक भू भाग जिसमें क्षाण्मली वृक्ष व उसके परिवार वृक्षोंका अवस्थान—दे लोक/७।

शाश्वत उपादान कारण—दे, उपादान।

शाश्वतासंख्यात—दे, असख्यात।

शासन—१. स्या म/२१/२६३/७ आ सामस्त्रयेनानन्तधर्मविशिष्टतया श्यान्तेऽन्यबुद्धयन्ते जीवाजीवाद्य पदार्था यथा सा आह्ना आगम शासनं।—जिसके द्वारा समस्त रूप अनन्तानन्त धर्म विशिष्ट जीवाजीवादिक पदार्थ जाने जाते हैं वह आह्ना या आगम शासन कहलाता है। २. आरमाको जानना समस्त जिन शासनका जानना है।—दे श्रुतकेवली/२/६।

शासन दिवस—दे, महावीर।

शास्त्र—१. कल्प शास्त्रादिका लक्षण

भ आ/वि/१२०/३०७/१४ कल्पयते अभिधीयते येन अपराधानुरूपो दण्ड स कल्प।

भ आ/वि/६१२/८२२/७ स्त्रीपुरुष लक्षण निमित्त, ज्योतिर्ज्ञानं, छन्द अर्थशास्त्र, वेद्य, लौकिकवैदिकसमयाश्च बाह्यशास्त्राणि।—१ जिनमें अपराधके अनुरूप दण्डका विधान कहा है उस शास्त्रको कल्पशास्त्र कहते हैं। २ स्त्री पुरुषके लक्षणोंका वर्णन करनेवाले शास्त्रको निमित्तशास्त्र कहते हैं। ३ ज्योतिर्ज्ञान, छन्दशास्त्र, अर्थशास्त्र, वेद्यक शास्त्र, लौकिक शास्त्र, मन्त्रवाद आदि शास्त्रोंको बाह्यशास्त्र कहते हैं।

भू आ/भाषा/१४४। ४ व्याकरण गणित आदि लौकिक शास्त्र हैं। ५ सिद्धान्त शास्त्र वैदिक शास्त्र कहे जाते हैं, ६ स्याद्वाद न्याय शास्त्र व अध्यात्म शास्त्र सामायिक शास्त्र जानना।

२ शास्त्र लिपिने व पढ़नेमें पूर्व पट् आवश्यक

ध १/पा १/७ मगल-निमित्त हेउ परिमाणं नाम तह य कत्तार। गामरिग ए पि पचत्रा वगलाणउ सरथमाहरियो।—मगल, निमित्त, हेउ परिमाण, नाम, कर्ता इन छह अधिकारोंका व्याख्यान करनेके पश्चात् आपार्य शास्त्रका व्याख्यान करें/१।

३ अन्य सम्बन्धी विषय

१ शास्त्र सामान्यता लक्षण व विषय —दे आगम।

२. शास्त्र उ देरपूजामें कञ्चित् समानता —दे पूजा/३।

३ शास्त्रमें कश्चिद् देजव —दे देव/१/१।

४ शा-न अन्तान्ता सम्बन्धदर्शनमें रयान —दे सम्बन्धदर्शन/११/१।

५ शास्त्रार्थके विधि निषेध सम्बन्धी —दे वाद

शास्त्रज्ञान—दे आगम।

शास्त्रदान—दे दान।

शास्त्र वार्ता समुच्चय—श्वेताम्बराचार्य यशोविजय (ई १६२८-१६८८) द्वारा संस्कृत भाषामें रचित न्याय विषयक ग्रन्थ।

शास्त्राभ्यास—दे स्वाध्याय।

शाहजहाँ—दिल्लीका सम्राट् था। समय—वि, १६८०-१७१५; ई १६२७-१६५८ (स सा./कलश टी/प्र ४ व, शीतल)।

शिकार—दे आखेट।

शिक्षा—भ. आ/वि/६७/१६४/६ शिक्षाश्रुतस्य अध्ययनमिह शिक्षाशब्देनोच्यते। जिणवयण कल्लसहर अहो य रत्तो य पडि-दंरमिदि।—शास्त्राध्ययन करना यह शिक्षा शब्दका अर्थ है। जिनेश्वरका शास्त्र पाप हरनेमें निपुण है अत उसको दिनरात पढ़ना चाहिए।

शिक्षाकाल—दे काल/१।

शिक्षा गुरु—दे गुरु/१।

शिक्षा व्रत—भ आ/पू/२०८२-२०८३ भोगाण परिसखा सामाह्य-मतिहिसविभागो य। पोसहविधी य सञ्चो चतुरो सिक्खाउ वुत्ताओ।२०८२। आशुकारे मरणे अवोच्चिःशणाए जोन्निदासाए। णादीहि वा अयुक्को पच्छिमसखेहणमकासी।२०८३।—भोगोपभोग परिमाण, सामायिक, प्रोषधोपवास, अतिथि सविभाग ये चार शिक्षाव्रत हैं।२०८२। इन व्रतोंको पालनेवाला गृहस्थ सहसा मरण आनेपर जीवितको आशा रहनेपर, जिसके बन्धुगणने दीक्षा लेनेकी सम्मति नहीं दी है ऐसे प्रसंगमें सखेखना धारण करता है। (स, सि/७/२१.२२/३५६.३६३/७.१)।

र क आ/६१ देशावकाशिक वा सामायिक प्रोषधोपवासी वा। वैया-चृत्य शिक्षाव्रतानि चत्वारि शिष्टानि।६१।—देशावकाशिक तथा सामायिक, पोषधोपवास और वैयाचृत्य ये चार शिक्षाव्रत कहे गये हैं।

चा. पा/पू/२६ सामाह्यं च पढम विदिय च तहेव पोसइ भणियं। तइय च अतिहिपुज्ज चउरथ सखेहणा अंते।—पहला सामायिक शिक्षाव्रत, दूसरा प्रोषधव्रत, तीसरा अतिथिपूजा और चौथा शिक्षाव्रत अन्त समय सखेखना है।२६।

वसु आ/२१७-२१६.२७० भोगविरति, परिभोग-निवृत्ति तीसरा अतिथि सविभाग व चौथा सखेखना नामका शिक्षा व्रत होता है।

शिखंडी—द्रुपद राजाका पुत्र था। इसके घाणोंसे ताड़ित होकर भीष्म पितामहने सन्यास धारण कर लिया। (पा पु/१६/२४३)।

शिखरी—रा वा/३/११/११/१८४/१ शिखराणि क्लृटान्यस्य सन्तीति शिखरीति सज्ञायते। अन्यत्रापि तत् सद्भावे रूढिवशाद्विशेषे वृत्ति-शिव्यण्डित—जिसके शिखर अर्थात् कूट हो उसकी शिखरी सज्ञा है। यह रूढ सज्ञा है जैसे कि मोरकी शिखंडी सज्ञा रूढ है। (यह ऐरावत क्षेत्रके दक्षिणमें स्थित पूर्वापर लम्बायमान वर्षाधर पर्वत है)। विशेष—दे लोक/३/४। २. शिखरी पर्वतस्थ एक कूट व उसका स्वामी देव—दे, लोक/७। ३. पच हदमें स्थित एक कूट—दे लोक/७।

शिखाचारण ऋद्धि—दे ऋद्धि/४।

शिप्रा—भरत क्षेत्र आर्य खण्डको एक नदी—दे मनुष्य/४।

शिरःकंप—कालका परिमाण विशेष। अपरनाम श्रोकरूप—दे, गणित/१/१।

शिरोन्नति—दे नमस्कार ।

शिला—नरककी तृतीय पृथिवी—दे, नरक/५ ।

शिल्पकर्म—दे सायब/३ ।

शिल्पि संहिता—आ वीरनन्द २ (ई श १०-११) की एक रचना है ।

शिवंकर—विजयार्थको उत्तर श्रेणीका एक नगर—दे विद्याधर ।

शिव—भूतकालीन तेरहवें तीर्थंकर—दे तीर्थंकर/५ ।

शिव—स, श /टी २/२२२/२५ शिव परमसौख्य परम कल्याण निर्वाण चोच्यते । = परम कल्याण अथवा परम सौख्यमय निर्वाणको शिव कहते हैं ।

स, सा /ता, वृ /३७३-३=२/४६२/१८ वीतरागसहजपरमानन्दरूप शिव-शब्दवाच्य मुख = वीतराग परमानन्द रूप मुख शिव शब्दना वाच्य है । (प, प्र /टी २/६) ।

द्र स /टी, १४/४७ पर उद्घृत-शिव परमकल्याण निर्वाण ज्ञानमक्षयम् । प्राप्त मुक्तिपद येन स शिव परिकीर्तित । इति श्लोक कथित-लक्षण शिव । = शिव यानी परम कल्याण निर्वाण एव अक्षय ज्ञान रूप मुक्त पदको जिसने प्राप्त किया वह शिव कहलाता है ।

भा. पा /टी /१४६/२६३/६ शिव परमकल्याणभूत शिवति लोकग्रे गच्छतीति शिव । = शिव अर्थात् परम कल्याणभूत होता है, और लोकके अग्र भागमें जाता है वह शिव है ।

शिवकुमार—१ वल्लव वशी शिव स्कन्दका दूसरा नाम था । इनकी राजधानी कांचीपुर (कांजीवरम्) थी । पचास्तिकायकी रचना इन्हींके लिए हुई थी । तदनुसार इनका समय ई श २ आता है (प्रो फे, ए चक्रवर्ती नायनार M. A. L. T) दे शिव स्कन्द ।

शिव कुमार वेलाव्रत—सर्व साधारण विधिमें ७-८ व १३-१४ का वेला तथा ६, १५ का पारणा । इस प्रकार प्रतिमास ४ वेले व ४ पारणा । यदि शक्ति हो तो १ वेला व १ पारणाका क्रम १००० वर्ष (१) तक निभाये । नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप करे । (व्रत विधान स. /पृ १११) ।

शिवकोटि—१ यह बहुत प्राचीन आचार्य हुए हैं । इनकी रचना भगवती आराधनाकी कुछ गाथाओंको पढ़नेसे ऐसा अनुमान होता है कि उस यह समय हुए थे जब कि जैन सधमें कुछ शिथिलाचारका प्रवेश हो चुका था । कोई कोई साधु पात्र भी रखने लग गये थे तथा घरोंसे माँगकर भोजन लाने लग गये थे । परन्तु अभी तक प्रगट रूपसे श्वेताम्बर सधकी स्थापना नहीं हो पायी थी । यद्यपि उस समय साधु संघमें शिथिलाचार आ चुका था, पर यह स्वयं अपने मार्गपर दृढ़ थे । इसलिए इन्होंने अपने नामके साथ पाणिपात्राहारी विशेषण लगाकर उल्लेख किया है । इसका अर्थ है कि कुन्दकुन्द व उमा स्वामीसे भी पहलेके आचार्य हैं, परन्तु किसीकी भी गुर्विला-में आपका नाम प्राप्त नहीं होता । आप बलदेव सूरि आर्यजिननन्द आर्य सर्वगुप्त, आर्य मित्रनन्दके शिष्य थे । ये रुद्र इनके शिक्षा गुरु रहे होंगे । यद्यपि इनको समन्तभद्रका शिष्य कहा जाता है पर प्रेमीजी को यह स्वीकार नहीं । कृति—भगवती आगधना । प जुगलकिशोर जीके अनुसार इन्होंने तत्त्वार्थ सूत्रकी एक टीका भी रची थी जो अनुपलब्ध है । समय—वि श, १ (भ आ /प्र ३, २६ जिनदास, प्रेमीजी । २ एक दिगम्बर साधु थे । कृति—रत्नमाला, तत्त्वार्थ सूत्रकी टीका । रत्नमाला एक शिथिलाचार पोषक ग्रन्थ है और सम्भवत यशस्तिनरु चम्पू (वि १०१६) के पश्चात् लिखा गया है । (भ आ /प्र ७-६) । ३—वाराणसीके राजा थे । शिव थे । समन्त-भद्र आचार्यके द्वारा स्तात्रके प्रभावसे शिवलिंगका फटना व उसमेंसे

चन्द्रप्रभु भगवान्की प्रतिमाका प्रगट होना देखकर उनके शिष्य बन गये थे । पीछे उनमें ही जिन दीक्षा ले ली थी । समन्तभद्रके अनुसार इनका समय ई श २ आता है । (प्रभाचन्द्र व नेमिदत्तके कथाकोशके आधारपर भ आ /प्र ४ प्रेमीजी) ।

शिवगुप्ति—पुत्राट सधकी गुर्विलोके अनुसार आप गुप्ति ऋद्धिके शिष्य तथा अर्हद्बलिके गुरु थे । समय—वी नि ५६० (ई ३३)—दे इतिहास १५/१८ ।

शिवतत्त्व—दे ध्यान/४/५ शिवतत्त्व वास्तवमें आत्मा है ।

हा /२१/१८ युगपरप्रादुर्भूतानन्तचतुष्टयो घनपटलत्रिगमे सवितु प्रतापकाशाभ्यव्यक्तित्व स खन्वयमारमेव परमात्मव्यपदेशभाभ्यव्यति । = युगपत् अनन्तज्ञान-दर्शन-मुख-वीर्यरूप चतुष्टय जिसके ऐसा, जैसे—मेघ पटलोंके दूर हानेसे सूर्यका प्रताप और प्रकाश युगपत् प्रकट होता है, उसी प्रकार प्रगट हुआ आत्मा ही निश्चय करके परमात्माके व्यपदेशका धारक होता है । (इसीको शिव तत्त्व कहते हैं ।)

शिवदत्त—श्रुतावतार सं २ के अनुसार भगवान् महावीरकी मूल परम्परामें लोहाचार्यके पश्चात्वाले चार आचार्योंमें आपका नाम है । समय—वी नि ५६५-५६६ ई २८-५८ ।—दे इतिहास/४/१ ।

शिवदेव—ज्ञान समुद्रस्थ उदक व उदकाभास पर्वतका स्वामी देव । दे. लोक/७ ।

शिवदेवी—भगवान् नेमिनाथकी माता—दे तीर्थंकर/५ ।

शिव मंदिर—१ विजयार्थकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर ।—दे, विद्याधर । २ विजयार्थकी उत्तर श्रेणीका एक नगर—दे विद्याधर ।

शिवमत—दे वैशेषिक मत ।

शिवमार द्वि—ई ८१०में गगवशी नरेश श्रीगुरुके उत्तराधि-कारी थे । (सि वि /३६ प महेन्द्र)

शिव मृगेश्वर—आप कदम्ब वशी राजा थे । चालुक्य वंशी राजा कीर्तिवर्ध द्वारा बादामी नगरी में श ५०० में कदम्ब वशीका नाश हुआ था । अत कदम्बवशी इनका समय लगभग श स. ४५०-५०० (वि ५८५) (ई ५२८-५७८) आता है । (जे सि, प्र /के समय प्राभृतमें K B Pathak)

शिवलाल (पं०)—आप एक उच्चकोटिके विद्वान् थे । अनेक ग्रन्थोंकी देश भाषामय टीकाएँ लिखी हैं । यथा—भगवती आराधना, रत्नकरण्ड आ चर्चासंग्रह, बोधसार, दर्शनसार, अध्यात्म तरंगिनी आदि ग्रन्थोंकी भाषा टीका । समय—वि, १८९८ (ई १७६१), (भ आ /प्र २५ प्रेमीजी) ।

शिव सागर—आप आचार्य शान्तिसागरजीकी आम्नायमें तीसरे नम्बरपर आते हैं । आप शान्ति सागरजीके शिष्य थे । आपने नागोड (राजस्थान) में वि २००६ को शान्ति सागरजीसे दीक्षा ली थी । और वीरसागरजीके पश्चात् वि. २०१४ को आचार्य-पदपर आसीन हुए । समय—वि, २००६ (ई १६४६) ।

शिव स्कंद—पल्लव वशी राजा था । अपरनाम शिवकुमार हो सकता है । और यदि ऐसा है तो कुन्दकुन्दाचार्यका पचास्तिकाय इनके लिए ही लिखा गया था तदनुसार इनका समय ई श २ आता है । परन्तु इनका समय वि श १ निश्चित बताया जाता है । (Prof A चक्रवर्ती नायनार M. A. L. T)

शिवाय—वास्तवमें इनका ही नाम शिवकोटि था, क्योंकि भगवत्जिनसेनने आदि पुराणमें इसी नामका उल्लेख किया है । आर्य तो इनका विशेषण था जैसे कि स्वयं इन्होंने अपने तीनों गुरुओंके

दोनोंसे ही उत्पन्न होनेवाले कार्यकी उनमेंसे एकके द्वारा उत्पत्ति का विरोध है। प्रश्न—इनकी सम्भावना यहाँ भले ही हो, पर ज्ञान विनयकी सम्भावना नहीं हो सकती। उत्तर—ऐसा नहीं है, क्योंकि छह द्रव्य, नौ पदार्थोंके समूह और त्रिभुवनको विषय करनेवाले एव बार-बार उपयोग विषयको प्राप्त होनेवाले ज्ञान विनयके बिना शीलव्रतोंके कारण भूत सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति नहीं बन सकती। शील व्रत विषयक निरतिचारतामें चारित्र्य विनयका भी अभाव नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यथाशक्तितप, आवश्यकपरिहीनता और प्रवचनवत्सलता लक्षण चारित्र्य विनयके बिना शील व्रत विषयक निरतिचारताकी उत्पत्ति ही नहीं बनती। इस कारण यह तीर्थंकर नामकर्मके बन्धका तीसरा कारण है।

* एक ही भावनासे तीर्थंकरत्वकी सम्भावना

—दे० भावना/२।

* ब्रह्मचर्य विषयक शील—दे० ब्रह्मचर्य/१।

शील कथा—कवि भारामल (ई १७६६) द्वारा हिन्दी भाषामें रचित कथा।

शील कल्याणक व्रत—दे कल्याणक व्रत।

शील पाहुड़—आ कुन्दकुन्द (ई १२७-१७६) कृत ज्ञान व चारित्र्यका समन्वयारमक, ४० (प्रा) गाथा निबद्ध ग्रन्थ है। इसपर केवल ५ जयचन्द्र छावड़ा (ई १८६७) कृत भाषा वचनिका उपलब्ध है।

शील व्रत—प्रतिवर्ष वैशाख शु ६ के दिन (अभिनन्दन नाथ भगवाणका मोक्ष कल्याणक दिवस) उपवास। इस प्रकार १६ वर्ष पर्यन्त करे। 'ओं ह्रीं अभिनन्दनजिनाय नमः' इस मन्त्रका त्रिकाल जाप करे। (व्रतविधान स./पृ ८६)।

शीलव्रतेष्वनतिचार भावना—दे. शील।

शील सप्तमी व्रत—सात वर्ष पर्यन्त प्रतिवर्ष भाद्रपद शु ७ को उपवास करे। तथा नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप करे। (व्रत विधान स./पृ १०४) (कथाकोष)।

शुभा—पूर्वविदेहस्थ रमणिया क्षेत्रकी मुख्य नगरी—दे लोक/७।

शुक्ति—भरत क्षेत्रमें शुक्तिमती नदीपर स्थित एक नगर—दे मनुष्य/४।

शुक्तिमती—भरतक्षेत्र आर्य खण्डकी एक नदी—दे मनुष्य/४।

शुक—१ औदारिक शरीरमें शुक धातुका निर्देश—दे औदारिक/१, २ एक ग्रह—दे ग्रह, ३ शुक ग्रहका लोकमें अवस्थान—दे ज्योतिष/२, ४ कल्पवासी देवोंका एक भेद—दे स्वर्ग/३, ५ कल्प स्वर्गोंका नवमां कल्प—दे स्वर्ग/५, ६ शुक स्वर्गका प्रथम पटल व इन्द्रक—दे स्वर्ग/५।

शुक्लध्यान—ध्यान करते हुए साधुको बुद्धिपूर्वक राग समाप्त हो जानेपर जो निर्विकल्प समाधि प्रगट होती है, उसे शुक्लध्यान या रूपातीत ध्यान कहते हैं। इसकी भी उत्तरोत्तर वृद्धिगत चार श्रेणियाँ हैं। पहली श्रेणीमें अबुद्धिपूर्वक ही ज्ञानमें ज्ञेय पदार्थोंकी तथा योग प्रवृत्तियोंकी सक्कान्ति होती रहती है, अगली श्रेणियोंमें यह भी नहीं रहती। रसन दीपककी ज्योतिही भाँति निष्कप होकर ठहरता है। श्वास निरोध इममें करना नहीं पड़ता अपितु स्वयं हो जाता है। यह ध्यान साक्षात् मोक्षा कारण है।

१	भेद व लक्षण
१	शुक्लध्यान सामान्यका लक्षण
*	शुक्लध्यानमें शुक्ल शब्दकी सार्थकता —दे शुक्लध्यान/१/१।
*	शुक्लध्यानके अपरनाम —दे, मोक्षमार्ग/२/५।
०	शुक्लध्यानके भेद
३	वाह्य व आध्यात्मिक शुक्लध्यानका लक्षण
४	शून्य ध्यानका लक्षण
५	पृथक्त्व वितर्क विचारका स्वरूप
६	एकत्व वितर्क अविचारका स्वरूप
७	सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपातीका स्वरूप
८	समुच्छिन्न क्रिया निवृत्तिका स्वरूप
२	शुक्लध्यान निर्देश
*	ध्यानयोग्य द्रव्य क्षेत्र आसनादि —दे कृतिकर्म/३।
*	धर्म व शुक्लध्यानमें कथंचित् भेदाभेद —दे, धर्मध्यान/३।
*	शुक्लध्यानमें कथंचित् विकल्पता व निर्विकल्पता व क्रमाक्रमवर्तिपना —दे विकल्प।
*	शुक्लध्यान व रूपातीत ध्यानकी एकार्थता —दे पद्धति।
*	शुक्ल ध्यान व निर्विकल्प समाधिकी एकार्थता —दे पद्धति।
*	शुक्लध्यान व शुद्धात्मानुभव की एकार्थता—दे पद्धति।
*	शुद्धात्मानुभव —दे अनुभव।
*	शुक्लध्यानके वाह्य चिह्न —दे ध्याता/५।
१	शुक्लध्यानमें श्वातोच्छ्वासका निरोध हो जाता है।
२	पृथक्त्ववितर्कमें प्रतिपातीपना सम्भव है।
३	एकत्व वितर्कमें प्रतिपातीपना विधि निषेध।
४	चारों शुक्लध्यानमें अन्तर।
५	शुक्लध्यानमें सम्भ्रव भाव व लेश्या
*	शुक्लध्यानमें सहनन सम्बन्धी नियम —दे सहनन।
१	पंचमकालमें शुक्लध्यान सम्भव नहीं—दे, धर्मध्यान/५।
३	शुक्लध्यानोका स्वामित्व व फल
१	शुक्लध्यानके योग्य जयन्त्य उत्कृष्ट ज्ञान —दे ध्याता/१।
१	पृथक्त्व वितर्क विचारका स्वामित्व
०	एकत्व वितर्क विचारका स्वामित्व
३	उपशान्त कपायमें एकत्व वितर्क कीमे
४	सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती व सूक्ष्म क्रिया निवृत्तिका स्वामित्व।
५	श्रीको शुक्लध्यान सम्भव नहीं।
६	चारों ध्यानोका फल।

* शुक्ल व धर्म-ध्यानके फलमें अन्तर	—दे धर्मध्यान/२/७।
* ध्यानकी महिमा	—दे ध्या/२।
४ शांति-समाधान	
१ समाप्ति करने ध्यान कैसे सम्भव है।	
* प्रथम शुक्लध्यानमें उपयोगकी युगपत् दो धाराएँ	—दे उपयोग/१/२/१।
२ योग समाप्ति का कारण।	
३ योग समाप्ति कथका कारण नहीं रागादि हैं।	
* प्रथम शुक्लध्यानमें गग अत्यन्त है	—दे गग/३।
* केतलीको शुक्लध्यानके अन्तर्गत सम्बन्धी शक्तों	—दे केतली/६।

१ भेद व लक्षण

१. शुक्लध्यान सामान्यका लक्षण

स. सि /६/२८/२४/११ शुचिगुणयोगाच्छुक्लम् । (यथा मनःप्रवृत्त्याप-
यात् शुचिगुणयोगाच्छुक्लं वस्तु तथा तद्गुणनाधर्म्यादिरमपरिणात-
स्वरूपमपि शुक्लमिति निरुच्यते । रा वा) ।—जिसमें शुचि गुणना
सम्बन्ध है वह शुक्ल ध्यान है। [जैसे मन हट जानेमें वस्त्र शुचि
होकर शुक्ल रहलाता है उसी तरह निर्मल गुणयुक्त आत्म परिणति
भी शुक्ल है। रा वा] (रा वा /६/२८/२/६/२७/३१) ।

ध १३/४.४.२६/००/६ कुटो पदस्य युक्तं कसामयनाभागात् ।— ७ पाप
मलका अभाव होनेसे इने शुक्लपना प्राप्त है।

का अ /सू /४२३ जस्यगुणा सुविमुक्ता उपमम-खमर्णं च जस्य कस्मान् ।
सेसा वि जस्य मुक्ता त सुखं भण्यते भाण १४२३।—जहाँ गुण अति-
विशुद्ध होते हैं, जहाँ कर्मोंना क्षय और उपशम होते हैं, जहाँ लेप्सा
भी शुक्ल होती है उसे शुक्लध्यान कहते हैं १४२३।

द्वा /४२/२ निष्क्रिय करणातीत ध्यानधारणवर्जितम् । अन्तर्मुखं च
यच्चित्तं तच्छुक्लमिति पठ्यते । १। शुचिगुणयोगाच्छुक्लं कषायरजस
क्षयाद्युपशमाद्वा । वेद्व्यमणिशिला इव सुनिर्मल निष्प्रकम्प च ।—१
जो निष्क्रिय व इन्द्रियातीत है। 'मै ध्यान कसू' इस प्रकारके ध्यान-
की धारणासे रहित हैं, जिसमें चित्त अन्तर्मुख है वह शुक्लध्यान
है। १। २ आत्माके शुचि गुणके सम्बन्धसे इसका नाम शुक्ल पडा
है। कषायरूपी रजसे क्षयमें अथवा उपशमसे आत्माके सुनिर्मल
परिणाम होते हैं, वही शुचिगुणका योग है। और वह शुक्लध्यान
वेद्व्यमणिकी अत्माके समान सुनिर्मल और निष्कम्प है। (त अत्रु /
२२१-२२२) ।

द म /सू /६६ मां चिद्वह मां जपह मां चिन्तह किरिजेण होह धिरा ।
अप्या अप्पम्मि रओ इणमेव पर हवे उक्काण १४६।—हे भव्य । कुछ
भी चेष्टा मत कर, कुछ भी मत बोल, और कुछ भी चिन्तवन मत
कर, जिससे आत्मा निजआत्मामें तल्लीन होकर स्थिर हो जावे,
आत्मामें लीन होना ही परम ध्यान है ६६।

नि मा /ता वृ /१२३ ध्यानध्येयध्यातृत्तत्फलादिविधिविषयविकल्पनिर्मु-
क्तान्तर्मुखान्कारनिखिलरुग्णप्राप्तोचरनिर्जननिजपरमतराविचल

विधितरुगुणध्यानम् ।—ध्यात ध्येय-ध्याता, ध्यानका वस्तु आदिने
विधिविध विरथापि विमुक्त, अन्तर्मुखान्कार, समस्त इन्द्रिय मनुह
अगोचर निरंजना निज परमध्यानमें प्रविष्टान् विधितरुः मह निष्कम्प
शुक्लध्यान है। (ता वृ /१२ /८६) ।

प्र मा /ता वृ /१२ रागादिभिः पराहितस्य मनस्य ध्यानमागमनायमा
शुक्लध्यानम् ।—रागादि विषयों, रहित मनमेंदेन ध्यानका प्राप्त
भावमें शुक्लध्यान वट है।

द म /टो /४८/२०/३ मन्दादात्मनि निर्विकल्पममादिनाम् शुक्ल-
ध्यानम् ।—निज सुदारमन विरथ रहित समाधिस्थ शुक्लध्यान है।
भा पा, टो /-८, २२/१८ मन्दादात्मनि निर्विकल्पममादिनाम् शुक्ल-
रहित आत्मासे प्राप्तध्यान शुक्ल ध्यान है।

२ शुक्लध्यानके भेद

भा आ /सू /१८०८-१८०९ उन्मार्तुपुत्रमतिरुग्णविचार एवे पठमशुक्ल ।
मनितवोपत्तारोपात् उन्मार्तुपुत्रमतिरुग्णविचार १८०८। शुक्लमितिः तु
तरिय सुदारउभाण विवेदि पठ्यते । येनि चउत्थं सुक्क जिं
ममुत्तिरुग्णविचिय तु १८०९।—प्रथम शक्तिर्क मतिचार शुक्लध्यान,
द्वितीय मनिर्क पररयोचार शुक्लध्यान, तृतीया मुहममिया नामक
शुक्लध्यान, चौथा समुच्चिदन्न जिंया नामक शुक्लध्यान वटा गया
है। (सू. आ. /२०८-२०९), (त वृ /६/२६), (रा वा /१/०/१/२०/
१६), (ध १३/४ २, २६/००/१०), (हा /२०/६ ११), (द म /टो /
४८/२०३/३) ।

पा मा /२०३/४ शुक्लध्यान द्विविधं, शुक्ल परमशुक्लमिति । एक
द्विविध पृथक्पथवितर्कबीजाभेदवर्णितवर्णवितर्कविचारमिति । परमशुक्ल
द्विविध मुहममियाप्रतिपादितमुच्चिदन्नविचारमितिः शुक्लध्यानमेव । भेद
है—एक शुक्ल और दूसरा परम शुक्ल । उनमें भी शुक्लध्यान दो
प्रकारका है—पृथक्पथवितर्कविचार और दूसरा परमवितर्क विचार।
परम शुक्ल भी दो प्रकारका है—मुहममियाप्रतिपादी और दूसरा
समुच्चिदन्नविचारमितिः । इ र मम्य शुक्लध्यानके मू ल भी दो
प्रकार हैं—एक बाह्य दूसरा आध्यात्मिक ।

३. बाह्य व आध्यात्मिक शुक्लध्यानका लक्षण

पा मा /२०३/१ मादनेत्रपरिरुन्दविरहित उन्मार्तुपुत्रमतिरुग्णविचारमिति-
तममभिव्यक्ताणापानप्रचाररुमुच्चिदन्नप्राणापानप्रचाररुमपराजितस्य
बाह्य, तदनुमेय परेणामात्मन स्वस्वैकमाध्यात्मिकं लक्ष्यते ।
—शरीर और नेत्रांको स्पन्द रहित रूपका जंभा जम्मा चहंगार
आदि नहीं होना, प्राणापानका प्रचार व्यक्त होना अथवा प्राणा-
पानका प्रचार उठ हो जाना बाह्य शुक्लध्यान है। यह बाह्य शुक्ल-
ध्यान अन्य लोगोंको अनुभासते जाना जा सकता है तथा जो नेत्र
आत्माको स्वस्वदेन हा यह आध्यात्मिक शुक्लध्यान कहा
जाता है।

४. शून्यध्यानका लक्षण

ज्ञानमार/३७ ४० किं कुरुता सात्मक परमार्थेन शाखा । पश्चिह कुरु
पथाव ध्यानाभ्यास निरानन्दम् १३७ तथा प्रथम तथा द्वितीय तृतीय
त्रिनेत्रिणायो चरमाना । प्राप्नोति ससुखपरधान तथायोगी स्थूलत
शून्याय १३८ रागादिभि विमुक्त गतमोह तत्परिणतं ज्ञानम् ।
जिनशासने भणितं शून्य इदमीहदा मनुते १३९। इन्द्रियविषयातीत
अमन्तन्त्र-अधेय-धारणाः । नभ रुदक्षमपि न गगनं तव शून्य
केवल ज्ञानम् १३९। नाह करणापि सनय न कोऽपि वे आस्त जह च
एकाकी । इति शून्य ध्यानज्ञाने लभते योगी पर स्थानम् १४३। मन-
वचन-काय-मस्तर-ममस्वतनुधनकलादिभि अन्योऽहम् इति शून्य-

ध्यानयुक्त न लिप्यते पुण्यपापेन ।४४। शुद्धात्मा तनुमात्र ज्ञानी चेतन-
गुणोऽहम् एकोऽहम् । इति ध्याने योगी प्राप्नोति परमात्मक स्थानम्
।४५। अभ्यन्तर च कृत्वा बहिरर्थसुखानि कुरु शून्यतनुम् । निश्चिन्त
स्तथा हस पुरुष पुन केवली भवति । ४७। = बहुते कहनेसे क्या ?
परमार्थसे मालम्बन ध्यान (धर्मध्यान) को जानकर उसे छोड़ना
चाहिए तथा तत्पश्चात् निरालम्बन ध्यानका अभ्यास करना चाहिए
।३७। प्रथम द्वितीय आदि श्रेणियोंको पार करता हुआ वह योगी चरम
स्थानमें पहुँचकर स्थूलत शून्य हो जाता है । ३८। क्योंकि रागादिसे मुक्त,
मोह रहित, रस वभाव परिणत ज्ञान ही जिनशासनमें शून्य कहा जाता
है । ४१। इन्द्रिय विषयोंसे अतीत, मन्त्र, तन्त्र तथा धारणा आदि
रूप ध्येयोंसे रहित जो आकाश न होते हुए भी आकाशवत् निर्मल
है, वह ज्ञान मात्र शून्य कहलाता है । ४२। मैं किसीका नहीं, पुत्रादि
कोई भी मेरे नहीं है, मैं अकेला हूँ शून्य ध्यानके ज्ञानमें योगी इस
प्रकारके परम स्थानको प्राप्त करता है । ४३। मन, वचन, काय, मत्सर,
ममत्व, शरीर, धन-धान्य आदिसे मैं शून्य हूँ इस प्रकारके शून्य ध्यान-
से युक्त योगी पुण्य पापसे लिप्त नहीं होता । ४४। मैं शुद्धात्मा हूँ, शरीर
मात्र हूँ, ज्ञानी हूँ, चेतन गुण स्वरूप हूँ, एक हूँ, इस प्रकारके ध्यानसे
योगी परमात्म स्थानको प्राप्त करता है । ४५। अभ्यन्तरको निश्चित
करके तथा बाह्य पदार्थों सम्बन्धी सुखों व शरीरको शून्य करके इस
रूप पुरुष अर्थात् अत्यन्त निर्मल आत्मा केवली हो जाता है । ४७।

आचारसार/७७-८३ जायन्ते विरसा रसा विघटते गोष्ठीकथा कौतुक
शीर्यन्ते विषयास्तथा विरमणात् प्रीति शरीरेऽपि च । जोषं वागपि
धारयत्प्रविरतानन्दारामन स्वात्मनश्चिन्तायामपि यातुमिच्छति
मनोदोषै सम पञ्चताम् । ७७। यत्र न ध्यान ध्येय ध्यातारौ नैव
चिन्तन किमपि । न च धारणा विकल्परत शून्य मुक्तु भावये । ७८।
शून्यध्यानप्रविष्टो योगी स्वसद्भावसपन्न । परमानन्दस्थितो भूतावस्थ
स्फुट भवति । ७९। तत्त्रिकमयो ह्यात्मा अवशेषालम्बनै परिमुक्त ।
उक्त स तेन शून्यो ज्ञानिभिर्न सर्वथा शून्य । ८०। यावद्विकल्प
कश्चिदपि जायते योगिनो ध्यानयुक्तस्य । तावन्न शून्य ध्यानं चिन्ता
वा भावनाथवा । ८१। = सब रस विरस हो जाते हैं, कथा गोष्ठी व
कौतुक विघट जाते हैं, इन्द्रियोंके विषय मुरझा जाते हैं, तथा शरीर-
में प्रीति भी समाप्त हो जाती है । ७७। जहाँ न ध्यान है, न ध्येय है, न
ध्याता है, न कुछ चिन्तन है, न धारणाके विकल्प है, ऐसे शून्यको
भली प्रकार भाना चाहिए । ७८। शून्य ध्यानमें प्रविष्ट योगी स्व स्व-
भावसे सम्पन्न, परमानन्दमें स्थित तथा प्रगट भरितावस्थावत् होता
है । ७९। ज्ञानदर्शन चारित्र इन तीनों मयी आत्मा निश्चयसे अवशेष
समस्त अवलम्बनोंसे मुक्त हो जाता है । इसलिए वह शून्य कहलाता
है, सर्वथा शून्य नहीं । ८०। ध्यान युक्त योगीको जब तक कुछ भी
विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, तब तक वह शून्य ध्यान नहीं, वह या
तो चिन्ता है या भावना ।

५. पृथक्त्व वितर्क वीचारका स्वरूप

भा आ /सू /१८००. १८०२ द०याई अणोयाई ताहि वि जोगेहि जेण-
ज्मायति । उवसंतमोहणज्जा तेण पुधत्तत्ति त भणिया । १८००।
अस्थान वज्जाण य जोगाण य सकमो हु वीचारो । तस्स य भावेण
तय मुत्ते उत सवीचार । १८०२। = इस पृथक्त्व वितर्क वीचार ध्यान-
में अनेक द्रव्य विषय होते हैं और इन विषयोंका विचार करते समय
उपशान्त मोह मुनि इन मन वचन काय योगोंका परिवर्तन करता
है । १८००। इस ध्यानमें अर्थके वाचक शब्द सक्रमण तथा योगोंका
सक्रमण होता है । ऐसे वीचारों (सक्रमणोंका) का सद्भाव होनेसे
इसे सवीचार कहते हैं । अनेक द्रव्योंका ज्ञान करानेवाला जो शब्द
शुभ वाक्य उससे यह ध्यान उत्पन्न होता है, इसलिए इस ध्यानका
पृथक्त्ववितर्क सवीचार ऐसा नाम है । १८०२।

त. सू /६-४१-४४ एकाश्रये सवितर्कवीचारे पूर्व । ४१। वितर्क' श्रुतम्
। ४३। वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः । ४४। = पहलेके दो ध्यान
एक आश्रयवाले सवितर्क, और सवीचार होते हैं । ४१। वितर्कका अर्थ
श्रुत है । ४३। अर्थ, व्यञ्जन और योगकी संक्रान्ति वीचार है । ४४।
भावार्थ—पृथक्त्व अर्थात् भेद रूपमें वितर्क श्रुतका वीचार अर्थात्
संक्रान्ति जिस ध्यानमें होती है वह पृथक्त्व वितर्क वीचार नामका
ध्यान है । (घ १३/५, ४, २६/७७/११), (क पा १/१.१७/३३२/३४४/६)
(ज्ञा /४२/१३, २०-२२) ।

स. सि. /६/४४/४५/१ तत्र द्रव्यपरमाणु भावपरमाणु वा ध्यायन्ना-
हितवितर्कसामर्थ्य अर्थव्यञ्जने कायवचसी च पृथक्त्वेन सक्रामता
मनसापर्याप्तिसत्त्वालोत्साहव्यवस्थितेनानिश्चितेनापि शस्त्रेण चिरा-
त्तरु' छिन्दन्निव मोहप्रकृतीरुपशमयन्क्षयश्च पृथक्त्ववितर्कवीचार-
ध्यानभाभवति । [पुनर्वर्षविशेषहानेर्योगाद्योगान्तरं व्यञ्जना-
द्वयञ्जनान्तरमर्थादर्थान्तरमाश्रयन् ध्यानविधूतमोहरजा ध्यान-
योगान्निवर्तते इति । पृथक्त्ववितर्कवीचारम् [रा वा] । = जिस
प्रकार अपर्याप्त उत्साहसे बालक अव्यवस्थित और मीथरे शास्त्रके
द्वारा भी चिरकालमें वृक्षको छेदता है उसी प्रकार चित्तकी सामर्थ्य
को प्राप्त कर जो द्रव्यपरमाणु और भावपरमाणुका ध्यान कर रहा
है वह अर्थ और व्यञ्जन तथा काय और वचनमें पृथक्त्वरूपसे
सक्रमण करनेवाले मनके द्वारा मोहनीय कर्मकी प्रकृतियोंका उपशम
और क्षय करता हुआ पृथक्त्व वितर्क वीचार ध्यानको धारण करने-
वाला होता है । फिर शक्तिकी कमीसे योगसे योगान्तर, व्यञ्जनसे
व्यञ्जनान्तर और अर्थसे अर्थान्तरको प्राप्त कर मोहरजका विधूनन-
कर ध्यानसे निवृत्त होता है यह पृथक्त्ववितर्क वीचार ध्यान है ।
(रा वा ६/४४/१/६३४/२५), (म पु /१२/१७०-१७३) ।

ध १३/५, ५, २६/गा, ५-६/७८ दवाइमणेगाई तीहि वि जोगेहि जेण
ज्मायति । उवसंतमोहणज्जा तेण पुधत्त तित्त भणित्त । ६८। जम्हा
मुद विदक्क जम्हा पुव्वगयअत्थकुसलो य । ज्मायदि ज्माण एद-
सविदक्क तेण त ज्माण । ६९। अस्थान वज्जाण य जोगाण य संक-
मो हु वीचारो । तस्स य भावेण तगं मुत्ते उत सवीचार' । ६०।

ध. १३/५, ५, २६/७८ एकद्वव गुणपज्जाय वा पढमसमप बहुणयगहण-
णिलीण सुदरविकिरणुज्जोयवलेण ज्माएदि । एथ त चेव अतोमुहुत्त-
मेत्तकालं ज्माएदि । तदो परदो अत्थतरस्स णियमा सकमदि । अधवा
तम्हि चेव अत्थे गुणस्स पज्जयस्स वा सकमदि । पुव्विण्णजोगादो
गोर्गतर पिसिया सकमदि । एगमत्थमत्थतर गुणगुणतरं पजाय-
पजायतर च हेट्ठोवरि ट्ठविय पुणो तिण्णि जोगे एगपतीए ठविय दुसं-
जोग तिसजोगेहि एत्थ पुधत्तविदक्कवीचारज्माणभगा मादालीस
। ४२। उप्पाएदवा । एवमतोमुहुत्तकालमुवसतक्साओ मुक्खलेस्साओ
पुधत्तविदक्कवीचारज्माणं छदव्व-णवपयत्थविसयमतोमुहुत्तकालं
ज्मायइ । अत्थदो अत्थतरसंक्के सत्ति वि ण ज्माण विणासो, चित्त-
तरगणणाभावादो । = १ यत् उपशान्त मोह जीव अनेक द्रव्योंका
तीनों ही योगोंके आलम्बनसे ध्यान करते हैं इसलिए उसे पृथक्त्व
ऐसा कहा है । ६८। यत् वितर्कका अर्थ श्रुत है और यत् पूर्वगत
अर्थमें कुशल साधु ही इस ध्यानको ध्याते हैं, इसलिए इस ध्यानको
सवितर्क कहा है । ६९। अर्थ, व्यञ्जन और योगोंका सक्रम वीचार
है । जो ऐसे सक्रमसे युक्त होता है उसे सूत्रमें सविचार कहा है
। ६०। (त सा /७/४५-४७) । २ इसका भावार्थ कहते हैं • एक
द्रव्य या गुण-पर्यायको श्रुत रूपी रविकिरणके प्रकाशके बलसे
ध्याता है । इस प्रकार उसी पदार्थको अन्तर्मुहूर्त काल तक ध्याता
है । इसके बाद अर्थान्तरपर नियमसे सक्रमित होता है । अथवा
उसी अर्थके गुण या पर्यायपर सक्रमित होता है । और पूर्व योगसे
स्यात् योगान्तरपर सक्रमित होता है इस तरह एक अर्थ-अर्थान्-
न्तर, गुण-गुणान्तर और पर्याय-पर्यायान्तरको नीचे ऊपर
स्थापित करके फिर तीन योगोंको एक पक्षमें स्थापित करके

द्विसंयोगी और त्रिसंयोगीकी अपेक्षा यहाँ पृथक्त्ववितर्क वीचार ध्यानके ४२ भग उपरान्त करता चाहिए। इस प्रकार शुक्ललेखया वाता उपशान्तकषाय जीव छात्र द्रव्य और नी पदार्थ विषयतः पृथक्त्व वितर्क वीचार ध्यानका अन्तर्मुहूर्त कालतक ध्याता है। अर्थात् अर्थस्तिरका सक्रम होनेपर भी ध्यानका विनाश नहीं होता, क्योंकि इससे चिन्तान्तरमें गमन नहीं होता। (चा सा २०२/१)।

३ स/टी/४८/२०३/६ पृथक्त्ववितर्कविचार जावरक-व्यते। द्रव्य गुणपर्यायार्थाभिन्नता पृथक्त्व भण्यते, स्वशुद्धात्माशुभ्रतिराक्षण भावश्रुत तन्नाचक्रमन्तर्जवपवचन वा विवर्तते भण्यते, अनोहितवृत्तया-थन्तिरपरिणमनम् वचनाद्वाचान्तरपरिणमनम् मनोवचनवाग्ययोगेषु योगायोगात्तरपरिणमन वीचारी भण्यते। अयमप्रार्थ - यद्यपि ध्याता पुरुष स्वशुद्धात्ममवेदन विहाय बहिर्विषयता न करोति तथापि यावत्तदोन्न स्वरूपे स्थिररसं नास्ति तावत्तदोन्नानीहितवृत्तया विरुत्वा स्फुरन्ति, तेन कारणेन पृथक्त्ववितर्कवीचार ध्यान भण्यते। = द्रव्य, गुण और पर्यायके भिन्नपौका पृथक्त्व कहते हैं। त्रिजगद्वात्माका अनुभव रूप भावश्रुतका और निज शुद्धात्माका रहने वाले अन्तर्जवपरूप वचनको 'वितर्क' कहते हैं। इच्छा विना ही एक अर्थसे दूसरे अर्थमें, एक वचनसे दूसरे वचनमें, मन वचन और काय इन तीनों योगमिसे किसी एक योगमें दूसरे योगमें जा परिणमन है, उसको वीचार कहते हैं। इसका यह अर्थ है - यद्यपि ध्यान करनेवाला पुरुष निज शुद्धात्म सवेदनका छोड़कर यात्र पदार्थोंकी चिन्ता नहीं करता, तथापि जितने अर्थोंसे स्वरूपमें स्थिरता नहीं है उतने अर्थोंमें अनिच्छित वृत्तिते विषय उपरत होते हैं, इस कारण इस ध्यानको पृथक्त्व वितर्क वीचार कहते हैं।

६. एकत्व वितर्क अवीचारका स्वरूप

भ आ/सू/१२८८/१६८६ जेणेगमेव दव जोगेणेणेण अणदरेण। खीण-कसायो ज्जायदि तेणेणत्त तय भणितं। १२८९। = इस ध्यानके द्वारा एक ही योगका आशय लेकर एक ही द्रव्यका ध्याता चिन्तन करता है। इसलिए इसको एकत्व वितर्क ध्यान कहा गया है। १२८८।

स सि/१६/४४/४४६/४ स एव पुन समूलतूल मोहनीयं निदिधशान-नन्तगुणविशुद्धियोगविशेषमाधिरय बहुतराणां ज्ञानात्पणीभूतानां प्रकृतीनां बन्धं निरुन्धत् स्थिति हासक्षयौ च कुर्वन् श्रुतज्ञानोपयोगी विशुद्धार्थव्यञ्जनयोगसक्रान्ति अविचलितमना क्षीणकषायो वैदूर्य-मणिरिव निरुपलेपा ध्यात्वा पुनर्न निवर्तत इत्युक्तमेतरनवितर्कम्। = पुन जो समूल मोहनीय कर्मका दाह करना चाहता है, जो अनन्त-गुणी विशुद्धि विशेषको प्राप्त होकर बहुत प्रकारकी ज्ञानावरणीकी महायश्रुत प्रकृतियोंके बन्धको रोक रहा है, जो कर्मोंकी स्थितियों न्यून और नाश कर रहा है, जो श्रुतज्ञानके उपयोगमें युक्त है जो अर्थ, व्यञ्जन और योगकी सक्रान्तिसे रहित है। निश्चलमन वाला है, क्षीणरूपाय है और वैदूर्यमणिके समान निरुपलेप है, इस प्रकार एकत्व वितर्क ध्यान कहा गया है। (ग ग १६/४४/१/६८९/३१)।

ध १३/५,४,२६/गा ६९-६३/७६ जेणेगमेव दव जोगेणेणेण अणदरेण,। खीणकसाया ज्जायदि तेणेणत्त तग भणितं ६९। जम्हा सुद विदवक् जम्हा पुत्रगगअथकुसला य। ज्जायदि भाण एद सविदवक् तेण तज्जाण ६३। अस्थान वजणण य जोगाण य सक्को ह विचारी। तस्स अभावेण तग ज्जाणमवीचारमिदि घुत्तं ६३।

घ १३/५,४,२६/८०/१ णवपयत्थेसु दव-गुण-पज्जयथ दव-गुण-पज्जय-भेदेण ज्जायदि, अणदरेजेणेण अणदराभिधाणेण य तत्थ एगम्हि दव्वे गुणे पज्जाए वा मेरुमहियरोव्व णिच्चलभावेण अट्टियचित्तस्स असत्तेज्जगुणसेडोए कम्मरूढे मालत्तरस्स अणत्तगुणहीणाए सेडोए कम्मापुभाग सोसयत्तस्स तम्माण ट्टिदागो एगजोग-एगामिहाणज्जाणेण घादयत्तस्स अतोमुहुत्तमेत्तत्तलो गच्छति

तदो नेमयीणत्तया इमेचट्टिदीयो मोत्तुण उवग्गिमदराट्टिदिगो घेतुण उदयादिगुणनेट्टिमत्तण रचिय पुणो ट्टिदिदण्ण विना अधट्टिदिमनणेण जगोउज्जगुणोडोए कम्मरूढे पादत्तो गच्छदि जाव खीणकषायपरिममज्जो णि। तस्य खीणकषायपरिममण णाणावरणीय-दणणावरणीय अंतरात्तमाणि विपारंदि। एदंमु णिट्ठेसु वेरत्तणाणी नेजनमणी ज्ञानसमीगिया दाज-माए-भोगु-भोगेसु निष्पराज्जिमो होदि त्त पत्तव्वं। = १. यह क्षीणरूपाय जीव एत ही प्रत्यक्ष किमी एक योगके द्वारा ध्याता करता है, एगम्हि एग ध्याता। एकत्व कहा है। ६९। यह वितर्कका अर्थ द्रव्य है और एगम्हि पूर्णतः अर्थमें शुद्ध मन मायु एग ध्याता। एगा है, एगम्हि एग ध्याता। सतिवर्त कहा है। ६३। अर्थ, व्यञ्जन और योगोंका प्रममता नाम वीचार है। यत उस विचारके प्रभागे यह ध्यान अवीचार कहा है। ६३। (स, गा ७/५८-६०), (ग ग १६, १७/६ ३१/३४/१६)। (गा १२/१३-१६)। ७ जो जीव नी पदार्थोंमेंसे किसी एक पदार्थका द्रव्य, गुण और पर्यायके भेदमें ध्याता करता है। इस प्रकार किसी एक योग और एक द्रव्यके द्वाभ्याममें यहाँ एत द्र-१, गुण या पर्यायमें भेद पदत्तके ज्ञान निरचन भावमें अस्मिन् चित्तार्थमें, अर्थात् यात गुणधेनि तममें कर्मपरिणामना-दाने, अन्त गुणहीन श्रेष्ठिजसके कर्मके अतुरागके दाशित करने-वाने और कर्मोंकी स्थितिका एग माग सथा एग द्रव्यके ज्ञान-मनमें प्राप्त हुए ध्यानके मनसे यात करनेवाने एग जीवका अन्त-मुहूर्त तान गे जाता है। तदनन्तर देप गे क्षीणकषायके ध्यानका प्रमाण स्थितियोंकी मोहद्वर उपरिष्म तम स्थितियोंकी उदयादि धेनि एपमे रचना करके पुन स्थिति त्पश्च घातके विना अ-स्थिति गन्ना आदि ही अन्तस्थात गुणधेनि द्रव्यके कर्म स्वर्धोका घात करता हुआ क्षीण कषायके अन्तिम समयमें शाशवरण, दर्शनादरण य अन्तरागता घात करके वेरत्तज्ञानी, वेदनदर्शनी, अनन्तवीर-धारी तथा ज्ञान लाभ-भोग व उपभोगके विषयमें रहित होता है। (चा सा २०६/३)।

३ स/टी/४८/२०३/४ त्रिजगद्वात्माशुभ्रतिराक्षण भावश्रुत तन्नाचक्रमन्तर्जवपवचन वा विवर्तते भण्यते, अनोहितवृत्तया-थन्तिरपरिणमनम् वचनाद्वाचान्तरपरिणमनम् मनोवचनवाग्ययोगेषु योगायोगात्तरपरिणमन वीचारी भण्यते। अयमप्रार्थ - यद्यपि ध्याता पुरुष स्वशुद्धात्ममवेदन विहाय बहिर्विषयता न करोति तथापि यावत्तदोन्न स्वरूपे स्थिररसं नास्ति तावत्तदोन्नानीहितवृत्तया विरुत्वा स्फुरन्ति, तेन कारणेन पृथक्त्ववितर्कवीचार ध्यान भण्यते। = द्रव्य, गुण और पर्यायके भिन्नपौका पृथक्त्व कहते हैं। त्रिजगद्वात्माका अनुभव रूप भावश्रुतका और निज शुद्धात्माका रहने वाले अन्तर्जवपरूप वचनको 'वितर्क' कहते हैं। इच्छा विना ही एक अर्थसे दूसरे अर्थमें, एक वचनसे दूसरे वचनमें, मन वचन और काय इन तीनों योगमिसे किसी एक योगमें दूसरे योगमें जा परिणमन है, उसको वीचार कहते हैं। इसका यह अर्थ है - यद्यपि ध्यान करनेवाला पुरुष निज शुद्धात्म सवेदनका छोड़कर यात्र पदार्थोंकी चिन्ता नहीं करता, तथापि जितने अर्थोंसे स्वरूपमें स्थिरता नहीं है उतने अर्थोंमें अनिच्छित वृत्तिते विषय उपरत होते हैं, इस कारण इस ध्यानको पृथक्त्व वितर्क वीचार कहते हैं।

७ सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपातीका स्वरूप

भ आ/सू/१२८६-१२८७ अवितवत्तमवीचार सुहमकिरियवधण तदिय-सुत्तक। सुहमम्मि तायजोगे भणितं त सबवभावद १२८६। सुह-मम्मि कायजोगे वट्ठो केवली तदियसुत्तकम्। कायदि गिर भिदुं सुहमत्तणकायजोगेण १२८७। = वितर्क रहित, अवीचार, सूक्ष्म क्रिया करनेवाले आत्माके होता है। यह ध्यान सूक्ष्म काय योगमें है १२८६। प्रयुक्त होता है। त्रिकाल विषयक पदार्थोंको गुणपट्ट प्रगट करनेवाला इस सूक्ष्म काययोगमें रहनेवाले केवली इस तृतीय शुभन-ध्यानके धारक हैं। उस समय सूक्ष्म काययोगका वे निरोध करते हैं १२८७। (भ आ/सू/२११६), (घ १३/५, ४, २६/गा ७२-७३/८३), (त सा ७/५१-५२), (गा १२/५१)।

स.सि १६/४४/४५६/८ एतमेकरवितर्कशुक्लध्यानवैश्वानरनिर्गन्धवातिकर्मन्धन स यदान्तर्मुहूर्तशेषायुष्क तदा सर्वं वाङ्मनसयोगवादेरकाययोग च परिहाप्य सूक्ष्मकाययोगालम्बन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यानमास्कान्दितुमर्हतीति । समीकृतस्थितिशेषकर्मचतुष्टय पूर्वशरीरप्रमाणो भूत्वा सूक्ष्मकाययोगेन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान ध्यायति । = इस प्रकार एकरव वितर्क शुक्लध्यानरूपी अग्निके द्वारा जिसने चार घातिया कर्म रूपी ईंधनको जला दिया है । वह जब आयु कर्ममें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहता है तब सप्त प्रकारके बचन योग, मनोयोग, और वादेर काययोगको त्यागकर सूक्ष्म काययोगका आलम्बन लेकर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यानको स्वीकार करते हैं । परन्तु जब उनकी सयोगी जिनकी आयु अन्तर्मुहूर्त शेष रहती है । तब (समुद्घातके द्वारा) चार कर्मोंकी स्थितिको समान करके अपने पूर्व शरीर प्रमाण होकर सूक्ष्म काययोगके द्वारा सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति ध्यानको स्वीकार करते हैं (रा वा १६/४४/१/६३३/१), (घ, १३/५, ४, २६/८३-८६/१२), (चा सा २/०७/३) ।

घ १३/५, ४, २६/८३/२ सपहि तदिय सुकज्जाणपरुवण कस्सामो । त जहा-क्रिया नाम योग । प्रतिपातितु शील यस्य तत्प्रतिपाति । तत्प्रतिपक्ष अप्रतिपाति । सूक्ष्मक्रिया योगो यस्मिन् तत्सूक्ष्मक्रियम् । सूक्ष्मक्रिय च तदप्रतिपाति च सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यानम् । केवलज्ञानेनापसारितश्रुतज्ञानत्वात् तदवितर्कम् । अर्थान्तरसक्रान्त्यभावात्तदवीचार व्यञ्जन-योगसक्रान्त्यभावाद्वा । कथ तत्सक्रान्त्यभाव । तदवशम्भलेन विना अक्रमेण त्रिकालगोचराशेषावगते । = अथ तीसरे शुक्ल ध्यानका कथन करते हैं यथा—क्रियाका अर्थ योग है वह जिसके पतनशील हो वह प्रतिपाती कहलाता है, और उसका प्रतिपक्ष अप्रतिपाती कहलाता है । जिसमें क्रिया अर्थात् योग सूक्ष्म होता है वह सूक्ष्मक्रिय कहा जाता है, और सूक्ष्मक्रिय होकर जो अप्रतिपाती होता है वह सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाती ध्यान कहलाता है । (द्र स /टी १८/२०४/८) यहाँ केवलज्ञानके द्वारा श्रुतज्ञानका अभाव हो जाता है, इसलिए यह अविचरक है और अर्थान्तरकी सक्रान्तिका अभाव होनेसे अवीचार है, अथवा व्यजन और योगकी सक्रान्तिका अभाव होनेसे अविचार है । प्रश्न—इस ध्यानमें इनकी सक्रान्तिका अभाव कैसे है । उत्तर—इनके अवलम्बनके विना ही युगपत् त्रिकाल गोचर अशेष पदार्थोंका ज्ञान होता है ।

८ समुच्छिन्न क्रिया निवृत्तिका स्वरूप

भ आ /मू १८८८, २१२३ अवियवकमवीचार अणियट्टिमकिरिय च सीलेसि । उक्काण गिरुद्धयोग अपच्छिम उत्तम सुक्क । १८८८ देह-तियमपपरिमोखरथ केवली अजोगी सो । उवयादि समुच्छिण्ण-किरिय तु भाग अपडिवादी । २१२३ । = अन्तिम उत्तम शुक्लध्यान वितर्क रहित है, वीचार रहित है, अनिवृत्ति है, क्रिया रहित है, शैलेशी अवस्थानको प्राप्त है और योग रहित है । (घ १२/५, ४, २६/गा ७७/८७) औदारिक शरीर, तैजस व कर्मण शरीर इन तीन शरीरोंका बन्ध नाश करनेके लिए वे अयोगिकेगली भगवान् समुच्छिन्न क्रिया निवृत्त नामक चतुर्थ शुक्लध्यानको ध्याते हैं (त सा ७/५३ १४) ।

स सि १६/४४/४५६/६ ततस्तदानन्तर समुच्छिन्नक्रियानिवृत्तिध्यानमारभते । समुच्छिन्नप्राणापानप्रचारसर्वकायवाङ्मनायोगमर्षप्रदेशपरिस्पन्दक्रियाव्यापारस्वात् समुच्छिन्ननिवृत्तियुच्यते । = इसके बाद चौथे समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति ध्यानको प्रारम्भ करते हैं । इसमें प्राणापानके प्रचार रूप क्रियाका तथा सप्त प्रकारके काययोग बचनयोग और मनोयोगके द्वारा होनेवाली आत्म प्रदेश परिस्पन्द रूप क्रियाका उच्छेद हो जानेसे इसे समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति ध्यान करते हैं (रा, वा, १६/४४/१/६३३/११), (चा सा, २/०६/२) ।

घ १३/५, ४, २६/८७/६ समुच्छिन्नक्रिया योगो यस्मिन् तत्समुच्छिन्नक्रियम् । समुच्छिन्नक्रिय च अप्रतिपाति च समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाति ध्यानम् । श्रुतरहितत्वात् अविचरकम् । जीवप्रदेशपरिस्पन्दाभावाद्-वीचार अर्थव्यञ्जनयोगसक्रान्त्यभावाद्वा । = जिसमें क्रिया अर्थात् योग सब प्रकारसे उच्छिन्न हो गया है वह समुच्छिन्न क्रिय है और समुच्छिन्न क्रिया होकर जो अप्रतिपाती है वह समुच्छिन्नक्रिया-प्रतिपाति ध्यान है । यह श्रुतज्ञानसे रहित होनेके कारण अविचरक है, जीव प्रदेशोंके परिस्पन्दका अभाव होनेसे अविचार है, या अर्थ, व्यजन और योगकी सक्रान्तिके अभाव होनेसे अविचार है ।
द्र स /टी १८/२०४/६ विशेषेगोपरता निवृत्ता क्रिया यत्र तद् व्युपरत-क्रिय च तदनिवृत्ति चानिवर्तक च तद् व्युपरतक्रियानिवृत्तिसङ्घ चतुर्थशुक्लध्यान । = विशेष रूपसे उपरत अर्थात् दूर हो गयी है क्रिया जिसमें वह व्युपरतक्रिय है, व्युपरतक्रिय हो और अनिवृत्ति हो वह व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामा चतुर्थ शुक्लध्यान है ।

२. शुक्लध्यान निर्देश

१ शुक्ल ध्यानमें श्वासोच्छ्वासका निरोध हो जाता है

प प्र /मू, २/१६२ णास-विणिग्गउ सामहा अंबरि जेत्यु विलाड । तुट्टुह मोहु तड त्तित्तिह मणु अथवणह जाड । १६२ । = नाकसे निकला जो श्वास वह जिस निर्विकल्प समाधिमें मिल जावे, उसी जगह मोह शोध नष्ट हो जाता है, और मन स्थिर हो जाता है । १६२ ।
भ आ /त्रि १८८८/१६११/४ अकिरियं समुच्छिन्नप्राणापानप्रचार । = इस (समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति) ध्यानमें सर्व श्वासोच्छ्वासका प्रचार बन्द हो जाता है ।

२. पृथक्त्व वितर्कमें प्रतिपातपना सम्भव है

घ १३/५, ४, २६/८५ पत्ति तदो परदो अर्थतरस्स णियमा सकमादि (७८/१०) उवसतकसाओ पुथत्तविद्वक्वीचारउक्काण उतोमुहुत्त-काल उक्कायइ (७८/१४) एव एदम्हाडा णिण्डुडगमणाणुवलभादो (७६/१) उवसत । = अर्थसे अर्थान्तरपर नियमसे उक्तमित होता है । इस प्रकार उपशान्त कपाय जीव पृथक्त्व वितर्क वीचार ध्यानको अन्तर्मुहूर्त कालतक ध्याता है । इस प्रकार इस ध्यानके फलसे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती ।

३. एकत्व वितर्क में प्रतिपातका विधि निषेध

स सि १६/४४/४५६/८ ध्यात्वा पुनर्न निवर्तत इद्युत्तमेकत्ववितर्कम् । = वह ध्यान करके पुन नहीं लौटता । इस प्रकार एकत्व वितर्क ध्यान कहा ।
घ १३/५, ४, २६/८१/६ उपसतत्तसायम्मि भवद्धासएहि कमाएशु णिव-दिदम्मि पडिनावुवलभादा । = उपशान्त कपाय जीवके भवद्भय और बालक्षयके निमित्तसे पुन कपायोंके प्राप्त होनेपर एतत्त्व वितर्क-अविचार ध्यानका प्रतिपात देखा जाता है ।

४ चारों शुक्लध्यानोमें अन्तर

भ आ /त्रि १८८४-१८८५/१६८७/२० एकद्रव्यालम्बनत्वेन णिमिनानेक-सर्वपर्यायद्रव्यालम्बनात् प्रथमध्यानान्तरमस्तद्वस्तुविषयान्यां तृतीय-चतुर्थध्यानां च विलक्षणता द्वितीयस्यान्या गायया निवेदिता । क्षीण-कपायग्रहणेन उपशान्तमोहस्वामिदत्वात् । न्येय्यरो, गेवलिन्वा-मिवाभ्यां च भेद पूर्ववदेव । पूर्वव्यापित्तोच्चारणानादकीचा-रत्वं । = यह ध्यान (एकरव वितर्क ध्यान) एक द्रव्यमा ही प्राप्ति करता है इसनिर्ण परिमित अनेक पदार्थों सहित अनेक द्रव्योंका

... ..

३. योग संशान्ति बन्धका कारण नहीं रागादि है

... ..

शुचि—... ..

... ..

शुतभुंग—... ..

शुद्ध—

१ शुद्धका लक्षण

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

२. अन्य सम्बन्धित विषय

१ जीवमें कयचित् शुद्धत्व व अशुद्धत्व । —दे जीव/३ ।

२. शुद्धशुद्ध पारिणामिक भाव । —दे. पारिणामिक ।

शुद्ध चेतना—दे चेतना/१ ।

शुद्धद्रव्याधिक नय—दे, नय/11/१२ ।

शुद्धनय—दे नय/11/६/४ ।

शुद्ध निश्चयनय—दे नय/१/१ ।

शुद्ध पर्यायाधिक नय—दे नय/1V/४ ।

शुद्धमति—भूत कालीन द्वाविशति तीर्थकर—दे, तीर्थकर/४ ।

शुद्धात्म दर्शन—

शुद्धात्म स्वरूप—

शुद्धात्म ज्ञान—

निर्विकल्प समाधिके अपरनाम । —दे मोक्षमार्ग/२/४ ।

शुद्धाद्वैत—दे, वेदान्त/७ ।

शुद्धाभदेव—भूतकालीन पाँचवें तीर्थकर—दे तीर्थकर/४ ।

शुद्धि—जैनाम्नायमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भोजनादि आदि रूप अनेक प्रकारकी शुद्धियोंका निर्देश है जिनका विवेक यथायोग्य प्रत्येक धर्मानुष्ठानमें रखना योग्य है ।

१. शुद्धि सामान्यका लक्षण

... ..

२. शुद्धिके भेद

१. समयकी आठ शुद्धियां

... ..

२. सल्लेगना सम्बन्धी अन्तरग व वरिंरग शुद्धियां

... ..

३. शाब्दाय मन्त्रकी चार शुद्धियां

... ..

करनेवाले और घुननेवालोंको भी द्रव्यशुद्धि, क्षेत्रशुद्धि, कालशुद्धि और भावशुद्धिसे व्याख्यान करनेमें या पढ़नेमें प्रवृत्ति करना चाहिए। (विशेष—दे स्वाध्याय/२), (अन घ./६/४/८४७)।

४ लिंग व व्रतकी १० शुद्धियाँ

मू आ /७६६ लिंग वद च मुद्धी वसदि विहार च भिक्खणाण च ।
उज्जमणमुद्धी य पुणे वक्क च तव तथा भाण ७६६। = लिंगशुद्धि,
व्रतशुद्धि, वसतिशुद्धि, विहारशुद्धि, भिक्षाशुद्धि, ज्ञानशुद्धि, उज्जमण-
शुद्धि, वाक्यशुद्धि, तपशुद्धि और ध्यानशुद्धि।

५ लौकिक आठ शुद्धियाँ

दे शुचि । काल, अग्नि, भस्म, मृत्तिका, गोबर, जल, ज्ञान और निर्वि-
चिकित्साके भेदसे आठ प्रकारकी लौकिक शुचि है।

३. मन, वचन व काय शुद्धियोंका लक्षण

भ आ /वि /१६७/३८०/१३ दृष्टफलानपेक्षिता विनयशुद्धि । तस्या
सत्यामुपकरणादिलोभो निरस्तो भवति । = कीर्ति आदर इत्यादि
लौकिक फलोंकी इच्छा छोड़कर साधार्मिक जन, गुरुजन इत्यादिकों-
का विनय करना विनय शुद्धि है, इसके होनेसे उपकरण आदि लोभ-
कार अभाव होता है।

नि. सा /मू /११२ मदमाणमायलोहविवज्जय भावो दु भावमुद्धि त्ति ।
परिकहियं भवमाण लोयालीयप्पदरिसीहिं ॥ = (आलोचना प्रकरणमें)
मद, मान, माया और लोभ रहित भाव वह भाव शुद्धि है। ऐसा
भव्योंको लोकोलोकके द्रष्टाओंने कहा है। ११२। (मू आ /२७६)

नोट - वचनशुद्धि—दे समिति/१।

रा वा /६/६/१६/५६७/४ तत्र भावशुद्धि कर्मक्षयोपशमजनिता मोक्ष-
मार्गरुच्यार्हाहितप्रसादा रागाद्यपुण्यवरहिता । तस्या सत्यामाचार
प्रकाशते परिशुद्धिभित्तिगतचित्रकर्मवत् । कायशुद्धिनिरावरणाभरण
निरस्तसस्कारा यथाजातमलधारिणी निराकृताङ्गविकारा सर्वत्र
प्रयतवृत्ति' प्रशममुखं मूर्तिमिव प्रदर्शयन्तीति । तस्या सत्यां । न
स्वतोऽन्यस्य भयमुपजायते नाप्यन्यतस्तस्य । विनयशुद्धि अर्हदादिपु
परमगुरुपु यथाहं पूजा प्रवणा, ज्ञानादिपु च यथाविधि भक्तियुक्ता
गुरो सर्वत्रानुक्लृप्तवृत्ति, प्रश्नस्वाध्यायवाचनाकथाविज्ञप्त्यादिपु
प्रतिपत्तिकुशला, देशकालभावावबोधनिपुणा, आचार्यानुमतचारिणी ।
तन्मूला सर्वसपद सैषा भूषा पुरुषस्य, सैव नौ ससारसमुद्रतरणे ।
= भावशुद्धि—वर्मके क्षयोपशमसे जन्य, मोक्षमार्गीकी रुचिसे जिसमें
विशुद्धि प्राप्त हुई है और जो रागादि उपद्रवोंसे रहित है वह भाव-
शुद्धि है। इसके होनेसे आचार उसी तरह चमक उठता है जैसे कि
स्वच्छ दिवालपर आलेखित चित्र । कायशुद्धि—यह समस्त आचरण
और आभरणोंसे रहित, शरीर सस्कारसे शुन्य, यथाजात मलको
धारण करनेवाली, अंगविकारसे रहित, और सर्वत्र यस्याचार पूर्वक
प्रवृत्तिरूप है। यह मूर्तिमात्र प्रशममुखकी तरह है। इसके होनेपर
न तो दूसरोंसे अपनेको भय होता है और न अपनेसे दूसरोंको ।
विनयशुद्धि—अर्हन्त आदि परम गुरुओंमें यथायोग्य पूजा-भक्ति
आदि तथा ज्ञान आदिमें यथाविधि भक्तिसे युक्त गुरुओंमें सर्वत्र
अनुक्लृप्त वृत्ति रखनेवाली, प्रश्न स्वाध्याय, वाचना, कथा और
विज्ञप्ति आदिमें कुशल, देश काल और भावके स्वरूपको समझनेमें
तत्पर तथा आचार्यके मतका आचरण करनेवाली विनयशुद्धि है।
समस्त सम्पदाएँ विनयमूलक हैं। यह पुरुषका भूषण है। यह
ससार समुद्रसे पार उतारनेके लिए नौकाके समान है।

घ. ६/४.१.५४/२५४/१० अवगयराग-दोसाहकारट-रुद्धज्जमाणस्स पंच-
महव्यकलिदस्स त्तिपुत्तित्तस्स गाण-दसण-चरणादिचारणवट्ट-
दस्स भिक्खुस्स भावमुद्धो होदि । = राग, द्वेष, अहंकार, आर्त व
रौद्र ध्यानसे रहित, पाँच महाव्रतोंसे युक्त, तीन गुणियोंसे रहित,
तथा ज्ञान दर्शन व चारित्र आदि आचारसे वृद्धिकी प्राप्त भिक्षुके

भावशुद्धि होती है।

वसु था /२२६-२३० चइज्जण अट्टरुहे मणमुद्धी होइ कायव्वा।२२६।
सव्वत्थसपुडगस्स होइ तह कायमुद्धी वि १२३० = आर्त, रौद्र ध्यान
छोड़कर मन शुद्धि करना चाहिए। २२६। सर्व ओरसे सपुटित अर्थात्
विनीत अंग रखनेवाले दातारके कायशुद्धि होती है।

४. द्रव्य क्षेत्र व काल शुद्धियोंके लक्षण

मू आ /२७६ रुहिरादि पूयमम वव्वे ऐत्ते सदहत्थपरिमाण । = लोही,
मल, मूत्र, वीर्य, हाड, पीय मासरूप द्रव्यका शरीरसे सम्बन्ध करना।
उस जगहसे चारों दिशाओंमें सौ सौ हाथ प्रमाण स्थान छोड़ना
क्रमसे द्रव्य व क्षेत्रशुद्धि है।

घ ६/४.१.५४/गा १०३-१०७/०५६ प्रमित्तिररत्तिशत स्यादुच्चार-
विमोक्षणक्षितेरात् । तनुसलिलमोक्षणेऽपि च पञ्चाशदरत्तिरेवात् ।
। १०३। मानुषशरीरलेशाग्रवयव्याप्यत्र दण्डपञ्चाशत् । सशोघ्या
तिररत्ता तदर्द्धमात्रेव भूमि स्यात् । १०४। क्षेत्र सशोध्य पुन स्वहस्त-
पादौ विशोध्य शुद्धमना । प्राशुक्देशावस्थो गृहीगाइ वाचना
पश्चात् । १०७। = मल छोड़नेकी भूमिसे सौ अरत्ति प्रमाण दूर, तनु-
सलिल अर्थात् मूत्र छोड़नेमें भी इस भूमिसे पचास अरत्ति दूर,
मनुष्य शरीरके लेशमात्र अवयवके स्थानसे पचास धनुष तथा
तिर्यचोंके शरीर सम्बन्धी अवयवके स्थानसे उससे आधी मात्र
अर्थात् पच्चीस धनुष प्रमाण भूमिको शुद्ध करना चाहिए। १०३-१०४।
क्षेत्रकी शुद्धि करनेके पश्चात् अपने हाथ और पैरोंको शुद्ध करके
तदनन्तर विशुद्ध मन युक्त होता हुआ प्रासुक देशमें स्थित होकर
वाचनाको ग्रहण करे। १०७।

दे आहार/११/२/१ उद्दगम, उत्पादन, अज्ञान, सयोजना, प्रमाण, अगार,
धूम, कारण—इन दोषोंसे रहित भोजन ग्रहण करना वह आठ प्रकार-
की पिंड (द्रव्य) शुद्धि है।

घ. ६/४.१.५४/२५३-२५४/३ तत्र ज्वर-कुक्षि-शिरोरोग-दु स्वप्न-रुधिर-
विण्-मूत्र-लेपातीसार-पूयसावादीना शरीरे अभवो द्रव्यशुद्धि ।
व्याख्यातुव्यावस्थितप्रदेशात् चतसृपि दिक्ष्वष्टाविंशतिसहस्राया-
तासु-विष्मूत्रास्थि-वेश नख-त्वगाद्यभाव षष्ठातीतवाचनात् आरा-
त्पञ्चेन्द्रियशरीराद्रास्थि-स्वर्मासासुवसवन्धाभावाश्च क्षेत्रशुद्धि ।
विद्यु दिन्द्रधनुर्ग्रहापरागाकालवृष्टयभ्रगर्जन - जीमूतनातपञ्छाद -
दिग्दाह - धूमिकापात - सन्धास-महोपवास-न-दीश्वरजिनमहिमाद्य-
भाव कालशुद्धि । अत्र तानशुद्धिकारणविधानमभिधास्ये । तं जहा-
पच्छियरत्तिसज्जाय खमाविय वहि णिक्कनिय पामुवे भूमिपदेसे
काओसग्गेण पुव्वाहिमुहो द्वाइदूण णवगाहापरियट्टणकालेण पुव्वदिस
सोहिय पुणो पदाहिणेण परलट्टिय एदेणेव तालेण जम-वरुण-सोम-
दिसामु सोहिदामु छत्तीमगाहृत्तारणकालेण (३६) अट्टसदुस्सास-
कालेण वा कालमुद्धी समप्पदि (१०८) अवरणं वि एव चैव कालमुद्धी
कायव्वा । णवरि एक्केक्काए दिसाए सत्त मत्तगाहापरियट्टणेण परि-
च्छिण्णकाला त्ति णायट्ठावा । एत्थ मव्वगाहापमाणमट्ठावीस (२८)
चउरासीदि उस्सामा (८४) पुणा अणत्थमिदे दिवायरे ऐत्तमुद्धि काट्टण
अत्थमिदे कालमुद्धि पुव्व व कुज्जा । णवरि एत्थ कालो वीसगाहृत्तार-
णमेत्तो (२०) सट्टिउस्सामेत्तो वा (६०) = १ द्रव्यशुद्धि—ज्वर कुक्षि-
रोग, शिरोरोग, कुत्सित स्वप्न, रुधिर, विष्टा, मूत्र, लेप, अतिसार
और पीवका महना इत्यादिकोका शरीरमें न रहना द्रव्यशुद्धि कही
जाती है। २ क्षेत्रशुद्धि—व्याख्यातामें अधिष्ठित प्रदेशसे चारों ही
दिशाओंमें अष्टास हजार (धनुष) प्रमाण क्षेत्रमें विष्टा, मूत्र, हड्डी,
वेश नख और वेश तथा चमड़े आदिके उभावको, तथा दृष्ट अतीत
वाचनाओंसे (१) समीपमें (या दूरी तक) पचेन्द्रिय जीवके शरीर
सम्बन्धी गीनी हड्डी चमड़ा, मांस और रविरके सम्बन्धके
अभावको क्षेत्रशुद्धि कहते हैं (मू आ /२-६) । ३ कालशुद्धि—
विजली, इन्द्रधनुष, सूर्य चन्द्रका ग्रहण, अज्ञान वृष्टि, मेघगर्जन,

मेघोंके समूहसे आच्छादित दिशाएँ, दिशावाह, धूमिकापात, (कुहरा), सन्यास, मद्योपवास, नन्दीश्वर महिमा और जिनमहिमा इत्यादिके अभावको कालशुद्धि कहते हैं। यहाँ कालशुद्धि करनेके विधानको कहते हैं। वह इस प्रकार है—पश्चिम राश्रिके सन्धिकालमें क्षमा कराकर बाहर निकल प्रासुक भूमिप्रदेशमें कायोत्सर्गसे पूर्वाभिमुख स्थित होकर नौ गाथाओंके उच्चारणकालसे पूर्व दिशाको शुद्ध करके फिर प्रदक्षिणा रूपसे पलट कर इतने ही कालसे दक्षिण, पश्चिम व उत्तर दिशाओंको शुद्ध कर लेनेपर ३६ गाथाओंके उच्चारण कालसे अथवा १०८ उच्छ्वास कालसे कालशुद्धि समाप्त होती है। अपरास कालमें भी इस प्रकार ही कालशुद्धि करना चाहिए। विशेष इतना है कि इस समयकी कालशुद्धि एक-एक दिशाओंमें सात-सात गाथाओंके उच्चारण कालसे सीमित है, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ सब गाथाओंका प्रमाण २८ अथवा उच्छ्वासोंका प्रमाण ८४ है। पश्चात् सूर्यके अस्त होनेसे पहले क्षेत्र शुद्धि करके सूर्यके अस्त हो जानेपर पूर्वके समान कालशुद्धि करना चाहिए। विशेष इतना है कि यहाँ काल बीस २० गाथाओंके उच्चारण प्रमाण अथवा ६० उच्छ्वास प्रमाण है। (अर्थात् प्रत्येक दिशामें ६ गाथाओंका उच्चारण करे)। (मू आ/२७३)।

क्रिया कोष/प्रथम रमोईके स्थान चौकी उलरी द्वय त्रय जाय। चौथो अनाज सोधने बाज जमोन चौका पचम म ड । छठमें आटा छनने सोय सप्तम थान सयनका होय। पानी थान सु अष्टम जान सामायिकका नवमो थान ।

५. दर्शन ज्ञान व चारित्र्य शुद्धियोंके लक्षण

मू आ/गाथा स चलचलववलजोविदमिर्ण णाऊण माणुसत्तणमसारं। णिविण्णकामभोगा धम्मम्मि उवद्विमदीया ७७३। जिम्मालियमुमिणाविगधकणयसमिद्धध्वजण च । पयएति वीरपुरिसा विरत्तकामा गिहावासे ७७४। उच्छाएणिच्छिदमदी ववमिउववमाययद्धकच्छा य । भावाणुरायरत्ता जिणपणत्तम्मि धम्मम्मि ७७७। अपरिग्गहा अणिच्छा सत्तुट्ठा सुट्ठिदा चरिचाम्मि । अवि णीएचि सरीरे ण करत्ति मुणी ममत्ति ते ७८३। ते लद्धणाण चक्खू णाणुजोएण दिट्ठपरमट्ठा । णिस्सकिट्ठिणिव्विदिग्गिछादमलपरवक्कमा साधु ७८५। उवलद्धपुणपावा जिणसासणमहित्तमुणिदपज्जात्ता । करचरणसवुडगा झाडुवजुत्ता मुणी हंति ७८५। ते छिण्णणेट्ठमथा णिण्णेहा अप्पणो सरीरम्मि । ण करत्ति किंचि साहू परिसट्ठप सरीरम्मि ७८३६। उप्पणम्मि य वाहो सिरवेयण कुविलवेयण चैय । अधिमासिंति सुधिदिया कायत्तिग्गिछ ण इच्छंति ७८३६। णिच्च च अप्पमत्ता सजमसमिदीसु भाणजोगेसु । तत्रचरणकरणजुत्ता हवति सवणा समिदपावा ७८६२। विसपसु पधार्धता चवत्ता चडा तिदडुगुत्तेहि । इदियचोरा घोरा वसम्मि ठविदा ववसिदेहि ७७३। ण च एदि विणिस्सरिदु' मणहृथी भाण चारिबधणीदो । यद्धो य पयडंडो विरायरज्जूहि धीरेहि ७७६। एवे इदियतुरया पयदीदोसेण चोइया सत्ता । उप्पमग णेत्ति रह करेइ मणपणहू बलिय ७८५। —१, लिंग शुद्धि—अस्थिर नाशसहित इस जीवनको और परमार्थ रहित इस मनुष्य जन्मको जानकर ही आदि उपभोग तथा भोजन आदि भोगोंसे अभिलाषा रहित हुए, निर्ग्रन्थादि स्वरूप चारित्रमें दृढ़ बुद्धिवाले, घरके रहनेसे विरक्त चित्तवाले ऐसे वीर पुरुष भोगमें आये फूलोंकी तरह गाय, घोड़ा आदि—धन-साना इनसे परिपूर्ण ऐसे चान्धव जनकोंको छोड़ देते हैं। ७७३-७७४। तपमें तल्लीन होनेमें जिनकी बुद्धि निरिचत है जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, कर्मके निर्मूल करनेमें जिन्होंने कर्मर कसी है, और जिनदेव कथित धर्ममें परमार्थभूत भक्ति उसके प्रेमी है, ऐसे मुनियोंके लिंगशुद्धि होती है। ७७७। २ व्रतशुद्धि—आश्रय रहित, आशा रहित, सन्तोषी चारित्रमें तपपर ऐसे मुनि अपने शरीरमें ममत्व नहीं करते। ७८३।

३ ज्ञानशुद्धि—जिन्होंने ज्ञान नेत्र या निया है, एमें साधु है, ज्ञानरूपी प्रशाशने जिन्होंने मम मोहका मार जग निया है, पदार्थमें शका रहित, अपने मनमें ममात्ता जितने पगप्रम है ऐसे साधु है। ७८२। जिन्होंने पुण्य-पापका स्वरूप जान निया है जिग मत्तमें स्थित मम इन्द्रियों। मत्स्य जिन्होंने ज्ञान निया है, राय, धैर, वर से ही जितना शरीर देखा हुआ है और ध्यातमें उन्मी है। ७८३। ४ उच्छ्वासशुद्धि—पृथ-रथा आदिमें जितने प्रेमस्वी मया गट दिया है और जो शरीरमें भी ममता रहित एमें साधु शरीरमें पुण भी—स्नानादि संस्कार नहीं करते। ७८४। ५ उच्च श्लाघिक उरथा होनेपर भी मन्तरमें पीड़ा, उदरमें पीड़ा होने पर भी चारित्रमें दृढ़ परिणाम माने वे मुनि पीड़ाको मान कर लेते हैं, परन्तु शरीरका उपचार कभीकी इच्छा नहीं करते। ७८५। ६ तप-शुद्धि—वे मुनियस मदा समय, ममिच्छि, ध्यान और योगोंमें प्रमाद रहित होते हैं और तेरह प्रकार ममोमें उन्मी हुए पापके नाश करने वने होते हैं। ७८६। ७ ध्यान शुद्धि—स्व, रमादि विषयोंमें दौड़ते चंचल क्राधाया प्राप्त हुए भगवत् एमें इन्द्रिय रूपी चोर मन-वचनमाय गृह्णिताने चारित्रमें उन्मी साधुजनोंने ज्यो बद्धमें वर लिये हैं। ७८७। ८ प्रेम मस्त हाथी कारिबधवर गेका गया नियतोंको समर्थ नहीं होता, उन्मी तरह मन रूपी हाथी ध्यान-रूपी कारिब-धरो प्राप्त हुआ धीर अति प्रच्छट्ट होने पर भी मुनियों पर ईरागरूपी रस्से पर मंथन मन्थको प्राप्त हुआ निपन्ने में समर्थ नहीं हो गता। ७८८। ये इन्द्रिय रूपी भोट स्वाभाविक राग-द्वेष पर प्रेरे हुए धर्मवदान रूपी रगतो विषमरूपी नुमार्थमें ले जाते हैं, इमनिप एकाग्र मनरूपी नगामको बस्थान करो। ७८९।

५ आ/वि/१६७/३००/१ काने पठनमित्यादिका ज्ञानशुद्धि, अस्वयं तस्या अज्ञानपठनाद्या क्रिया शानावरणवृत्ता पश्चिक्ता भवन्ति। पश्चिदासि भायनाश्चारित्रशुद्धि तस्या तस्या अनिगृहीतमन-प्रचारादिशुभपरिणामोऽन्यन्तरपरिग्रहस्वरूपो भवति। मनसावच्छ-योगनिवृत्ति जिनगुणानुगत बन्धमानश्रुतादिगुणानुवृत्ति तृताप-राधनिपया निन्दा, मनसा प्रत्याख्यान, शरीरमातानुपचारित-भानना, शेरयावश्याशुद्धिरस्यां सत्यां अशुभयोगो जिनगुणानु-राग श्रुतादिमाहात्म्येऽनादर, अपराधाशुक्ता, अप्रमात्मानं शरीरममता चेत्यमी दोषा परिग्रहनिराहृता भवन्ति। —१, ज्ञान-शुद्धि—योग्य कालमें अध्ययन करना, जिमसे अध्ययन किया है ऐसे गुरुका और शास्त्रका नाम न छिपाना इत्यादि रूप ज्ञान-शुद्धि है। यह शुद्धि आराममें होनेसे अकाल पठनादिक क्रिया जो कि ज्ञानावरण कर्मस्विका कारण है रयागी जाती है। २ चारित्र-शुद्धि—प्रत्येक व्रतको पाँच-पाँच भावनाएँ हैं पाँच व्रतोंकी पचीस भावनाएँ हैं इनका पालन करना यह चारित्रशुद्धि है। इन भाव-नाओंका ध्यान होनेसे मन स्वच्छन्दी होकर अशुभ परिणाम होते हैं। ये परिणाम अन्यन्तर परिग्रह रूप है। व्रतों की पाँच भावनाओंसे अन्यन्तर परिग्रहोंका ध्यान होता है। ३ आवश्यक शुद्धि—सावध योगोंका ध्यान, जिन गुणोंपर प्रेम बधमान आचार्यादिके गुणोंका अनुसर्ण करना, किसे हुए अपराधोंकी निन्दा करना, मनसे अपराधों-का त्याग करना शरीरकी असारता और अपकारीपनेका विचार करना यह सब आवश्यकशुद्धि है। यह शुद्धि होनेपर अशुभ योग, जिन गुणोंपर अप्रेम, आगम, आचार्यादि पूज्य पुरुषोंके गुणोंमें अश्रीति, अपराध करनेपर भी मनमें पश्चात्ताप न होना, अपराधका त्याग न करना, और शरीरपर ममता करना ये दोष परिग्रहका त्याग करनेसे नष्ट होते हैं।

६. सत्त्वैरजना सम्बन्धी शुद्धियोंके लक्षण

म आ/वि/१६६/३७६/२ मायामृपारहितता आलोचना शुद्धि ।

उद्गमादिपराधनेपणादीपरहितता ममेद इत्यपरिग्रहात्ता च वसति-सस्तरयो शुद्धिस्तामुपगतं उद्गमादिदोषोपहतयोर्वसतिसस्तर-योस्त्याग कृत इति भवत्युपधित्याग । उपकरणदीनामपि उद्गमा-दिरहितता शुद्धिस्तस्यां सत्यां उद्गमादिदोषदुष्टानां असयमसाध-नानां ममेद भावमूलानां परिग्रहाणां त्यागोऽस्त्येव । सयतवैयावृत्य-क्रमज्ञता वैयावृत्यकारिशुद्धिं सस्यां तस्यां असयता अक्रमज्ञापच न मम वैयावृत्यकरा इति स्वीक्रियमाणास्त्यक्ता भवन्ति ।=१. आलोचना शुद्धि—माया और असत्य भाषणका त्याग करना यह आलोचना शुद्धि है । २ शय्या व संस्तर शुद्धि—उद्गम, उत्पादन, ऐषणा दोषोंसे रहित यह मेरा है ऐसा भाव वसतिकामें और संस्तरमें होना यह वसति-सस्तरशुद्धि है । इस शुद्धिको जिसने धारण किया है उसने उद्गम उत्पादनादि दोषयुक्त वसतिको त्याग किया है, ऐसा समझना चाहिए । इसलिए इसमें उपधिका भी त्याग सिद्ध हुआ समझना चाहिए । ३ उपकरण शुद्धि—पिछी, कमण्डलु वगैरह उपकरण भी उद्गमादि दोष रहित हों तो वे शुद्ध है, उद्गम आदि दोषोंसे अशुद्ध उपकरण असयमके साधन हो जाते हैं । उसमें ये मेरा है ऐसा भाव उत्पन्न होता है अत वे परिग्रह है, उनका त्याग करना यह उपकरणशुद्धि है । ४ वैयावृत्यकरण शुद्धि—साधु जनकी वैयावृत्यकी पद्धति जान लेना यह वैयावृत्य करने वालोंकी शुद्धि है यह शुद्धि होनेसे असयत लोक अक्रमज्ञ लोग मेरा वैयावृत्य करनेवाले नहीं हैं ऐसा समझकर त्याग किया जाता है ।

❁ अन्य सम्बन्धित विषय

१. आहार शुद्धि —दे आहार/1/२।
२. भिक्षा शुद्धि —दे भिक्षा/१।
३. प्रतिष्ठापन, ईर्यापथ, व वचन शुद्धि —दे, समिति/१।
४. शयनाशन शुद्धि —दे वसतिका।

शुभ—१ शुभ व अशुभ नामकर्मका लक्षण

स सि./८/११/३६२/१ यदुदयाद्रमणीयत्वं तच्छुभनाम । तद्विपरीत-मशुभनाम ।=जिसके उदयसे रमणीय होता है वह शुभ नामकर्म है । इससे विपरीत अशुभ नामकर्म है । (रा वा /८/११-२७-२८/५७६/५), (गो. क /जी प्र /३३/३०/६) ।

घ. ६/१.६.१.२८/६४/८ जस्स कम्मस्स उदएण अगोवगाणमकम्मोदय-जणिद अगाणमुवगाणं च सुहत्त होदि त सुह गाम । अगोवगाणम-सुहत्तणिवत्तयमसुह गाम ।=जिस कर्मके उदयसे अगोपाग नाम-कर्मोदय जनित अंगों और उपागोंके शुभ (रमणीय) पना होता है, वह शुभनामकर्म है । अग और उपागोंके अशुभताको उत्पन्न करने-वाला अशुभ नामकर्म है ।

घ. १३/५.५.१०१/३६६/१२ जस्स कम्मस्सुदएण चक्रवट्टि-वलदेव वामुदेव-त्तादिरिद्धीण सूचया सखक्कमारविदादओ अग-पच्चंगेसु उप्पज्जति त सुहगाम । जस्स कम्मस्सुदएण असुहलखणगाणि उप्पज्जति तम-सुहगाम ।=जिस कर्मके उदयसे चक्रवर्तिव, वलदेवव, और वामु-देवव आदि ऋद्धियोंके सूचक शख, अकुश और कमल आदि चिह्न अग-प्रत्यगोंमें उत्पन्न होते हैं वह शुभ नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे अशुभ लक्षण उत्पन्न होते हैं वह अशुभ नामकर्म लक्षण है ।

२. अन्य सम्बन्धित विषय

१. अशुभसे निवृत्ति शुभमें प्रवृत्तिका नाम ही चरित्र है —(दे चरित्र/१/१२) ।
२. मन शुद्धि ही वास्तविक शुद्धि है । —दे साधु/३ ।
३. शुभ-अशुभ प्रकृतियोंको बन्ध, उदय, सत्त्व प्ररूपणार्थ । —दे, वह वह नाम ।
४. पुण्य-पाप प्रकृति सामान्य —दे प्रकृतिबन्ध/२ ।

शुद्धोदन—महात्मा बृहके पिता थे (द. सा /०७ प्रेमी जी) ।

शुद्धोपयोग—दे, उपयोग/11/२ ।

शुभचंद्र—१ राजा मजके भाई तथा शतक त्रयके कर्ता भर्तृ हरिके बड़े भाई थे । राजा सिंहके पुत्र थे । राजा मुजने इनको पराक्रमी देखकर राज्यके लोभसे इनको राज्यसे बाहर निकलवा दिया था । और इसलिये छोटी ही वयमें इन्होंने जिनदीक्षा धारण कर ली थी । इनका भाई भर्तृ हरि तापस बन गया था । उसने १२ वर्षकी तपश्चर्या करके स्वर्ग रसकी सिद्धि की थी । उसके सम्बोधनार्थ ही शुभचन्द्राचार्याने ज्ञानार्णव ग्रन्थकी रचना की जिसे पाकर भर्तृ हरि जैनसाधु हो गया था । यह पचविंशतिवार पद्मनन्दि न ५ (ई १०१६-११३६) के गुरु थे । राजा मुजके समयके अनुसार आपका समय वि १०६०-११२५ (ई १००३-१०६८) जाता है । (वा अनु /प्र /१२ A N up), (मदन पराजय चरित/प्र ६१ A N, up), (ज्ञा /प्र, १ प पत्रालान) २ नन्दिसघके देशीयगण न, २ के अनुसार आप दिवाकरनन्दिके शिष्य और सिद्धान्तदेवके गुरु थे । पोयसन नरेश विष्णुवर्धनके मन्त्री गगराजने इनके स्वर्गवासके पश्चात् इनकी निपद्यका धनवायी थी । इनके श्रावक शिष्योंमेंसे मन्त्री (गगराज), बूचीराज या बूचण, तथा देवमति प्रसिद्ध हैं । श स १०३७-१०४२में इन्हें धवला ग्रन्थकी एक ताडपत्र लिपि भेंट की गयी थी । समय—श १०२५-१०४५ (ई १०६३-११२३)—दे इतिहास/४/१४), (प स /प्र घ H L Jain) ३ तत्त्वानुगासनके कर्ता नागसेनके शिष्यागुरु थे । नागसेनके समयके अनुसार इनका समय वि श १३ से पहिले ई. श १२ में है । (त. अनु /प्र, २ ब शीतल) नन्दि संघ देशीयगणके अनुसार आप देवकीर्ति पण्डितदेवके शिष्य थे । समय—वि १२१४-१२३६ (ई ११५८-११८०)—दे इतिहास/४/१४ । ४. यह पद्मनन्दि पण्डित न ६ के गुरु थे । इनका स्वर्गवास वि १३७० में हुआ था । तदनुसार इनका समय वि. १३४०-१३७० (ई. १२२३-१३१३) आता है । (प वि./प्र. २८ A N Up) ५. नन्दिसघ बलात्कार गणकी गुर्वावलीके अनुसार आप विजयकीर्तिके शिष्य तथा लक्ष्मीचन्द्रके गुरु थे । आप बाडाके पट्टपर आरूढ हुए थे । पट्टभाषा कविकी उपाधिसे युक्त थे । न्याय, पुराण, कथा-पूजा आदि विषयोंपर अनेक ग्रन्थ रचे थे । कृति—१ प्राकृत व्याकरण, २ अग पण्णत्ति, ३ शब्द चिन्तामणि, ४ समस्या वदन विदारण, ५ अपशब्द खण्डन, ६ तत्त्व निर्णय, ७ स्याद्वाद, ८ स्वस्व सम्बोधन वृत्ति, ९ अध्यात्म पद टीका, १० सम्यक्त्व कौमुदी, ११ सुभाषितार्णव, १२ सुभाषित रत्नावली, १३ परमाध्यारमतरंगिनीकी संस्कृत टीका, १४ स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी संस्कृत टीका (माघ वि. १६१३) १५ पाण्डवपुराण (वि १६०८, ई १५६१), १६ करकण्ड चरित्र (ई १५४४), १७ चन्द्रमध चरित्र, १८ यशनाभ चरित्र, १९ प्रद्युम्न चरित्र, २० जीवन्धर चरित्र, २१ चन्दन कथा, २२ नन्दीशर कथा, २३ पार्श्वनाथ काव्य पञ्जिका, २४ त्रिशक चतुर्विंशति पूजा, २५ सिद्धार्चन, २६ सरस्वतीपूजा, २७ चिन्तामणि पूजा, २८ कर्म दहन विधान, २९ गणधर वलय विधान, ३० परशोपम विधान, ३१ चारित्र शुद्धि विधान, ३२ चतुर्विंशदधिग्रहादशशत व्रतोद्यापन, ३३ सर्वतोभद्र विधान, ३४ समनशरण पूजा, ३५ सहस्रनाम, ३६ विमान शुद्धि विधान, ३७ प आशाधरपूजा वृत्ति कुत्र स्तोत्र आदि । समय—वि १५७३-१६१३ (ई १५१६-१५६६), (प प्र/प्र, ११८ A N, Up), (द्र म /प्र ११ प जवाहरलाल), (पा पु /प्र १ A N Up), (ज्ञा /प्र ७/० पत्रालान)—दे इतिहास/४/१३ ।

शुभनन्दि—आप वापदेवके शिक्षा गुरु तथा पट्टखण्डगमके ज्ञाता थे । रविनन्दिके सहचर थे । वापदेवके अनुत्तार इनका समय ई ७७२-७७३ आता है । (प, २१/प्र ५१ H L Jain)

शुभयोग

शुभयोग—दे योग/२।

शुभोपयोग—दे उपयोग/II/४।

शुभ्र—भरतक्षेत्रका एक नगर—दे मनुष्य/४।

शुष्क—भरतक्षेत्र आर्य खण्डकी एक नदी—दे मनुष्य/४।

शूद्र—दे वर्णव्यवस्था/४।

शून्य—१ सर्व द्रव्योंका अभाव शून्य दोष कहलाता है। (पं. ध./पू/६४.६१३), २० जीवको कथंचित् शून्य कहना—दे जीव/१/२, ३ साध्य साधन व उभय विकल दृष्टान्त—दे दृष्टांत।

शून्यनय—शून्याशून्य नय—दे नय/II/५।

शून्यध्यान—दे शुकलध्यान/१।

शून्य परिकर्माष्टक—दे गणित/II/२।

शून्यवाद—१. मिथ्या शून्यवादका स्वरूप

यु अतु/२६ व्यस्तोत सामान्य-विशेष-भावाद विश्वभिलापार्थ - विकल्पशून्यम् । त्वपुष्पवस्यादसदेव तत्त्व प्रबुद्धतत्त्वाद्भवत परेषाम् ।२६।—हे प्रबुद्ध तत्त्व वीर जिन । आप अने कान्तवादीसे भिन्न दूसराका सर्वथा सामान्य भावसे रहित, सर्वथा विशेष भावसे रहित तथा सामान्यविशेष भाव दानोंसे रहित जो तत्त्व है वह सम्पूर्ण अभिलापों तथा अर्थ विरुधोंसे शून्य होनेके कारण आकाश-पुष्पके समान अवस्तु ही है। (और भी—दे बौद्ध दर्शनमें महायान)।

शूर—१ भरत क्षेत्र आर्य खण्डका एक देश—दे मनुष्य/४। २. राजा यदुका पुत्र था तथा नेमिनाथ भगवात्का बाना था। हसने शौर्यपूर वसाया था।—दे इतिहास/७/२०।

शूरसेन—मथुराका समीपवर्ती प्रदेश। गोकुल वृन्दावन और आगरा इसीमें है (म पु/प्र. २० पन्नालाल)।

शेषवत् अनुमान—दे अनुमान/१।

शेषवतो—रुचक पर्वत निवासिनी दिवकुमारी देवी—दे लोक/७।

शैक्ष—स, सि/६/२४/४४२/८ शिक्षाशील शैक्ष।—शिक्षा शील (साधु) शैक्ष कहलाता है।

रा वा/६/२४/६/६२३/१७ श्रुतज्ञानशिक्षणपर अनुपरव्रतभावनानिपुण शैक्षक इति।—श्रुतज्ञानके शिक्षणमें तत्पर और सतत व्रत भावनामें निपुण (साधु) शैक्ष है (चा सा/१५२/२)।

शैलकर्म—दे निक्षेप/४।

शैल भद्र—यक्ष जातिके व्यन्तर देवोंका एक भेद—दे यक्ष।

शैल—सुमेरु पर्वतका अपरनाम—दे सुमेरु।

शैला—नरककी तृतीय पृथिवी—दे नरक/५।

शैवदर्शन—१ श्रुत्याद्वैतका अपर नाम।—दे वेदान्त/७। २ वैदिक दर्शनका स्थूलसे सूक्ष्मकी ओर विकास—दे दर्शन (पट्ट दर्शन)।

शोक—१ शोक व शोक नामकर्मका लक्षण

म सि/६/११/३२८/१२ अनुप्राहकसबन्धविच्छेदे वैयस्यविशेष शोक।

स सि/५/६/३८६/१ यद्विपाकाच्छाचन स शोक।—१ उपकार करनेवालेसे सम्बन्धके दूट जानेपर जो विकलता होती है वह शोक है (रा वा/६/११/२/५१६/२१)। २ जिसके उदयसे शोक होता है वह शोक (नामकर्म) है। (रा वा/५/६/४७४/१८), (ध ६/१,६-१,२४/४७/८), (ध १३/५,५,६६/३६१/२२)।

२. शोक अरति पूर्वक होता है

ध १२/४,२,७,१००/५७/२ कुशो। अग्निपुरगमत्तादो। ऋधमरदिपुर-गमत्त। अरदीण विणा सोगाणुपत्तीए।—यथोक्ति, वह (शोक) अरति पूर्वक होता है। प्रश्न—वह अरति पूर्वक कैसे होता है। उत्तर—यथोक्ति, अगतिके बिना शोक नहीं उत्पन्न होता है।

३. शोकका उत्कृष्ट उदय काल

ध १२/४ २,७,१०१/५७/४ सागो उग्रस्तेण छम्माममेतो चेव।—शोक-का उत्कृष्ट उदय काल छट मास पर्यन्त ही है।

* अन्य सम्बन्धित विषय

१ शोक द्वेष है —दे कथाय/४।

२ शोक प्रकृतिके बन्ध योग्य परिणाम —दे मोहनीय/३/६।

शोधित—गणितकी व्यञ्जन विधिमें मूल गणितो ऋणराशि करि शोधित कहा जाता है—दे गणित/II/१/४।

शोन—पूर्वी उत्तर आर्य खण्डकी एक नदी—दे मनुष्य/४।

शौच—१. शौच सामान्यका लक्षण

स सि/६/१३/३३१/४ लोभप्रकागणामुपरम शौचम्।—लोभके प्रकारों-का त्याग करना शौच है (रा वा/६/१०/५२३/४)।

२. शौच धर्मका लक्षण

वा, अ/७५ ऋत्वाभावणिविस्ति तिच्चा वेरगभावणाजुत्तो। जो बहृदि परममुष्णी तरम दु धम्मो हवे सौच ।७५।—जो परममुनि इच्छाओंको राक्षर और वैराग्य रूप विचारोंमें युक्त होकर आचरण करता है उसको शौच धर्म होता है।

स, सि/६/६/४२२/६ प्रकर्षप्राप्तलोभान्निवृत्ति शौचम्।—प्रकर्ष प्राप्त लोभका त्याग करना शौचधर्म है। (रा वा/६/६/५६६/२८), (चा मा/६२/४)।

भ, आ/वि/४६/४४४/१४ द्रव्येषु ममेद भावमूलो व्यसनोपनिपात सरुल इति तत परिचयागो लाघर्ष।—धनादि वस्तुओंमें ये मेरे हैं ऐसी अभिलाष बुद्धि ही सर्व सक्तामें मनुष्यको गिराती है इस ममत्वको हृदयसे दूर करना ही लाघर्ष अर्थात् शौच धर्म है।

त मा/५/१६-१७ परिभोगोपभागतव जीवितेन्द्रियभेदत ।१६। चतु-विधस्य लोभस्य निवृत्ति शौचमुच्यते ।१७।—भोग व उपभोगना, जीनेका, इन्द्रियविषयोंका, इन चारों प्रकारके लोभके त्यागका नाम शौचधर्म है।

का अ/मू/३६७ सम सत्तोम-जलेण जो धोवदि तिक्व लोह मल पुज । भोयण-गिद्धि-विहीणो तस्स सउच्च हवे विमल ।३६७।—जो सम-भाव और मन्तोप रूपी जलसे तृष्णा और लोभ रूपी मलके समूहको धोता है, तथा भोजनकी गृद्धि नहीं करता उसके निर्मल शौच धर्म होता है।

प वि/१/६४ यत्परदारार्थादिषु जन्तुषु नि स्पृहमहिंसक चेत । दुरधेद्वान्तर्मलदत्तवेव शौच पर नान्यत् ।६३।—चित्त जो परस्त्री एवं परधनकी अभिलाषा न करता हुआ पदकाय जीवोंकी हिंसासे रहित होता है, इसे ही दुर्भेद्य अभ्यन्तर क्लृपताको दूर करनेवाला उत्तम शौचधर्म कहा जाता है, इससे भिन्न दूसरा शौचधर्म नहीं है ।६४।

३ गंगादिमें स्नान करनेसे शौचधर्म नहीं

प वि/१/६५ गङ्गासागरपुष्करादिषु सदा तीर्थेषु सर्वेष्वपि स्नातस्यापि न जायते तनुभूत प्रायो विशुद्धि परा । मिथ्यात्वादिमलीमस यदि

मनो बाह्येति शुद्धादकं प्रति किं बहुशोऽपि शुद्धयति सुरापुरप्रपूर्णे घट ॥६५॥ = यदि प्राणीका मन मियात्पादि दोषोंसे मलिन हो रहा है तो गंगा, समुद्र एवं पुष्कर आदि सभी तीर्थोंमें मदा म्नान करने-पर भी प्रायः ऊरके वह अतिशय विशुद्ध नहीं हो सकता (ठीक भी है—मद्यके प्रवाहसे परिपूर्ण घटको यदि बाह्यमें अतिशय विशुद्ध जलमें बहुत बार धोया जावे तो भी क्या वह शुद्ध हो सकता है। अर्थात् नहीं ॥६५॥

४. शौचधर्मके चार भेद

रा वा ॥६॥६॥६॥६॥६॥ अतस्तन्निवृत्तिलक्षण शौच चतुर्विधमवसेयम् । = (जीवन लोभ, इन्द्रियलोभ, आरोग्य लोभ व उपयोग लोभके भेदसे लोभ चार प्रकार है—दे लोभ) इम चार प्रकारके लोभका त्याग करनेसे शौच भी चार प्रकारका हो जाता है (चा. सा ॥६३॥२) ।

५. शौच व त्याग धर्ममें अन्तर

रा वा ॥६॥२०॥६६६॥१० शौचगचनात् (त्यागस्य) सिद्धिरिति चेत, न तत्रासत्यपि गर्होपपत्ते ॥२०॥ असनिहिते परिग्रहे कर्मोदयशशात् गर्ह उत्पद्यते, तन्नित्यव्यर्थं शौचमुक्तम् । त्याग पुन सनिहितस्यापाय दान वा स्वयोग्यम्, अथवा सयत्तरय योग्य ज्ञानादिदान त्याग इत्युच्यते । = प्रश्न—शौच वचनसे ही त्याग धर्मकी सिद्धि हो जाती है, अत त्याग धर्मका पृथक् निर्देश व्यर्थ है । उत्तर—नहीं क्योंकि शौचधर्ममें परिग्रहके न रहनेपर भी कर्मोदयसे होनेवाली तृष्णाकी निवृत्ति की जाती है पर त्यागमें विद्यमान परिग्रह छोड़ा जाता है । अथवा त्यागका अर्थ स्व योग्य दान देना है । सयत्तके योग्य ज्ञानादि दान देना त्याग है ।

६. शौच व आर्किकचन्य धर्ममें अन्तर

रा वा ॥६॥७॥६६६॥१ स्यादेतत्-आर्किकचन्य वक्ष्यते, तत्रास्यावरोधात् शौचग्रहणं पुनरुक्तमिति, तन्न, किं कारणम् । तस्य नैर्मम्यप्रधानत्वात् । स्वशरीरादिपु सस्काराद्यपोहार्थं माविञ्चन्यमिष्यते । = प्रश्न—आगे आर्किकचन्य धर्मका कथन करेगे, उसीसे इसका अर्थ भी धेर लिया जानेसे शौच धर्मका ग्रहण पुनरुक्त है । उत्तर—ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्किकचन्यधर्म स्वशरीर आदिमें सस्कार आदिकी अभिलाषा दूर करके निर्ममत्व बढ़ानेके लिए है और शौच धर्म लोभकी निवृत्तिके लिए अत दोनों पृथक् है ।

७. शौचधर्म पालनार्थ विशेष सावनाएँ

भ आ ॥६॥१४३६-१४२७॥१३६६ लोभे कए वि अरथेण होइ पुरिससस अपडिभोगसस । अकएवि ह्वदि लोभे अस्थो पडिभोगवतसस । १४२६॥ सव्वे वि जए अरथा परिगहिदा ते अणतखुत्तो मे । अस्थेसु इरथ को-मज्झ विभओ गहिदविज्जेसु ॥१४३७॥ इह य परत्तए लोए दोमे बहुए य आवहइ लोभो । इदि अप्पणो गणित्ता णिउजेदव्वो ह्वदि लोभो ॥१४३८॥ = लोभ करनेपर भी पुण्य रहित मनुष्यका द्रव्य मिलता नहीं है और न करनेपर भी पुण्यदानको धनकी प्राप्ति होती है । इसलिए धन प्राप्तिमें आसक्ति कारण नहीं, परन्तु पुण्य ही कारण है ऐसा विचारकर लोभका त्याग करना चाहिए ॥१४३६॥ इस त्रेलोक्यमें मने अनन्तवार धन प्राप्त किया है, अत अनन्तवार ग्रहण कर त्यागो हुए इस धनके विषयमें आश्चर्य चकित होना फलन है ॥१४३७॥ इह-पर लोकमें यह लोभ अनेकों दोषोंको उत्पन्न करता है ऐसा समझकर लोभ कपायपर विजय प्राप्त करना चाहिए ।

रा वा ॥६॥२०॥६६६॥१६ शुच्याचारमिहापि सन्मानयन्ति सर्वे । विप्रभ्रादयश्च गुणा तमधिष्ठित्ति । नाभभावनाक्रान्तहृदये नावकाश लभन्ते गुणा, इह वामुत्र चाचिन्त्यं व्यमनमावश्नुते ।

= शुचि आचार वाले निर्लोभ व्यक्ति का इस लोभमें सन्मान होता है । विश्वास आदि गुण उसमें रहते हैं । लोभीके हृदयमें गुण नहीं रहते । वह इस लोक और परलोकमें अनेक आपत्तियों और दुर्गति-को प्राप्त होता है । (अन ध ॥६॥२७)

ज्ञा. ॥१६॥६६-७१ आकेनापीच्छया जातु न भर्तुमुत्तर क्षमा । लोभात्-थापि वाञ्छन्ति नराश्चक्रैरवरत्रियम् ॥६६॥ स्वामिगुरुनन्धुवृद्धानवला-बालाश्च जौर्णदीनादीन् । व्यापाद्य विगतशङ्का लोभार्ता वित्तमादत्ते ॥७०॥ ये केचित्सिद्धान्ते दोषा श्वभ्रस्य साधका प्राक्ता । प्रभवन्ति निर्विचार ते लोभादेव जन्तूनाम् ॥७१॥ = अनेक मनुष्य यद्यपि अपनी इच्छामें आक्से, पैत भ्रनेको कभी समर्थ नहीं होते तथापि लोभके वशसे चक्रवर्तीकी भी सम्पदाको वाँछते हैं ॥६६॥ इस लोभरूपायने पीडित हुआ पुरुष अपने मालिक, गुरु, बन्धु, बृद्ध, स्त्री, बालक, तथा क्षीय, दुर्बल, अनाथ, दीनादिको भी निश्चकतासे मारकर धनको ग्रहण करता है ॥७०॥ नरकको ले जानेवाले जा जो दोष सिद्धान्त शास्त्रमें कहे गये हैं वे सब जीवोंके निश्चकतया लोभसे प्रगट होते हैं ॥७१॥ (अन ध ॥६॥२४-२६, ३१) ।

* अन्य सम्बन्धित विषय

१ शौचधर्म व मनोगुप्तिसमें अन्तर । —दे गुप्ति/२/६ ।

२. दशधर्म निर्देश । —दे धर्म/६ ।

शौरपुर—कुठाय देशका एक नगर ।—दे० मनुष्य/४ ।

श्याम—मध्य लोकका तेरहवाँ द्वीप व सागर ।—दे लोक/६ ।

श्यामकुमार—अमरकुमार (भवनवामी देव)—दे अमर ।

शृङ्खलित—कायोत्सर्गका एक अतिचार ।—दे व्युत्पन्न/१ ।

श्रद्धान—माक्षमार्गमें चारित्र आदिकी मूल होनेसे श्रद्धाका प्रधान कहा है । यद्यपि अन्य श्रद्धान अर्किचिक्कर हाता है तथापि सूक्ष्म पदार्थके विषयमें आगमपर अन्ध श्रद्धान करनेके प्रतिरिक्त कोई चारा नहीं । सम्यग्दर्शिका यह अन्ध श्रद्धान ईषत् निर्णय लक्षणवाला होता है, पर मिथ्यादृष्टिका अपने पक्षकी दृष्टि सहित ।

१ श्रद्धान निर्देश

१. श्रद्धानका लक्षण

दे प्रत्यय/१ दृष्टि, श्रद्धा, रुचि, प्रत्यय ये एकार्थवाची हैं ।

म सा ॥आ ॥१७-१८ तथेति प्रत्ययलक्षण श्रद्धानमुत्प्लवते । = इस आत्माको जेसा जाना वैसा ही है 'इस प्रकारकी प्रतीति है लक्षण जिसका' ऐसा श्रद्धान उचित होता है ।

म स ॥टी ॥२१॥१६४/१७ श्रद्धानं रचिनिश्चय इदमेवेत्यमेवेति निश्चय-बुद्धि सम्यग्दर्शनम् । = (सप्त तन्त्रोंमें चनपनादि दोषों रहित) श्रद्धान रुचि निश्चय, अथवा जो जिनेन्द्रने कहा तथा जिम प्रकार कहा है उसी प्रकार है, ऐसी निश्चय रूप बुद्धिको सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

प ध ॥उ ॥४१२ तत्त्वार्थाभिमुखी बुद्धि श्रद्धा । = तत्त्वार्थोंके त्रिययमें उन्मुख बुद्धिको श्रद्धा कहते हैं ।

२. श्रद्धानके अनुसार चारित्र होता है

स ज ॥६५-६६ यत्रैवाहितधी पुम श्रद्धा तत्रैव जायते । यत्रव जायते श्रद्धा चित्त तत्रैव नीयते ॥६५॥ यवानाहित पुम श्रद्धा तस्मात्त्रि-वर्तते । यस्मान्निवर्तते श्रद्धा वृत्तश्चित्तस्य तस्य ॥६६॥ = जिम किसी विषयमें पुरुषकी दत्तावधान बुद्धि होती है उनी विषयमें उसको श्रद्धा होती है और जिम विषयमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है

उस विषयमें उसका मन लीन हा जाता है। १६५। जिस विषयमें दत्तावधान बुद्धि नहीं हाती उससे रुचि हट जाती है। जिससे रुचि हट जाती है उन विषयमें लीनता वे से हो सकती है।

३. चारित्रिकी शक्ति न हो तो श्रद्धान तो करना चाहिए

नि, सा /मू/१७४ यदि सद्गदि कादु जे पडिकमणादि करेज्ज भाणमय । सत्तिविहीणो जा जइ सद्वहण चेज कायव्व ११५४। —यदि किया जा सके तो अहो! ध्यानमय, प्रतिक्रमणादि कर, यदि तू शक्ति विहीन हो तो तबतक श्रद्धान ही कर्तव्य है।

द. पा /मू/१२२ ज सद्गइ त कीरइ ज चण सक्केइ त च सद्वहण । केवलिजिणेहि भणिय सद्वहमाणस्स समत्त १२२। —जो करनेको (त्याग करनेको) समर्थ हो तो करिये, परन्तु यदि करनेको समर्थ नहीं तो श्रद्धान तो कीजिए, क्योंकि श्रद्धान करनेवालोंके केवनी भगवान्ने सम्यक्त्व कहा है। १२२।

नि सा /ता वृ/१५४/क २६४ कलिविलसिते पापजहुले । अतोऽ-ध्यात्म ध्यान कथमिह भवेन्निरमलधिया । निजात्मश्रद्धानं भवभयहरं स्वीरृतमिदम् । —पापसे बहूल कलिकालका विलास होनेपर इस कालमें अध्यात्म ध्यान कैसे हो सकता है। इसलिए निर्मल बुद्धिवाले भवभयका नाश करनेवाली ऐसी इस निजात्म श्रद्धानको अगीकार करते हैं।

४. यथार्थ श्रद्धान न करे तो अमव्य है

प्र, सा /मू/६२ णो सद्वहति सोक्ख सुहेसु परमं ति विगदधादीण । सुणिदूण ते अभव्वा भव्वा वा त पडिच्छति ६२। —जिनके धार्तिकर्म नष्ट हो गये हैं, उनका सुख (सर्व) सुखोंमें उत्कृष्ट है, यह सुनकर जो श्रद्धान नहीं करते वे अमव्य है और अव्य उसे स्वीकार करते हैं—उसकी श्रद्धान करते हैं।

५. अन्य सम्यन्धित विषय

- १ श्रद्धानमें सम्यक्त्वकी प्रधानता । —दे, सम्यग्दर्शन/II/२ ३।
- २ श्रद्धानमें अनुभवकी प्रधानता । —दे, अनुभव/३।
३. श्रद्धान व सम्यग्दर्शनमें कथंचित् भेदाभेद । —दे सम्यग्दर्शन/II/११।
४. दर्शनका अर्थ श्रद्धान । —दे, सम्यग्दर्शन/II/१।
- ५ श्रद्धानमें भी कथंचित् ज्ञानपना । —दे सम्यग्दर्शन/II/४।
- ६ श्रद्धान व ज्ञानमें पूर्वात्तरत्तापना । —दे ज्ञान/III/३।
- ७ ज्ञान व श्रद्धानमें अन्तर । —दे सम्यग्दर्शन/II/४।

२. अन्ध श्रद्धान निर्देश

* श्रद्धानमें परोक्षाकी प्रधानता—दे न्याय/२/१।

२. परोक्षा रहित अन्ध श्रद्धान अकिंचित्कर

क पा १/७/३ जुत्तिविरहियगुरुवयणादो पयट्टमाणस्स पमाणुसारित्त-विरोहादो । —दिग्ध्य युक्तिकी अपेक्षा किये बिना मात्र गुरु वचनके अनुसार प्रवृत्ति करता है उसे प्रमाणानुसारी माननेमें विरोध आता है।

मो मा प्र /७/३१६/७ जो निर्णय करनेको विचार करत ही सम्यक्त्वको दाप लागे, ता अष्टसहस्रीमें आज्ञाप्रान्तर्त परोक्षा प्रधानको उत्तम क्यों कहा।

मो मा प्र /१८/३९१/१३ जो मे जिन वचन अनुसारि मानौ हा तो भाव भामे बिना अन्यथापनो होय जाय।

सत्ता स्वरूप/४ १०२ (जिसकी सत्ता निश्चय नहीं हुआ वह परोक्षा

वालोंको किस प्रकार स्तवन करने योग्य है। इससे सर्वकी सत्ता सिद्ध हो, यहाँ कर्मका मूल है। ऐसी जिनकी आम्नाय है।

भद्रबाहु चरित्र/प्र, ६ पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिपु । युक्तमद्-वचनं यस्य तस्य कार्य परिग्रहः । —न तो मुझे वीर भगवान्का कोई पक्ष है और न कपिलादिकोंसे द्वेष है जिसका भी वचन युक्ति सहित है, उस ही से मुझे काम है।

English Tatwath Sutra/Page 15- Right Belief is not identical with blind faith, Its authority is neither External nor autocratic

—सम्यग्दर्शन अन्ध श्रद्धानकी भाँति नहीं है। इसका अधिकार न तो बाह्य है और न रूढि रूप ही है।

२. अन्धश्रद्धान ईषत् निर्णय लक्षण वाला होता है

दे० आगम/३/६ आगमकी विरोधी दो बातोंका समग्र करने वाला सशय मिथ्यादृष्टि नहीं होता, क्योंकि समग्र करने वालेके यह 'सूत्रकथित है' इस प्रकारका श्रद्धान पाया जाता है, अतएव उसे सन्देह नहीं हो सकता।

गो जी /जी प्र /५६१/१००६/१३ तच्छ्रद्धानं आज्ञया प्रमाणादिभिर्विना आप्तवचनाश्रयेण ईषत्निर्णयलक्षणया । —बिना प्रमाण नय आदि-के द्वारा विशेष जाने, जैसा भगवान्ने कहा वैसे ही है, ऐसे आप्त वचनोंके द्वारा सामान्य निर्णय है लक्षण जिसका ऐसी आज्ञाके द्वारा श्रद्धान होता है।

३. सूक्ष्म दूरस्थादि पदार्थोंके विषयमें अन्ध श्रद्धान करनेका आदेश

भ, आ /मू/३६/१२८ धम्माधम्मागासाणि पोग्गला कालद्वय जीवे य । आणाप सद्वहन्तो समत्ताराहओ भणिदो ३६। —धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल काल व जीव इन छह द्रव्योंको जिनेश्वरकी आज्ञासे श्रद्धान करने वाला आत्मा सम्यक्त्वका आराधक होता है। ३६।

द्र स /टी/४८/२०२ पर उद्घृत स्वय मन्दबुद्धिस्वेऽपि विशिष्टोपा-ध्यायाभावे अपि शुद्धजीवादिपदार्थानां सूक्ष्मत्वेऽपि सति सूक्ष्म जिनोदित वाक्यं हेतुभिर्भ्रज हन्यते । आज्ञासिद्धं तु तद्ग्राह्य नान्यथावादिनो जिना । —स्वय अल्पबुद्धि हो विशेष ज्ञानी गुरुकी प्राप्ति न हो जब शुद्ध जीवादि पदार्थोंकी सूक्ष्मता होने पर—श्री जिनैन्द्रका कृपा हुआ जो सूक्ष्मत्व है, वह हेतुओंसे खण्डित नहीं हो सकता, अत जो सूक्ष्मत्व है उसे जिनैन्द्रकी आज्ञाके अनुसार ग्रहण करना चाहिए। (द, पा, /टी/१२/१२/२८/-पर उद्घृत)।

प वि /१/१२८ निश्चेतव्यो जिनैन्द्रस्तदनुभवसां गोचरेऽपि परोक्षे । कार्यं सोऽपि प्रमाणं वदत किमपरेणाल कोलाहलेन । सत्यां छद्वस्थ-तायामिह समयपथस्वानुभूतिप्रबुद्धा । भो भो भव्या यतध्व दृग-वगमनिधानामनि प्रीतिभाज १२८। —हे अव्य जीवो! आपकी जिनैन्द्रदेवके विषयमें व उनकी वाणीके विषयभूत परोक्ष पदार्थोंके विषयमें उसीको प्रमाण मानना चाहिए, दूसरे व्यर्थके कोलाहलसे क्या प्रयोजन है। अतएव छद्वस्थ अवस्थाके रहनेपर सिद्धान्त मार्गसे आये हुए आत्मानुभवसे प्रबोधको प्राप्त हाकर आप सम्यग्दर्शन व ज्ञानकी निधि स्वरूप आत्माके विषयमें प्रीतियुक्त होकर आराधना कीजिए। १२८।

अन ध, /२/२५ धर्मादीनधिगम्य सच्छ्रुतनयन्यासानुयोगै सुधीः, श्रद्धयादविदाह्यैव सुतारं जीवास्तु सिद्धयेतरात् १२५। —विशिष्ट ज्ञानके धारकोंको समीचीन, प्रमाण-नय-निक्षेप और अनुयोगोंके द्वारा धर्मादिक द्रव्योंको जानकर उनका श्रद्धान करना चाहिए। किन्तु मन्दज्ञानियोंके केवल आज्ञाके अनुसार ही उनका ज्ञान व श्रद्धान करना चाहिए।

द्र. स./टी/२२/६८/६ कालद्रव्यमन्यद्वा परमाणुमाविरोधेन विचारणीय पर किन्तु वीतरागसर्वज्ञवचन प्रमाणमिति मनसि निश्चित्य विचारो न कर्तव्य । विवादे रागद्वेषो भवतस्ततश्च ससारवृद्धि-रिति । =काल द्रव्य तथा अन्य द्रव्यके विषयमें परमाणुके अवि-रोधसे ही विचारना चाहिए । 'वीतराग सर्वज्ञका वचन प्रमाण है' ऐसा मनमें निश्चय करके उनके कथनमें विवाद नहीं करना चाहिए । क्योंकि विवादमें राग-द्वेष व इनसे ससारकी वृद्धि होती है ।

पं. ध./उ/४८२ अर्थवशादत्र सूत्रे (सूत्रार्थे) शब्दा न स्यान्मनीपि-णाम् । सूक्ष्मान्तरितद्वारार्थं स्युस्तदास्तिक्यगोचरा १४८२। =सूक्ष्म, दूरवर्ती और अन्तरित पदार्थ सम्यग्दृष्टिके आस्तिक्यके गोचर है अतः उनके अस्तित्व प्रतिपादक आगममें प्रयोजनवश कभी भी शका नहीं होती १४८२।

दे० आगम/३/६ छद्यस्थोंको विरोधी सूत्रोंके प्राप्त होनेपर विशिष्ट ज्ञानोंके अभावमें दोनोंका संग्रह कर लेना चाहिए ।

दे० सम्यग्दर्शन/१/१/२ तत्त्वादिपर अन्धश्रद्धान करना आज्ञा-सम्यक्त्व है ।

३. क्षयोपशमकी हीनतामें तत्त्व सूत्रोंका भी अन्ध श्रद्धान कर लेना योग्य है

का अ./३२४ जो ण विजाणदित्त्वं सो जिणउयणे करेदि सहहणं । ज जिणवरेहि भणिय त सम्महं समिच्छामि ३२४। =जो तत्त्वों-को नहीं जानता किन्तु जिनवचनमें श्रद्धान करता है कि जिन भगवान्ने जो कुछ कहा है उस उस सबको मे पसन्द करता हूँ । वह भी श्रद्धानवात् है ३२४।

प वि/१/१२५ य कल्पयेत् किमपि सर्वविदोऽपि वाचि सद्विद्वा तत्त्वमसमस्रमात्मबुद्ध्या । खे पत्रिणां विचरतां मुदुक्षितानां संख्यां प्रति प्रविद्धधाति स वादमन्य १२५। =जो सर्वज्ञके भी वचनमें सन्दिग्ध होकर अपनी बुद्धिसे तत्त्वके विषयमें अन्यथा कुछ कल्पना करता है, वह अज्ञानी पुरुष निर्मल नेत्रों वाले व्यक्तिके द्वारा देखे गये आकाशमें विचरते हुए पक्षियोंकी संख्याके विषयमें विवाद करने वाले अन्धके समान आचरण करता है १२५। (प, वि/१३/३४)।

४. अन्ध श्रद्धानकी विभिका कारण व प्रयोजन

दे० आगम/६/४ अतीन्द्रिय पदार्थोंके विषयमें छद्यस्थ जीवोंके द्वारा कल्पित युक्तियोंसे रहित निर्णयके लिए हेतुता नहीं पायी जाती । इसलिए उपदेशको प्राप्त करके निर्णय करना चाहिए ।

प ध/उ/१०४५ सूक्ष्मान्तरितद्वारार्थं प्रागेवात्रापि दर्शिता । नित्यं जिनोदितैर्वाक्यैर्ज्ञातुं शक्या न चान्यथा १०४५। =पहले भी कहा है कि परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ, राम-रावणादिक मुदीर्घ अतीत कालवर्ती और मेरु आदि दूरवर्ती पदार्थ सदैव जिनवाणीके द्वारा ही जाने जा सकते हैं किन्तु अन्यथा नहीं जाने जा सकते १०४५।

३. सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टिके श्रद्धानमें अन्तर

१. मिथ्यादृष्टिकी प्ररूपणापर सम्यग्दृष्टिकी श्रद्धान नहीं होता ।

पं. ध/उ/४६१ सूक्ष्मान्तरितद्वारार्थं दर्शितेऽपि कुदृष्टिभिः । नास्प-स्तत स मुद्येत किं पुनश्चेद्बहुभूत ४६१। =मिथ्यादृष्टियों द्वारा सूक्ष्म, दूरस्थ व अन्तरित पदार्थोंके दिखानेपर भी अस्पष्टज्ञानी सम्यग्दृष्टि मोहित नहीं होता है । यदि बहुभूत धारक हुआ तो फिर भला क्योंकर मोहित होगा ।

* मिथ्यादृष्टिका धर्म सम्यग्दृष्टि श्रद्धान श्रद्धान नहीं ।

—दे० मिथ्यादृष्टि/४ ।

* सम्यग्दृष्टिके श्रद्धानमें कदाचित् शकाका सम्भावना ।

—दे० नि शक्ति/३ ।

२. सूक्ष्मादि पदार्थोंके अश्रद्धानमें भी सम्यग्दर्शन सम्भव है ।

भ. आ/वि/३७/१३१/२१ यदि नाम धर्मादिद्रव्यापरिज्ञानात् परिज्ञान-सहचारि श्रद्धान नोत्पन्न तथापि नासी मिथ्यादृष्टिदर्शनमोहोद-यस्य अश्रद्धानपरिणामस्याज्ञानविषयस्याभावात् । न हि श्रद्धान-स्यानुत्पत्तिरश्रद्धान इति गृहीत श्रद्धानादन्यदश्रद्धान इदमिथ्यमिति श्रुतनिरूपितेऽरुचि । =यद्यपि धर्मादि द्रव्योंका ज्ञान न होनेसे ज्ञानके साथ होनेवाली श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई तो भी वह सम्यग्दृष्टि ही है, मिथ्यादृष्टि नहीं है, क्योंकि दर्शन मोहनीय कर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ जो अश्रद्धान जो कि अज्ञानको विषय करता है वह यहाँ नहीं है । मिथ्यादर्शनसे उत्पन्न हुआ जो श्रद्धान व अरुचि रूप है अर्थात् यह वस्तु स्वरूप इस तरहसे है ऐसा जो आगममें कहा गया है उस विषयमें अरुचि होना यह मिथ्यादर्शन रूप अश्रद्धान है और प्रकृत विषयमें ऐसी अश्रद्धा नहीं है । परन्तु जिनेश्वरके प्रतिपादित जीवादि सच्चे हैं, ऐसी मनमें प्रीति-रुचि उत्पन्न होती है ।

३. गुरु नियोगसे सम्यग्दृष्टिके भी असत् वस्तुका श्रद्धान सम्भव है ।

भ आ/पू/३२/१२१ सम्मादिद्वी जीवो उवद्दृष्ट पवयणं तु सहहृद् । सहहृद् असम्भाव अयाणमाणो गुरुणियोगा ३२। =सम्यग्दृष्टि जीव जिन उपदिष्ट प्रवचनका तो श्रद्धान करता ही है, किन्तु कदाचित् (सद्भावको) नहीं जानता हुआ गुरुके नियोगसे असद्भावका भी श्रद्धान कर लेता है ३२। (क पा/सुत्/१०/गा १०७/६३७), (प, स/प्रा/१/१२), (ध. १/१.१.१३/गा ११०/१७३), (ध. ६/१.६-८, ६/गा. १४/२४२), (गो जी/पू./२७/५६) ।

ल सा/पू/१०५/१४४ सम्मुदये चलमलिणमगाढ सहहृदि तच्चय अर्थ । सहहृदि असम्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा १०३। =सम्यक्त्व मोहनीयके उदयसे तत्त्व श्रद्धानमें चल, मल व अगाढ दोष लगते हैं । वह जीव आप विशेष न जानता हुआ अज्ञात गुरुके निमित्त असत्का भी श्रद्धान करता है । परन्तु सर्वज्ञकी आज्ञा ऐसे ही है ऐसा मानकर श्रद्धान करता है, अतः सम्यग्दृष्टि ही है ।

४. असत्का श्रद्धान करनेसे सम्यक्त्वमें बाधा नहीं आती ।

भ आ/वि/३२/१२२/१ स जीव सम्मादिद्वी प्रतीतपदार्थकत्वमा-दर्शित । श्रद्धानं करोति असत्यमप्यर्थं अयाणमाणे अनव-गच्छद् । किं । विपरीतमनेनोपदिष्टमिति । गुरोर्व्याख्यातुरस्यायमर्थ इति कथनान्निजयुज्यते प्रतिपत्त्या श्रोता अनेन वचनेन इति नियोग कथन । सर्वज्ञप्रणीतस्यागमस्यार्थं आचार्यपरपरया अविपरीत श्रुतो-ऽवधृतत्वानेन सूरिणा उपदिष्टो ममेति सर्वज्ञाज्ञाया रुचिरस्यास्तीति । आज्ञारुचितया सम्यग्दृष्टिर्भवत्येवेति भाव । =यह सम्यग्दृष्टि जीव असत्य पदार्थका भी श्रद्धान करता है, परन्तु वह तत्काल असत्य पदार्थके ऊपर श्रद्धान करता है जबतक वह 'गुरुने मेरेको असत्य पदार्थका स्वरूप कहा है' यह नहीं जानता है । जबतक वह असत्य पदार्थका श्रद्धान करता है तब तक उसने आचार्य परमराजे अनुयायि जिनागमके जीवादि तत्त्वका स्वरूप कहा है और जिनेन्द्र भगवात्की

श्रद्धान

आज्ञा प्रमाणभूत माननी चाहिए ऐसा भाव हृदयमें रखता है अतः उसके सम्यग्दर्शनमें हानि नहीं है, वह मिथ्यादृष्टि नहीं गिना जाता है। सर्वज्ञकी आज्ञाके ऊपर उसका प्रेम रहता है, वह आज्ञा रुचि होनेसे सम्यग्दृष्टि ही है, ऐसा भाव समझना। (और भी दे, आगम/५)।

गो जी/जी प्र/२७/१६/१२ असद्भाव—अतत्त्वमपि स्वस्य विशेषज्ञान-
द्वान्यत्वेन केवलगुरुनियोगात् अर्हदाज्ञाज्ञात श्रद्धाति सोऽपि
सम्यग्दृष्टिरेव भवति तदाज्ञाया अनतिक्रमात् ॥२७॥ =अपने विशेष
ज्ञानका अभाव होनेसे गुरुके नियोगसे 'अरहत देवका ऐसा ही उपदेश
है' ऐसा समझकर यदि कोई पदार्थका विपरीत भी श्रद्धान कर लेता
है तो भी वह सम्यग्दृष्टि ही है, क्योंकि उसने अरहत्तका उपदेश
समझकर उस पदार्थका वैसा श्रद्धान किया है। उनकी आज्ञाका
अतिक्रम नहीं किया।

५. सम्यक् उपदेश मिलनेपर भी हठ न छोड़े तो मिथ्यादृष्टि हो जाये

भ, आ/सू ३३,३६ सुत्तादो त सम्म दरसिञ्जत जदा ण सहहदि । सो
चेव हउइ मिच्छादिट्ठी जीवो तदो पवुदि ॥३३॥ पदमगवर च एवमं
पि जो ण रोचेदि सुत्तणिद्धिट्ठ । सेस रोचतो वि हु मिच्छादिट्ठी
मुणेयव्वो ॥३६॥ =१ सूत्रसे आचार्यादिकके द्वारा भले प्रकार समझाये
जानेपर भी यदि वह जोब विपरीत अर्थको छोड़कर समीचीन
अर्थका श्रद्धान नहीं करता, तो उस समयसे वह सम्यग्दृष्टि जीव
मिथ्यादृष्टि हो जाता है। (ध, १/१,२,३६/गा १४३/२६२), (गो
जी/सू/२८), (ल सा/सू/१०६/१४४) २ सूत्रमें उपदिष्ट एक अक्षर
भी अर्थको प्रमाण मानकर श्रद्धान नहीं करता वह बाकीके श्रुतार्थ या
श्रुतांशको जानता हुआ भी मिथ्यादृष्टि है। क्योंकि बड़े पात्रमें रखे
दूधको छोटी सी भी विप कणिका बिगाडती है। इसी प्रकार अश्रद्धान-
का छोटा सा अंश भी आत्माको मलिन करता है ॥३६॥

६ क्योंकि मिथ्यादृष्टिके ही ऐकान्तिक पक्ष होता है

भ आ/सू ४०/१३८ मोहोदयेण जीवो उवइट्ठ पवयण ण सहहदि ।
सहहदि असम्भाव उवइट्ठं अणुवइट्ठं वा ॥४०॥ =दर्शन मोहनीय
कर्मके उदय होनेसे यह जी- करे हुए जीवादि पदार्थोंके सच्चे
स्वरूपपर श्रद्धान करता नहीं है। परन्तु जिसका स्वरूप कहा है अथवा
कहा नहीं ऐसे असत्य पदार्थोंके ऊपर वह श्रद्धान करता है ॥४०॥

क पा सू १०८/५, ६३७ मिच्छादिट्ठी नियमा उवइट्ठं पवयण ण
सहहदि । सहहदि असम्भाव उवइट्ठं वा अणुवइट्ठं ॥१०८॥ =
मिथ्यादृष्टि जीव नियमसे सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका तो श्रद्धान
नहीं करता है, किन्तु असर्वज्ञ पुरुषोंके द्वारा उपदिष्ट या अनुपदिष्ट
असद्भावका अर्थात् पदार्थके विपरीत स्वरूपका श्रद्धान करता है ॥१०८॥
(ध ६/१,६-८६/गा १५/२४२)।

* सम्यग्दृष्टिको पक्षपात नहीं होता—दे सम्यग्दृष्टि/४।

७. एकान्त श्रद्धान या दर्शन वादका निर्देश

१ मिथ्या एकान्तकी अपेक्षा

ज्ञा/४/२४ कैश्चित् कीर्त्तित्ता मुक्तिदर्शनादिव केवलम् । वादिना त्वत्तु
सर्वेषामपाकृत्य नयान्तरम् ॥२४॥ =कई वादियोंने अन्य समस्त
वादियोंके अन्य नयपक्षोंका निराकरण करके केवल दर्शनसे ही मुक्ति
होनी कही है ॥२४॥

२. सम्यगेकान्तकी अपेक्षा

दे विज्ञानवाद/२ ज्ञान क्रिया व श्रद्धा तीनों ही मिलकर प्रयोजन-
वात् है।

दे सम्यग्दर्शन/१/५ जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट है वे भ्रष्ट हैं। क्योंकि सम्य-
ग्दर्शनके बिना ज्ञान व चारित्र नियम पूर्वक नहीं होते।

श्रद्धान प्रायश्चित्त—दे प्रायश्चित्त/१।

श्रद्धावान—अपर विवेहका एक वक्षार, उस वक्षारकी एक कूट तथा
उस कूटका रक्षक देव, दे लोक/७।

श्रमण—१ न च, वृ/३३२ सम्मा वा मिच्छा विय सरोहणा समण
तह य अणयारा। "होति विराय सराया जदिरिमुणिणो य
णायव्वा ॥३३२॥ =श्रमण तथा अनगार सम्यक् व मिथ्या दोनों
प्रकारके होते हैं। सम्यक् श्रमण विगामी और मिथ्या श्रमण सरागी
होते हैं। उनको ही यति, ऋषि, मुनि और अनगार कहते हैं ॥३३२॥
(प्र सा/ता वृ/२४६), (विशेष—दे, माधु) २ श्रमणके १०
कल्पोंका निर्देश—साधु/२।

श्रमण—१ एक ग्रह—दे ग्रह। २ एक नक्षत्र—दे नक्षत्र।

श्रावक—विवेकमान विरक्तचित्त अणुव्रती गृहस्थको श्रावक कहते
हैं। ये तीन प्रकारके हैं—पाक्षिक, नैष्ठिक व साधक। निज धर्मका
पक्ष मात्र करनेवाला पाक्षिक है और व्रतधारी नैष्ठिक। इसमें वैराग्य-
की प्रकृततासे उत्तरोत्तर ११ श्रेणियाँ हैं। जिन्हें ११ प्रतिमाएँ कहते
हैं। शक्तिको न छिपाता हुआ वह निचली दशासे क्रम पूर्वक उठता
चला जाता है। अन्तिम श्रेणीमें इसका रूप साधुमे किंचित न्यून
रहता है। गृहस्थ दशमें भी विवेक पूर्वक जीवन चित्तानेके लिए
अनेक क्रियाओंका निर्देश किया गया है।

१	भेद व लक्षण
१	श्रावक सामान्यके लक्षण।
२	श्रावकके भेद।
	१ पाक्षिकादि तीन भेद,
	२ नैष्ठिक श्रावकके ११ भेद,
	३ ग्यारहवीं प्रतिमाके दो भेद।
*	पृथक् पृथक् ११ प्रतिमाएँ। —दे वह वह नाम।
३	पाक्षिकादि श्रावकोंके लक्षण।
२	श्रावक सामान्य निर्देश
१	गृहस्थ धर्मकी प्रधानता।
२	श्रावक धर्मके योग्य पात्र।
३	विवेकी गृहस्थको हिंसाका दोष नहीं।
४	श्रावकको भव धारणकी सीमा।
५	श्रावकके मोक्ष निपेयका कारण।
*	श्रावकके पढ़ने न पढ़ने योग्य शास्त्र —दे श्रोता।
*	श्रावकमें विनय व नमस्कार योग्य व्यवहार —दे, विनय/३।
*	सम्यग्दृष्टि भी श्रावक पूज्य नहीं —दे, विनय/४।
*	गृहस्थाचार्य —दे आचार्य/२।
*	श्रावक ही वास्तवमें ब्राह्मण है —दे ब्राह्मण।
*	श्रावकको गुरु सखा नहीं —दे गुरु/१।
*	प्रत्येक तीर्थकारके तीर्थमें श्रावकोंका प्रमाण —दे तीर्थकर/५।

३	पाक्षिक व नैष्ठिक श्रावक निर्देश
*	सयतासयत गुणस्थान —दे सयतासयत ।
१	नैष्ठिक श्रावकमें सम्यग्दृष्टि का स्थान ।
*	सम्यग्दृष्टि श्रावक मिथ्यादृष्टि साधुसे ऊँचा है —दे, साधु/४ ।
*	सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टिके व्यवहार धर्ममें अन्तर —दे मिथ्यादृष्टि/४ ।
२	ग्यारह प्रतिमाओंमें उत्तम मध्यमादि विभाग ।
*	क्षुल्लका —दे क्षुल्लक ।
३	ग्यारह प्रतिमाओंमें उत्तरोत्तर व्रतोंकी तरतमता ।
४	पाक्षिक श्रावक सर्वथा अविरति नहीं ।
५	पाक्षिक श्रावककी दिनचर्या ।
६	पाँचों व्रतोंके एक देश पालन करनेसे व्रती होता है ।
७	पाक्षिक व नैष्ठिक श्रावकमें अन्तर ।
*	श्रावकके योग्य लिंग —दे लिंग/१ ।
४	श्रावकके मूल व उत्तर गुण निर्देश
१	अष्ट मूल गुण अवश्य धारण करने चाहिए ।
२	अष्टमूल गुण निर्देशका समन्वय ।
३	अष्ट मूल गुण विशेष व उनके अतिचार —दे वह वह नाम ।
४	अष्ट मूल गुण व सात व्यसनोंके त्यागके बिना नामसे भी श्रावक नहीं ।
५	श्रावकके १० व्रत । —दे व्रत/१ ।
६	अष्टमूल गुण व्रती व अव्रती दोनोंको होते हैं ।
७	मूलगुण साधुको पूर्ण व श्रावकको एक देश होते हैं ।
८	श्रावकके अनेकों उत्तरगुण
१	१ श्रावकके दो कर्तव्य ।
२	२ श्रावकके ४ कर्तव्य ।
३	३ श्रावकके ५ कर्तव्य ।
४	४ श्रावकके ६ कर्तव्य ।
५	५ श्रावकको ५३ क्रियाएँ ।
६	६ श्रावककी २५ क्रियाएँ । —दे क्रिया ।
७	७ गर्भान्वय आदि १० या ५३ क्रियाएँ—दे, सत्कार/२ ।
८	श्रावकके अन्य कर्तव्य ।
*	श्रावककी स्नान विधि —दे स्नान ।
*	दान देना ही गृहस्थका प्रधान धर्म है—दे दान/३ ।
*	वैयाघृत्य करना गृहस्थका प्रधान धर्म है —दे वैयाघृत्य/८ ।
*	सावध होते भी पूजा व मन्दिर आदि निर्माणकी आशा —दे, धर्म/५/२ ।
*	श्रावकोंको सल्लेखना धारणे सम्बन्धी —दे सल्लेखन/१ व ३ ।
*	अणुव्रतोंमें भी कश्चित् महाव्रतत्व —दे, व्रत/३ ।
*	सामायिकके समय श्रावक भी साधु—दे सामायिक/३ ।

*	साधु व श्रावकके धर्ममें अन्तर —दे धर्म/६ ।
*	साधु व श्रावकके ध्यान व अनुभूतमें अन्तर —दे अनुभव/५ ।
८	आवश्यक क्रियाओंका महत्त्व ।
९	कुछ निषिद्ध क्रियाएँ ।
१०	सर्व क्रियाओंमें समय रक्षणीय है ।
*	श्रावकको भी समिति गुप्त आदिका पालन करना चाहिए । —दे व्रत/२/४ ।
*	श्रावकको स्यावर वध आदिकी भी अनुमति नहीं है —दे व्रत/३ ।

१ भेद व लक्षण

१. श्रावक सामान्यके लक्षण

स नि /१/४४/४५/८ म एव पुनश्चारित्रमोहकर्मविकल्पाप्रत्याख्यानावरणक्षयोपशमनिमित्तपरिणामप्राप्तिकाले विशुद्धिकर्पयोगात् श्रावको । = वह ही (अविरत सम्यग्दृष्टि ही) चारित्र मोह कर्मके एक भेद अप्रत्याख्यानावरण कर्मके क्षयोपशम निमित्तक परिणामोंकी प्राप्तिके समय विशुद्धिका प्रकर्म होनेसे श्रावक होता हुआ ।

सा ध /१/१५-१६ मूलोत्तरगुणनिष्ठा मधितिष्ठन् पञ्चगुरुपदशरण्य । दानयजनप्रधानो, ज्ञानसुधां श्रावक पिपासु स्यात् । १६। रागादि-क्षयतारतम्यविकसच्छुद्धात्मस विरसुख स्वादात्मस्ववर्धित्वहिस्त्रसव धाय' होव्यपोहारमसु । सद्दृष्टं दर्शनिकादिदेशनिरतिस्थानेषु चैका-दश-स्वेक य श्रयते यतिव्रतस्ततश्च श्रद्धे श्रावकम् । १६। = पञ्च परमेष्ठिका भक्त प्रधानतासे दान और पूजन करनेवाला भेद ज्ञान रूपी अमृतको पीनेका इच्छुक तथा मूलगुण और उत्तरगुणोंको पालन करनेवाला व्यक्ति श्रावक कहलाता है । १६। अन्तरंगमें रागादिकके क्षयकी हीनाधिकताके अनुसार प्रगत होनेवाली आत्मानुभूतिसे उत्पन्न सुखका उत्तरोत्तर अधिक अनुभव होना ही है स्वरूप जिन्होंका ऐमे और बहिरगमें त्रस हिंसा आदिक पाँचों पापोंसे विधि पूर्वक निवृत्ति होना है स्वरूप जिन्होंका ऐमे ग्राह्य देशविरत नामक पञ्चम गुण-स्थानके दर्शनिक आदि स्थानों—दरजोंमें मुनिव्रतका इच्छुक होता हुआ जो सम्यग्दृष्टि व्यक्ति किसी एक स्थानको धारण करता है उसको श्रावक मानता है अथवा उस श्रावकको श्रद्धाकी दृष्टिसे देखता है । सा ध /स्वोपज्ञ टीका/१/१६ अणुव्रतं गुर्विदिभ्यो धर्ममिति श्रावकः । = जो श्रद्धा पूर्वक गुरु आदिसे धर्म श्रवण करता है वह श्रावक है । इ म /टी /१३/३४/५ स पञ्चमगुणस्थानवर्ती श्रावको भवति । = पञ्चम गुणस्थानवर्ती श्रावक होता है ।

२ श्रावकके भेद

१. पाक्षिकादि तीन भेद

चा. सा /४१/३ साधुकरामेव पक्षादिभिस्त्रिभिर्हिमाद्युपचित पापम् अपगत् भवति । = इम प्रतार पक्ष चर्चा और माघत्वं इन तीनोंमें गृहस्थीके हिंसा आदिके दृष्टे किये हुए पाप मन्त्र नष्ट हो जाते हैं । सा ध /१/२० पाक्षिकादिभि त्रेधा श्रावकस्तत्र पाक्षिक । नैष्ठिक माघक । २०। = पाक्षिक, नैष्ठिक और माघके भेदसे श्रावक तीन प्रकारके होते हैं ।

सा घ १/३/६ प्रारब्धो घटमानो निष्पन्नाश्चार्हतस्य देशयम । योग इव भवति यस्य त्रिधा स योगीव देशयमी ।६।=जिस प्रकार प्रारब्ध आदि तीन प्रकारके योगसे योगी तीन प्रकारका होता है, उसी प्रकार देशयमी भी प्रारब्ध (प्राथमिक), घटमानो (अभ्यासी) और निष्पन्नके भेदसे तीन प्रकारके है ।

पं. घ. उ/७२५ कि पुन पाक्षिको गूढो नैष्ठिक साधकोऽथवा ।७२५।
=पाक्षिक, गूढ, नैष्ठिक अथवा साधक श्रावक तो कैसे ।

२ नैष्ठिक श्रावकके ११ भेद

चा. अणु/६६ दसण-वय-सामाह्य पोसह सच्चित्त राइभत्ते य । वभा-
रभपरिगह अणुमण उद्दिष्ट देशविरदेदे ।१३६। =दार्शनिक, व्रतिक, सामयिकी, प्रोपधोपवासी, सच्चित्तविरत, रात्रिभुक्तविरत, ब्रह्मचारी, आरम्भविरत, परिग्रह विरत, अनुमति विरत और उद्दिष्टविरत ये (श्रावकके) ग्यारह भेद होते हैं ।१३६। (चा पा/मू/१२), (पं स/प्रा/१/१३६), (ध १/१.१.२/गा ७४/१०२), (ध १/१.१.२३/गा. १६३/३७३), (ध ६/४.१.४५/गा ७८/२०१), (गो जी/मू/४७७/८८४), (बसु श्रा/४), (चा सा./३/३), (द्र स/टी/१२/२४ पर उद्घृत), (पं वि/१/१४) ।

द्र स/टी/४५/१६४/५ दार्शनिक व्रतिक त्रिकालसामयिके प्रवृत्त, प्रोपधोपवासे, सच्चित्तपरिहारेण पञ्चम, दिवाब्रह्मचर्येण षष्ठ, सर्वथा ब्रह्मचर्येण सप्तम, आरम्भनिवृत्तोऽष्टम परिग्रहनिवृत्तो नवम अनुमत्तनिवृत्तो दशम उद्दिष्टहारनिवृत्त एकादशम । =दार्शनिक, व्रती, सामयिकी, प्रोपधोपवासी, और सच्चित्त विरत तथा दिवा मैथुन विरत, अन्नह विरत आरम्भविरत और परिग्रह विरत, अनुमति विरत और उद्दिष्ट विरत श्रावकके ये ११ स्थान हैं (सा घ/३/२-३) ।

३ ग्यारहवीं प्रतिमाके ७ भेद

बसु श्रा/३०१ एसारसम्मि ठाणे उक्किट्ठो सावओ हवे दुविओ ।
वत्येकधरो पढमो कोवीणपरिगहो विदिओ ।३०१। =ग्यारहवें अर्थात् उद्दिष्ट विरत स्थानमें गया हुआ मनुष्य उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है । उसके दो भेद हैं, एक प्रथम एक वस्त्र रखनेवाला (क्षुल्लक), दूसरा कोपीन (लगोटो) मात्र परिग्रहवाला (ऐलक) (गुण श्रा/१८४), (सा घ/७/३८-३९) ।

३ पाक्षिकादि श्रावकोंके लक्षण

१. पाक्षिक श्रावक

चा सा ४०/४ असिमपिकुपिवाणिज्यादिभिर्गृहस्थानां हिंसासभवेऽपि पक्ष । =असि, मसि, कृपि, नाणिज्य आदि आरम्भों कर्मोंसे गृहस्थोंके हिंसा होना सम्भव है तथापि पक्ष चर्या और साधकपना इन तीनोंसे हिंसाका निवारण किया जाता है । इनमेंसे सदा अहिंसा रूप परिणाम करना पक्ष है ।

सा घ/२/२.१६ तत्रादौ श्रद्धज्जनेमीमात्रां हिंसामपासितुम् । मद्यमांस-
मद्युज्जमेत्, पञ्च क्षीरिफलानि च ।२। स्थूल हिंसावृत्तस्तेय-
मेथुनप्रस्थवर्जन्म् । पापभोरुतयाम्यस्येद्-मलवीर्यनिगूहक ।१६।
=उम गृहस्थ धर्ममें जिनेन्द्र देव सम्बन्धी आज्ञाको श्रद्धान करता हुआ पाक्षिक श्रावक हिंसाको छोड़नेके लिए सबसे पहले मद्य, मांस, मद्युको और पच उदुम्बर फलोंको छोड़ देवे ।२। शक्ति और सामर्थ्यको नहीं छिपानेवाला पाक्षिक श्रावक पापके डरसे स्थूल हिंसा, स्थूल भ्रूठ, स्थूल चोरी, स्थूल कुशील और स्थूल परिग्रहके त्यागका अभ्यास करे ।१६। (पाक्षिक श्रावक देवपूजा गुरु उपासना आदि कार्यको शक्यनुसार नित्य करता है—दे वह वह नाम) सदाब्रत खुलवाना (दे पूजा/१) मन्दिरमें फुनवाडो आदि खुलवाना कार्य करता है (दे चैरय चैरयानच) । रात्रि भाजनका त्यागी होता है, परन्तु कदाचि

रात्रिको इलाइचो आदिका ग्रहण कर लेता है—दे रात्रि भोजन (३/३) । पर्वके दिनमें प्रोपधोपवासको करता है—दे, प्रोपधोपवास (३/१) । व्रत खण्डित होनेपर प्रायश्चित्त ग्रहण करता है (सा घ/२/७६) । आरम्भादिमें संकल्पी आदि हिंसा नहीं करता—(दे श्रावक/३) इस प्रकार उत्तरोत्तर वृद्धिको पाता प्रतिमाओंको धारण करके एक दिन मुनि धर्मपर आरूढ होता है । दे, पक्ष । मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य भावसे वृद्धिको प्राप्त हुआ समस्त हिंसाका त्याग करना जैनोंका पक्ष है ।

२. चर्या श्रावक

चा सा ४०/४ धर्मार्थं देवतार्थं मन्त्रसिद्धयर्थं मौपधार्थं माहारार्थं स्वभोगाय च गृहमेधिना हिंसां न कुर्वन्ति । हिंसासभवे प्रायश्चित्तविधिना विशुद्ध सत् परिग्रहपरित्यागकरणे सति स्वगृह धर्मं च वैश्याय समर्प्य यावद् गृह परित्यजति तावदस्य चर्या भवति । =धर्मके लिए, किसी देवताके लिए, किसी मन्त्रको सिद्ध करनेके लिए, औपधिके लिए और अपने भोगोपभोगके लिए, कभी हिंसा नहीं करते हैं । यदि किसी कारणसे हिंसा हो गयी हो तो विधिपूर्वक प्रायश्चित्त कर विशुद्धता धारण करते हैं । तथा परिग्रहका त्याग करनेके समय अपने घर, धर्म और अपने वशमें उत्पन्न हुए पुत्र आदिको समर्पण कर जनतक वे घरको परित्याग करते हैं तबतक उनके चर्या कहलाती है । (यह चर्या दार्शनिकसे अनुमति विरत प्रतिमा पर्यन्त होती है (सा घ/१/१६) ।

३ नैष्ठिक श्रावक

सा घ/३/१ देशयमघ्नकपाय-क्षयोपशमत्तारतम्यवशत स्यात् । दर्श-
निकायकाद्दश-दशावशो नैष्ठिक मुलेश्यतर ।१। =देश समयका घात करनेवाली कपायोंके क्षयोपशमकी क्रमश वृद्धिके वशसे श्रावकके दर्शनिक आदिक ग्यारह समय स्थानोंके वशीभूत और उत्तम लेश्या वाला व्यक्ति नैष्ठिक कहलाता है ।१।

४. साधक श्रावक

म पु/३६/१४६ जीवितान्ते तु साधनम् । देहादेहित्यागात् ध्यान-
शुद्धात्मशोधनम् ।१४६। =जो श्रावक आनन्दित होता हुआ जीवनके अन्तमें अर्थात् मृत्यु समय शरीर, भोजन और मन, वचन कायके व्यापारके त्यागसे पवित्र ध्यानके द्वारा आत्माकी शुद्धिको साधन करता है वह साधक कहा जाता है । (सा घ/१/१६-२०/८/१) ।

चा सा ४१/२ सकलगुणसंपूर्णस्य शरीरकम्पनोच्छ्वासान्मीलनविधिं
परिहरमाणस्य लोकाग्रमनस शरीरपरित्याग साधकत्वम् । =इसी तरह जिसमें सम्पूर्ण गुण विद्यमान है, जो शरीरका कंपना, उच्छ्वास लेना, नेत्रोंका खोलना आदि क्रियाओंका त्याग कर रहा है और जिसका चित्त लोकके ऊपर विराजमान सिद्धोंमें लगा हुआ है ऐसे समाधिमरण करनेवालेका शरीर परित्याग करना साधकपना कहलाता है ।

२. श्रावक सामान्य निर्देश

१. गृहस्थ धर्मकी प्रधानता

कुल/६.८ गृही स्वस्यैव कर्माणि पालयेद् यत्नतो यदि । तस्य नावश्य-
का धर्मा भिन्नाश्रमनिवासिनाम् ।६। यो गृही नित्यमुष्णुक्त परेषां
कार्यसाधने । स्वय चाचारसपन्नं वृतात्मा स ऋपेरपि । =यदि
मनुष्य गृहस्थके समस्त कर्तव्योंको उचित रूपसे पालन करे, तब उसे
दूसरे आश्रमोंके धर्मोंके पालनेकी क्या आवश्यकता ।६। जो गृहस्थ
दूसरे लोगोंको कर्तव्य पालनमें सहायता देता है, और स्वय भी
धार्मिक जीवन व्यतीत करता है, वह ऋषियोंसे अधिक पवित्र है ।८।

प वि/१/१२ सन्त' सर्वसुरासुरेन्द्रमहित मुक्ते पर कारण रत्नाना दधति त्रयं त्रिभुवनमद्योति काये सति । वृत्तिस्तस्य यदुन्नत परमया भवत्यार्पिताज्जायते तेषां सद्गृहमेधिना गुणवता धर्मा न कस्य प्रिय' । १२। = जो रत्नत्रय समस्त देवेन्द्रों एव असुरेन्द्रोंसे पूजित है, मुक्तिका अद्वितीय कारण है तथा तीनों लोकोंका प्रकाशित करने-वाना है उसे साधुजन शरीरके स्थित रहनेपर ही धारण करते हैं । उस शरीरकी स्थिति उत्कृष्ट भक्तिसे दिये गये जिन सद्गृहस्थोंके अन्नसे रहती है उन गुणवाद् सद्गृहस्थोंका धर्म भला किसे प्रिय न होगा । अर्थात् सर्वको प्रिय होगा ।

२. श्रावक धर्मके योग्य पात्र

सा. ध/१/११ न्यायोपात्तधनो, यजन्गुणगुरुत्वं, सद्गोस्त्रिवर्गं भजन्-
न्योन्यायुगुण, तदर्हगृहिणी-स्थानालयो ह्येवमय । युक्ताहारविहार-
आर्यसमिति, प्राज्ञ कृतज्ञो वशी, शृङ्खन्धर्मविधिं, दयालुरधर्मा,
सागारधर्मं चरेत् । ११। = न्यायसे धन कमानेवाला, गुणोंको, गुरु-
जनोंको तथा गुणोंमें प्रधान व्यक्तियोंको पूजनेवाला, हित मित और
प्रियका वक्ता, त्रिवर्गको परस्पर विरोधरहित सेवन करनेवाला,
त्रिवर्गके योग्य स्त्री, ग्राम और मकानसहित लज्जावाद् शास्त्रके
अनुकूल आहार और विहार करनेवाला, सदाचारियोंकी सगति
करनेवाला, विवेकी, उपकारका जानकार, जितेन्द्रिय, धर्मको विधि-
को सुननेवाला दयावाद् और पापोसे डरनेवाला व्यक्ति सागार धर्मको
पालन कर सकता है । ११।

३. विवेकी गृहस्थको हिंसाका दोष नहीं

म पु/३६/१४३-१४४, १५० स्यादरेका च पट्कर्मजीविना गृहमेधिनाम् ।
हिंसादोषोऽनुपपत्तौ स्याज्जैनाना च द्विजन्मनाम् । १४३। इत्यत्र ब्रूमहे
सत्य अल्पसावयसङ्गति । तत्रास्त्येव तथाप्येपा स्याच्छुद्धिं शास्त्र-
दर्शिता । १४४। त्रिष्वेतेषु न स्वप्नों वधेनाहं द्विजन्मनाम् । इत्यात्म-
पक्षनिक्षिप्तदोषाणां स्यान्निराकृति । १५०। = यहाँपर यह शका हो
सकती है कि जो अति-मपी आदि छह कर्मोंसे आजीविका करनेवाले
जैन द्विज अथवा गृहस्थ हैं उनके भी हिंसाका दोष लग सकता है
परन्तु इस विषयमें हम यह कहते हैं कि आपने जा कहा है वह ठीक
है, आजीविकाके करनेवाले जैन गृहस्थोंके थोड़ीसी हिंसाकी सगति
अवश्य होती है, परन्तु शास्त्रोंमें उन दोषोंकी शुद्धि भी तो
दिलेलायी गयी है । १४३-१४४। अरहन्तदेवको माननेवालेको द्विजोंका
पक्ष, चर्या और साधन इन तीनोंमें हिंसाके साथ स्पर्श भी नहीं
होता । १५०।

४. श्रावकको भव धारणकी सीमा

वसु श्रा/५/३६ सिद्धम् इ तद्गमि भवे पचमप कोवि सत्तमट्टम ।
भुजिवि सुर-मणुयसुह पावेइ कमेण सिद्धपय । ३६। = (उत्तम
रीतिसे श्रावकोंका आचार पालन करनेवाला कोई गृहस्थ) तीसरे
भवमें सिद्ध होता है । कोई क्रमसे देव और मनुष्योंके सुखोंको भोग-
कर पाँचवें, सातवें या आठवें भवमें सिद्ध पदको प्राप्त करते हैं । ३६।

५. श्रावकको मोक्ष निषेधका कारण

मो पा./१२/२१२ पर उद्दृष्ट-खण्डनी पेपणो चुण्णी उदा भ प्रमार्जनी ।
पत्र सूना गृहस्थस्य तेन मोक्ष न गच्छति । = गृहस्थोंके उखली,
चण्णी, चुण्णी, घड़ा और भाड़ू ये पचसुना दोष पाये जाते हैं । इस
कारण उनको मोक्ष नहीं हो सकता ।

३. पाक्षिक व नैष्ठिक श्रावक निर्देश

१. नैष्ठिक श्रावकमें सम्यक्त्वका स्थान

ध, १/१.१.१३/१७४/४ सम्यक्त्वमन्तरेणापि देशयत्ययो दृश्यन्त इति चेन्न,
निर्गतमुक्तिकाइक्षस्यानिवृत्तविषयविपासस्याप्रत्याख्यानानुपपत्ते ।
= प्रश्न—सम्यग्दर्शनके बिना भी देशसयमी देखनेमें आते हैं ।
उत्तर—नहीं क्योंकि, जो जीवमोक्षकी आकांक्षासे रहित है और
जिनकी विषय विपासा दूर नहीं हुई है, उनके अपत्याख्यान सयमकी
उत्पत्ति नहीं हो सकती है ।

वसु श्रा/५ एयारस ठाणाइ सम्मत्त विवज्जिय जीवस्स । जम्हा ण
सति तम्हा सम्मत्त मुणह वोच्चामि । ५। = (श्रावकके) ग्यारह स्थान
चूँकि सम्यग्दर्शनसे रहित जीवके नहीं होते, जत में सम्यक्त्वका
वर्णन करता हूँ । हे भव्यो ! तुम सुनो । ५।

द्र स/टी/१४/१६६/३ सम्यक्त्वपूर्वकेन दार्शनिकश्रावको भवति ।
= सम्यक्त्वपूर्वक दार्शनिक श्रावक होता है । (ला स/२/६) ।

२. ग्यारह प्रतिमाओंमें उत्तम मध्यमादि चिन्ता

चा सा/४०/३ आद्यास्तु पट् जघन्या स्युर्मध्यमास्तदनु त्रय । शेषी
द्वावुत्तमावुक्तौ जैनेषु जिनआसने । = जिनागममें ग्यारह प्रतिमाओंमें
पहलेकी छह प्रतिमा जघन्य मानी जाती है इनके बादकी तीन अर्थात्
सातवीं, आठवीं और नौवीं प्रतिमाएँ मध्यम मानी जाती है । और
बाकीकी दशवीं, ग्यारहवीं प्रतिमाएँ उत्तम मानी जाती है । (सा
ध/३/२-३), (द्र. सं/टी/१४/१/६६/११), (द. पा./टी./१८/१७) ।

३. ग्यारह प्रतिमाओंमें उत्तरोत्तर व्रतोंकी तरतमता

चा सा/३/४ इत्येकादेशनिलया जिनादिता श्रावका क्रमशः व्रतादयो
गुणा दर्शनादिभि पूर्वगुणै सह क्रमप्रवृद्धा भवन्ति । = जिनेन्द्रदेवने
अनुक्रमसे इन ग्यारह स्थानोंमें रहनेवाले ग्यारह प्रकारके श्रावक
बतलाये हैं । इन श्रावकोंके व्रतादि गुण सम्यग्दर्शनादि अपने पहले-
के गुणोंके साथ अनुक्रमसे बढ़ते रहते हैं ।

सा ध/३/६ तद्वद्दर्शनिकादिश्च, स्थैर्यं स्वे स्वे व्रतेऽग्रजन् । लभते पूर्व-
मेवाथर्थाद्, व्यपदेश न तत्तरम् । ६। = नैष्ठिक श्रावककी तरह अपने-
अपने व्रतोंमें स्थिरताको प्राप्त नहीं होनेवाले दार्शनिक आदि
श्रावक भी वास्तवमें पूर्व-पूर्व ही सज्ञाको पाता है, किन्तु आगेकी
सज्ञाको नहीं । ६।

४. पाक्षिक श्रावक सर्वथा अव्रती नहीं

ला सं./२/४७-४६ नेत्थं य पाक्षिक कश्चिद् व्रताभावादस्त्यव्रती ।
पक्षमात्रावलम्बी स्याद् व्रतामात्र न चाचरेत् । ४७। यतोऽस्य पक्षग्राहि-
त्वमसिद्ध बाधसंभवात् । लोपात्सर्वविदाज्ञाया साध्या पाक्षिकता
कुत । ४८। आज्ञा सर्वविद् सैव क्रियावाद् श्रावको मत । कश्चि-
त्सर्वनिकृष्टोऽपि न त्यजेत्स कुलक्रिया । ४९। = प्रश्न—१ पाक्षिक
श्रावक किसी व्रतको पालन नहीं करता, इसलिए वह अव्रती है ।
वह तो केवल व्रत धारण करनेका पक्ष रखता है, अतएव रात्रिभोजन
त्याग भी नहीं कर सकता । उत्तर—ऐसी आज्ञा ठीक नहीं क्योंकि
रात्रिभोजनत्याग न करनेसे उसका पाक्षिकपना सिद्ध नहीं होता ।
सर्वज्ञदेव द्वारा कही रात्रिभोजनत्याग रूप कुलक्रियाका त्याग न
करनेसे उसके सर्वज्ञदेवकी आज्ञाके लोपका प्रसंग आता है, और
सर्वज्ञकी आज्ञाका लोप करनेसे उसका पाक्षिकपना भी किस प्रकार
ठरेगा । ४७-४८। २ सर्वज्ञकी आज्ञा है कि जो क्रियानाद् कुल-
क्रियाका पालन करता है वह श्रावक माना गया है । अतएव जो
मनुष्य कम दर्जेके अभ्यासमात्र मुक्तगुणोंका पालन करता है उसे भी
अपनी कुलक्रियाएँ नहीं छोड़नी चाहिए । ४९।

ला स ३/१२६, १२१ एवमेव च सा चैत्स्यात्कुलाचारक्रमात्परम् । विना नियमादि तावत्प्रोच्यते सा कुलक्रिया । १२६। दर्शनप्रतिमा नास्य गुणस्थान न पञ्चमम् । केवल पाक्षिक स स्याद्गुणस्थानादस्यत । १२१। = ३ यदि ये उपरोक्त (अष्टमूलगुण व सप्तव्यसनत्याग) क्रियाएँ विना किसी नियमके हों तो उन्हें व्रत नहीं कहते बरिष्क कुलक्रिया कहते है १२६। ऐसे ही इन कुलक्रियाओंका पालन करने-वाला न दर्शन प्रतिमाधारी है और न पंचम गुणवर्ती । वह केवल पाक्षिक है और उसना गुणस्थान अस्यत है । १२१।

दे श्रावक/४/१ [अष्ट मूलगुण तथा सप्त व्यसन त्यागके विना नाममात्र-को भी श्रावक नहीं ।]

दे श्रावक/४/४ [ये अष्ट मूलगुण व्रती व अवती दोनोंको यथायोग्य रूपमें होते है ।]

दे श्रावक/४/३/१ [अष्ट मूलगुण धारण और स्थूल अणुवर्तोंका शक्य-नुसार पालन पाक्षिक श्रावकका लक्षण है ।]

५. पाक्षिक श्रावककी दिनचर्या

सा- ध ६/१-४४ ब्राह्मो मुहूर्त्त उत्थाय, वृत्तपञ्चनमस्कृति । कोऽह को मम धर्म किं, व्रत चेति परामुद्येत । १। = ब्राह्म मुहूर्त्तमें उठ करके पढ़ा है नमस्कार मन्त्र जिसने ऐसा श्रावक मे कौन हूँ, मेरा धर्म कौन है, और मेरा व्रत कौन है, इस प्रकार चिन्तन करे । १। श्रावकके अति दुर्लभ धर्ममें उत्साहकी भावना । २। स्नानादिके पश्चात् अष्ट प्रकार अर्हन्त भगवात्की पूजा तथा वन्दनादि कृतिकर्म (३-४) ईर्या समित्तिसे (६) अत्यन्त उत्साहसे (७) जिनालयमें निस्सही शब्दके उच्चारणके साथ प्रवेश करे (८) जिनालयको समवसरणके रूपमें ग्रहण करके (१०) देव शास्त्र गुरुकी विधि अनुसार पूजा करे (११-१२) स्वाध्याय (१३) दान (१४) गृहस्थ सन्नन्धित कार्य (१५) मुनिव्रतकी धारणा की अभिलाषा पूर्वक भोजन (१७) मध्याह्नमें अर्हन्त भगवात्की आराधना (२१) पूजादि (२३) तत्त्व चर्चा (२६) सन्ध्यामें भाव पूजादि करके सोवे (२७) निद्रा उचटनेपर वैराग्य भावना भावे (२८-३३) स्त्रीकी अनिष्टताका विचार करे (३४-३६) समता व मुनिव्रतकी भावना करे (३४-४३) ; आदर्श श्रावकों की प्रशंसा तथा धन्य करे (४४) । (ला म ६/१६२-१८८) ।

६ पाँचों व्रतोंके एकदेश पालन करनेसे व्रती होता है

स सि ७/१६/३५/३ अत्राह किं हिंसादीनामन्यतमस्माद्य प्रतिनिवृत्त स खण्वागारी व्रती । नैवम् । किं तर्हि । पञ्चतटया अपि विरते-यैकव्येन विवक्षित । = प्रश्न—जो हिंसादिकमेंसे किसी एकसे निवृत्त है वह क्या अगारी व्रती है ? उत्तर—ऐसा नहीं है । प्रश्न—तो क्या है उत्तर—जिसके एक देशसे पाँचोंकी विरति है वह अगारी है । यह अर्थ यहाँ विवक्षित है । (रा वा ७/१६/४/६४९/१) ।

रा वा ७/१६/१/६४६/२१ यथा गृहापरकादिनगरवेशैर्विनाशस्यापि नगरवास एति शक्यते, तथा अमकलव्रतोऽपि नैगमसग्रहव्यवहार-नयविवक्षायाम्ना व्रतीति व्यपदिश्यते । = जैसे—घरके एक कोने या नगरके एक देशमें; रहनेवाला भी व्यक्ति नगरवासी कहा जाता है उसी तरह मकन व्रतोंको धारण न कर एक देशवर्तोंको धारण करनेवाला भी नैगम सग्रह और व्यवहार नयोंकी अपेक्षा व्रती कहा जायेगा ।

७ पाक्षिक घ नैष्ठिक श्रावकमें अन्तर

मा ध ३/४ दुर्लेश्याभिभवाज्जातु, विषये क्वचिदुत्सृज । स्वलन्नपि कापि गृणे, पाक्षिक स्थान्न नैष्ठिक । ४। = कृष्ण, नील व चापोत

इन लेश्याओंमेंसे किसी एकके वेगसे किसी समय इन्द्रियके विषयमें उत्कण्ठित तथा किसी मूलगुणके विषयमें अतिचार लगानेवाला गृहस्थ पाक्षिक कहलाता है नैष्ठिक नहीं ।

४. श्रावकके मूल व उत्तर गुण निर्देश

१ अष्ट मूलगुण अवश्य धारण करने चाहिए

र क श्रा ६/६ मद्यमांसमधुत्यागी सहाणुव्रतपञ्चम् । अष्टौ मूलगुणा-नाहुर्गृहिणां श्रमणोत्तमा । ६। = मद्य, मांस और मधुके त्याग सहित पाँचों अणुव्रतोंको श्रेष्ठ मुनिराज गृहस्थोंके मूलगुण कहते है । ६। (सा घ)

पु सि ७/६१ मद्य मांस क्षीर पञ्चोदुम्बरफलानि यत्नेन । हिंसा व्युपरतिकामैर्मोक्तव्यानि प्रथममेव । ६१। = हिंसा त्यागकी कामना-वाले पुरुषोंको सबसे पहले शराव, मांस, शहद, ऊमर, कदुमर आदि पंच उदुम्बर फलोंका त्याग करना याग्य है । ६१। (प वि ६/२३), (सा घ, २/२) ।

चा, सा ३/०/४ पर उद्दधृत—हिंसासत्यस्तेयादन्नह्यपरिग्रहाच्च वादर-भेदात् । यत्तान्मांसान्मद्याद्विरतिर्गृहिणोऽष्ट सन्त्यमी मूलगुणा । = स्थूल हिंसा, स्थूल भ्रष्ट, स्थूल चोरी, स्थूल अन्नल व स्थूल परि-ग्रहसे विरक्त होना तथा जूबा, मांस और मद्यका त्याग करना ये आठ गृहस्थोंके मूलगुण कहलाते है । (चा सा ३/०/३), (सा घ २/३) ।

सा, ध, २/१८ मद्यपलमधुनिशाशन - पञ्चफलीविरति - पञ्चासप्तुती । जीवदयाजलगालनमिति च क्वचिदष्टमूलगुणा । १८। = किसी आचार्यके मतमें मद्य, मांस, मधु, रात्रि भोजन व पंच उदुम्बर फलोंका त्याग, देववन्दना, जीव दया करना और पानी छान-कर पीना ये मूलगुण माने गये है । १८। (सा घ/प लाल राम/-फुट नोट पृ ८२) ।

२. अष्ट मूलगुण निर्देशका समन्वय

रा वा हि ७/२०/६५८ कोई शास्त्रमें तो आठ मूल गुण कहे है, तामें पाँच अणुव्रत करे, मद्य, मांस, शहदका त्याग कहा, ऐसे आठ कहे । कोई शास्त्रमें पाँच उदुम्बर फलका त्याग, तीन प्रकारका त्याग, ऐसे आठ कहे । कोई शास्त्रमें अन्य प्रकार भी कहा है । यह तो विवक्षाका भेद है, तहाँ ऐसा समझना जो स्थूलपने पाँच पाप ही का त्याग है । पंच उदुम्बर फलमें तो त्रस भक्षणका त्याग भया, शिकारके त्यागमें त्रस मारनेका त्याग भया । चोरी तथा परस्त्री त्यागमें दोऊ व्रत भए । यत्त तर्मादि अति लुप्णाके त्याग तँ असत्यका त्याग तथा परिग्रहकी अति चाह मिटी । मांस, मद्य, और शहदके त्याग ते त्रस कू मार करि भक्षण करनेका त्याग भया ।

३ अष्ट मूलगुण व सप्त व्यसनोंके त्यागके विना नामसे भी श्रावक नहीं

दे, दर्शन प्रतिमा/१/५ पहली प्रतिमामें ही श्रावकको अष्ट मूलगुण व सप्त व्यसनका त्याग हो जाता है ।

सा घ /टिप्पणी/पृ ८२ एतेऽष्टौ प्रगुणा गुणा गणधरैरागारिणां कीर्तिताः । एकेनाप्यमुना विना यदि भवेद्भ्रूतो न गेहाश्रमी । = आठ मूलगुण श्रावकोंके लिए गणधरदेवने कहे है, इनमेंसे एकके भी अभावमें श्रावक नहीं कहा जा सकता ।

पं, ध /उ ७/२४-७२८ निसर्गाद्वा कुलाम्नायादायातास्ते गुणा स्फुटम् । तद्विना न व्रतं यावत्सम्यक्त्वं च तथाङ्गिनाम् । ७२४ एतावता विनाप्येव श्रावको नास्ति नामत । किं पुन पाक्षिको

गूढो नेष्टिक साधकोऽथवा ७२५। मद्यमासमधुत्यागो त्यक्तो-
दुम्बरपञ्चक । नामत श्रावक ख्यातो नान्यथाऽपि तथा गृही ।
७२६। यथाशक्ति विधातव्य गृहस्थैर्व्यसनोऽम्भनम् । अवश्यं
तद्भवत्यैस्तेरिच्छद्भि श्रेयसीं क्रियाम् ७२७। त्यजेद्वोपास्तु तत्रो-
क्ताम् सूत्रोऽतीचारसङ्क्राम् । अन्यथा मद्यमासादीन् श्रावक क
समाचरेत् ७२८। =आठों मूलगुण स्वभासे अथवा कुल परम्परा-
से भी आते हैं। यह स्पष्ट है कि मूलगुणके बिना जीवोंके सब
प्रकारका व्रत और सम्यक्त्व नहीं हो सकता ७२४। मूलगुणोंके
बिना जीव नामसे भी श्रावक नहीं हो सकता तो फिर पाक्षिक, गूढ
नैष्टिक अथवा साधक श्रावक कैसे हो सकता है ७२५। मद्य, मास,
मधु व पच उदुम्बर फलोंका त्याग करनेवाला गृहस्थ नामसे श्रावक
कहलाता है, किन्तु मद्यादिका सेवन करने वाला गृहस्थ नामसे
भी श्रावक नहीं है ७२६। गृहस्थोंको यथाशक्ति व्यसनोका त्याग
करना चाहिए, तथा कल्याणप्रद क्रियाओंके करनेकी इच्छा करनी
चाहिए। व्रती गृहस्थको अवश्य ही व्यसनोका त्याग करना चाहिए
७२७। और श्लेषगुणोंके लगनेवाले अतिचार नामक दोषोंको भी
अवश्य छोड़ना चाहिए अन्यथा साक्षात् रूपसे मद्य, मास आदिको
कौनसा श्रावक खाता है ७२८। (ला स २/६-६), (ला सं १-
३/१२६-१३०) ।

४. अष्ट मूलगुण व्रती अव्रती दोनोंको होते हैं

प. ध./उ ७२३ तत्र मूलगुणाश्चाष्टौ गृहिणां व्रतधारिणाम् । क्वचिद-
व्रतिनां यस्मात् सर्वसाधारणा इमे ७२३। =उनमें जिस कारणसे
व्रती गृहस्थोंके जो आठ मूलगुण हैं वे कहीं-कहीं पर अव्रती गृहस्थों-
के भी पाये जाते हैं इसलिए ये आठों ही मूलगुण साधारण है ७२३।
(ला सं ३/१२७-१२८) ।

५ साधुको पूर्ण और श्रावकको एकदेश होते हैं

प. ध./उ ७२२ मूलोत्तरगुणा सन्ति देशतो वेशमवर्तिनाम् । तथा-
नगारिणां न स्यु सर्वत स्यु परेऽथ ते ७२२। =जैसे गृहस्थोंके
मूल और उत्तरगुण होते हैं वैसे मुनियोंके एकदेश रूपसे नहीं होते
हैं किन्तु वे मूलगुण तथा उत्तरगुण सर्व देश रूपसे ही होते हैं।
(विशेष दे व्रत/२/४) ।

६. श्रावकके अनेकों उत्तर गुण

१. श्रावकके २ कर्तव्य

र. सा ११ दार्ण पूजा मुख सावयधम्मे ण सावया तेण विणा । =चार
प्रकारका दान देना और देवशास्त्र गुरुकी पूजा करना श्रावकका
मुख्य कर्तव्य है, इनके बिना वह श्रावक नहीं है ।

२. श्रावकके ४ कर्तव्य

क. पा १२/१००/२ दार्ण पूजा सोलमुखवासो चेदि चउक्विहो साय-
धम्मो । =दान, पूजा, शील और उपवास ये चार श्रावकके धर्म
हैं। (अ ग धा १६/१), (सा. ध ७/६१), (सा ध/प लाला-
राम/कुटनोट पृ ६५) ।

३. श्रावकके ५ कर्तव्य

कुल १/३ गृहिण पञ्च कर्माणि स्वोन्नतिर्देवपूजनम् । वन्द्यु साहाय्य-
माप्तिव्य पूर्वेषां कीर्तिरक्षणम् ३। =पूर्वजोंकी कीर्तितो रक्षा, देव-
पूजन, अतिथि सरकार, मन्धु-बान्धवोंकी सहायता और आत्मो-
न्नति ये गृहस्थके पाँच कर्तव्य है ३।

४. श्रावकके ६ कर्तव्य

चा सा ४३/१ गृहस्थस्येज्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, सयम, तप
इरयार्थपट्कर्माणि भवन्ति । =इज्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, सयम
और तप ये छह गृहस्थोंके आर्य कर्म कहलाते हैं ।

प वि ६/७ देवपूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय सयमस्तप । दान चेति
गृहस्थानां पट्कर्माणि दिने दिने ७। =जिनपूजा, गुरुकी सेवा,
स्वाध्याय, सयम और तप ये छह कर्म गृहस्थोंके लिए प्रतिदिनके
करने योग्य आवश्यक कार्य हैं ७।

अ. ग धा १८/२६ सामायिक स्तव प्राज्ञेर्वन्दना सप्रतिक्रमा । प्रत्या-
ख्यानं तनूत्सर्गं पोढावश्यकमीरितम् १२६। =सामायिक, स्तवन,
वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान ऐसे छह प्रकारके आवश्यक पण्डितोंके
द्वारा कहे गये हैं १२६।

५ श्रावककी ५३ क्रियाएँ

र. सा १६३ गुणवयतवसमपडिमादाण जलगालण अणस्थमिय ।
दसणणाणचरित्त किरिया तेवण सावया भणिया १६३। =गुणव्रत
अणुव्रत ६, शिक्षाव्रत ४, तप १२, ग्यारह प्रतिमाओंका पालन ११,
चार प्रकारका दान देना ४, पानी छानकर पीना १, रातमें भाजन
नहीं करना १, रत्नत्रयको धारण करना ३, इनकी दादि लेकर
शास्त्रोंमें श्रावकोंकी तिरपन क्रियाएँ निरूपण की हैं उनका जो
पालन करता है वह श्रावक है १६३।

७ श्रावकके अन्य कर्तव्य

त सू ७/२२ मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोयिता १२२। =तथा वह
(श्रावक) मारणान्तिक सल्लेखनाका प्रीतिपूर्वक सेवन करनेवाला
होता है १२२। (सा, ध ७/५७) ।

वसु धा. ३१६ विणओ विज्जाविच्च कायकिलेसो य पुज्जणविहाण ।
सत्तीए जहजोग्ग कायव्व देमधिरएहि ३१६। =देशविरत श्रावकोंको
अपनी शक्तिके अनुसार यथायोग्य विनय, वैयावृत्य, कायकलेश
और पूजन विधान करना चाहिए ३१६।

पं वि ६/२६, २६, ४२, ६६ पर्वस्वथ यथाशक्ति भुक्तित्यागदिकं तप ।
वस्त्रपूत विवेताय १२५। त्रिनगरच यथायाग्य कर्तव्य
परमेष्ठिपु । दृष्टिबोधचरित्रेपु तद्वत्सु समयाश्रिते १२६। द्वादशापि
चिन्त्या अनुप्रक्षा महात्मभि ४२। जाद्योत्तमक्षमा यत्र यो धर्मो
दशमेदभाक् । श्रावकेऽपि मेढ्योऽसौ यथाशक्ति यथागमम् ६६।
=पर्वके दिनोंमें यथाशक्ति भोजनके त्यागरूप अनशनदि तपोको
करना चाहिए। तथा वस्त्रसे छना जल पीना चाहिए १२५। श्रावकोंकी
जिनागमके आश्रित होकर पच परमेष्ठियों तथा रत्नत्रयके धारकोंकी
यथायोग्य विनय करनी चाहिए १२६। महात्मा पुरुषोंको अनुप्रेक्षा-
ओंका चिन्तन करना चाहिए ४२। श्रावकोंको भी यथाशक्ति और
आगमके अनुसार दशधर्मका पालन करना चाहिए ६६।

सा ध १/टिप्पणी/२/२४/पृ ६४ आराध्यन्ते जिनेन्द्रा गुरुपु च विनति-
र्धार्मिके प्रीतिरुच्चै । पात्रेभ्यो दानमापन्नित्तजनकृते तच्च कारण्य-
बुद्ध्या । तत्त्वाभ्यास स्वकीयव्रततिरमल दर्शन यत्र पूज्यम् । तद्ग-
हस्थ्य बुधानामितरदिह पुनर्दुःखदो मोहपाश । =जिनेन्द्रदेवकी
आराधना, गुरुके समीप विनय, धर्मिमा लोगोंपर प्रेम, सत्पात्रोंका
दान, विपत्तिग्रस्त लोगोंपर करुणा, बुद्धिसे दुःख दूर करना, तत्त्वोंका
अभ्यास, अपने व्रतोंमें लीन होना और निर्मल सम्यग्दर्शनका
होना, ये क्रियाएँ जहाँ त्रिकरणसे चलती हैं वही गृहस्थधर्म
विद्वानोंको मान्य है, इससे विपरीत गृहस्थ लोक और परलोकमें
दुःख देनेवाला है ।

सा ध ७/५५, ६६ स्वाध्यायमुत्तम दुर्गादनुप्रसारच भाग्येत् । य-
न्तु मन्दायते तत्र, स्वकार्ये न प्रमायति ५५। यथागुप्त मुनीन्द्राणां, वृत्त

तदत्रि तेऽयाम् । मन्वद्भित्तुष्य पदवी, शक्ति च स्वामुपासके ७६।
 = श्रावक आत्महितकारक स्वाध्यायिका ऋ, ब्राह्म भावनाओंको भवे । परन्तु जो श्रावक इन कार्योंमें आलस्य करता है वह हित कार्योंमें प्रमाद करता है ७७। पहले जनाना धर्ममृतमें कथित पुनिर्गाता जा चारित्र, उभयो भी जानी शक्ति पदका समझकर श्रावकका द्वारा मेहन किया जाय ७६।

५ ३/२-३६--२० जिनचतुर्गृहादीनां निमणि मावदानतया । यथा-
 मन्दिरेषास्ति दूरया नावगनेशत ७७२६। अथ तीर्थाद्यात्रासु
 विरघ्यामोपत मन । श्रावक स तत्रापि समय न विगद्येत् ७७३५।
 समयो द्वित्रिपरचैव विप्रेया गृहमेधिभि । त्रिनापि प्रतिमारूप
 व्रतं यद्वा स्वशक्ति ७२०१=उपनी सम्पत्तिके अनुसार मन्दिर
 प्रदानमें भी मावदानता करने चाहिए, क्योंकि थोडा सा भी पाप इन ऋणोंमें निग नहीं है ७७३६। जोर यह श्रावक तीर्थादिककी यात्रामें भी मनरो तत्पर करे, परन्तु उस यात्रामें अपने समयको विगद्यित न करे ७७३५। गृहस्थोको अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिमा रूपमें वा त्रिना प्रतिमारूपसे दोनों प्रकारका समय पालन करना चाहिए ७२०१।

५ ४/१८ यथा समित्तम पच मन्ति तिस्रश्च गुप्तय । अहिंसा-
 त्तमस्यार्थं क्तव्या देशतोऽपि तै १२५१=अहिंसायुक्तकी रक्षाके लिए पंच ममिति तथा तीन गुप्तियोंका भी एक देशरूपसे पालन करना चाहिए १२५१।

दे ३३/२४ महाव्रतकी भावनाएँ भानी चाहिए ।
 दे पूजा/७/१ ऋन्तादि पच परमेष्ठीकी प्रतिमाओंकी स्थापना करावे । तथा नित्य जिनविषय महोरमव आदि क्रियाओंमें उत्साह रहे ।
 दे अथचैरथालय/७/८ औपधानय, गदाव्रतशालाएँ तथा प्याऊ छुन-
 यावे । तथा जिनमन्दिरमें मगवर व कुनवाडी आदि लगवावे ।

८ आवश्यक क्रियाओंका महत्त्व

दे दान/४ चारा प्रकारका दान जयन्त महत्त्वशाली है । -
 र मा १२-१३ दाणुण धम्मणुण चाणुण भोगुण बहिरूपो पयगो सो ।
 चारुणमागिमसुहँ पड्डिमरिउग मदेहा १२५। जिन पूजा मुनिदाण
 करे जा देह मत्तित्स्वेण । मन्मादट्टी मावय धम्मी सा होइ मावय-
 मगग्जो १२३=जा श्रावक सुवात्रता दान नहीं देता, न अष्टमूलगुण,
 गुणवन, योग पूजा आदि धर्मका पालन करता है, न नीतिपूर्णक
 रोग भागता है वह मिथ्यादृष्टि है । जेन धर्म धारण करनेपर भी
 नामका तोय जिनमें पतके समान उड्डर मरता है । जो श्रावक
 जानो गति अनुसार प्रतिविम देन, शास्त्र, पुत्र पूजा तथा सुवात्रमें
 दान देता है, वह मन्व दृष्टि श्रावक उभये माक्षमार्गमें शीघ्र गमन
 करता है १२-१३ ।

म ५/१६/६६-२०१ तनाऽधिगतमज्जाति, सहगृहिरमसी भजेत् ।
 गृहमेतं मननार्थपरममण्यनुपानयन् ६६। यदुक्त गृहचर्यायाम्
 अष्टमम निन्दुमिउष । तममिचित् इत्तम् अतन्त्रालु समा-
 यगे १२००। जिनमन्त्र अन्वयमन्त्रमा गनेन्द्रगुञ्जित । न धत्ते परम
 तन्त्राणा डिउमसम १२०१=जो मन्त्राति क्रिया प्राप्त हुई है ऐसा
 वह मन्त्र मन्त्रगृहिर क्रियाका प्राप्त होता है । इस प्रकार जो महत्त्व-
 हिय होता प्रजा कार्य पूर्वसे करने योग्य यह तर्माका पालन
 करता है, गृहस्थ प्रश्नार्थमें करने योग्य जा ज, गिण्ड आचरण कहे
 गये है अष्टमम भगवाउने ताका गये उन-उन ममस्त आचरणोंका
 जा प्रत्यक्ष रतिग हाउर पालन करता है, जिनमे श्री जिनमन्त्रदेवमे
 उभय उभय क्रिया है, गवाउर देवने जिसे शिक्षा दी है ऐसा वह
 उभय गृह गृह मन्त्रोंका पालन करता है १६६-१०१।

९. कुष्ठ निपिन्द्र क्रियाएँ

पु सि उ/७७ स्तोत्रैकेन्द्रियघाताद्गृहिणा मपन्नयोग्यविषयाणाम् ।
 शेषस्थानमार्णविरमणमपि भवति करणीयम् ७७७। =इन्द्रियोंके
 विषयोंका न्याय पूर्वक सेवन करनेवाले श्रावकोंको कुष्ठ आवश्यक
 एकेंद्रियके घातके अतिरिक्त प्रशेष स्थावर-एकेन्द्रिय जीवोंके
 मारनेका ध्याग भी अशुभमेव करने योग्य होता है ७७७।

दे सात्रच/२ खर कर्म आदि सावध कर्म नहीं करने चाहिए ।
 वसु छा १३१२ दिणपरिम-वीरचरिया-त्तियालजोमेणु णत्थि अहियारो ।
 मिद्धत-रहरमा वि अज्जमणं देमविरदान १३१२। = दिनमें प्रतिमा
 योग्य धारण करना अर्थात् नग्न हाकर कायोवर्ग करना, त्रिकाल-
 योग-गर्मोंमें पर्वतोंके ऊपर, बरसातमें वृक्षके नीचे, सर्दियोंमें नदीके
 किनारे ध्यान करना, वीरचर्या-मुनिके समान गोवरी करना,
 सिद्धान्त ग्रन्थोंका-केवली श्रतकेवली मथित, गणधर, प्रत्येक बुद्ध
 और अभिन्न दशपूर्वों साधुओंसे निर्मित ग्रन्थोंका अध्ययन करना
 और रहस्य अर्थात् प्रायश्चित्त शास्त्रका भी अध्ययन करना
 इतने कार्योंमें देश विरतियोंका अधिकार नहीं है १३१२। (सा ध /
 ७/५०) ।

सा ध/४/१६ गवायं नष्टिको वृत्ति, त्यजेद्द वन्धादिना विना र्मोग्यात्
 वा तानुपेयात्, योजयेद्वा न निर्देयम् १६=नष्टिक श्रावक गौ बेल
 आदि जानवरोंके द्वारा अपनी आजीविकाको छोड़ें अथवा भोग
 करनेके योग्य उन गौ आदि जानवरोंको बन्धन ताडन आदिके बिना
 ग्रहण करें, अथवा निर्देयता पूर्वक बन्धन आदिको नहीं करें १६।

सा स/४/२२८, २६६ अरथायारोहण मर्गे न कार्यं व्रतधारिणाम् । ईर्या-
 समित्तमशुद्धि कुत स्यात्तत्र कर्मणि १२२४। छेद्यो नाशादिधिद्वार्य
 शशमूलादिभि कृत । तावन्मात्रातिरिक्त तन्निविधेय प्रतिमा-
 न्विते १२६६।=अणुव्रतो श्रावकका छोडे आदिकी मवारीपर चढ़कर
 चननेमें उसके इर्या समित्तिकी शुद्धि किस प्रकार हो सकती है १२२४।
 प्रतिमा रूप अहिंसा अणुव्रतको पालन करनेवाले श्रावकोंको नाक
 छेदनेके लिए सूई, सूया वा लकड़ी आदिसे छेद करना पडता है, वह
 भी उतना ही करना चाहिए जितनेसे काम चल जाये, इससे अधिक
 छेद नहीं करना चाहिए १२६६।

१० सव क्रियाओंमें समय रक्षणीय है

दे श्रावक/४/७ में प ध—यह श्रावक तीर्थयात्रादिकमें भी अपने मनको
 तत्पर करे परन्तु उस यात्रामें अपने मनको विराधित करे ।

श्रावकाचार—श्रावकोंके आचारके प्ररूपक कई ग्रन्थ श्रावकाचार
 नामसे प्रसिद्ध है यथा—१ आ समन्तभद्र (ई श. २) कृत रत्नकरण्ड
 श्रावकाचार । २ आ योगेन्द्रदेव (ई श ६) कृत नवकार श्राव-
 काचार । ३ आ अमितगति (ई, ६६३-१०२१) कृत श्रावकाचार ।
 ४ आ वसुनन्दि (ई १०४३-१०५३) कृत श्रावकाचार ।
 ५ आ सग्लकीर्ति (ई १४३३-१४४०) कृत प्रयत्नोत्तर श्रावकाचार ।
 ६, ५ आशाधर (ई ११७३-१२४३) कृत मागार धर्मामृत । ७ आ,
 पत्रनन्द न ८ (ई १२५०-१३३०) कृत श्रावकाचार ।

श्रावण द्वादशी व्रत—वारह वर्ष पर्यन्त प्रतिवर्ष भाद्रपद शु १०
 को उपवास । तथा नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप्य (व्रत विधान
 म/५ ८८) ।

श्रिति—भ आ/५/१०१/३५५ जा उररि-उररि गुणपडित्ती सा
 भावदो सिद्धी हादि । दवन्दिदी निस्तेणो सोवाण आरहतत्स १२७१।
 =सम्यग्दर्शन आदि शुद्ध गुणोंकी गुणित रूप उत्तरोत्तर उन्नता-
 वस्थाका प्राप्त कर लेना यह भाव रूप श्रिति है । जोर कोई उच्च
 स्थानमें स्थिति पदार्थ लेना चाहे तो निद्रेणीका अवलम्बन लेकर
 ए-ए सोपान पत्ति क्रमसे चढ़ना वह प्रव्य श्रिति है ।

श्री—१ विजयार्थकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर दे लोक/७, २ हिमवान् पर्वतस्थ एक झूट—दे, लोक/७, ३ हिमवान् पर्वतस्थ पद्महृदकी स्वामिनी देवी—दे लोक/७, ४ रुचक पर्वत निवासिनी दिक्कुमारी देवी—दे लोक/७, ५ भरतके आर्य खण्डस्थ एक पर्वत—दे, मनुष्य/४।

श्रीकण्ठ—१ इसको राक्षस वंशीय राजा कीर्तिधवलने वानर द्वीप दिया था, जिससे आगे जाकर इसकी सन्ततिसे वानर वंशकी उत्पत्ति हुई।—दे इतिहास/७/१२। २, वेदान्तकी शिवाद्वैत शास्त्रके प्रवर्तक—दे शिवाद्वैत।

श्रीकण्ठ—भरतक्षेत्रस्थ आर्य खण्डके मनुष्य पर्वतके निकटस्थ एक पर्वत—दे, मनुष्य/४।

श्रीकल्प—कालका प्रमाण विशेष। अपरनाम त्रिकप।—दे गणित/१/१।

श्रीकांता—धूमरे पर्वतके नन्दनादि वनोंमें स्थित वापियाँ।—दे लोक/७।

श्रीचन्द्र—दिगम्बर जैन साधु था। कृति—पुराणमार (पुगण सग्रह) समय—वि १०७० ई १११३ (पुराणसग्रह दामनन्दकी प्र.) (म पु / प्र २० पन्नालाल वाक्लीवाल)।

श्रीदत्त—१ भूतकालीन सप्तम तीर्थंकर—दे तीर्थंकर/५। २ श्रुतावतार न २ के अनुसार भगवान् महावीरकी मूल परम्पगमें ल हाचार्य के पश्चात् होनेवाले चार आचार्योंमें आपका नाम है। समय—वी नि, ५६५-५८५ (ई, ३८-५८) विशेष—दे इतिहास/४/१। ३ बड़े तार्किक एक दिगम्बरआचार्य थे। विद्यानन्दी जैसे आचार्य भी अपने जन्म निर्णय ग्रन्थमें इनका नामोल्लेख करते हैं। समय—ई. श, ५ पूज्यपादसे पूर्व (सि, वि./१९ प महेन्द्र), (म, पु / प्र ४५ पन्नालाल)।

श्रीधर—१ ऐशान स्वर्गका देव था (म पु / १/१८५) पूर्वभवके गुरु प्रीतिकरके ज्ञानकथायणके अवसरपर उनकी पूजा की (म पु / १०/२) यह ऋषभदेवका पूर्वका पाँचवाँ भव है—दे ऋषभदेव, २, भूतकालीन षष्ठ तीर्थंकर थे।—दे तीर्थंकर/५। ३ विजयार्थकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर।—दे विद्याधर, ४ उत्तर पुष्कर समुद्रका रक्षक व्यतर देव।—दे व्यतर/४। ५ श्रुतावतारकी पृथावलीके अनुसार आप भगवान् वीरके पश्चात् तीन केवली क्रमसे हुए और यह चौथे केवली क्रम बाह्य हुए। समय—लगभग वी नि, ६२ (ई पू ४६४)—दे इतिहास/४/१, ६ नन्दि सघके देशीय गण न २ की गुर्विलीके अनुसार आप वीरनन्दिके शिष्य तथा मलधारी देवके गुरु थे। समय—वि १०५०-१०८० ई ६६३-१०२३ (प, स / प्रा / घ H L Jain), (प खं २/प्र १० H L Jain)।—दे, इतिहास/४/१४। ७ एक दिगम्बर साधु थे। कृति—बट्टण चरित्र, भविष्यदत्त कथा, चन्द्रप्रभ चरित, शान्तिजिन चरित, श्रुतावतार। (ये सब ग्रन्थ अपभ्रंशमें लिखे गये हैं) समय—ई श, १४ (हिं जे, सा ३/३१ कामतःप्रसाद)।

श्रीधर—म पु / ५६/ श्लोक—धरणीतनक नगरके स्वामी अतिविग विद्याधरकी पुत्री थी। अलका नगरके राजा दर्शकसे विवाही गयी (२२८-२३०)। अन्तमें दीक्षा ग्रहण कर तप किया (२३२) पूर्व भवके बँरी अजगरने इसे निगल लिया। (२३०) मर कर यह रुचक विमानमें उत्पन्न हुई (२२८)। यह मेरु गणधर। पूर्वका दृष्टाँ भव है—दे मेरु।

श्रीनन्द—प, पु / ६/ श्लोक न श्री मनु आदि सप्तऋषियके पिता थे (४) प्रीतिकर भगवान् के केवलज्ञानके समय एकके पुत्र को राज्य

देकर सातों पुत्र सहित दीक्षा ग्रहण कर ली (६)। अन्तमें मोक्ष प्राप्त की (८)।

श्रीनन्दि—माघनन्दिकी गुर्विलीके अनुसार आप मङ्गल-चन्द्रके शिष्य तथा नयनन्दिके गुरु थे। आपके लिए ही श्री पद्मनन्दिने जम्बूद्वीप पण्णत्ति लिखी थी। अपरनाम रामनन्दि था। समय—वि १०२५-१०८० ई ६६८-१०२३), (ज प, प्र, १३ A, N, Up)। दे इतिहास/५/२२।

श्रीनाथ—अग्नीहाके राजा थे। समय—ई, १८६।

श्रीनिकेत—विजयार्थकी उत्तर श्रेणीका एक नगर—दे विद्याधर।

श्रीनिचय—१ पद्महृद वनमें स्थित एक झूट।—दे लोक/७, २ पद्महृदमें स्थित एक झूट—दे, लोक/७, ३ सप्तऋषियोंमेंसे एक—दे सप्तऋषि।

श्रीनिवास—विजयार्थकी उत्तर श्रेणीका एक नगर—दे विद्याधर।

श्रीपाल—१ म पु / सर्ग/श्लोक—पूर्व विदेहमें पुण्डरीकिणी नगरीका राजा था (४७/३-४)। पिता गुणप लके ज्ञानद्वयाणमें जाति नमय मार्गमें एक विद्याधर घोडा बनकर उडाकर ले गया, जाकर वनमें छोडा (७७/२०) धूमते-धूमते विदेशमें अनेकों अवसरों व स्थानोंपर कन्याओंसे विवाह करनेके प्रसंग आये परन्तु 'मे माता आदि गुरु-जनके द्वारा प्रदत्त कन्याके अतिरिक्त अन्य कन्यामें भोग न करूँगा' इस प्रतिज्ञाके अनुसार सबको अस्वीकार कर दिया (४५/२८-१५०)। इसके अनन्तर पूर्वभक्तकी माता यक्षी द्वारा प्रदत्त चक्र, दण्ड, छत्र आदि लेकर, उनके प्रभावसे पिताके समवसरणमें पहुँचा (४७/१६०-१६३)। इसके अनन्तर चक्रवर्तिके भोगोंका अनुभव किया (४७/१७३)। अन्तमें दीक्षा ग्रहणकर मोक्ष प्राप्त किया (४७/४४-४६)। २ चम्पापुर नगरके राजा अरिदमनका पुत्र था। मीना सुन्दरीसे विवाहा गया। कोढी होनेपर मीना सुन्दरी कृत सिद्धचक्र विधानके गन्धोदकसे कुछ रोग दूर हुआ। विदेशमें एक विद्याधरसे जलतरिणी व शत्रु निवारिणी विद्या प्राप्त की। धवल सेठके रुके हुए जहाजोंको चोरोंसे छुडाया। इनको रंजमजूपा नामक कन्याकी प्राप्ति होनेपर धवल सेठ उसपर माहित हो गया और इनको समुद्रमें गिरा दिया। तब ये लकड़ीके सहारे तिरकर कुकुमद्वीपमें गये। वहाँपर गुणमाला कन्यासे विवाह किया। परन्तु धवलसेठके भाटों द्वारा इनको जाति भण्ड वता दो जानेपर इनको सूलीकी सजा मिली। तब रंजमजूपाने इनका छुडाया। अन्तमें दीक्षा ग्रहणकर मोक्ष प्राप्त किया (श्रीपाल चरित्र)। ३ पचस्तूप सघकी गुर्विलीके अनुसार यह धवलकाकर श्री वीरसेन स्वामीके शिष्य थे। समय—ई ८००-८४३ (सि वि / प्र ३८ प, महेन्द्र), (म पु / प्र ४७ प पन्नालाल)—दे इतिहास/५/१७। ४ अनन्तवीर्यकी गुर्विलीके अनुसार यह गीणसेनके शिष्य तथा देवकीर्ति पण्डितके गुरु थे। और बादिराज द्वितीयके दादा गुरु थे। समय—ई ६५०-६६० (सि वि / प्र ७७ प महेन्द्र)—दे इतिहास/५/४। ५ राजा भोजके सम्बन्धी एक मण्डलेश्वर राजा थे। इसके राज्यान्तर्गत आश्रम नामक नगरमें भगवान् मुनिद्वयत नाथके चैत्यालयमें नेमिचन्द्र सैदान्तिक देवने इनके निमित्त ब्रह्म संग्रह रचा था। राजा भोजके अनुसार इनका समय—वि, ११००-११८० (ई, १०४३-१०८३), (ज्ञा / प्र २ प पन्नालाल)।

श्रीपाल चरित्र—इस नामके कई ग्रन्थ उपलब्ध हैं—१ आ सकलकीर्ति (ई १०२८-१४७३) कृत रचना। २ कवि परिमन्ल (ई १५६४) कृत रचना। ३ आ श्रुतनागर (ई १८०-१५३२) कृत। ४ प दौलतराम (ई १७७०) कृत एक भाषा ग्रन्थ।

श्रीपाल वर्णा—इन्होंने शुभचन्द्राचार्यको अध्यात्म तर गिनी तिलनेमें सहायता दी थी। समय—वि १६११ (ई १५५४), (का अ/प्र ८३। A N U)।

श्रीपुर—विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर—दे. विद्याधर।

श्रीपुरुष—राजा पृथिवी कोङ्गणिका दूसरा नाम श्रीपुरुष था। आप गगवशी नरेश थे। समय - वि २३३ (ई ७६६), (भ आ/प्र १६ प्रेमी जी)।

श्रीप्रभ—१. विजयार्धको दक्षिण श्रेणीका एक नगर—दे विद्याधर, २ दक्षिण पुष्कर समुद्रका एक व्यतर देव—दे अ'तर/४।

श्रीभद्र—भूतकालीन २३ वें तीर्थंकर—दे तीर्थंकर/४।

श्रीभद्रा—सुमेरु पर्वतके नन्दनादि वनोंमें स्थित वापी—दे लोक/७।

श्रीभूषण—एक जैन भट्टारक थे। कृति—गण्डापुराण, शान्तिनाथ पुराण। समय—वि १६५७ (ई १६००) (म. पु/प्र २० पन्नालाल)।

श्रीमंडप भूमि—ममरशरणकी आठवीं भूमि—दे समवशरण।

श्रीमति—१ म पु/सर्ग/श्लोक—पुण्डरीकिणी नगरीके राजा वज्रदन्तकी पुत्री थी (६/६०)। पूर्वभगवता पति मरकर इसकी बुआका लडका हुआ। जातिस्मरण होनेसे उसको ढूँढने आयी (६/६१)। जिस किस प्रकार खान निकालकर उससे विवाह किया (६/१०५)। एक दिन मुनियोंको आहार देकर भागभूमिकी आयुका बन्ध किया (८/१७३)। एक समय शयनागारमें सुगन्धित द्रव्यके घुटनेसे आकस्मिक मृत्यु हो गयी (९/२७)। तथा भोगभूमिमें जन्म लिया (८/३३)। यह श्रेयास राजाका पूर्वका सातवाँ भ्राता है।—दे श्रेयास, २ जिनदत्त चरित्र/सर्ग/श्लोक—सिंघल द्वीपके राजा घनवाहनकी पुत्री थी। इसका ऐसा राग था जो इसके पास रहता वह मर जाता था। इसी कारण इसके पिता ने इसे पृथक् महल दे दिया (४/८) एक दिन एक बुद्धियाके पुत्रीकी वारी आनेपर जिनदत्त नामक एक लडका स्वयं इसके पास गया। और रात्रिका इसके मुँहमें से निकले सर्पको मारकर इसकी विवाहा (८/१५-२६)। इसपर मोहित होकर सागरदत्तने जिनदत्तका समुद्रमें गिरा दिया। यह अपने शीलपर दृढ रही और मन्दिरमें रहने लगी (४/८)। कुछ समय पश्चात् इसका पति आ गया (७/२४) अन्तमें दोहा धारण कर ली। समाधिपूर्वक कापिष्ठ स्वर्गमें देव हुई (९/११२)।

श्रीमन्यु—सप्तपत्नियोंमेंसे एक—दे सप्तपत्नी।

श्रीमहिता—सुमेरु पर्वतके नन्दनादि वनोंमें स्थित वापी।—दे लोक/७।

श्रीवंश—दे इतिहास/७/१५।

श्रीवर्मा—म पु/४४/श्लोक—पुष्कर द्वीपके पूर्व मेरुकी पश्चिम दिशामें सुगन्धि नामक देशके श्रीपुर नगरके राजा श्रीपेण (९/२७) का पुत्र था (६/८)। एक समय विरक्त हो दीक्षा ले ली, तथा मन्यास मरणकर (८०-८१) स्वर्गमें देव हुआ (८२)। यह चन्द्रप्रभ भगवात्का पूर्वका पाँचवाँ भव है।—दे चन्द्रप्रभ।

श्रीवल्लभ—दक्षिणमें लाट देशके राजा कृष्णराज प्रथमका पुत्र था, तथा ध्रुव राजाका बड़ा भाई था। कृष्णराज प्रथमका नाम गाविन्द प्रथम था, इसी कारण इनका नाम गोविन्द द्वितीय भी था। यह वर्धमानपुरकी दक्षिण दिशामें राज्य करता था। अमावस्यके पिता जगत्गुणे इसे इन्द्रराजकी महामतामें युद्धमें परास्त करके इसका राज्य छीन लिया था। इसीके समयमें आ जिनपेने अपना

हरिवंश पुराण लिखना प्रारम्भ किया था। समय—श ६६४-७६६ (ई ७०२-७६४), (ह पु/६६/५२-५३); (ह पु/प्र ५ प पन्नालाल)।—दे इतिहास/३/४।

श्रीविजय—म पु/६१/श्लोक त्रिपृष्ठ नारायणका पुत्र था (१५३)। एक बार राज्य सिंहासन पर वज्रपात गिरनेकी भविष्यवाणी सुनकर (१७२-१७३) सिंहासन पर स्फटिक मणिकी प्रतिमा विराजमान कर दी। और स्वयं चेत्यालयमें जाकर शान्ति विधान करने लगा। (२१६-२२१)। फिर सातों दिन वज्रपात यक्षसृतिपर पडा (२२२)। एक समय इनकी स्त्रीकी अशनिघोष विद्याधर उठाकर ले गया और स्वयं सुताराका बेष बनाकर बैठ गया (२३३-२३४) तथा बहाना किया कि मुझे सर्पने डस लिया, तब राजाने चिताकी तैयारी की (२३४-२३७)। इसके साले अमिततेजके आश्रित राजा सभिन्नसे ठीक-ठीक वृत्तान्त जान (२३८-२४६) अशनिघोषके साथ युद्ध किया (६८-८०)। अन्तमें शत्रु समवशरणमें चला गया, तब वहींपर इन्होंने अपनी स्त्रीको प्राप्त किया (२८४-२८५)। अन्तमें समाधिमरण कर तैरहवें स्वर्गमें मणिचूल नामक देव हुआ (४१०-४११)। यह शान्तिनाथ भगवात्के प्रथम गणधर चक्रायुधका पूर्वका १०वाँ भव है।—दे, चक्रायुध।

श्रीवृक्ष—१ कुण्डन पर्वतस्थ मणिक्कटका स्वामी नागेन्द्र देव—दे लोक/७, २ रुचक पर्वतस्थ एक कूट—दे लोक/७।

श्रीशैल—हनुमात्का अपरनाम है—दे. हनुमात्।

श्रीषेण—म पु/६२/श्लोक मगध देशका राजा था (३४०)। आदिस्थगति नामक मुनिको आहार देकर भोगभूमिका बन्ध किया (३४८-३५०)। एक समय पुत्रोंका परस्पर युद्ध होनेपर विष खाकर मर गया (२५२-३५५)। यह शान्ति नाम भगवात्का पूर्वका ११वाँ भव है।—दे शान्तिनाथ।

श्रीसंचय—पद्महृदके वनमें स्थित एक कूट—दे लोक/७।

श्रीसौध—विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर।—दे विद्याधर।

श्रीहर्ष—वेदान्त सिद्धान्तमें खण्डनखण्डखाद्य नामक ग्रन्थके कर्ता। समय—ई ११५०।—दे वेदान्त।

श्रुतकीर्ति—१ एक जैन भट्टारक थे। हरिवंशपुराण (अपभ्रंश) के कर्ता थे। (म पु/प्र २१ पन्नालाल)। २ नन्दिसचके देशीयगणकी युवावलीके अनुसार आप माघनन्दि कोल्लापुुरीयके शिष्य थे। आप बड़े वादी थे। आपने देवेन्द्र नामके एक श्वेतान्धाराचार्यकी वादमें परास्त किया। कृति—अनुलोम प्रतिलोम काव्य राघव पाण्डवीय। समय—वि ११६०-११२० (ई ११३२-११६३), (प ख २/प्र ४ H L Jam)।—दे इतिहास/५/१४।

श्रुतकेवली—ज्ञान स्वरूप होनेके कारण आत्मा स्वयं ज्ञेयाकार स्वरूप है। इसलिए आत्माको जाननेसे ही सकल विश्व प्रत्यक्ष रूपसे जाना जाता है। अतः केवल आत्माको जाननेवाला अथवा सकलश्रुतको जाननेवाला ही श्रुतकेवली है। इसीमें १० या १४ अंगोंके जाननेसे भी श्रुतकेवली कहलाता है और केवल समिति गुप्तिरूप अष्ट प्रवचन मात्रका जाननेसे भी श्रुतकेवली कहलाता है।

१ दश व चतुर्दश पूर्वी निर्देश

१ चतुर्दश पूर्वी का लक्षण

ति प/४/१००१ सयलागमपारगया मुदकेवल्लिण,ममुपसिद्धा जे। एदाण बुद्धिदिद्धी चोदसपुब्धि तिणामेण ११००१। =जो महर्षि सम्पूर्ण आगमके पारगत है और श्रुतकेवली नामसे प्रसिद्ध है उनके चौदह-पूर्वी नामक बुद्धि दिद्धि हाती है। १८००१।

रा वा ३/३६/३/२०२/६ सम्पूर्ण श्रुतकेवलिता चतुर्दशपूर्वित्वम् ।
=पूर्ण श्रुतकेवली ही जाना चतुर्दशपूर्वित्व है । (ध ६/२/१,१३/७०/७) ।

चा मा २/२१/२ श्रुतकेवलिता चतुर्दशपूर्वित्वम् । =श्रुतकेवलीके
चतुर्दशपूर्वित्व नामकी ऋच्छि होती है ।

२. दशपूर्वोंका लक्षण

ति, प ४/६६८-१००० राहिंगिपहुदीणमहाविज्जाण देवदाउ पचसया ।
अगुठपसेणाड खुद्वअविज्जाण सत्तसया । ६६८। एत्तूण पेमणाड दसम-
पुञ्जपट्टणम्मि । गेच्छति सजमता तात्रा जेते अभिण्णदसपुव्वी ।
। ६६६। भुवणेसु सुप्पसिद्धा विज्जाहरम्मणणामपज्जाया । ताण सुणीण
बुद्धी दसपुव्वी णाम बोद्धव्वा । १०००। =दसवै पूर्वके पट्टनेमें रोहिणी
प्रभृति महाविद्याओंके पाँच सौ और अगुठ प्रसेनादिक (प्रसेनादि)
क्षुद्र विद्याओंके सात सौ देवता आकर आज्ञा माँगते हैं । इस समय
जो महर्षि जित्तेन्द्रिय हानेके कारण उन विद्याओंकी इच्छा नहीं
करते हैं, 'वे विद्याश्रमण' इस पर्याय नामसे भुवनमें प्रसिद्ध होते हुए
अभिन्नदशपूर्वों कहलाते हैं । उन मुनियोंकी बुद्धिको दशपूर्वों जानना
चाहिए । ६६८-१०००।

रा वा ३/२६/३/२०२/७ महारोहिण्यादिभिन्निरागतभि प्रत्येकमा-
स्मीयरूपसामर्थ्याविष्करणकथनकुशलभिर्भगवतीभिविद्यादेवताभि-
रविचलितचारित्रस्य दशपूर्वद्वुस्तरममुद्रोत्तरण दशपूर्वित्वम् ।
=महारोहिण्यादि लौकिक विद्याओंके प्रलोभनमें न पडकर दशपूर्व-
का पाठो होता है वह दशपूर्वित्व है । (चा सा २/१७/१) ।

३. भिन्न व अभिन्न दशपूर्वोंके लक्षण

ध ६/४.१.१२/६६/४.७०/१ एत्थ दसपुव्विणो भिण्णाभिण्णमेएण
दुविहा हाति । तत्थ एकारसगाणि पट्ठिण्ण पुणो परियम्म-सुत्त-
पढमाणियोग-पुञ्जगयचूलिया ति पचाहियारणिट्ठाद्धिट्ठिणादे
पट्ठिज्जाणो उप्पादपुव्वमादि कादूण पढत्ताण दसपुव्वीए विज्जाणु-
पवादे समत्ते रोहिणीआदिपचसममहाविज्जाओ अगुठपसेणादि
सत्तसयदहग्गविजाहि अणुगयाओ किं भयव आणवेदि ति दुक्कति ।
एन दुक्काण सव्वविज्जाण जो लोभ गच्छदि सो भिण्णदसपुव्वी ।
जो ण तामु लोभ करेदि कम्मसखयत्थी हौंते सो अभिण्णदसपुव्वी
णाम (६६/४) । ण च तेसिं (भिण्णदसपुव्वीण) जिणत्तमरिथ,
भगमवत्तएसु जिणत्ताणुववत्तीदो । =यह भिन्न और अभिन्नके भेदसे
दशपूर्वों दो प्रकार हैं । उनमें ११ अर्गोंको पडकर पश्चात् परिकर्म
सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका इन पाँच अधिनारोंमें
नियद्दष्ट वादके पढते समय उरपाद पूर्वोंको आदि करके पढने
वालेके दशमपूर्व विद्यानुवादके समाप्त होनेपर अगुठ प्रसेनादि
सात सौ क्षुद्र विद्याओंसे अनुगत रोहिणी आदि पाँच सौ महा
विद्यारें 'भगवान् क्या आज्ञा देते हैं' ऐसा कहकर उपस्थित होती
है । इस प्रकार उपरिथत हुई सत्र विद्याओंके लोभको प्राप्त होता
है वह भिन्न-दशपूर्वों है । किन्तु जो कर्म कर्मक्षयका अभिलाषो होकर
उनमें लोभ नहीं करता है वह अभिन्नदशपूर्वों कहलाता है । भिन्न-
दशपूर्वियोंके जिनत्व नहीं है कोकि जिनके महाव्रत नष्ट हो
चुके हैं उनमें जिनत्व घटित नहीं होता । (भ आ / वि २/४/७-
१२५/१४) ।

४. चतुर्दशपूर्वोंको पीछे नमस्कार क्यों

ध ६/२.१.१२/७०/३ चोदसपुव्वहराण णमोकारो विण्ण कदो । ण,
जिणवयणपच्चगट्टाणपट्टुप्पायणदुवारण दसपुव्वीण चागमहत्पपदरि-
सण्ट पुञ्ज तण्णमोहाररणादो । सुदपरियाडीए वा पुञ्ज दस-
पुव्वीण णमोकारो बुदो । =प्रश्न—चौदह पूर्वोंके धारकोंको पहले
नमस्कार क्यों नहीं किया ? उत्तर—नहीं, क्योंकि जिनचर्चनपर

प्रत्यय स्थान पथाति विश्वास उत्पादन द्वारा दशपूर्वियोंके त्यागकी
महिमा दिग्गलानेके लिए पूर्वमें उन्हें नमस्कार किया है । पथवा
श्रुतकी परिपाटीकी अपेक्षासे पहले, दशपूर्वियोंको नमस्कार किया
गया है ।

५. चौदहपूर्वों अप्रतिपाठो हैं

ध ६/४.१.१३/७६/६ च.दसपुव्वहरो मिच्छत्त ण गच्छदि, तम्मि भवे
असजम च ण पडिज्जदि, एमो एदस्म विनेसा । =चौदह पूर्वोंका
धारक मियात्वको प्राप्त नहीं होता, और उन भवमें असयमको
भी नहीं प्राप्त होता, यह हमकी विशेषता है ।

२. निश्चय व्यवहार श्रुतकेवली निर्देश

१. श्रुतकेवलीका अर्थ आगमज

स सा ४/१० जो सुयणाण सव्व जाणध सुयकेवलि तमाहु जिणा ।
णाण अत्पा सव्वं जप्पा सुयकेवली तम्हा । १०। =जो जीव सर्व
श्रुतज्ञानको जानता है उसे जिनदेय श्रुतकेवली कहते हैं, क्योंकि
ज्ञान मत्र प्राप्त ही है इसलिए वह श्रुतकेवलीके है । १०।

स मि ६/२/७/४३/४ पूर्वविदो भवत श्रुतकेवलिन इरथ । =पूर्व-
विद अर्थात् श्रुतकेवलीके होते हैं ।

म पु २/६१ प्रत्यक्षञ्च परोक्षञ्च द्विधा ते ज्ञानपर्यय । केवलं केवलि-
न्येकन्तरत्तश्चश्रुतकेवली । ६१। = (श्रेणिक गजा गौतम गणधरकी इस
प्रकार स्तुति करते हैं ।) देवैः केवली भगवत्तुम् मात्र एक केवल
ज्ञान ही हाता है और आपमें प्रत्यक्ष पराक्षके भेदसे दो प्रकारका
ज्ञान विद्यमान है । इसलिए आप श्रुतकेवली कहलाते हैं । ६१।

भ आ / वि २/४/१०५/१२ सुदकेवलिणा समस्तश्रुतधारिणा कथित
चेति । =द्वादशांग श्रुतज्ञानको धारण करने वाले महर्षियोंको श्रुत-
केवलि कहते हैं । (और भी दे० श्रुतकेवली/१/१) ।

२. श्रुतकेवलीका अर्थ आगमज

स सा ४/१६ जा हि मुण्ण हि गच्छइ अत्पाणमिण तु केवल सुद्धं । त
सुयकेवलिमिणिणा भण ति लोयप्पईवयरा । १६। =जो जीव निश्चयसे
(वास्तवमें) श्रुतज्ञानके द्वारा इस अनुभवगाचर केवल एक शुद्ध
आत्माको सम्मुख हाकर जानता है, उसे लोककी प्रगट करने वाले
ऋषीश्वर श्रुतकेवला कहते हैं । १६।

प्र सा ४/१३ जो हि सुदेण विजाणट्ठि अत्पाण जाणग सहावेण । त
सुयकेवलिमिणिणा भण ति लायप्पदीवररा । १३। = जो वास्तवमें
श्रुतज्ञानके द्वारा स्वभावसे ज्ञायक (ज्ञायस्वभाव) आत्माको
जानता है उसे लोकके प्रशाशक ऋषीश्वरगण श्रुतकेवली कहते हैं ।

३. श्रुतकेवलीके उत्कृष्ट व जडन्य ज्ञानकी सीमा

म सि ६/४/७/४६/५ श्रुत—पुलावक्कुशप्रतिसेयनाकुशीला उत्कपेणा-
भिन्नाशरव्वशपूर्ववरा । वपायकुशीला निर्यन्थाइचतुर्दशपूर्वधरा ।
जडन्येण पुलारस्य श्रुतमाचारवस्तु । वदुशकुशीला निर्यन्थानां
श्रुतमथो प्रवचनमात्तम् । स्नातका अपगतश्रुता केवलिन । =श्रुत-
पुलाक, वपुश और प्रतिषेधना कुशल उत्कृष्ट रूपसे अभिज्ञान
दश पूर्वधर हाते हैं । न्याय कुशील जी- निर्यन्थ चौदह पूर्वधर
होते हैं । जडन्य रूपसे पुलाकका श्रुत आचार वस्तु प्रमाण होता
है । वकुश, कुशील और निर्यन्थोंका श्रुत आठ प्रवचन मातृका
प्रमाण होता है । स्नाता श्रुतज्ञानमें रहित केवली होते हैं । (रा,
वा ६/२/७/६६/१), (चा ग १/१०३, ८) ।

दे ध्याता/१ उत्तमर्ग रूपमें १४ पूर्वोंके द्वारा जीव उपपाद रूपसे जट
प्रवचन मातृकाका मात्र ज्ञानमें ध्याता तन्ना सम्भव है ।

दे० शुक्लध्यान/३/१.२ पृथक्त्व व एकत्व वितर्क ध्यान १४.१० व ६ पूर्वी-
को होते हैं ।

४. मिथ्यादृष्टि साधुको ११ भग तक भाव ज्ञान सम्भव
है

सा स/४/१८-२० एकादशाङ्गपाठो गि तस्य स्याद् द्रव्यरूपत ।
आत्मानुभूतिद्वयत्वाद्भावत सविदुज्जित १८। न वाच्य
पाठमात्रत्वमस्ति तस्येह नार्थत । यतस्तस्योपदेशाद्दे ज्ञान विन्दन्ति
केचन १९। तत पाठोऽस्ति तेषु च्चे पाठस्याप्यस्ति ज्ञातृता । ज्ञातृ-
तायां च श्रद्धान प्रतीती रोचन क्रिया २०। —कोई मिथ्यादृष्टि
मुनि ११ अगके पाठी होते है, महाव्रतादि क्रियाओंको घाह्यरूपमे
पूर्णतया पालन करते है, परन्तु उन्हें अपने शुद्ध आत्माका अनुभव
नहीं होता, इसलिए वे परिणामोंके द्वारा सम्यग्ज्ञानसे रहित है
१८। ऐसी शका नहीं करनी चाहिए कि 'मिथ्यादृष्टिको ११ अग-
का ज्ञान केवल पठन मात्र होता है, उसके अर्थोंका ज्ञान उमको
नहीं होता ! क्योंकि शास्त्रोंमें यह कथन आता है कि ऐसे मिथ्या-
दृष्टियोंके उपदेशसे अन्य कितने ही भव्य जीवोंको सम्यग्दर्शन
पूर्वक सम्यग्ज्ञान हो जाता है १८। इसमे सिद्ध होता है कि ऐसे
मिथ्यादृष्टि मुनियोंके ग्यारह अगोंका ज्ञान पाठमात्र भी होता है
और उमके अर्थोंका ज्ञान भी होता है, उस ज्ञानमें प्रज्ञान
होता है, प्रतीति होती है, रुचि होती है और पूर्ण क्रिया
होती है ।

* श्रुतज्ञानमें भावश्रुत दृष्ट है—दे० श्रुतकेवली/०/४ ।

५ श्रुतज्ञान सर्वग्राहक कैसे

घ ६/४.१.७/६/१ णासेसपयस्था मुदणणोण परिच्छिज्जति.—पणव-
णिज्जा भावा अणतभागे दु अणभिलम्पाण । पणवणिज्जाण पुण
अणतभागे मुदणिवद्धो १७। इदि वयणादो ति उत्ते होदु णाम
सयलपयस्थाणमण तिमभागे दव्वमुदणाणविसओ, भावमुदणाण-
विसओ पुण सयलपयस्था, अण्णाहा तित्थयराण वागदिसयत्ता भाव-
प्पसगादो । [तदो] बीजपदपरिच्छेदकारिणी बीजबुद्धि ति
सिद्ध । —प्रश्न—श्रुतज्ञान समस्त पदार्थोंको नहीं जानता है,
क्योंकि, वचनके अगोचर ऐसे जीवादिक पदार्थोंके अनन्तवें भाग
प्रज्ञापनीय अर्थात् तीर्थकरकी सातिशय दिव्यवचनमें प्रतिपाद्य
होते है । तथा प्रज्ञापनीय पदार्थोंके अनन्तवें भाग द्वादशांग श्रुतके
विषय होते है । इस प्रकारका वचन है । उत्तर—इस प्रश्नके उत्तर-
में कहते है कि समस्त पदार्थोंका अनन्तवें भाग द्रव्य श्रुतज्ञानका
विषय भले ही हो, किन्तु भाव श्रुतज्ञानका विषय समस्त पदार्थ
है, क्योंकि ऐसा माननेके बिना तीर्थकरोंके वचनातिशयके अभावका
प्रसंग होगा । [इसलिए] बीजपदोंको ग्रहण करनेवाली बीजबुद्धि
है, यह सिद्ध हुआ ।

६ जो एकको जानता है वही सर्वको जानता है

स सा /५/१५ जो पस्सदि अप्पाण अन्नदुपुट्ट अण्णमविसेस । अप-
देमन्तमज्जक पस्सदि जिणसासण सव्व १५। —जो पुरुष आत्मा-
को अन्नद स्पृष्ट, अनन्य अविशेष (तथा उपलक्षणसे नियत और
असयुक्त) देखता है—जो जिन शासन ग्राह्य श्रुत तथा अग्रन्तर
ज्ञान रूप भाव श्रुतवाला है १५।

यो सा यो /६५ जो अप्पा मुद्ध वि मुणह् अमुह् सरोरविभिण्णु । सो
जाणह् सत्थइ सयल सासय-सुक्खइ लीणु ६५। —जो आत्माको
अशुचि शरीरसे भिन्न समझता है, वह शाश्वत सुखमें लीन होकर
समस्त शास्त्रोंको जान जाता है ६५।

न घ /श्रुत /३/६८ पर एको भाव सर्वभावनभाव । नर्वे भावा एवभाव-
स्वभावा । एको भावरतत्वतो येन युद्ध र्गि भावास्तरवतस्तेन
युद्धा ११।—एक भाव सर्व भावोंके स्वभावस्वरूप है और सर्व भाव
एक भावके स्वभावस्वरूप है, इस कारण जिसने तत्त्वमें एक भावका
जाना उसने ममस्त भावोंका गार्थतया जाना । (शा /३५/१३/५
३४४ पर उद्गृत) ।

का अ /५/२६४ जो अप्पाण जाणदि अमुह-मरीण दु तत्त्वतो गिण्ण ।
जाणग-रूप सम्मं मो मरथं जाणदे मद्य २६४।—जो अपनी आत्मा-
को हम अपवित्र शरीरसे निश्चयमें भिन्न तथा ज्ञाप्य स्वरूप जानता
है वह सब शास्त्रोंको जानता है २६४।

* जो सर्वको नहीं जानता वह एकको भी यार्थ नहीं
जानता

—दे, केवलज्ञान/२/१ ।

७ निश्चय व्यवहार श्रुतकेवलीका समन्वय

प. प्र /५/१/६६ जोदय अप्पे जाणिण्ण जणु जाणियउ हंइ । अप्पह
केरइ भावइइ विविउ जेण वसेइ ।—दे योगी । एा अपने आत्माके
जाननेमें यह तीन लोह जाया जाता है, क्योंकि आत्माके भावरूप
केवलज्ञानमें यह लोह प्रतिनिधित हुआ मम रहा है ।

स सा /आ /६-१० य श्रुतेन केवल शुद्धमारमान जानाति स श्रुत-
केवलीति तावत्परमार्थो, य श्रुतज्ञान सर्व जानाति स श्रुतकेवलीति
तु व्यवहार । तदत्र सर्वमेव ताव ज्ञान निरूप्यमार्ण किमात्मा
किमनात्मा । न तावदनात्मा ममस्तस्याप्यनात्मनचेतनेतरपदार्थ-
पञ्चतयस्य ज्ञानतादात्म्यानुपपत्ते । ततो गत्यन्तराभावात् ज्ञानमा-
त्मेत्यायाति । अत श्रुतज्ञानमप्यारमेव स्यात् । एव नति ग आत्मान
जानाति न श्रुतकेवलीत्यायाति, स तु परमार्थ एव । एव ज्ञानज्ञानि-
नोर्भेदेन व्यपदिशता व्यवहारैर्णापि परमार्थमात्रमेव प्रतिपाद्यते, न
किंचिदप्यतिरिक्तम् । अथ च य श्रुतेन केवल शुद्धमारमान जानाति
स श्रुतकेवलीति परमार्थस्य प्रतिपाद्यितुमशक्यत्वाच्च श्रुतज्ञान
सर्व जानाति स श्रुतकेवलीति व्यवहार परमार्थप्रतिपादनत्वेना-
त्मान प्रतिष्ठापर्याति १६-१०। —प्रथम, जो श्रुतसे केवल शुद्धआत्माको
जानते हैं वे श्रुतकेवली हैं वह ता परमार्थ है, और जो सर्व श्रुतज्ञान-
को जानते हैं वे श्रुतकेवली हैं वह व्यवहार है । यहाँ दो पक्ष लेकर
परीक्षा करते हैं—उपरोक्त सर्वज्ञान आत्मा है या अनात्मा ! यदि
अनात्माका पक्ष लिया जाये तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि जो समस्त
जड रूप अनात्मा आकाशादिक पाँच द्रव्य है, उनका ज्ञानके साथ
तादात्म्य बनता ही नहीं । (क्योंकि उनमें ज्ञान सिद्ध नहीं है)
इसलिए अन्यपक्षका अभाव होनेसे 'ज्ञान आत्मा ही है, यह पक्ष सिद्ध
हुआ । इसलिए श्रुतज्ञान भी आत्मा ही है । ऐसा होनेसे जो आत्मा-
को जानता है वह श्रुतकेवली है' ऐसा ही घटित होता है, और वह तो
परमार्थ ही है । इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानीके भेदसे कहनेवाला जो
व्यवहार है, उससे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है, उससे भिन्न
कुछ नहीं कहा जाता । और जो श्रुतसे केवल शुद्ध आत्माको जानते
हैं वे श्रुतकेवली हैं, इस प्रकार परमार्थका प्रतिपादन करना अशक्य
होनेसे, 'जो सर्व श्रुतज्ञानको जानते हैं वे श्रुतकेवली हैं' ऐसा व्यवहार
परमार्थके प्रतिपादकत्वसे अपनेको दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है ।

प वि /१/१५८ ज्ञान दर्शनमप्यगोपविषय जीवस्य नार्थान्तर—शुद्धादेश-
विषयस्यास हि तत्रिचद्रूप इत्युच्यते । पर्यायिश्च गुणश्च साधु
विदते तस्मिन् गिरा-सद्गुणोच्छति किं न विलोकित न किमथ प्राप्त
न किं योगिभि १५८।—शुद्ध नयकी अपेक्षा समस्त पदार्थोंको विषय
करनेवाला ज्ञान और दर्शन ही जीवका स्वरूप है जो उस जीवसे
पृथक् नहीं है । इससे भिन्न कोई दूसरा जीवका स्वरूप नहीं हो सकता
है । अतएव वह चिद्रूप अर्थात् चेतन स्वरूप ऐसा कहा जाता है ।
उत्तम गुरुके उपदेशसे अपने गुणों और पर्यायोंके साथ उस ज्ञान

दर्शन स्वरूप जीवके भले प्रकार जान लेनेपर योगियोंने क्या नहीं जाना, क्या नहीं देखा, और क्या नहीं प्राप्त किया ? अर्थात् सब कुछ जान, देख व प्राप्त कर लिया। १५६।

स.सा/ता वृ./६-१०/२२/६ अयमत्रार्थ — जो भावश्रुतरूपेण स्वसवेदन-ज्ञानबलेन शुद्धात्मान जानाति स निश्चयश्रुतकेवली भवति। यस्तु स्वशुद्धात्मान न सवेदयति न भावयति वहिर्विषयं द्रव्यश्रुतार्थ जानाति स व्यवहारश्रुतकेवली भवतीति। = यहाँ यह तात्पर्य है कि—जो भावश्रुत रूप स्व सवेदन ज्ञानके बलसे शुद्ध आत्माको जानता है वह निश्चय श्रुतकेवली है। और जो शुद्धात्माका न सवेदन करता है—न भावना भाता है, परन्तु बाह्य द्रव्य श्रुतको जानता है वह व्यवहार श्रुतकेवली है।

प प्र/टी १/६६/६४/१ वीतरागनिर्विकल्पस्वसवेदनज्ञानेन परमात्मतत्त्वे ज्ञाते सति समस्तद्वादशाङ्गस्वरूप ज्ञात भवति। कस्मात्। यस्माद्वाधवपाण्डवादयो महापुरुषा जिनदीक्षां गृहीत्वा द्वादशाङ्ग पठित्वा द्वादशाङ्गाध्ययनफलभूते निश्चयरत्नत्रयात्मके परमात्मध्याने तिष्ठन्ति तेन कारणेन वीतरागस्वसवेदनज्ञानेन निजात्मनि ज्ञाते सति सर्व ज्ञात भवतीति। अथवा निर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नपरमानन्दसुख-रसास्वादे जाते सति पुरुषो जानाति। किं जानाति। वैचि मम स्वरूपमन्यद्देहरागादिक परमिति तेन कारणेनात्मनि ज्ञाते सर्व ज्ञात भवति। अथवा आत्मा कर्ता श्रुतज्ञानरूपेण व्याप्तिज्ञानेन कारणभूतेन सर्वं लोकोलोक जानाति तेन कारणेनात्मनि ज्ञाते सर्वं ज्ञात भवतीति। अथवा वीतरागनिर्विकल्पत्रिगुणिसमाधिबलेन केवलज्ञानोत्पत्तिश्रीजभूतेन केवलज्ञाने जाते सति दर्पणे चिम्बवत् सर्वं लोकालोकस्वरूप विज्ञायत इति हेतोरामनि ज्ञाते सर्वं ज्ञातं भवतीति। = वीतराग निर्विकल्पस्वसवेदन ज्ञानसे शुद्धात्मान तत्त्वके जाननेपर समस्त द्वादशांग शास्त्र जाना जाता है। क्योंकि जैसे—१ रामचन्द्र, पाण्डव, भरत, सगर आदि महाद पुरुष भी जिनराजकी दीक्षा लेकर द्वादशांगको पढ़कर द्वादशांग पढ़नेका फल निश्चय रत्नत्रय स्वरूप शुद्ध आत्माके ध्यानमें लीन हुए थे। इसलिए वीतराग स्वसवेदन ज्ञानसे जिन्होंने अपनी आत्माको जाना उन्होंने सबको जाना। २. अथवा निर्विकल्प समाधिसे उत्पन्न हुआ जो परमानन्द सुख रस उसके आस्वाद होनेपर ज्ञानी पुरुष ऐसा जानता है कि मेरा स्वरूप पृथक् है, और देहरागादिक मेरेसे दूसरे है, इसलिए परमात्माके जाननेसे सब भेद जाने जाते हैं, जिसने अपने आत्माको जाना उसने सर्व भिन्न पदार्थ जाने। ३ अथवा आत्मा श्रुतज्ञान रूप व्याप्ति ज्ञानसे सब लोकोलोकको जानता है, इसलिए आत्माके जाननेसे सब जाना गया। ४ अथवा वीतराग निर्विकल्प परम समाधिके बलसे केवलज्ञानको उत्पन्न करके जैसे दर्पणमें घट पट आदि पदार्थ फलकते हैं, उसी प्रकार ज्ञानरूपी दर्पणमें सब लोकोलोक भासते हैं। इससे बात निश्चित हुई कि आत्माके जाननेपर सब जाना जाता है।

दे अनुभव/५ अल्प धूमिकामें कथ चित् शुद्धात्माका अनुभव होता है।

दे, दर्शन/२/७ दर्शन द्वारा आत्माका ज्ञान होनेपर उसमें प्रतिबिम्बित सब पदार्थोंका ज्ञान भी हो जाता है।

दे केवलज्ञान/६/६ (ज्ञेयाकारोंसे प्रतिबिम्बित निज आत्माको जानता है)

* पूर्व श्रुतकेवलीवत् वर्तमानमें भी सम्भव है।

—दे अनुभव/५/७।

श्रुतज्ञान—इन्द्रियों द्वारा विवक्षित पदार्थको ग्रहण करके उससे सम्बन्धित अन्य पदार्थको जानना श्रुतज्ञान है। वह दो प्रकारका है—अर्थलिंगज व शब्दलिंगज। पदार्थको जानकर उसमें दृष्टता अनि-यताका ज्ञान अथवा धूमको देखकर अग्निका ज्ञान अर्थलिंगज

श्रुतज्ञान है। वाचक शब्दको सुनकर या पढ़कर वाच्यका ज्ञान शब्द-लिंगज है। वह लौकिक भी होता है लोकोत्तर भी। लोकोत्तर श्रुतज्ञान १२ अंग १४ पूर्वी आदि रूपसे अनेक प्रकार है। पहला अर्थलिंगज तो श्रुत जीवोंसे लेकर क्रमसे वृद्धिगत होता हुआ सूक्ष्म-धारी मुनियों तकको होता है। पर दूसरा अर्थलिंगज व शब्द-लिंगज सच्ची पञ्चेन्द्रिय जीवोंको ही सम्भव है। श्रुतकेवलीको यह उत्कृष्ट होता है।

I श्रुतज्ञान सामान्य निर्देश

१ भेद व लक्षण

- १ श्रुतज्ञान सामान्यका लक्षण।
- २ शब्द व अर्थलिंग रूप भेद व उनके लक्षण।
- ३ द्रव्यभाव श्रुत रूप भेद व उनके लक्षण।
- ४ सम्यक् व मिथ्या श्रुतज्ञानके लक्षण।
- ५ सम्यक् लब्धि व भावना रूप भेद।
- * अप्पाग निमित्त ज्ञान। —दे, निमित्त/२।
- * अप्प प्रवचन माताका लक्षण। —दे प्रवचन।
- * स्थित जित आदि श्रुतज्ञानोंके लक्षण। —दे निक्षेप/५/८।
- ६ धारावाही ज्ञान निर्देश।
- * श्रुतज्ञानके असंख्यात भेद। —दे ज्ञान/१/४।
- * श्रुतज्ञानमें भेद होनेका कारण।

२ श्रुतज्ञान निर्देश

- १ श्रुतज्ञानके पर्यायवाची नाम।
- २ श्रुतज्ञानमें कथचित् मति आदि ज्ञानोंका निमित्त।
- * श्रुतज्ञान सम्बन्धी दर्शन —दे, दर्शन/६।
- ३ श्रुतज्ञानमें मनका निमित्त।
- * श्रुतज्ञान अधिगम ही होता है —दे अधिगम।
- ४ श्रुतज्ञानका विषय।
- * द्रव्य श्रुतकी अल्पता —दे आगम/४।
- ५ श्रुतज्ञानकी त्रिकालशता।
- ६ मोक्षमार्गमें मतिश्रुत ज्ञानकी प्रधानता।
- * एक आत्मा जानना ही सर्वको जानना है —दे श्रुतकेवली/६।
- ७ शब्द व अर्थलिंगजमें शब्दलिंगज ज्ञान प्रधान।
- ८ द्रव्य व भावश्रुतमें भावश्रुतको प्रधानता।
- ९ श्रुतज्ञान केवल शब्दज नहीं होता।
- * द्रव्य व भाव श्रुतज्ञान निर्देश —दे, आगम/२।
- * श्रुतज्ञानके अतिचार —दे आगम/१।
- * वस्तु स्वरूपके निर्णयका उपाय —दे न्याय, अनुमान, आगम व नय।
- * श्रुतज्ञानका स्वामित्व —दे ज्ञान/१/४।
- * पकेन्द्रियों व सधियोंके श्रुतज्ञान बोले —दे सच्ची।
- * श्रुतज्ञान क्षयोपशमिक कैसे है औदयिक क्यों नहीं —दे, मतिज्ञान/२/४।

* 1	श्रुतज्ञानकी ओष व आदेश २० प्ररूपणाएँ—दे, सत् ।
* 2	श्रुतज्ञानके स्वामित्व सम्बन्धी सत्, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भान, अल्पबहुत्व रूप आठ प्ररूपणाएँ —दे वह वह नाम ।
* 3	सभी मार्गणा रथानोंमें आयके अनुसार व्यय होनेका नियम —दे मार्गणा ।
३	मतिज्ञान व श्रुतज्ञानमें अन्तर
१	दोनोंमें कथचित् एकता ।
२	मति व श्रुतज्ञानमें भेद ।
३	श्रोतज्ञ मतिज्ञान व श्रुतज्ञानमें अन्तर ।
४	मनोमति ज्ञान व श्रुतज्ञानमें अन्तर ।
५	इंहादि मतिज्ञान व श्रुतज्ञानमें अन्तर ।
* 6	स्युतिसे अनुमान तकके ज्ञानोंकी उत्पत्तिका क्रम —दे मतिज्ञान/३ ।
* 7	अनुमान उपमान आदि सब श्रुतज्ञानके विकल्प है —दे, वह वह नाम ।
४	श्रुतज्ञान व केवलज्ञानमें कथचित् समानता-असमानता
१	श्रुतज्ञान भी सर्व पदार्थ विषय है ।
२	दोनोंमें प्रत्यक्ष परोक्षका अन्तर है ।
* 3	श्रुतज्ञान कथचित् त्रिकाल ग्राहक है —दे श्रुतज्ञान/1/२/५ ।
३	समन्वय ।
५	मति श्रुतज्ञानकी कथचित् प्रत्यक्षता-परोक्षता
१	मतिश्रुत ज्ञान कथचित् परोक्ष है ।
* 2	श्रुतज्ञान परोक्ष है —दे, परोक्ष/४ ।
* 3	मतिज्ञान साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है —दे प्रत्यक्ष/१/४ ।
२	इन्द्रिय ज्ञानको प्रत्यक्ष माननेमें दोष ।
३	परोक्षता व अपरोक्षताका समन्वय ।
४	श्रुतज्ञानकी कथचित् निर्विकल्पता —दे विकल्प ।
II	अर्थलिंगज श्रुतज्ञान विशेष निर्देश
१	भेद व लक्षण
१	अर्थलिंगज २० प्रकारका है ।
२	अर्थ लिंगके २० भेदोंके नाम निर्देश ।
३	बीस भेदोंके लक्षण ।
४	उपरोक्त ज्ञानोंकी वह सगणें क्यों ।
५	अक्षर ज्ञानमें कौनसा अक्षर श्रेष्ठ है ।
२	अर्थलिंगज निर्देश
१	लक्ष्यक्षर ज्ञानका प्रमाण ।
२	लक्ष्यक्षर ज्ञान सदा निरावरण होता है ।
३	पर्याय आदि ज्ञानोंमें वृद्धि क्रम विकास ।

III	शब्द लिंगज श्रुतज्ञान विशेष
१	भेद व लक्षण
१	लोकोत्तर शब्द लिंगजके सामान्य भेद ।
२	आगम सामान्य व विशेषके लक्षण ।
३	अग प्रविष्ट व अग वाह्यके भेद ।
४	अग प्रविष्टके भेदोंके लक्षण ।
५	अगवागप्रके भेदोंके लक्षण ।
२	शब्द लिंगज निर्देश
१	वारह अगोंमें पद निर्देश ।
२	दृष्टिवाद अगोंमें पद सरथा निर्देश ।
३	चौदह पूर्वोंमें पदादिकी सख्या निर्देश ।
४	अग वाह्यके चौदह भेदोंमें पद सख्या निर्देश ।
५	यहाँपर मध्यम पदसे प्रयोजन है ।
६	इन ज्ञानोंका अनुयोग आदि ज्ञानोंमें अन्तर्भाव ।

I श्रुतज्ञान सामान्य निर्देश

१ भेद व लक्षण

१. श्रुतज्ञान सामान्यका लक्षण

१ सामान्य अर्थ

स सि/अ/सु/पु/पं श्रूयते अनेन तव शृणोति श्रवणमात्र वा श्रुतम् (१/६/६४/१) श्रुतशब्दोऽयं श्रवणमुपादाय व्युत्पादितोऽपि रूढिवशात् कस्मिन्चिच्छ्रुतज्ञानविशेषे वर्तते । यथा कुशलवनकर्म प्रतीत्य व्युत्पादितोऽपि कुशलशब्दो रूढिवशात्पर्यवदाते वर्तते (१/२०/१२०/४) श्रुतज्ञानविषयोऽर्थं श्रुतम् (२/२१/१७६/७) । विशेषेण तर्कण-मूहन वितर्क श्रुतज्ञानमित्यर्थः (६/४२/४५५/६) । = १ पदार्थ जिसके द्वारा सुना जाता है, जो सुनना है या सुनना मात्र श्रुत कहलाता है (रा वा १/१/६/२/४४/१०) । २ यह श्रुत शब्द सुनने रूप अर्थकी मुख्यतासे निष्पादित है तो भी रूढिसे उसका वाच्य कोई ज्ञान विशेष है । जैसे—कुशल शब्दका व्युत्पत्ति अर्थ कुशाका छेदना है ता भी रूढिसे उसका अर्थ पर्यवदाते अर्थात् विमल या मनोज्ञ लिंगा जाता है । (रा वा १/१/२०/१/७०/२१), (ध. ६/४,१,४५/१६०/५), (गो जो./जी प्र २/१५/६७३/१७) ३ श्रुतज्ञानका विषय भूत अर्थ श्रुत है । (रा वा २/२१/१/२३/१८) ४ विशेष रूपसे तर्कणा करना अर्थात् ऊहा करना वितर्क अर्थात् श्रुतज्ञान कहलाता है । (रा वा ६/४३/६३४/६), (त सा १/२/२४), (अन ध १/१/१/५ पर उद्धृत) ।

का, अ/सु/२६२ सवत्र पि अण्येयत् परोक्त्व-रूवेण ज पयासेदि । त सुय-णाण भण्णदि मसय-पहूदीहि परिचत्त । २६२ । = जो परोक्ष रूपसे सब वस्तुओंका अनेकान्त रूप दर्शाता है, संशय, विपर्यय आदिसे रहित उस ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं । २६३ ।

अन ध २/५ स्वावृत्त्यपायेऽविस्पष्टं यन्नानार्थप्ररूपणम् । ज्ञान तच्छ्रुतम् । ५ । = श्रुतज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होनेपर नाना पदार्थोंके समीचीन स्वरूपका निश्चय कर सकनेवाले अस्पष्ट ज्ञानको श्रुत कहते हैं । ५ ।

द्र० स/टी ५/१५/१० श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमात् सूचामूर्त्तवस्तुलोकालोकव्याप्तज्ञानरूपेण यदस्पष्टं जानाति तत् श्रुतज्ञानं भण्यते ।

—श्रुत ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे जो मूर्ति अमूर्तिक वस्तुको लोक तथा अलोकको व्याप्ति ज्ञान रूपसे उत्पन्न जानता है उसको श्रुतज्ञान कहते हैं ।

गो. जी/जी प्र/३१५/६७३/१६ श्रुयते श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते इति श्रुत शब्द, तस्मादुत्पन्नमर्थज्ञान श्रुतज्ञानमिति व्युत्पत्तेरपि अक्षरात्मक-प्राधान्याश्रयणात् । —जो सुना जाता है उसको शब्द कहते हैं, शब्दसे उत्पन्न ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं । इस अर्थमें अर्थरत्मक श्रुतज्ञान ही प्रधान हुआ, अथवा श्रुत ऐसा रूढि शब्द है ।

२. अर्थसे अर्थान्तरका ग्रहण

प स/प्रा/१/१२२ अर्थाओ अर्थतर उवलभे त भणति सुयणाण ।
—मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थके अवलम्बनसे तत्सम्बन्धी दूसरे पदार्थका जो उपलम्भ अर्थात् ज्ञान होता है, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं । १२२। (ध १/१.१.११५/गा. १२३/३६६), (गो. जी/मू/३१५/-६७३), (न च./गच्छ/३६/६)

रा. वा./१/१/२७-२६/पृ. ५ इन्द्रियानिन्द्रियबलाधानात् पूर्व-मुपलब्धेऽर्थे नोइन्द्रियप्राधान्यात् यदुत्पद्यते ज्ञान तत् श्रुतम् (४८-२६) । एक घटमिन्द्रियानिन्द्रियार्थानि निश्चित्याय घट इति तज्जातीयमन्यमनेकदेशकालरूपादिविलक्षणमपूर्वमधिगच्छति यत्तत् श्रुतम् (४८/३४) । अथवा इन्द्रियानिन्द्रियार्थामेक जीवमजीव चोपलम्भय तत्र सत्सख्या आदिभि प्रकारैरर्थप्ररूपणे कर्तव्ये यत्समर्थं तत् श्रुतम् (४६/१) । = १. शब्द सुननेके बाद जो मनकी ही प्रधानतासे अर्थ ज्ञान होता है वह श्रुत है । २ एक घडेको इन्द्रिय और मनसे जानकर तज्जातीय विभिन्न देशकालवर्ती घटोंके सम्बन्ध जाति आदिका जो विचार होता है वह श्रुत है । ३ अथवा श्रुतज्ञान इन्द्रिय और मनके द्वारा एक जीवको जानकर उसके सम्बन्धके सत् सख्या आदि अनुयोगोंके द्वारा नाना प्रकारसे प्ररूपण करनेमें जो समर्थ होता है वह श्रुतज्ञान है ।

ध. १/१.१.२/६३/५ सुदणाण णाम मदि-पुव्व मदिणाणपडिगहिय-मत्थ मोत्तूणणत्थमिह वावद सुदणाणावरणीय-बलवयोवसम-जणिण ।
—जिस ज्ञानमें मतिज्ञान कारण पडता है, जो मतिज्ञानसे ग्रहण किये गये पदार्थको छोड़कर तत्सम्बन्धित दूसरे पदार्थमें व्यापार करता है, और श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न होता है, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं । (ध. १३/५.५.२१/२१०/४, ५.५.४३/५४५/४), (क पा. १/१ १/१४२८/४२/६), (क पा १/१-१५/१३०८-३४०/५), (ज प/१३/७७), (गो. जी/जी प्र/३१५/६७३/११) ।

२. शब्द व अर्थ लिंग रूप भेद व इनके लक्षण

क पा १/१-१५/१३०८-३०६/३४०-३४१/५ त कुविह —सङ्गलिंग, अर्थ-लिंग चेदि । तत्थ त सङ्गलिंग त कुविह लोइय लोउत्तरिय चेदि ।
सामणपुरिसवयणविणिग्गयवयणक्लावजणियाण लोइयसहज ।
असच्चकारणविण्णमुक्कपुरिसवयणविणिग्गयवयणक्लावजणिय सुद-णाण लोउत्तरिय । धूमादिअर्थलिंग पुणअणुमाण णाम । —श्रुत-ज्ञान शब्दलिंग और अर्थलिंगके भेदसे दो प्रकारका है । उनमें भी जो शब्दलिंग श्रुतज्ञान हे वह लौकिक और लोकोत्तरके भेदसे दो प्रकारका है । सामान्य पुरुषके मुखसे निकले हुए वचन समुदायसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह लौकिक शब्दलिंग श्रुतज्ञान है । असत्य बोलनेके कारणोंसे रहित पुरुषके मुखसे निकले हुए वचन समुदायसे जो श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है वह लोकोत्तर शब्द लिंग श्रुतज्ञान है । तथा धूमादिक पदार्थरूप लिंगसे जो श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है वह अर्थलिंग श्रुतज्ञान है । इसका दूसरा नाम अनुमान भी है ।

ध. ६/१.६-१.१४/२१/६ तत्थ सुदणाण णाम इदिपहि गहियादो तदो पुथभूदरथगहण, जहा सद्दाहो घडादीणमुवलभो, धूमात् अग्निस्त्व-त्तभो वा । —इन्द्रियोंसे ग्रहण किये पदार्थसे उससे पृथग्भूत पदार्थ-

का ग्रहण करना श्रुतज्ञान है । जैसे शब्दसे घट आदि पदार्थोंका जानना । अथवा धूमादिसे अग्निका ग्रहण करना । (ध १/१.१.११५/३५७/८), (ध १३/५.५.२१/२१०/५, ५.५.४३/२४५/५), (ज प/१३/७८-७६) (द्र सं/टी/४४/१८८/२) ।

गो जी./जी प्र/३१६/६७६/३ श्रुतज्ञानस्य अनक्षरारमकाक्षरारमकी द्वौ भेदौ । —अनक्षरारमक और अक्षरारमकके भेदसे श्रुतज्ञानके दो भेद हैं । [वाचक शब्दपरसे वाच्यार्थका ग्रहण अक्षरारमक श्रुत है, और शीतादि स्पर्शमें इष्टानिष्टता होना अनक्षरारमक श्रुत है । दे श्रुतज्ञान/३/३]

३. द्रव्य-भाव श्रुतरूप भेद व उनके लक्षण

गो जी/जी. प्र/३४८-३४९/७४४/१५ अद्ब्राह्मसामायिकादिचतुर्दश-प्रकीर्णकभेदद्रव्यभावारमकश्रुत पुद्गलद्रव्यरूप वर्णपदवाक्यारमकं द्रव्यश्रुत, तच्छ्रवणसमुत्पन्नश्रुतज्ञानपर्यायरूप भावश्रुत । —आचा-रांग आदि बारह अंग, उत्पादपूर्व आदि चौदह पूर्व और चकारसे सामायिकादि १४ प्रकीर्णक स्वरूप द्रव्यश्रुत जानना, और इनके सुननेसे उत्पन्न हुआ जो ज्ञान सो भावश्रुत जानना । पुद्गलद्रव्यस्वरूप अक्षर पदादिक रूपसे द्रव्यश्रुत है, और उनके सुननेसे श्रुतज्ञानकी पर्याय रूप जो उत्पन्न हुआ ज्ञान मो भावश्रुत है । (द्र सं/टी/७७-२२८/११) ।

द्र सं/टी/५८/२३६/१० वर्तमानपरमाणुभाविधानद्रव्यश्रुतेन तथैव तदाधारोत्पन्ननिर्विकारस्वस्वेदनज्ञानरूपभावश्रुतेन । —वर्तमान परमाणु नामक द्रव्यश्रुत से तथा उस परमाणुके आधारसे उत्पन्न निर्विकार स्व-अनुभव रूप भावश्रुतसे परिपूर्ण ।

४ सम्यक् व मिथ्याश्रुतज्ञानके लक्षण

नोट— [सम्यक् श्रुतके लिए—दे श्रुतज्ञान सामान्यका लक्षण ।]

प स/प्रा/१/११६ आभीयमासुरबला भारह गमायणादि उवपसा ।
तुच्छा असाहणीया सुयवण्णाण त्ति ण वित्ति । ११६ । —चौरशास्त्र, हिंसा शास्त्र तथा महाभारत, रामायण आदिके तुच्छ और परमार्थ-शून्य होनेसे साधन करनेके अयोग्य उपदेशोंको श्रुताज्ञान कहते हैं । (ध १/१.१.११५/गा १८१/३६६), (गो जी/मू/३०४/६५५) ।
प का/त प्र/४१ यत्तदावरणक्षयोपशमादनिन्द्रियावलम्बाच्च मूर्तमूर्त-द्रव्य विकल विशेषेणावबुध्यते तत् श्रुतज्ञानम् । मिथ्यादर्शनादय-सहचरित श्रुतज्ञानमेव कुश्रुतज्ञानम् । —उस प्रकारके (अर्थात् श्रुतज्ञानके) आवरणके क्षयोपशमसे और मनके अवलम्बनसे मूर्त-अमूर्त द्रव्यका विकल्प रूपसे विशेषतः अवबोधन करता है वह श्रुत-ज्ञान है । मिथ्यादर्शनके उदयके साथ श्रुतज्ञान ही कुश्रुतज्ञान है ।

५. उपयोग लब्धि व भावना रूप भेद निर्देश

प का./प्रक्षेपक गा/४३ २/२६ सुदणाण पुण णाणी भणति लद्धी य भावणा चेत् । उवआगणयवियप्प णाणेण य वत्थु अर्थस्म ४३-२।
—ज्ञानीको श्रुतज्ञान लब्धि व भावनारूपसे दो-दो प्रकारका होता है अथवा प्रमाण व नयके भेदसे दो प्रकारका होता है । सकल वस्तुको ग्रहण करनेवालेके प्रमाणरूप और वस्तुके एकदेश ग्रहण करनेवालेके नय रूप होता है ।

६. धारावाही ज्ञान निर्देश

न्या दी/१/१५ १५/१३/७ एकस्मिन्नेव घटे विषयाज्ञानविघटनार्थमाणो ज्ञाने प्रवृत्ते तेन घटप्रमिती सिद्धया पुनर्घटोऽय घटोऽयमिदं वस्तु-ज्ञान्युत्तरोत्तरज्ञानानि खलु धारावाहिरज्ञानानि भवन्ति । —एक ही घटमें घट विषयक अज्ञानके निराकरण करनेके लिए प्रवृत्त हुए पहले घट ज्ञानसे घटकी प्रमिति हो जानेपर फिर 'यह घट है' 'यह घट है' इस प्रकार उत्पन्न हुए ज्ञान धारावाहित जान है ।

७ श्रुतज्ञानमें भेद होनेका कारण

रा. वा १/२०/६/७२/६ मतिपूर्वकरणाविशेषात् श्रुताविशेष इति चेत्, न, कारणभेदात्तद्भेदसिद्धे ॥ प्रतिपुरुष हि मतिश्रुतावरणक्षयोपशमो बहुधा भिन्न तद्भेदाद्वा नाह्यनिमित्तभेदाच्च श्रुतस्य प्रकर्षा-प्रकर्षयोगा भवति मतिपूर्वकरणाविशेषेऽपि । = प्रश्न—मतिज्ञान पूर्वक हानेसे सभी श्रुतज्ञानोंमें विशेषता है, अर्थात् कोई भेद नहीं है ? उत्तर—नहीं, क्योंकि कारण भेदसे कार्यके भेदका नियम सर्व सिद्ध है । चूंकि सभी प्राणियोंके अपने-अपने क्षयापशमके भेदसे, नाह्य निमित्तके भेदसे, श्रुतज्ञानका प्रकर्षाप्रकर्ष होता है, अतः मतिपूर्वक होनेपर भी सभीके श्रुतज्ञानोंमें विशेषता बनी रहती है । (ध. ६/४, १, ४४/१६१/१) ।

२ श्रुतज्ञान निर्देश

१. श्रुतज्ञानके पर्यायवाची नाम

ध. खं १३/४, ५/५ १०/२८० पावयण पवयणीयं पवयणदृष्टो गदीशु मगणदा आदा पर परलक्ष्मी अणुत्तर पवयण पवयणी पवयणद्वा पवयणसण्णियासो जयविधी जयतरविधी भगविधी भगविधिविसेसो पुच्छाविधी पुच्छाविधिसेसो तत्त्व भूद भवन् भवियं अचित्थं अविहद वेद णय सुद्ध सम्माइदृष्टी हेतुवादो जयवादो पवरवादो मगवादो सुद्धवादो परवादो लोइयवादो लोगुत्तरीयवादो अग मग जहाणुमगं पुव्व जहाणुपुव्वं पुव्वादिपुव्वं चैदि । १०।

ध १३/४, ५, १०/२८४/१२ कथं श्रुतस्य विधिव्यपदेश । सर्वनयविषयाणा-मस्तिस्त्वविधायकत्वात् । = १. प्रावचन, प्रवचनीय प्रवचनार्थ, गतियोंमें मार्गणता, आत्मा, परम्परा लब्धि, अनुत्तर, प्रवचन, प्रवचनी, प्रवचनान्ना, प्रवचन सनिकर्ष, नयविधि, नयान्तरविधि, भगविधि, भगविधिविशेष, पुच्छाविधि, पुच्छाविधि विशेष, तत्त्व, भूत, भव्य, भविष्यत्, अविद्य, अविहत्, वेद, न्याय, शुद्ध, सम्यग्-दृष्टि, हेतुवाद, नयवाद, प्रवरवाद, मार्गवाद, श्रुतवाद, परवाद, लौकिकवाद लोकोत्तरीयवाद, अग्रय, मार्ग यथानुमार्ग, पूर्व, यथानु-पूर्व और पूर्वातिपूर्व ये श्रुतज्ञानके पर्याय नाम हैं । १०। २ प्रश्न—श्रुत-को विधि संज्ञा कैसे है ? उत्तर—चूंकि वह सब नयोंके विषयके अस्तित्वका विधायक है, इसलिए श्रुतकी विधि संज्ञा उचित ही है ।

२. श्रुतज्ञानमें कथंचित् मति भादि ज्ञानोंका निमित्त

त सू १/२० श्रुत मतिपूर्व द्वचनेकद्वादशभेदम् । २०।
स. सि १/२०/१२०/७ मति पूर्वमस्य मतिपूर्व मतिकारणमित्यर्थ । = १ श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है । २०। २ मति जिसका पूर्व अर्थात् निमित्त है वह मतिपूर्व कहलाता है । जिसका अर्थ मतिहारणक होता है । तारपर्य यह है कि जो मतिज्ञानके निमित्तसे होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं । (प स प्रा १/१२२), (रा वा १/२०/१००/२४) (दे श्रुतज्ञान/१/१/२), (ध ६/२, २, ४४/१६०/७), (ध १३/४, ५, २१/२८०/७), (द्र स टी ४४/१८८/२), (प ध ५/१०३, ७१७) ।

श्लो वा २/१/७/६/४१/७ अवधिमान पर्यायविशेषरानुपट्टगात् । यथेन हि मर्याथं परिच्छेद्य श्रुतज्ञानेन परामुशब्दनिर्देशादिभि प्ररूपयति तथावधिमान पर्यायेण वा । न चेवं श्रुतज्ञानस्य तत्पूर्वकत्प्रसङ्ग साक्षात्तस्यानिन्द्रियमतिपूर्वकत्वात् परम्परया तु तत्पूर्वकरष नानिष्ठम् । = प्रश्न—अवधि और मन पर्यायमें प्रत्यक्षकर उस पदार्थका श्रुतज्ञान द्वारा विचार हो जाता है तो मतिपूर्व रूपनेके समान अवधि मन पर्यायपूर्वक भी श्रुतज्ञानके हानेका प्रसंग आयेगा । उत्तर—नहीं, क्योंकि अव्यवहित पूर्ववर्ती कारणको अपेक्षासे श्रुतज्ञानका कारण मतिज्ञान ही है । हाँ, परम्परामें तो उन अवधि और मन पर्यायको कारण मानकर श्रुतज्ञानकी प्रवृत्ति हाना अनिष्ट नहीं है ।

श्लो, वा ३/१/२०/श्लो २०/६०५ मतिसामान्यनिर्देशान्न श्रोत्रमति-पूर्वक । श्रुत नियम्यतेऽशेषमतिपूर्वस्य वीक्षणत् । = सूत्रकारने मति-पूर्व ऐसा निर्देश कहकर सामान्य रूपसे सम्पूर्ण मतिज्ञानोंका सग्रह कर लिया है । अतः केवल श्रोत्र इन्द्रियजन्य मतिज्ञानको ही पूर्ववर्ती मानकर श्रुतज्ञान उत्पन्न होय ऐसा नियम नहीं किया जा सकता है ।

क पा १/२-१/१३४/५१/४ मदिणाणपुव्वं चैव सुदणाण सुदणाणादो वि सुदणाणुपत्तिदसणादो । = यदि कहा जाय कि मतिज्ञानपूर्वक ही श्रुतज्ञान होता है सो भी कहना ठीक नहीं है । क्योंकि श्रुतज्ञानसे भी श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति देखी जाती है ।

३. श्रुतज्ञानमें मनका निमित्त

त सू. २/२१ श्रुतमनिन्द्रियस्य । २१। = श्रुत मनका विषय है ।
दे मतिज्ञान/३/१ ईदिको मनका निमित्तपना उपचारसे है पर श्रुतज्ञान नियमसे मनके निमित्तसे ही उत्पन्न होता है ।

स. भ त ४७/१३ अनिन्द्रियमात्रजन्यत्वं श्रुतस्य स्वरूपम् । = मन मात्रसे उत्पन्न होना श्रुतज्ञानका स्वरूप है ।

४ श्रुतज्ञानका विषय

दे, मतिज्ञान/२/२ सर्व द्रव्योंकी असर्व पर्यायोंमें वर्तता है ।

रा वा १/२६/४/७/२२ शब्दाश्च सर्वे संख्येया एव द्रव्यपर्याय्या पुन संख्येयासंख्येयानन्तभेदा, न ते सर्वे विशेषाकारेण तैर्विषयी-क्रियन्ते । = सर्व शब्द संख्यात ही हैं और द्रव्योंकी पर्यायें संख्यात और अनन्त भेदवाली हैं । अतः संख्यात शब्द अनन्त पदार्थोंकी स्थूल पर्यायोंको ही विषय कर सकते हैं, सभी पर्यायोंको नहीं । कहा भी है [प्रज्ञापनीय भाव अनन्त है और शब्द अत्यन्त अल्प है । दे आगम/४] ।

दे, श्रुतकेवली/१ [द्रव्य श्रुतका विषय भले अल्प हो पर भावश्रुतका विषय अनन्त है ।]

दे श्रुतज्ञान/२/५ (परोक्ष रूपसे सामान्यतः सर्व पदार्थोंको ग्रहण करनेसे केवलज्ञानके समान है, पर विशेष रूपसे ग्रहण करनेसे अल्पज्ञता है ।)

५. श्रुतज्ञानकी त्रिकालज्ञता

न च च १/७३ में उद्धृत गाथा सं २ कालत्तयसजुत्त दव्व गिहूणेइ केवलगाण । तत्थ जयेण वि गिहूणइ भूदोऽभूदो य वट्टमाणो वि । २। = तीनों कालोंसे सजुक्त द्रव्यको केवलज्ञान ग्रहण करता है और नयके द्वारा भी भूत, भविष्य और वर्तमान कालके पदार्थोंको ग्रहण क्रिया जाता है ।

दे निमित्त/२/३ अष्टाग महानिमित्त ज्ञान त्रिकालग्राही है ।

दे द्रव्य/१/६, २/२ भविष्यत् परिणामसे अभियुक्त द्रव्य द्रव्यनिक्षेपका विषय है ।

६. मोक्षमार्गमें मति श्रुत ज्ञानकी प्रधानता

श्लो वा २/१/३/६२/१४ केवलस्य सकलश्रुतपूर्वकत्वापदेशात् । = सम्पूर्ण पदार्थोंको जाननेवाले केवलज्ञानकी उत्पत्ति तो पूर्ववर्ती पूर्ण द्वादशशाग श्रुतज्ञान रूप कारणसे होती हुई मानी है ।

प ध ५/७१६ अपि चारमसंसिद्धये नियत हेतु मतिश्रुती ज्ञाने । प्रान्त्यद्वय विना स्यान्मोक्षो न स्याद्वेत्ति मतिद्वैतम् । = आत्म सिद्धिके लिए मति श्रुतज्ञान निश्चित कारण है क्योंकि अन्तके दो ज्ञानोंके विना मोक्ष हो सकता है किन्तु मति, श्रुत ज्ञानके विना मोक्ष नहीं हो सकता ।

७. शब्द व अर्थ किंगजमें शब्द किंगज ज्ञान प्रधान

गो जी/जी प्र १/१/६/७३/१५ शब्दजलिहृजयो श्रुतज्ञानभेदयो मध्ये शब्दज वर्णपदवाक्यारमकशब्दजनित श्रुतज्ञान प्रमुख प्रधान दत्त-

ग्रहणशास्त्राध्ययनादिसकलव्यवहारणा तन्मूलत्वात् । अनक्षरात्मके लिङ्गज श्रुतज्ञान एकेन्द्रियादिपञ्चेन्द्रियपर्यन्तेषु जीवेषु विद्यमानमपि व्यवहारानुपयोगित्वात्प्रधान भवति । = श्रुतज्ञानके भेदोके मध्य-शब्द लिङ्गज अर्थात् अक्षर, वर्ण, पद, वाक्य आदि रूप शब्दसे उत्पन्न हुआ जो अक्षरारमक श्रुतज्ञान वह प्रधान है, क्योंकि लेना, देना, शास्त्र पढ़ना इत्यादि सर्व व्यवहारोका मूल अक्षरारमक श्रुतज्ञान है । ओर जो लिङ्गसे अर्थात् चिह्नेसे उत्पन्न हुआ श्रुतज्ञान है वह एकेन्द्रियसे लेकर पञ्चेन्द्रिय तकके जीवोंमें होता है किन्तु उससे कुछ व्यवहारकी प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए वह अप्रधान होता है ।

८. द्रव्य व भावश्रुतमें भावश्रुतकी प्रधानता

श्लो. वा. ३/१/२० श्लो १७/६० मुख्य ज्ञानात्मका भेदप्रभेदास्तस्य सूत्रिता । शब्दात्मका पुनर्गोणा श्रुतस्येति विभिद्यते । = इस सूत्रमें श्रुतज्ञानके भेदप्रभेद मुख्य रूपसे तो ज्ञान स्वरूप सूचित किये जाते हैं । हाँ, फिर शब्दात्मक भेद तो गौण रूपसे कहे गये हैं । इस प्रकार श्रुतके मुख्यरूपसे ज्ञानस्वरूप और गौण रूपसे शब्द स्वरूप विशेष भेद लेने चाहिए ।

९. श्रुतज्ञान केवल शब्दज नहीं होता

श्लो. वा. ३/१/२०/६/६३४/२२ अथ शब्दानुयोजनादेव श्रुतमिति नियमस्तदा श्रोत्रमतिपूर्वकमेव श्रुत न चक्षुरादिमतिपूर्वकमिति सिद्धान्तविरोध, स्यात् । साव्यवहारिक शब्द ज्ञान श्रुतमित्येषोक्षया तथा नियमे तु नेष्टवाधास्ति चक्षुरादिमतिपूर्वकस्यापि श्रुतस्य परमार्थताभ्युपगमात् स्वसमयसंप्रतिपत्तेः ।

श्लो. वा. ३/१/२०/११६/६५२/१४ श्रुतं शब्दानुयोजनादेव इत्यवधारण-स्याकलङ्काभिप्रेतस्य कदाचिद्विगोधाभावात् । तथा सप्रदायस्या-विच्छेदाद्युक्त्यनुग्रहाच्च सर्वमतिपूर्वकस्यापि श्रुतस्याक्षरज्ञानत्व-व्यवस्थिते । = १ प्रश्न—शब्दकी अनुयोजनासे ही श्रुत होता है, इस प्रकार नियम किया जायेगा तब तो श्रोत्र इन्द्रियजन्य मतिज्ञान-स्वरूप निमित्तसे ही तो श्रुतज्ञान हो सकेगा । चक्षु आदि इन्द्रियोंसे श्रुतज्ञान नहीं हो सकेगा । उक्त प्रकार सिद्धान्तसे विरोध आवेगा । उत्तर—साव्यवहारिक शब्द ज्ञान श्रुत है । इस अपेक्षासे नियम किया जायेगा, तब तो इष्ट सिद्धान्तसे कोई बाधा नहीं आती है । क्योंकि चक्षु आदिसे उत्पन्न हुए मतिज्ञानको पूर्ववर्ती कारण मानकर उत्पन्न हुए भी श्रुतोंको परमार्थ रूपसे श्री अकलक देवने स्वीकार कर लिया है । इस प्रकार अपने सिद्धान्तकी प्रतिपत्ति हो जाती है । २ शब्दकी अनुयोजनासे ही श्रुत होता है, इस प्रकार श्री अकलक देवको अभिप्रेत हो रहे अवधारणका कभी भी विरोध नहीं पड़ता है । पूर्वसे चली आ रही तिस प्रकारको आम्नायीकी विच्छिद्विधि नहीं हुई है । इस कारण सम्पूर्ण मतिज्ञानोंको पूर्ववर्ती कारण मानकर श्रुतको अक्षरज्ञानपना व्यवस्थित हो गया है ।

३. मतिज्ञान व श्रुतज्ञानमें अन्तर

१. दोनोंमें कथंचित् एकता

वे श्रुतज्ञान/१/२ (मति पूर्वक उत्पन्न होता है ।)
रा. वा. १/१/१६/४७/२७ मतिश्रुतयो परस्परपरित्याग-यत्र मतिस्तत्र श्रुतं यत्र श्रुतं तत्र मति इति । = मति श्रुतका विषय बराबर है और दोनों सहभावी हैं, जहाँ मति है, वहाँ श्रुत है, जहाँ श्रुत है वहाँ मति है ।
रा. वा. १/३०/४/६०/२६ एते हि मतिश्रुते सर्वाकालमव्यभिचारिणी नारदपर्यन्तवत् । तस्मादनयोरन्यतरग्रहणे इतरस्य ग्रहणं सनिहितं भवति । = मति और श्रुत सदा अव्यभिचारी हैं, नारद पर्यन्तकी तरह एक दूसरेका साथ नहीं छोड़ते, अतः एकके ग्रहणसे दूसरेका ग्रहण ही हो जाता है ।

२. मति व श्रुतज्ञानमें भेद

ग. सि. १/२०/१२०/८ यदि मतिपूर्व श्रुत तदपि मर्यातामरु प्राप्नोति कारणसदृश हि लोके कार्यं दृष्टम् इति । नैतदे कान्तिरुम् । दण्डादि-कारणोऽय घटो न दण्डाद्यात्मक । अपि च सति तस्मिन्तदभावात् । सत्यपि मतिज्ञाने बाह्यश्रुतज्ञाननिमित्तमनिधानेऽपि प्रबलश्रुतावरणो-दयस्य श्रुताभावः । श्रुतावरणक्षयोपशमप्रवर्षे तु सति श्रुतज्ञान-मुत्पद्यत इति मतिज्ञान निमित्तमात्रं ज्ञेयम् । = प्रश्न—यदि श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है तो वह श्रुतज्ञान भी मर्यातामरु हो प्राप्त होता है, क्योंकि लाकमें कारणके समान ही कार्य देखा जाता है । उत्तर—यह कोई एकान्त नियम नहीं है कि कारणके समान कार्य होता है । यद्यपि घटकी उत्पत्ति दण्डादिकसे होती है तो भी वह दण्डाद्यात्मक नहीं होता । दूसरे, मति-ज्ञानके रहते हुए भी श्रुतज्ञान नहीं होता । यद्यपि मतिज्ञान रहा आता है और श्रुतज्ञानके बाह्य निमित्त भी रहे आते हैं तो भी जिसके श्रुत-ज्ञानावरणका प्रबल उदय पाया जाता है, उसके श्रुत-ज्ञान नहीं होता । किन्तु श्रुतज्ञानका प्रकर्ष क्षयोपशम होनेपर ही श्रुतज्ञान होता है इसलिए मतिज्ञान श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमें निमित्त-मात्र जानना चाहिए । (रा. वा. १/२०/३-४/७०/२८, ७-८/-७१/३१) ।

रा. वा. १/१/२१-२६/२८/४ मतिश्रुतयारेकत्वम्, साहचर्यदिकत्राव-स्थानाच्चाविशेषात् । २१। न, अतस्तरिसदृशे । यत एव मतिश्रुतयो साहचर्यमेकत्रावस्थानं चोच्यते अत एव विशेषे सिद्धे । प्रतिनियत-विशेषसिद्धयोर्हि साहचर्यमेकत्रावस्थानं च युज्यते, नान्यथेति । २२। तत्पूर्वत्वाच्च । ततश्चानयोर्विशेषः । यत्पूर्वं यच्च पश्चात्तयो कथमविशेषः । २३। तत एवाविशेषः, कारणमदृशत्वात् युगपद-वृत्तेश्चेति चेत् तत्र, किं कारणम् । द्वयोर्हि सादृश्यं युगपद-वृत्तेश्चेति । २४। स्यादेतत्-विषयाविशेषात् मतिश्रुतेरेकत्वम् । एव हि वक्ष्यते—“मतिश्रुतयानिबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु (त सू. १/२६) इति, तत्र, किं कारणम् । ग्रहणभेदात् । अन्यथा हि मर्या गृह्यते अन्यथा श्रुतेन । २५। स्यादेतत्-उभयोरिन्द्रियानिन्द्रिय-निमित्तत्वादेकत्वम् । तत्र, किं कारणम् । असिद्धत्वात् । जिह्वा हि शब्दोच्चारणक्रियाया निमित्तं न ज्ञानस्य, श्रवणमपि स्वविषय-मतिज्ञाननिमित्तं न श्रुतस्य, इत्युभयनिमित्तत्वमसिद्धम् । = प्रश्न—च किं मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों सहचारी हैं, और एक व्यक्ति-में युगपत् पाये जाते हैं, अतः दोनोंमें कोई विशेषता न होनेसे दोनोंको एक ही कहना चाहिए । उत्तर—साहचर्य तथा एक व्यक्ति-में दोनोंके युगपत् रहनेसे ही यह सिद्ध होता है कि दोनों जुड़े-जुड़े हैं, क्योंकि दोनों व्राते भिन्न सत्तावाले पदार्थोंमें ही हाते हैं । मतिपूर्वक श्रुत हाता है, इसलिए दोनोंकी कारण-कार्यरूपसे विशेषता सिद्ध है । प्रश्न—कारणके सदृश ही कार्य हाता है, चूँकि श्रुत मति पूर्वक हुआ है, अतः उसे भी मतिरूप ही कहना चाहिए । सम्पर्कदर्शन होनेपर कुमति और कुश्रुतको युगपत् ज्ञान-व्यपदेश होता है अतः दोनों एक ही कहना चाहिए । उत्तर—यह प्रश्न ठीक नहीं है, क्योंकि जिन कारण सदृशत्व और युगपदवृत्ति हेतुओंसे आप एक-एक सिद्ध करना चाहते हैं उन्होंने उनमें भिन्नता सिद्ध हाती है । सादृश्य और युगपदवृत्ति पृथक्मिद पदार्थोंमें ही हाते हैं । प्रश्न—मति और श्रुतज्ञानका विषय एक होनेसे दोनोंमें एकत्व है—ऐसा कहा गया है कि—मतिज्ञान व श्रुतज्ञानकी सम्पूर्ण द्रव्योंमें एक देश रूपसे प्रवृत्ति होती है । (त सू. १/२६) उत्तर—ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनोंके जाननेके प्रकार जुदा-जुदा हैं । प्रश्न—मति और श्रुत दोनों इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न हाते हैं, उनमें दोनोंमें एकत्व है । उत्तर—एक कारणता अस्मिद्ध है । वस्तुकी जीभ शब्दके उच्चारणमें कारण होती है न कि ज्ञानमें ।

श्रोताका ज्ञान भी शब्द प्रत्यक्षरूप मतिज्ञानमें निमित्त होता है न कि अर्थज्ञानमें अतः श्रुतमें मनोनिमित्तता असिद्ध है ।

रा वा १/२०/६/७१/११ नायमेकान्तोऽस्ति-कारणसदृशमेव कार्यम् इति । कुत । तत्रापि सप्तभङ्गोऽभवत् । कथम् । घटवत् । यथा घट कारणेन तृत्पिण्डेन स्यात्सदृश स्यान्न सदृश इत्यादि । तथा श्रुत सामान्यादेशात् स्यात्कारणसदृश यतो मतिरपि ज्ञान श्रुतमपि । अत्रप्रहितभिमुखग्रहणनानाप्रकारार्थप्ररूपणसामर्थ्यादि-पर्यायादेशात् स्यान्न कारणसदृशम् । =यह कोई नियम नहीं है कि कारणके सदृश ही कार्य होना चाहिए । क्योंकि यहाँपर भी सप्तभङ्गी की योजना करनी चाहिए । घटेकी भाँति जैसे पुद्गल द्रव्यकी दृष्टिसे मिट्टी रूप कारणके समान घडा होता है । पर पिण्ड और घट पर्यायोंकी अपेक्षा दोनों विलक्षण है । उसी तरह चैतन्य द्रव्यकी मति और श्रुत दोनों एक है, क्योंकि मति भी ज्ञान है और श्रुत भी ज्ञान है । किन्तु तत्तद् ज्ञान पर्यायोंकी दृष्टिसे दोनों ज्ञान जुदा-जुदा है ।

श्लो वा ३/१/६/३०/२४/२२ न मतिस्तस्यास्तकात्मिकाया स्वार्थानु-मानात्मिकायाश्च तथा भावरहितत्वात् । न हि यथा श्रुतमनन्त-व्यञ्जनपर्यायसमाक्रान्तानि सर्वद्रव्याणि गृह्णाति न तथा मति । =तर्कस्वरूप अथवा स्वार्थानुमानस्वरूप भी उस मतिज्ञानमें श्रुतज्ञानके समान सर्व तर्कोंका ग्राहकपना नहीं है, जिस प्रकार अनन्त व्यञ्जन पर्यायोंसे चारों ओर घिरे हुए सम्पूर्ण द्रव्योंको श्रुतज्ञान ग्रहण करता है, तिस प्रकार मतिज्ञान नहीं जानता ।

३. श्रोतज मतिज्ञान व श्रुतज्ञानमें अन्तर

रा वा १/१६/३०/४६/४ श्रुत्वा यदवधारयति तत् श्रुतमिति केचिन्म-न्यन्ते, तत्र युक्तम्, कुत । मतिज्ञानप्रसङ्गात् । तदपि शब्द श्रुत्वा 'गोशब्दोऽयम्' इति प्रतिपाद्यते । श्रुत पुनस्तत्स्मिन्निन्द्रियानि-न्द्रियगृहीतागृहीतपर्यायसमूहात्मनि शब्दे तदभिधेये च श्रोत्रेन्द्रिय-व्यापारमन्तरेण जीवादेो नयादिभिरधिगम,प्रायैयथात्मेनाऽवबध् ।

रा वा १/२०/६/७१/२५ स्यादेतत्-श्रोत्रमार्तपूर्वस्येव श्रुतत्व प्राप्नोति । कुत । तदर्थत्वात् । श्रुत्वा अवधारणाद् श्रुतमित्युच्यते, तेन चक्षुरादिमतिपूर्वस्य श्रुतत्व न प्राप्नोति, तत्र, कि कारणम् । उक्त-मेतत्-श्रुतशब्दोऽयं रूढिशब्द 'इति । रूढिशब्दाश्च स्वोत्पत्ति-निमित्तक्रियापेक्षा प्रवर्तन्ते इति सर्वमार्तपूर्वस्य श्रुतत्वसिद्धि-र्भवति । =१ प्रश्न-सुनकर निश्चय करना श्रुत है । उत्तर-ऐसा कहना युक्त नहीं है । यह तो मतिज्ञानका लक्षण है, क्योंकि वह भी शब्दको सुनकर 'यह गो शब्द है' ऐसा निश्चय करता ही है । किन्तु श्रुतज्ञान मन और इन्द्रियके ज्ञान द्वारा गृहीत या अगृहीत पर्याय वाले शब्द या उसके वाच्यार्थको श्रोत्रेन्द्रियके व्यापारके बिना ही नय आदि धीजनाके द्वारा विभिन्न विशेषोंके साथ जानता है । २ प्रश्न-श्रोत्रेन्द्रिय जन्म मतिज्ञानसे जो उत्पन्न हो उसे ही श्रुत कहना चाहिए, क्योंकि सुनकर जो जाना जाता है वही श्रुत होता है । इस प्रकार चक्षु इन्द्रिय आदिसे श्रुत नहीं हा सकेगा । उत्तर-श्रुत शब्द श्रुतज्ञान विशेषमें रूढ होनेके कारण सभी मतिज्ञान पूर्वके होनेवाले श्रुतज्ञानोंमें व्याप्त है । (भ आ १-वि १/१६/४०/६/२१) ।

श्लो वा ३/३/१/६/३३/२७/३ केचिदाहुर्मतिप्रतुयारेकत्वं श्रवणनिमित्त-त्वादिति, तेषु न युक्त्यादिन । श्रुतस्य साक्षाच्छ्रवणनिमित्तत्वा-सिद्धे तस्यानिन्द्रियवत्त्वाद्यर्थसजातीयानार्थपरामर्शनस्वभाव-तया प्रसिद्धत्वात् । =प्रश्न-कर्ण इन्द्रियको निमित्त पाकर मतिज्ञान और श्रुतज्ञान हाते है, इस कारण दोनोंका एकपना है । उत्तर-आप युक्तिवादी नहीं है, क्योंकि कर्ण इन्द्रियको साक्षात् निमित्त मानकर श्रुतज्ञानका उत्पन्न होना असिद्ध है । श्रुतज्ञान की अनिन्द्रियवात्पना यानी मनको निमित्त मानकर और प्रत्यक्षसे

नहीं देखे गये राजातीय और विजातीय अनेक अर्थोंका विचार करना रूप स्वभावोंसे सहितपने करके प्रसिद्धि हो रही है ।

गो जी/जी प्र ३/११/६/७३/१६ तत्र जीवोऽस्तीत्युक्ते जीवोऽन्तीति शब्दज्ञानं श्रोत्रेन्द्रियप्रभव मतिज्ञानं भवति ज्ञानेन जीवोऽस्तीति शब्दवाच्यरूपे आत्मास्तित्वे वाच्यवाचकसम्बन्धसंवेतसंक्लनपूर्वक यत् ज्ञानमुरपचते तदक्षरारमक श्रुतज्ञान भवति, अक्षरात्मकशब्द-समुत्पन्नत्वेन कार्ये कारणोपचारात् । वातशीतस्पर्शज्ञानेन वात-प्रकृतिकस्य तत्स्पर्शो अमनोज्ञज्ञानमनक्षरात्मक निद्रगुज श्रुतज्ञान भवति, शब्दपूर्वकत्वाभावात् । =जीव अस्ति' ऐसा शब्द कहने-पर कर्ण इन्द्रिय रूप मतिज्ञानके द्वारा 'जीव अस्ति' यह शब्द ग्रहण किया । इस शब्दसे जो 'जीव नाम पदार्थ है' ऐसा ज्ञान हुआ सो श्रुतज्ञान है । शब्द और अर्थके ऐसा वाच्य वाचक सम्बन्ध है । सो यहाँ 'जीव अस्ति' ऐसे शब्दका जानना तो मति-ज्ञान है, और उसके निमित्तसे जीव नामक पदार्थका जानना सो श्रुतज्ञान है । ऐसे ही सर्व अक्षरात्मक श्रुतज्ञानका स्वरूप जानना । अक्षरात्मक शब्दसे समुत्पन्न ज्ञान, उसको भी अक्षरा-त्मक कहा । यहाँपर कार्यमें कारणका उपचार किया है, परमार्थ-से ज्ञान कोई अक्षर रूप नहीं है ।' जैसे-शीतल पवनका स्पर्श होनेपर 'तहाँ शीतल पवनका जानना तो मतिज्ञान है, और उस ज्ञानसे वायुकी प्रकृतिवालेको यह पवन अनिष्ट है' ऐसा जानना श्रुतज्ञान है, सो यह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है, क्योंकि यह अक्षरके निमित्तसे उत्पन्न नहीं हुआ है ।

४ मनोमति ज्ञान व श्रुतज्ञानमें अन्तर

प का/ता वृ ४/४/ प्रक्षेपक १ २/५/१६ तन्मतिज्ञान तच्च पुनस्त्रिविध उपलब्धिर्भावना तथोपयोगश्च । अर्थग्रहणशक्तिरपलाब्धत्वात्तेऽर्थे पुन पुनश्चित्तन भावना नीलमिद वीतमिद इत्यादिरूपेणार्थग्रहण-व्यापार उपयोग । १। श्रुतज्ञान लब्धिरूप च भावनारूप चैव । उपयोगविकल्प नयविकल्प च उपयोगशब्देनात्र वस्तुग्राहक प्रमाण भण्यते नयशब्देन तु वस्तुवेकदेशग्राहको ज्ञातुरभिप्राया विकल्प । यद्भावश्रुत तदेवोपादेय । =मतिज्ञान तीन प्रकारका है-उपलब्धि, भावना और उपयोग । अर्थग्रहणकी शक्तिको लब्धि कहते हैं, जाने हुए अर्थका पुन पुन चिन्तन करना भावना कहलाता है और यह नीला है, यह पोला है इत्यादि रूपसे अर्थ ग्रहणके व्यापारको उपयोग कहते हैं । श्रुतज्ञान दो प्रकारका है-लब्धि और भावना रूप ही, तथा उपयोग विकल्प और नय विकल्प । उपयोग शब्दसे यहाँ वस्तु ग्राहक प्रमाण कहा जाता है । और नय शब्दसे तो वस्तुका एक देश ग्राहक ज्ञाताका अभिप्राय रूप विकल्प ग्रहण किया जाता है । यह भावश्रुत ही उपादेय है ।

५. ईहादि मतिज्ञान श्रुतज्ञानमें अन्तर

रा, वा १/१६/२५/४५/३१ स्यादेतत्-ईहादीनामपि श्रुतव्यपदेश प्राप्, तेऽप्यनिन्द्रियानिमित्ता इति, तत्र, कि कारणम् । अवगृहीतमात्रविषय-त्वात् । इन्द्रियेणावगृहीतो याऽर्थस्तन्मात्रविषया ईहादय, श्रुत पुनर्न तद्विषयम् । कि विषय तर्हि श्रुतम् । अपूर्वविषयम् । =प्रश्न- ईहा आदि ज्ञानका भी श्रुत व्यपदेश प्राप्त होता है, क्योंकि वे भी मनके निमित्तसे उत्पन्न हाते हैं । उत्तर-ऐसा नहीं है क्योंकि वे मात्र अवगृहके द्वारा गृहीत ही पदार्थको जानते हैं, जबकि श्रुतज्ञान अपूर्व अर्थको विषय करता है । (क पा १/१६-१५/६/३०/२४०/१), (घ ६/१६-१४/२०/४) ।

श्लो वा ३/३/१/६/३३/२६/२२ नहि यादृशमतोन्द्रियनिमित्तत्वमहीया-स्तादृश श्रुतस्यापि । =यद्यपि ईहा मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों ही मनसे होते हैं, किन्तु जिस प्रकार ईहा ज्ञानका निमित्तपन मनको

प्राप्त है, उस सरीखा श्रुतज्ञानका भी निमित्तपना मनमें नहीं है। केवल सामान्य रूपसे उस मनका निमित्तपना तो मति और श्रुतके तदात्मरूपनका गमन हेतु नहीं है।

३ मतिज्ञान/३/१ ईहादिको अनिन्द्रियका निमित्तत्व उपचारसे है पर श्रुतज्ञान अनिन्द्रिय निमित्तक ही है।

४ श्रुतज्ञान व केवलज्ञानमे कथञ्चित् समानता-
असमानता

१. श्रुत भी सर्व पदार्थ विषयक है

३ मतिज्ञान/२/३ केवलज्ञानके विषयभूत अनन्त अर्थको श्रुतज्ञान परोक्ष रूपसे ग्रहण कर लेता है।

३ श्रुतज्ञान/२/५ केवलज्ञानको भौति श्रुतज्ञान भी मनके द्वारा त्रिकाली पदार्थोंको ग्रहण कर लेता है।

प्र सा/त प्र/२३५ श्रमणानां ज्ञेयत्वमापद्यन्ते स्वयमेव, विचित्रगुण-पर्यायविशिष्टसर्वद्रव्यव्यापकानेकान्तात्मकश्रुतज्ञानोपयोगी भूयो विपरिणमनात्। अता न किञ्चिद्व्यागमचक्षुषामदृश्य स्यात्।—वे (विचित्रगुणपर्यायों सहित समस्त पदार्थ) श्रमणोंको स्वयमेव ज्ञेयभूत होते हैं, क्योंकि श्रमण विचित्र गुणप्रयियावाले सर्वद्रव्योंमें व्यापक अनेकान्तात्मक श्रुतज्ञानोपयोगी रूप होकर परिणमित होते हैं। इससे (यह कहा है कि) आगम चक्षुओंको आगम रूप चक्षु वालोंको कुछ भी अदृश्य नहीं है।

प्र सा/ता वृ/गा,पृ/पं अत्राह शिष्यः—आत्मपरिज्ञाने सति सर्व-परिज्ञानं भवतीत्यत्र व्याख्यानं, तत्र तु पूर्वसूत्रे भणित सर्वपरिज्ञाने सत्यात्मपरिज्ञानं भवतीति। यद्येव तर्हि छद्मस्थानां सर्वपरिज्ञान नास्त्यात्मपरिज्ञानं कथं भविष्यति। आत्मपरिज्ञानाभावे चात्म-भावना कथं। तदभावे केवलज्ञानोत्पत्तिर्नास्तीति। परिहारमाह-परोक्षप्रमाणभूतश्रुतज्ञानेन सर्वपदार्था ज्ञायन्ते। कथमिति चेत्—लाभालोकादिपरिज्ञानं व्याप्तिज्ञानरूपेण छद्मस्थानामपि विद्यते, तच्च व्याप्तिज्ञानं परोक्षाकारेण केवलज्ञानविषयग्राहकं कथञ्चिदा-त्मैव भण्यते। (४६/६५/१३) सर्वे द्रव्यगुणपर्याया परमाण्वेन ज्ञायन्ते। कस्मात्। आगमस्य परोक्षरूपेण केवलज्ञानसमानत्वात् पश्चादागमाधारेण स्वसवेदनज्ञाने जाते स्वसवेदनज्ञानवलेन केवल-ज्ञाने च जाते प्रत्यक्षा अपि भवन्ति। (२३५/३२५/१३)।—प्रश्न—आत्माके जाने, जानेपर सर्व जाना जाता है, ऐसा यह व्याख्यान है, और पूर्वसूत्रमें सर्वका ज्ञान होनेपर आत्माका ज्ञान होता है, ऐसा है तो छद्मस्थानोंके सर्वका ज्ञान तो होता नहीं है, तो आत्मज्ञान कैसे होगा। और आत्मज्ञानके अभावमें आत्माका ज्ञान कैसे सम्भव है, तथा भावनाके अभावमें केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। उत्तर—परोक्ष प्रमाणभूत श्रुतज्ञानके द्वारा सर्व पदार्थ जाने जाते हैं, क्योंकि लोकालोकका परिज्ञान व्याप्ति रूपसे छद्मस्थानोंके भी पाया जाता है। और वह केवलज्ञानको विषय करनेवाला व्याप्ति ज्ञान परोक्ष रूपसे कथञ्चित् आत्मा ही है। सर्व द्रव्य गुण और पर्याय परमाण्वसे जाने जाते हैं, क्योंकि आगमके परोक्षरूपसे केवलज्ञानसे समानपना होनेके कारण, आगमके आधारसे पीछे स्वसवेदन ज्ञानके हो जानेपर, और स्वसवेदन ज्ञानके बलसे केवलज्ञानके हो जानेपर समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भी हो जाते हैं।

प का/ता वृ/६६/१५/६४ यदुपुनर्द्वादशाङ्गचतुर्दशपूर्वरूपपरमाण्व-सज्ञ तच्च भूतार्थभूतौभयपरिच्छिन्नविषये व्याप्तिज्ञानरूपेण परोक्ष-मपि केवलज्ञानसदृशमिश्यभिप्रायः।—द्वादशाग अर्थात् १२ अग चौदह पूर्वरूप परमाण्वसज्ञावाला द्रव्य श्रुत है, वह भूत और अमूर्त दोनों प्रकारके द्रव्योंके ज्ञानके विषयमें परोक्ष होनेपर भी व्याप्ति ज्ञान रूपसे केवलज्ञानके सदृश है, ऐसा अभिप्राय है।

३ श्रुतज्ञान/१/२/४ श्रुतज्ञान सर्व पदार्थ विषयक है।

३. दोनोंमें प्रत्यक्ष परोक्ष मात्रका अन्तर है

आप्त भी/१०५ स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्वतत्त्वे प्रकाशने। भेद साक्षाद-साक्षाच्च, ह्यवस्त्वन्यतम भवेत्।१०५।—स्याद्वाद और केवलज्ञान दोनों सर्व तत्त्वोंका प्रकाशन करनेवाले हैं। इन दोनोंमें केवल परोक्ष व प्रत्यक्ष रूप जानने मात्रका भेद है। इन दोनोंमेंसे यदि एक हो, और अन्यतम न हो तो, वह अवस्तु ठहरे। (गो जी/सू/३६६/७६५)।
दे, अनुभव/४ श्रुतज्ञानमें केवल ज्ञानवत् प्रत्यक्ष अनुभव होता है।

३. समन्वय

घ. १५/१/४/४ मदिसुदणाणां सव्वद्वरविसयत्त कण्ण बुच्चदे, तासिं मुत्तमुत्तासेसद्वेष्से वावारावुलभादो। ण एस दोसो, तेसिं दव्वाण-मणत्तेसु पज्जापसु तिकालविसपसु तेहि सामण्णेणावगपसु विसेस-सरूवेण वावाराभावादो। भावे वा केवलणाणेण समाणत्त तेसिं पावेज्ज। ण च एव, पंचणाणुवदेसस्स अभावापपसगादो।—प्रश्न—मतिज्ञान व श्रुतज्ञान समस्त द्रव्योंको विषय करनेवाले हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते, क्योंकि उनका भूत व अमूर्त सर्व द्रव्योंमें व्यापार पाया जाता है। उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, उन द्रव्योंकी त्रिकाल विषयक अनन्त पर्यायोंमें उन ज्ञानोंका सामान्य रूपसे व्यवहार नहीं है। अथवा यदि उनमें उनकी विशेष रूपसे भी प्रवृत्ति स्वीकार की जाय तो वे दोनों ज्ञान केवलज्ञानकी समानताको प्राप्त हो जावेंगे। परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है, क्योंकि, वेसा होनेपर पाँच ज्ञानोंका जो उपदेश प्राप्त है उसके अभावका प्रसंग आता है।

५ मति श्रुत ज्ञानकी कथञ्चित् प्रत्यक्षता-परोक्षता

१. मति श्रुत ज्ञान कथञ्चित् परोक्ष हैं

प्र सा/सू/५७ परदव्व ते अन्नखाणेव सहावोत्ति अप्पाणो भणिदा। उवल्लह्थ तेहि कथं पच्चवत्त अप्पणो होंति।५७।—वे इन्द्रियों पर द्रव्य है, उन्हें आत्मस्वभाव स्वरूप नहीं कहा है। उनके द्वारा ज्ञात आत्माका प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है।

स सि/१/११/१०१/६ अत पराणीन्द्रियाणि मनश्च प्रकाशोपदेशादि च बाह्यनिमित्त प्रतीत्य तदावरणकर्मक्षयोपशमापेक्षस्यारमनो मतिश्रुत उत्पद्यमान परोक्षमित्याख्यायते।—मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञाना-वरण कर्मके क्षयोपशमकी अपेक्षा रखनेवाले आत्माके इन्द्रिय और मन तथा प्रकाश और उपदेशादिक बाह्य निमित्तोंकी अपेक्षा मतिज्ञान और श्रुतज्ञान उत्पन्न होते हैं अत ये परोक्ष कहलाते हैं। (रा वा/१/११/६/५२/२४) (और भी दे परोक्ष/४)।

क पा/१/१-१/९१६/२४/३ मति-सुदणाणाणि परोक्खाणि, पाएण तत्थ अविसेदभावदसणादो।—मति और श्रुत ये दोनों ज्ञान परोक्ष हैं, क्योंकि इन दोनोंमें प्राय अस्पष्टता देखी जाती है।

२. इन्द्रिय ज्ञानको प्रत्यक्ष माननेमें टोप

स सि/१/१२/१०३/७ स्यान्मतमिन्द्रियव्यापारजनित ज्ञानं प्रत्यक्ष व्यतीतेन्द्रियविषयव्यापार परोक्षमित्येतदविसवादि लक्षणमभ्यु-पगन्तव्यमिति। तदयुक्तम्, आप्तस्य प्रत्यक्षज्ञानाभावप्रसङ्गात्। यदि इन्द्रियनिमित्तमेव ज्ञान प्रत्यक्षमिष्यते एव मति आप्तस्य प्रत्यक्षज्ञानं न स्यात्। न हि तस्येन्द्रियपूर्वोऽर्थाधिगमः। अथ तस्यापि करण-पूर्वकमेव ज्ञान कल्प्यते, तस्यासर्वज्ञत्व स्यात्। तस्य मानस प्रत्यक्ष-मिति चेत्, मन प्रणिधानपूर्वकत्वात् ज्ञानस्य सर्वज्ञत्वाभावात् एव। आगमतस्तत्सिद्धिरिति चेत्। न, तस्य प्रत्यक्षज्ञानपूर्वकत्वात्। योगिप्रत्यक्षमन्यज्ज्ञानं दिव्यमप्यस्तीति चेत्। न तस्य प्रत्यक्षत्व, इन्द्रियनिमित्तत्वाभावात्, अ मम प्रति यद्वर्तते तत्प्रत्यक्षमित्यभ्यु-

पगमात् । = प्रश्न—जो ज्ञान इन्द्रियोंके व्यापारसे उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है और जो इन्द्रियोंके व्यापारसे रहित है वह परोक्ष है । प्रत्यक्ष व परोक्षका यह अविशवादी लक्षण मानना चाहिए । उत्तर—कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त लक्षणके माननेपर आपके प्रत्यक्ष ज्ञानका अभाव प्राप्त होता है । यदि इन्द्रियोंके निमित्तसे होनेवाले ज्ञानको प्रत्यक्ष कहा जाता है तो ऐसा माननेपर आपके प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि आपके इन्द्रियपूर्वक पदार्थका ज्ञान नहीं होता । कदाचित् उसके भी इन्द्रिय पूर्वक ही ज्ञान पाया जाता है तो उसके सर्वज्ञता नहीं रहती । प्रश्न—उसके मानस प्रत्यक्ष होता है । उत्तर—मानके प्रयत्नसे ज्ञानकी उत्पत्ति माननेपर सर्वज्ञत्वका अभाव ही होता है । प्रश्न—आगमसे सर्व पदार्थोंका ज्ञान हो जायेगा । उत्तर—नहीं, क्योंकि सर्वज्ञता प्रत्यक्षज्ञान पूर्वक प्राप्त होती है । प्रश्न—योगी-प्रत्यक्ष नामका एक अन्य दिव्यज्ञान है । उत्तर—उसमें प्रत्यक्षता नहीं रहती, क्योंकि वह इन्द्रियोंके निमित्तसे नहीं होता है । जिसको प्रवृत्ति प्रत्येक इन्द्रियसे हाती है वह प्रत्यक्ष है ऐसा आपके मतमें स्वीकार भी किया है । (रा. वा १/१२/६-६/५३-५४) ।

३. परोक्षता व अपरोक्षताका समन्वय

न्या दी २/११ १२/३४/१ इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त देशत 'साव्यय-हारिकम्' । इदं चापुस्त्यप्रत्यक्षम्, उपचांगसिद्धत्वात् । वस्तुतस्तु परोक्षमेव, मतिज्ञानत्वात् । = इन्द्रिय और मनके निमित्तसे होनेवाला एक देश स्पष्ट साव्ययहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान अपुस्त्य प्रत्यक्ष है—गीण रूपसे प्रत्यक्ष है, क्योंकि उपचारसे सिद्ध होता है, वास्तवमें तो परोक्ष ही है ।

दे परोक्ष/४ (इन्द्रिय ज्ञान परमार्थसे परोक्ष है व्यवहारसे प्रत्यक्ष है ।)
दे अनुभव/ ४ वह बाह्य विषयोंको जानते समय परोक्ष है और स्वसवे-
दनके समय प्रत्यक्ष है ।

II अर्थलिंगज श्रुतज्ञान विशेष निर्देश

१ भेद व लक्षण

१. अर्थ लिंगज २० प्रकारका है

प ख १३/५, ६/५ ४०/२६० इस्तेव मुदणाणावरणीयस्स कम्मस्स वीसदिविधा परुवणा कायव्वा भवदि । ४७। पुञ्ज सजोगखरमेत्ताणि मुदणाणावरणाणि परुविदाणि । सपहि ताणि चैव मुदणाणावरणाणि वीसदिविधाणि त्ति भण्णमाणे एदस्स सुत्तस्स पुञ्जमुत्तेण विरोहो किण्ण जायदे । ण एस दोसो भिण्णाहिप्पाग्रतादो । पुत्विक्खमुत्त-
मखरणिषधणभेदपरुवय एद पुण खओवसमगदभेदमस्सिद्वण आवरणभेदपरुवय । तम्हा दोसो णत्थि त्ति धेत्तव्वो । = श्रुतज्ञाना-
वरणीय कर्मकी २० प्रकारकी प्ररूपणा करनी चाहिए । ४७। प्रश्न—
पहले जितने सयोगाक्षर होते हैं उतने श्रुतज्ञानावरण कर्म बढ़े गये हैं । अत्र वे ही श्रुतज्ञानावरण २० प्रकारके हैं, ऐसा कथन करनेपर इस सूत्रका पूर्व सूत्रके साथ विरोध क्यों नहीं होता । उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि भिन्न अभिप्रायसे यह सूत्र कहा गया है । पूर्व सूत्र अक्षर निमित्तक श्रुतभेदोंका कथन करता है, परन्तु यह सूत्र क्षयोपशयका अवसम्पन्न लेकर आवरणके भेदोंका कथन करता है । इसलिये कोई दोष नहीं है । ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए ।

२. अर्थ लिंगजके २० भेदोंका नाम निर्देश

प खं १३/६, ६/गा १ व सु ४८। २६० पञ्जय-अखर पद-सघाद्य-
पडित्त-जोगदारात् । पाहुडपाहुडवत्थु पुञ्जसमासाय दोद्धव्वा । १।
पञ्जमावरणीय पञ्जयसमासावरणीय अवरागरणीय अवखरसमा-

सावरणीय पदावरणीय पदसमासावरणीय सघादावरणीय सघात-
समासावरणीय पडित्तित्तिआवरणीय पडित्तिसमासावरणीय अणि-
योगदारावरणीय अणियोगदारासमासावरणीय पाहुडपाहुडावरणीय
पाहुडपाहुडसमासावरणीय पाहुडावरणीय पाहुडसमासावरणीय वत्थु-
आवरणीय वत्थुसमासावरणीय पुञ्जावरणीय पुञ्जसमासावरणीय
चैदि । ४८। १ पर्याय, पर्यायसमास, अक्षर, अक्षरसमास, पद, पद-
समास, सघात, सघात समास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्तिसमास, अनुयोग-
द्वार, अनियोद्वारसमास, प्राभूतप्राभूत, प्राभूत-प्राभूतसाम, प्राभूत,
प्राभूतसमास, वस्तु, वस्तुसमास, पूर्व और पूर्व समास, ये श्रुतज्ञानके
बीस भेद जानने चाहिए । १। २ पर्याय ज्ञानावरणीय, पर्यायसमास
ज्ञानावरणीय, अक्षरावरणीय, अक्षरसमासावरणीय, पदावरणीय,
पदसमासावरणीय, सघातावरणीय, सघातसमासावरणीय, प्रति-
पत्ति-आवरणीय, प्रतिपत्तिसमासावरणीय, अनुयोगद्वारावरणीय,
अनुयोगद्वारसमासावरणीय, प्राभूतप्राभूतावरणीय, प्राभूतप्राभूत
समासावरणीय, प्राभूतावरणीय प्राभूतसमासावरणीय, वस्तु
आवरणीय, वस्तुसमासावरणीय, पूर्वावरणीय, पूर्वसमासावरणीय,
ये श्रुतावरणके बीस भेद हैं । ४८। (ह पु १०/१२-१३), (ध ६/१
६-१, १४/२१/८), (घ. १२/८, ७ १४, ४/४८०/१२), (गो जी १/५
३७-३९८/६७७) ।

३. बीस भेदोंके लक्षण

ह पु १०/१४-२६ श्रुतज्ञानविकल्प स्यादेकहत्वाक्षरारमक । अनन्ता-
नन्तभेदाणुपुद्गलरून्धसचय । १४। अनन्तानन्तभागस्तु भिवमानस्य
तस्य च । भाग पर्याय इत्युक्तं श्रुतभेदो ह्यनल्पश्च । १५। सोऽपि
सूक्ष्मनिगोदस्यानल्पपर्यायदेहिण । सम्भवी सर्वथा तावात् श्रुता-
वरणवजित । १६। सर्वस्येव हि जीवस्य तावन्मात्रस्य नावृत्ति ।
आवृत्ती तु न जीव स्यादुपयोगवियोगत । १७। जीवोपयोगशक्तेश्च
न विनाश सयुक्तिक । स्यादेवात्यभ्ररोधेऽपि सूर्याचन्द्रमसो प्रभा
। १८। पर्यायानन्तभागेन पर्यायो युज्यते यदा । स पर्यायसमास
स्यात् श्रुतभेदो हि सावृत्ति । १९। अनन्तसङ्ख्यसङ्ख्येयभागवृद्धि-
क्षयान्वित । सङ्ख्येयासङ्ख्यकानन्तगुणवृद्धिक्रमेण च । २०। स्या-
त्पर्यायसमासोऽसौ यावदक्षरपूर्णता । एकैकाक्षरवृद्ध्या स्यात् तस्स-
मास पदावधि । २१। पदमर्थपद ज्ञेय प्रमाणपदमित्यपि । मध्यम
पदमित्येव त्रिविधं तु पदस्थितम् । २२। एकद्वित्रिचतु पञ्च पदसप्ता-
क्षरमर्थवत् । पदमाद्य द्वितीयं तु पदमाक्षरारमकम् । २३। कोटयश्चैव
चतुस्त्रिंशत् तच्छ्रुतान्यपि षोडश । २४। श्यशीतिश्च पुनर्लक्षा शतान्यष्टौ
च सप्तति । २५। अष्टाशीतिश्च वर्णा स्युर्मध्यमे तु पदे स्थिता ।
पूर्वाक्षरपदसङ्ख्या स्यान्मध्यमेन पदेन सा । २६। एकैकाक्षरवृद्ध्या तु
तस्समासभिदस्तत् । इत्थं पूर्वसमासान्त द्वादशाद् श्रुत स्थितम् ।
। २६। = श्रुतज्ञानके अनेक विकल्पोंमें एक विकल्प एक हस्त अक्षर
रूप भी है । इस विकल्पमें द्रव्यकी अपेक्षा अनन्तानन्त पुद्गल पर-
माणुओंसे निष्पन्न रून्धका सचय होता है । १४। इस एक हत्वाक्षर
रूप विकल्पके अनेक बार अनन्तानन्त भाग किये जावें तो उनमें एक
भाग पर्याय नामका श्रुतज्ञान होता है । १५। वह पर्याय ज्ञान सूक्ष्म
निगोदिया लब्धपर्यायिक जीवके होता है और श्रुतज्ञानावरणके
आवरणसे रहित होता है । १६। सभी जीवोंके उतने ज्ञानके ऊपर
कभी आवरण नहीं पड़ता । यदि उसपर भी आवरण पड़ जावे तो
ज्ञानोपयोगका सर्वथा अभाव हो जायेगा और ज्ञानोपयोगका अभाव
होनेसे जीवका अभाव हो जायेगा । १७। यह निश्चयसे सिद्ध है कि
जीवकी उपयोग शक्तिका कभी विनाश नहीं होता । जिस प्रकार
कि मेघका आवरण होनेपर भी सूर्य और चन्द्रमाकी प्रभा कुछ
अशोमें प्रगट रही आती है उसी प्रकार श्रुतज्ञानका आवरण होनेपर
भी पर्याय नामका ज्ञान प्रगट रहा आता है । १८। जब यही पर्याय
ज्ञान पर्याय ज्ञानके अनन्तवें भागके साथ मिल जाता है तब यह

पर्यायसमास नामका श्रुतज्ञान कहलाने लगता है, यह श्रुतज्ञान आवरणसे सहित है। १११। यह पर्याय-समास-ज्ञान अनन्तभागवृद्धि, असंख्यभाग वृद्धि, संख्यातभागवृद्धि तथा अनन्तभाग हानि, असंख्यात भागहानि, एवं संख्यात भाग-हानिसे सहित है। पर्यायज्ञानके ऊपर संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुण वृद्धिके क्रमसे वृद्धि होते-होते जबतक अक्षर ज्ञान पूर्णता होती है तब तकका ज्ञान पर्याय समास ज्ञान कहलाता है। उसके बाद अक्षरसमासज्ञान प्रारम्भ होता है उसके ऊपर पद ज्ञान तक एक-एक अक्षर की वृद्धि होती है। इस वृद्धि प्राप्त ज्ञानको अक्षर-समास ज्ञान कहते हैं। अक्षर समासके बाद पदज्ञान होता है। १२०-२१। अर्थपद, प्रमाणपद, और मध्यम पदके भेदसे पद तीन प्रकारका है। १२२। इनमें एक, दो, तीन, चार, पाँच और छह व सात अक्षर तकका पद अर्थपद कहलाता है। आठ अक्षर रूप प्रमाण पद होता है और मध्यम पदमें सोलह सौ चोतीस करोड़ तिरासी लाख सात हजार आठसौ अठासी अक्षर होते हैं, और अग तथा पूर्वके पदकी संख्या इसी मध्यम पदसे होती है। १२३-२४। एक अक्षरकी वृद्धिकर पद समास लेकर पूर्व-मास पर्यन्त समस्त द्वादशगण श्रुत स्थित है। १२६। (घ १३/४.४.४८/२६३-२७१), (घ ६/१.६-१.१४/२१-२५०), (गो जी. मू/३२२-३४६)।

४ उपरोक्त ज्ञानोंकी वह संज्ञाएँ क्यों

घ ६/१.६-१.१४/२७/७ कधमेदस्स अक्षरववएसो। ण, दव्वसुदपडि-
वद्धेयमत्तरूपणस्स उव्यारेण अक्षरववएसोदो। = प्रश्न—उक्त प्रकारके इस श्रुतज्ञानकी 'अक्षर' ऐसी संज्ञा कैसे हुई। उत्तर—नहीं, क्योंकि, इन्द्र्य श्रुत प्रतिबद्ध एक अक्षरसे उत्पन्न श्रुतज्ञानकी उपचार-से 'अक्षर' ऐसी संज्ञा है।

घ १३/४.४.४८/५/५, कध तस्स अक्षरसण्णा। खरणेण विणा एग-
सरुवेण अवट्ठाणादो। केवलणाणमक्खर, तत्थ वड्डिह-हाणीणम-
भावोदो। दव्वट्ठियणए सुहुमणिगोदणाण त चेवे त्ति व अक्षर।
(२६२।५) को पञ्जओ णाम। णाणाविभागपडिच्छेदपवखेवो पञ्जओ
णाम। तस्स समासो तेसु णाणट्ठाणेषु अत्थि तेसि णाणट्ठाणाण
पञ्जयसमासो त्ति सण्णा (२६४।२)। = प्रश्न—इसकी (सूक्ष्म
निगोदियाके ज्ञानकी) अक्षर संज्ञा किस कारणसे है। उत्तर—
क्योंकि यह ज्ञान नाशके बिना एक स्वरूपसे अवस्थित रहता है।
अथवा केवलज्ञान अक्षर है, क्योंकि उसमें वृद्धि और हानि नहीं
होती। द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा तूँ कि सूक्ष्म निगोद लब्धपर्यायिक-
का ज्ञान भी वही है, इसलिए भी इस ज्ञानको अक्षर कहते हैं।
प्रश्न=पर्याय किसका नाम है। उत्तर—ज्ञानाविभागप्रतिच्छेदके
प्रक्षेपका नाम पर्याय है। उनका समास जिन ज्ञानस्थानोंमें होता
है उन ज्ञानस्थानोंमें पर्याय समास संज्ञा है। परन्तु जहाँ एक ही
प्रक्षेप होता है उस ज्ञानकी पर्याय संज्ञा है, क्योंकि, एक पर्यायमें
उनका समास नहीं बन सकता।

दे पद/६ एक पदके १६३४८३०७८८ अक्षरोंसे होनेके कारण ज्ञानको
उपचारसे पद ज्ञान कह देते हैं।

५. अक्षर ज्ञानमें कौन सा अक्षर इष्ट है

घ १३/४.४.४८/२६४/४ एदेसु तिसु अवत्तरेसु केणेत्य अवत्तरेण पयद।
लद्धि अवत्तरेण, ण सेसेहि, जडत्तादो। = प्रश्न—इन तीन अक्षरोंमेंसे
(लहयक्षर, निर्वृत्तक्षर, और संस्थानाक्षरमेंसे) प्रकृतमें कौनसे
अक्षरसे प्रयोजन है। उत्तर—लब्धयक्षरमें प्रयोजन है, शेष अक्षरोंमें
नहीं। क्योंकि वे जड स्वरूप हैं।

२. अर्थलिंगज निर्देश

१. लब्धयक्षर ज्ञानका प्रमाण

घ १३/४.४.४८/२६२/७ किमेदस्स पमाण। केवलणाणस्स अण तिमभागो।
= प्रश्न—इसका (लब्धयक्षर श्रुतज्ञानका) प्रमाण क्या है। उत्तर—
इसका प्रमाण केवल-ज्ञानका अनन्तवाँ भाग है।

२. लब्धयक्षर ज्ञान सदा निरावरण होता है

घ. १३/४.४.४८/२६२/७ एद गिरावरण, 'अक्षरस्सार्ण' तिमभागो
णिच्चुग्घाडिआ' त्ति वयणादो एदम्मि आवरिदे जीवाभावप्पसगादो
वा। एदम्मि लद्धि अक्षरे सब्बजीवरासिणा भागे हिदे सब्बजीव-
रासीदो अणतगुणणाणाभिवागपडिच्छेदा आगच्छति। = यह
(लब्धयक्षर) ज्ञान निरावरण है, क्योंकि अक्षरका अनन्तवाँ भाग
नित्य उद्धाटित (प्रगट) रहता है। ऐसा आगम वचन है। अथवा
इसके आवृत होनेपर जीवके अभावका प्रसंग आता है। इस लब्धयक्षर
ज्ञानमें सब जीव राशिका भाग देनेपर सब जीव राशिसे अनन्तगुणे
ज्ञानाविभागप्रतिच्छेद हाते है (१३/४.२, १४.४/४७६/४), (और भी
दे श्रुतज्ञान/II/१/१)।

गो जी/मू/३१६-३२० सुहुमणिगोदअपज्जत्तस्स जादस्स पदमसम-
यम्मिह। हएदि हु सब्बजण्ण णिच्चुग्घाड गिरावरण। ३१६। सुह-
मणिगोद अपज्जत्तगेषु मगस भवेसु भमिऊण। चरिमापुण्णतिवक्षाणा-
दिमवक्कट्टियेव ह्वे। ३२०। = सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्यायिक जीवके
उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें सबसे जघन्य ज्ञान होता है। इसीको
प्राय ज्ञान कहते हैं। इतना ज्ञान हमेशा निवारण तथा प्रकाशमान
रहता है। ३१६। सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्यायिक जीवके अपने अपने
जितने भव (६०१०) सम्भव है, उनमें भ्रमण करके अन्तके अपर्याय
शरीरको तीन मोडालोंके द्वारा ग्रहण करनेवाले जीवके प्रथम मोडा-
के समयमें सर्वजघन्य ज्ञान होता है।

३. पर्याय आदि ज्ञानोंमें वृद्धि क्रम

घ ६/१.६-१.१४/२१/११ तस्स (केवलणाणस्स) अण तिमभागो पज्जाओ-
णाणम मदिणाण। तं च केवलणाण व गिरावरणमक्खर च। एदम्महादो
सुहुमणिगोदलद्धिअवत्तरादो जमुप्पज्जइ सुदणाण त पि पज्जाओ
उच्चदि, तदो अणतभागवद्धो असखेज्जभागवद्धो सखेज्ज-
भागवद्धो, सखेज्जगुणवद्धो असखेज्जगुणवद्धो अणत-
गुणवद्धो त्ति एसा एक्का छवद्धो। एरिसाओ असखेज्जलोग-
मेत्तीओ छवद्धोओ गत्तुण पज्जायसमासमुदणाणस्स अपच्छिमो
विद्यप्पो होदि। तमण तेहि रूवेहि गुणिदे अवत्तर णाम सुदणाण
होदि। एदस्सुवरि अवत्तरवद्धो चेव हादि, अवराओ वद्धोओ
णत्थि त्ति आहरियपर परागदुवदेसादो। केह पुण आहरिया अवत्तर-
मुदणाण पि छत्तिहाए वद्धोए वद्धदि ति भण ति, णेद घडे, सयल-
मुदणाणस्स मखेज्जदिभागादो अवत्तरणाणादो उअरि छवद्धोण
स भवाभावा। = केवलज्ञान अक्षर कहलाता है उसका अनन्तवाँ भाग
पर्याय नामका मतिज्ञान है, वह पर्याय नामका मतिज्ञान केवलज्ञान-
के समान निरावरण है और अविनाशी है। इस सूक्ष्म निगोद लब्ध
अक्षरसे जो श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है इस पर्याय श्रुतज्ञानसे जो
अनन्तमें भागसे अधिक श्रुतज्ञान होता है वह पर्याय समास कहलाता
है। अनन्त भागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि,
संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, और अनन्तगुणवृद्धि होती है
इस प्रकारकी असंख्यात लोक प्रमाण पदवृद्धियाँ ऊपर जाकर
पर्यायसमास नामक श्रुतज्ञानका अन्तिम विकल्प होता है। उस
अन्तिम विकल्पको अनन्त रूपसे गुणित करनेपर अक्षर-नामक

श्रुतज्ञान विकल्पको अनन्त रूपोंसे गुणित करनेपर अक्षर-नामक श्रुतज्ञान होता है। इस अक्षर श्रुतज्ञानके ऊपर एक एक अक्षरकी वृद्धि होती है। अन्य वृद्धियाँ नहीं होती है, इस प्रकार परम्परागत उपदेश पाया जाता है। कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि अक्षर-श्रुतज्ञान भी छह प्रकारकी वृद्धिसे बढ़ता है। किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि समस्त श्रुतज्ञानके सख्यातवें भागरूप अक्षर ज्ञानसे ऊपर छह प्रकारकी वृद्धियोंका होना सम्भव नहीं है।

ध १३/१,५,४८/२६८/३ अक्षरगणानादो उत्ररि छत्रिहवडिह पस्विद-वेयणावखलाणेण सट्ट किण्ण विरोहो। ण, भिण्णाहिप्पायत्तादो। एय-वखरभवओवसमादो जेसिमाहरियाणमहिप्पाएण उवरिमवखओवसमा छत्रिहवडिहोए वडिहदा अत्थि तमस्सिय त वखलाणं तरथ पस्विद। एगवखरसुदणानं जेसिमाहरियाणमहिप्पाएण सयससुदणानस्स सखेज्जदिभागो चैव तेसिमहिप्पाएणेद वखलाण। तेण ण दोण्ण विरोहो। = प्रश्न—अक्षर ज्ञानके ऊपर छह प्रकारकी वृद्धिका कथन करनेवाले वेदना अनुयोगद्वारके व्याख्यानके साथ इस व्याख्यानका विरोध क्यों नहीं होता। उत्तर—नहीं, क्योंकि उसका इससे भिन्न अभिप्राय है। जिन आचार्योंके अभिप्रायानुसार एक अक्षरके क्षयोपशमसे आगेके क्षयोपशम छह वृद्धियों द्वारा वृद्धिको लिये हुए होते हैं उन आचार्योंके अभिप्रायको ध्यानमें रखकर वेदना अनुयोगद्वारमें यह व्याख्यान किया है। किन्तु जिन आचार्योंके अभिप्रायानुसार एक अक्षर श्रुतज्ञान समस्त श्रुतज्ञानके सख्यातवें भागप्रमाण ही होता है। उन आचार्योंके अभिप्रायानुसार यह व्याख्यान किया है, इसलिए इन दोनों व्याख्यानोंमें विरोध नहीं है।

गो जी/सू/३२२-३३२ अक्षरवरिम्मि अणतमसख सख च भागवडुहोए। सखमसखमणत्त गुणवडुहो होंति हु वमेण ३२२। जीवाण च य रासी असंखलोगा वरं खु र्खेज्ज। भागगुणमिह य क्रमसो अवट्टिहदा होंति छट्ठाणा। ३२३। उव्वक चउरक पणधस्सत्तक अट्टक च। छव-डुहण सण्णा कमसो सदिट्टिकरणट्ट ३२४। अणुलअसखभागे पुवं-गवडुहोगेद दु परवडुहो। एक वार होदि हु पुणो पुणो चरिम-उडिहत्ती ३२५। आदिमछट्ठाणमिह य पच य वडुहो हव ति तेसेसु। छवडुहोओ होंति हु सरिसा सव्वथ पवसखा ३२६। छट्ठाणाण आदि अट्टक होदि चरिममुव्वक। जम्हा जट्टणणाण अट्टक होदि जिणदिट्ट ३२७। एवक खलु अट्टक सत्तक ऋय तदा हेट्ठा। रूवहियकडएण य गुणिदकमा जावमुव्वक ३२८। सव्वसमासो णियमा रूवाहियकडयस्स वग्गस्स। विदस्स य सवग्गो होदिचि जिणेहि णिहिट्ट ३२९। उक्कस्ससखुमेत्त तत्तिचउरथेकदात्त-छपण्ण। मतइसम च भाग गत्तुण य लद्धिअवखर बुगुण ३३०। एव अमग्गलोगा अणवखरपे हव ति छट्ठाणा। ते पज्जायसमासा अवखरग उत्ररि वोच्छामि ३३१। चरिसुव्वकेण वट्टिदअत्थवखरगुणिदचरिम-मुव्वक। अत्थवखर तु णाण होदिचि जिणेहि णिहिट्ट ३३२। = सर्वजघन्य पर्याय ज्ञानके ऊपर क्रमसे अनन्तभाग वृद्धि, असख्यात भागवृद्धि, सख्यातभागवृद्धि, सख्यातगुणवृद्धि, असख्यातगुण-वृद्धि, अनन्तगुणवृद्धि ये छह वृद्धि होती हैं। ३२२। अनन्तभाग वृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि इनका भागहार और गुणाकार समस्त जीवराशि प्रमाण अवस्थित है। असख्यातभाग वृद्धि और अमख्यात गुणवृद्धि इनका भागहार और गुणाकार असख्यात लोक्षप्रमाण अवस्थित है। सख्यात भागवृद्धि सख्यातगुणवृद्धि इनका भागहार और गुणाकार उत्कृष्ट सख्यात अवस्थित है। ३२३। लघुरूप सदृष्टिके लिए क्रमसे छह वृद्धियोंको ये छह सज्ञा हैं। अनन्तभाग वृद्धिको उवक, अमख्यात भागवृद्धिको चतुरङ्क,

सख्यात भागवृद्धिको पञ्चाङ्क, सख्यात गुणवृद्धिको पडुङ्क, अस-ख्यात गुणवृद्धिको सप्ताङ्क, अनन्तगुण वृद्धिको अष्टाङ्क। ३२४। सूच्यगुलके असख्यातवें भाग प्रमाण पूर्व वृद्धि होनेपर एक बार उत्तर वृद्धि होती है। यह नियम अनन्तकी वृद्धि पर्यन्त समझना चाहिए। ३२५। असख्यात लोक प्रमाण पटस्थानोंमें प्रथम पटस्थानोंमें पाँच ही वृद्धि होती है, अष्टाङ्क वृद्धि नहीं होती। शेष सम्पूर्ण पटस्थानोंमें अष्टाङ्क गहित छह वृद्धि होती है। सूच्यगुलका असख्यातवें भाग अवस्थित है इसलिए पदोंकी संख्या सय जगह सदृश ही समझनी चाहिए। ३२६। सम्पूर्ण पटस्थानोंमें आदिके स्थानको अष्टाङ्क, और अन्तके स्थानको उवक कहते हैं, क्योंकि जघन्य पर्याय ज्ञान भी अगुरुनधु गुणके अधिभाग प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा अष्टाङ्क हो सकता है। ३२७। एक पटस्थानमें एक ही अष्टाङ्क होता है। और सप्तक सूच्यगुलके असख्यातमें भागमात्र होते हैं। इसके नीचे पडक, पचांक, चतुरंक, उवक ये एक एक अधिक बार सूच्यगुलके असख्यातवें भागसे गुणित कम है। ३२८। एक अधिक काण्डके वर्ग और घनको परस्पर गुणा करनेसे जो प्रमाण लब्ध आवे उतना ही एक पटस्थान पतित वृद्धियाँके प्रमाणना जोड़ है। ३२९। एक अधिक काण्डके गुणित सूच्यगुलके असख्यातवें भागप्रमाण अनन्त भाग वृद्धिके स्थान, और सूच्यगुलके असख्यातवें भाग प्रमाण असख्यात भागवृद्धिके स्थान, इन दो वृद्धियोंको जघन्य ज्ञानके ऊपर ही जानेपर एक बार सख्यात भागवृद्धिका स्थान होता है, इसके आगे उक्त क्रमानुसार उत्कृष्ट सख्यात मात्र पूर्वोक्त सख्यातवृद्धिके ही जानेपर उसमें प्रसेपक वृद्धिके होनेसे लच्छयक्षरका प्रमाण दूना हो जाता है। ३३०। इस प्रकारसे अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानके असख्यात लोकप्रमाण पटस्थान होते हैं, ये सब ही पर्याय समास ज्ञानके भेद हैं। ३३१। और भी दो श्रुतज्ञान/II/१/३। अन्तके उवकका अधाक्षर सधुहमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको अन्तके उवकसे गुणा करनेपर अधाक्षर ज्ञानका प्रमाण होता है। ३३२। (विशेष—दे नीचे यत्र) एक स्थानकी सदृष्टि तदनुसार है —

उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ
उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ
उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ
उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ
उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ
उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ
उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ
उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ
उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ
उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ	उउउ

(क पा १/४-१२/१५७२/पृ २४२), (गो जी/भापा/३२६/६६४)।

III शब्द लिंगज श्रुतज्ञान विशेष

१ भेद व लक्षण

१. लोकोत्तर शब्द लिंगजके सामान्य भेद

त. सू १/२० श्रुत...द्वयने ऋदादशभेदम् १२०

स सि १/२०/१२३/२ अङ्गनाहमङ्गप्रविष्टमिति १=१. श्रुतज्ञानके दो भेद—अग बाह्य व अग प्रविष्ट ये दो भेद हैं। (रा वा. १/२०/११/७२/२३), (क पा १/१-१/११७/२५/१), (ध १/१.१.२/१६६/६), (ध १/१.१.११५/३७७/८), (ध १/१.१.४५/१८०/१२)। २. अथवा अनेक भेद और चारह भेद हैं।

३. अंग सामान्य व विशेषके लक्षण

१ अग सामान्यकी व्युत्पत्ति

ध १/४.१.४५/१६३/६ अगमुदमिदि गुणनाम, ब्रह्मति गच्छति व्याप्नोति त्रिकालगोचराशेषद्रव्य-पर्यायमित्यङ्गशब्दनिष्पत्ते १=अगश्रुत यह गुणनाम है, क्योंकि, जो तीनों कालकी समस्त द्रव्य वा पर्यायोंको 'अङ्गति' अर्थात् प्राप्त होता है या व्याप्त करता है वह अग है, इस प्रकार अग शब्द सिद्ध हुआ है।

गो जी/जी, प्र ३५०/७२७/१७ अङ्ग्यते मध्यमपदोर्लक्ष्यते इत्यङ्गं । अथवा आचारादिद्वादशशास्त्रसमूहोरूपश्रुतस्कन्धस्य अङ्ग अवयव एकदेश आचाराद्यैकैकशास्त्रमित्यर्थ १=अङ्ग्यते अर्थात् मध्यम पदोंके द्वारा जो लिखा जाता है वह अग कहलाता है। अथवा समस्त श्रुतके एक एक आचारादि रूप अवयवको अग कहते हैं। ऐसे अग शब्दकी निरुक्ति है।

२. अग बाह्य व अग प्रविष्ट

रा वा १/२०/१२-१३/५/५ पक्ति आचारादि द्वादशविधमङ्गप्रविष्ट-मित्युच्यते (७२/२५) यद्गणधरशिष्यप्रशिष्यैरारातोयैरधिगतश्रुतार्थ-तत्त्वं कालदोषादल्पमेधाद्युर्बलानां प्राणिनामनुग्रहार्थमुपनिब्रह्मध संक्षिप्ताङ्गार्थवचनविन्यास तदङ्गवाह्यम् । (७-३)=आचारांग आदि १२ प्रकारका ज्ञान अगप्रविष्ट कहलाता है। (७२/२५) गणधर देवके शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा अनाद्यु-बुद्धि बलवाले प्राणियोंके अनुग्रहके लिए अगोंके आधारसे रचे गये संक्षिप्त ग्रन्थ अगवाह्य हैं।

वे श्रुतज्ञान/II पूर्व ज्ञानका लक्षण।

वे, अग्रायणी/अग्रायणीके लक्षणका भावार्थ।

३. अंग प्रविष्ट व अग वाह्यके भेद

१ अगप्रविष्टके भेद

स सि १/२०/१२३/३ अङ्गप्रविष्ट द्वादशविधम् । तद्यथा, आचर सूत्रकृत स्थान समग्रय व्याख्याप्रज्ञप्ति ज्ञातुधर्मकथा उपासकाध्ययन, अन्तकृतदश अनुत्तरापवादिकदश प्रश्नव्याकरण विपाकसूत्र दृष्टिप्रवाद इति १=अगप्रविष्टके चारह भेद हैं—आचार, सूत्रकृत, स्थान, समग्रय व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातुधर्मकथा, उपासकाध्ययन, अन्तकृतदश, अनुत्तरापवादिकदश, प्रश्न व्याकरण, विपाकसूत्र और दृष्टिवाद। (रा वा १/२०/१२/७२/२६), (ध १/१.१.२/१६६/१), (ध, १/४.१.४५/१६७/१), (क पा १/१-२/११८/२६/२), (गो जी/मू/३६६-३६७/७६०)।

२ दृष्टिवादके पाँच भेद

स सि १/२०/१२३/५ दृष्टिवादं पञ्चविधं—परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग पूर्वगत चूलिका चेति १=दृष्टिवादके पाँच भेद हैं—परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग पूर्वगत और चूलिका। (रा वा. १/२०/१२/७२/१०),

(ह पु/१०/६१), (ध १/१.१.२/१०६/४), (ध १/४.१.४०/२०४/११), (क पा, १/१-१/११८/२६/५), (गो. जी/मू/३६६-३६७/७७२)।

३. पूर्वगतके १४ भेद

स सि १/२०/१२३/६ तत्र पूर्वगत चतुर्दशविधम्—उत्पादपूर्व, आग्रायणीय, वीर्यानुप्रवाद अस्तित्नास्तित्प्रवाद ज्ञानप्रवाद सत्यप्रवाद आत्म-प्रवाद कर्मप्रवाद प्रत्याख्याननामधेय विद्यानुप्रवाद कल्याणनामधेय प्राणावाय क्रियाविशाल लोकविन्दुसारमिति १=पूर्वगतके चौदह भेद हैं—उत्पादपूर्व, अग्रायणीय, वीर्यानुवाद, अस्तित्नास्तित् प्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्याननामधेय, विद्यानुवाद, कल्याणनामधेय, प्राणावाय, क्रियाविशाल, और लोक-विन्दुसार। (रा वा १/२०/१२/७४/११), (ध १/१.१.२/११४/६), (ध १/४.१.४५/२१२/५), (क पा १/१-१/१२०/२६/७), (गो जी/मू/३४५-३४६/७२१)।

४ चूलिकाके पांच भेद

ह.पु./१०/१२३ जनस्थलगताकाशरूपमायागता पुन । चूलिका पञ्चधान्व-र्थसज्ञा भेदवती स्थिता १२३।=चूलिका पाँच भेदवाली है—जलगता, स्थलगता, आकाशगता, रूपगता और मायागता। ये समस्त भेद सार्थक भेदवाले हैं १२३। (ध. १/१.१.२/११३/१), (ध १/४.१.४५/२०६/१०)।

५ अग्रायणी पूर्वके भेद

ध १/१.१.२/१२३/२ तस्स अग्नेयिस्स पचविहो उवकमो, आणुपुञ्जी णाम पमाण वत्तव्वदा अथाहिचारो चेदि १=अग्रायणीय पूर्वके पाँच उपक्रम हैं—आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता, अर्थाधिकार। (ध १/४.१.४५/२२६/६)।

६ अग बाह्यके भेद

रा वा १/२०/१४ ७८/६ तदङ्गवाह्यमनेकविधम्-कालिकमुत्कालिक-मित्येवमादिविकल्पात् । स्वाध्यायकाले नियतकाल कालिकम् । अनियतकालमुत्कालिकम् । तद्भेदा उत्तराध्ययनादयोऽनेकविधा । =कालिक, उत्कालिकके भेदमे अग बाह्य अनेक प्रकारके हैं। स्वाध्याय कालमें जिनके पठन पाठनका नियम है उन्हें कालिक कहते हैं, तथा जिनके पठन पाठनका कोई नियम न हा वे उत्कालिक हैं। उत्तराध्ययन आदि ग्रन्थ अगबाह्य अनेक प्रकार हैं। (स सि १/२०/१२/२)।

ध १/१.१.१/१६६/६ तस्य जगन्नाहिरस्स चोद्दम अथाहियारा । त जहा सामाद्य चउवीसत्यओ वदणा पटिक्कमण वेणइय किदियम्म दम-वेयालिय उत्तरज्झयण वप्पव्ववहारो वप्पाक्कप्पय महाक्कप्पय पुञ्जीय महापुण्डरीय णिसिहिय चेदि १=अगबाह्यके चौदह अर्थाधिकार हैं। वे इस प्रकार हैं—सामायिक चतुर्विंशतिस्तव, उन्दना, प्रतिक्रमण, वेनयित्त, कृत्तिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कर्म-व्यवहार, कल्याणकल्प, महाकल्प, पुण्डरीक, महापुण्डरीक और निपिठका। (ध १/४.१.२/१८७/१२), (क पा १/१-१/१-१/१७/२६/१), (गो जी/मू/३६७-३६८/७८६)।

४ अग प्रविष्टके भेदोंके लक्षण

१ १० अगके लक्षण

रा वा १/२०/१२-७२/२८ से ७/६ तत्—आचारे चर्यात्रिधा-शुद्ध-एतन्नसमितित्रिगुसिचिरूप कटयते । सूत्रकृते ज्ञानविनयप्रज्ञापना कल्याणकल्प्यच्छेदोपस्थापना व्यवहारधर्मत्रिया प्ररूप्यन्ते । स्थाने अनेकाध्यायानामर्थानां निर्णय त्रियते । नमगमे सर्वपदार्थानां

समवायश्चिन्त्यते । स चतुर्विध - द्रव्यक्षेत्रकालभावविकल्पे । तत्र धर्माधर्मास्तिकायलोकाकाशकजोवानां तुल्यसास्रव्येयप्रदेशरत्नात् एकेन प्रमाणेन द्रव्याणां समवायान्नाह द्रव्यसमवाय । व्याख्या-प्रज्ञप्तौ पट्टिव्याकरणसहस्राणि 'किमस्ति जीव, नास्ति' इत्येवमादीनि निरूपयन्ते । ज्ञातृधर्मकथामया व्याख्यानापोख्यानानां बहु-प्रकाराणां कथनम् । उपासकाध्ययने श्रावणधर्मलक्षणम् । ऋषभादीनां तीर्थेषु दश दशानागरा दशदश दारुणानुपसर्गात्रिजित्य कृस्नकर्मक्षयादन्तकृत' दश अस्यां वर्णयन्ते इति अन्तकृद्दश । एवमुपभादीनां तीर्थेषु दश दश अनागरा दश दश दारुणानुपसर्गात्रिजित्य विजयाद्यनुत्तरेषूपपन्ना इत्येवमनुत्तरीपपादिका दशास्यां वर्णयन्त इत्यनुत्तरीपपादिकदश । प्रश्नानां व्याकरण प्रश्नव्याकरणम्, तस्मिन्नीतिकवैदिकानामर्थानां निर्णय विपाकसूत्रे सुकृतदुष्कृतानां विपाकश्चिन्त्यते । द्वादशमण्डल दृष्टिवाद इति । दृष्टिज्ञानानां त्रयाणां त्रिपद्युत्तराणां प्ररूपण निम्नप्रश्न दृष्टिवादे क्रियते । -आचारार्गमें चर्याका विधान आठ शुद्धि, पाँच समिति, तीन युक्ति आदि रूपसे वर्णित है । सूत्रकृतार्गमें ज्ञान विनय, क्या कल्प्य है क्या अकल्प्य है, छेदोपस्थापनादि, व्यवहारधर्मकी क्रियाओंका निरूपण है । स्थानार्गमें एक-एक दो-दो आदिके रूपसे अर्थोंका वर्णन है । समवायार्गमें सम पदार्थोंकी समानता रूपसे समवायका विचार किया गया है । जैसे धर्म-अधर्म लोकाकाश और एक जीवके तुल्य असंख्यात प्रदेश होनेसे इनका द्रव्यरूपसे समवाय कहा जाता है । (इसी प्रकार यथायोग्य क्षेत्र, काल, व भावका समवाय जानना) व्याख्याप्रज्ञप्तिमें 'जीव है कि नहीं' आदि साठ हजार प्रश्नोंके उत्तर है । ज्ञातृधर्मकथामें अनेक आख्यान और उपाख्यानोंका निरूपण है । उपासकाध्ययनमें श्रावणधर्मका विशेष विवेचन किया गया है । अन्तकृद्दशार्गमें प्रत्येक तीर्थकरके समयमें होने वाले उन दश-दश अन्तकृद् केवलियाका वर्णन है जिनने भयकर उपसर्गोंको सहकर मुक्ति प्राप्त की । अनुत्तरीपपादिकदशार्गमें प्रत्येक तीर्थकरके समयमें होने वाले उन दश-दश मुनियोंका वर्णन है जिनने दारुण उपसर्गोंको सहकर पाँच अनुत्तर विमानमें जन्म लिया । प्रश्न व्याकरणमें युक्ति और नयोंके द्वारा अनेक आक्षेप और विशेष रूप प्रश्नोंका उत्तर दिया गया है । विपाक-सूत्रमें पुण्य और पापके विपाकका विचार है । बारहवाँ दृष्टि प्रवाद अणु है, इसमें ३६३ मताके निरूपण पूर्वक खण्डन है (३६३ मताँके लिए ६० एकान्त/४/२) । (ह पु / १०/२७-४६), (ध १/१,२,३/-६६-१०६), (ध ६/४,१,४६/१६७-२०३), (गो, जी / जी प्र / ३६६-३५७/७६०-७६६) ।

० दृष्टिवादके प्रथम तीन भेदोंके लक्षण

ध, १/१,१,२/१०६-११ / ४ तत्स पच अथाहियरा ह्वति, परियम्म-सुत्त-पठमाणियोग-पुत्रगय-चूलिया चेदि । ज त परियम्म पच-विह । त जहा, चदपण्णत्ती सूरपण्णत्ती जंघुदीवपण्णत्ती दीवसायरपण्णत्ती विद्याहपण्णत्ती चेदि । तस्य चदपण्णत्ती णाम चदायु-परिवारिद्धि गह विबुस्सेह वण्ण कुणइ । सूरपण्णत्ती सूरस्सायु-भोगोवभोग - परिवारिद्धि - गह - विबुस्सेह दिण-किरणुज्जोववण्ण कुणइ । जंघुदीवपण्णत्ति जंघुदीवे णाणाविह मणुयाण भोगकम्म-भूमियाण अण्णेसि च पव्वद दह गह वण्ण कुणइ । दीवसायरपण्णत्तीदीवसायरपमाण अण्णपि दीवसायरत-सुवस्थ बहुभेय वण्णेदि । विद्याहपण्णत्ती णाम अजीवदब्बं भवसिद्धियअभवसिद्धिय-रासि च वण्णेदि । सुत्त अण्णओ अवलेणओ अज्जा अभात्ता णिग्गुणो सव्वगओ अप्पेत्ति वण्णेदि । पठमाणियागो पच-सहस्सपदेहि पुराणं वण्णेदि । - दृष्टिवादके पाँच अधिहार है, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका । उनमेंसे चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, द्वीपसागरप्रज्ञप्ति और व्याख्याप्रज्ञप्ति, इस तरह

परिकर्मके पाँच भेद है । चन्द्रप्रज्ञप्ति नामका परिचय चन्द्रमाकी आयु, परिवार, शुद्धि, गति और विम्बकी ऊँचाई आदिवा वर्णन करता है । सूर्यप्रज्ञप्ति सूर्यकी आयु, भोग, उपभाग, परिचार, शुद्धि, गति, विम्बकी ऊँचाई आदिवा वर्णन करता है । जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति जम्बूद्वीपस्थ भोगभूमि और तर्मभूमिमें उत्पन्न हुए नाना प्रकारके मनुष्य तथा दूसरे तिर्यंच आदिवा वर्णन, द्रह, नदी आदिवा वर्णन करता है । सागर प्रज्ञप्ति नामका परिचय द्वीप और समुद्रके प्रमाणका तथा द्वीपसागरके अन्तर्भूत नाना-प्रकारके दूसरे पदार्थोंका वर्णन करता है । व्याख्याप्रज्ञप्ति पुद्गल, धर्म, अवयव, आकाश और काल भव्यमिदृध और अभव्यमिदृध जीव, इन सप्तका वर्णन करता है । सूत्र नामका अर्थाधितार जीव अयन्धक ही है, अन्तलेपक ही है, अर्त्ता ही है, अभोक्ता ही है, इत्यादि रूपसे ३६३ मताँका पूर्वपक्ष रूपसे वर्णन करता है । (३६३ मताँके लिए ६० एकान्त/४/२) प्रथमानुयोग पुराणोंका वर्णन करता है । (ह पु / १०/६३-७१), (ध ६/४,१,४६/२०६-२०६), (गो जी / जी प्र / ३६१-३६२/७७२) ।

३ दृष्टिवादके चौथे भेद रूप १४ पूर्वोंके लक्षण

रा वा / १/२०/१२ / - ७७/११ से ७८/२ तक तत्र पूर्वगतं चतुर्दशप्रकारम् । कालपुद्गलजोवादीनां यदा यत्र यथा च पर्यायिणोपरादो वर्णयते तदुत्पादपूर्व । क्रियावादादीनां प्रक्रिया अत्रायणीव अट्टादीनां स्व-समयविषयश्च यत्र ख्यापितस्तदप्रमाणम् । छत्रस्यैकेवतिनां वीर्य-सुरेन्द्रदर्याधिपानां युद्धयो नरेन्द्रचक्रधरमलदेवानां च वीर्यलाभो द्रव्याणां सम्यक्प्रलक्षणं च यत्राभिहित तद्वीर्यप्रवादम् । पञ्चानामस्ति-कायानामर्थो नयानां चानेकपर्याये यत्रावभासित तदस्तिनास्ति-प्रवादम् । पञ्चानामपि ज्ञानानां इन्द्रियाणां च प्राधान्येन यत्र विभागो विभाषित तज्ज्ञानप्रवादम् । वाग्गुप्तिसंस्कारवारणप्रयोगो द्वादशधा भाषावत्कारचानेकप्रकारमूपाभिधान यत्र प्ररूपित तत् सत्यप्रवादम् । यत्रात्मनोऽस्तित्वनास्तित्व-धर्मा पट्टजीवनिकाय-भेदाश्च युक्तितो निर्दिष्टा तदारम्भप्रवादम् । बन्धोदयोपशमनिर्जरा-पर्याया स्थितिरश्च यत्र निर्दिश्यते तत्कर्मप्रवादम् । व्रत-नियम-प्रतिक्रमण श्रामण्यकारणं च परिमितापरिमिताद्रव्यभावप्रत्याख्यानं च यत्राल्यात तत्प्रत्याख्याननामधेयम् । अष्टौ महानिमित्तानि तद्विषयो रज्जुराशिविधि क्षेत्र श्रेणी लोकप्रतिष्ठा संस्थान समुद्घातश्च यत्र कथ्यते तद्विद्यानुवादम् । रविशशि-ग्रहनक्षत्रताराणां चारोपपादगतिविषययफनानि शकुनव्याहृतम् अर्हद् बलदेव-वासुदेव-चक्रधरादीनां गर्भावतरणादिमहाकल्याणानि च यत्रोक्तानि तत् कल्याणनामधेयम् । कायचिक्रिसाद्यष्टाङ्ग-आयुर्वेद भूतिकर्म-जाडगुलिकप्रक्रम प्राणापानविभागोऽपि यत्र विस्तारेण वर्णितस्तत् प्राणावायुम् । लेखादिका कलाज्ञासप्तति, गुणारचतु पट्टिस्रैणा, शिष्पानि काव्यगुणदोषक्रियाछन्दोविचि-क्रियाफलोपभोक्तरक्ष यत्र व्याख्याता तत्क्रियाविशासम् । यत्राष्टौ व्यवहाराश्चरवारि योजानि परिकर्मराशिक्रियाविभागश्च सर्वश्रुत-सपटुपदिष्टा तत्खलु लोकचिन्दुसारम् । -पूर्वगतके उत्पादपूर्व आदि चौदह भेद है - उत्पादपूर्वमें जीव पुद्गलादिका जहाँ जन्म जैसा उत्पाद होता है उस सप्तका वर्णन है । अत्रायणी पूर्वमें क्रियावाद आदिकी प्रक्रिया और स्वसमयका विषय विवेचित है । वीर्यप्रवादमें छत्रस्थ और केवलीकी शक्ति सुरेन्द्र अहुरेन्द्र आदिकी शुद्धियौ नरेन्द्र चक्रवर्ती बलदेव आदिकी सामर्थ्य द्रव्योंके लक्षण आदिका निरूपण है । अस्तिनास्तिप्रवादमें पाँचों अस्तिकायोंका और नयोंका अस्ति-नास्ति आदि अनेक पर्यायों द्वारा विवेचन है । ज्ञान-प्रवादमें पाँचों ज्ञानों और इन्द्रियोंका विभाग आदि निरूपण है । सत्यवाद पूर्वमें वाग्गुप्ति, वचन संस्कारके कारण, वचन प्रयोग बारह प्रकारकी भाषाएँ, दस प्रकारके सत्य, वक्ताके प्रकार आदि-

का विस्तारसे विवेचन है। आत्म प्रवादमें आत्म द्रव्यका और छह जीव निकायोंका अस्ति नास्ति आदि विविध भगोसे निरूपण है। कर्मप्रवादमें कर्मोंकी बन्ध उदय उपशम आदि दशाओंका और स्थिति आदिका वर्णन है। प्रत्याख्यान प्रवादमें व्रत-नियम, प्रतिक्रमण, तप, आराधना आदि तथा मुनिव्रतमें कारण द्रव्योंके त्याग आदिका विवेचन है। विद्यानुवाद पूर्वमें समस्त विद्याएँ आठ महा निमित्त, रज्जुराशि विधि, क्षेत्र, श्रेणी, लोक प्रतिष्ठा, समुद्रघात आदिका विवेचन है। कल्याणवाः पूर्वमें सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारागणोंके चार क्षेत्र, उपपादस्थान, गति, वक्रगति तथा उनके फलोंका, पक्षीके शब्दोंका और अरिहन्त अर्थात् तीर्थंकर, नलदेव, वासुदेव और चक्रवर्ती आदिके गभविदार आदि महाकल्याणकोंका वर्णन है। प्राणावायु पूर्वमें शरीर चिकित्सा आदि अष्टांग आयुर्वेद, भूतिकर्म, जांगुलिकक्रम (विपविद्या) और प्राणायामके भेद-प्रभेदोंका विस्तारसे वर्णन है। क्रिया विशाल पूर्वमें लेखन कला आदि बहत्तर कलाओंका, स्त्री सम्बन्धी चौसठ गुणोंका, शिष्यकलाका, काव्य सम्बन्धी गुण-दोष विधिका और छन्द निर्माण कलाका विवेचन है। लौकविन्दुसारमें आठ व्यवहार, चार बीज, राशि परिकर्म आदि गणित तथा समस्त श्रुत-सम्पत्तिका वर्णन है। (ह पु. १०/७५-१२२), (ध १/१.१.२/-११४-१२२), (ध ६/४.१.४५/२१२-२२४/१२), (गो जी/जी प्र/६६५-६६६/७७८)।

४. दृष्टिवादके ५३ में भेद रूप ५ चूलिकाओंके लक्षण

ध. १/१.१.२/११३/२ जलगया जलगमण-जलस्थभण कारण मत-उत्त-तवच्छरणाणि वण्णेदि। थलगया णाम भूमि-गमण कारण-मत-त-त-तवच्छरणाणि वस्तु-विज्ज भूमि-सम्भ्रमण पि सुहासुह-कारण वण्णेदि। मायागया इदज्जाल वण्णेदि। रूबगया सोह-हय-हरिणादि-रूवायारेण परिणमण-हेदु मत-त-त-तवच्छरणाणि चित्त-कट्ट-लेप्प-लेण-कम्मादि लवखण च वण्णेदि। आयासगया णाम आगास-गमण णिमिच्च-मत-त-त-तवच्छरणाणि वण्णेदि। = जलगता चूलिका—जलमें गमन, जलस्तम्भनके कारण भूत मन्त्र तन्त्र और तपश्चर्या रूप अतिशय आदिका वर्णन करती है। स्थलगता चूलिका—पृथिवीके भीतर गमन करनेके कारण भूत मन्त्र, तन्त्र और तपश्चरणरूप आश्चर्य आदिका तथा वास्तु विद्या और भूमि सम्बन्धी दूसरे शुभ-अशुभ कारणोंका वर्णन करती है। मायागता चूलिका—इन्द्रजाल आदिके कारण भूत मन्त्र और तपश्चरणका वर्णन करती है। रूपगता चूलिका—सिंह, घोड़ा और हरिण आदिके स्वरूपके आकार रूपसे परिणमन करनेके कारण भूत मन्त्र-त-त-त और तपश्चरण तथा चित्र-काष्ठ-लेप्य-लेन कर्म आदिके लक्षणका वर्णन करती है। आकाशगता चूलिका—आकाशमें गमन करनेके कारण-भूत मन्त्र, तन्त्र और तपश्चरणका वर्णन करती है। (ह पु/१०/-१२४), (ध ६/४.१.४५/२०६-२१०), (गो. जी/जी प्र/३६१-३६२/७७३/४)।

५ अग वाह्यके भेदोंके लक्षण

ध १/१.१.२/६६-६७/६ ज सामाद्वय त णाम टठवणा-दव्ववखेत्त-काल-भावसु-समत्तविहाण वण्णेदि। चउवीसथओ चउवीसण्ह तित्थय-राण वेदण-विहाण-तण्णाम सठाणुत्सेह-प-च-महायल्लण-चोत्तोस-अइसससकूव तित्थयर-वदणाए सहलत्त च वण्णेदि। वदणा एग-जिण-जिणालय-विसय-वदणाए णिदवज्ज भाव वण्णेइ। पडिक्कमण कालं पुरिम च अस्सिऊण सत्तविह-पडिक्कमणाणि वण्णेइ। वेणइयं णाण-दसण-चरित्त-तवोवयारविणए वण्णेइ। किदियम्म अरहत्त-सिद्ध-आहरिय बहुसुद-साहूण पूजाविहाण वण्णेइ। दसवेयात्तिय आमार-गायर-विहि वण्णेइ। उत्तरव्भयण उत्तर-पदाणि वण्णेइ। कप्पववहारो साहूण लोग्गमाचरण अकप्प-सेवणाए पायचिउत्त च

वण्णेइ। कप्पाकप्पिय साहूण ज कप्पदि ज च ण कप्पदि त मव्व वण्णेदि। महाकप्पिय कालसघडणाणि अस्मिऊण माहु-पाओग्ग-दव्व-खेत्तादीण वण्णण कुणइ। पुडरीय चउत्तिह देवेसुववादकारण-अणुट्टाणाणि वण्णेइ। महापुडरीय नयलिद पडिइदे उप्पत्तिवारण वण्णेइ। णिसिहिय नहुविह-पायचिउत्त विहाण वण्णण कुणइ। = सामायिक नामका अगवाह्य भमता भावके विधानका वर्णन करता है। चतुर्विंशति स्तव चौबीस तीर्थंकरोंकी वन्दना करनेकी विधि, उनके नाम, मस्थान, उत्सेध, पाँच महाकल्याणक, चौतीस अतिशयोंके स्वरूप और तीर्थंकरोंकी वन्दनाकी सफलताका वर्णन करता है। वन्दना एक जिनेन्द्र देव सम्बन्धी और उन एक जिनेन्द्र देवके अवलम्बनसे जिनालय सम्बन्धी वन्दनाका वर्णन करता है। सात प्रकारके प्रतिक्रमणोंका प्रतिक्रमण वर्णन करता है। वैयधिक पाँच प्रकारकी विनयोंका वर्णन करता है। वृत्तिकर्म अरहन्त, सिद्ध आचार्य और साधुकी पूजाविधिका वर्णन करता है। दश वैकालिकोंका दशवैकालिक वर्णन करता है। तथा वह मुनियोंकी आचार विधि और गोचरविधिका भी वर्णन करता है। जिसमें अनेक प्रकारके उत्तर पढ़नेकी मिलते हैं उसे उत्तराध्ययन कहते हैं। इसमें चार प्रकारके उपसर्ग केसे महन करने चाहिए? बार्हस्पत्य प्रकारके परिपहोको सहन करनेकी विधि क्या है? इत्यादि प्रश्नोंके उत्तरोंका वर्णन किया गया है। कल्प्य व्यवहार साधुओंके योग्य आचरणका और अयोग्य आचरणके होने पर प्रायश्चित्त विधिका वर्णन करता है। कल्प्याकल्प्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा मुनियोंके लिए यह योग्य है और यह अयोग्य है' इस तरह इन सबका वर्णन करता है। महाकल्प्य काल और सहननका आश्रय कर साधुके योग्य द्रव्य और क्षेत्रादि का वर्णन करता है। पुण्डरीक भवनवासी आदि चार प्रकारके देवोंमें उत्पत्तिके कारण रूप, दान, पूजा, तपश्चरण आदि अनुष्ठानोंका वर्णन करता है। महापुण्डरीक समस्त इन्द्र और प्रतीन्द्रोंमें उत्पत्तिके कारण रूप तपो विशेष आदि आचरणका वर्णन करता है। निपिद्धि अर्थात् बहुत प्रकारके प्रायश्चित्तके प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रको निपिद्धिका कहते हैं। (ह पु/१०/१२६-१३८), (ध ६/४.१.४५/१८८ १६१), (गो जी/जी प्र/३६७-३६८/७८६)।

२ शब्द लिगज निर्देश

१. वारह अगोमे पद सख्या निर्देश

(ह पु/१०/२७ ४५), (ध १/१.१.२/६६-१०७), (ध ६/४.१.४५/१६७-२०३), (गो जी/जी प्र/३६६-३६७/७७७)।

क्र	नाम	पद सख्या	क्र	नाम	पद सख्या
१	आचाराग	१८०००	७	उपासकाध्ययन	११७००००
२	सूत्रवृत्ताग	३६०००	८	अन्तदृष्टशाग	२३२४०००
३	स्थानाग	४२०००	९	अनुत्तरोपपादिक-दशाग	६२४४०००
४	समयायाग	१६४०००	१०	प्रन वयाचरण	६३१६०००
५	व्याख्या प्र०	२२००००	११	विपाक सूत्र	१८२०००००
६	शाव्यमकथा	४५६०००	१२	दृष्टिनाद	१०८६८६००
				कुनपद	११२८३६८००

२. दृष्टिवाद अंगमें पद संख्या निर्देश

(ह. पु/१०/६३-७१, १२४), (घ १/१.१.२/१०६-११३), (घ. ६/४.१.४४/२०६-२१०), (गो जी/सू/३६३-३६४/७७७)।

क्र.	नाम	पद संख्या	क्र.	नाम	पदसंख्या
१	परिकर्म-		४	पूर्ववत्	देखो पृथक् शीर्ष
१	चन्द्र प्रज्ञप्ति	३६०७०००	४	चूलिका-	
२	सूर्य प्रज्ञप्ति	२०३०००	१	जलगता	२०६७६२०६
३	जम्बू द्वीप "	३२५०००	२	स्थलगता	"
४	द्वीप समुद्र "	६२३६०००	३	आकाशगता	"
५	व्याख्या "	८४३६०००	४	रूपगता	"
२	सूत्र-	८००००००	५	मायागता	"
३	अनुयोग	५०००	६	कुल-	१०४८६६०२६

३. चौदह पूर्वोंमें पदादि सख्या निर्देश

(ह पु/१०/७४-१२०), (घ १/१.१.२/११४-१२२), (घ ६'४.१.४४/२१२-२२४, २२६), (क पा १/१-१/४२०/२६/१०), (गो. जी/सू/३६६-३६६/७७)।

क्र.	नाम	वस्तुगत	प्राभूत	पद संख्या
१	उरगाद पूर्व	१०	२००	१०००००००
२	अप्रायणोयपूर्व	१४	२८०	६६०००००
३	वीर्यानुवाद पूर्व	८	१०८	७००००००
४	अस्तित्नास्ति प्रवाद	१८	३८०	६००००००
५	ज्ञान प्रवाद	१२	२४०	६६६६६६६
६	सत्यप्रवाद	१२	४०	१००००००६
७	आरम प्रवाद	१६	३२०	२६०००००००
८	कर्म प्रवाद	२०	४००	२६००००००
९	प्रत्याख्यानप्रवाद	३	६००	८४०००००
१०	विद्यानुवाद	१५	३००	११००००००
११	कथ्याण नामधेय	१०	२००	२६०००००००
१२	प्राणावाय	१०	२०	१३०००००००
१३	क्रिया विशाल	१०	२००	६०००००००
१४	लोक चिन्दुसार	१०	२००	१२५००००००

४. अंग वाह्यके चौदह भेदोंमें पद संख्या निर्देश

ह पु/१०/१२७-१२८ त्रयोदश सहास्रिणि पञ्चशतकेष्विंशति । कोटो च पदसंख्येय वर्णा सप्तैव वर्णिता ११२७। पञ्चविंशतिलक्षशतत्रयस्त्रिंशच्छतानि च । अशीति श्लोकसंख्येय वर्णा पञ्चदशान च १२८। —अंगनाह्य श्रुतज्ञानके समस्त अक्षरोंका संग्रह आठ करोड़ एक लाख आठ हजार एक सौ पचहत्तर प्रमाण है (८०१०८१७५) १२७। और इसके समस्त श्लोकोंकी संख्या पचचीस लाख तीन हजार तीन सौ अस्सी तथा शेष पन्द्रह अक्षर प्रमाण है १२८। (२५०३३८० + १५ अक्षर)।

५. यहाँपर मध्यम पदसे प्रयोजन है

घ. १३/५.५.४८/२६६/७ एदेसु केण पदेण पयद । मज्झिमपदेण । युत्त च-सिथिष्ठ पदमुद्दिट्ठ पमाणपदमथमज्झिमपद च । मज्झिमपदेण युत्ता पुट्टंगण पदविभागो ११६ —प्रश्न—इन पदों (अर्थपद, प्रमाणपद, मध्यमपद) मेंसे प्रवृत्तमें त्रिस पदसे प्रयोजन है । उत्तर—मध्यम पदसे प्रयोजन है, कहा भी है—पद तीन प्रत्याग्या कृता गया है अर्थपद, प्रमाणपद और मध्यमपद । इनमेंसे मध्यम पदके द्वारा पूर्व और अगोंका पदविभाग कहा गया है ११६।

६. इन ज्ञानोंका अनुयोग आदि ज्ञानोंमें अन्तर्भाव

घ. १३/५.५.४८/२७६/१ अगमाहिरचोदसपदण्यमज्झमाया आयारादिष्कारसगाइ परियम्म सुत्तपटमाणियोगचूलियाजो च तस्थत्तम्भाण गच्छति । ण अणियोगद्वारे तस्स समासे वा, तस्स पाहुट्ट-पाहुट्टाडि-वद्धत्तादो । ण पाहुट्टपाहुट्टे तस्समासे वा, तम्म पुठ्ठगयअवयवत्तादो । ण च परियम्मसुत्त-पटमाणियोग-चूलियाजा ष्कारस जगाड वा पुठ्ठगयावयवा । तदो ण ते तस्थ वि लय गच्छति । ण एम दोत्तो, अणियोगद्वारं तस्समासाण च अतम्भावादो । ण च अणियोगद्वारं तस्समासेहि पाहुट्टपाहुट्टावयवेहि चैव होदव्वमिदि णियमो अस्थि, विपण्डित्तेहाभावादो । अधवा, पडिवात्ति-समासे एदेसित्तम्भावा वत्तव्वो । पच्छानुपुव्वीए पुण विवचिखयाए पुट्टसमामे अतम्भाण गच्छंति ति वत्तव्वं । —प्रश्न—अगमाह्य, चौदह प्रतीर्णकाध्याय, आचार आदि ११ अंग, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग और चूलिका, इनका किस श्रुतज्ञानमें अन्तर्भाव होता है । प्रथमानुयोग या अनुयोगद्वारसमासमें तो इनका अन्तर्भाव हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों प्राभूतप्राभूत श्रुतज्ञानसे प्रतिबद्ध है । प्राभूतप्राभूत या प्राभूत-प्राभूतसमासमें भी इनका अन्तर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूर्वगतके अवयव हैं । परन्तु पञ्चिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, चूलिका और ११ अंग ये पूर्वगतके अवयव नहीं हैं । इसलिए इनका किसी भी श्रुतज्ञानके भेदमें अन्तर्भाव नहीं होता है । उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, अनुयोगद्वार और अनुयोगद्वारसमासमें इनका अन्तर्भाव होता है । अनुयोगद्वार और अनुयोगद्वारसमास प्राभूत-प्राभूतके अवयव होने चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि इसका कोई निषेध नहीं किया है । अथवा प्रतिपत्ति समास श्रुतज्ञानमें इनका अन्तर्भाव कहना चाहिए । परन्तु पश्चादानुपूर्विकी विवक्षा करनेपर इनका पूर्वसमास श्रुतज्ञानमें अन्तर्भाव होता है, यह कहना चाहिए ।

श्रुतज्ञान व्रत—इस व्रतकी विधि दो प्रकारसे वर्णन की गयी है— लघु व बृहद् ।

१ लघु विधि—१२ वर्ष व ८ माह पर्यन्त - सोलह पडिमाके, तीन तोजके, ४ चौथके, ५ पंचमीके, ६ छठके, ७ सप्तमीके, ८ अष्टमीके, ९ नवमीके, १० दशमीके, ११ एकादशीके, १२ द्वादशीके, १३ त्रयोदशीके, १४ चतुर्दशीके, पन्द्रह पूर्णिमाओंके और १५ अमावस्याओंके, इस प्रकार कुल १४८ उपवास करे । प्रत्येक उपवासके साथ १ पारणा आवश्यक है । कुल उपवास १४८ करे । तथा 'ओं ह्रीं द्वादशीगश्रुतज्ञानाय नमः' इस मन्त्रका त्रिकाल जाप करे । (किशन सिंह कृत क्रियाकोष), (व्रतविधान स/पृ ७७१) ।

२ बृहद् विधि—६ वर्ष ७ माह पर्यन्त निम्न प्रकार उपवास करे । मतिज्ञानके २८ पडिमाके २८ उपवास २८ पारणा, ग्यारह अंगोंके ११ एकादशियोंके ११ उपवास ११ पारणा, परिकर्मके २ दोजके २ उपवास २ पारणा, ८ सूत्रके ८ अष्टमियोंके ८ उपवास ८ पारणा, प्रथमानुपयोगका १ नवमीका १ उपवास १ पारणा, १४ पूर्वके १४ चतुर्दशियोंके १४ उपवास १४ पारणा, पाँच चूलिकाके ५

पचमियोंके ५ उपवास ५ पारणा; अत्रधिज्ञानके ६ पष्ठियोंके ६ उपवास ६ पारणा, मन पर्यय ज्ञानके २ चौथोंके २ उपवास २ पारणा, केवलज्ञानके १ दशमीका १ उपवास १ पारणा। इस प्रकार कुल १५८ उपवास करे। तथा 'ओ ह्रीं श्रुतज्ञानाय नम' इस मन्त्रका त्रिकाल जाप करे। (व्रत विधान स/१३२), (सुदृष्टि तर गिनी)।

श्रुत ज्ञानावरण कर्म—दे, ज्ञानावरण।

श्रुत ज्ञानी—दे श्रुतकेवली।

श्रुत पंचमी व्रत—पाँच वर्ष तक प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ला ५ को श्रुतावतारके उपलक्षमें 'ओ ह्रीं द्वादशांगश्रुतज्ञानाय नम' इस मन्त्रकी त्रिकाल जाप करे। (व्रत विधान स/पृ १०)।

श्रुत भावना—दे भावना/१।

श्रुत मूढ—दे मूढ।

श्रुतवाद—ध १३/५, ५, ५०/२७/१२ श्रुत द्विविध—अङ्गप्रविष्टमङ्ग-बाह्यमिति। तदुच्यते कथ्यते अनेन वचनकलापेनेति श्रुतवादो द्रव्य-श्रुतम्। सुदवादो त्ति गर्दं। =श्रुत दो प्रकारका है—अंग प्रविष्ट और अंगबाह्य। इसका कथन जिस वचन कलापके द्वारा किया जाता है वह द्रव्यश्रुत श्रुतवाद कहलाता है। इस प्रकार श्रुतवादका कथन किया।

श्रुतसागर—नन्दिस घ बलात्कार गणकी गुर्वावलीके अनुसार। (दे इतिहास) आप विद्यानन्द स २ के शिष्य तथा श्रीचन्द्रके गुरु थे। कृति—यशस्तिलक चम्पूकी टीका यशस्तिलकचन्द्रिका, तरवार्थवृत्ति (श्रुतसागरी) तरवत्रय प्रकाशिका (ज्ञानार्णवके गद्य भागकी टीका), प्राकृत व्युत्करण, जिनसहस्रनाम टीका, विक्रम-प्रबन्धकी टीका, औदार्यचिन्तामणि, तीर्थदीपक, श्रीपाल चरित, यशोधर चरित, महाभियेक टीका (प आशाधरके नित्यमहोद्योतकी टीका), श्रुतस्कन्ध पूजा, सिद्धचक्राष्टकपूजा, सिद्धभक्ति, बृहत् कथा-कोष, पट्ट प्राभूतकी टीका। व्रत कथाकोष। समय—महाभियेक टीका वि १५८२ में लिखी गयी है। तदनुसार इनका समय वि, १५-३०-१५९० (ई. १४७३-१५३३), (सभाष्य तरवार्थाधिगम/प्र १२ टिप्पण प्रेमोजी), (प वि/प्र ३५/A N Up), (प पु/प्र ६३ A N, Up) (का अ/प्र, ६७ A N, Up)—दे इतिहास/५/१३।

श्रुतस्कंध—दे, पूजापाठ।

श्रुतस्कंध व्रत—इस व्रतकी विधि उत्तम, मध्यम व जघन्यके भेद-से तीन प्रकारकी है—विधि—भाद्रपद कृ, १ से आश्विन कृ २ तक ३२ दिनमें एक उपवास एक पारणा क्रमसे १६ उपवास करे। मध्यम-विधि—भाद्रपद कृ ६ से शुक्ला १५ तक २० दिनमें उपरोक्त ही प्रकार १० उपवास करे। लघुविधि—भाद्रपद शुक्ला १ से आश्विन कृ १ तक १६ दिनोंमें उपरोक्त ही प्रकार ८ उपवास करे। तीनों ही विधियोंमें 'ओ ह्रीं श्रीजिनसुखोद्भूतस्याद्वादनादनयगभितद्वादशांग श्रुतज्ञानाय नम' इस मन्त्रका त्रिकाल जाप करे। (व्रत विधान स/७०), (किशनसिंह कृत क्रिया कोष)।

श्रुतावतार—१. भगवान् महावीरके पश्चात् केवली व श्रुतकेव-लियोंकी मूल परम्पराको ही श्रुतावतार नामसे कहा गया है।—दे इतिहास/४/१। २ आ. इन्द्रनन्द (ई श. १०-११) द्वारा रचित प्राकृत गाथाबद्ध भगवान् महावीरके निर्वाणसे ६८३ वर्ष पर्यन्तकी मूलसंघकी पट्टावली। ३ आ. श्रीधर (ई श १४) द्वारा रचित प्राकृत छन्दयुक्त ग्रन्थ।

श्रुतिगम्य—रा वा ४/४२/१५/२५८/२७ अनपेक्षितवृत्तिनिमित्त

श्रुति-मात्र-प्रापित श्रुतिगम्य। =अनपेक्षित रूपसे प्रवृत्तिमें कारण व श्रुतिमात्रसे बोधित श्रुतिगम्य है।

श्रुतिकल्याण व्रत—दे, कल्याणक व्रत।

श्रेढि—Arithematic and Geomatical progression,

श्रेणिक—य पु ७/७/श्लोक स पूर्व भव स, २ में खदीरसार नामक भील था। ३८६। पूर्व भवमें मीधर्म स्वर्गमें देव था (४०६) वर्तमान भवमें राजा कुणिकका पुत्र था (४१४) मगधदेशका राजा था। उज्जैनी राजधानी थी। पहले बौद्ध था, पीछे अपनी रानी चेलनाके उपदेश-से जैन हो गया था। और भगवान् महावीरका प्रथम भक्त बन गया था। जिनधर्मपर अपनी दृढ़ आस्थाके कारण इसे तीर्थंकर प्रकृति-का बन्ध हो गया था। इसके जीवनका अन्तिम भाग बहुत दुःखद बीता है, इसके पुत्रने इसे बन्दी बनाकर जेलमें डाल दिया था और उसके भयसे ही इसने आत्महत्या कर ली थी, जिसके कारण कि यह प्रथम नरकको प्राप्त हुआ। और वहाँसे आकर अगले युगमें प्रथम तीर्थंकर होगा। भगवान् वीरके अनुसार इसका समय बी नि. २० वर्ष से १० वर्ष पश्चात् तक माना जा सकता है। ई पू ५४६-५१६।

श्रेणी—Series (ज प/प्र १०८)।

श्रेणी—श्रेणी नाम पत्तिका है। इस शब्दका प्रयोग अनेक प्रकरणोंमें आता है। जैसे आकाश प्रदेशोंकी श्रेणी, राजसेनाकी १८ श्रेणियाँ, स्वर्ग व नरकके श्रेणीवद्ध विमान व बिल, शुक्लध्यान गत साधुकी उपशम व क्षपक श्रेणी, अन्तरोपनिधा व परम्परोपनिधा श्रेणी प्ररूपणा आदि। उपशम श्रेणीसे साधु नीचे गिर जाता है, पर क्षपक श्रेणीसे नहीं। वहाँ उसे नियमसे मुक्ति होती है।

१	श्रेणी सामान्य निर्देश
१	श्रेणी प्ररूपणाके भेद व भेदोंके लक्षण।
२	राजसेनाकी १८ श्रेणियोंका निर्देश।
३	आकाश प्रदेशोंकी श्रेणी निर्देश।
४	श्रेणिवद्ध विमान व बिल।
५	उपशम व क्षपक श्रेणीका लक्षण।
६	उपशम व क्षपक श्रेणीमें गुणरथान निर्देश।
*	अपूर्व कारण आदि गुणरथान। —दे वह वह नाम।
*	सभी गुणरथानोंमें आयाके अनुसार ही व्यय होनेका नियम। —दे मार्गणा।
*	श्रेणी आरोहणके समय आचार्यादि पद छूट जाते हैं। —दे साधु/६।
*	श्रेणी माटनेमें सहनन सम्बन्धी। —दे सहनन।
*	उपशम व क्षपक श्रेणीके स्वात्मत्व सम्बन्धी सत्
*	सख्या, क्षेत्र, पशान, भाज, अल्पवहुत्व रूप आठ प्ररूपणाएँ। —दे, वह वह नाम।
१	क्षपक श्रेणी निर्देश
*	चारित्रमोहका क्षपण विधान। —दे क्षय।
१	अबद्धायुक्त को ही क्षपक श्रेणीकी सम्भावना।
२	क्षायिक सम्यग्दृष्टि ही माट सकता है।
३	क्षपकोंकी सख्या उपशमकोसे दुगुनी है
*	क्षपक श्रेणीमें मरण सम्भव नहीं। —दे मरण/३।

- १ शपक श्रेणीमें तट्टा मुक्तिका नियम ।
—दे अर्वाकरण/४ ।
- २ शपक श्रेणीमें बाहुत्सर्क। प्रदेण निर्गा ही होती है ।
—दे निर्करा/२/२ ।
- ३ उपशम श्रेणी निर्देश
 - ४ चाग्नि मोहका उपशमन विधान । —दे उपशम ।
 - ५ यदि मरण न हो तो ११वें गुणस्थान अवश्य प्राप्त होता है । —दे अर्वाकरण/५ ।
 - ६ उपशम व शायिक दोनों सम्यक्त्वम सम्भर ह
 - ७ उपशम श्रेणीसे नीचे गिरनेका नियम ।
 - ८ उपशमन कषायमे गिन्नेका कारण व विधान ।
 - ९ उपशम श्रेणीमें मरण सम्भर है, मरकर देण ही होता है । —दे मरण/३ ।
 - १० द्वितीयोपशम सत्या उसे नामान्ग गुणस्थानकी प्राप्ति सम्भर्या व मन । —दे सासादन/२ ।
 - ११ गिरकर अमगन होनेके अर्थ है ।
 - १२ अधिकमे अधिक उपशम श्रेणी माननेकी सीमा । —दे मयम/२ ।
 - १३ पून उन्नी दिन योपशममे श्रेणी नहीं माट सकता है ।
 - १४ गिर जानेपर भी अन्तमूर्त पर्यन्त द्वितीयोपशम सम्भर व रहता है । —दे मरण/३ ।

१ श्रेणी नामान्य निर्देश

१ श्रेणी प्ररूपणार्क भेद व भेदार्क लक्षण

१/१/१-१/५ २१२ व हो/३५० तिमि दुविधा सेटिपहणना ज्ञानावधिना व परीरविधा १०५० उपर गिरकर धोवमहुत्त-परिष्कारादिसे सा रररागविधा । उक्त दृगुण चदगुणादि परिष्कारादिसे परीरविधा । —श्रेणीप्ररूपणा दो प्रकार की है— १) परीरविधा और परम्परोपविधा । २) (ध १०/१२, १२/१३/१) जहाँ पर गिरकर उपशमरररी परीरविधा की जाती है वह परम्परोपविधा की जाती है । जहाँ पर दृगुणर और चतुर्गुणर परीरविधा की जाती है वह परम्परोपविधा रहताती है ।

गणरायमच्च तलवर-पुरोहिया दप्पिया महामत्ता । अटठारह सेणीओ पयाइणामीलिया होंति । ३५ = घोडा, हाथी, रथ, इनके अधिपति, सेनापति, मन्त्री, श्रेष्ठी, दण्डपति, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, महार, गणराज, अमात्य, तलवर, पुरोहित, स्वाभिमानी, महामात्य और पैदल सेना इस तरह सब मिलाकर अठारह श्रेणियाँ होती हैं । १३७-३८।

२ आकाश प्रदेशोंका श्रेणी-निर्देश

म मि १/२/२६/१८३/७ लोकमध्यादारम्य ऊर्ध्वमधस्तिर्यक् च आकाश-प्रदेशानां क्रमसन्निविष्टानां पङ्क्ति श्रेणी इत्युच्यते । —लोकमध्यसे लेकर ऊपर नीचे और तिरछे क्रमसे स्थित आकाश प्रदेशोंकी पङ्क्ति-श्रेणी कहते हैं । (रा. वा. १/२/२६/१/१३७/१६), (ध. १/१.१.६०/३००/४) ।

ध १/४.१.४५/२२३/३ पटसूत्रवच्चर्मावयवबद्धानुपूर्विकोर्ध्वधस्तिर्य-व्यवस्थिता आकाशप्रदेशपङ्क्तय श्रेणय । = वस्त्र तन्तुके समान अथवा चर्मके अवयवके समान अनुक्रमसे ऊपर नीचे और तिरछे रूपसे व्यवस्थित आकाश प्रदेशोंकी पङ्क्तियाँ श्रेणियाँ कहलाती हैं ।

४. श्रेणिवद् विमान व बिल

द्र.स १/१/११६/१ विदिक्चतुष्टये प्रतिदिश पङ्क्तिरूपेण यानि विमानि (विमानानि वा) तेषामत्र श्रेणीबद्धसङ्गा । = चारों विदिशाओंमें-से प्रत्येक विदिशामें पङ्क्ति रूप जो बिल (अथवा विमान) हैं उनकी श्रेणीबद्ध सङ्गा है ।

त्रि सा १/५, टोडरमल/४७६ पटल-पटल प्रति तिस इन्द्रक विमानकी पूर्वादिक् च्यारि दिशानिधिषै जे पङ्क्तिबद्ध विमान (अथवा बिल) पाईए तिनका नाम श्रेणीबद्ध विमान है ।

५. उपशम व क्षपक श्रेणीका लक्षण

रा वा १/६/१/१८/४६०/१ यत्र मोहनीय कर्मोपशमयचारमा आरोहति सापशमकश्रेणी । यत्र तरक्षयमुपगमयन्नुद्गच्छति सा क्षपकश्रेणी । —जहाँ मोहनीयकर्मका उपशम करता हुआ आरमा आगे बढ़ता है वह उपशम श्रेणी है, और जहाँ क्षय करता हुआ आगे जाता है वह क्षपक श्रेणी है ।

६ उपशम व क्षपक श्रेणीमें गुणस्थान निर्देश

रा वा १/६/१/१८/४६०/७ इत ऊर्ध्व गुणस्थानानां चतुर्णां द्वे श्रेण्यो भवत —उपशमकश्रेणी क्षपकश्रेणी चेति । = इसके (अप्रमत्त सयतसे) आगेके चार गुणस्थानोंकी दो श्रेणियाँ हो जाती हैं—उपशमश्रेणी, और क्षपकश्रेणी । (गो क १/जी प्र ३३६/४८७/८) ।

२ क्षपक श्रेणी निर्देश

१ अत्रद्यायुष्कको ही क्षपक श्रेणीकी सम्भावना

ध १/४.२ १३, ६०/११०/८ यद्वाउजाण खगसेडिमारुणाभावाद् । यद्वायुष्ण जीवोंक क्षपक श्रेणियर आरोहण सम्भव नहीं है ।

गो क १/जी प्र ३३६/१८७/८ चतुर्गुणस्थानेष्वेकत्र क्षपितस्वाशरकतिर्य-न्देवायुर्वा चावद्वायुष्णत्वेनामरवात् । = जिनमे असयतादिक गुण-स्थानमेंसे किसी एकमें (प्रतियोगिता) क्षय किया है, और देव, तिर्यक और नरवायुजा जिसके मरव न हों, और जिनके आयुष्मन्ध नहीं रहता वे वही क्षपक श्रेणियाँ मौहता हैं ।

२ क्षायिक मय्यग्दष्टि ही मॉड मक्ता है

ध १/४.१ १६/१८०/६ सम्यगरापेभया तु मयकस्य क्षायितो वा भाव दर्शनामोहनोपमर्माविधाय क्षपकश्रेण्यारोहणानुपपत्ते । = मय्यक-

दर्शनकी अपेक्षा तो क्षपकके क्षायिकभाव होता है, क्योंकि, जिम्ने दर्शनमोहनीयका क्षय नहीं किया है वह क्षपक श्रेणीपर नहीं चढ़ सकता है। (घ. १/१.१.१८/१८८/२)।

३ क्षपकोंकी संख्या उपशमकोंसे दुगुनी है

ध. १/१.१.२४६/३२३/१ णाणवेदादिसञ्चवियप्येसु उवसमसेडि चटत-जीवेहितो खवपसेडि चटतजीवा दुगुणा त्ति आडरिओवदेसादो। =ज्ञानवेदादि सर्व विकल्पोंमें उपशम श्रेणीपर चढ़ने वाले जीवोंसे क्षपक श्रेणीपर चढ़नेवाले जीव दुगुने होते हैं, इस प्रकार आचार्योंका उपदेश पाया जाता है।

३. उपशम श्रेणी निर्देश

१ उपशम व क्षायिक दोनों सम्यक्त्वमें सम्भव हैं

ध. १/१.१.१६/१८२/७ उपशमकस्यौपशमिक. क्षायिको वा भाव, दर्शनमोहोपशमक्षयाभ्या विनोपशमश्रेण्यारोहणानुपलम्भात्। =उपशमकके औपशमिक या क्षायिक भाव होता है, क्योंकि जिसने दर्शनमोहनीयका उपशम अथवा क्षय नहीं किया है, वह उपशम श्रेणीपर नहीं चढ़ सकता।

ध. १/१.१.१८/१८८/३ उपशमक औपशमिकगुण क्षायिकगुणो वा द्वाभ्यामपि सम्भवन्त्याभ्यामुपशमश्रेण्यारोहणसम्भवात्। =उपशम श्रेणी वाला औपशमिक तथा क्षायिक इन दोनों भावोंसे युक्त है, क्योंकि दोनों ही सम्यक्त्वोंसे उपशम श्रेणीका चढ़ना सम्भव है।

२. उपशम श्रेणीसे नीचे गिरनेका नियम

रा वा १०/१/३/६४०/८ उपशान्तकपाय आयुष क्षयात् त्रियते। अथवा पुनरपि कपायानुदीरयन् प्रतिनिवर्त्तते। =उपशान्त कपायका आयुके क्षयमें मरण हो सकता है। अथवा फिर कपायो-की उदीरणा होनेसे नीचे गिर जाता है।

ध. १/१.१.८.१४/३१७/६ ओवसमियं चारित्त ण मोक्खकारणं, अतो-मुट्टककालादो उवरि णिच्चरण मोहोदयणिक्खणत्तादो। =औप-शमिक चारित्र मोक्षका कारण नहीं है, क्योंकि, अन्तर्मुहूर्त कालसे ऊपर निश्चयत मोहके उदयका कारण होता है।

ल. सा/सू व जी प्र/३०८/३८४ अतोमुट्टकमेत्त उवसतकसायवीय-रायद्धा।... १३०४। तत' परं कपायाणां नियमेनोदयासम्भवात्। द्रव्यकर्मादये सति सकलेशपरिणामलक्षणभावकर्मण तयो कार्य-कारणभावप्रसिद्ध। =उपशान्त कपाय वीतराग ग्यारहों गुण-स्थानका काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए तत्पश्चात् द्रव्यकर्मके उदयके निमित्तसे संवत्शेख रूप भाव प्रगट होते हैं।

३ उपशान्त कपायसे गिरनेका कारण व मार्ग

ध. १/१.१.८.१४/३१७/८ उवसतकसायस्स पडिवादो दुविहो, भव-कखयणिक्खणो उवसामणद्धाखयणिक्खणो चेदि। तत्थ भवकवण पडिदिदस्स मव्वाणि करणाणि देवेसुप्पणपहमसमप चैव उग्गाडि-दाणि। उजमतो अद्धाखणपदतो लोभे चैव पडिददि, सुहुम-सांपराइयगुणमर्गत्तण गुणंतरगमणाभावा। =उपशान्त कपायका वह प्रतिपात दो प्रकार है—भवक्षयनिबन्धन और उपशमनकाल-क्षयनिबन्धन। इनमें भवक्षयसे प्रतिपातको प्राप्त हुए जीवके देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही बन्ध, (गिरकर असयत गुण-स्थानको प्राप्त होता है। —दे० मरण/३) उपशान्त कपाय कालके क्षयसे प्रतिपातको प्राप्त होने वाला उपशान्त कपाय जीव लोभमें अर्थात् सूक्ष्म साम्प्रदायिक गुणस्थानमें गिरता है, क्योंकि सूक्ष्म साम्प्रदायिक गुणस्थानको छोड़कर अन्य गुणस्थानोंमें जानेका अभाव है।

गो क/जो प्र/४४०/७२३/६ उपशान्तकपाये आ तच्चरममयं क्रमणावतरन् अप्रमत्तगुणस्थान गत। प्रमत्ताप्रमत्तपरावृत्ति-महत्साणि कुर्वन् सवनेशवशेन प्रत्याख्यानाउपशमोदयादशमयतो भूत्वा पुन अप्रत्याख्यानाउपशमोदयादसयतो भूत्वा च। =उपशान्त कपायके अन्तमय पर्यन्त अनुक्रमसे उत्तर प्रमत्त गुणस्थानको प्राप्त हुआ। तहाँ अप्रमत्तसे प्रमत्तमें हज़ारों बार गमनागमन कर, पीछे संकलेश वग प्रत्याख्यानावरण कर्मके उदयमें देशमयत होकर अथवा अप्रत्याख्यानाके उदयमें असयत होकर।

ल. सा./जो प्र/३०८.३१०/३६० उपशान्तकपायपरिणामस्य द्विविध प्रतिपात भवक्षयहेतु उपशमनकालक्षयनिमित्तकश्चेति। आयु-क्षये सति उपशान्तकपायकाले मृत्वा देवासयतगुणस्थाने प्रतिपतति। एव प्रतिपतिते तस्मिन्नेगमयतप्रथममयमे सर्वाण्यपि बन्धनो-दीरणासक्रमणादीनि कारणानि नियमेनाद्वाटितानि स्वस्वस्वेषण प्रवृत्तानि भवन्ति। यथाख्याताचारित्रिविशुद्धिवलेनोपशान्तकपाय उपशमिताना तेषा पुनर्देवासयते सवनेशवशेनानुपशमनरूपो-द्घाटनसम्भवात् १३०८। आयुषि मर्यद्वा क्षयेऽन्तर्मुहूर्तमात्रोपशान्त-कपायगुणस्थानकालावसाने सति प्रतिपतन् स उपशान्तकपाय प्रथम नियमेन सूक्ष्मसांप्रदायगुणस्थाने प्रतिपतति। ततोऽन्तरम-निवृत्तिकरणगुणस्थाने प्रतिपतति। तदन्वपूर्वकरणगुणस्थाने प्रति-पतति। तत परचादप्रमत्तगुणस्थाने अध प्रमत्तकरणपरिणामे प्रतिपतति। एवमव प्रवृत्तकरणपर्यन्तमनेनैव क्रमेण नान्यथेति निश्चेतव्यम्। =उपशान्त कपायसे प्रतिपात दो प्रकार है—एक आयु क्षयमें, दूसरा कालक्षयमें। १ उपशान्त कपायके कालमें प्रथमादि अन्त पर्यन्त समयोंमें जहाँ तहाँ आयुके विनाशसे मरकर देव पर्याय सम्बन्धी अमयत गुणस्थानमें गिरता है। तहाँ असयत-का प्रथम समयमें नियमने बन्ध, उदीरणा, संक्रमण आदि समस्त करण उपाडता है। अपने-अपने स्वरूपमें प्रगट वर्ते है। यथाख्यात विशुद्धिके बलने उपशान्त कपाय गुणस्थानमें जो उपशम किये थे, उनका अमयत गुणस्थानमें मकलेशके बलसे अनुपशमन रूप उघा-डना सम्भव है १३०८। २ और आयुके शेष रहनेपर बालक्षयमें अन्तर्मुहूर्त मात्र उपशान्त कपायका काल समाप्त होनेपर वह उप-शमक गिरकर नियमने सूक्ष्मसाम्प्रदाय गुणस्थानको प्राप्त होता है। फिर पीछे अनिवृत्तिकरणको प्राप्त होता है। और इसके पश्चात् क्रमसे अपूर्वकरण, अध प्रवृत्तकरण रूप अप्रमत्तको प्राप्त होता है। अब प्रवृत्तकरण तक गिरनेका यही निश्चित क्रम है। [आगे यदि विशुद्धि हो ता ऊपरके गुणस्थानमें चढ़ता है, यदि सकलेशतायुक्त हो तो नीचेके गुणस्थानको प्राप्त होता है। कोई नियम नहीं है। (दे० सम्यग्दर्शन/१४/३/३)]।

क्रमश —

ल. सा/जो प्र/३१०-३४४ का भावार्थ—संश्लेष व विशुद्धि उपशान्त कपायसे गिरनेमें कारण नहीं है क्वाकि वहाँ परिणाम अस्थिति विशुद्धता लिये है। वहाँसे गिरनेमें कारण तो आयु व कालक्षय ही है १३१०। इन १०,६,८ व ७ गुणस्थानोंमें पृथक्-पृथक् क्रिया-विधान उत्तरते समग प्रतिस्थान आगेहकती अपेक्षा दूनी अवस्थिति वा दूना अनुभाग हो है। स्थिति बन्धापरमरणकी बजाय स्थिति-बन्धोत्तरण ही है। अर्थात् आरौहणके आठ ज्विकारोंसे उलटा क्रम है।

क्रमश —

ल. सा/जो प्र/३४४/४३६/१ विरताविरतगुणस्थानाभिमुख मत् सवनेशवशेन प्राप्तनगुणश्रेण्यायामात् सख्यातगुण गुणश्रेण्यायाम करोति पुन म एव यदि परावृत्त्योपशमकक्षपकश्रेण्या-हणाभिमुखो भवति तदा विशुद्धिवशेन प्राप्तनगुणश्रेण्यायामात् नरवातगुणहान गुणश्रेण्यायाम गतीति। =उपशमक जीव गिरकर यदि विरताविरत

गणना करनेसे यथा लाभ १४४० इन्में जो श्रोता गाय और इसके समान है, वे उत्तम कहलाते हैं, जो मिट्टी और तोताके समान हे वे मध्यम कहलाते हैं। बाकीके सब श्रोता अयम माने गये हैं १४४१।

४ सच्चे श्रोताका स्वरूप

क पा १/१/७४ ण च सिस्सेसु सम्मत्तित्थित्तमसिद्ध, अहेदुविट्ठिवाद-मुण्णणहाणुववत्तीदो तेसि तदत्थित्तमिद्धीदो। = शिष्योंमें सम्मत्क श्रद्धाका अस्तित्व अस्ति है सो बात नहीं है, क्योंकि अहेतुवाद ऐसे दृष्टिवाद अगका सुनना सम्भवत्वके बिना बन नहीं सकता है। इसलिए उनमें सम्भवत्वका अस्तित्व सिद्ध है।

घ १२/४ २.१३.६६/४१४/१० धारणगहणसमस्याण चैव सजजाण विण-यालकाराण ववखाण कादव्वमिदि भणिव होदि। = धारण व अर्थग्रहणमें समर्थ तथा विनयसे अलकृत ही सयमीजनोके लिए व्याख्या करना चाहिए, यह अभिप्राय है।

ग, पु १/१/४४ १४६ श्रोता शुभ्रपताद्ये स्वर्गुणैर्युक्त प्रशस्यते। १४६। शुभ्रपा श्रवणं चैव ग्रहण धारण तथा। स्मृत्यूहापोहनिर्णीतो श्रोतुरष्टौ गुणात् त्रिदु १४६। = जो श्रोता शुभ्रपा आदि गुणोंसे युक्त होता है वही प्रशसनीय माना जाता है १४६। शुभ्रपा, श्रवण, ग्रहण, धारण, स्मृति, ऊह, अपोह और निर्णीत (तत्त्वभिनिवेश सा, घ) ये श्रोताओंके आठ गुण जानने चाहिए १४६। (सा. घ १/१/७)। पु सि उ/७४ अष्टावनिष्टदुस्तरदुरितायतानान्यमूनि परिवर्ज्य। जिनधर्मदेशनाया भवन्ति शुद्धा धिय ७४। = दुखदायक, दुस्तर और पापोंके स्थान इन आठ पदार्थोंको परित्याग करके निर्मल बुद्धिवाले पुरुष जिनधर्मके उपदेशके पात्र होते हैं।

आ अतु ७ भव्य किं कुशल ममेति विमृशत् बु खाद् भृश भीतवाद्, सौख्यैषी श्रवणादियुद्धिविभव श्रुत्वा विचार्य स्फुटम्। धर्म शर्मकर दयागुणमय युक्त्यागमाभ्या स्थित गृह्यत् धर्मकथाभूतावधिकृत शास्यो निरस्ताग्रह ७। = जो भव्य है, मेरे लिए हितकारक मार्ग कौन सा है इसका विचार करनेवाला है, दु खसे अत्यन्त डरा हुआ है, यथार्थ सुखका अभिलाषी है, श्रवण आदि रूप बुद्धिसे सम्पन्न है, तथा उपदेशको सुनकर और उसके विषयमें स्पष्टतासे विचार करके जो युक्ति व आगमसे सिद्ध ऐसे सुखकारक दयामय धर्मको ग्रहण करनेवाला है, ऐसे दुराग्रहसे रहित शिष्य धर्मकथाके सुननेका अधिकारी माना गया है ७।

सा घ २/१६ यावज्जीवमिति त्यक्त्वा, महापापानि शुद्धधी। जिन-धर्मश्रुतेर्यग्य स्यात्कृतोपनयो द्विज १६। = अनन्त मसारके कारण-भूत मद्यपानादिक पापोंको जीवनपर्यन्तके लिए छोड़कर, सम्भवत्वके द्वारा विशुद्ध बुद्धिवाला और किया गया है यज्ञोपवीत सत्कार जिसका ऐसा ब्राह्मण, वैश्य व क्षत्रिय जेनधर्मको सुननेका अधिकारी होता है १६।

न्या दी, १/३ ६ ८०/१२४/४ सदुपदेशात्प्राक्तनमज्ञानस्वभाव हन्तुमुपरि-तनयमर्थज्ञानस्वभाव स्वीकर्तुं च य समर्थ आत्मा स एव शास्त्रा-धिकारीति। = समीचीन उपदेशसे पहलेके अज्ञान स्वभावको नाश करने और आगेके तत्त्वज्ञान स्वभावको प्राप्त करनेमें जो समर्थ आत्मा है वही शास्त्रका अधिकारी है।

५ उपदेशके अयोग्य पात्र

घ १२/४.२ १३.६६/गा ४/४१४ बुद्धिविहीने श्रोतरि वषट्करमनर्थक भवति पुमात्। नेत्रविहीने भर्तरि विलासलावण्यमस्त्रोणाम् ४। = जिन प्रकार पत्तके अन्धा होनेपर स्त्रियोका विलास व सुन्दरता व्यर्थ है, इसी प्रकार श्रोताके बुद्धि होनेपर पुरुषोंका वक्तापना व्यर्थ है।

सा घ १/६ कुर्मस्थोऽपि सद्गर्भं लघुर्मतया द्विपत्। भद्र म देशयो दवरवात्राभद्रस्तद्विपर्यायत् ६। = मिथ्यामतमें स्थित जीव

मिथ्यात्वकी मन्दतामे जनधर्ममे द्वेष न करनेवाला व्यक्ति भद्र है वह उपदेशका पात्र है, उसने विपरीत अभद्र है तथा उपदेश पानेका अधिकारी नहीं है ६।

६. अनिष्णातको सिद्धान्त शास्त्र सुनना योग्य नहीं

भ आ वि ४/६१/६७५ पर उद्भूत—सव्वेण वि जिणवयण सोदव्व सट्ठि-देण पुरिसेण। छेदमुदस्स ह् अस्थो ण हादि सव्वेण णादव्वो ४/६१। = श्रद्धावात् सर्व पुरुष जिनवचन सुन सकते हैं, परन्तु प्रायश्चित्त शास्त्रका अर्थ सर्व लोगोंको जाननेका अधिकार नहीं है।

दे श्रावक/४/६ गणधर प्रत्येक बुद्ध आदि द्वारा रचित प्रायश्चित्त शास्त्र-का देशवतीको पढ़नेका अधिकार नहीं है।

घ १/१.१.२/१०६/३ विवखेवणी णाम क्हा जिणवयणमयाणत्तस्स ण कहेयव्वा। = जिसका जिन वचनमें प्रवेश नहीं है, ऐसे पुरुषको विशेषणी कथाका उपदेश नहीं करना चाहिए।

सा घ ७/५० स्यान्नाधिनारी सिद्धान्त-रहस्याध्ययनेऽपि च ५०। = सिद्धान्त शास्त्र और प्रायश्चित्त शास्त्रोंके अध्ययन करनेके विषयमें श्रावकको अधिकार नहीं है।

७ निष्णातको सर्वशास्त्र पढ़ने योग्य है

घ १/१.२/१०६/५ गहिद-समणस्स तव सील-णियम जुत्तस्स पच्छा विवखेवणी क्हा कहेयव्वा। = जिसने स्व समयको जान लिया है जा तप, शील और नियमसे युक्त है, ऐसे पुरुषको ही परचाव विशेषणी कथाका (भी) उपदेश देना चाहिए।

सा घ १/२१ तत्त्वार्थ प्रतिपद्य तीर्थकथनादादाय देशव्रत, तद्दीक्षाप्र-धृतापराजितमहामन्त्रोऽस्तदुर्व्वत। आद्र पीर्वमथार्थसग्रहमधी-र्याधीतशास्त्रान्तर, पर्वान्ते प्रतिमासमाधिमुपयन्, धन्यो निहन्य-हमी २१। = धर्माचार्य या गृहस्थाचार्यके उपदेशसे सातों तत्त्वोंको ग्रहणकर, एकदेशव्रतकी दीक्षाके पहले धारण किया है महामन्त्र जिसने ऐसा छोड़ दिया है मिथ्यादेवीका आराधन जिसने, ऐसा द्वादशाग सम्बन्धी और चतुर्दशपूर्व सम्बन्धी शास्त्रोंको पढ़कर, पढ़े है न्याय आदिक शास्त्र जिसने ऐसा पर्वके दिन प्रतिमायोगको धारण करनेवाला पुण्यात्मा द्रव्य व भाव पापोंको नष्ट करता है २१।

८ शास्त्र श्रवणमें फलेच्छाका निषेध

म पु १/१४४ श्रोतान चहिक किंचित्फल वाच्छेत्वाश्रुती। नेच्छेद्भक्ता च सत्कारधनभेजसत्क्रिया १४४। = श्रोताओंको शास्त्र सुननेके बदले किसी सामारिक फलकी चाह नहीं करनी चाहिए, इसी प्रकार वक्ता-को भी श्रोताओंसे सत्कार, धन, औपधि और आश्रय (घर) आदि की इच्छा नहीं करनी चाहिए।

श्रोत्र इन्द्रिय—दे इन्द्रिय/१।

श्लक्ष्णकूला—शिवरी पर्वतस्थ एक कूट व तन्निवासी एक देव।
—दे लोक/७।

श्लेष—औदारिक शरीरमें श्लेष (रफ) का निर्देश।
—दे औदारिक/१।

श्लेष संवन्ध—प ख १/२/६६/सू ४३/४१—जो सो मल्लिसवधो णाम तस्स इमो णिद्धेसो—जहा कट्ट-जदूण अण्णणससिलेसिदाणं यवो नगरदि सा सत्तो मल्लिसवधो णाम ४३। = जो मश्लेष बन्ध है उमका यह निर्देश है—जैसे परस्पर सन्धेपत्तों प्राप्त हुए गठ और लावना बन्ध होता है वह सय मश्लेषबन्ध है ४३।

ग वा ४/२/६/१८८/३ उतुत्ताप्रदिमश्लेषणव मश्लेषबन्ध। = लाव काठ आदिका मश्लेष बन्ध है।

घ १२/६.६ ३६/८/६ रज्जु-बन्ध कट्टादीहि विणा अनीवणवसेसेहि विणा जा चिक्खग-अचिक्खगद्ववाण चिग्गद्ववाण वा परात्परेण मधो

श्लोक वार्तिक

सो स सिनेमवधा णाम । = रस्ती, वस्त्र और ऋषि आदिकके बिना तथा अन्लीवणविशेषके बिना जा चिक्कण और अचिक्कण द्रव्योंका अथवा चिक्कण द्रव्योंका पररपर बध होता है वह सश्लेषवध कहलाता है ।

स सा/ता वृ/१०/६६/११ क्षीरनीरमरलेपस्तथा । = दूध और जलका परस्पर सम्बन्ध मरनेप है ।

श्लोक वार्तिक—आ उमास्वामी कृत तत्त्वार्थसूत्रकी आ विद्यानन्द (ई ७३५-८०) कृत विस्तृत टीका है ।

श्लोहित—एक ग्रह—दे ग्रह ।

श्वस्ना—भरत क्षेत्रस्थ आर्य खण्डकी एक नदी—दे मनुष्य/४ ।

श्वस्त्रा धारणा—दे. गायु ।

श्वसोच्छ्वास—१—दे. उच्छ्वास, २ कालका एक प्रमाण विशेष । अपरनाम उच्छ्वास वा नि श्वास ।—दे गणित/II/१ ।

श्वेतकुमार—वैराट राजाका पुत्र था । भीष्म द्वारा युद्धमें मारा गया था । (वा पु/१६/१६१-१६६) ।

श्वेतकेतु—विजयार्थकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर ।

श्वेतपंचमी—आषाढ, कार्तिक व फाल्गुन, इन तीनोंमें—से किसी भी मासमें प्रारम्भ करके ६५ महीनों तक बराबर प्रत्येक मास शु ५ का उपवास करे । तथा नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप करे । (वसुनन्दि श्रावकाचार/३५३-३६२), (धर्मपरीक्षा/२०/१४), (ब्रत-विधान समग्र/पृ ८८) ।

श्वेतवाहन—वम्पा नगरीका राजा था । दीक्षा धारण कर एक मासका उपवास किया । चर्यामें 'मेरे पुत्रने गृहस्थाको मेरे लिए आहारदान करनेको मना किया है' ऐसा सुनकर वापस लौट आये । श्रेणिक महाराज द्वारा शाका निवारण कर दिये जाने पर इनका रोप दूर हुआ । अनन्तर केवलज्ञान प्राप्त किया । (दे० म पु/७६/५-२६) ।

श्वेताम्बर—दिगम्बर मान्यताके अनुसार भगवान् वीरके पश्चात् मूल मध दिगम्बर ही था । पीछे कुछ शिथिलाचारी साधुओंने श्वेताम्बर मधकी स्थापना की । श्वेताम्बर मान्यताके अनुसार जिन कल्प व स्थविर कल्प दोनों ही प्रकारके मध विद्यमान थे । जन्तु स्वामीके पश्चात् काल प्रभावसे जिनकल्पका विच्छेद हो गया और स्थविर कल्प ही जैप रह गया । पीछे शिवभूति नामक एक गा० जिनकल्पके पुनरावर्तनके उद्देश्यसे नग्न हो गया । उसके द्वारा ही दिगम्बर मतका प्रचार हुआ । श्वेताम्बरमें—से द्वाद्विधा मतकी उत्पत्तिके विषयमें दार्ढ्य ही सम्प्रदाय सहमत है ।

१	श्वेताम्बरके अनुसार दिगम्बर मतकी उत्पत्ति ।
	१ द्विविध कल्प निर्देश ।
	२ जिन कल्पका विच्छेद ।
	३ उपकरण व उनकी सार्थकता ।
	४ दिगम्बर मत प्रवर्तक शिवभूति मुनिका परिचय ।
	५ शिवभूति द्वारा दिगम्बर मतकी उत्पत्ति ।
१०	द्वाद्विधा पन्थ ।
	१ दिगम्बरके अनुसार उत्पत्ति ।
	२ श्वेताम्बरके अनुसार उत्पत्ति ।
	३ स्वरूप ।

१ श्वेताम्बर मतका स्वरूप

स सि./८/१/५ समग्रन्थ निर्ग्रन्थ । केवली कवलाहारी । सी सिध्यति । एवमित्यादि विपर्यय । = समग्रन्थको निर्ग्रन्थ मानना, केवलीको कवलाहारी मानना और सी सिद्ध होती है इत्यादि मानना विपरीत मिथ्यादर्शन है । (रा वा/८/१/२८/६४/२०), (त सा/१/६/६) ।

द. सा/पू/१३-१४ तेन कृतं मतमेतत् स्त्रीणाम् अस्ति तद्भवे मोक्ष । केवलज्ञानिनां पुन अट्टवत्खाण (१) तथा रोग । १। अम्बरसहित अपि यति सिद्धयति वीरस्य गर्भाचारत्वम् । परगलिङ्गपि च मुक्तिं प्राप्नुकभोज्य च सर्वत्र । १४। = उसने (आचार्य जिनचन्द्रने) यह मत चलाया कि स्त्रियोंको तद्भवमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है । केवलज्ञानी भोजन करते हैं तथा उन्हें रोग भी होता है । १३। वस्त्रधारी तथा अन्य लिंग वाले भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं । भगवान् वीरके गर्भका संचार हुआ था । अर्थात् पहले एक ब्राह्मणीके गर्भमें आये और पीछे क्षत्रियाणीके गर्भमें चले गये । मुनिजिन किसीके घर भी प्रासुक भोजन कर सकते हैं ।

द पा/टी/११/११/११ श्वेतवासस सर्वत्र भोजन गृहन्ति. प्रासुक मांसभक्षिणा गृहे दोषो नास्तीति वर्णलोप कृत । = श्वेताम्बर साधु सर्वत्र भोजन करना उचित मानते हैं । उनकी समझमें मांस भक्षकोंके यहाँ भी प्रासुक भोजन करनेमें दोष नहीं है ।

गो जी/जी/प्र/१६ इन्द्र श्वेताम्बरगुरु तदादय संशयितमिध्यादृष्टय । = इन्द्र श्वेताम्बरकोका गुरु था । उनको आदि लेकर संशयित मिथ्यादृष्टि है ।

द सा/प्र/५० प्रेमीजी—दर्शनसार ग्रन्थमें तथा गोममतसारकी टीकामें जो श्वेताम्बरोंकी गणना सांशयिक मिथ्यादृष्टियोंमें की सो ठीक नहीं है । वास्तवमें उनकी गणना विपरीत मतमें हो सकता है ऐसा उपरोक्त सर्वाथिसिद्धिके उद्धरणसे स्पष्ट है ।

२. दिगम्बरके अनुसार श्वेताम्बर मतकी उत्पत्ति

दिगम्बर मतके अनुसार श्वेताम्बर मतकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके सम्बन्धमें ही नीचे दो कथाएँ दी जाती हैं—

द सा/पू/११-१२ पटत्रिशत्सु वर्षशते, विक्रमराज्यस्य मरणप्राप्तस्य । सौराष्ट्रे ब्रह्मभ्याम् उत्पन्न सितपट मध । ११। श्री भद्रबाहुगणिन शिष्यो नाम्नो शान्ति आचार्य । तस्य च शिष्यो इष्टो जिनचन्द्रो मन्दचारित्रम् । १२। तेन कृतमेतत् । १३। = इसी बातको और भी विस्तृत रूपसे इन्होंने देवसेनाचार्यने अपने भावसंग्रह नामक ग्रन्थमें एक कथाके रूपमें दिया है । उसका सक्षिप्त सार निम्न है—

१	श्वेताम्बर मतका स्वरूप ।
२	दिगम्बरके अनुसार श्वेताम्बर मतकी उत्पत्ति ।
३	अर्ध फाल्गुन सप्तकी उत्पत्ति ।
४	श्वेताम्बरके द्विविध गण्ड ।
५	अर्ध फाल्गुन व श्वेताम्बर त्रिपयक सम्बन्ध ।
६	प्रवर्तक त्रिपयक सम्बन्ध ।
७	उत्पत्तिकाल विषयक सम्बन्ध ।
८	दिगम्बर मतकी प्राचीनता ।

भावसंग्रह/५२-७५ विक्रम सवत् १३६ में सौराष्ट्र देशके वल्लभीपुर नगरमें श्वेताम्बर सघ उत्पन्न हुआ। इन सघके प्रवर्तक भद्रबाहु गणी जी एक निमित्तज्ञानी थे (पचम श्रुतकेवलीसे भिन्न थे) उनके शिष्य शान्त्याचार्य, तथा उनके भी शिष्य जिनचन्द्र थे। उज्जैनी नगरीमें १२ वर्षीय दुर्भिक्षके सम्बन्धमें आचार्य भद्रबाहुकी भविष्य-वाणी सुनकर सर्व आचार्य अपने-अपने सघको लेकर वहाँसे विहार कर गये। १३-१५। भद्रबाहुके शिष्य शान्ति नामके आचार्य सौराष्ट्र देशके वल्लभीपुर नगरमें आये। १६। परन्तु वहाँ भी भारी दुष्काल पडा। १७। परिस्थितिबश सिंह वृत्ति खाड्ग मधुओने वस्त्र, पात्र आदि धारण कर लिये और वसतिकामे-से भोजन माँग कर लाने लगे। १८-१९। दुर्भिक्ष समाप्त हो जाने पर जब शान्त्याचार्यने पुनः उन्हें शुद्ध चरित्र पालनेका आदेश दिया तो उनके शिष्य जिनचन्द्रने उन्हें जानसे मार दिया और स्वयं सघ नायक बन गया। २०-२१। शान्त्याचार्य मरकर व्यन्तर हुआ और सघ पर उपद्रव करने लगा, जिसे शान्त करनेके लिए जिनचन्द्रने उसकी एक कुलदेवताके रूपमें पूजा प्रचलित कर दी। जो आज तक श्वेताम्बर सम्प्रदायमें चली आ रही है। ७०-७५।

३. अर्धफालक संघकी उत्पत्ति

भद्रबाहु चरित्र/तु परिच्छेद--बिलकुल उपरोक्त प्रकारकी कथा कुछ उचित परिवर्तनोंके साथ भद्राकर श्री रत्ननन्दिने भद्रबाहु चरित्रमें दी है। उसका सारांश यह है कि-- "पचम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु स्वामीके मुखमें उज्जैनीमें पडने वाले १२ वर्षीय दुर्भिक्षके सम्बन्धमें सुनकर भी तथा अन्य सघोंके दक्षिणकी ओर विहार कर जाने पर भी रामव्य, स्थूलभद्र व स्थूलाचार्य नामके आचार्योंने जाना स्वीकार न किया। दुर्भिक्ष पडा और परिस्थिति बश उन्होंने कुछ शिथिलाचार अपना लिये। वे लोग पात्र ग्रहण करके भोजन माँगनेके लिए वसतिकामे जाने लगे और अपनी नग्नताको उतने समय छिपानेके लिए, एक बरत्रका टुफडा भी अपने पाम रखने लगे, जिसे वसतिकामे जाते समय वे अपने आगे ढँक लेते थे और लौटनेपर पृथक् कर देते थे। इस कारण इस सघका नाम अर्धफालक पड गया। (इसकी उत्पत्ति वी नि १३६ के लगभग हुई होगी) तत्पश्चात् मुभिक्ष हो जाने पर जब दक्षिणसे वह मूल संघ लौट आया तत्र स्थूलाचार्यसे उन्होंने पुन पटला मार्ग अपना देनेका कटा। सघने उन्हें जानसे माग दिया। वह व्यन्तर हो गये और सघ पर उपद्रव करने लगे, जिसे शान्त करनेके लिए सघने उनकी अपने कुलदेवताके रूपमें पूजा करनेको प्रारम्भ कर दी। ४५० वर्ष तक यह सघ इसी अर्धफालकके रूपमें मृतता रहा। तत्पश्चात् वी स १३६ में सौराष्ट्र देशकी वल्लभीपुरी नगरीका प्राप्त हुआ। उस समय इस सघके आचार्य जिनचन्द्र थे। वल्लभीपुर नरेशकी रानी उज्जैनी नरेशकी पुत्री थी। उज्जैनीमें रहते उसने इन्हीं साधुओंके पास विद्याध्ययन किया था। अत विनयपूर्वक अपने यहाँ बुलानेकी इच्छा करने लगी। परन्तु राजाको उनका वह वैष पयन्द न था, अत उसने उन साधुओंके पाम कुछ वस्त्र भेज दिये, जिसे जिनचन्द्रने राजा व रानीकी प्रमत्ताके अर्थ प्रदण करनेकी आज्ञा दे दी। नस तभी इस सघका नाम श्वेताम्बर पड गया।

हरियेग कृत कथा गोप/५८-५९/३ ३९८ 'याग्न शोभन कान जायते साधव स्फुटम्। तावच्च वामहन्तेन पुर इत्थाऽर्धफालकम् ॥८॥ भिक्षापत्र समादाय दक्षिणेन तरेण च। गृहे ददा नक्तमाहार कु-ध्व भाजन दिने ॥९॥'-जय तरु मुभिक्ष न हो जाये तत्र तक साधुओंको चाहिए कि वे अपना त्राय हाथ आगे करके उस पर एक अर्धफालक (कपडेका टुकड़ा) लटका लें। तथा दायें हाथमें भिक्षा द्वारा आहार ग्रहण करके, उमें दिनक समय आनी नसर्तता-में बठ कर लें।

४. श्वेताम्बरोके विविध गच्छ

श्वेताम्बरोमें विविध गच्छ प्रसिद्ध हैं, यथा--चेत्यवासी गच्छ, उपदेशगच्छ, खरतर गच्छ, तथा गच्छ, पार्वचन्द्र गच्छ, सार्धपोर्णमीयक गच्छ, आचलिक गच्छ, प्रागमिक गच्छ आदि। इनमेंसे आज खरतर, तथा व आचलिक गच्छ ही उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक गच्छकी समाचार। जुदी है तथा उनके श्रावकोंकी सामायिक प्रतिक्रमण आदि विषयक विधियाँ भी जुदी हैं। काई गच्छाणकके दिन छह मानता है ता काई पाँच। कोई पर्युपणका अन्तिम दिन भाद्रपद शु ४ मानता है और कोई भाद्रपद शु ५।

'धर्मसागर कृत पट्टावलीके अनुसार वी नि ८२ में चेत्य-वास प्रारम्भ हुआ। 'जिन वल्लभ मूरि' कृत सघपट्टकी भूमिकामें भी चेत्यवासका कुछ इतिहास उल्लिखित है। अनेकान्त वर्ष ३ अक ८-९ के 'यति समाज' शीर्षकमें श्री जगरचन्द नाहुटाने श्वेताम्बर चेत्यवासिया पर विस्तृत प्रकाश डाला है।

अणहिलपुर पट्टण राजा दुर्लभदवकी सभामें बर्द्धमान मूरिके शिष्य जिनेश्वर मूरि द्वारा परास्त हा जाने पर यह चेत्यवासी गच्छ ही खरतर नामसे पुकाग जाने लगा।

वि म १२८५ में श्री जगच्चन्द्र मूरिके उग्र तपसे प्रभावित होकर मेवाडके राजाने उसके गच्छकी 'तपा गच्छ' नाम प्रदान किया।

मुखपट्टीके बदले अचनका अर्थात् नस्त्रके छोरका उपयोग किया जानेक कारण 'आचलिक गच्छ' प्रसिद्ध हुआ है।

५. अर्धफालक व श्वेताम्बर विषयक समान्वय

द मा./प्र/६० प्रेमी जी--अब इस बातपर विचार करना है कि भाव संग्रहकी कथामें (भद्रबाहु चरित्रके कर्तने) इतना परिवर्तन क्यों किया। हमारी समझमें इसका कारण भद्रबाहुका और श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्तिका समय है। भाव संग्रहके वर्तने ता भद्रबाहुको केवल निमित्तज्ञानी लिखा है, पर रत्ननन्दि उन्हें (श्रुतावतारके अनुसार) पचम श्रुतकेवली लिखते हैं। दिगम्बर ग्रन्थोंके अनुसार श्रुतकेवलीका शरीरान्त वी नि १६२ में हुआ है। (दे इतिहासमें श्रुतावतार) और श्वेताम्बराकी उत्पत्ति वी नि ६०६ (वि १३६) में बताया गयी है। दानोंके बीचमें इस ४५० वर्षके अन्तरको पूरा करनेके लिए ही रत्ननन्दिने श्वेताम्बरसे पहले अर्धफालक उत्पन्न होनेकी कल्पना की है। दूसरे श्वेताम्बर मत जिनचन्द्रके द्वारा वल्लभीपुरमें प्रगट हुआ था अतएव यह आवश्यक हुआ कि दुर्भिक्षके समय जो मत प्रगट हुआ था उमका स्थान व प्रवर्तक इससे भिन्न बताया जाये। इसलिए अर्धफालककी उत्पत्ति उज्जैनीमें बताया गयी और इसके प्रवर्तक आचार्यका नाम भी स्थूलभद्र रखा, जो कि श्वेताम्बर आम्नायमें अति प्रसिद्ध है। उज्जैनी नगरमें वी नि १६२ में उत्पन्न होनेके पश्चात् वह सघ अर्धफालकके रूपमें ४५० वर्ष तक विहार करता रहा। अर्धफालक सघाने साधु जय वसतिकामें भोजन लेने जाते थे, ता एव बरत्रक टुकड़ेके वे अपनी घायी भुजापर लटका कर रखते थे, जिसमें उनकी नग्नता छिप जाये। चर्चासे लौटनेपर उस बरत्रका पुन प्रथक् करके वे दिगम्बर हो जाते थे। यही सब तानयोगमें वी नि ६०६ में वल्लभीपुरीमें प्राप्त हुआ। उस समय उन सघका आचार्य जिनचन्द्र था, जिसने उपरोक्त कथानुसार इसे श्वेताम्बरके रूपमें प्रवर्तित कर दिया। इस प्रकार इसका संगति भद्रबाहु श्रुतकेवली तथा १० वर्षीय दुर्भिक्षके साथ भी श्रेष्ठ जाता है। श्वेताम्बरके आदि गुरु स्थूलभद्रके साथ वल्लभीपुरके साथ तथा भावसंग्रह और दर्शनमारके अनुसार जिनचन्द्र व वी नि ६०६ के साथ भी बठ जाती है। यद्यपि प्रेमीजी रत्ननन्दि

भट्टारकजी इस कल्पनाको निर्मूल बताने हैं, और कहते हैं कि अर्ध-फालक नामका कोई भी सम्प्रदाय नहीं हुआ (द सा/प्र/६१) परन्तु उनका ऐसा कहना योग्य नहीं, क्योंकि मथुराके कगाली टीलेसे उपलब्ध कुशन कालीन (ई २४०-३२० बी नि १६७-८४०) कुछ प्राचीन आर्याग पट्ट मिले हैं। जिनको पुरातत्व विभागने अर्ध-फालक मतका सिद्ध किया है। क्योंकि उनमें कुछ नग्न साधु अपने बायें हाथपर एक कपड़ा डाल उस कपड़ेके द्वारा अपनी नग्नता छिपाते दिखाये गये हैं। वे साधु कपड़ा तो अपने बायें हाथपर लटकाये हैं और कमण्डल या भिक्षापत्र अपने दाहिने हाथमें लिये हुए हैं (भद्रबाहु चरित्र/प्र उदयलाल) Dr Buhler in Indian antiquity Vol 2, Page 136 At his (Nemisha's) left knee stands a small naked male characterised by the cloth in his left hand as an ascetic with uplifted right hand

अर्थात् उसके बायीं ओर एक छोटी-सी नग्न पुरुषाकृति है जिसके बायें हाथपर एक कपड़ा है और एक साधुके रूपमें उसका दायाँ हाथ ऊपरको उठा हुआ है। जैन सिद्धान्त भास्कर भाग १० खण्ड २ पृ ८० के फुटनोटमें डॉ वासुदेवशरण अग्रवालके अनुसार पट्टमें नीचे एक स्त्री और उसके सामने एक नग्न श्रमण अंकित है। वह एक हाथमें सम्माजिनी और बायें हाथमें एक कपड़ा लिये हुए है। शेष शरीर नग्न है।

भद्रबाहु चरित्र/प्र उदयलाल—आगे चलकर वि १३६ (बी. नि ६०) में वह प्रगट रूपसे श्वेताम्बर सम्प्रदायमें प्रवर्तित हो गया। प्रारम्भमें उसका उल्लेख 'निर्ग्रन्थ श्वेतपट्ट महाश्रमण सघ' के नामसे होता था। उपरान्त वही श्वेताम्बर कहलाया। इसी प्रकार दिग्म्बर सम्प्रदाय भी पहले 'निर्ग्रन्थ श्रमण सघ' के नामसे पुकारा जाता था। उपरान्त वह दिग्वास और फिर दिग्म्बर कहलाने लगा।

६ प्रवर्तकों विषयक समन्वय

दिग्म्बर ग्रन्थ दर्शनसारके अनुसार श्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रवर्तक शान्त्याचार्यके शिष्य तथा भद्रबाहु प्रथम (पचम श्रुतकेवली) के प्रशिष्य जिनचन्द्र थे। परन्तु श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें इस नामके आचार्योंका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। दूसरी तरफ श्वेताम्बर आम्नायके अनुसार दिग्म्बर सम्प्रदायके प्रवर्तक शिवभूति या सहस्र-मलको बताया है, परन्तु दिग्म्बर ग्रन्थोंमें इस नामके आचार्योंका कहीं पता नहीं चलता। भद्रबाहु चरित्रके कर्ता रत्ननन्द 'रामय्य' व स्थूलभद्रको इसका प्रवर्तक बताते हैं। इन्द्र श्वेताम्बरगुरु तदादय, शशयमिध्यादृष्टय (गो जी/जी, प्र/१६) में टीकाकारने श्वेताम्बर सम्प्रदायका प्रवर्तक 'इन्द्र' नामके आचार्यको बताया है। प्रेमीजीको गोम्मटसारके टीकाकारका मत इष्ट है (द सा/प्र, ६० प्रेमी जी)

७. उत्पत्ति काल विषयक समन्वय

द. सा/प्र ६० प्रेमीजी—दिग्म्बर व श्वेताम्बर सम्प्रदाय कब हुए यह विषय बहुत ही गहरी अन्वेषीमें छिपा हुआ है। श्रुतावतारमें बताया गयी गुर्वावलीमें गौतमसे लेकर जम्बू स्वामी तककी परम्परा दोनों ही सम्प्रदायको जूँ की तूँ मान्य है। इसमें आगेके ५ श्रुतकेव लियार्-के नाम दिग्म्बर सम्प्रदायमें कुछ और श्वेताम्बर सम्प्रदायमें कुछ और है। परन्तु भद्रबाहुको अवश्य दोनों स्वीकार करते हैं। इससे पता चलता है कि भद्रबाहुके पश्चात् ही दोनों जुदा जुदा हो गये हैं। दूसरी बात यह भी है कि श्वेताम्बर मान्य तंत्र ग्रन्थोंकी रचनाका काल बी नि ६०० वि सं. ६१० के लगभग है। उस समय वे वल्लभीपुरमें देवाधिगणी क्षमाश्रमणकी अध्याय तामे परिस्थिति वश सगृहस्तित्तिये गये थे। अनुमानसे यह बात जानी जा सकती है कि

ग्रन्थोंका संग्रह करनेसे १००, ५० वर्ष पहले ही उनका स्वतन्त्र संघके रूपमें निर्माण हुआ होगा। इससे पहले भी मान्यताओंमें भेद रहा होगा जिससे कि उनको सिद्धिके लिए आगम प्रमाणोंकी आवश्यकता पड़े।

[दिग्म्बराचार्य श्वेताम्बरोंकी उत्पत्ति वि स १३६ (वि, नि, ६०६) में बता रहे हैं और श्वेताम्बराचार्य दिग्म्बरोंकी उत्पत्ति वि, स, १३६ (वि, नि ६०६) में बता रहे हैं। १२ वर्षीय दुर्भिक्ष जो कि सघ विभेदमें प्रधान निमित्त है बी नि, ६०६ (वि स १३६) में पडा था। इन सब बातोंको देखते हुए भद्रबाहु चरित्रकी मान्यता कुछ युक्त जैषती है, कि वि पू ३३० में अर्धफालक सघ उत्पन्न हुआ, और धीरे-धीरे वि स १३६ में श्वेताम्बरके रूपमें परिवर्तित हो गया। श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें दिग्म्बर मतकी उत्पत्ति भी उसी समय (वि, १३६) में बताया जाना भी इसी बातकी सिद्धि करता है कि वि, स १३६ में ही वह उत्पन्न हुआ था। अपने उत्पन्न होते ही उन्हें अपनेको मूलसपी सिद्ध करनेके लिए दिग्म्बरकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें यह कथा गढ़नी पड़ी होगी। इसके अतिरिक्त भी-दिग्म्बर मतकी प्राचीनता निम्नमें दिये गये प्रमाणोंसे सिद्ध होती है।]

८ दिग्म्बर मतकी प्राचीनता

१ श्वेताम्बर मान्य कथाको स्वीकार कर लें तो शिवभूतिने जिनकण (दिग्म्बर मत) को स्वीकार किया था, उसका कारण इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है कि जिनकणपी मार्गसे श्रेष्ठ साधुओंमें फिरसे जिनकण (दिग्म्बरता) का प्रचार किया जाये। कथाके अनुसार शिवभूति गुरुके मुखसे जिनकणका उपदेश सुनकर उसे धारण करनेमें निश्चलप्रतिज्ञ हुए थे। इससे पता चलता है कि शिवभूतिसे पहले भी जिनकण अवश्य था जो इस समय शिथिल हो चुका था। २ श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें ऐसा उल्लेख पाया जाता है— "सयमी जिनकणस्य दु साध्योऽय ततोऽधुना। व्रत स्थविरकणस्य तस्मादस्माभिराश्रितम्। तथा—दुर्धरो मूलमार्गोऽय न धर्तुं शक्यते तत।" इस उद्धरणसे स्पष्ट कहा गया है कि जिनकण ही मूलमार्ग है, परन्तु कालकी करालताके कारण आज उसका धारण किया जाना शक्य नहीं है। इसीलिए हमने स्थिरकणनाका आश्रय लिया है। इधर तो श्वेताम्बराचार्य ऐसा लिखते हैं दूसरी तरफ दिग्म्बराचार्य क्या कहते हैं—

र क प्रा/१० विषयाशावशातोतो निरारम्भोऽपरिग्रह। ज्ञानध्यान-तपारक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते। १०१—जो विषयोंकी आशाके वश न हो और परिग्रहसे रहित तथा ज्ञान-ध्यान-तपमें लवलीन हो वह तपस्वी गुरु प्रशसनीय है। ३ इसके अतिरिक्त विक्रमादित्यकी सभाके नवरत्नोंमें से बराहमिहिर भी नग्न साधुओका उल्लेख करते देखे जाते हैं—

'विष्णोर्भागवतामयश्च सचितुर्विप्रा विदुर्ब्राह्मण' मातृणामित्ति मातृमण्डल-विद, शोभो सभस्माद्द्विज। शशया सर्वहिताय शान्तमनसो नना जिनानां विदुर्ये य देवमुपाश्रिता स्वविधिनात्ते तस्य कुर्यु क्रियाम्।" —भाव यह है कि वैष्णव लोग विष्णुकी प्रतिष्ठा करें, सूर्योपजीवी लोग सूर्यकी उपासना करें, विप्र लोग ब्रह्माकी करें, ब्रह्मणी व इन्द्राणी प्रभृति सप्त मातृमण्डलकी उनके माननेवाले अर्चा करें, बौद्ध लोग बुद्धकी प्रतिष्ठा करें, नग्न (दिग्म्बर साधु) लोग जिन भगवात्की पर्युपासना करें। थोड़े शब्दोंमें यों कहिए कि जिस-जिस देवके जो उपासक हैं वे उस उसकी अपनी-अपनी विधिसे उपासना करें। ४ महाभारत जो कि वेदव्यास जी द्वारा ईसवी पूर्व बहुत प्राचीन कालमें रचा गया था, वह भी दिग्म्बर मतका उल्लेख करता है। यथा—

“साधयामस्तावदित्युक्त्वा प्रातिष्ठतोत्तङ्गस्ते कुण्डले गृहीत्वा सोऽपश्य-
दथ पथि नग्न क्षणकमागच्छन्त मुहुर्मुहुर्दृश्यमानमदृश्यमानं च ।
(महाभारत परिच्छेद ३) = इसके अतिरिक्त भी महापुराणश्रव-
मेधाधिकारमें ४६।५५ ६२०१ पर दिगम्बरत्व व अस्नानत्पका स्पष्ट
उल्लेख मिलता है । तथा ४६।१५५ ६१६६ पर दिगम्बर साधु सरीखी
ही आहार विहार चर्या आदि सम्बन्धी उल्लेख पाया जाता है ।
६ इसके अतिरिक्त भी दिगम्बरात्मनायमें कुन्दकुन्द प्रभृति आचार्यों-
कृत ईसवी पहिली शताब्दीके ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, जब कि
श्वेताम्बरोंके इतने प्राचीन ग्रन्थ प्राप्त नहीं हैं ।

९ श्वेताम्बरके अनुसार दिगम्बर मतकी उत्पत्ति

यह सारा विषय उत्तराध्ययन सूत्र/अध्याय ३/चूर्ण सूत्र १७८ की
श्री शान्ति सूरिकृत संस्कृत वृत्तिके तथा उसमें उद्धृत विविध आग-
मोक्त गाथाओंके आधारपर संकलित किया गया है ।

१. द्विविध कल्प निर्देश

दिगम्बर मतकी उत्पत्तिसे पूर्व दिगम्बर व श्वेताम्बर ऐसे दो सम्प्र-
दायोंका नाम नहीं था, परन्तु साधुओंके दो कल्प अवश्य थे—स्थविर
कल्प व जिन कल्प, जिनके लक्षण व भेद निम्न प्रकार है ।

उत्तराध्ययन टीका/पृ “स्थविराश्च स्थिरीकरणकारिण । (पृ १५२) ।
य स्याज्जिन इव प्रभु । (पृ १७६ पर उद्धृत श्लोक) । स च
प्रथमसहनन एव (टीका पृ १७६) ।—तात्पर्य यह कि—

विकल्प	स्थविर कल्प	जिन कल्प
१	हीन सहननधारी	उत्तम सहननधारी
२	अपवादानुसारी मृदु आचार- वात्	जिनेन्द्र प्रभुवत् उत्सर्ग मार्गा- नुसारी कठोर आचारवात् ।
३	मन्दिर मठ आदिमें ससय आवास	एकाकी वन विहारी
४	श्रावकोंके भोजन कालमें भिक्षावृत्ति	श्रावकजन खा पीकर निवृत्त हो चुके ऐसे तीसरे पहरमें भिक्षा वृत्ति । बचा खुचा मिला तो ले लिया अन्यथा उपवास किया ।
५	रोग आदि होनेपर उसका उपचार करते हैं	उपचार न करते हैं न कर- वाते हैं
६	आँखमें रजाणु पड जानेपर अथवा पौवमें शूल लग जाने- पर उसे निकालते या निकल- वाते हैं	न निकालते हैं न निकलवाते हैं
७	सिंह आदिके समक्ष आ जाने- पर भागकर अपनी रक्षा करते हैं ।	वहाँ ही ध्यानस्थ होकर खडे रह जाते हैं ।
८	सौंफ पडनेपर भी उचित स्थान की खोज करते हैं	जहाँ दिन छिपा वहाँ खड़े हो जाते हैं ।

इस प्रकारके शक्तिकृत भेदके अतिरिक्त इनमें बाह्य वैषकृत कोई भेद
नहीं होता । बाह्य वैषकी अपेक्षा दोनों ही चार-चार प्रकारके होते
हैं । यथा—

उत्तराध्ययन/पृ १७६ पर उद्धृत गाथा—जिनकल्पिया व दुविहा पाणि-
पाया पडिगहधरा य । पाउरजमया उरणा एकेक्ष्णा ते भवे दुविहा ।
य एतात् वर्जमेदोपान् धर्मोपकरणहते । तस्य स्वग्रहण युक्त, य
स्याज्जिन इव प्रभु । —जिनकल्पी साधु चार प्रकारके होते हैं—सवस

पाणिपात्राहारी, अवस्र पाणिपात्राहारी, मवस्र पात्रधारी और अवस्र
परन्तु पात्रधारी । जो पात्र विषयक निम्न दोषोंको बिना
उपकरणोंके ही टालनेको समर्थ है, उनके लिए तो इनका न ग्रहण
करना ही योग्य है, परन्तु जा ऐसा करनेको समर्थ नहीं वे उपकरण
ग्रहण करते हैं ।

२. जिनकल्पका विच्छेद

उत्तराध्ययन/टीका/पृ १५५ व्युच्छिन्न । (१७६) । न चेदानीं तद-
स्तीति । (१८०) ।—वीर निर्वाणके ६२ वर्ष पश्चात् जम्बू स्वामी-
के निर्वाण पर्यन्त ही जिनकल्पकी उपलब्धि होती थी । उसके
पश्चात् इस कालमें उत्तम सहनन आदिके अभावके कारण उसकी
व्युच्छिन्ति हो गयी है ।

३ उपकरण व उनकी सार्थकता

उत्तराध्ययन/पृ १७६ पर उद्धृत—“जन्तवो बहवस्सन्ति दुर्दर्शा मांस-
चक्षुषाम् । तेभ्य स्मृत दयार्थं तु रजोहरणधारणम् । १ । सन्ति सपा-
तिया सत्त्वा सूक्ष्माश्च व्यापिनोऽपरे । तेषा रक्षानिमित्तं च विज्ञेया
मुखवस्त्रिका । २ । किंच—भवन्ति जन्तवो यस्यान्नपानेषु केपुचिद् ।
तस्मात्तेषा परोक्षार्थं पात्रग्रहणमिष्यते । ३ । अपर च—सम्यक्त्वज्ञान-
शीलानि तपश्चेतीह सिद्धये । तेषामनुग्रहार्थं स्मृतं चीवरधारणम्
। ४ । शीतवातातपैर्दशमशकेशचापि खेदित । मा सम्यक्त्वादेषु ध्यान
न सम्यक् सचिवास्यति । ५ । तस्य स्वग्रहणे युक्त स्यात् क्षुद्रप्राणि-
विनाशनम् । ज्ञानाध्यानोपघातो वा महात् दोषस्तदेव तु ७ ।
—बहुतसे जन्तु ऐसे होते हैं जो इन चर्मचक्षुओंसे दिखाई नहीं देते ।
विहार शय्या आसन आदि रूप प्रवृत्तियोंमें उनकी रक्षाके अर्थ
रजोहरण है । वायुमण्डलमें सर्वत्र ऐसे सूक्ष्म जीव व्याप्त हैं जो मुखमें
अथवा भोजन पान आदिमें स्वतः पडते रहते हैं । उनकी रक्षाके लिए
मुखवस्त्रिका है । बहुत सम्भव है कि भिक्षामें प्राप्त अन्न पान आदिकमें
कदाचित् कोई जन्तु पडे हों । अतः ठीक प्रकारसे देह शोधकर खाने-
के लिए पात्रोका ग्रहण इष्ट है । इनके अतिरिक्त सम्यक्त्व, ज्ञान, शील
व तपकी सिद्धिके अर्थ वस्त्र ग्रहण की आज्ञा है, ताकि ऐसा न हो कि
कहीं शीत वात आतप ठांस व मक्खी आदिकी बाधाओंसे खेदित
होनेपर कोई इनमें ठीक प्रकारसे ध्यान व उपयोग न रख सके । ये
सभी पदार्थ बाह्याभ्यन्तर समयके उपकारी होनेसे उपकरण सज्ञाको
प्राप्त होते हैं, जिनका ग्रहण न करनेपर क्षुद्र प्राणियोंका विनाश तथा
ज्ञान ध्यान आदिका उपघात रूप महात् दोष प्राप्त होते हैं ।

उत्तराध्ययन/टीका/पृ १७६ “धर्मोपकरणमेवैतत् न तु परिग्रहस्तथा ।”
दश वैकालिक सूत्र/अ ६ गा १६ “ज पि वर्यं य पाय वा केवल पाय-
पुक्षण । तेषामि सजमलज्जट्ठा, धारन्ति परिहरन्ति य ।” —अर्थात्—
सूच्छरहित साधुके लिए ये सब धर्मोपकरण हैं न कि परिग्रह,
क्योंकि सूच्छरिका परिग्रह सज्ञा प्राप्त होती है वस्तुको नहीं । वस्त्र व
पात्रादि इन उपकरणोंको साधुजन समयकी रक्षार्थं तथा लज्जा निवा-
रणके लिए धारण करते हैं, और उनके प्रति इतने अनामत्त रहते हैं
कि समय आनेपर जीर्ण तृणकी भाँति वे इनका त्याग भी कर
देते हैं ।

४ दिगम्बर मत प्रवर्तक शिवभूतिना परिचय

उत्तराध्ययन/चूर्णसूत्र १६४ का उपोद्घात/पृ १५१ “जमालिप्रभृतीनां
निद्वानां शिष्यास्तद्वक्तियुत्तितया स्वयमागमानुगारिमत्तयोऽपि
गुरुप्रययाद्विपरीतमर्थं प्रतिपन्न ।”

उत्तराध्ययन/चूर्णसूत्र १७५/पृ १७६ पर उद्धृत “छन्वासमएहि णोत्त-
रैहि सिद्धिगयस्स वीरस्स । तो वोडियाण दिट्ठी ऱ्हाणीपुरे समु-
प्पणा ।” —श्वेताम्बर आगममें यत्र तत्र जमालि आदि सात तथा
शिवभूति नामक अष्टम निद्ववोका कथन अत्यन्त प्रसिद्ध है । निद्वव
मज्ञाको प्राप्त ये स्थविरकल्पी साधु तथा इनके शिष्य यद्यपि आगमके
प्रति भक्ति युक्त होनेके कारण स्वयं आगमानुगारी बुद्धिवाले होते हैं,

परन्तु गुरु ज्ञानामे विपरीत अर्थना प्रतिपादन करनेके कारण सघसे बहिष्कृत कर दिये जानेपर स्वयं स्वच्छन्द रूपसे अपने-अपने मतोंका प्रमाण करते हैं, जिनमें विभिन्न सम्प्रदायों व मतमतान्तरीकी उत्पत्ति है ही है। भगवान् बीरके निर्माण होनेके ६०६ वर्ष पश्चात् 'रथवीपुर' नामक नगरमें बोटिन (दिगम्बर) मतवाला अष्टम निरव शिष्यभूति उत्पन्न हुआ।

उत्तराध्यायन/चूर्ण सूत्र १०८/पृ १७६-१८० का भावार्थ—यह शिष्यभूति अपने गुरुस्थानथामें उत्पन्न स्वच्छन्द वृत्तियांला एक राजमेवक था, जिनमें किसी समय राजाके एक शत्रुको जीतकर राजाको प्रसन्न किया और उपनक्षयमें उसमें नगरमें स्वच्छन्द घूमनेकी आज्ञा प्राप्त करनी। तब रात्रिके भी धर-उधर घूमता रहता था, जिसके कारण उसकी माँ व माता उसमें लग आ गयी और एक रात्रिको जब वह धर आया तो उन्होंने डाँटें कीं गयीं। शिष्यभूति क्रुद्ध होकर उपाश्रयमें चला गया और गुरुके मना करनेपर भी 'खेनमल्लक' नामक किसी नायक कीसा नेकर स्वयं वेदालोक कर लिया। कुछ काल पश्चात् मन्त्र विहार करता हुआ जब वह पुन इस नगरमें आया तो राजाके अपना प्रिय जान उसे एक रत्न कम्बल भेंट किया। गुरुकी आज्ञाके विना भी उसने वह रत्न कम्बल ग्रहण कर लिये और उसे गुरुमें निष्पार-अपने पास रखता रहा। एक दिन जब वह भिक्षा-चमके लिए जा रहा गया था, तब गुरुने इस परिग्रहसे उसकी रक्षा करनेके लिए उसकी पीठकी पीठके पीठके पीठके पीठके आगमन बना दिये। अतः शिष्यभूति भीतर ही भीतर गुरुके प्रति क्रुद्ध रहने लगा।

५ शिष्यभूतिने दिगम्बर मतको उत्पत्ति

उत्तराध्यायन/चूर्ण सूत्र १०८/पृ १७६—'इत्यादि मो (सिवभूद) कि एव एव नारदः तैरि भणिय—एव अचिद्रत्त। मम न व्युच्चिद्रयते इति म एव परनावाधिया र्ततव्य।

उत्तराध्यायन/चूर्ण सूत्र १०८/१८० "न चेदानीं तदस्तीत्यादिरुया प्रागुक्त्या च मुक्तरोगेनमानोऽमी र्मादियेन चीवरादित्र व्यवहारा गत। उस्त्यात्तग भगिनी, उगाने स्थितं वन्त्सका गता, त च उष्ट्या तयापि चीवरादित्र मयं रयत्त, तदा भिक्षार्थे प्रविष्टा गजिरुया टया। मास्माद्यु लोका निरुद्धीत इति उरसि तस्या पोतिया यथा। मा नेच्छति, तेन भणित—तिष्ठतु एषा तव देवता इत्ता। तेन च त्रीं शिष्यो प्रजितो—तींशिष्य कौटिलीरश्च, तां शिष्याणां परम्परा स्पर्जा जत।"

उत्तराध्यायन। चूर्णसूत्र १०८/पृ १८० पर उद्धृत—'उहाए पणत्त कोटिपसित्त इ उत्ताग हि एम। मिच्छादसणमिणमो र्हवीपुरे समुत्पन्ना।। कोटिपसित्तसुअो कोटिपसित्तस होई उप्पत्तो। कोटिणत्तं ट्टीरोग परपगाममुत्पन्ना।।'—एक दिन गुरु जब पूर्वात्त प्रकार शिष्यवृत्तके कारणका कथन कर रहे थे, तब शिष्यभूतिने उनमें पूछा कि किम् कारणसे एव आप माधु र्गो जिनपरममें दीक्षित नहीं करते हैं। तब मार्ग अत्र व्युच्चिद्रत्त हा गया है, गुरुके ऐसा करनेपर वह बोला कि मैंने ही गुरुके लिए व्युच्चिद्रत्त हा गया हों, परन्तु मैंने लिए तब व्युच्चिद्रत्त नहीं हुआ है। मार्गाने निष्पारिग्रही होनेसे परनाशार्थके लिए गरी प्रण करना कर्तव्य है।—'तेन रत्नवकके कारण एम नाममें वर सम्भार नहीं है', गुरुने पूर्ववत्त प्रकार एम सम्भारोत्तर से मिथ्यावर वमाश्रयश उगो गरकी याता र्वाताग नहीं है और उत्तर एवागत अवेना बननें चला गया। उसमें पीठ परमं करने भी उसकी उपाध उपायमें गयी थी। उसे देवता मन्त्र एवाग नार हा गया। एव तिन एव वर भिक्षार्थ नगरमें प्रवेश कर रहे थे। तब एव गजिनने उसे एक मात्री पाना दी, जिसे देवता प्रदा करके तिनने प्रदा करकेगी जाता दे दी। शिष्यभूतिने गौडिपसित्त वट्टीर नामक दो शिष्यको दीया दो जिनकी परम्परामें ही मर वट्टीर या दिगम्बर सम्प्रदाय उत्पन्न हुआ है।

१० द्वैधिया पथ

१ दिगम्बरके अनुसार उत्पत्ति

कुछ काल पश्चात् इसी श्वेताम्बर मधमेंसे द्वैधिया पथ अपरनाम स्थानकवासी मतकी उत्पत्ति हुई। यथा—

भद्रबाहु चरित्र/४/१५७/१६१ मूले विक्रमभूपाले सप्तविशतिसयुते। दशपरुच्यतेऽन्दानामतीते शृणुतापरम् १६५। लुङ्गामतमभूदेक लापक धर्मकर्मण। देशेऽत्र गौर्जरे स्थ्याते विद्वत्ताजितनिर्जरे १६८। अणहिल्लपत्तने रम्ये प्राग्वाटकुलजोऽभवत्। लुङ्गाऽभिधो महामानी श्वेताशुक्रमहाश्रयी १६६। दुष्टात्मा दुष्टभावेन कुपति पापमण्डित। तीव्रमिथ्यात्पपाकेन लुङ्गात्तमकल्पयत् १६६०। तन्मतेऽपि च भूयांसो मतभेदा समाश्रिता १६६१।—विक्रमकी मृत्युके १५२७ वर्ष बाद धर्म कर्मका सर्वथा नाश करनेवाला एक लुङ्गामत (द्वैधिया मत) प्रगट हुआ। इसीकी विशेष व्याख्या यों है कि—गुर्जर देश (गुजरात) में एक अणहिल नामका नगर है। उसमें प्राग्वाट (कुलम्बी) कुलमें लुङ्गा नामका धारक एक श्वेताम्बरी हुआ है। उस दुष्ट आत्माने कुपित होकर तीव्र मिथ्यात्वके उदयसे खोटे परिणामोंके द्वारा लुङ्गामत चलाया। उनमें भी पीछे अनेक भेद हो गये।

व. पा/टी/११/११/१२ तन्मध्ये श्वेताम्बराभासा उत्पन्ना।=उनमेंसे (श्वेताम्बरियोंमेंसे) ही श्वेताम्बराभास (द्वैधिया मत) उत्पन्न हुआ।

२ श्वेताम्बरायाम्नायके अनुसार उत्पत्ति

विक्रम स १४७२ में इस मतके मस्थापक लोकाशाहका जन्म हुआ। यह व्यक्ति अहमदाबादमें ग्रन्थ लिखनेका व्यवसाय करता था। एक बार एक ग्रन्थ लिखनेको उजरतके विषयमें किसी यतिसे उसकी कहा मुनी हो गयी, जिसके कारण उसने मूर्तिपूजाको तथा कुछ आचार विचारोंको आगम विरुद्ध बतायाकर एक स्वतन्त्रमतका प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया उसने २२ शिष्योंको दीक्षित किया, जिनकी परम्परामें 'लोकागच्छ'की उत्पत्ति हुई। पीछे इसमें भी अनेकों भेद प्रभेद उत्पन्न हो गये।

सूरतके एक साधुने इस नाकामतमें भी कुछ सुधार करके 'द्वैधिया' नामक एक नये सम्प्रदायको जन्म दिया, जिससे कि पूर्ववर्ती भी सभी लोकानुयायी द्वैधिया नामने प्रसिद्ध हो गये। स्थानकोंमें रहनेके कारण इसके माधु स्थानकवासी कहलाते हैं। इसी सम्प्रदायमें आचार्य भिक्षुने तेरहपन्थकी स्थापना की।

३ स्वरूप

भद्रबाहु चरित्र/४/१६१ सुरेन्द्रार्चा जिनेन्द्रार्चा तत्पूजां दानसुत्तमम्। समुत्थाप्य म पापात्मा प्रतापो जिनसुव्रत १६६१।—जिन सूर्यसे प्रतिकूल होकर, देवताओंसे भी पूजनीय जिन प्रतिमाकी पूजा दानादि मय र्माका उस्थापन करके वह पापात्मा जिन भगवावृके व्रतोंसे प्रतिकूल हा गया।

व. पा/टी/११/११/१२ तन्मध्ये श्वेताम्बराभासा उत्पन्नास्ते स्वतीव पापिष्ठा देवपूजादिक, किं पापरुर्देमिति कथयन्ति, मण्डलवत्सर्वत्र भाण्टप्रशालनादिक विवन्ति इत्यादि बहदोषयन्त।=उन (श्वेताम्बरों) मेंसे श्वेताम्बराभासी (द्वैधिया मती) उत्पन्न हुए। वे तीव्र पापिष्ठ होकर देव पूजादिकको भी पापरुर्मे बताने लगे। मण्डल मतकी भाँति वर्तनके धोवनवा पानी पीने लगे। इस प्रकार बहुत दोषयन्त हा गये।

नोट—यह सम्प्रदाय श्वेताम्बर मान्य आगम सूत्रोंमेंसे ३२ को मान्य करता है। परन्तु श्वेताम्बराचार्या तब तक की टीकाएँ इसे मान्य नहीं हैं।

[५]

षड—दे, नपुंसक ।

षडावश्यक—दे, आवश्यक ।

षट् कर्म—दे, सावच/३ ।

षट् काय—दे, काय ।

षट् काल—दे, काल/४ ।

षट्खंड—भरतादि १०० कर्मभूमियों रूप क्षेत्रोंमेंसे प्रत्येकमें दो-दो नदियाँ व एक-एक विजयार्थ पर्वत है । जिनके कारण वह छह खण्डोंमें विभाजित हो जाता है । इन्हें ही षट् खण्ड कहते हैं । इनमेंसे एक आर्य व शेष पाँच म्लेच्छ खण्ड हैं । इन्हों षट् खण्डाको चक्रवर्ती जीतता है । विजयार्थ तथा आर्य खण्ड सहित तीन खण्डोंको अर्ध चक्रवर्ती जीतता है ।—दे लोका/७ ।

षट् खंडागम—यह कर्म सिद्धान्त विषयक ग्रन्थ है । इसकी उत्पत्ति मूल द्वादशांग श्रुतस्कन्धसे हुई है (दे. श्रुतज्ञान) । इसके छह खण्ड हैं—१ जीवद्वेष, २ खुदाबन्ध, ३ बन्धस्वामित्व विचय, ४ वेदना, ५ वर्गणा, ६ महाबन्ध । मूल ग्रन्थके पाँच खण्ड प्राकृत भाषामें सूत्र निबद्ध हैं । इनमें पहले खण्डके सूत्र पुष्पदन्त (ई. ६६-१०६) आचार्यके बनाये हुए हैं । पीछे उनका शरीरान्त हो जानेके कारण शेष चार खण्डोंके पूरे सूत्र आ भूतबलि (ई ६६-१५६) ने बनाये थे । छठा खण्ड सविस्तर रूपसे आ भूतबलि द्वारा बनाया गया है । अतः इसके प्रथम पाँच खण्डोंपर तो अनेकों टीकाएँ उपलब्ध हैं, परन्तु छठे खण्डपर वीरसेन स्वामीने सक्षिप्त व्याख्याके अतिरिक्त और कोई टीका नहीं की है । १ सर्व प्रथम टीका आ कुन्दकुन्द (ई १२७-१७६) द्वारा इसके प्रथम तीन खण्डोंपर रची गयी थी । उस टीकाका नाम 'परिकर्म' था । २ दूसरी टीका आ समन्तभद्र (ई. श २) द्वारा इसके प्रथम पाँच खण्डोंपर रची गयी । ३ तीसरी टीका आ शामकुण्ड (ई श ३) द्वारा इसके पूर्व पाँच खण्डोंपर रची गयी है । ४ चौथी टीका आ वीरसेन स्वामी (ई ७६३-८२३) कृत है ।

षट्गुणहानि वृद्धि—१. अविभाग प्रतिच्छेदोंमें हानि वृद्धिका नाम ही षट्गुण हानि वृद्धि है

पं. का /त. प्र /८४ धर्म (द्रव्य) अगुरुलघुभिर्गुणैरगुरुलघुत्वाभिधानस्य स्वरूपप्रतिष्ठस्वनिबन्धनस्य स्वभावस्याविभागपरिच्छेदे प्रतिममय-सम्भवंषट्स्थानपतितवृद्धिहानिभिर्गन्तै. सदा परिणतस्वा-दुत्पादव्ययत्वेऽपि । = धर्म (धर्मास्तिकाय) अगुरुलघुगुणों रूपसे अर्थात् अगुरुलघुत्व नामका जो स्वरूपप्रतिष्ठत्वके कारणभूत स्वभाव उसके अविभागप्रतिच्छेदों रूप जो कि प्रतिममय होनेवाली षट्स्थानपतित वृद्धि हानिवाले अनन्त है उनके रूपसे सदैव परिण-मित होनेके उत्पाद-व्यय स्वभाववाला है ।

गो जी/जी प्र /५६६/१०१५/५ धर्मधर्मादीनां अगुरुलघुगुणाविभाग-प्रतिच्छेद स्वद्रव्यत्वस्य निमित्तभूतशक्तिविशेषा पट्टवृद्धिभिर्वर्ध-मानपट्टहानिभिश्च हीयमाना परिणमन्ति । = धर्म और अधर्म द्रव्योंके अपने द्रव्यत्वको कारणभूत शक्ति विशेष रूप जो अगुरुलघु नामक गुणके अविभाग प्रतिच्छेदमें अनन्त भाग वृद्धि आदि, तथा षट्स्थान हानिके द्वारा वर्धमान और हीयमान होता है ।

२ एक समयमें एक ही वृद्धि या हानि होती है

प ख १०/४,२,४/सु व टी /२०२-२०४/४६६ 'तिग्णवद्दितिग्ण-हाणीओ केवचिर कालादो हँति । जहण्णेण एगसमय' । २०२।—

असखेज्जभागवद्दोए जहण्णेण एगसमयच्छिदूण विदिए ममए सेमत्तिण वद्दोणमेगवद्दो चटुण्ण हाणीणमेगतमहाणि वा गदस्म असखेज्जभागवद्दिकालो जहण्णेण एगसमयो होदि । ए१ सेसदो-वद्दोण तिग्णहाणीण च एगसमयण्णवणा कादव्वा । 'उक्कस्सेण आवसियाए अमखेज्जदिभागो । २०३.'—एफा जीवो जम्हि कम्हि वि जोगट्टाणे ट्टिदो जसखेज्जभागवद्दोजोग गवो । तस्य एकसमय-मच्छिदूण विदियसमए ततो असखेज्जदिभागुत्तजोग गवो । एवं दोणमसखेज्जभागवद्दिसमयाणमुवलट्ठी जादा । 'असरेज्जगुण-वद्दिहाणी केवचिर कालादो हँति । जहण्णेण एगसमयो । २०४।—अमखेज्जगुणवद्दिसमयज्जगुणहाणि वा एगसमय काऊण अणप्पि-दवद्दि-हाणीण गदस्स एगसमयो होदि । 'उक्कस्सेण अतोमुहुत्त । २०५।' = 'तीन वृद्धियाँ और तीन हानियाँ कितने काल तक होती हैं । जघन्यसे एक समय होती हैं । २०२।—असख्यात भाग वृद्धि होनेपर जघन्यसे एक समय रहकर द्वितीय समयमें शेष तीन वृद्धिमें किसी वृद्धि अथवा चार हानियोंमें किसी एक हानिको प्राप्त होनेपर असख्यात भागवृद्धिका काल जघन्यसे एक समय होता है । इसी प्रकार शेष दो वृद्धियों और तीन हानियोंके एक समयकी प्ररूपणा करनी चाहिए । 'उत्कर्पसे उक्त हानि-वृद्धियोंका काल आवलीके असख्यातवें भाग प्रमाण है । २०३।—एक जीव जिम किनी भी योगस्थानमें स्थित होकर असख्यात भागवृद्धिको प्राप्त हुआ । वहाँ एक समय रहकर दूसरे समयमें उससे असख्यातवें भागसे अधिक योगको प्राप्त हुआ । इस प्रकार असख्यात भाग वृद्धिके दो समयोंकी उपलब्धि हुई । (इसी प्रकार तीन आदि समर्थोंमें आवली पर्यन्त लागू कर लेना) । 'असख्यात गुणवृद्धि और हानि कितने काल तक होती है । जघन्यसे एक समय होती है । २०४।—असख्यात गुणवृद्धि अथवा असख्यात गुण हानिको एक समय करके अविवक्षित वृद्धि या हानिको प्राप्त होनेपर एक समय होता है । 'उक्त वृद्धि व हानि उत्कर्पसे अन्तर्मुहूर्त काल तक रहती है । २०५।'

३. स्थिति आदि बन्धोंमें वृद्धि-हानि सम्बन्धी नियम

ध ६/१,६-४,३/१८३/१ एत्थगुणहाणीओ णत्थि, पल्लिदोवमस्स अस-खेज्जदिभागमेत्तट्टिदीए विणा गुणहाणीए असमवादो । = यहाँ अर्थात् इस जघन्य स्थितिमें गुणहानियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि, पश्योपमके असख्यातवें भाग मात्र स्थितिके बिना गुण-हानिका होना सम्भव नहीं है ।

ध १२/४,२,१३,२६५/४६१/१३ खविदकम्मसिए जदि सुट्ठ वहुमो दव्ववद्दो होदि तो एगसमयपद्दधमेत्ता चेव होदि च्चि गुरुवएमादो । = क्षिप्त कर्माशिकके यदि बहुत अधिक द्रव्यकी (प्रदेशोंकी) वृद्धि होती है तो वह एक समय प्रबद्ध प्रमाण ही होती है, ऐसा गुणका उपदेश है ।

* अन्य सम्बन्धित विषय

१ छह वृद्धि हानियाँका क्रम, अर्थ, संहनानी व यन्त्र ।

—दे श्रुतज्ञान/II/२/३ ।

२. अनुभाग काण्टकोंमें षट्गुण हानियाँ ।

—दे ध १२/१७०-२०२ ।

३. अध्यवसाय स्थानोंमें वृद्धि हानियाँ । —दे वह वह नाम ।

४. व्यजन पर्यायोंमें अन्तर्लान अर्थ पर्याय । —दे पर्याय/३/८ ।

५. अशुद्ध पर्यायोंमें भी एक दो आदि समयोंके पश्चात् हानिवृद्धि होती है । —दे अवधिज्ञान/२/२ ।

षड् दर्शन—दे, दर्शन ।

जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश

पङ्क दर्शन समुच्चय

पङ्क दर्शन समुच्चय—श्वेताश्वराचार्य हरिभद्रसूरि (ई. ४८०-५२८) द्वारा रचित संस्कृत सूत्र बद्ध ग्रन्थ है। इसमें जैन, बौद्ध, चार्वाक, न्याय-वेदोपेक, सांख्य-योग और मीमांसक इन छह दर्शनोंका सक्षिप्त वर्णन है।

पङ्क—सख्यात गुण वृद्धिको पङ्क सज्ञा है।—दे. श्रुतज्ञान/ 11/२/३।

पङ्क—एक स्वर—दे 'स्वर'।

पङ्करी—उत्कृष्ट २४ वर्ष, मध्यम १२ वर्ष व जवन्य १ वर्षमें ज्येष्ठ कृ १ स ज्येष्ठ पूर्णिमा तक—कृ १ को उपवास, २-१५ तक एकाशन, शु १ को उपवास, २-१५ तक एकाशन करे। 'ओं ह्रीं श्री वृषभजिनाय नम' इस मन्त्रका त्रिकाल जाप करे। (व्रत विधान सं./४३)।

पणवति प्रकरण—जा सोमदेव (ई १४३-१६८) कृत न्याय विषयक एक ग्रन्थ है।

पष्टभक्त—दो उपवास—दे प्रोधोपवास/१।

पष्ट वेला—वेला अर्थात् दो उपवासका पष्ट भक्त कहते हैं।—दे वेलाव्रत।

पष्टी व्रत—६ वर्ष तक प्रतिवर्ष श्रावण शु ६ के दिन उपवास करे। तथा 'ओं ह्रीं श्री नेमिनाथाय नम' इस मन्त्रका त्रिकाल जाप करे। (व्रत विधान सं./१२२)।

षाष्ठिक पद्धति—Sexagesimal Measure (ज. प. प्र. १०८)।

षोडशकारण धर्म चक्रोद्धार यन्त्र—दे यन्त्र।

षोडशकारण भावना—दे भावना।

षोडश कारण भावना व्रत—१६ वर्ष तक, वा ५ वर्ष तक, अथवा जवन्य एक वर्ष तक प्रतिवर्ष भाद्रपद, माघ व चैत्र, इन तीनों महीनोंमें वृ १ से लेकर अगले महीनेकी वृ १ तक ३२ दिन तक क्रमशः ३२ उपवास, वा १६ उपवास, १६ पारणा, अथवा जवन्य विधिसे ३२ एकाशना करे।

जाप्य—'ओं ह्रीं दर्शविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यो नम।' इस मन्त्रका त्रिकाल जाप करे। (व्रत विधान सं./५८ ३८)।

[स]

संकट हरण व्रत—तीन वर्ष तक प्रतिवर्ष भाद्रपद, माघ व चैत्र-मासमें शु १३ से शु. १५ तक उपवास। तथा 'ओं ह्रीं, ह्रीं हूं, ह्रीं हूं अणि आ उसा सर्व शान्ति करु करु स्वाहा' इस मंत्रका त्रिकाल जाप करे। (व्रत विधान सं./४०)।

संकर दोष—स्या म/२४/२१२/१० येनात्मना सामान्यस्याधिकरण तेन सामान्यस्य विशेषरथ च, येन च विशेषस्याधिकरण तेन विशेषस्य सामान्यस्य चेति सद्भ्रदोष।—स्याद्वादिधिके मतमें अस्तित्व और नास्तित्व एक जगह रहते हैं। इसलिए अस्तित्वके अधिकरणमें अस्तित्व और नास्तित्वके रहनेसे, और नास्तित्वके अधिकरणमें नास्तित्व और अस्तित्वके रहनेसे स्याद्वादमें संकर दोष जाता है। (ऐसी शकामें संकर दोषका स्वरूप प्रकट होता है।)

म भ. त/८२/६ सर्वेषां युगपत्प्राप्ति, मकर है। (उपरोक्तवत्) सम्पूर्ण स्वभावोंकी युगपत् प्राप्ति हो जाना मकर है। (२तो वा ४/न्या ४६६/४६१/१८ पर भाषामें उद्धृत)।

संकलन—Addition जमा करना।

संकलन धन—दे गणित/11/१।

संकलन वार—दे गणित/11/१।

संकलित धन—Sum of series (ज. प. प्र. १०८)।

संकल्प—प का /ता, वृ /०/१६/० बहिर्द्रव्ये चेतनाचेतनमिश्रे ममेदमित्यादि परिणाम मकरप।—चेतन-अचेतन-मिश्र, इन बाह्य पदार्थोंमें 'ये मेरे हैं' ऐसी रूपना करना संकल्प है।

प. प्र./टी./१/१६ बहिर्द्रव्यविषये पुत्ररत्नत्रादिचेतनाचेतनरूपे ममेद-मिति स्वरूप संकल्प।—पुत्री-पुत्र आदि चेतन, अचेतन, बाह्य पदार्थोंमें 'ये मेरे हैं' ऐसा विचारना संकल्प है। (प्र. स/टी./४१/१७४/१)।

संकुट—जीवकी संकुट कटनेकी विवक्षा—दे जीव/१/३।

संकेत—Symbol Notation (व. ५/प्र. २८)। २ गणित सम्बन्धी विशेष शब्दोंकी सहनानियों—दे गणित/1/२।

संकेत क्रम—Scale of Notation (ध. ५/प्र. २८)।

संकोच—जीवकी संकोच विस्तार शक्ति—दे जीव/३।

संक्रमण—जीवके परिणामोंके वशसे कर्म प्रकृतिका बदलकर अन्य प्रकृति रूप हो जाना संक्रमण है। इसके उद्भेदना आदि अनेकों भेद हैं। इनका नाम वास्तवमें संक्रमण भागाहार है। उपचारसे इनको संक्रमण कहनेमें आता है। अतः इनमें केवल परिणामोंकी उत्कृष्टता आदि हीके प्रति संकेत किया गया है। ऊँचे परिणामोंसे अधिक द्रव्य प्रतिममय संक्रमित होनेके कारण उमका भागाहार अप्र होना चाहिए। और नीचे परिणामोंसे कम द्रव्य संक्रमित होनेके कारण उसका भागाहार अविक होना चाहिए। यही बात इन सय भेदोंके लक्षणोंपर मे जाननी चाहिए। उद्भेदना विध्यात व अथ प्रवृत्त इन तीन भेदोंमें भागहानि क्रमसे द्रव्य संक्रमाया जाता है, गुणश्रेणी संक्रमणमें गुणश्रेणी रूपसे और सर्वसंक्रमणमें अन्तका मचा हुआ सर्व द्रव्य युगपत् संक्रमा दिया जाता है।

१	संक्रमण सामान्यका लक्षण	
१	संक्रमण सामान्यका लक्षण।	
२	संक्रमणके भेद।	
३	पाँचों संक्रमणोंका क्रम।	
४	सम्यक्त्व व मिश्र प्रकृतिश्री उद्भेदनामें चार संक्रमणोंका क्रम।	
५	विसंयोजना।	—दे विसंयोजना।
२	संक्रमण योग्य प्रकृतियों	
१	केवल उद्भेदना योग्य प्रकृतियों।	
२	केवल विध्यात " "	
३	केवल अथ प्रवृत्त " "	
४	केवल गुणसंक्रमण योग्य प्रकृतियों।	
५	केवल सर्व संक्रमण " "	
६	विध्यात व अथ प्रवृत्त इन दोके योग्य।	
७	अथ प्रवृत्त व गुण इन दोके योग्य।	
८	अथ प्रवृत्त और सर्व इन दोके योग्य।	
९	विध्यात अथ प्रवृत्त व गुण इन तीनोंके योग्य।	

- १० अध प्रवृत्त गुण व सर्व इन तीनोंके योग्य ।
 ११ विध्यातगुण व सर्व इन तीनोंके योग्य ।
 १२ उद्वेलनके विना चारके योग्य ।
 १३ विध्यातके विना चारके योग्य ।
 १४ पाँचके योग्य ।
- ३ प्रकृतियोंमें संक्रमण सम्बन्धी कुछ नियम व शंका**
- १ बध्यमान व अवध्यमान प्रकृतियाँ सम्बन्धी ।
 * दर्शन मोहमें अवध्यमानका भी संक्रमण होता है ।
 —दे संक्रमण/३/१ ।
- २ मूल प्रकृतियोंमें परस्पर संक्रमण नहीं होता ।
 * स्वजाति उत्तर प्रकृतियोंमें संक्रमण होता है ।
 —दे संक्रमण/३/२ ।
- ३ उत्तर प्रकृतियोंमें संक्रमण सम्बन्धी कुछ अपवाद ।
 * चारों आयुओंमें परस्पर संक्रमण सम्भव नहीं ।
 —दे संक्रमण/३/३ ।
- * दर्शन चारित्र मोहमें परस्पर संक्रमण सम्भव नहीं ।
 —दे संक्रमण/३/३ ।
- * कषाय नोकषायमें परस्पर संक्रमण सम्भव है ।
 —दे संक्रमण/३/३ ।
- ४ दर्शन मोह त्रिकका स्व उदयकालमें ही संक्रमण नहीं होता ।
- ५ प्रकृति व प्रदेश संक्रमणमें गुणस्थान निर्देश ।
 ६ संक्रमण द्वारा अनुदय प्रकृतियोंका भी उदय ।
 ७ अचलावलि पर्यन्त संक्रमण सम्भव नहीं ।
 ८ संक्रमण पश्चात् आवली पर्यन्त प्रकृतियोंकी अचलता ।
 ९ संक्रमण विषयक सत् सख्यादि आठ प्ररूपणाएँ ।
 —दे बह बह नाम ।
- + प्रकृतियोंके संक्रमण व संक्रमको सम्बन्धी काल अन्तर आदि प्ररूपणाएँ ।
 —दे बह बह नाम ।
- ४ उद्वेलना संक्रमण निर्देश
- १ उद्वेलना संक्रमणका लक्षण ।
 * उद्वेलना संक्रमण द्विचरम काण्टक पर्यन्त होता है ।
 —दे संक्रमण/१/४ ।
- २ मार्गणा स्थानोंमें उद्वेलना योग्य प्रकृतियों ।
 ३ मिथ्यात्व व मिश्र प्रकृतिकी उद्वेलना योग्य काल ।
 ४ यह मिथ्यात्व अवस्थामें होता है ।
 * सम्यक् व मिश्र प्रकृतिकी उद्वेलनामें चार संक्रमणोंका क्रम ।
 —दे संक्रमण/१/४ ।
- * यह काण्टक घात रूपसे होता है ।
 —दे संक्रमण/६/२ ।
- ५ विध्यात संक्रमण निर्देश
- १ विध्यात संक्रमणका लक्षण ।
 * बन्ध व्युच्छित्ति होनेके पश्चात् उन प्रकृतियोंका ४-७ गुणस्थानोंमें विध्यात संक्रमण होता है ।
 —दे संक्रमण/१ ।

- ६ अध.प्रवृत्त संक्रमण निर्देश
- १ अध प्रवृत्त संक्रमणका लक्षण ।
 २ काण्डकावात व अपवर्तनावातमें अन्तर ।
 —दे अकर्षण/४/६ ।
- २ यह नियमसे धातिरूप होता है ।
 ३ मिथ्यात्व प्रकृतिका नहीं होता ।
 * शेष प्रकृतियोंका व्युच्छित्ति पर्यन्त होता है ।
 —दे संक्रमण/१/३ ।
- ४ सम्यक् व मिश्र प्रकृतिके अध प्रवृत्त संक्रमण योग्य काल ।
- ७ गुण संक्रमण निर्देश
- १ गुण संक्रमणका लक्षण ।
 २ गुण संक्रमणका स्वामित्व । —दे संक्रमण/१/३ ।
 ३ बन्धवाली प्रकृतियोंका नहीं होता ।
 * मिथ्यात्वके विधाकरणमें गुण संक्रमण ।
 —दे उपशम/२ ।
- ३ गुण संक्रमण योग्य स्थान ।
 ४ गुण संक्रमण कालका लक्षण ।
- ८ गुणश्रेणी निर्देश
- १ गुणश्रेणी विधानमें तीन पाँचका निर्देश ।
 २ गुणश्रेणि निर्जराके आवश्यक अधिकार ।
 ३ गुणश्रेणिका लक्षण ।
 ४ गुणश्रेणि निर्जराका लक्षण ।
 ५ गुणश्रेणि शीर्षकका लक्षण ।
 ६ गुणश्रेणि आयामका लक्षण ।
 ७ गलितत्वशेष गुणश्रेणि आयामका लक्षण ।
 ८ अवरिवर्ति गुणश्रेणि आयामका लक्षण ।
 ९ गुणश्रेणि आयामोंका यन्त्र ।
- १० अन्तर स्थिति व द्वितीय स्थितिका लक्षण ।
 ११ गुणश्रेणि निक्षेपण विधान ।
 * गुणश्रेणि निर्जराका २२ स्थानीय अल्पवृत्त्व ।
 —दे अल्पवृत्त्व/३/१० ।
- १२ गुणश्रेणि निर्जरा विधान ।
 १३ गुणश्रेणि विधान विषयक यन्त्र ।
 १४ नोकार्मकी गुणश्रेणि निर्जरा नहीं होनी ।
- ९ सर्व संक्रमण निर्देश
- १ सर्व संक्रमणका लक्षण ।
 * चरम फालिका सर्वसंक्रमण ही होता है ।
 —दे संक्रमण/१/३/४ ।
- १० आनुपूर्वी व मित्युक्त संक्रमण निर्देश
- १ आनुपूर्वी संक्रमणका लक्षण ।
 २ मित्युक्त संक्रमणका लक्षण ।
 * अनुदय प्रकृतियाँ मित्युक्त संक्रमण द्वारा उदयमें आती हैं ।
 —दे संक्रमण/३/६ ।

१ संक्रमण सामान्य निर्देश

१. संक्रमण सामान्यका लक्षण

क पा १/१, १५/३३१६/३ अतरकरणे कए ज णवुसयवेयवखण तस्स 'संक्रमण' ति सण्णा । = अन्तरकरण कर लेनेपर जा नपुसकवेदका (क्षपकके जो) क्षण होता है यहाँ उसकी (उस कालकी) संक्रमण सत्ता है।


गो क./जी. प्र ४३२/६११/४ परप्रकृतिरूपपरिणमन संक्रमणम् । = जो प्रकृति पूर्वमें बँधी थी उसका अन्य प्रकृति रूप परिणमन हो जाना संक्रमण है। (गो, क./जी प्र ४०६/६७३/६)।

२ संक्रमणके भेद

१ सामान्य संक्रमणके भेद

घ १६/२८२-२८४

संक्रमण या विपरिणमन



गो जो मू/६०४/६०३ संक्रमणं सद्धानपरट्ठान होदि । = संक्रमण दो प्रकारका है—स्वस्थान संक्रमण और परस्थान संक्रमण [इसके अतिरिक्त आनुपूर्वी संक्रमण (ल सा./मू/२४६), फालिसंक्रमण और काण्डक संक्रमण (गो. क./जी प्र ४१२/६७६) का निर्देश भी आगममें पाया जाता है।]

२. भागाहार संक्रमणके भेद

घ १६/गा १/४०६ उव्वेलणविज्झादो अधापवत्तो गुणो य सव्वो य । (संक्रमण) ४०६। = उसके (भागाहार या संक्रमणके) उव्वेलन, विध्यात, अध प्रवृत्त, गुणसंक्रम, और सर्वसंक्रमणके भेदसे पाँच प्रकार है ४०६। (गो. क./मू./४०६)।

३ पाँचों संक्रमणोंका क्रम

गो क./मू. न जी प्र ४१६ बधे अधापवत्तो विज्झाद सत्तमोत्ति हु अन्नधे । एत्तो गुणो अण्णे पयडोण अप्पसत्थाना ४१६। प्रकृतीनां बन्धे-सत्ति स्वस्वबन्धव्युच्छित्तिपर्यन्तमध प्रवृत्तसंक्रमण म्यात्त न मिथ्या-त्वस्य । बन्धव्युच्छित्ती सत्तामसयताद्यप्रमत्तपर्यन्त विध्यात-संक्रमणं स्यात् । इत् अप्रमत्तगुणस्थानाद्युपपशान्तकपायपर्यन्त वन्परहिताप्रशस्तप्रवृत्तीनां गुणसंक्रमणं स्यात् । ततोऽन्यत्रापि प्रथमो-पशमसम्यसर्वव्यवृत्तप्रथममयादान्तमुद्धृतपर्यन्त पुन मिश्रसम्यक्त्व-प्रकृत्यो पूरणकाले मिथ्यात्वभणायामपूर्वकरणपरिणामान्मिथ्यात्व चरमकाण्डकद्विचरमफालिपर्यन्त च गुणसंक्रमणं स्यात् । चरमफाली सर्वसंक्रमणं स्यात् । = प्रकृतियोंके बध होनेपर अपनी अपनी बध व्युच्छित्ति पर्यन्त अध प्रवृत्त संक्रमण होता है परन्तु मिथ्यात्व प्रकृतिका नहीं होता । और बन्धको व्युच्छित्ति होनेपर अतयत्तसे लेकर अप्रमत्तपर्यन्त विध्यातनामा संक्रमण होता है । तथा अप्रमत्तसे आगे उपशान्त कपाय पर्यन्त बन्ध रहित अन्नशस्त प्रकृतियोंका गुण-संक्रमण होता है । इसी तरह प्रथमोपशम सम्यक्त्व आदि अन्य जगह भी गुणसंक्रमण होता है ऐसा जानना । तथा मिश्र और

सम्यक्त्व प्रकृतिके पूरण कालमें और मिथ्यात्वके क्षय करनेमें अपूर्व-करण परिणामोंके द्वारा मिथ्यात्वके अन्तिम काण्डककी उपान्त्य फालिपर्यन्त गुणसंक्रमण और अन्तिम फालिमें सर्व संक्रमण होता है ।

४ सम्यक्त्व व मिश्र प्रकृतिकी उव्वेलनामें चार संक्रमणों-का क्रम

गो, क./मू./४१२-४१३ मिच्छेसमिस्साणं अधापवत्तो मुहुत्तअतोत्ति । उव्वेलणं तु तत्तो दुचरिमकडोत्ति णियमेण ४१२। उव्वेलणपयडोण गुणं तु चरिममिह कडये णियमा । चरिमे फालिमि पुणो सव्वं च य होदि संक्रमण ४१३। = मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होनेपर सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्रमोहनीयका अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त तक अध प्रवृत्त संक्रमण होता है । और उव्वेलन नामा संक्रमण द्विचरम काण्डक पर्यन्त नियमसे प्रवर्तता है ४१२। उव्वेलन प्रकृतियोंका अन्तके काण्डकमें नियमसे गुण संक्रमण होता है । और अन्तकी फालिमें सर्व संक्रमण होता है ४१३।

२. संक्रमण योग्य प्रकृतियाँ

१ केवल उव्वेलना योग्य प्रकृतियाँ

प स/प्रा/२/८ आहारय-वेउच्चिय-णिर-णर-देवाण हीति जुगलाणि । सम्मत्तुच्च मिस्सं एया उव्वेलण-पयडो । = आहारक युगल (आहारक शरीर-आहारक अगोपांग), वैक्रियिक युगल (वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक-अगोपांग), नरक युगल (नरकगति, नरक गत्यानुपूर्वी), नरयुगल (मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी), देवयुगल, (देवगति, देवगत्यानुपूर्वी), सम्यक्त्व प्रकृति, मिश्रप्रकृति और उच्चगोत्र ये तैरह उव्वेलन प्रकृतियाँ हैं । (गो क/मू/४१६/६७७)

२. केवल विध्यात योग्य प्रकृतियाँ

गो क/मू/४२६ सम्मत्तुण्वेलणथीणतित्तीस च दुवलवीस च । वज्जो-रालदुत्तित्थ मिच्छ विज्झादसत्तट्ठी ४२६। = सम्यक्त्व मोहनीयके बिना उव्वेलन प्रकृतियाँ १२ (दे संक्रमण/२/१), स्थानगृह्णित्ती तीन आदिक ३० प्रकृतियाँ (दे संक्रमण/२/११), असाता वेदनीय आदिक २० प्रकृतियाँ (दे संक्रमण/२/१६), वज्रपभनाराचसहनन, औदारिक युगल, तीर्थकर प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति ये (१२+३०+२०+६) ६७ प्रकृतियाँ विध्यात संक्रमणवाली हैं ।

३ केवल अध प्रवृत्त योग्य प्रकृतियाँ

गो क/मू/४१६-४२०/६०० मुहुत्तस बंधधादीसाद सजलणलोहपंचिदी । तेजदुसमवण्णचळ अगुरुलहुपरवादउस्सास ४१६। सत्थगदी तसदसय णिमिणुदाले अधापवत्तो दु । ४२०। = सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थानमें बधव्युच्छिन्न होनेवाली घातिया कर्मोंकी १४ प्रकृतियाँ (दे प्रकृति-बध ७/२) साता वेदनीय, सज्वलन लोभ, पचेन्द्रिय जाति, तीजस, कामण, समचतुरस्र, वर्णादि ४, अगुरुलघु, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तचिहायोगति त्रस आदि १० (दे उदय/६/१) और निर्माण इन ३६ प्रकृतियोंमें अध प्रवृत्त संक्रमण है ।

गो क/मू/४२७/६८४ मिच्छूणिगिवीससय अधापवत्तस्स हीति पय-डोओ । ४२७। = मिथ्यात्व प्रकृतिके बिना १२१ प्रकृतियाँ अध प्रवृत्त संक्रमणकी होती हैं ।

४. केवल गुण संक्रमण योग्य प्रकृतियाँ

गो, क/मू/४२७-४२८/६८४-६८६ मुहुत्तस बधघादिप्पहुदी उगुदाल-रालदुत्तित्थ ४२७। वज्जं पुरुजलणति ऊणा गुणस क्मस्स पयडोओ ।

पणहत्तरिसखाओ पयडोणियमं विजाणाहि १४२५ = सूक्ष्म साम्प-
रायमें बंधनेवाली घातिया कर्मोंकी १४ प्रकृतियोंको आदि लेकर
(दे, सक्रमण/२/३ में केवल अध प्रवृत्त सक्रमणमें योग्य) ३६
प्रकृतियाँ, औदारिक शरीर, औदारिक अगोपाग, तीर्थकर, वज्रप-
भनाराच, पुरुषवेद, सज्वलन क्रोधादि तीन, (३६ + ८) ४४ प्रकृतियों
को कम करके (१२२-४७) शेष ७५ प्रकृतियाँ गुण सक्रमण की
है। ४२७-४२८।

५. केवल सर्वसंक्रमण योग्य प्रकृतियाँ

गो. क./मू./४१७/५७६ तिरियेयारुव्वेल्लणपयडो सजलणलोहसम्ममि-
स्सूणा। मोहा थोणत्तिग च य नावण्णे सव्वसकमण १४१७ = तिरिये-
कादश (दे. उदय/६/१), उव्वेल्लणो १३ (दे सक्रमण/२/१),
संज्वलन लोभ, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र, इन तीन के बिना
मोहनीयकी २५ और स्थानगृह्ण आदिक ३ (स्थानगृह्ण, प्रचला-
प्रचला, निद्रानिद्रा) प्रकृतियाँ, ये (११ + १३ + २५ + ३) ५२ प्रकृतियों-
में सर्वसंक्रमण होता है १४१७।

६. विध्यात व अध.प्रवृत्त इन दोके योग्य

गो क /मू./४२४/५८३ ओरालदुगे वज्जे तित्थे विज्जादधापवत्तो य १४२४।
= औदारिक शरीर-अगोपाग, वज्रपभनाराच सहनन, तीर्थकर
प्रकृति-इन चारोंमें विध्यातसक्रमण और अध प्रवृत्त ये दो सक्रमण
हैं।

७ अधःप्रवृत्त व गुण इन दो के योग्य

गो. क./मू./४२१-४२२/५८० णिहा पयला अगुह वण्णचउक्क च उव-
धादे १४२१। सत्तण्ह गुणसकममधापवत्तो य। १४२२। = निद्रा, प्रचला,
अशुभ वर्णादि चार, और उपधात, इन सात प्रकृतियों के गुणसक्रमण
और अध प्रवृत्त सक्रमण पाये जाते हैं।

८. अध.प्रवृत्त और सर्व इन दोके योग्य

गो क /मू./४२४/५८३ सजलणत्तिये पुरिसे अधापवत्तो य सव्वो य १४२४।
= सज्वलन क्रोध, मान, माया तथा पुरुषवेद इन चारोंमें अध प्रवृत्त
और सर्व सक्रमण ये दो ही सक्रमण पाये जाते हैं।

९. विध्यात अध प्रवृत्त व गुण इन तीनके योग्य

गो. क./मू./४२२-४२३। दुवल्लमसुहगदी। सहदि संठाणदस णीचापुण-
थिरत्थकं च १४२२। बोसण्हं त्रिज्जाह अधापवत्तो गुणो य। १४२३।
= असाता वेदनीय, अप्रशस्त विहायोगति, पहलेके बिना पाँच
सहनन व पाँच सस्थान ये १०, नीचनोत्र, अपयसि और अस्थिरादि
६, इस प्रकार २० प्रकृतियोंके विध्यातसक्रमण, अध प्रवृत्त संक्रमण,
सर्वसक्रमण ये तीन हैं।

१० अध.प्रवृत्त गुण व सर्व इन तीनके योग्य

गो. क./मू./४२४/५८३ हस्सरदि भयजुगुच्छे अधापवत्तो गुणो सव्वो
१४२४। = हास्य, रति, भय और जुगुप्सा-इन चार प्रकृतियोंमें अध-
प्रवृत्त, गुण और सर्वसक्रमण ये तीन सक्रमण पाये जाते हैं १४२४।

११. विध्यात गुण और सर्व इन तीनके योग्य

गो. क./मू./४२३/५८२ विज्जादगुणे सव्व सम्मे १४२३। = मिथ्यात्व
प्रकृतिमें विध्यात, गुण और सर्वसक्रमण ये तीन हैं १४२३।

१२. उव्वेल्लनाके बिना चारके योग्य

गो क /मू./४२०-४२१/५८१ धीणत्तिवारकसाया सट्ठिथी अरह सोगो य
१४२०। तिरियेयार तोसे उव्वेल्लणहीणचारि सक्रमणा। १४२१।

= स्थानगृह्ण, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, (सज्वलनके बिना)
१२ कपाय, नपुंसक वेद, स्त्रीवेद, अरति, शोक, और तिर्यक्
एकादशकी ११ (दे उदय ६/१) इन तीस (३०) प्रकृतियोंमें उव्वेल्लन
सक्रमणके बिना चार सक्रमण होते हैं।

१३. विध्यातके बिना चारके योग्य

गो क /मू./४२३/५८२ सम्मे विज्जादपरिहीणा १४२३। = सम्यक्त्व
मोहनीयमें विध्यातके बिना सर्व सक्रमण पाये जाते हैं।

१४. पाँचोंके योग्य

गो. क /मू./४२४/५८३ सजलणत्तिये पुरिसे अधापवत्तो य सव्वो य १४२४।
= सम्यक्त्व मोहनीयके बिना १२ उव्वेल्लन प्रकृतियोंमें (दे, संक्रमण/
२/१) पाँचों ही सक्रमण होते हैं।

३. प्रकृतियोंके संक्रमण सम्बन्धी कुछ नियम व शका

१. बन्धमान व अबन्धमान प्रकृति सम्बन्धी

ध १६/४०६/४ बधे अधापवत्तो 'बधे अधापवत्तो' जत्थ जासि पय-
डोण बधो सभवदि तत्थ तासि पयडोण बधे सते असतो वि
अधापवत्तसकमो होदि। एमो णियमो बधपयडोणं, अबधपयडोणं
णत्थि। कुदो। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेसु वि अधापवत्तसकमुव-
लभादो।

ध १६/४२०/५ तिण्णि सजलण पुरिसवेदानमधापवत्तसंकमो सव्वसंकमो
चेदि दोण्णि सकमा होति। त तथा-तिण्ण सजलणं पुरिसवेदस्स
मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव अणियट्ठि ति अधापवत्तसकमो। = १ बन्ध-
के होनेपर अध प्रवृत्त सक्रमण होता है। (गो. क /मू./४१६) २ 'बधे
अधापवत्तो'का स्पष्टीकरण करते हुए बतलाते हैं कि जहाँ जिन
प्रकृतियोंका बन्ध सभव है वहाँ उन प्रकृतियोंके बन्धके होनेपर और
उसके न होनेपर भी अध प्रवृत्त सक्रमण होता है। यह नियम बन्ध
प्रकृतियोंके लिए है, अबन्ध प्रकृतियोंके लिए नहीं है, क्योंकि
सम्यक्त्व, और सम्यग्मिथ्यात्व इन दो अबन्ध प्रकृतियोंमें भी
अध प्रवृत्तसक्रमण पाया जाता है। ३ तीन सज्वलन और पुरुषवेदके
अध प्रवृत्तसक्रमण और सर्व-संक्रमण ये दो सक्रमण होते हैं। यथा-
तीन सज्वलन कपार्यों और पुरुष वेदका मिथ्यादृष्टिसे लेकर
अनिवृत्तिकरण तक अध प्रवृत्त सक्रमण होता है। (गो क /मू./४२४)।

गो क /मू. व जी प्र/४१० बधे सकामिज्जदि णोवधे १४१०। बधे
बधमानमात्रे सक्रामति इत्थयमुत्सर्गविधि कच्चिदवध्यमानेऽपि
सक्रममा, नोबन्धे अबन्धे न सक्रामति इत्थयनकवचनादर्शनमोहनीय
बिना शेष कर्म बधमानमात्रे एव सक्रामतीति नियमो ज्ञातव्य। =
जिस प्रकृतिका बन्ध होता है, उसी प्रकृतिका सक्रमण भी होता है
यह सामान्य विधान है क्योंकि कहींपर जिनका बन्ध नहीं उसमें भी
सक्रमण देखा जाता है। जिसका बन्ध नहीं होता उसका सक्रमण भी
नहीं होता। इस वचनका ज्ञापन सिद्ध प्रयोजन यह है कि दर्शन-
मोहके बिना शेष सब प्रकृतियाँ बन्ध होनेपर सक्रमण करती हैं ऐसा
नियम जानना।

२. मूल प्रकृतियोंमें परस्पर सक्रमण नहीं होता

ध १६/४०८/१० ज पदेसगण अणपयडि मकामिज्जदि एतो पदेस-
सकमो। एदेण अट्ठपदेण मूलपयडिसकमो णत्थि। उत्तरपयडि सक्के
पयद। = जो प्रदेशाग्र अन्य प्रकृतिमें सक्रान्त किया जाता है इसका
नाम प्रदेश सक्रमण है। इस अर्थपदके अनुसार मूलप्रकृति सक्रमण नहीं
है। उत्तरप्रकृति सक्रमण प्राप्त है।

गो क /मू. व जी प्र/४१०/५७८ णत्थि मूलपयडोणं। मकमो १४१०।
मूलप्रकृतीनां परस्परसक्रमण नास्ति, उत्तरप्रकृतीनामस्तीर्यथ।

—मूल प्रकृतियोंका परस्पर संक्रमण नहीं होता। अर्थात् ज्ञानावरणी कभी दर्शनावरणी रूप नहीं होती। सारांश यह हुआ कि उत्तर प्रकृतियोंमें ही संक्रमण होता है।

३ उत्तर प्रकृतियोंमें संक्रमण सम्बन्धी कुछ अपवाद

घ १६/३४१/१ संमणमाहणीय चारित्तमोहणीए ण सकमदि, चारित्त-
माहणीय पि दसणमाहणीए ण सकमदि। कुदो। साभाविद्यादो।
चदुणमाउआण सकमा णत्थि। कुदो। साभाविद्यादो। = दर्शन
मोहनीय चारित्र माहनीयमें संक्रान्त नहीं हाती, और चारित्र
माहनीय भी दर्शनमाहनीयमें मन्थान्त नहीं होती, क्योंकि ऐसा
स्वभाव है। च'रा आयुर्म्मका संक्रमण नहीं होता क्योंकि ऐसा
स्वभाव है। (गा क/मू/४१०/५७४)।

क पा २/३,२२/९११-४१२/२३४ ४ दसणमोहणीयस्स चारित्तमोहणीय-
सकमाभावादो। कसायाण णेकमाएसु णोकसायाण च कसाएसु
कुदो सकमा। ण एस दासा, चारित्तमाहणीयभावेण तेसि पच्चा-
सत्तिसभवादा। मोहणीयभावेण दसणचारित्तमोहणीयाण पच्चासत्ति
अत्थि त्ति अण्णोण्णेषु सत्तमो विण्ण इच्छदि। ण, पडिसेज्जकमाण-
वमत्रचारित्तान्ण भिण्णजादित्तणेण तेमि पच्चासत्तीए अभावादो।
= दर्शनमोहनीयका चारित्र मोहनीयमें संक्रमण नहीं होता है।
प्रश्न—कयाया का नाकपायोमें और नाकपायोका तपायोमें संक्रमण
किस कारणसे होता है। उत्तर—यह काई दोष नहीं है क्योंकि
दोनों चारित्रमोहनीय है, अत उनमें परस्परमें प्रत्यासत्ति पायी
जाती है, इसलिये उनका परस्परमें संक्रमण हो जाता है। प्रश्न—
दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय ये दोनों मोहनीय है, इस रूप-
से इनकी भी प्रत्यासत्ति पायी जाती है, अत इनका परस्परमें
संक्रमण क्या नहीं स्वीकार किया जाता है? उत्तर—नहीं, क्योंकि
परस्परमें प्रतिपेक्ष्यमान दर्शनमोहनीय और चारित्र मोहनीयके भिन्न
जाति हानेसे उनकी परस्परमें प्रत्यासत्ति नहीं पायी जाती, अत
इनका परस्परमें संक्रमण नहीं होता है।

४. दर्शनमोह त्रिकला स्व उदय कालमें ही संक्रमण नहीं होता

गा. ७/मू/४११/५७५ संम मिच्छ मिसम सणुणट्ठाणम्मि जेव
सकमदि। १४११। = सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्वमाहनीय,
मिथ्यात्वमोहनीय अपने अपने अमयतादि गुणस्थानोंमें तथा मिथ्यात्व
गुणस्थानमें और मिथमें नहीं संक्रमण करती।

५. प्रकृति च प्रदेश संक्रमणमें गुणस्थान निर्देश

क पा ३/२,२७/९३८/३८८/१००, तरथ दसणमाहणीयस्स सकमाभावेण
सम्मत्तणम्ममिच्छत्तण । = सम्पत्तिमिथ्यादि गुणस्थानमें दर्शन-
मोहनीयका संक्रमण नहीं होता।

गो क/मू व जो प्र/४११/५७४ सात्तणम्मि णियमा दसणत्तिप-
सत्तमो णत्थि १४११। तासादनमिथ्यानिग्रमेण दर्शनमाहत्रयस्य
संक्रमण नास्ति। अमगतादिचतुर्वस्वीत्यर्थ। = सासादन गुण-
स्थानमें निग्रममें दर्शनमोह त्रिकला संक्रमण नहीं होता। अमयतादि
(४-८) में हाता है।

गो १/मू/१२६ अधपरेनाग पुग मत्रमण सुहुमरागोत्ति १२६।

गो १/मू व जो प्र/४११/५७४ आदिमन्नेव तदो सुहुमरागोत्ति
सत्तमो णत्थि। अत्र नजागित्ति १४२१। तत्रापि संक्रमण
विना पचेत् उपागपर्यन्त भवन्ति। = अन्त्यरूप प्रदेशोंमें संक्रमण भी
सुहुमाप्तराय गुणस्थान पर्यन्त है। क्योंकि 'अधपवत्तो' इम
गाथपूत्रके उपागगोत्ति स्थितिके पर्यन्त ही संक्रमण नभव है। १२६।
उम अर्थात् गुणस्थानके ऊपर सुहुमाप्तराय गुणस्थान पर्यन्त

आदिके सात ही करण होते हैं। उससे आगे सयोग केवली तक
संक्रमणके बिना छह ही करण होते हैं। १४४२।

६ संक्रमण द्वारा अनुदय प्रकृतियोंका भी उदय

क पा ३/३,२७/९४३०/२४४/९ उदयाभावेण उदयनियेयद्विदी परसंख्खेण
गदाए । = जिस प्रकृतिका उदय नहीं होता उसकी उदय निपेक
स्थितिके उपान्त्य समयमें पररूपसे संक्रामित हो जाती है।

७. अचलावली पर्यन्त संक्रमण सम्भव नहीं

क पा ३/३,२७/९४११/२३३/४ अचलावलीयमेत्त काल वत्तसोलस-
कसायाणमुक्कस्सट्ठिदीए णोकसाएसु सकमाभावादो। कुदो एसो
णियमो। साहाविद्यादो। = वधी हुई सोलह कपायोकी उत्कृष्ट
स्थितिका अचलावली काल तक नौकपायोमें संक्रमण नहीं होता।
प्रश्न—विवक्षित समयमें वधे हुए कर्मपुजका अचलावली कालके
अनन्तर ही पर प्रकृतिरूपसे संक्रमण होता है ऐसा नियम क्यों?।
उत्तर—स्वभावसे ही यह नियम है।

८ संक्रमण पश्चात् आवली पर्यन्त प्रकृतियों की अचलता

घ ६/१ ६-८, १६/गा २१/३४६ सकामेदुक्कज्जि जे असे ते अयट्ठिदा
होत्ति। आरत्तियं ते काले तेण पर होत्ति भजिदव्वा १२१। = जिन
कर्म प्रदेशोंका संक्रमण अथवा उत्कर्षण करता है वे आवलीमात्र काल
तक अस्थित अर्थात् क्रियान्तर परिणामके बिना जिस प्रकार जहाँ
निश्चिष्ट है उसी प्रकार ही वहाँ निश्चल भावसे रहते हैं। इसके
पश्चात् उक्त कर्मप्रदेश वृद्धि, हानि एवं अवस्थानादि क्रियाओंसे
भजनीय है। १२१।

४ उद्वेलना संक्रमण निर्देश

१ उद्वेलना संक्रमणका लक्षण

नोट—[करण परिणामों अर्थात् परिणामोंकी विद्युद्धि व सक्लेशसे
निरपेक्ष कर्म परमाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप परिणमन हो जाना,
अर्थात् रस्सीका बट खोलनेवत् उसी प्रकृतिरूप हो जाना जिसमें
कि संक्रम कर पहले कभी इस प्रकृतिरूप परिणमन किया था, सो
उद्वेलना संक्रमण है। इसका भागाहार अगुल/अस है, अर्थात् सबसे
अधिक है। अर्थात् प्रत्येक समय बहुत कम द्रव्य इसके द्वारा परिण-
माया जाना सम्भव है। यह बात ठीक भी है, क्योंकि बिना परिणामों
रूप प्रयत्न विशेषके धीरे-धीरे ही कार्यका होना सम्भव है।

जो प्रकृति उस समय नहीं बँधती है और न ही उसको बँधनेकी उस
जीवमें योग्यता है उन्हीं प्रकृतियोंका उद्वेलना होती है। मिथ्यात्व
गुणस्थानमें ही होती है। यह काण्डकल्प होती है अर्थात् प्रथम
अन्तर्मुहूर्तकाल द्वारा विषय चयहीन क्रमसे तथा द्वितीय अन्तर्मु-
हूर्तमें उससे दुगुने चयहीन क्रमसे होती है। अथ प्रवृत्त पूर्वक ही होती
है। उपान्त्य काण्डक पर्यन्त ही होकर ही है। यह प्रकृतिके सर्वहीन
निपेक्षकोंको परिणमानेपर होता है, थोड़े मात्रपर नहीं। प्रत्येक काण्डक
पश्य/अस स्थिति वाला होता है।]

गो क/जो प्र/३४२/४०३/२ वक्कज्जस्सुभावविनाशवत् प्रवृत्तेरुद्वेलन
भागाहारणाकृष्य परप्रकृतिता नीत्वा विनाशनमुद्वेलन ३४६। =
जैसे जेव जी (रस्सीके) बटनेमें जा नल दिया था थोड़े उलटा घुमानेसे
वह नल निकाल दिया। इसी प्रकार जिस प्रकृतिका वध किया था,
थोड़े परिणाम विशेषमें भागाहारके द्वारा अपकृत करके, उसको
अन्य प्रकृतिरूप परिणामके उसका नाश कर दिया (फल-उदयमें
नहीं आने दिया, पहले ही नाश कर दिया।) उसे उद्वेलन संक्रमण
कहते हैं।

गो क/जो प्र/४१३/५७६/८ करणपरिणामेन विना कर्मपरमाणुनां परप्रकृतिरूपेण निक्षेपणमुद्देशलनसंक्रमणं नाम।—अध प्रवृत्त आदि तीन करणरूप परिणामोंके विना ही कर्मप्रकृतियोंके परमाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप परिणमन होना वह उद्देशलन संक्रमण है।

२. मार्गणा स्थानोंमें उद्देशलना योग्य प्रकृतियों

गो. क./सू/३५१, ६१३, ६१६ चतुर्गतिमिच्छे चउरो इगिचिगले छप्पि तिण्णि तेउदुगे। १३५१। वेदगजोगे काले आहार उवसमस्स सम्मत्त। सम्मामिच्छं चगे विगलेवेगुव्वल्लक तु १६१४। तेउदुगे मणुवदुगं उच्च उव्वेवल्लदे जहग्णिणदर। पल्लासंखेज्जदिम उव्वेवल्लण-कालपरिमाण १६१६।—चारो गतिवाले मिथ्यादृष्टि जीवोंके चार (आहारक द्विक, सम्यक्त्व, मिश्र) प्रकृतियाँ, एकेन्द्रिय तथा दो इन्द्रियादि विकलत्रयमें (देवगति, देवगत्यानुपूर्वी) ये छह प्रकृतियाँ, तेजकाय व वायुकाय इन दोनोंके (उच्चगोत्र, मनुष्य द्विष) ये तीन प्रकृतियाँ उद्देशलनके योग्य हैं। १३५१। वेदक सम्यक्त्व योग्य कालमें आहारक द्विककी उद्देशलना, उपशम कालमें सम्यक्त्व प्रकृति वा सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी उद्देशलना करता है। और एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय पर्यायमें वैक्रियिक पटककी उद्देशलना करता है। १६१४। तेजकाय और वायुकायके मनुष्यगति युगल और उच्चगोत्र—इन तीनोंकी उद्देशलना होती है, उस उद्देशलनके कालका प्रमाण जघन्य अथवा उत्कृष्ट पथके असख्यातवें भाग प्रमाण है। १६१६।

३. मिथ्यात्व व मिश्र प्रकृतिकी उद्देशलना योग्य काल

क पा २/२, २२/१२३/२०५/१ एद्विएसु सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तविहृत्ती० जह० एगसमओ, उल्ल० पल्लोवमस्स असले० भागो।—एकेन्द्रियोंमें सम्यक्प्रकृति व सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पर्योपमके असख्यातवें भागमात्र है। [क्योंकि यहाँ उपशम सम्यक्त्व प्राप्तिकी योग्यता नहीं है, इसलिए इस कालमें वृद्धि सम्भव नहीं। यदि सम्यक्त्व प्राप्त करके पुन नवीन प्रकृतियोंकी सत्ता कर ले तो क्रम न टूटनेके कारण इस कालमें वृद्धि होनी सम्भव है। यदि ऐसा न हो तो अवश्य इतने कालमें उन प्रकृतियोंकी उद्देशलना हो जाती है। जिन मार्गणार्थोंमें इनका सत्त्व अधिक कहा है वहाँ नवीन सत्ताकी ओक्षा जानना। दे अन्तर/२।]

घ. ५/१, ६, ७/१०/८ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तविहृत्ती० पल्लोवमस्स असखेज्जदिभागमेत्तकालेण विणा सागरोवमस्स वा सागरोवमपुधत्तस्स वा हेट्ठा पदणाणुपत्तीदो।—सम्यक्त्व और सम्यक्त्वमिथ्यात्व प्रकृतिकी स्थितिका, पर्योपमके असख्यातवें भागमात्र कालके विना सागरोपमके, अथवा सागरोपमपुधक्त्वके नीचे पतन नहीं हो सकता है।

गो क/सू/६१७/२१ पल्लासखेज्जदिम ठिदिसुव्वेवल्लदि मुहुत्तअतेण। सखेज्जसायरठिदि पल्लासखेज्जकालेण।—पथके असख्यातवें भाग प्रमाण स्थितिकी अन्तर्मुहूर्त कालमें उद्देशलना करता है। अतएव एक सख्यात सागरप्रमाण मनुष्यद्विकादिकी सत्त्वरूप स्थितिकी उद्देशलना त्रैाशिक विधिसे पथके असख्यातवें भागप्रमाण कालमें ही कर सकता है, ऐसा सिद्ध है।

४. यह मिथ्यात्व अवस्थामें होता है

क पा २/२, २२/१२३/१२६/२ पंचिदियत्तिरि० अपज्ज० सवपयडोण णत्थि अंतर। एव सम्मादि० खडय० वेदग० उवसम० सासण० सम्मामि० मिच्छादि० अणाहारएत्ति वत्तव।—एकेन्द्रिय तिर्यंच लब्धि अपमसिकोंके सभी प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि, क्षायिक सम्यग्दृष्टि, वेदक सम्यग्दृष्टि, उपशम सम्यग्दृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, मिथ्यादृष्टि, और अनारारक जीवोंके कहना चाहिए। [इस प्रकरणसे यह जाना

जाता है कि इन दो प्रकृतियोंकी उद्देशलना मिथ्यात्वमें ही होती है, वेदक सम्यक्त्वावरयामें नहीं, और उपशम सम्यक्त्व हुए विना मिथ्यात्वावस्थामें ही इनका पुन सत्त्व नहीं होता। न ही इनका सत्त्व प्राप्त हो जानेपर उपशम सम्यक्त्व हुए विना मार्गमेंसे ही पुन मिथ्यात्वकी प्राप्त होता है। और भी वे अगला शीर्षक]।

५. सम्यक् व मिश्र प्रकृतिकी उद्देशलनाका क्रम

क पा २/२, २२/१२४/१११/६ अट्ठानीसमतकम्मिओ उव्वेल्लिद-सम्मत्तो मिच्छाइट्ठी सत्तावीसविहृत्तियो होदि।—अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ताप्राप्ता मिथ्यादृष्टि जीव (पहले) सम्यक्त्व प्रकृतिकी उद्देशलना करके सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्ताप्राप्ता होता है [तत्पश्चात् सम्यग्मिथ्यात्वकी भी उद्देशलना करके २६ प्रकृति स्थानका स्वामी हो जाता है।] (क पा. ३/१३७३/२०५/६)।

५. विध्यात संक्रमण निर्देश

१. विध्यात संक्रमणका लक्षण

नोट—[अपकर्षण विधानमें बताया गये स्थिति व अनुभाग काण्डक व गुणश्रेणीरूप परिणामोंमें प्रवृत्त होना विध्यात संक्रमण है। इसका भागाहार भी यद्यपि अगुल/असख्यात भाग है, परन्तु यह उद्देशलनाके भागाहारसे असख्यात गुणहीन है, अत इसके द्वारा प्रति समय उठाया गया द्रव्य बहुत अधिक है। मिथ्यात्व व मिश्र मोह इन दो प्रकृतियोंको जब सम्यक्प्रकृतिरूपसे परिणमाता है तब यह संक्रमण होता है। वेदक सम्यक्त्ववालेको तो मर्ब ही अपनी स्थिति कालमें वहाँ तक होता रहता है जब तक कि क्षणार्थ प्रारम्भ करता हुआ अध प्रवृत्त परिणामका अन्तिम समय प्राप्त होता नहीं। उपशम सम्यक्त्वके भी अपने सर्व कालमें उसी प्रकार होता रहता है, परन्तु यहाँ प्रथम अन्तर्मुहूर्तमें गुणसंक्रमण करता है पश्चात् उसका काल समाप्त होनेके पश्चात् विध्यात प्रारम्भ होता है।]

गो क/जी प्र/४१३/५७६/८ विध्यातविशुद्धिक्खस्य जीवस्य स्थित्यनु-भागकाण्डकगुणश्रेण्यादिपरिणामेत्तात्तीतेपु प्रवर्तनाद्विध्यातसंक्रमण णाम।—मद विशुद्धतावाले जीवकी, स्थिति अनुभागके घटाने रूप भूतकालीन स्थिति काण्डक और अनुभाग काण्डक तथा गुणश्रेणी आदि परिणामोंमें प्रवृत्ति होना विध्यात संक्रमण है।

६. अध प्रवृत्त संक्रमण निर्देश

१ अध प्रवृत्त संक्रमणका लक्षण

नोट—[सत्ताभूत प्रकृतियोंका अपने अपने बंधके साथ सभवती यथा-योग्य प्रकृतियोंमें उनके बंध होते समय ही प्रवेश या जाना अध-प्रवृत्त है। इसका भागाहार पथ/असख्यात, जो स्पष्ट ही विध्यातसे असख्यातगुणा हीन है। अत इसके द्वारा प्रतिक्षण ग्रहण किया गया द्रव्य विध्यात की अपेक्षा बहुत अधिक है।

बंधकालमें या उस प्रवृत्तिकी बंधकी योग्यता रखनेपर उस ही गुणस्थानमें होता है जिसमें कि वह प्रवृत्ति बन्धसे व्युत्पन्न नहीं हुई है, थोड़े द्रव्यका होता है मर्ब द्रव्यका नहीं, क्योंकि इसके पीछे उद्देशलना या गुण संक्रमण या विध्यान संक्रमण प्रारम्भ हो जाते हैं। क्रोधकी प्रत्याख्यानादि स्व जाति भेदोंमें जयवा मान आदि विजाति भेदोंमें परिणमाता है। यह नियमसे फालीरूप होता है। अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त ही होता है। काण्डकरूप संक्रमण और फालिरूप संक्रमणमें इतना भेद है कि फालिरूपमें ता अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त बराबर भागाहार हानि क्रमसे उठा-उठाकर नाथ-नाथ संक्रमाता है और काण्डक रूपमें वर्तमान समयसे तेवर एक-एक अन्तर्मुहूर्तकाल बीतने-पर भागाहार क्रमसे एकट्ठा कर उठाता है जयति संक्रमण करनेके

लिए निश्चित करता है। एक अन्तर्मुहूर्त तक संक्रमानेके लिए जो द्रव्य निश्चित किया उसे काण्डक कहते हैं। उस द्रव्यको अन्तर्मुहूर्त-काल पर्यन्त विशेष चय हानि क्रमसे खपाता है। उसके समाप्त हो जानेपर अगले अन्तर्मुहूर्तके लिए अगला काण्डक उठाता है।]

गो क/जी प्र/४१३/५७६/९ बन्धप्रकृतीनां स्वबन्धसम्भवविषये य प्रदेशसंक्रम तदध प्रवृत्तसंक्रमण नाम। —अध हुई प्रकृतियोंका अपने बंधमें सभवती प्रकृतियोंमें परमाणुओंका जो प्रदेश संक्रम होना वह अध प्रवृत्त संक्रमण है।

२. यह नियमसे फालीरूप होता है

गो क/जी प्र/४१२/५७५/७ तत्राध प्रवृत्तसंक्रम फालिरूपेण उद्वेलन-संक्रम काण्डकरूपेण वर्तते। — (मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होनेपर सम्यक् व मिश्रका अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् उपान्त काण्डक पर्यन्त) अध प्रवृत्तसंक्रमण फालिरूपसे प्रवर्तता है और उद्वेलना संक्रमण काण्डक रूपसे प्रवर्तता है।

३ मिथ्यात्व प्रकृतिका नहीं होता

गो क/जी, प्र/४१६/५७७/७ अध प्रवृत्तसंक्रमण स्यात् न मिथ्यात्वस्य, 'सम्म मिच्छ मिस्स सगुणद्वानम्मि जेव सकमदीत्ति' निषेधात् (गो क/४११) — (प्रकृतियोंके बन्ध होनेपर अपनी-अपनी व्युत्पत्ति पर्यन्त) अध प्रवृत्त संक्रमण होता है, परन्तु मिथ्यात्व प्रकृतिका नहीं होता। क्योंकि 'सम्म मिच्छ मिस्स' इत्यादि गाथाके द्वारा इसका निषेध पहले बता चुके हैं (दे संक्रमण/३/४)।

४. सम्यक् व मिश्र प्रकृतिके अध प्रवृत्त संक्रम योग्य काल

गो क/प्र/४१२/५७५ मिच्छे सम्मिस्साण अध पवत्तो मुहुत्तअतोत्ति । —मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होनेपर सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्रमोहनीयका अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त तक अध प्रवृत्त संक्रमण होता है।

७ गुण संक्रमण निर्देश

१. गुण संक्रमणका लक्षण

नोट—[प्रति समय अमर्यात् गुणश्रेणी क्रमसे परमाणु प्रदेश अन्य प्रकृतिरूप परिणामावे सो गुण संक्रमण है। इसका भागहार भी यद्यपि पश्य/असख्यात् है परन्तु अध प्रवृत्तसे असख्यात् गुणहीन हीन है। इसलिए इसके द्वारा प्रतिसमय ग्रहण किया गया बहुत द्रव्य ही अधिक होता है। उपान्त्य काण्डक पर्यन्त विशेष हानि क्रमसे उठाता हुआ चलता है। (यहाँ तक तो उद्वेलना संक्रमण है), परन्तु अन्तिम काण्डककी अन्तिम फालि पर्यन्त गुणश्रेणी रूपसे उठाता है।

जिन प्रकृतियोंका बन्ध हो रहा हो उनका गुण संक्रमण नहीं हो सकता, अवन्धरूप प्रकृतियोंका होता है और स्व जातिमें ही होता है। अपूर्वकरणके प्रथम समयमें गुण संक्रम नहीं होता। अनन्तानुबन्धीका गुण संक्रमण विसयोजना कहलाता है।]

गो क/जी, प्र/४१३/५७६/९ प्रतिसमयसंख्येयगुणश्रेणिक्रमेण यत्प्रदेश-संक्रमण तद्द गुणसंक्रमण नाम। —जहाँपर प्रतिसमय असख्यात् गुणश्रेणीक्रमसे परमाणु-प्रदेश अन्य प्रकृतिरूप परिणमे सो गुण-संक्रमण है।

२ बन्धवाली प्रकृतियोंका नहीं होता

स मा/जी प्र/७५/१०६/१७ अग्रशस्तानां बन्धोऽङ्कितप्रकृतीनां द्रव्य प्रतिसमयसंख्येयगुण बध्यमानसजातीयप्रकृतिषु संक्रामति । पूर्व-स्वरूप गृह्णातीत्यर्थ । —बन्ध अधीन्य अग्रशस्त प्रकृतियोंका द्रव्य, समय-समय प्रति असख्यात्गुणा क्रम लिये जिनका बन्ध पाया जाता

है ऐसी स्वजाति प्रकृतियोंमें संक्रमण करता है, अपने स्वरूपको छोड़कर तद्दरूप परिणमन करता है।

ल, सा/जी प्र/२२४/२८०/८ बन्धवत्प्रकृतीनां गुणसंक्रमो नास्ति । —जिनका बन्ध पाया जाता है ऐसी प्रकृतियोंका संक्रमण नहीं होता।

३. गुण संक्रमण योग्य स्थान

ल सा/जी प्र/७५-७६/१०६/११०/१६ गुणसंक्रम अपूर्वकरणप्रथमसमये नास्ति तथापि स्वयोग्यावसरे भविष्यत् (७५) एव विध प्रतिसम-यसंख्येयगुण संक्रमण प्रथमवपायाणामनन्तानुबन्धिनां विसयोजने वर्तते। मिथ्यात्वमिश्रप्रकृतयो क्षणायाम् वर्तते। इतरासां प्रकृती-नामुभयश्रेण्यामुपशमकश्रेण्यां क्षणकश्रेण्यां च वर्तते। ७६। —गुण संक्रमण अपूर्वकरणके पहले समयमें नहीं होता है। अपने योग्यकालमें होता है। ७५। असख्यात्गुणा क्रम लिये जो हो उसको गुण संक्रमण कहते हैं। सो अनन्तानुबन्धी कपायोंको गुणसंक्रमण उनकी विस-योजनामें होता है। मिथ्यात्व और मिश्रप्रकृतिका गुण संक्रमण उनकी क्षणामें होता है, और अन्य प्रकृतियोंका गुणसंक्रमण उपशम व क्षणक श्रेणीमें होता है।

४. गुण संक्रमण कालका लक्षण

ल, सा/भापा/१२२/१६६/९ मिश्र मोहनीय (या विवक्षित प्रकृतिका) गुण संक्रमण कर यावत् सम्यक्त्व मोहनीयरूप (या यथा योग्य किसी अन्य विवक्षित प्रकृतिरूप) परिणमै तावत् गुणसंक्रमण काल कहिये ।

८ गुणश्रेणी निर्देश

१. गुणश्रेणी विधानमें तीन पर्वोंका निर्देश

ल, सा/प्र/५८३/६६५ गुणसेडि अतरटिठदि विदियटिठदि इदिहवति पव्वतिया। ५८३। —गुणश्रेणीमें तीन पर्व होते हैं—गुणश्रेणी, अन्तर स्थिति और द्वितीय स्थिति। अपकृष्ट किया हुआ द्रव्य इन तीनोंमें विभक्त किया जाता है।

२. गुणश्रेणी निर्जराके आवश्यक् अधिकार

नोट—[गुणश्रेणी शीर्ष, गुणश्रेणी आयाम, गलितत्वशेषगुणश्रेणी आयाम और अवस्थित गुणश्रेणी आयाम इतने अधिकार हैं।]

३. गुणश्रेणीका लक्षण

घ १२/४,२,७,१७५/८०/६ गुणो गुणगारो, तस्स सेडो ओली पती गुण-सेडो णाम । दसणमोहवसामयस्स पढमसमए णिज्जिणदव्व थोव । विदियसमए णिज्जिणदव्वमस खेज्जगुण । तदियसमए णिज्जिण-दव्वमसखेज्जगुण । एव णेयव्व जाव दसणमोहवसामगचरिम-समओत्ति । एसा गुणागारपत्ती गुणसेडि च्चि भणिद । गुणसेडीए गुणो गुणसेडिगुणो, गुणसेडिगुणगारो च्चि भणिद होदि । —गुण शब्दका अर्थ गुणकार है। तथा उसकी श्रेणी, आवलि या पत्तिका नाम गुणश्रेणी है। दर्शनमोहका उपशम करनेवाले जीवका प्रथम समयमें निर्जराको प्राप्त होनेवाला द्रव्य स्तोत्र है। उसके द्वितीय समयमें निर्जराको प्राप्त हुआ द्रव्य असख्यात् गुणा है। उससे तीसरे समयमें निर्जराको प्राप्त हुआ द्रव्य असख्यात् गुणा है। इस प्रकार दर्शनमोह उपशमकके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए। यह गुणकार पत्ति गुणश्रेणी है। यह उक्त कथनका तात्पर्य है। तथा गुणश्रेणीका गुण गुणश्रेणिगुण अर्थात् गुणश्रेणि गुणकार कहलाता है।

स सा/प्र/५८३/६६५ सुहुमगुणादो अहिया अवटिठदुदयादि गुणसेडो ५८३। —यावत् अपकृष्ट किया द्रव्य सूक्ष्मसे लेकर असख्यात्गुणा

क्रम लिये अवस्थितादि आयाममें दिया जाता है उमका नाम गुण-श्रेणी है।

४. गुणश्रेणी निर्जराका लक्षण

गो जी/भापा/६७/१७४/११ उदयावलि कालके पीछे अन्तर्मुहूर्त मात्र जो गुणश्रेणीका आयाम कहिए काल प्रमाण ताविषे दिया हुआ द्रव्य सो तिस कालका प्रथमादि समयविषे जे पूर्वे निषेक थे, तिनकी साथि क्रमते असख्यातगुणा असख्यातगुणा होइ निर्जरा है सो गुणश्रेणी निर्जरा (है ।)

५. गुणश्रेणी शीर्षका लक्षण

घ. ६/१.६-८.१२/२६१/११ सम्मत्तस चरिमट्टिदिव्ङो पढमसमय-आगाइदे ओवट्टियमाणसु टिट्टिदिसु ज पदेसगसमुदद दिज्जदि त थोव, से काले असखेज्जगुण । ताव असखेज्जगुण जाव टिट्टिदिव्ङ-यत्स जह्णियाए वि टिट्टिदीए चरिमसमय अपत्त' ति । सा चेव टिट्टिदी गुणसेडी सीसय जादा । =सम्यक्त्व प्रकृतिके अन्तिम स्थिति काण्डकके प्रथम समयमें ग्रहण करनेपर अवर्तन की गयी स्थितियों-में-से जो प्रदेशाय उदयमें दिया जाता है, वह अल्प है, अनन्तर समयमें असख्यात गुणित प्रदेशाप्रोको देता है। इस क्रमसे तब तक असख्यात गुणित प्रदेशाप्रोको देता है जब तक कि स्थितिकाण्डककी जघन्य भी स्थितिका अन्तिम समय नहीं प्राप्त होता है। वह स्थिति ही गुणश्रेणीशीर्ष कहलाती है।

ल सा/भापा/१३५/१५६/५ गुणश्रेणी आयामका अन्तका निषेक ताकी इहाँ गुणश्रेणी शीर्ष कहते है।

६. गुणश्रेणी आयामका लक्षण

क्ष सा/३६५/भापा उदयावलिसे बाह्य गलितावशेष रूप जो यह गुण-श्रेणी आयाम है ता विषे अपकर्ष किया द्रव्यका निक्षेपण हो है।

७. गलितावशेष गुणश्रेणी आयामका लक्षण

ल सा/भापा/१४३/१६५/२—उदयादि वर्तमान समय तै लगाय यहाँ गुणश्रेणी आयाम पाइये तातै उदयादि कहिये, अर एक एक समय व्यतीत होते एक एक समय गुणश्रेणी आयाम विषे घटता जाय (उपरितन स्थितिका समय गुणश्रेणी आयाममें न मिले) तातै गलितावशेष कहा है। ऐसे गलितावशेष गुणश्रेणी आयाम जानना।

ल सा/वचनिका/२२/४ गलितावशेष गुणश्रेणीका प्रारम्भ करनेकी प्रथम समय विषे जो गुणश्रेणी आयामका प्रमाण था, तामें एक-एक समय व्यतीत होतै ताकै द्वितीयादि समयनिविषे गुणश्रेणी आयाम क्रमते एक-एक निषेक घटता होइ अवशेष रहै ताका नाम गलितावशेष है। (घ ६/१.६-८.१२/२३० पर विशेषार्थ)।

८. अवस्थित गुणश्रेणी आयामका लक्षण


ल. सा/जी प्र/१३०/१७१/६ सम्मत्तप्रकृतेरष्टवर्षस्थितिकरणसमयाद्-धर्ममपि न केवलमष्टवर्षमात्रस्थितिकरणसमय एवोदयावलिस्थितिगुण-श्रेणिरित्यर्थः । =सम्यक्त्व मोहनीयकी अष्ट वर्ष स्थिति करनेके समयतै लगाय उपरि सर्व समयनिविषे उदयादि अवस्थिति गुण-श्रेणी आयाम है।

ल सा/भापा/१२८/१६६/१८ इहाँ तै पहिले (सम्यक्त्व मोहकी, क्षमणा विधानके द्वारा, अष्टवर्ष स्थिति अवशेष रखनेके समय तै पहिले) तो उदयावलि तै बाह्य गुणश्रेणी आयाम था। अज इहाँ तै लगाइ उदयरूप वर्तमान समय तै लगाइ ही गुणश्रेणी आयाम भया तातै याको उदयादि कहिये। अर (उदयादि गुणश्रेणी आयाम तै) पूर्वे तो समय व्यतीत होतै गुणश्रेणी आयाम घटता होता जाता था, अब (उदयावलिमें-से) एक समय (उदय विषे)

व्यतीत होतै उपरितन स्थितिका एक समय मिलाय गुणश्रेणी आयामका प्रमाण समय व्यतीत होतै भी जेताका देता रहै। तातै अवस्थित कहिये तातै याका नाम उदयादि अवस्थिति गुण-श्रेणी आयाम है।

ल. सा/वचनिका/२२/७ अवस्थित गुणश्रेणी आयामका प्रारम्भ करने-का प्रथम समय द्वितीयादि समयनिविषे गुणश्रेणी आयाम जेता-का देता रहै। ज्यूँ ज्यूँ एक एक समय व्यतीत होइ त्यूँ त्यूँ गुणश्रेणी आयामके अनन्तरिवर्ती ऐसा उपरितन स्थितिका एक एक निषेक गुणश्रेणी आयाम विषे मिलता जाइ तहाँ अवस्थित गुण-श्रेणी आयाम कहिये है।

९. गुणश्रेणी आयामोंका यन्त्र



१०. अन्तरस्थिति व द्वितीय स्थितिका लक्षण

क्ष सा/भापा/५८३/६६५/१६ ताके उपरिवर्ती (गुणश्रेणिके ऊपर) जिनि निषेकनिका पूर्वे अभाव किया था तिनका प्रमाण रूप अन्तर-स्थिति है। ताकै उपरिवर्ती अवशेष सर्वस्थिति ताका नाम द्वितीय स्थिति है।

११. गुणश्रेणी निक्षेपण विधान

क्ष सा/५८६/६६५-७०० का भावार्थ—प्रथम समय अपकर्षण किया द्रव्य तै द्वितीयादि समयनि विषे अमख्यात गुण द्रव्य लिये समय प्रति-समय द्रव्यको अपकर्षण करै है और उदयावलि विषे, गुणश्रेणी आयाम विषे और उपरितन (द्वितीय) स्थिति विषे निक्षेपण करिये है। अन्तरायामके प्रथम स्थितिके प्रथम निषेक पर्यन्त गुण-श्रेणी शीर्षपर्यन्त तो असख्यात गुणक्रम लिये द्रव्य दीजिये है, ताकै उपरि (अन्तर स्थिति व द्वितीय स्थितिमें) मग्यातगुणा घटता द्रव्य दीजिये है।

१२. गुणश्रेणी निर्जरा विधान

घ ६/१.६-८.५/२२४-२२७/६ उदयपयडीणमुदयावलियबाहिरटिट्टिद-टिट्टिदीण पदेसगमोकट्टणभागहारेण खडिदेयखड अमखेज्जगोणेण भाजिदेगभाग घेत्तण उदए बहुग देदि । विदियसमए विसेमहीण देदि । एव विसेसहीण विसेसहीण देदि जाव उदयावलिचरिम-समओ ति । एस क्को उदयपयडीण चेर, ण सेमाण, तेसिमुद-यावलिचरिअतरे पडमाणपदेसगाभावा । उट्टेह्णणमपुदह्णण च पयडीण पदेसगमुदयावलिचरिबाहिरटिट्टिदीण खडिदेयखड घेत्तण उदयावलिचरिबाहिरटिट्टिदिन्टि जमखेज्जसमय-प्रवह्णे देदि । तदो उवरिमट्टिदीए ततो अमखेज्जगोणे देदि ।


तदियद्विदोए तत्तो असखेज्ज गुणे देदि । एमससेज्जगुणाए सेडीए णेद्वं जाव गुणसेडीचरिमसमओ त्ति । तदो उवरिमाणतराए द्विदोए असखेज्जगुणहीण दव्व देदि । तदुवरिमद्विदोए विसेसहीणं देदि । एवं विसेसहाण विसेसहीणं चेव पदेसग्ग गिरंतरं देदि जाव अप्पपणो उक्कोरिदद्विदिमावलिक्खणालेण अपत्तोत्ति । णवरि उदयावलिक्खयाहिरद्विदिमसखेज्जालोणेण खड्दिगळंउ समऊणावलिक्खाए वे त्तिभागे अइच्छाविय समय्याहियत्तिभागे णिविखवदि पुव्व व विसेसहीणकमेण । तदो उवरिमद्विदोए एसो चेव णिवखेवो । णवरि अइच्छावणा समउतरा होदि । एम णेयव्वं जाव अइच्छावणा आवलिक्खमेत्ता जादा त्ति । तदो उवरिमणिवखेवो चेव वड्ढदि जाव उक्कास्सणिवखेवं पत्ता त्ति । जासिं द्विदोण पदेसग्गस्स उदयावलिक्खमत्तरे चेव णिवखेवो तासिं पदेसग्गरस ओक्कणुणभागाहारो अससेजा लोणा । एवमुवरिमसव्वसमएग्ग कीरमाणगुणसेडीणमेसो चेव अरथो वत्तवो । = उदयमें आयी हुई प्रकृतियोंकी उदयावलीसे बाहर स्थित स्थितियोंके प्रदेशाग्रको निषेकोवो) अपकर्षण भागाहार (पर्य/अस) के द्वारा खण्डित करके, एक खण्डको असख्यात लोकसे भाजित करके एक भागको ग्रहण कर उदयमें बहुत प्रदेशाग्रको देता है । दूसरे समयमें विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता है । इस प्रकार उदयावलीके अन्तिम समय तक विशेष हीन देता हुआ चला जाता है । यह क्रम उदयमें आयी हुई प्रकृतियोंका ही है, शेष (सत्तावाली) प्रकृतियोंका नहीं, क्योंकि उनमें उदयावलीके भीतर आने वाले प्रदेशाग्रका अभाव है ।

उदयमें आयी हुई और उदयमें नहीं आयी हुई प्रकृतियोंके प्रदेशाग्रोंको तथा उदयावलीके बाहरकी स्थितिमें स्थित प्रदेशाग्रोंको (पूर्वोक्त प्रकार) अपकर्षण भागाहारके द्वारा खण्डित करके एक खण्डको ग्रहण कर असख्यात समय प्रबद्धोंको उदयावलीके बाहरकी स्थितिमें देता है । इससे ऊपरकी स्थितिमें उससे भी असख्यात गुणित समय प्रबद्धोंको देता है । तृतीय स्थितिमें उससे भी असख्यात गुणित समय प्रबद्धोंको देता है । इस प्रकार यह क्रम असख्यात गुणित श्रेणीके द्वारा गुणश्रेणीके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए ।

उससे ऊपरकी अनन्तर स्थितिमें असख्यात गुणित हीन द्रव्यको देता है । उससे ऊपरकी स्थितिमें विशेषहीन द्रव्यको देता है । इस प्रकार विशेष हीन विशेष हीन ही प्रदेशाग्रको निरन्तर तब तक देता है, जब तक कि अपनी अपनी उत्कीरित स्थितिको आवलि मात्र कालके द्वारा प्राप्त न हो जाये । विशेष बात यह है कि उदयावलिसे बाहरकी स्थितिके एक समय कम २/३ का अतिस्थापन करके (प्रारम्भ का) एक समय अधिक आवलिके त्रिभागमें पूर्वके समान विशेषहीन क्रमसे निक्षिप्त करता है । उससे ऊपरकी स्थितिमें (भी) यही (विशेष हीन क्रम वाला) निक्षेप है । केवल विशेषता है कि अतिस्थापना एक समय अधिक होती है । इस प्रकार यह क्रम तब तक ले जाना चाहिए जब तक कि अतिस्थापना पूर्णवली मात्र हो जाती है । उससे ऊपर उवरिम विशेष ही उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त होने तक बढ़ता जाता है ।

जिन स्थितियाँके प्रदेशाग्रोंका उदयावलीके भीतर ही निक्षेप करता है, उन स्थितियोंके प्रदेशाग्रोंका अपकर्षण भागाहार असख्यात लोक प्रमाण है । इस प्रकारसे सर्व समर्थोंमें को जाने वाली गुणश्रेणियोंका यही अर्थ कहना चाहिए । (ल सा /जी, प्र / ६८-७४) विशेषता यह है कि प्रथम समयमें अपकर्षण दो अपकर्षण ।

१३ गुणश्रेणी विधान विषयक यंत्र



१४. नोकर्मकी गुणश्रेणी निर्जरा नहीं होती

ध १/४,१,७१/३५२/१ णोक्कम्मस्स गुणसेडीए पिज्जराभावादो । = नोकर्मकी गुणश्रेणी रूपसे निर्जरा नहीं होती ।

९ सर्व संक्रमण निर्देश

१ सर्व संक्रमणका लक्षण

नोट—[अन्तकी फालीमें शेष बचे सर्व प्रदेशोंका अन्य प्रकृतिरूप होना सर्व संक्रमण है । क्योंकि इसका भागाहार एक है ।]
गो क/जी प्र./४१३/५७६/१० चरमकांडकचरमफाले सर्वप्रदेशाग्रस्य यत्संक्रमण तत् सर्वसंक्रमणं णाम । = अन्तके फण्डककी अन्तकी फालिके सर्व प्रदेशोंमेंसे जो अन्य प्रकृतिरूप नहीं हुए है उन परमाणुओंका अन्यप्रकृति रूप होना वह सर्व संक्रमण है ।

१० आनुपूर्वी व स्तिवुक सक्रमण

१ आनुपूर्वी संक्रमणका लक्षण

ल सा /जी प्र /२४६/३०५/१ रीनपसववेदप्रकृत्योर्द्रव्यं नियमेन पुवेद एव संक्रामति । पुवेदहास्यादिपणो कपायाप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानक्रोधद्वयद्रव्य नियमेन सज्वलनक्रोध एव संक्रामति । संज्वलनक्रोधप्रत्याख्यानमानद्वयद्रव्य नियमेन संज्वलनमाने एव संक्रामति । संज्वलनमायाप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानलोभद्वयद्रव्य संज्वलनलोभे एव नियमत संक्रामति इत्यानुपूर्व्या संक्रामो । = जो स्त्री, नपुंसक वेद प्रकृतिके द्रव्यको तो पुरुषवेदमें ही संक्रमण करता है । और पुरुष, हास्यादि छह, तथा अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान क्रोधका संज्वलन क्रोधमें, सज्वलन क्रोध, अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान मानका संज्वलन मान ही विषयमें ही संक्रमण करता है । और संज्वलन मान व अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान मायाका संज्वलन मायामें ही संक्रमण करता है । संज्वलन माया अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान लोभका संज्वलन लोभ हीमें नियमसे संक्रमण होता है अन्यथा नहीं होता है, यह आनुपूर्वी संक्रमण है ।

२. स्तित्युक्त संक्रमणका लक्षण

ल सा/जी प्र/२७३/३३०/६ सञ्चलनक्रोधस्थ समग्रो नोच्छिष्टावलि-
मात्रनिपेक्षद्रव्यमपि सञ्चलनमानस्योदयावस्था समस्थितिनियेषु
प्रतिसमयमेकैकनिपेक्षक्रमेण सक्रम्य उदयमागमिष्यति । सञ्चलन-
क्रोधोच्छिष्टावलिनिपेक्षा मानोदयावलिनिपेक्षेण सक्रम्य अनन्तर-
समयेयुद्धमिच्छन्तीति तात्पर्यम् । अयमेव थिउक्तक्रम इति भण्यते ।
= सञ्चलन क्रोधका एक समय कम उच्छिष्टावलिमात्र निपेक्ष द्रव्य
भी, अपनी समान स्थिति लिये जे सञ्चलन मानकी उदयावलीके
निपेक्ष उनमें समय-समय एक एक निपेक्षके अनुक्रमसे सक्रमण होकर
अनन्तर समयमें उदय होता है । तात्पर्य यह है कि उच्छिष्टावलि
प्रमाण सञ्चलन क्रोधका द्रव्य मानकी उदयावलि निपेक्षोंमें सक्रमण
करके अनन्तर समयमें उदयमें आते है । यह ही थिउक्त (स्तित्युक्त)
सक्रमण है ।

घ. ४/२,७,१८/२११/८ विशेषार्थ—गति जाति आदि पिंड प्रकृतियोंमेंसे
जिस किसी विवक्षित एक प्रकृतिके उदय आनेपर अनुदय प्राप्त होय
प्रकृतियोंका जो उसी प्रकृतिमें सक्रमण होकर उदय आता है, उसे
स्तित्युक्त सक्रमण कहते है । जैसे—एकेन्द्रिय जीवोंके उदय प्राप्त
एकेन्द्रिय जाति नामकर्ममें अनुदय-प्राप्त द्वीन्द्रिय जाति आदिका
सक्रमण होकर उदयमें आना ।

संक्रान्ति—१ स सि/६/४४/४५/१० संक्रान्ति परिवर्तनम् । द्रव्य
विहाय पर्यायमुपेति पर्यायं त्यक्त्वा द्रव्यमित्यर्थसंक्रान्ति । एक
श्रुतवचनमुपादाय वचनान्तरमालम्बते तदपि विहायान्यदिति
व्यञ्जनसंक्रान्ति । काययोग त्यक्त्वा योगान्तर गृह्णाति योगान्तर च
त्यक्त्वा काययोगमिति योगसंक्रान्ति । = संक्रान्तिका अर्थ परिवर्तन
है । द्रव्यको छोड़कर पर्यायको प्राप्त होता है और पर्यायको छोड़कर
द्रव्यको प्राप्त होता है । यह अर्थ संक्रान्ति है । एक श्रुत वचनका
आलम्बन लेकर दूसरे वचनका आलम्बन लेता है और उसे भी त्याग-
कर अन्य वचनका आलम्बन लेता है यह व्यञ्जन संक्रान्ति है ।
काययोगको छोड़कर दूसरे योगको स्वीकार करता है और दूसरे
योगको छोड़कर काययोगको स्वीकार करता है । यह योग संक्रान्ति
है । (रा वा/६/४४/१/६३४/१०), (भा पा/टी/७८/२२७), २ ध्यान-
में योग संक्रान्ति सम्बन्धी श का समाधान—दे शुक्लध्यान/४ ।

संवल्लिष्ट हस्तकर्म—दे, हस्तकर्म ।

संवल्लेश— दे विशुद्धि ।

संक्षेप सम्प्रदर्शन—दे सम्प्रदर्शन/१/१ ।

संख्या—लोकमें जीव किस-किस गुणस्थान व मार्गणा स्थान आदिमें
कितने कितने है इस बातका निरूपण इस अधिकारमें किया गया
है । तहाँ अल्प संख्याओंका प्रतिपादन तो सरल है पर असंख्यात व
अनन्तका प्रतिपादन क्षेत्रके प्रदेशों व कालके समयोंके आश्रयपर
किया जाता है ।

१	संख्या सामान्य निर्देश
१	संख्या व संख्या प्रमाण सामान्यका लक्षण ।
*	अक्षसंचारके निमित्त शब्दोंका परिचय । —दे गणित/II/३ ।
२	संख्या प्रमाणके भेद ।
*	संख्यात असंख्यात व अनन्तमें अन्तर । —दे अनन्त/२ ।

३	संख्या व विधानमें अन्तर ।
४	कोडाकीठी रूप संख्याओंका समन्वय ।
*	संख्यात, असंख्यात व अनन्त —दे वह वह नाम ।
२	संख्या प्ररूपणा विषयक कुछ नियम
१	कालकी अपेक्षा गणना करनेका तात्पर्य ।
०	क्षेत्रकी अपेक्षा गणना करनेका तात्पर्य ।
३	समय मार्गणामें संख्या सम्बन्धी नियम ।
४	उपशम व क्षपक श्रेणीका संख्या सम्बन्धी नियम ।
५	सिद्धोंका संख्या सम्बन्धी नियम ।
६	सयतासयत जीव असंख्यात कैसे हो सकते हैं ।
७	सम्यग्दृष्टि दो तीन ही हैं ऐसे कहनेका तात्पर्य ।
८	लोभ कपाय क्षपकासे मूढम साम्प्रदायकों संख्या अधिक क्यों ।
९	वर्गणाओंका संख्या सम्बन्धी दृष्टि भेद ।
१०	जीवोंके प्रमाण सम्बन्धी दृष्टिभेद ।
*	सभी मार्गणा व गुणस्थानोंमें आयके अनुसार व्यय होनेका नियम —दे मार्गणा ।

३ संख्या विषयक प्ररूपणा

३	संख्या विषयक प्ररूपणा
१	सारणामें प्रयुक्त सकेत सूची ।
२	जीवोंकी संख्या विषयक ओष प्ररूपणा— १. जीव सामान्यकी अपेक्षा । २. तीर्थकरों आदि पुरुष विशेषोक्ती अपेक्षा ।
३	जीवोंकी संख्या विषयक सामान्य विशेष प्ररूपणा ।
४	जीवोंकी स्वस्थान भागाभाग रूप आदेश प्ररूपणा ।
५	चारों गतियोंकी अपेक्षा स्व पर स्थान भागाभाग ।
६	एक समयमें विवक्षित स्थानमें प्रवेश व निर्गमन करनेवाले जीवोंका प्रमाण ।
*	इन्द्रोंकी संख्या —दे इन्द्र ।
*	द्वीप समुद्रोंकी संख्या —दे लोक/२/११ ।
*	ज्योतिष मण्डलकी संख्या —दे ज्योतिष/२ ।
*	तीर्थकरोंके तीर्थमें केवलियों आदिकों संख्या —दे तीर्थकर/४ ।
*	द्रव्योंकी संख्या —दे द्रव्य/२ ।
*	द्रव्योंके प्रदेशोंकी संख्या —दे वह वह द्रव्य ।
*	जीवों आदिकों संख्यामें परस्पर अल्पबहुत्व —दे अल्पबहुत्व ।
७	अन्य विषयों सम्बन्धी संख्या व भागाभाग सूची ।
८	कर्म बन्धकोंकी अपेक्षा संख्या व भागाभाग सूची ।
९	मोहनीय कर्म मत्तकी अपेक्षा संख्या व भागाभाग सूची ।

१. सख्या सामान्य निर्देश

१. संख्या व सख्या प्रमाण सामान्यका लक्षण

स म १/२/२६/६ संख्या भेदगणना । = संख्यामे भेदोंका गणना ली जाता है । (रा वा १/१/२/२१'२६) ।

ध. १/१,१,७/गा १०२/१७८ अत्यिच्छस य तहेव परिमाण १०२। (टीका) सताणियोगमिह जमरिथत्त उक्तं तस्स पमाण परुवेदि दव्याणियोयो । = सत् प्ररूपणार्थे जो पदार्थोंका अस्तित्व रूहा गया है उनके प्रमाणका वर्णन करनेवाली संख्या (द्रव्यानुयोग) प्ररूपणा करती है ।

२. संख्या प्रमाणके भेद

ति प ४/३०६/१७६/१ एत्थ उक्कससंत्तेज्जयजाणमित्त जंजूदीव-वित्थार सहस्सजोयण उव्वेधपमाणचत्तारिसरावया कादव्वा । सलागा पडिसलागा महामलागा ऐदे तिण्णि वि अट्ठिदा चउत्थो अणवट्ठिदो । एदे सव्वे पण्णाए ठविदा । एत्थ चउत्थसराउयअभत्तरे दुव्वे सरिमवे-युवे त जहण्णं मखेज्जय जादं । एद पढमवियपं तिण्णि सरिसवे-च्छदधे अजहण्णमणुक्कससरोज्जय । एव सरावए पुण्णे एदमुवरि-मत्तिक्कमवियपं । तदा एगरूवमज्जीदे जादमुक्कससखेज्जय । जम्हिजम्हि सरोज्जय मार्गज्जदि तम्हि-तम्हि य जहण्णमणुक्कसस-सखेज्जयं गत्तूण वेत्तव्व । त वत्स विसव्वो । चोहरापुत्तिवत्स । = यहाँ उरकृष्ट संख्यातत्वे जाननेके निमित्त जम्बूद्वीपके समान विस्तारवाले (एक नाल योजन) और हजार योजन प्रमाण गहरे चार गड्डे करना चाहिए । इनमें शालाका, प्रतिशालाका और महाशालाका ये तीन गड्डे अस्थित और चौथा अनस्थित है । ये मत्र गड्डे बुद्धिसे स्थापित किये गये हैं । इनमेंसे चौथे कृण्डके भीतर दो सरसंके डालनेपर वह जघन्य संख्यात होता है । यह संख्यातका प्रथम विकल्प है । तीन सरसंके डालनेपर अजघन्यानुकृष्ट (मध्यम) संख्यात होता है । इसी प्रकार एक-एक सरसंके डालनेपर उस कृण्डके पूर्ण होने तक यह तीनसे ऊपर सय मध्यम संख्यातके विकल्प होते हैं । (रा वा, १/३/३५/२०६/१८) ।

३. संख्या व विधानमें अन्तर

रा वा १/१/१५/१३/३ विधानग्रहणादेव मन्थासिद्धिरिति, तन्नः कि कारणम् । भेदगणनार्थत्वात् । प्रकारगणनं हि तत्, भेदगणनाथमिद-मुच्यते-उपशमसम्यग्दृष्टय इत्यन्त, क्षायिकसम्यग्दृष्टय एतावन्त इति । = प्रश्न—विधानके ग्रहणमें ही संख्याकी सिद्धि हा जाती है । उत्तर—ऐसा नहीं है क्योंकि विधानके द्वारा सम्यग्दर्शनादिकके प्रकारोंकी गिनती की जाती है—इतने उपशम सम्यग्दृष्टि है, इतने क्षायिक सम्यग्दृष्टि है आदि ।

४. कोटाकोडी रूप संख्याओंका समन्वय

ध ७/२,५,२६/२५६/३ एमो उउवेगा कोडाकोडाकोडाकाडिण हेट्टो ति सुत्तेण कथं ण विरुज्जदे । ण, एगकोडाकोडाकोडाकोडिमादि कादूण जाव रूवूगदमफाडाकोडाकाडि ति एव रावं पि कोडाकाडा-काडाकाडि ति गहणारा । = प्रश्न—यह उपदेश कोडाकोडाकोडा-काडा की वधि इस सूत्रमें कैसे विरोधपो प्राप्त न होगा । उत्तर—नहीं, क्योंकि, एक कोडाकोडाकोडाकोडाकाडि आदि करके एक कम दण काडाकोडाकोडाकोडाकोडा तत्र इस मयका भी कोडाकोडाकोडाकोडी रूपसे ग्रहण किया गया है ।

२ संख्या प्ररूपणा विपयक कुछ नियम

१. कालका अपेक्षा गणना करनेका तात्पर्य

प ख ३/१,२/सू ३/२७ अणताणताहि ओमत्पिणि-उत्सम्पिणीहि ण अवहिरिति कत्तेण । ३।

ध. ३/१,२,२/२८/६ कथ णालेण मिणिज्जते मिच्छाहट्टो जीवा । अणता-णताण ओसम्पिणि-उत्सम्पिणीण ममए ठवेदूण मिच्छाहट्टिरासि च ठवेदूण कालमिह एगो ममयो मिच्छाहट्टिरासिमिह एगो जीवो अवहिरिज्जदि । एवमवहिरिज्जमाणे अवहिरिज्जमाणे मव्वे समया अवहिरिज्जति, मिच्छाहट्टिरासो ण अवहिरिज्जदि । = १ कालकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तानन्त असर्पिणियों और उत्सर्पि-णियोंके द्वारा अपहृत नहीं होते हैं । ३। २ प्रश्न—काल प्रमाणकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीवोंका प्रमाण कैसे निकाला जाता है । उत्तर— एक और अनन्तानन्त असर्पिणियों और उत्सर्पिणियोंके समयोंकी स्थापित करके और दूसरी ओर मिथ्यादृष्टि जीवोंकी राशिको स्थापित करके कालके समयोंसे एक-एक समय और उसीके साथ मिथ्यादृष्टि जीव राशिके प्रमाणमेंसे एक-एक जीव कम करते जाने चाहिए । इस प्रकार उत्तरात्तर कालके समय और जीव राशिके प्रमाणको कम करते हुए चले जानेपर अनन्तानन्त अवसर्पिणियों और उत्सर्पिणियोंके सय समय समाप्त हो जाते हैं, परन्तु मिथ्या-दृष्टि जीव राशिका प्रमाण समाप्त नहीं होता ।

२. क्षेत्रकी अपेक्षा गणना करनेका तात्पर्य

प ख ३/१,२/सू, ४/३२ येत्तेण अणताणता लोगा । ४।

ध ३/१,२,२/३२-३३/६ येत्तेण कथ मिच्छाहट्टिरासो मिणिज्जदे । बुच्चदे—जथा एत्थेण जन-गंधूमादिरासो मिणिज्जदि तथा लोएण मिच्छाहट्टिरासो मिणिज्जदि (३२/६) एक्केकम्मि लोगागासपदेसे एक्केक मिच्छाहट्टिजीवं णिवखेविज्जण एक्को लोगो इदि मणेण सक्कप्यव्वो । एव पुणो पुणो मिणिज्जमाणे मिच्छाहट्टिरासो अण त-लोगमेत्तो होदि । = १ क्षेत्र प्रमाणकी अपेक्षा अनन्तानन्त लोकप्रमाण मिथ्यादृष्टि जीव राशिका प्रमाण है । ४। २ प्रश्न—क्षेत्र प्रमाणके द्वारा मिथ्यादृष्टि जीवराशि कौसी मापी अथवा जानी जाती है । उत्तर— जिस प्रकार प्रथममें गेहूँ की आदिकी राशिका माप किया जाता है, उसी प्रकार लोकप्रमाणके द्वारा मिथ्यादृष्टि जीवराशि मापी अथवा जानी जाती है (३२/६) लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर एक-एक मिथ्यादृष्टि जीवको निक्षिप्त करके एक लोक हो गया इस प्रकार मनसे संरूपण करना चाहिए इस प्रकार पुन-पुन माप करनेपर मिथ्यादृष्टि जीवराशि अनन्तानन्त लोकप्रमाण होती है ।

३. संयम मार्गणामे संख्या सम्बन्धी नियम

ध ७/२,१,१,१७४/५६८/१ जत्स सजमत्स तद्धिद्वानाणि बहुआणि तथ जीवा वि बहुआ चैव, जत्थ थोवाणि तथ थोवाणि तथ थोवा चैव हीति ति । = जिस समयमें लब्धिस्थान बहुत हैं उसमें जीव भी बहुत ही हैं, तथा जिस समयमें लब्धिस्थान थोड़े हैं उसमें जीव भी थोड़े ही हैं ।

४. उपशम व क्षपक श्रेणीका संख्या सम्बन्धी नियम

ध ६/१,८ २४६/३२३/१ णाण वेदादिसव्ववियपेसु उवसमसेडि चडत-जीवेहिदो खवगसेडि चडतजीवा दुग्गुणा ति आइणिओवदेसादो । = ज्ञान वेदादि सर्व विकल्पोंमें उपशम श्रेणीपर चढ़नेवाले जीवोंसे क्षपक श्रेणीपर चढ़नेवाले जीव दुग्गुणे होते हैं, इस प्रकार आचार्योंका उपदेश पाया जाता है ।

५ सिद्धोंकी संख्या सम्बन्धी नियम

ध १४/५,६,११६/१०३/१० समयकालमदीदकालस्म सिद्धा असखेज्जदि भागो चैव, छम्मासमतियि णिव्वुङ्गमनणियमादो । =सिद्ध जीव सर्वदा अतीतकालके असख्यातवें भागप्रमाण ही होते हैं, क्योंकि छह महीनेके अन्तरसे मोक्ष जानेका नियम है ।

६. संयतासंयत जीव असंख्यात कैसे हो सकते हैं

ध ५/१,२,१०/२४८/४ माणुसखेत्तम्भतरे चैय संजदासजदा हाति, णो बहिद्धा, भोगभूमिम्ह सजमासजमभावविरोहा । ण च माणुसखेत्तम्भतरे असखेज्जाण सजदासजदाणमत्थि सभवो, तेत्तियमेत्ताणमेत्थावट्ठाणविरोहा । तदो सरोज्जगुणेहि सजदामजदेहि होदव्वमिदि । ण, सयपहुपव्वदपरभागे असखेज्ज जोयणविदथडे कम्मभूमिपडिभाए तिरिक्खाणमसंखेज्जाण सजमासजमगुणसहिदाणमुवल्लभा । =प्रश्न—सयतासंयत मनुष्यक्षेत्रके भीतर ही हाते हैं, बाहर नहीं, क्योंकि, भोगभूमिमें सयमासयमके उत्पन्न होनेका विरोध है । तथा मनुष्य क्षेत्रके भीतर असंख्यात सयतासंयतको पाया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि, उतने सयतासंयतको यहाँ मनुष्य क्षेत्रके भीतर अवस्थान माननेमें विरोध आता है । इसलिए प्रमत्त सयतोंको सयतासंयत संख्यात गुणित होना चाहिए । उत्तर—नहीं, क्योंकि, असख्यात योजन विस्तृत एव कर्म भूमिके प्रतिभागरूप स्वयंप्रभ पर्वतके परभागमें सयमासयम गुणसहित असख्यात तिर्यच पाये जाते हैं ।

७. सम्यग्दृष्टि २, ३ ही हैं ऐसा कहनेका प्रयोजन

का आ/सु व टोका/२७६ विरला णिसुणहि तच्च विग्गला जाणति तच्चदो दच्च । विरला भावहि तच्च विरलाण धारणा होदि । २७६।--विद्यन्ते कति आत्मबोधविमुखा सवेहिनी देहिनि, प्राप्यन्ते कतिचित् । आत्मज्ञा परमप्रबोधसुखिन प्रोन्मीलदन्तदं शो, द्वित्रा स्युर्बहवो यदि त्रिचतुरास्ते पञ्चधा दुर्लभा । =जगत्में विरले ही मनुष्य तत्त्वको सुनते हैं, विरले ही जानते हैं, उनमेंसे विरले ही तत्त्वकी भावना करते हैं, और उनमेंसे तत्त्वकी धारणा विरले ही मनुष्योंको होती है । २७६।--कहा भी है—आत्म ज्ञानसे विमुख और सन्देहमें पड़े हुए प्राणी बहुत हैं, जिनको आत्मके विषयमें जिज्ञासा है ऐसे प्राणी क्वचित् कदाचित् ही मिलते हैं किन्तु जो आत्म-प्रदेशोंसे सुखी हैं तथा जिनको अन्तर्दृष्टि खुली है ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष दो तीन अथवा बहुत हुए तो तीन चार ही होते हैं, किन्तु पाँचका होना दुर्लभ है । (अर्थात् अत्यल्प होते हैं) ।

८ लोभ कपाय क्षपकोसं सूक्ष्मसाम्परायकी संख्या अधिक क्यों—

ध, खं व धवला टी / १८/सु १६६/३१२ णेवरि विसेसा, लोभकसाईसु सुहुमसांपराध्य-उवसमा विसेसाहिया । १६६।--दोउवसामयपवेसए-हितो सखेज्जगुणे दोगुणट्ठाणपवेसयपवए पेविखदूण कध सुहुमसांपरा-ध्यउवसामया विसेसाहिया । ण एस दोसां, लोभकसाएण खवएसु पविसतजीवे पेविखदूण तेसि सुहुमसांपराध्यउवसामएसु पवि-सताण चउवणपरिमाणण विसेसाहियत्ताविरोहा । कुदो । लोभ-कसाईसु त्ति विनेमणादो । =केवल विशेषता यह है कि लोभ-कपायी जीवोंमें क्षपकोंसे सूक्ष्मसाम्परायिक उपशामक विशेष अधिक हैं । १६६। प्रश्न—अपूर्वकरण और अनिर्गुणिकरण, इन दो उपशामक गुणस्थानोंमें प्रवेश करनेवाले जीवोंसे संख्यातगुणित प्रमाणवाले इन्होंने दो गुणस्थानोंमें प्रवेश करनेवाले क्षपकोंको देखकर अर्थात् उनकी

अपेक्षासे सूक्ष्मसाम्परायिक उपशामक विशेष अधिक कैसे हो सकते हैं । उत्तर—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि लोभकपायके उद्यसे क्षपकोंमें प्रवेश करनेवाले जीवोंको देवते हुए लोभकपायके उद्यसे सूक्ष्म साम्परायिक उपशामकोंमें प्रवेश करनेवाले और चौपन मत्स्या रूप परिमाणवाले उन लोभकपायी जीवोंके विशेष अधिक होनेमें कोई विरोध नहीं है, कारण कि 'लोभकपायी जीवोंमें' ऐसा विशेषण पद दिया गया है ।

९ वर्गणाओंका संख्या सम्बन्धी दृष्टिभेद

ध, १४/५,६,११३/१६८/५ वादग्णिगोदवग्गणाए मव्वेगसेडिवग्गणाओ असखेज्जगुणाओ । सेडोए अमखेज्जदिभागो । के वि आडरिया अमखेज्जपदरावलियाओ गुणगारा त्ति भणति तण्ण घडदे, चुलिया-मुत्तेण सह विराहादो । =वाटरनिगोद वर्गणाकी संख्या एकश्रेणि वर्गणाएँ असख्यात गुणी हैं । जगश्रेणिके असख्यातवें भाग प्रमाण गुणकार हैं । फितने ही आचार्य असख्यात प्रतगवलि प्रमाण गुणकार हैं ऐसा कहते हैं परन्तु वह घटित नहीं होता, क्योंकि चूलिका सूत्रके साथ विरोध आता है ।

१०. जीवोंके प्रमाण सम्बन्धी दृष्टिभेद

दे स्वर्ग/३/२ [एरु दृष्टिसे स्वर्गवासी इन्द्र व प्रतीन्द्र १४ और दूसरी दृष्टि से १६ है] ।

ध ३/१,२,१२/गा ४५-४६/६४ तिसदि वदति केई चउरुत्तरमत्थपचम केई । उवसामगेसु एव खत्रगाण जाण तद्दुगण । ४५। चउरुत्तरतिण्णि-मय पमाणमुवसामगाण केई तु । त चैव य पचूणं भणति केई तु परिमाण । ४६। =कितने ही आचार्य उपशामक जीवोंका प्रमाण ३०० कहते हैं । कितने ही आचार्य ३०४ कहते हैं, और कितने ही आचार्य २६६ कहते हैं । इस प्रकार यह उपशामक जीवोंका प्रमाण है, क्षपकोंका इससे दूना जानो । ४५। कितने ही आचार्य उपशामक जीवोंका प्रमाण ३०४ कहते हैं और कितने २६६ कहते हैं । ४६।

ध ३/१,३,८७/३३७/२ के वि आडरिया सनागरासिस्स अद्धे गदे तेउक्का-इयगसी उप्पज्जदि त्ति भणति । के वि त णेच्छति । कुदो । अद्धुट्टारासिममुदयत्स वग्गममुट्ठिदत्ताभावादो । =कितने आचार्य चौथी बार स्थापित शलाकाराशिके आधे प्रमाणके व्यतीत होनेपर तेजस्कायिक जीवराशि उत्पन्न होती है, ऐसा कहते हैं । परन्तु कितने ही आचार्य इस कथनको नहीं मानते हैं, क्योंकि साठे तीन बार राशिका समुदाय वर्गधाममें उत्पन्न नहीं है ।

गो जी /सु-१६३ त्रिगुणा सत्तगुणा वा सव्वट्ठा माणुमीयमाणदो । = मनुष्य स्त्रियोंका जितना प्रमाण है उससे त्रिगुणा अथवा सत्तगुणा सर्वार्थसिद्धिके देवोंका प्रमाण है ।

३ संख्या विषयक प्ररूपणाएँ

१. सारणीमें प्रयुक्त संकेत सूची

अतर्मु	अन्तर्मुहूर्त [आ /अम] (ध. ७/२,४,५/२६७/१)
अन	मध्यम अनन्तानन्त (ध. ७/२,४,११७/२८/५)
अन नो	अनन्तानन्त लोक (विशेष दे मत्स्या/२/०)
अनपट्ट	(दे संख्या/२/१)
अप	अपर्याप्त
अपट्ट	प्रतिममय एव एव जीव निकालते जानेपर त्रिचभित कालके समय ममाप्त हो जाते हैं और उनके साथ जीव भी समाप्त हो जाते हैं ।

अस	मध्य असख्यातासख्यात (घ ३/१,२,१५/१२६/६)	पचे.	पचेन्द्रिय
आ/अस	आवली/अस रूप असख्यात आवली (घ. ७/ २,५,५५/ २६१/१)	प.	पर्याप्त
उत्त. अय	उत्सर्पिणी व अवसर्पिणी	परय/अन्तर्मु	परय- $\frac{आ}{अस}$ रूप अस
उत्तरोत्तर अस	अपनेसे पूर्ववाली राशिसे अवशेष उत्तनेवाँ भाग	या परय/अस	आवली (घ. ७/२,५, ५५/२६७/१)
या स बहुभाग		पृ.	पृथक्त्व अर्थात् ३ से ६ तक अथवा नरक पृथिवी
उप	उपशामक	पृथि	पृथिवीकायिक
एके	एकेन्द्रिय	यन	बनस्पतिकायिक
+ कुछ	विवक्षित राशिसे कुछ अधिक	बहु	बहुभाग
गु स	गुणस्थान	बहुभाग	राशि राशि-भागाहार
चतु	चतुरिन्द्रिय	ना	चादर
ज प्र	जगत्प्रतर	मनु	मनुष्य
जल	जलकायिक	यो	योनिमति तिर्यंच
ज. श्रे.	जगश्रेणी	ल, पृ.	लक्ष पृथक्त्व
तिर्यं.	तिर्यंच	वायु	वायुकायिक
तेज	तेजकायिक	स.	मख्यात
त्री	त्रीन्द्रिय	सा	सामान्य
द्वी	द्वीन्द्रिय	साधा	साधारण शरीर
नि	निगोद शरीर	सु	सुक्ष्म

२. जीवोंकी सख्या विषयक ओघ प्ररूपणा

१ जीव सामान्यकी अपेक्षा

प्रमाण—१ प ख ३/१,२/सूत्र/पृष्ठ, २, घ ३/१,२,६/गा ३८-४०/८०, ३, घ ३/१,२/पृष्ठ, ४, व ३/१, २, १२/गा ४५-४८/६४-६६, ५ गो जी/पृ व टी/६२४-६४२/१०७७-१०९४।

संदिष्टि—परय = ६५४३६, अन्तर्मुहूर्त = सासादनके योग्य ३२, मिश्रयोग्य १६, असयत्त योग्य ४, नयतासयत्त योग्य १२८।

सं	गुणस्थान	मूल प्ररूपणा		विशेष प्ररूपणा		
		प ख / ३/मू./पृ	सख्या	प्रमाण म.	अपेक्षा	विशेष विवरण
१	मिथ्यादृष्टि	२/१० ३/२७ ४/३२ ५/३८	अन उत्त अयसे अनपट्ट अन लो तीनोंका ज्ञान	३/२६ ३/२८ ३/३२	द्रव्य काल क्षेत्र	मध्यम अनतानत (दे. सकेत सूची) (दे सकेत सूची)
२	सासादन	६/६३	परय अम	३/३६ मूत्र २	भाव काल अन- सदृष्टि	द्रव्य, क्षेत्र व काल प्ररूपणाका ज्ञान परय (विशेष दे सकेत सूची) स्व योग्य अन्तर्मुहूर्त ६५४३६+३२=२०४८ (दे उपरोक्त सकेत)

स	गुणस्थान	मूल प्ररूपणा		विशेष प्ररूपणा		
		प ख. / २/सू/पृ	सख्या	प्रमाण सं.	अपेक्षा	विशेष विवरण
३	मिश्र	६/६३	पद्य अस	२	अक- संदिष्ट	६५६३६-६६=४०६६
४	अविरत	"	"	"	"	६५६३६-४=६६३८४
५	सयतासयत	"	"	"	"	६५६३६-१२८=६४३८
६	प्रमत्त	७/८८	कोटि पृ	३/८६	गणना	[स्वयभ्रमण द्वीप मागरकी अपेक्षा—दे सख्या/२/६१] ५६३६८२०६
७	अप्रमत्त	७/८६	स.	३/६४	"	२६६६६९०३ (प्रमत्तसे आधे)
८	चारों उप— प्रवेशापेक्षा (विशेष दे अगला उपशीर्षक)	६/६०	१-५४	३/६०	"	उपशाम श्रेणीयोग्य लगातार ८ ही समय उत्कृष्ट होते हैं। तहाँ प्रथमादि समयोंमें जघन्यसे उत्कृष्ट पर्यन्त क्रमसे—१-१६, १-२८, १-३०, १-३६, १-४२, १-४८ व १-५४ जीव प्रवेश करते हैं। २६६ या ३०० या ३०४ (विशेष दे सख्या/२/१०)
९	सचयापेक्षया चारों क्षपक— प्रवेशापेक्षा (विशेष दे अगला उपशीर्षक)	१०/६१	स	४	"	उपशामकोंसे दूने (दे सख्या/२/४+उपरोक्त उप- शामकोंकी प्ररूपणा)
	सचयापेक्षा	१२/६३	स	४	"	उपशामकोसे दुगुने अर्थात् ५६८ या ६०० या ६०८ (उपरोक्तवत्)
१०	सयोगी— प्रवेशापेक्षा	१३/६५	१-१०८	३/६५	"	उपरोक्त क्षपकवत्
	सचयापेक्षा	१४/६५	स पृ	४	"	८६८५०२
११	अयोगी— प्रवेशापेक्षा	११/६२				—→ उपरोक्त क्षपकोंवत् ←—
	सचयापेक्षा	१२/६३				—→ उपरोक्त क्षपकोंवत् ←—

७. तीर्थकर आदि पुरुष विशेषोंकी अपेक्षा

(घ ५/१, ८, २४६/३२३/१)

स	नाम	युगपत् उपशाम श्रेणीमें प्रवेश	युगपत् क्षपक- श्रेणीमें प्रवेश	स	नाम	युगपत् उपशाम श्रेणीमें प्रवेश	युगपत् क्षपक- श्रेणीमें प्रवेश
१	तीर्थकर	३	६	६	जघन्य अवगाहना	२	४
२	प्रत्येकबुद्ध	५	१०	७	पुरुष वेदोदय सहित	५४	१०८
३	बोधित बुद्ध	५४	१०८	८	स्त्री वेदोदय सहित	१०	२०
४	उत्कृष्ट अवगाहना	१	२	९	नपुंसक वेदोदय सहित	५	१०
५	मध्यम अवगाहना	४	८				

३. जीनोंकी संख्या विषयक सामान्य विशेष आदेश प्ररूपणा

पृ. सं. ३/१२/ पुस्तक सं. ५ लं ७/२.५/ पुस्तक सं. ५ लं ७/२.५/ पुस्तक सं. ५ लं ७/२.५/ पुस्तक सं.

मार्गणा	द्रव्यकी अपेक्षा		शैतकी अपेक्षा		कालकी अपेक्षा	
	गुण स्थान	प ल	प्रमाण	प ल	प्रमाण	प्रमाण
१ गति मार्गणा	(ति " २/१६५-२०१). (गो जी/मू व जी प्र/१६३-१६४/३०६)					
१ नरक गति — सामान्य	७२४४	७२४४	जम	अस	ज प्र अस	अस उत अव, से अपहृत
प्रथम पृथिवी	७२४७	७२४७	अस	अस	अस करोडयोजन	अस उत अव से अपहृत
२-७ में प्रत्येक पृ	७२४८	७२४८	"	"	"	"
द्वितीय पृथिवी	"	"	"	"	"	"
तृतीय पृथिवी	"	"	"	"	"	"
चतुर्थ पृथिवी	"	"	"	"	"	"
पंचम पृथिवी	"	"	"	"	"	"
षष्ठ पृथिवी	"	"	"	"	"	"
सप्तम पृथिवी	"	"	"	"	"	"
सामान्य	३१५	३१५	अस	अस ज श्रे	ज प्र अस	अस उत अव से अपहृत
" (प्रत्येक गुण स)	३१५	३१५	"	ओषवत	अस	"
प्रथम पृथिवी	३१५	३१५	"	"	"	"
२-७ पृथिवी (प्रत्येक)	३१५	३१५	अस	ज. श्रे-अस	अस करोडयोजन	अस उत अव से अपहृत
" (प्रत्येक गुणस्थान)	३२३	३२३	"	ओषवत	"	"
२ तिर्यच गति — सामान्य	(गो जी/मू ७२४०)	३०६-३८०	अन	अन लो	"	अन उत अव, से अनपहृत
५चे तिर्य सामान्य	७२४२	७२४३	अस	ज प्र - देव अवहार काल अस	"	अस. उत अव से अपहृत
" " प	"	"	"	ज प्र. - देव अवहार काल अस	"	"
" " योनि	"	"	"	ज प्र - (देव अवहार काल X स)	"	"
" " अप	"	"	"	ज प्र - (देव अवहार काल X अस)	"	"

मार्गणा	क्रमांक	द्रव्यकी अपेक्षा		क्षेत्रकी अपेक्षा		कालकी अपेक्षा	
		प ल	प्रमाण	प न	प्रमाण	प ल	प्रमाण
सामान्य (प्रत्येक)	१-५	३२५५	—	—	→ ओषधवत् ज प्र. — <u>देव अवहार काल</u> अस ×	—	—
र्वचे तिर्य सामान्य	१	३२५७	असं	३७५५	ज प्र. — <u>देव अवहार काल</u> अस ×	{ ३२५७ ३२५७ } सकैत घृषी	अस उत अव से अपहत पव्य/अस = पव्य - आ अस
" " सा (प्रत्येक)	२-५	३२५६	पव्य/अस	—	×	—	अस उत अव. से अपहत
" " प (प्रत्येक)	१	३२५६	अस	३३५	ज प्र. — <u>देव अवहार काल</u> स,	३३०	—
" " प (प्रत्येक)	२-५	३२५६	—	—	→ ओषधवत् ज प्र. — (देव अवहार काल×स)	३५०	अस उत अव से अपहत
" योनि.	१	३२५६	अस	३३५	→ ओषधवत् ज प्र. — (देव अवहार काल×स)	—	—
" " योनि (प्रत्येक)	२-५	३२५७	—	—	→ ओषधवत् ज प्र. — (देव अवहार काल×स)	—	अस उत अव से अपहत
पचे तिर्य अप	१	३२५७	अस	३३५	ज प्र. — (देव अवहार काल×अस)	३३५	अस उत अव से अपहत
३ मनुष्य गति —		(गो जी./मू व जीव प्र/१५७-१६६)					
सामान्य	×	७३३५	अस	७३५५	ज अ. — अस	अस करोड योजन	अस उत अव से अपहत
मनु अप	×		"	"	"	"	"
मनु प सामान्य	×		"	"	"	"	"
मनुष्यणी							
पुरुष १ नपुंसक	×	टी/२५७	अर्थात्	७६२२६१४२४३७५६३४५३६०३३६-			अस उत अव से अपहत
मनुष्य सामान्य	×	टी/२५६	उपरोक्त × ३	[५६४२१२१२५६२५३१६५५७६६२७५२ (ति प/४/२६२६)]			×
" सा (प्रत्येक)	१	"	उपरोक्त × ३	[१६५०७०६२५६०७३६०७३६०७५५४ (ति प/४/२६२७)]			×
" " " " " "	२-५	३२५७	अस	३५३	ज अ. — अस	अस करोड योजन	×
" " " " " "	२	३२५७	स.	—	×		×
" " " " " "	३	(३२५७ / ३२५७)	१२ करोड				×
" " " " " "	४	(३२५७ / ३२५७)	१०४ "				×
" " " " " "	५	(३२५७ / ३२५७)	७०० "				×
" " " " " "	६	(३२५७ / ३२५७)	१३ "				×

मांग	दिनांक	दंगरी अपेक्षा		क्षेत्री अपेक्षा		राजकी अपेक्षा	
		प. सं.	प्रमाण	प. सं.	प्रमाण	प. सं.	प्रमाण
मनु"य सामान्य (प्रत्येक) मनु"य पथसि मा	१-१४	३४५२	—	—	—	—	—
	१	३४५३	कोडाकोडाकोडी व कोडाकोडाकोडाकोडी के बीचमें	→	ओषवत ←	—	—
" " (प्रत्येक)	२-४	३४५४	स	—	—	—	—
	१	३४५५	मनु सा वत	→	ओषवत ←	—	—
मनुष्यणी	२-१४	३४५६	कोडाकोडाकोडी व कोडाकोडाकोडाकोडी के बीचमें	—	—	—	—
	१	३४५७	स	→	ओषवत ←	—	—
मनुष्य अप	२-१४	३४५८	अर्थ—	उपरोक्त मनुष्यणी सामान्य राशि—अपने २-१४ गुणस्थानोंका जोड	—	—	—
	१	३४५९	अस	ज अ-अस	ज अ-अस	अस उत अन से अपहृत	अस उत अन से अपहृत
४ देवगति—	१	३४६०	गुणस्थान प्रतिपत्र उपरोक्त मनुष्य—सत्यात । कि मो निर्भित राशिका उपदेश प्राप्त नहीं है	ज अ-अस	ज अ-अस	अस करोड योजना	अस उत अन से अपहृत
	१	३४६१	(ति प / ५/६६१-६६४), (गो जो / सू व जो प्र / १६०-१६३)	ज अ-अस	ज अ-अस	अस उत अन से अपहृत	अस उत अन से अपहृत
सामान्य भवनवासी	१	३४६२	अस	ज अ-अस	ज अ-अस	अस उत अन से अपहृत	अस उत अन से अपहृत
	१	३४६३	अस	ज अ-अस	ज अ-अस	अस उत अन से अपहृत	अस उत अन से अपहृत
बयोतिषी	१	३४६४	अस	ज अ-अस	ज अ-अस	अस उत अन से अपहृत	अस उत अन से अपहृत
	१	३४६५	अस	ज अ-अस	ज अ-अस	अस उत अन से अपहृत	अस उत अन से अपहृत
सौधर्म ईशान	१	३४६६	अस	ज अ-अस	ज अ-अस	अस उत अन से अपहृत	अस उत अन से अपहृत

मार्गणा	पुराण	द्वयकी अपेक्षा		द्वैकी अपेक्षा		कालकी अपेक्षा	
		प. नं.	प्रमाण	प. नं.	प्रमाण	प. नं.	प्रमाण
मनकुमार-सहस्रार आनत-अपराजित	X	७५१ ७५२	परय/अस	—	→ सप्तम नरकवत् X	—	{ (परय/अतर्मु) से अपहृत { अतर्मु = आ (टी ५.२६७) अस } अस उत अवसे अपहृत —
	X	७५३ ७५४	अस	—	X	—	
नवार्थिनिद्रि देव मामान्य	१	७५५ ७५६	अस	३५५ ३५६	ज प्र - (२५६ सूच्यगुल) ? → ओषवत्	—	अस उत अवसे अपहृत —
	२-४	७५७ ७५८	—	—	—	—	
" "	४	टी/२६६	भागाहार = असयत सम्यदृष्टि सामान्यका भागाहार + यही भागाहार = आ अस	—	—	—	अस उत अवसे अपहृत —
	३	"	" = असयत सम्यदृष्टि भागाहार X आ अस	—	—	—	
भवनवासी	३	३५७ ३५८	" = तीसरे गुणस्थानका उपरोक्त भागाहार X अस	—	ज प्र /अस प्रमाण अस ज भे → उपरोक्त सामान्यवत्	—	अस उत अवसे अपहृत —
	१	३५९ ३६०	अस	—	—	—	
नगर	२-४	३६१ ३६२	अस	३६३ ३६४	ज प्र - (स सौ योजन) ? X	{ ३६३ ३६४ सकेत सूची।	अस उत अवसे अपहृत —
	१	३६५ ३६६	परय/अस	—	→ देव सामान्यवत्	—	
उयोतिय	२-४	३६७ ३६८	अस	३६९ ३७०	ज प्र /अस प्रमाण अस ज भे → देव सामान्यवत्	—	अस उत अवसे अपहृत —
	१-४	३७१ ३७२	अस	—	→ देव सामान्यवत्	—	
सौधर्म-ईशान	१	३७३ ३७४	अस	—	→ सप्तम पृथिवीवत्	—	अस उत अवसे अपहृत —
	२-४	३७५ ३७६	अस	—	→ सप्तम पृथिवीवत्	—	
सनरकुमार सहस्रार	१	३७७ ३७८	—	टो/२८०	ज भे /अस	(ज भे) १/३	अस उत अवसे अपहृत —
	१	३७९ ३८०	—	—	—	—	
सनरकुमार-मारेन्द्र	१	३८१ ३८२	—	—	"	(ज भे) १/३	अस उत अवसे अपहृत —
	१	३८३ ३८४	—	—	"	(ज भे) १/३	
नामजलोत्तर	१	३८५ ३८६	—	—	"	(ज भे) १/३	अस उत अवसे अपहृत —
	१	३८७ ३८८	—	—	"	(ज भे) १/३	
सान्तरातापिठ	१	३८९ ३९०	—	—	"	(ज भे) १/३	अस उत अवसे अपहृत —
	१	३९१ ३९२	—	—	"	(ज भे) १/३	
शुक्र-महाशुक	१	३९३ ३९४	—	—	"	(ज भे) १/३	अस उत अवसे अपहृत —
	१	३९५ ३९६	—	—	"	(ज भे) १/३	
शतार-नगर	१	३९७ ३९८	—	—	"	(ज भे) १/३	अस उत अवसे अपहृत —
	१	३९९ ४००	—	—	"	(ज भे) १/३	
सनरकुमारगे सहस्रार आनत-उपारिम प्रे (प्रथेम)	२-४	टी २८१ २८२	परय/अस	—	→ सप्तम नरकवत् X	—	परय/अतर्मुसे अपहृत परय/अतर्मु = परय - आ अस
	१-४	२८३ २८४	परय/अस	—	—	{ २८३ २८४ सकेत सूची।	

मार्गना	नवमकी अपेसा		सेत्रकी अपेसा		मालकी अपेसा	
	प. ग.	प्रमाण	प. ल.	प्रमाण	प. ल.	प्रमाण
अनुदिश-अपराजिव (अप्येए)	३७३३ ३२८२	पत्रय/अस		x	{ ३७३३ ३२८२ } सकैत सूची	अस (पत्रय/अस) से अपहत -पत्रय/अस = पत्रय - अस
साथिमिद्वि	३७३३ टी/२६	स मनुष्याणीसे तियुने- [१०८२६६६५०६४४६६५२४४३२८५५६]		x		
० इन्द्रिय मार्गणा --		(गो जी/सू व टी १७५-१२०) (ति प / ५/२२०)				
एकेन्द्रिय सामान्य	७२५७	अत	७२५७	अत ली	अत	अत उत अवमे अनपरत
एकेन्द्रिय पर्याप्त	"	"	"	"	"	"
" अ	"	"	"	"	"	"
वा एके सामान्य	"	"	"	"	"	"
" " पर्याप्त	"	"	"	"	"	"
" " अ	"	"	"	"	"	"
" " सामान्य	"	"	"	"	"	"
" " पर्याप्त	"	"	"	"	"	"
" " अ	"	"	"	"	"	"
द्वीन्द्रिय सामान्य	७१२६	अस,	७१४७	ज. प्र -- (सूच्यगुल/अस) ^२	जा / अस	अस उत अव से अपहत
" पर्याप्त	"	"	"	ज प्र -- (सूच्यगुल/स) ^२	जा / अस x	"
" अ	"	"	"	ज प्र -- (सूच्यगुल/अस) ^२	जा / अस	"
त्रीन्द्रिय सामान्य	"	"	"	द्वीन्द्रिय सामान्यवत्	"	"
" पर्याप्त	"	"	"	" पर्याप्त "	"	"
" अ	"	"	"	" अपर्याप्त "	"	"
चतुर्न्द्रिय सामान्य	"	"	"	" सामान्य "	"	"
" पर्याप्त	"	"	"	" पर्याप्त "	"	"
" अपर्याप्त	"	"	"	" अपर्याप्त "	"	"

मार्गणा	द्रव्यकी अपेक्षा		क्षेत्रकी अपेक्षा		कालकी अपेक्षा	
	प. ल.	प्रमाण	प. ल.	प्रमाण	प. ल.	प्रमाण
पचेन्द्रिय सामान्य " पर्याप्त " अप एकेन्द्रियके उपरोक्त { सर्व विकल्प	७६३	अम	७६४	द्वीन्द्रिय सामान्यवत्	७६३	अस उत अत्र, से अपहृत
	"	"	"	" पर्याप्त "	"	"
	"	"	"	" अपर्याप्त "	"	"
	३७४	अम	३७५	अम लोक	३७४	अम उत अत्र से अनपहृत
{ विरुद्धेन्द्रियके उपरोक्त सर्व विकल्प	३७७	अम	३७८	उपरोक्त सामान्य विकल्पवत्	३७७	अस उत अत्र से अपहृत
	३७९	अम	३८०	ज प्र - (सूच्यगुल/अस) २	३७९	अस उत अत्र से अपहृत
	"	"	"	ज प्र - (सूच्यगुल/स) २	"	"
	३८१	अस	३८२	→ ओषधत् ←	३८१	—
३. काय मार्गणा -	३८३	अस	३८४	ज प्र - (सूच्यगुल/अस) २	३८३	अस उत अत्र से अपहृत
	"	"	"	ज प्र - (सूच्यगुल/स) २	"	"
	"	—	—	→ ओषधत् ←	"	—
	३८५	अस	३८६	ज प्र - (सूच्यगुल/अस) २	३८५	अस उत अत्र से अपहृत
पृथि सा नादर पृथि सा " " प " " अप सू " सा, " " प " " अप, अल सा	(विरुद्धे दे घ ३/१२/२७/३३४-३४८)	(सू आ /१२०५-१२०६)	(ति प /५/२२७)	(गो जी /मृ /२०४-२१४/४५२-४६६)		
	७६६	अस लोक	घ, ३/पृ ३३४	प्ररूपणाका कोई उपाय नहीं	घ ३/पृ ३३४	प्ररूपणाका उपाय नहीं
	"	"	"	"	"	"
	७६७	अस	७६८	ज, प्र - (सूच्यगुल/अस) २	७६६	अस उत अत्र से अपहृत
	७६९	अमलोक	घ ३/पृ ३३४	प्ररूपणाका कोई उपाय नहीं	घ ३/पृ ३३४	प्ररूपणाका उपाय नहीं
	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"

भाषा	शब्द	द्रव्यकी अपेक्षा		सैनकी अपेक्षा		मातृकी अपेक्षा	
		पं. सं.	प्रमाण	पं. सं.	प्रमाण	पं. सं.	प्रमाण
मातर	सा	७२७	अस लोक	ध ३/पृ ३३४	प्ररूपणाका कोई उपाय नहीं	ध ३/पृ ३३४	प्ररूपणाका उपाय नहीं
"	प	७२७	अस	७२७	ज प्र -- (व्ययगुल/अस) २	७२७	अस उत अवसे अपहृत
"	अप	७२७	अन लोक	ध ३/पृ ३३४	प्ररूपणाका कोई उपाय नहीं	ध ३/पृ ३३४	प्ररूपणाका उपाय नहीं
सु	सा	"	"	"	"	"	"
"	प	"	"	"	"	"	"
"	अप	"	"	"	"	"	"
तेज	सामान्य	"	"	"	"	"	"
ना	सा	"	"	"	"	"	"
"	प	७२-७३	(असं, आवली) २	"	"	"	"
"	अप	७२७	(आ ३ से नीचे)	"	"	"	"
सु	सा	"	अस लोक	"	"	"	"
"	प	"	"	"	"	"	"
"	अप	"	"	"	"	"	"
वायु	सामान्य	"	"	"	"	"	"
वा	सा	"	"	"	"	"	"
"	प	७२७	अस	७२-७८	लोक/अस प्रमाण अस ज प्र	७२७	अस उत अवसे अपहृत
"	अप	७२७	अस लोक	ध ३/पृ ३३४	प्ररूपणाका कोई उपाय नहीं	ध ३/पृ ३३४	प्ररूपणाका उपाय नहीं
सु	सा	"	"	"	"	"	"
"	प	"	"	"	"	"	"
"	अप	"	"	"	"	"	"
वहस्पति	सा	७२७	अन	७२७	अन लोक	७२७	अन उत अवसे अनाहृत
वा	वत	"	"	"	"	"	"
"	प	"	"	"	"	"	"
"	अप	"	"	"	"	"	"
सु	सा	"	"	"	"	"	"
"	प	"	"	"	"	"	"
"	अप	"	"	"	"	"	"
निगोद	सा	"	"	"	"	"	"

मार्गणा	संख्या	द्रव्यकी अपेक्षा		हेत्रकी अपेक्षा		कालकी अपेक्षा	
		प ल	प्रमाण	प ल	प्रमाण	प ल	प्रमाण
वा निगीद सा०	X	७५३	अन लोक	७५३	अन लोक	७५३	अन उत अवसे अनपहत
" " प	X	"	"	"	"	"	"
" " अप	X	"	"	"	"	"	"
सू " सा	X	"	"	"	"	"	"
" " प	X	"	"	"	"	"	"
" " अप	X	"	"	"	"	"	"
वा वन प्रत्येक सा	X	७५३	अस लोक	ध ३/५ ३३४	प्ररूपणाका कोई उपाय नहीं	ध ३/५ ३३४	प्ररूपणाका उपाय नहीं
" " प	X	७५३	अस	७५३	ज प्र - (सूच्यगुल/अस) २	७५३	अस, उत अवसे अपहत
" " अप	X	७५३	अस लोक	ध ३/५ ३३४	X	ध ३/५ ३३४	प्ररूपणाका उपाय नहीं
प्रत्येकिक	X	७५३	-	→	पचेन्द्रिय सामान्यत्व	-	-
" " प	X	"	-	→	" पर्याप्त "	-	-
" " अप	X	"	-	→	" अपर्याप्त "	-	-
स्थानर सागितोके उपरोक्त मर्ष विवरण	१	५७-६७	-	→	सर्वत्र उपरोक्तत्व	-	-
	२	३३२-३३८	-	→	ज प्र - (सूच्यगुल/अस) २	-	-
त्रस का सामान्य	१	३३८	अस.	३३८	ज. प्र - (सूच्यगुल/स) २	३३८	असं उत अवसे अपहत
	१	"	"	"	जोषत्र	"	"
त्रस सा व प (प्रत्येक गुणस्थान)	२-१४	३३८	-	→	जोषत्र	-	-
	१	३३८	-	→	पचेन्द्रिय अप (या त्रिकलेन्द्रिय अप + पचेन्द्रिय अप वत	-	←
त्रस कागिक अप		(गो जी/२५६-२७०/२७१-४८६)					
४. योगमार्गणा—	X	७५३	देव सा/अस	७५३	ज प्र - (सूच्यगुल/स) २	७५३	अस, उत अवसे अपहत
पौर्वो मनोयोगी	X	७५३	अस	७५३		७५३	

मार्गणा	दृश्यती अपेक्षा		क्षेत्रकी अपेक्षा		मालकी अपेक्षा	
	प खं	प्रमाण	प खं	प्रमाण	प खं	प्रमाण
सत्य वचनयोगी	७५७७	देव सा/अस	७५७७	X	७५७७	X
असत्य "	"	"	"	X	"	X
उभय "	"	"	"	X	"	X
अनुभव	७५७७	असं.	ज प्र -(सूच्यगुल/स) २	अस उत अव से अपहृत	७५७७	अस उत अव से अपहृत
कार्य योगी सा	७५७७	अन.	अन लोक	अन उत अव से अनपहृत	७५७७	अन उत अव से अनपहृत
औद्यारिक साग	"	"	"	"	"	"
औद्यारिक मिश्र	"	"	"	"	"	"
वैक्रियक काय	७५७७	देव/स से कम	"	X	"	X
वैक्रियक मिश्र	७५७७	देव/स	"	X	"	X
आहारक काय	७५७७	५४	"	X	"	X
आहारक मिश्र	७५७७	म (१७)	"	X	"	X
कार्यण काय	७५७७	अन	७५७७	अन लोक	७५७७	अन उत अव से अनपहृत
पॉबो मनोयोगी +	७५७७	देव/स	→	X	७५७७	X
" " (प्रत्येक)	१०४-१०५	—	→	ओषवत	—	—
वचनयोगी सा	१०५	अस	१०५	ज प्र -(सूच्यगुल/स) २	१०५	असं उत अव से अपहृत
" " (प्रत्येक)	१०५	—	→	मनोयोगी वच	—	—
सत्य असत्य व	१०५	देव/स	→	X	—	X
उभय वचनयोगी	१०५	—	→	ओषवत	—	—

मार्गणा	द्रव्यकी अपेक्षा		क्षेत्रकी अपेक्षा		कालकी अपेक्षा	
	प. सं.	प्रमाण	प. सं.	प्रमाण	प. सं.	प्रमाण
अनुभव बचन	३१०६	अस.	३१०६	ज प्र - (सूच्यगुल/स) ३	३१०७	अस उत. अब. से अपहृत
"	३१०७	-	-	→ मनोयोगीबव	-	-
काम बोली सा.	३१०८	-	-	→ औषवव	-	-
" (प्रत्येक)	३१०९	-	-	→ मनोयोगीबव	-	-
औदारिक	३११०	-	-	→ औषवव	-	-
" (प्रत्येक)	३१११	-	-	→ मनोयोगीबव	-	-
औदारिक मिश्र	३११२	-	-	→ औषवव	-	-
"	३११३	-	-	→ औदारिक मिश्र सामान्यबव	-	-
"	३११४	स.	-	→	-	-
"	३११५	४०	[कपाट समुदाहृतमें आरोहण करसैवाले = २० तथा अवरोहण करसैवाले = २०]	→	-	-
वैक्रियक काम	३११६	देव/सं.	-	→ औषवव	-	-
"	३११७	-	-	→	-	-
वैक्रियक मिश्र	३११८	देव/स.	-	→ औषवव	-	-
"	३११९	-	-	→	-	-
आहारक काम	३१२०	१४	-	→	-	-
" मिश्र	३१२१	स (२७)	-	→	-	-
कामिंग गाय	३१२२	-	-	→	-	-
"	३१२३	"	-	→	-	-
"	३१२४	स	-	→	-	-
५. वेद मार्गणा	३१२५	६०-	[प्रतर समुदाहृतमें २०, लोकप्रणमें २०, तथा उतरते हुए २०।]	→	-	-
स्त्री वेदी	७१०३	वेदी + कुछ	-	→	-	-
पुरुष वेदी	७१०४	देन + कुछ	-	→	-	-
नपुंसक वेदी	७१०५	अन.	७१०६	अन लोक	७१०६	अन-उत अबसे अनपहृत
अपगत वेदी	७१०६	अन.	-	→	-	-

मंथ्या	संख्या	अथको त्रीशा		सेवती त्रीशा		रावती त्रीशा	
		पं. सं.	प्रमाण	पं. सं.	प्रमाण	पं. सं.	प्रमाण
श्री देवी	१	३१३५	देवी + कुम्भ	—	X	—	X
" "	२-१	३१३५	—	—	ओषधत्	—	—
" "	३-३	३१३५	स	—	X	—	X
पुष्प देवी	१	३१३५	देव + कुम्भ	—	X	—	X
" "	२-६	३१३५	—	—	ओषधत्	—	—
नपुंसक वेदी	१-१	३१३५	"	—	X	—	X
" "	३-६	३१३५	स	—	X	—	X
अपगत वेदी उप	६-११	३१३५	उप = १, सप = १० १-५४ (निश्चिद्वे ओषध)	—	X	—	स
अपगत वेदी सपक	६-१२	३१३५	—	—	ओषधत्	—	—
" "	१३	३१३५	—	—	"	—	—
" "	१४	३१३५	—	—	"	—	—
६ कथाय मार्गणा —	X	७३२४	(गो, जी/मू व टी/२६-२६८/६३०-६४४)	—	अथ लोक	—	अथ उपत अथ से अपगत
{ चारों कथायवाले पृथक् पृथक्	X	७३२४	अथ	७३२४	अथ लोक	—	अथ उपत अथ से अपगत
अथपायी	X	७३२४	अथ	—	X	—	X
चारों कथायी (प्रत्येक)	१-६	३१३५	—	—	ओषधत्	—	—
" "	६-६	३१३५	स	—	X	—	X
सोम कथायी	१०	३१३५	—	—	ओषधत्	—	—
अथपायी	११	३१३५	—	—	"	—	—
" "	१२	३१३५	—	—	"	—	—
" "	१३	३१३५	—	—	"	—	—
७ शान मार्गणा	X	७३२५	(गो जी/मू व टी/४६१-४६३/५७२)	—	अथ लोक	—	अथ उपत अथ से अपगत
मति अज्ञानी	X	७३२५	नपुंसक वेदीवत्	—	X	—	X

मार्गणा	सिपयशी	व्रवयकी अपेक्षा		सैवकी अपेक्षा			कालकी अपेक्षा	
		प रस	प्रमाण	प रव.	प्रमाण	अस का प्रमाण	प र	प्रमाण
श्रुत अज्ञानी	x	७११८	नपुसक वेदीनव		x		x	
विभगज्ञानी	x	७१३०	देव + कुख		x		x	
मति, श्रुत ज्ञानी	x	७१३१	पख्य/अस		x		(पख्य/अंतर्मु.) से अपहृत अंतर्मु = आ/अस.	
अनधिज्ञानी	x	"	"		x		x	
मन पर्ययज्ञानी	x	७१३५	स.		x		x	
केवलज्ञानी	x	७१३७	अन		x		x	
मति, श्रुत अज्ञानी	१-२	३१४१	—	→	ओषवव	←	—	
विभगज्ञानी	१	३१४३	देव + कुख	—	x	←	—	
"	२	३१४३	—	→	ओषवव	←	—	
{ मति आदि तीन ज्ञानी (परधेक)	४-१२	३१४३	—	→	"	←	x	
अनधिज्ञानी	६-१२	३१४५	स.		x		x	
मन पर्यय ज्ञानी	"	३१४६	स		x		x	
केवलज्ञानी	१३-१४	३१४७	—	→	ओषवव	←	—	
८ सयम मार्गणा			(गो जी / म् व टी / ४८०-४८२/८६)					
सयत सामान्य	x	७१३६	कोटि पृ		x		x	
सामायिन्धेदो,	x	"	"		x		x	
परिहार शुद्धि	x	७१३१	सहस्र पृ		x		x	
मृक्षम साम्पराग	x	७१३३	शत पृ		x		x	

भांगना	उच्यती अयेभा		शेजती अयेभा		कासती अयेभा	
	प म	प्रमाण	प म	प्रमाण	प म	प्रमाण
मभारगत	७३३५	शतसहस्र प		x		x
संगतमगत	७३३५	पयम/अन		x		
अगत	७३३५					
संगत सामान्य	३३३३	स				
मासागिक सेरोप- { ७७० र भयक परिहार विमुक्ति	३३३३					
	३३३३					
सूक्ष्म सामन्यराय	३३३३	६६६७				
{ उप र भय	३३३३					
	३३३३					
यथास्वात	३३३३					
सगतसगत	३३३३					
असगत	३३३३					
१. दर्शन मार्यणा						
चभुदर्शनी	७३३३	अस	७३३३	अ. प्र. - (सूच्यगुल) ३	७३३३	अस उत अम. से अपहत
अचभुदर्शनी	७३३३					
अवधिदर्शनी	७३३३					
केवल दर्शनी	७३३३					
चभुदर्शनी	३३३३	अस.	३३३३	अ प्र. - (सूच्यगुल) ३	३३३३	अस उत अम. से अपहत
"	३३३३					
अचभु दर्शनी	३३३३					
अवधि दर्शनी	३३३३					
केवल दर्शनी	३३३३					
१० लेख्या मार्यणा						
कृष्ण नील कपोल	७३३३	(गो जी/श्रु वटी/	७३३३	असयतवत्		

मार्गणा	निर्देश	द्रव्यकी अपेक्षा		द्वैतकी अपेक्षा		कालकी अपेक्षा	
		प. ल.	प्रमाण	प. ल.	प्रमाण	प. ल.	प्रमाण
तेजो लेश्या	×	७३४६६	देव + कुछ (सङ्गी-पंचे-तिर्य योनि)स परम्य/अस	दो / २६३	ज. प्र - स प्रतरांगुल ×	×	×
पद्म लेश्या	×	७३५५१					
शुक्ल लेश्या	×	७३५५३					
{ क. नील माधोत (प्रत्येक)		३१६३२	देव + कुछ		→ ओषवत् ←		
		३१६३३					
तेजो लेश्या	१	३१६३४	स		→ ओषवत् ←		
" "	२-५	३१६३५					
तेजो लेश्या	१-७	३१६३६	(सङ्गी पंचे तिर्य, योनि) - सं.				
पद्म लेश्या	१	३१६३७			→ ओषवत् ←		
" "	२-५	३१६३८					
" "	१-७	३१६३९	स				
शुक्ल लेश्या	१-६	३१६४०	परम्य/अस				
" "	६-७	३१६४१	स				
" "	८-१३	३१६४२			→ ओषवत् ←		
११. भव्यत्व मार्गणा.— भव्य अभव्य भव्य अभव्य		७३५५६	(गो जी/मू व दो / ५६०/६८६) अन.		अनं लोक		अन, उत, अन से अपहृत
		७३५५७	अन	३३५५८	×		×
		३१७३२			→ ओषवत् ←		
		३१७३३	अन		×		×
१२. सम्यत्त्व मार्गणा.— सम्यत्त्व सा तीनों सम्य (प्रत्येक) मासादन सम्य सम्यत्त्वमिग्यादृष्टि		७३५५९	गो जी/मू व दो / ६१०-६६६/१०३ परम्य/असं		×		अन, उत, अन से अपहृत
		"	"		×		
		"	"		×		
		"	"		×		

वर्णना	क्रमांक	स्वकी प्रीक्षा		क्षेत्री अपेक्षा		राजकी अपेक्षा	
		प न	प्रमाण	प लं	प्रमाण	अस. न प्रमाण	प ल.
विषयार्थि	X	७१११	—	—	→ असयतवत	—	—
मन्व्यार्थि मा	४-१४	३१७४	—	—	→ औषवत	—	—
भाति मन्व्यार्थि	४	३१७५	—	—	→	—	—
उप	१-११	३१७६	सं.	—	→	X	X
क्षपक	८-१२	३१७७	—	—	→ औषवत	—	—
"	१३	३१७८	—	—	→	—	—
"	१४	३१७९	—	—	→	—	—
रेरक मन्व.	४-७	३१८०	—	—	→	—	—
उपशम संव	४-५	३१८१	—	—	→	—	—
"	६-११	३१८२	सं	—	→	X	X
मानादन मन्व	३	३१८३	—	—	→ औषवत	—	—
मन्वमिन्व्यार्थि	३	३१८४	—	—	→	—	—
मिन्व्यार्थि	१	३१८५	—	—	→	—	—
१३ सवीं मार्गणा —				(गो जी / म् व टी / ६६३/११०८)			
सही	X	७१११	देव + कुछ	—	→	X	X
असही	X	७११७	—	—	→ असयतवत	—	—
सही	१	३१८५	देव + कुछ	—	→	X	—
" (पर्येक)	२-१२	३१८६	—	—	→ औषवत	—	—
असही	१	३१८७	—	—	→	अस लोक	अस उत अब. से असयतवत
१४ आहार मार्गणा				(गो जी / म् व टी / ६७१/१११४)			
आहारक		७११६	अस	—	→	अस लोक	अस. उत अब से असयतवत
अनाहारक	१-१३	३१९०	—	—	→	अस लोक	अस. उत अब से असयतवत
आहारक (पर्येक)	१-२४, १३	३१९१	—	—	→	औषवत	"
अनाहारक	१४	३१९२	—	—	→	कार्मण कायगीणीवत	—
"				—	→	औषवत	—

४. जीवोंकी स्वस्थान भागाभागरूप आदेश प्ररूपणा

(प. ख. ७/२,१०/सू. सं./पृष्ठ स.); (ध ३/१,२, सूत्र (दे नीचे नोट)/पृष्ठ स.)

नोट—संख्या विषयक आदेश प्ररूपणार्थ उस उस मार्गणा सम्बन्धी सूत्रोंमेंसे अन्तिम सूत्रोंकी टीकामें उस उस मार्गणा सम्बन्धी भागाभाग प्ररूपणा की गयी है।

मार्गणा	गु. स.	प. ख./सू./पृ.	ध./पृ.	भागाभाग	मार्गणा	गु. स.	प. ख./सू./पृ.	ध. पृ.	भागाभाग
१ गति मार्गणा					१. नरक गति				
नारकी सा	×	४३/६	×	सर्व जीव—अनं	सौधर्म युगल	३		२८६	शेषका स बहु
१-७ प्रत्येक पृ.	×	४३/६		उपरोक्तवत्	" "	२		"	" " "
प्रथम पृ	१		२०७	नरक सा का अस बहु.	{ सनत्-सहस्रार				स्वर्ग क्रमसे उत्तरो-
२-७ पृ.	१		२०८	उत्तरोत्तर अस बहु	गुण स क्रम ४,३,२				त्तर प्रत्येक स्वर्गमें
प्रथम पृ	४		"	शेषका अस बहु.	ज्योतिषी ४,३,२			"	सौधर्म युगलवत्
" "	३		"	" " "	व्यतर ४,३,२			"	उत्तरोत्तर अमं बहु
" "	२		"	" " " स "	भवनवासी ४ ३,२			"	" " "
२-७ पृ	४,३,२		"	उत्तरोत्तर क्रमसे	{ आनत-उपरिम	४		"	" स "
				प्रथम पृथिवीवत्	प्रैवेयक			२८७	" " "
					आनत से	१			" " "
					उपरिमग्रै				शेषका " "
					अनुदिश	४			" " "
२ तिर्यंच गति					२. इन्द्रिय मार्गणा				
तिर्यं सा.	×	५६/७		सर्व जीवका अन बहु.	एकें सा	×	१३/३		सर्व जीवके अन बहु.
पंचें सा	×	४६/७		सर्व जीव—अन	बा० एकें सा	×	१४/३		सर्व जीव—अस,
प. यो० अप	×	"	२४०	उपरोक्तवत्	" " प, अप	×	"		"
एकें + विक.	१		"	तिर्यं सा का अन बहु	सू. " सा,	×	१६/०		"
पंचें अप	१		"	शेषका सं बहु	" " प	×	१८/५		सर्व जीवके स बहु.
पंचें तिर्यं प	१		"	" " "	" " अप	×	२०/५		सर्व जीव । स,
" " योनि	१		"	" अस "	विकलें सा	×	२०/३		सर्वजीवके अनं, बहु.
पंचें प सा	४		"	" स "	" " प, अप	×	"		"
" " "	३		"	" अस "	सू. एकें प	१		३१८	सर्व जीवके स बहु
" " "	२		"	शेष एक भाग	" " अप	१		"	शेषके अस बहु
" " "	५		"		बा " अप	१		"	(अम = अम लोप)
३. मनुष्य गति					४. देव गति				
मनु. सा	×	४६/७		सर्व जीव—अन.	देव सा, का अस बहु.	×	४६/८		सर्व जीव—अनं
" प.	×	"		उपरोक्तवत्	उपरोक्तवत्	×	४६/८		उपरोक्तवत्
मनुष्यनी	×	"		"	देव सा का अस बहु.	२६४			देव सा का अस बहु.
मनु अप	×	"		"	शेषका स बहु				उत्तरोत्तर " "
मनु. अप	१			"	उत्तरोत्तर " "				" " "
मनुष्यनी	१			"	" " "				" " "
मनु प.	१,४			"	" " "				" " "
" "	३,२			"	" " "				" " "
" "	५-७			"	" " "				" " "
" "	आगे			"	" " "				" " "
देव सा,	×	४६/८		सर्व जीव—अनं	अनिन्द्रिय	×		३१६	" " "
भवन-सर्वार्थ	×	४६/८		उपरोक्तवत्	त्रस राशि	१		"	शेष-पश्य/असं
ज्योतिष	१		२८६	देव सा का अस बहु.					
व्यन्तर, भवन	१		"	उत्तरोत्तर " "					
सौधर्म युगल	१		"	शेषका " "					
सनत्-सहस्रार	१		"	उत्तरोत्तर " "					
सौधर्म युगल	४		"	शेषका " "					

नोट—[त्रस राशिके अस बहुभागके चार समान खण्ड करके द्वीन्द्रियादि प्रत्येकको एक एक खण्ड है। तहाँ समान भागोंकी सहनानी = 'क', शेष भागकी सहनानी = 'ख'। 'ख' राशिका उत्तरोत्तर अम बहुभाग द्वीन्द्रिय आदिके पूर्वोक्त 'क' में जोडना। अस = आ/अस]

मार्गणा	गु. स.	प. खं. / ध/पृ.	भागाभाग
द्वी सा,	१		क+ख का अम. बहु.
त्री सा	१		क+शेषका " "
चतुरि सा	१		क+ " " "
पंचे, सा	१		क+शेष एक भाग
द्वी अप,	१		द्वी सा के अंसं बहु.
" प	१		शेष, एक भाग
त्री अप.	१		त्री सा, के अम. बहु.
त्री प,	१		शेष एक भाग
चतु अप	१		चतु सा, के असं, बहु
" प,	१		शेष एक भाग
पंचे, अप,	१		पंचे सा के अम बहु.
" प	१		शेष एक भाग
पंचे, प	४	३२०	पश्य के अम, बहु असं
" "	५-१४		उत्तरोत्तर " "

३. काय मार्गणा

पृथिवी सा,	×	५०४	सर्व जीव-अनं,
" प अप.	×	"	"
वा पृ सा प अप	×	"	"
सू " " "	×	"	"
६ प्रकार जन	×	"	"
६ " तेज	×	"	"
वन सा "	×	५०४	सर्वजीवोंके अनं, बहु
वा. वन सा,	×	५०४	" अमं "
" " प अप	×	"	" " "
वा निगोद सा	×	"	" " "
" " प अप	×	"	" " "
वा वन प्रत्येक			
" " " सा		३०४	सर्व जीव-अनं
" " " प अप		"	"
सू वन, सा		३०४	सर्वजीवोंके असं बहु
" " प		३०४	" " "
" " अप.		३०४	" सं "
" निगोद सा		३०४	" अम "
" " प		३०४	" " "
" " अप		३०४	" स "
प्रस, सा		३०४	सर्व जीव-अनं
" प अप			"
सू. निगोद प	१		सर्व जीवोंके सं बहु
" " अप	१		शेषके असं "
वा " "	१		" " "
" " प	१		" अनं "
अकायिक	१		" " "
सू. पृ आदि	१		शेष-असं लोक

मार्गण	गु. स.	प. खं. / ध/पृ.	भागाभाग
नोट—[इन्द्रिय मार्गणावत् यहाँ भी इस सूक्ष्म राशिके अमं, बहु-भागके चार समान खण्ड करके सू. पृ आदि चारोंको एक एक खण्ड देना। इन समान भागोंकी सहनानी—'क', शेष भागकी सहनानी—'ख'। पुन इस 'ख' राशिका उत्तरोत्तर अमं, बहुभाग उन्हीं चारोंकी पृथक्-पृथक् 'क' राशिके मिलाना। असं-असं लोक]			
सू. वायु सा	१	३६३	क+ख का असं बहु
" जन "	१	३६४	क+शेष " "
" पृ. "	१	"	क+ " " "
" तेज "	१	"	क+शेष एक भाग
सू वायु प,	१	"	सू वायु सा, का असं बहु
" " अप,	१	"	शेष एक भाग
सू जल प.	१	"	सू जन सा का असं बहु
" " अप	१	"	शेष एक भाग
सू पृ. प,	१	"	सू पृ. सा का असं बहु
" " अप	१	"	शेष एक भाग
सू तेज प	१	"	सू, तेज सा का असं, बहु
" " अप.	१	"	शेष एक भाग
वा निगोद से	१	३६३	अम लोक (पृथक् स्थापित)
अतिरिक्त वा. राशि			
वा वायु अप,	१	३६४	अम लोक प्रमाण
			बादर राशिका अम.
			बहु। अम-असं लोक
वा जल अप,	१	३६४	शेषका असं बहु
" पृ. "	१	"	" " "
" निगोद प्रतिष्ठित	१	"	" " "
प्रत्येक वन अप			
वा वन प्रत्येक अप	१	"	" " "
" तेज अप,	१	"	" " "
" वायु प	१	"	" " "
" जल "	१	"	" " "
" पृ "	१	"	" " "
{ वा प्रतिष्ठित	१	"	" " "
{ प्रत्येक वन प			
वा वन प्रत्येक प	१	"	" " "
प्रस अप	१	३६४	" " "
" प.	१	"	" " "
" "	४	"	" " "
" "	३.२.४	"	उत्तरोत्तर " "
वा. तेज प	१	"	शेषके " "
प्रस प	६	"	" स "
" "	७-१४	"	उत्तरोत्तर " "
४. योग मार्गणा			
पाँचों मनोयोगी	×	३६	सर्व जीव-अनं
पाँचों वचनयोगी	×	५०७	"
काययोगी सा	×	५०७	सर्वजीवोंके अनं, बहु
औदारिक काय	×	५०७	" सं "

मार्गणा	गुणस्था.	ष.ल	ध/प	भागाभाग	मार्गणा	गुणस्था	ष.ल	ध/प	भागाभाग
औदारिक मिश्र	X	५५		सर्वजीव - स	{ उपरोक्त क्रमसे सर्व योग	६-७		"	ओघके आधार पर जान लेना
वैक्रियक व मिश्र	X	५०		" - अन					
आहारक व "	X	"		" "	५. वेद मार्गणा—	}	X	५५	सर्व जीव - अनं.
कार्मण काय	X	५०		सर्व जीव - अस					
औदारिक काय	१		४०४	सर्व जीवोंके स बहु	{ स्त्री, पुरुष व अपगत वेदी	X	५५	४२१	सर्व जीवोंके अन बहु.
" मिश्र	१		"	शेष " अस "					
कार्मण काय	१		"	" " अन "	नपुसक वेदी	X	५५	"	" " " "
सिद्ध जीव	X		"	" " " "					
अनुभय वचन	१		"	" " अस "	नपुसक "	१	"	"	" म, "
वैक्रियक काय	१		४०४	शेषके स बहु					
उभय वचन	१		"	" अस "	अपगत "	X	"	"	" अन "
असत्य "	१		"	" स "					
सत्य "	१		"	" " " "	स्त्री "	१	"	"	" " " "
अनुभय मन	१		"	" " " "					
उभय "	१		"	" " " "	पुरुष "	१	"	"	" " " "
असत्य "	१		"	" " " "					
सत्य "	१		"	" " " "	तीनों वेदी	४	"	"	" " " "
वैक्रि. मिश्र	१		४०५	" अस "					
वैक्रि काय	४		"	" स "	"	१-६	"	"	" " " "
अनुभय वचन	४		"	" " " "					
उभय "	४		"	" " " "	६ कपाय मार्गणा—	}	X	५०	सर्व जीवोंके कुल कम
असत्य "	४		"	" " " "					
सत्य "	४		"	" " " "	क्रोधी मानोमायी	X	५०	४	सर्व जीवोंके कुल अधिक
{ उपरोक्त क्रमसे चार मनोयोगी वैक्रि काय	३		"	उत्तरोत्तर, "	लोभ कपायी	X	५०	४	सर्व जीव - अन
{ उपरोक्त क्रमसे चार वचनयोगी	३		"	उत्तरोत्तर, "	अक्रपायी	X	५०	४	सर्व जीवके अन बहु
{ उपरोक्त क्रमसे चार मनोयोगी वैक्रि काय	२		४०६	" " " "	चारो कपायी (अक्रपायी +	१		४३१	शेष एक भाग
{ उपरोक्त क्रमसे चार वचन	२		"	शेषके " "		२-१०)		"	
{ उपरोक्त क्रमसे चार मन	२		"	उत्तरोत्तर, "	नोट - चारो कपायीकी मिथ्यादृष्टि सामान्य राशिके अम बहुभागके चार समान खण्ड करके एक एक खण्ड प्रत्येकको दीजिये। इस एक खण्डकी सहनानी = क / शेष अस वें भागको सहनानी = ख। इस शेष ख राशिके उपरोक्त अम बहु भागको चारोंकी क राशि- में मिलाना। अस = आ/असं ।				
औदा काय	४		"	" " " "	लोभ कपायी	१		४३२	क + रका अम. बहु
"	३		"	" " " "	माया "	१		"	क + शेषका " "
"	२		"	" " " "	क्रोध "	१		"	क + " " "
{ उपरोक्त क्रमसे चार वचन	२		"	शेषके " "	मान "	१		"	क + शेष एक भाग
{ उपरोक्त क्रमसे चार मन	२		"	उत्तरोत्तर, "	अक्रपायी	X		"	उपरोक्त अक्रपायी +
औदा काय	४		"	" " " "	{ क्रमसे लोभ, माया, मान व क्रोध कपायी				
"	३		"	शेषके अस बहु		४		"	२-१० गुणस्थानकी सर्वराशिके अन बहु
"	२		"	" स "		३		"	उत्तरोत्तर स बहु
"	१		"	" अस "		२		४३३	" " " "
{ उपरोक्त क्रमसे चार वचन	४		"	" स "	चारो कपाय	४		"	शेषके अम बहु
{ उपरोक्त क्रमसे चार मन	४		"	उत्तरोत्तर, "	नोट - उपरोक्त नोटकी भाँति यहाँ समयतामयतकी अपेक्षा 'क व 'ख' राशि जानना।				
वैक्रि मिश्र	४		४०७	शेषके अस बहु	लोभ कपायी	४		४३३	क + रका अम बहु
कार्मण काय	४		"	" " " "	माया "	४		"	क + शेषका " "
औदा. मिश्र	२		"	" " " "	क्रोध "	४		"	क + " " "
वैक्रि मिश्र	२		"	" " " "	मान "	४		"	क + शेष एक भाग
कार्मण काय	२		"	" " " "	उपरोक्त क्रमसे चारों	६-१०		"	समयतामयतके क्रमसे यथा योग्य

मार्गणा	गुणस्था	प ल	घ	भागाभाग	मार्गणा	गुणस्था	प ल	घ	भागाभाग
७ शान मार्गणा—					सामायिक व छेदोपरथापना				
मति श्रुत अज्ञानी				सर्वजीवोंके अन, बहु	यथाख्यात	११-१४		४४१	शेषके सं बहु,
विभग ज्ञानी				सर्व जीव-अन,	परिहार वि	६-६		"	" " "
{ पाँचों ज्ञानोंमें- से प्रत्येक				"	सूक्ष्मसाम्पराय	१०		"	शेष एक भाग
मति श्रुत अज्ञानी	१		४४२	सर्व जीवोंके अन बहु	९ दर्शन मार्गणा—				सर्व जीव-अन
केवलज्ञानी	×		"	शेषके अन बहु	चक्षुदर्शनी	×	५५३		"
विभग	१		"	" " "	अवधि दर्शनी	×	"		"
मति श्रुत ज्ञानी	४		"	" " "	केवग "	×	"		"
अवधिज्ञानी	४		"	मतिश्रुत ज्ञानीके अस, बहु/अस = $\frac{आ}{अस}$	अचक्षु "	×	५५३		सर्व जीवोंके अन बहु.
मति श्रुत मिश्र	३		"	शेषके स बहु	" "	१	४५७		" " " "
{ मति श्रुत अवधि मिश्र	३		"	मतिश्रुत अज्ञानीके अस बहु/अस = $\frac{आ}{अस}$	केवल "	×	"		शेषके " "
मति श्रुत अज्ञानी	२		४४३	शेषके अस बहु	चक्षु "	१	"		" अस "
विभग ज्ञानी	२		"	मति श्रुत अज्ञानीके	चक्षु अचक्षु दर्शनी	४	"		" " " "
मति श्रुत ज्ञानी	४		"	अस बहु/अस = $\frac{आ}{अस}$	अवधि "	४	"		चक्षु अचक्षुका अस बहु
अवधिज्ञानी	४		"	" " "	चक्षु अचक्षु "	३	"		शेषके स बहु,
दूसरे प्रकारसे—					" "	२	"		अन "
मति श्रुत अज्ञानी	१		"	सर्व जीवोंके अन, बहु	अधि "	६	"		" " " "
केवलज्ञानी	×		"	शेषके " "	उपरोक्त तीन,	६ १२	४५८		उपरोक्त मयतान्यत- वत् यथायोग्य
विभगज्ञानी	१		"	" " "	१० लेख्या मार्गणा—				
तीन ज्ञान वाले	४		"	" " "	कृष्ण लेश्या	×	५५८		सर्वजीवसे वृत्त अ धक
" " "	३		"	" " "	नील, कापोत	×	७७४		सर्वजीवसे कुट्ट व म
" " "	२		"	" " "	तेज, पद्म, शुक्ल +	×	७७५		सर्व जीव-अन,
दो ज्ञान वाले	४		"	" " "	कृ + नील + कापोत	×	४६६		सर्व जीवोंके अन बहु
" " "	३		"	" " "	अलेश्य	×	"		शेषके " "
" " "	४		"	" " "	तेजो लेश्या	×	"		" " "
" " "	३		"	" " "	पद्म "	×	"		" स "
" " "	२		"	" " "	शुक्ल "	×	"		" अस "
" " "	४		"	" " "	नोट—उपरोक्त कृष्णादि तीन लेश्याके प्रमाणमें इन्द्रिय मार्गणावत्				शेष एक भाग
तीन ज्ञान वाले	४		"	" " "	कृ, लेश्या	×	४६६		क+खका अस बहु
{ मन पर्यय सहित २,३,४ ज्ञानवाले	६-१२		"	सयतासयतके क्रम से यथायोग्य	नील "	×	"		क+शेषका " "
८ सयम मार्गणा—					कापोत "	×	"		क+शेष एक भाग
मयत सा	×	५७३		सर्व जीव-अन	कापोत "	१	"		कापोत राशिका अन बहु
पाँचों सयत	×	"		"	" "	४	"		शेषका अस बहु
सयतासयत	×	"		"	" "	३	४६७		" स "
असयत	×	५५३		सर्वजीवोंके अन बहु	" "	२	"		{ शेषका एक भाग
असयत	१		४४१	सर्वजीवोंके अन बहु	नील "	१०४,	"		{ नील राशिमैसे
सिद्ध	×		"	शेषके अन, बहु	कृष्ण लेश्या	१, ४,	"		{ कापोतके क्रमवत्
असयत	४		"	" अन "	तेज "	२, ७	"		{ कृष्ण राशिमैसे
"	३		"	" स "	" "	१	"		{ कापोतवत्
"	२		"	" अन "	" "	४	"		तेज राशिका अस, बहु
सयतासयत	४		"	" " "	" "		"		शेष " " "

मार्गणा	पुस्त्या	प. ख.	घ/प.	भागाभाग	मार्गणा	पुस्त्या	प. ख.	घ/प.	भागाभाग
तेज लेश्या	३		४६७	" " स "	अमञ्जी			४८३	सर्वजीवोंके अन. बहु
" "	२		"	" " अस "	सञ्जी असञ्जी			"	शेषका " "
" "	५		"	" " " "	रहित			"	" " अस "
" "	६-७		"	शेष एक भाग	सञ्जी	१		"	ओष भागाभागवत्
पद्म "	१-७		"	पद्म लेश्या राशिमै से सर्व क्रम तेजो लेश्यावत्	"	२-१४		"	
शुक्ल "	४		"	शुक्ल राशिका स बहु.	१४ आहारक मार्गणा—				
" "	१		"	शेषका अस "	आहारक	×	५५६		सर्व जीवोंके अस बहु.
" "	३		"	" स "	अनाहारक	×	५५५		सर्व जीव—अस.
" "	२		"	" अस "	आहारक	१	४०५		सर्व जीवोंके अस बहु
" "	६		"	" " "	बन्ध मुक्त अना-	×	"		शेषका अत "
" "	६-१२		"	शेषका एक भाग	हारक				" " " "
११. भव्यत्व मार्गणा—					अबन्धक अना-	×			" " " "
भव्य	×	७४		सर्व जीवोंके अन. बहु	हारक	४			" " अर्ध "
अभव्य	×	५७६		सर्व जीव—अन	"	३			" " स "
भव्य	१		४७३	सर्व जीव + अन	"	२			" " अस "
भव्य अभव्यसे	×		"	सर्व जीव + अन	"	५			" " " "
अतीत				शेषका अन बहु	अनाहारक	४			" " " "
अभव्य	१		"	" " "	"	२			" " " "
भव्य	४		"	" अस "	आहारक अन *	६			" " स "
"	५-१४		"	ओष भागाभागवत्	आहारक	७-१३			शेष एक भाग
१२. सम्यक्त्व मार्गणा—									
सम्यग्दृष्टि सा	×	७५		सर्व जीव—अन.					
क्षायिक	×	"		" "					
वेदक	×	"		" "					
उपशम	×	"		" "					
सासादन	×	"		" "					
सम्यग्मिथ्या	×	"		" "					
मिथ्यादृष्टि	×	५५०		सर्व जीवोंके अन बहु.					
"	१		४७८	" " " "					
सिद्ध	×		"	शेषका " "					
वेदक	४		"	" अस "					
क्षायिक	४		"	" " " "					
उपशम	४		"	" " " "					
सम्यग्मिथ्या	३		४७६	" सं "					
सासादन	२		"	" अस "					
वेदक	५		"	" " " "					
उपशम	५		"	" " " "					
क्षायिक	५		"	" " " "					
तीर्ना सम्य	६			शेषके सं. बहु					
" "	७			" " " "					
उपशम क्षायिक	८-१४			यथा योग्य					
१३. समी मार्गणा									
सही	×	५५७		सर्व जीव—अन					
असही	×	५५६		सर्व जीवोंके अन बहु					

मार्गणा	गुण स्थान	भागाभाग	मार्गणा	गुण स्थान	भागाभाग			
५. चारों गतियोंकी अपेक्षा स्वपर स्थान भागाभाग (घ ३/१ २,७३/२६५-२६७)			मनुष्य पर्याप्त	३	शेषका स युगलवत्			
एकेन्द्रिय + विकलेन्द्रिय	१	सर्व जीवोंके अन बहु	" "	२	" " " "			
सिद्ध जीव	×	शेष के " "	" "	५	" " " "			
पंचेन्द्रिय अपर्याप्त	१	" " अस "	" "	६	" " " "			
" "	१	" " स "	" "	७	" " " "			
ज्योतिषी देव	१	" " " "	सयोगकेवली	१३	" " " "			
(व्यन्तर देव)	१	" " अस "	चारों क्षपक	८-१२	" " " "			
भवनवासी	१	" " " "	चारों उपशामक	८-११	" " " "			
प्रथम पृथिवी	१	" " " "	अयोगकेवली		शेष एक त्रण्ड			
सौधर्म रेशान	१	" " " "	६. एक समयमें विवक्षित स्थानमें प्रवेश व निर्गमन करनेवाले जीवोंका प्रमाण (घ १/४,१,६६/२७७-२०)					
द्वितीय पृथिवी	१	" " " "						
सनत्कुमार माहेन्द्र	१	" " " "						
तृतीय पृथिवी	१	" " " "						
ब्रह्म ब्रह्मोत्तर	१	" " " "						
चतुर्थ पृथिवी	१	" " " "						
लातव कापिष्ठ	१	" " " "						
पचम पृथिवी	१	" " " "						
शुक महाशुक	१	" " " "						
शतार सहस्रार	१	" " " "						
षष्ठ पृथिवी	१	" " " "						
सप्तम पृथिवी	१	" " " "						
सौधर्म रेशान	४	" " " "						
" "	३	" " स "						
" "	२	" " अस "						
{ सनत्कुमार युगलसे शतार युगल तक प्रत्येक युगलमें	४	उत्तरोत्तर सौधर्म युगलवत्	१ सचयकी अपेक्षा					
ज्योतिषी	४,३,२	" "	मनुष्य अपर्याप्त	२७७	१,२ या अधिक			
व्यन्तर	"	" "	वेक्रियक मिश्र	"	"			
भवनवासी	"	" "	आहारक द्विक	"	"			
तिर्यच सामान्य	"	" "	सूक्ष्मसाम्परायिक	"	"			
मातों पृथिवीमेंसे प्रत्येक पृ	"	" "	उपशाम सम्यग्दृष्टि	"	"			
आनत-प्राण	१	शेषके स बहु	मासादन सम्यग्दृष्टि	"	"			
आरण-अच्युत	१	" " " "	सम्यग्मिथ्यादृष्टि	"	"			
१-६ ग्रंथेयक	१	उत्तरोत्तर " "	प्रमत्त स यत	सख्या/३/२	४६३६२२०६			
न अदुविश	४	शेषके " "	अप्रमत्त स यत		सख्या/३/२	प्रमत्तसे आवे २६६ या		
विजय आदि चार अनुत्तर	४	" " अस "	चारों उपशामक			सख्या/३/२	३०० या २०४ उपशामकों	
आनत-प्राणत	३	" " स "	चारों क्षपक				सख्या/३/२	से दुगुने
आरण अच्युत	३	शेषका स बहु	सयोग केवली					सख्या/३/२
१-६ ग्रंथेयक	३	उत्तरात्तर " "	अयोग केवली	सख्या/३/२				
आनत-प्राणत	२	शेषका " "	० प्रवेशकी अपेक्षा					
आरण-अच्युत	२	" " " "	सर्व नारकी		२७८	१,२ या अधिक		
१-८ ग्रंथेयक	२	उत्तरोत्तर " "	सर्व तिर्यच		"	"		
नवां ग्रंथेयक	२	शेषका " "	सर्व देव		"	"		
सर्वाथ सिद्धि	४	उत्तरात्तर " "	मनुष्य सा	"	"			
मनुष्य पर्याप्त	१	शेषका " "	मनुष्य पर्याप्त	२७८	१,२ या अधिक			
" "	४	उत्तरोत्तर " "	मनुष्यणी	"	"			
		शेषका अस "	एकेन्द्रिय	"	"			
		" " स "	सब विकलेन्द्रिय	"	"			
		" " " "	सब पंचेन्द्रिय	"	"			
		" " " "	वा पृथिवी कायिक	"	"			
		" " " "	वा, जलकायिक	"	"			

मार्गणा	ध./पृ	सख्या	मार्गणा	ध./पृ	सख्या
बा तेजकायिक	२७८	१,२ या अधिक	३ चरम समयमें अवस्थानकी अपेक्षा		
ना वायुकायिक	"	"	भव्य सिद्धिक	२८०	१,२ या अधिक
बा, मन, प्रत्येक प.	"	"	अचक्षु दर्शनी	"	"
त्रस सामान्य	"	"	{ इन दो स्थानोंके अति- रिक्त उपशीर्षक नं २ में कथित सर्व स्थान	"	१,२ नहीं होते। २ से अधिक नहीं }
त्रस पर्याप्त	"	"			
त्रस अपर्याप्त	"	"			
पाँचों मनोयोगी	"	"			
पाँचों वचनयोगी	"	"			
काय योगी सा	"	"			
वैक्रियक काय यो.	"	"			
स्त्री वेदी	"	"			
पुरुषवेदी	"	"			
नपुंसक वेदी	"	"			
अपगत वेदी	"	"			
अकपायी	"	"			
आठों ज्ञान	"	"			
सूक्ष्म सम्पराय बिना ४ समय	"	"			
सयमासंयम	"	"			
सयम सा	"	"			
चक्षु दर्शनी	"	"			
अग्नि दर्शनी	"	"			
केवल दर्शनी	"	"			
तेज पद्म शुक्ल लेश्या	"	"			
सम्यग्दृष्टि सा,	"	"			
हायिक, वेद	"	"			
मिथ्यादृष्टि	"	"			
सङ्गी, असङ्गी	"	"			
शेष सर्व स्थान	२७६	१,२ के प्रवेशका अभाव है। अधिकका ही होता है।			
चारों उपशामक	(दे. सख्या/३/२) (दे. सख्या/३/२)	प्रथम समयमें १-१६	१ { ज उ योगस्थानमें	सख्या	ध १०/६१/१३
		द्वि " " १-२४	१ { अचस्थित जीव	भागा	ध १०/६५/१
		तृ " " १-३०	२ { १४ जीव समामोमें	सख्या	प ख १०/सू १८७/१८०
		चतु " " १-३६	२ { पृथक् पृथक् योग स्थान		
		पंचम " " १-४२	३ { उत्कृष्टादि क्षेत्रोंके	सख्या	ध ११/३२/४
		षष्ठ " " १-४८	३ { स्वामी	भागा	ध ११/३२/१६
		सप्तम " " १-५४	४ { अध कर्म आदि	सख्या	ध ३/१३/६३-६८
			४ { कर्मोंके स्वामी		
			५ उत्कृष्टादि अगगहना	भागा	व ११/२७/१६
			६ वर्गणाअग्नि परमाणु	सख्या	ध १४/१४४-१६०
			भागा	ध १४/१६०-१६३	
			७ { पंच शरीर योग्य ज	सख्या	ध ६/३५८-३६८
			७ { व उत्कृष्ट पुद्गल स्कन्ध		
			७ { का सघातन परिशासन		
			८ { पंच शरीरों सम्बन्धी	सख्या	प ख-१४/सू. २४६-२५३/
			८ { २, ३, ४ शरीरोंका		३३६)
			८ { स्वामित्व		
			९ पंच शरीरोंके प्रदेश	सख्या	प ख १४/सू २४२-२४४/
					३३०
			१० { पंच शरीरोंके एक	सख्या	प ख १४/सू २४६-२५३/
			१० { समय प्रबद्ध प्रदेश		३३६-३३६
			११ { स्थितिवन्ध अद्यवसाय	सख्या	ध ११/२४६-३५२
			११ { स्थान		
			१२ { अग्रकर्म बद्धप्रदेश	सख्या	ध १२/१०४-११०
			१३ { अनुभाग बन्ध अद्यव-	सख्या	व १२/२०२-२०५
			१३ { साय स्थानकी गवमध्य		
		उपशामकोंसे दूने	१४ { उपरोक्त स्थानोंके स्वामी	सख्या	प ख १२/सू. २६८-२७१/
		क्षपक वत्	१४ {		२४२
			१५ { कर्म बन्धकी समय प्रब-	भागा	प ख १२/ज ६/सू. १-
			१५ { द्धार्यता व क्षेत्र प्रयान		२१/१०१-५०८

८ कर्म बन्धकोकी अपेक्षा संख्या व भागाभाग सूची
(म, व/स/पू स) - भागा = भागाभाग

मूल या उत्तर प्रकृति	संख्या या भागाभाग	सामान्य	जघन्य उत्कृष्ट स्थान	भुजगारादि पद	मख्यात भागादि वृद्धि
१ अष्ट कर्म प्रकृति बन्धक जीव -					
उत्तर	भाग सख्या	१/२०४-२४६/१७१ १/२४७-२८०/१७६			
२ अष्टकर्म अनुभाग बन्धक जीव -					
मूल	भाग सख्या		२/१४१-१४०/८८-६१ २/१४८-१६०/६१-६५	२/३०२-३०८/१४६ २/३०२-३०८/१५६	२/३८६/१६६ २/३८७/१६६-१६७ ३/६१६-६१८/४४६ ३/६१८-६२०/४४८
उत्तर	भाग सख्या		३/४४६-४४१/२०४ ३/४४२-४४०/२०६	३/४६८-४६६/३६३ ३/४७०-४७१/३६४	
३ अष्टकर्म अनुभाग बन्धक जीव -					
मूल	भाग सख्या		४/१८६-१८६/८१ ४/१८०-२०२/८३	४/२८६/१३२ ४/२८७/१३३	४/३६२/१६४ ४/३६६/१६६
उत्तर	भाग सख्या		४/१८१/१२६ ४/३१६-३३०/१३१	४/४६८/२०८ ४/४६६-४०६/२०६	४/६१८/३६३ ४/६१६/३६४
४ अष्टकर्म प्रदेशबन्धक जीव -					
मूल	भाग सख्या			६/१२०/६६ ६/१२८-१२०/६७	
उत्तर	भाग सख्या	६/१६७-१६७/८०	६/१७०-४७१/३४४ ६/४७२-४६०/३४६		

९ मोहनीय कर्म सत्त्वकी अपेक्षा संख्या व भागाभाग सूची
(व पा/पुस्तक स/५ म/५, स) - भागा = भागाभाग

मूल या उत्तर प्रकृति	संख्या या भागा	सत्त्वासत्त्व	जघन्य उत्कृष्ट स्थान	भुजगारादि बन्ध	अमख्यात भाग आदि वृद्धि
१ प्रकृति सत्त्वकी अपेक्षा -					
मूल	भाग सख्या	२/६७-६६/४० २/७०-७६/४६-६३			
उत्तर	भाग सख्या	२/१६०/१६७/१४१ २/१६८-१७४/१४७	२/३४०-३६३/२१६ २/३४४-३४६/२१६	२/४४०-४६२/४०६ २/४४६-४४०/४०४	२/४०८-४११/४६६ २/४१२/४१२/४६१
कषाय	भाग सख्या	१/३७०-३७६/३६२ १/३८०-३८२/३६६			
२ रियति सत्त्वकी अपेक्षा -					
मूल	भाग सख्या		३/६८-१०-१५ १/१०-१११/६१	५/१६८-१६६/११३ ३/२००-२०२/११४	३/२६६-२६८/१६४ २/२६६-३०४/१६६
उत्तर	भाग सख्या		१/४६६/६०३/३५५ २/६०४-६१५/३५८	४/१०४-१०८/५४ ४/१०६-१२०/५७	४/४६६-३६७/२२७ ४/२६६-२६६/२२८
३ अनुभाग सत्त्वकी अपेक्षा -					
मूल	भाग सख्या	हस्तहस्त समुत्पात्त स्थान ४/१८०/१२७	४/८-६२/६६ ४/८३-६७/६६	४/१५२/१०१ ४/१५३-१५७/१०२	४/१७६/१०० ४/१८०/१२१
उत्तर	भाग सख्या		४/३७५-३७०/२०० ४/४११-३५६/२२४	४/४६०-४६२/२०८ ४/४६३-४६४/२०६	४/४४०-४४६/३१८ ४/४५०-४५२/३२०

संख्यात—दे संख्या ।

संख्यातुल्य घात—Raising of number to its own Power (घ ५/प्र २८)

संख्या व्यभिचार—दे नय /III/६/८ ।

संगति—मनपर संगतिका प्रभाव पडना स्वाभाविक होनेके कारण मोक्षमार्गमें भी साधुओंके लिए दुर्जनों, स्त्रियों व आर्यिकाओं आदिके ससर्गका बडा निषेध किया गया है और गुणाधिककी संगतिमें रहनेकी अनुमति दी है ।

१ संगतिका प्रभाव

भ आ /मू/३४३ जो जारिसीय मेत्ती केरइ सो होइ तारिसो चैव ।
वासिज्ज च्छुरिया सा रिया वि कणयादिसंगेण ।३४३। =जैसे छुरी
मुवर्णादिककी जिग्हई देनेसे मुवर्णादि स्वरूपकी दीखती है वैसे
मनुष्य भी जिसकी मित्रता करेगा वैसे ही अर्थात् दुष्टके सहवाससे
दुष्ट और सज्जनके सहवाससे सज्जन होगा ।३४३।

२. दुर्जनकी संगतिका निषेध

भ आ /मू/३४४-३४८ दुज्जणससग्गीए पजहदि णियग गुणं खु सज्जो
वि । सीयलभाव उदय जह पजहदि अगिगजोएण ।३४४। सुज्जो वि
होइ लहुओ दुज्जणसमेलणाए दोसेण । माला वि मोल्लगरुया होदि
लह मडयससिद्धा ।३४५। दुज्जणससग्गीए सक्किज्जदि सज्जो वि
दोसेण । पाणागारे दुद्ध पिथंतओ वभणो चैव ।३४६। अदिसंजदो
वि दुज्जणकएण दोसेण पाउणइ दोस । जह घुगकए दोसे हसो य
हओ अपावो वि ।३४७। =सज्जन मनुष्य भी दुर्जनके सगसे अपना
उज्ज्वल गुण छोड देता है । अग्निके सहवाससे ठण्डा भी जल अपना
ठण्डापना छोडकर क्या गरम नहीं हो जाता । अर्थात् हो जाता है
।३४४। दुर्जनके दोषोंका ससर्ग करनेसे सज्जन भी नीच होता है,
शुद्ध कीमतकी पुष्पमाला भी प्रेतके (ज्ञानके) संसर्गसे कौडोकी
कीमतकी होती है ।३४६। दुर्जनके ससर्गसे दोष रहित भी मुनि
लोकोंके द्वारा दोषयुक्त गिना जाता है । मदिरागृहमें जाकर काई
ब्राह्मण दूध पीवे तो भी मद्यपी है ऐसा लोक मानते है ।३४६। महात्
तपस्वी भी दुर्जनके दोषसे अनर्थमें पडते है अर्थात् दोष तो दुर्जन
करता है परन्तु फल सज्जनको भोगना पडता है । जैसे उल्लूके दोष-
से निष्पाप हंस पक्षी मारा गया ।३४७।

३. लौकिकजनोंकी संगतिका निषेध

प्र सा /मू/२६८ णिच्छिद सुत्तथपदो समिदकसाओ तवोधिगो चावि ।
लौगिज्जणससग्ग ण चयदि जदि सज्जो ण हवादि । =जिसने सूत्रोंके
पदोंका और अर्थोंको निश्चित किया है, जिसने कपायोंका शमन
किया है और जो अधिक तपवान् है ऐसा जीव भी यदि लौकिक-
जनोंके ससर्गको नहीं छोडता, तो वह सयत्त नहीं है ।२६८।

र सा /मू/४२ लोइअणसगादो होइ मइमुहरकुडिलदुवभावो । लोइय-
सग तहमा जोइ वि त्तिहिण मुचाओ ।४२। =लौकिक मनुष्योंकी
संगतिसे मनुष्य अधिक बोलनेवाले बकल कुटिल परिणाम और दुष्ट
भावोंसे अत्यन्त क्रूर हो जाते है इसलिए लौकिकजनोंकी संगतिको
मन-वचन-कायसे छोड देना चाहिए ।

स श मू/७२ जनेभ्यो वाक् तात स्पन्दो मनसश्चित्तविभ्रमा ।
भयन्ति तस्मात्ससर्गं जनेर्योगी ततस्त्वजेत् ।७२। =लोगोंके ससर्गसे
वचननी प्रवृत्ति होती है । उससे मनकी व्यग्रता होती है, तथा चित्त-
की चञ्चलतासे चित्तमें नाना विकल्प होते है । इसलिए योगी
लौकिकजनोंके ससर्गना त्याग करे ।

भ वि /त्रि/६०६/०७/१५ उपवेशन अथवा गोचरप्रविष्टस्य गृहेषु
निपथा कस्तत्र दोष इति चेत् ब्रह्मचर्यस्य विनाश स्तीभि मह सवा-

सात् । भोजनार्थिनां च विघ्न । कथमिव यत्तिसमीपे भुजिक्रियां
सपादयाम । किमर्थमयमत्र दाराणा मध्ये निपण्णो यतिर्भुङ्क्ते
न यातोति । =आहारके लिए श्रावकके घरपर जाकर वहाँ बठना यह
भी अयोग्य है । स्त्रियोंके साथ सहवास होनेसे ब्रह्मचर्यका विनाश
होता है । जो भोजन करना चाहते है उनको विघ्न उपस्थित होता
है, मुनिके सन्निधि आहार लेनेमें उनका मन्त्रक हाता है "ये यति
स्त्रियोंके बीचमें बयो बैठते है यहाँसे क्या अपने स्थानपर जाते
नहीं ?" घरके लोग ऐसा कहते है ।

प. घ /उ/६५५ सहायमभिर्भोके ससर्ग भाषण गतिम् । कुर्यादाचार्य
इत्येके नासौ सूरिर्न चार्हत ।६५५। =आचार्य अमयमी पुरुषोंके
साथ सम्बन्ध, भाषण, प्रेम-व्यवहार, करे कोई ऐसा कर्ते है, परन्तु
वह आचार्य न तो आचार्य है और न अर्हत्का अनुयायी ही ।६५५।

४. तरुणजनोंकी संगतिका निषेध

भ आ /मू/१०७२-१०८४ खाभेदि पत्थरो जह दहे पडतो पण्णमवि
पक । खोभेइ तथा मोह पण्णमवि तरुणससग्गी ।१०७२। सट्टय
ससग्गीए जह पादुं मुडओऽभिलसदि मुर । विरुए तह पयडोए
समोहो तरुणगोटीए ।१०७८। जादो खु चारुदत्ता गोहं, दोसेण तह
विणीदो वि । १. णियासत्ता मज्जासत्ता कुलदूमओ य तथा ।१०८२।
परिहरइ तरुणगोटी विम व बुद्धसले य आयदणे । जो वमइ कुणइ
गुरुणिदो स सो णिच्छरइ वभ ।१०८४। =जैसे बडा पत्थर सरोवरमें
डालनेसे उसका निर्मल पानी उछलकर मलिन बनता है वैसे तरुण
ससर्ग मनके अच्छे विचारोंको मलिन बनाता है ।१०७२। जैसे मद्यपी-
के सहवाससे मद्यका प्राशन न करनेवाले मनुष्यको भी उसके पानकी
अभिलाषा उत्पन्न होती है वैसे तरुणोंके सगसे बृद्ध मनुष्य भी
विषयोंकी अभिलाषा करता है ।१०७८। ज्ञानी भी चारुदत्त कुमसर्गसे
गणिकामें आसक्त हुआ, तदनन्तर उमने मद्यमें आसक्ति कर अपने
कुलको दूषित किया ।१०८२। जो मनुष्य तरुणोंका सग त्रिप तुल्य
समझकर छाडता है, जहाँ बृद्ध रहते है, ऐमे स्थानमें रहता है, गुरुकी
आज्ञाका अनुमरण करता है वही मनुष्य ब्रह्मचर्यका पालन करता है ।

* सल्लेखनामें संगतिका महत्त्व—दे सल्लेखना/५ ।

५. स्वसंगतिका माहात्म्य

भ आ /मू/३५०-३५३ जहदि य णियय दोम पि दुज्जो सुयणवहयर-
गुणेण । जह मेरुमल्लियतो काओ णिययच्छिन्नि जहदि । ३५०। बुममम-
गधमवि जहा देवयसेसत्ति करिदे सीसे । तह सुयणमज्जवासी वि
दुज्जो पूइओ होइ ।३५१। सविग्गार्णं मज्जे अप्पियधम्मो वि कयरो
वि णरो । उज्जमदि करणचरणे भावणभयमाणलज्जाहिं ।३५२।
सविग्गोवि य सविग्गदरो सवेगमज्जारम्मि । होइ जट गधदुत्ती
पयडिमुरभिवद्वसजोए ।३५३। =दुर्जन मनुष्य सज्जनोंके सहवाससे
पूर्व दोषोंको छोडकर गुणोंसे युक्त होता है, जैसे—कौवा मेरुका
/आश्रय लेनेसे अपनी स्वाभाविक मलिन कान्तिको छोडकर सुवर्ण
कान्तिका आश्रय लेता है । ३५०। निर्गन्ध भी पुष्प यह देवताकी
शोषा है—प्रमाद है ऐसा समझकर लोक अपने मस्तफपर धारण करते
है जैसे सज्जनोंमें रहनेवाला दुर्जन भी पूजा जाता है ।३५१। जो मुनि
ससारभरू मनुष्योंके पास रहकर भी धर्मप्रिय नहीं होते है । तो भी
भावना, भय, मान और लज्जाके बश पाप क्रियाओंको वे त्यागते है
।३५२। जो प्रथम ही सनारभरू है वे ससारभरूके सहवाससे अधिक
ससार भरू होते है । स्वभावात् गन्धयुक्त वस्त्रों, चन्दन वगैर
पदार्थोंके सहवासने कृत्रिम गन्ध पूर्वमे भी अधिक सुगन्धयुक्त हाता
है ।३५३।

भ आ /मू/१०७३-१०८३ तल्लुसीरदपि उदय उच्च जट हाए कदय-
जोएण । वल्लमो वि तथा मोहो उग्गमदि हृ हृदयेऽप । १०७३।

तरुणो वि बुद्धमोली होदि णरो बुद्धमसिओ अचिरा । लज्जा सकामाणावमाग भयधम्म बुद्धोहि १०७६। तरुणस्स वि वेरग्ग पण्हाविज्जदि णरस्स बुद्धेहि । पण्हाविज्जद् पाडच्छीवि हु वच्छस्स फरुसेण १०८३। = जैसे मलिन जन भी कतक फलके सयोगसे स्वच्छ होता है वैसे क्लृप मोह भी शील बुद्धोंके मसर्गसे शान्त होता है १०७३। बुद्धोंके ससर्गसे तरुण मनुष्य भी शीघ्र ही शील गुणांभी बुद्धि होनेसे शीलबुद्ध बनता है । लज्जासे, भीतितसे, अभिमानसे, अपमानके डरसे और धर्म बुद्धिसे तरुण मनुष्य भी बुद्ध बनता है १०७६। जैसे बज्रके स्पर्शसे गौके स्तनोंमें दुग्ध उत्पन्न होता है वैसे ज्ञानबुद्ध, बयोबुद्ध और तपोबुद्धोंके महात्मसे तरुणके मनमें भी वैराग्य उत्पन्न होता है १०८३।

कुरल/२६/४ मनस कर्मणश्चापि शुद्धैर्मूलं सुसंगति । तद्विशुद्धौ यत मत्सां सद्युद्धिर्जायते तयो ॥ =मनकी पवित्रता और कर्मोंकी पवित्रता आदमीकी सगतिकी पवित्रतापर निर्भर है ॥१।

ज्ञा १९/१९-३६ बुद्धानुजीविनामेव स्युश्चारित्रादिसपद । भवत्यपि च निर्लेप मन क्रोधादिक्लमम् १९६। मिथ्यात्यादि ऋणोत्तुङ्ग-भङ्गाय कल्पित । विवेक साधुमङ्गोत्थो वज्रादप्यजयो नृणाम् १२४। एकव महता सेवा रयाज्जेजी भुवनत्रये । यथैव यमिनामुच्चैरन्त-र्योर्तिविजृम्भते १२७। टट्ट्या श्रुत्वा यमी यागिपुण्यानुष्ठानमूर्जितम् । आक्रामति निरातङ्ग पदवीं रेव्यासिताम् १२८। =बुद्धोंकी सेवा करने वाले पुरुषोंके ही चारित्र आदि सम्पदा होती है और क्रोधादि कपायोंमे मेला मन निर्लेप हा जाता है १९६। सत्पुरुषोंकी सगतिसे उत्पन्न हुआ मनुष्याका विवेक मिथ्यात्यादि पर्वतोंके ऊँचे शिखरोंका लण्ड-रण्ड करनेके लिए वज्रमे अधिक अजेय है १२४। इस त्रिभुवनमें सत्पुरुषोंकी सेवा ही एकमात्र जयनशील है । इससे मुनियोंके जन्तुमें ज्ञानरूप ज्यातिका प्रकाश विस्तृत होता है १२७। मयमी मुनि महापुरुषोंके महापवित्र आचरणके अनुष्ठानको देखकर या सुनकर उन योगीश्वरोंकी मेथी हुई पदवीको निरुपद्रव प्राप्त करता है ।

अन ध ४/१०० कुशीलोऽपि सुशील स्यात् सद्गुणोऽप्या मारिदत्तत् ॥ =कुशील भी सद्गुणोपेसे सुशील हो जाता है, मारिदत्तकी भाँति ।

६. गुणाधिकका ही संग श्रेष्ठ है

प्र सा म्/२७० तम्हा समं गुणादो ममणो ममण गुणेहि वा अहिय । अधिवसदु तन्हि णिच्च इच्छदि जदि दुक्खपरिमोभव १२७०। = (लौकिक जनके सगसे मयत भी असयत होता है ।) इसलिए यदि भ्रमण दुक्खसे परिमुक्त होना चाहना हो तो वह समान गुणों वाले भ्रमणके अथवा अधिक गुणों वाले भ्रमणके सगमें निवाम करो १२७०।

७. स्त्रियों आदिकी सगतिका निषेध

भ ज्ञा म्/३३१-३३६ सव्यत्थ इत्थिवग्गमि अप्पमत्तो सया अनीसत्थो । णित्थरदि बभचेर तन्निवरीदो ण णित्थरदि ३३३। =मम्पूर्ण स्त्रीमात्रमें मुनिकी विश्राम रहित होना चाहिए, प्रमाद रहित होना चाहिए, तभी आजन्म ब्रह्मचर्य पालन कर सकेगा, अन्यथा ब्रह्मचर्यको नहीं निभा सकेगा ।

भ आ म्/१०६२-१०८२ मसग्गोए पुरिमस्स अप्पसारस्स लद्धपम-रस्स । अग्गिममीवे लवखेय मणो लहुमेय वियलाइ १०६२। सस-ग्गोमम्पूढो मेहुगसहिदो मणो हु दुम्मेरो । पुट्टावरमगणता लवेज्ज सुसीलपायार १०६३। माद सुव व भगिणीमेगते अश्लियतगस्स मणो । खुभ्द णरस्स महासा कि पुण सेमासु महिलाम्पु १०६४। जो महिलासंमगी विषव दट्टूण परिहरइ णिच्च । णित्थरद बभचेर जावज्जीव अकपा सो ११०२। =स्त्रीके साथ सहगमन करना

एकासनपर बैठना, इन कार्योंमे अल्प धैर्य वाले और स्वच्छन्दसे मोलना-हँसना बगेर करने वाले पुरुषका मन अग्निने समीप लाखकी भाँति पिघल जाता है १०६२। स्त्री महवाममे मनुष्यका मन माहित होता है, मैथुनकी तीव्र इच्छा होती है, कारण-कार्यका विचार न कर शील तट उल्लंघन करनेकी उत्तारु हो जाता है १०६३। माता, अपनी लडकी और बहन इनका भी परान्तमें आश्रय पाकर मनुष्यका मन क्षुब्ध होता है, अन्यका ता कहना ही क्या १०६४। जो पुरुष स्त्रीका समर्ग विषये समान समझकर उसका नित्य त्याग करता है वही महात्मा यावज्जीवन ब्रह्मचर्यमें दृढ रहता है ११००।

मू आ /१७९ तरुणो तरुणोए सह क्हा व सत्त्नावणं च जदि कुञ्जा । आणाओवादीया पचवि दोमा कदा तेण १७९। =युवाउस्था वाला मुनि जवान स्त्रीके साथ कथा व हास्यादि मिश्रित वार्तानाप करे तो उसने आह्लाकोप आदि पाँचों ही दोष किये जानना ।

को पा म्/४७ पमुमहिनामदमग कुमोनमं ग कुण्ड विक्खाओ पज्जा एरिमा भणिया ४७। =जिम प्रवज्यामें पशु, महिला, नपुंसक और कुशील पुरुषका सग नहीं है तथा विकथान न करे ऐसी प्रवज्या कही है ४७।

लि पा म्/१७ रागा करेदि णिच्च महिलावग्ग पर च दूसेइ । इसण णाणविहीणो तिरिवलजाणी ण मो समणो १७। =जो लिंग धारण कर स्त्रियोंक समूहके प्रति राग उरता है, निर्दोषीको दृषण लगाता है, सो मुनि दर्शन व ज्ञान कर रहित तिर्यक योनिका पशुसम है ।

८. आर्थिकाकी संगतिका निषेध

भ०आ म्/३३१-३३६ थेरस्स वि तवमिस्स वि बट्टसुदस्स वि पमाण-भुदस्स । अज्जामसग्गीए जणलपणय ह्वेज्जादि ३३३। जदि वि सय थिरबुद्धी तहा वि मग्गिल्लदपमराए । अग्गिममीवे व वदं विलेज्ज चित्तं सु अज्जाए ३३३। खेतपडिदमपणं ण तरदि जह मच्चिया विमोचेदु । अज्जाणुचरो ण तरदि तह अप्पाण विमोचेदु ३३६। =मुनि, बुद्ध, तपस्वी, बहुश्रुत और जनमान्य होने पर भी यदि आर्थिकाका सहवास करेगा तो वह लोगोंकी निन्दाका स्थान बनेगा ही ३३३। मुनि यद्यपि स्थिर बुद्धिका धारक होगा तो भी मुनिके सहवाससे जिसका चित्त चंचल हुआ है ऐसी आर्थिकाका मन अग्निके समीप ही जैसा पिघल जाता है ३३३। जैसे मनुष्यके वफमें पड़ी मखली उससे निकलनेमें असमर्थ होती है वैसे आर्थिकाके साथ परिचय किया मुनि छुटकाग नहीं पा सकता ३३६।

मू आ /१७७-१८५ अज्जागमणे काले ण अरियदव्व तहैव एक्केण । ताहि पुण सत्तावो ण य कायवो अकज्जेण १७७। तासि पुण पुच्छाओ एकस्से णय करेज्ज प्फो दु । गणिणो पुरओ विक्खा जदि पुच्छइ तो कहेदव्वं १७८। णो कप्पदि विरदाण विरदीमुवामयन्हि चिट्ठेद । तत्थ णिसेज्जउवट्टणसज्जमाहारभिवलवोसरणे १८०। कण्ण विधव अतेउरियं तह सडरिणी सत्तिग वा । अचिरेणक्किय-माणो अववाद तत्थ पप्पोदि १८२। =आर्थिका आदि स्त्रियोंके आनेके समय मुनिके वनमें अकेला नहीं रहना चाहिए और उनके साथ धर्म कार्यादि प्रयोजनके बिना बोले नहीं १७७। उन आर्थिकाओंमेंसे यदि एक आर्थिका कुछ पूछे तो निन्दाके भयसे अकेला न रहे । यदि प्रधान आर्थिका अगाडी करके कुछ पूछे तो कह देना चाहिए १७८। सयमी मुनिके आर्थिकाओंकी वस्तिकामें टहरना बैठना, सोना, स्वाध्याय करना, आहार व भिक्षा ग्रहण करना तथा प्रतिक्रमण व मलका त्याग करना आदि क्रिया नहीं करनी चाहिए १८०। कन्या, विधवा, रानी वा विलासिनी, स्वेच्छाचारिणी तथा दीक्षा धारण करने वाली, ऐसी स्त्रियोंके साथ क्षणमात्र भा वार्तालाप करता मुनि लोक निन्दाको पाता है १८५।

९. आर्थिकाको साधुसे सात हाथ दूर रहनेका नियम

मू. आ/११६ पच छ सत्त हत्ये मूरी अन्कावगो य साधु य । परिहरि
ऊण्जाआ गवामणेणव वदति । ११६। = आर्थिकाएँ साधुमे पाँच हाथ
दूरसे, उपाध्यायको छह हाथ दूरसे और साधुओंको सात हाथ दूरसे
गौ आसनसे बेटकर नमस्कार करती है । ११६।

१ कथंचित् एकान्तमे आर्थिकाकी संगति

प. पु/१०६/२२५-२२८ ग्रामो मण्डलिको नाम तमायात सुदर्शन । मुनि-
मुद्यानमायात वन्दित्वा त गता जना । २२५। सुदर्शना स्थिता तत्र
स्वमार सहचो ब्रुवन् । ईक्षितो वेदवत्याऽसौ सत्या श्रमण्या
तया । २२६। ततो ग्रामीणलोकाय सम्यग्दर्शनतत्परा । जगद्
पश्यतेदृश श्रमण ब्रूथ सुन्दरम् । २२७। मया मुयोषिता साक
स्थितो रहसि वीक्षित । तत कैश्चित् प्रतीत तत्र तु कैश्चिद्विच-
क्षण । २२८। = उस ग्राममें एक सुदर्शन नामक मुनि आये । वन्दना
कर जब सब लोग चले गये तत्र उनके पास एक सुदर्शना नामकी
आर्थिका जो कि मुनिकी बहन थी बैठी रही और मुनि उसे
सहचन कहते रहे । अपने आपको सम्यग्दृष्टि ब्रताने वाली
वेदवती (सीताके पूर्व भवकी पर्याय) ने गाँवके लोगोंसे कहा कि
मेने उन साधुओंको एकान्तमें सुन्दर स्त्रीके साथ बेटे देला है ।

* पाद्वर्षस्थादि मुनि संग निषेध—दे० साधु/५ ।

११ मित्रता सम्बन्धी विचार

१. मित्रतामें परीक्षाका स्थान

कुरल/८०/१,२,१० अपरीक्षयेव मैत्री चेत् क प्रमादो ह्यत पर । भद्रा
प्रीति विधायादौ न तां मुञ्चन्ति कर्हिचिद् । १। कथं शील कुलं
किं क सन्ध का च योग्यता । इति सर्वं विचार्येव कर्तव्यो
मित्रसग्रह । ३। विशुद्धहृदयेऽरिम् सह मैत्री विधेहि वै । उपया-
चितदानेन मुञ्चत्वानार्यमित्रताम् । १०। = इससे बढकर अप्रिय
बात और कोई नहीं है कि बिना परीक्षा किये किसीके साथ
मित्रता कर ली जाय, क्योंकि एक बार मित्रता हो जाने पर सहृदय
पुरुष फिर छोड नहीं सक्ता । १। जिस मनुष्यको तुम अपना मित्र
बनाना चाहते हो उसके कुलका, उसके गुण-दोषोंका, किन-किनके
साथ उसका सम्बन्ध है, इन सब बातोंका विचार कर, पश्चात्
यदि वह योग्य हो तो मित्र बना लो । ३। पवित्र लोगोंके साथ बडे
चावसे मित्रता करो, लेकिन जो अयोग्य है उनका साथ छोड दो,
इसके लिए चाहे तुम्हें कुछ भी देना पडे । १०।

२. मित्रतामें विचार स्वतन्त्रताका स्थान

कुरल/८१/२,४ सत्यरूपात् तयामैत्री वर्तते विज्ञसमता । स्वाश्रितौ
यत्र पक्षौ द्वौ भवतो नापि बाधक । २। प्रगाढमित्रयारैक किमप्यनु-
मतिं विना । कुरुते चेद् द्वितीयोऽपि सख्यमाध्याय हृष्यति । ४।
= सच्ची मित्रता वही है जिसमें मित्र आपसमें स्वतन्त्र रहें और
ए-दूसरेपर दबाव न डालें । विज्ञजन ऐसी मित्रताका कभी
निरोध नहीं करते । २। जब कि जिन दो व्यक्तियोंमें प्रगाढ मैत्री है
उनमेंसे ए-दूसरेकी अनुमतिके बिना ही कोई काम कर लेता
है तो दूसरा मित्र आपसके प्रेमका ध्यान करके उससे प्रमत्त ही
होगा । ४।

३ अयोग्य मित्रकी अपेक्षा अवेला रहना ही अच्छा है

कुरल/८२/४ पनायते यथा युद्धात् पातयिदाश्ववाग्कम् । कुरत्यसति-
स्तथा मामो का मिद्विस्तस्य सख्यत । ४। = कुछ आदमी उस
अखड घोड़ेकी तरह होते हैं कि जो युद्धक्षेत्रमें अपने मवारकी गिगा-

कर भाग जाता है । ऐसे लोगोंमें मैत्री रखनेसे तो जकेला रहना ही
हजारगुणा अच्छा है । ४।

संज्ञा — क्षुद्र प्राणीसे ले कर मनुष्य व देव तक सभी मनारी जीवोंमें
आहार, भय, मैथुन व परिग्रह इन चारके प्रति जो तृणा पायी जाती
है उसे सज्ञा कहते हैं । निचली भूमिआमें ये व्यक्त होती हैं और
ऊपरकी भूमिआओंमें अव्यक्त ।

१. संज्ञा सामान्यका लक्षण

१. नामके अर्थमें

सं. सि/२/२४/१८१/१० सज्ञा नामेत्युच्यते । = सज्ञाया अर्थ नाम है ।
(रा वा /२/२४/५/१३६/१३) ।

२. ज्ञानके अर्थमें

दे मतिज्ञान/१ मति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता ये सर्व सम्यग्ज्ञानकी
सज्ञाएँ हैं ।

म सि/१/१२/१०६/५ सज्ञान सज्ञा । = 'सज्ञान सज्ञा' यह इनकी
व्युत्पत्ति है ।

गा जो/मू/६६० णो इदियआवग्णखओवरम तज्जओहण सण्णा । =
= नोइन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमको या तज्जन्य ज्ञानको सज्ञा
कहते हैं ।

३ इच्छाके अर्थमें

स सि/२/२४/१८२/१ आहारादिविषयाभिलाष सञ्चेति । = आहारादि
विषयोंकी अभिलाषाको सज्ञा कहा जाता है । (रा वा /२/२४/७/
१३६/१७) ।

प म/प्रा/१/११ इह जाहि वाहिया वि य जीवा पावति दारुण दुक्ख ।
सेवता वि य उभए । ११। = जिनसे बाधित होकर जीव इम लोकमें
दारुण दुःखको पाते हैं, और जिनको सेवन करनेसे जीव दोनो ही
भगवोंमें दारुण दुःखको प्राप्त करते हैं उन्हे मज्ञा कहते हैं । (प म/
स/१/३४४), (गो जी/मू/१३४) ।

गो जी/जी प्र/२/२१/१० आगमप्रसिद्धा वाञ्छा सज्ञा अभिलाष इति ।
= आगममें प्रसिद्ध वाञ्छा सज्ञा अभिलाषा ये एकार्थवाची है ।
(गो जी/जी प्र/१३४/३४७/१६) ।

२ संज्ञाके भेद

ध २/१.१/४१३/२ सण्णा चउत्विहा आहार-भय-मैथुणपरिग्रहसण्णा
चेदि । = खीणसण्णा वि अर्थि (पु ४१६/१) । = सज्ञा चार प्रकार-
की है, आहारसज्ञा, भयसज्ञा, मैथुनसज्ञा और परिग्रहसज्ञा । (ध
२/१.१/४१६/१), (नि सा//ता वृ/६६) : (गो जी/जी प्र/
१३४/३४७) ।

३. आहारादि सज्ञाओंके लक्षण

गो जी./जी प्र/१३४-१३८/४८ २४१ आहारे विशिष्टानादौ सज्ञा—
वाञ्छा आहारसज्ञा (१३४-३४८) भयेन उत्पन्ना पलायनैच्छा भयसज्ञा
(१३६/३४६) मैथुने-मैथुनकर्मणि मुरतव्यापारूपे सज्ञा—वाञ्छा
मैथुनसज्ञा (१३७/३५०) परिग्रहसज्ञा—तदर्जनादि वाञ्छा जायते ।
(१३८/३५१) = विशिष्ट अन्नादिमें सज्ञा अर्थात् वाञ्छात्ता होना
सो आहारसज्ञा है । (१३४/३४८) अत्यन्त भयसे उत्पन्न जो भागकर
त्रिप जाने आदिही इच्छा भी भयसज्ञा है । मैथुनरूप क्रियामें जो
वाञ्छा उसको मैथुनसज्ञा कहते हैं । धन-धान्यादिके अर्जन करने
रूप जो वाञ्छा सो परिग्रहसज्ञा जाननी ।

ध २/१.१/४१६/३ एदामि चउत्क मण्णाण अभाओ म्जीणमण्णा णाम ।
= इन चारों सज्ञाओंके अभावको क्षीणसज्ञा कहते हैं ।

४. आहारादि संज्ञाओंके कारण

स म/१/४२-४५ आहारदसणेण य तस्सुवओगेण ऊणकुट्टेण । सादिदरुदीरणेण होदि ह आहारसण्णा वु १५२। अइ भीमदसणेण य तस्सुवओगेण ऊणसत्तेण । भयकस्सुदीरणेण भयसण्णा जायदे चउहि १५३। पणिएरमभायणेण य तस्सुवओगेण कुसोत्तसेवणाए । वेदस्सुदीरणेण मेहुणसण्णा एवदि एव १५४। उदयरणदसणेण य तस्सुवओगेण मुच्छियाए व । लाहस्सुदीरणेण परिग्दे जायते सण्णा १५५। —बहिरगमें आहारके देखनेसे, उसके उपयोगने और उदररूप कोष्ठके बाली होनेपर तथा अन्तरगमें अमाता वेदनीयकी उदीरणा होनेपर आहारसज्ञा उत्पन्न होती है १५२। बहिरग अति भीमदर्शनसे, उसके उपयोगसे, शक्तिहीनता होनेपर, अन्तरगमें भयकर्मकी उदीरणा होनेपर सज्ञा उत्पन्न होती है १५३। बहिरगमें गरिष्ठ, स्वादिष्ठ, और रसयुक्त भोजन करनेसे, पूर्व-भुक्त त्रिपर्योका ध्यान करनेसे, कुशोलरा सेवन करनेसे तथा अन्तरगमें वेदकर्मकी उदीरणा होनेपर मैथुनसज्ञा उत्पन्न होती है १५४। बहिरगमें भागापभोगके साधनभूत उपकरणोंके देखनेसे, उनका उपयोग करनेसे, उनमें सूक्ष्मभान रखनेसे तथा अन्तरगमें लोभकर्मकी उदीरणा होनेपर परिग्रहसज्ञा उत्पन्न होती है १५५। (गा जी/१३१-१३८), (पं स/म/१/३२-३७) ।

५. संज्ञा व मञ्जीमे अन्तर

स मि/२/२४/१८१/८ ननु च सञ्चिन इत्यनेनेव गतार्थरत्नात्मनरका इति विशेषणमनर्थम् । यतो मनोव्यापारहिताहितप्राप्तिपरिहारपरीक्षा । सञ्चापि संवेति । नैतद्युक्तम्, सञ्चाज्ञानार्थव्यभिचारत्त । सञ्चा नामैयुच्यते । तद्वन्त सञ्चिन इति सर्वेषामतिप्रसङ्ग । सञ्चा ज्ञानमिति चेत्, सर्वेषां प्राणिनां ज्ञानारम्भकत्वादितिप्रसङ्ग । आहारदिविषयाभिनाप सञ्चेति चेत् । तुल्य तत्प्राप्तमनस्त्वा इत्युच्यते । —प्रश्न—सूत्रमें 'सञ्चिन' इतना पद देनेसे ही नाम चल जाता है अतः 'समनस्का' यह विशेषण देना निष्फल है, क्योंकि हितकी प्राप्ति और अहितके त्यागकी परीक्षा करनेमें मनका व्यापार होता है यही सञ्चा है । उत्तर—यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि सञ्चा शब्दके अर्थमें व्यभिचार पाया जाता है । सञ्चाज्ञान अर्थ नाम है । यदि नाम वाले जीव सञ्ची माने जायें तो सभी जीवोंको मञ्जीपनेका प्रसंग प्राप्त हो जायेगा । सञ्चाका अर्थ यदि ज्ञान मान लिया जाता है तो भी सभी प्राणी ज्ञान स्वभावकी होनेसे सबको सञ्चीपनेका प्रसंग प्राप्त होता है । यदि आहारादि विषयोंकी अभिलाषाको मञ्जी कहा जाता है तो भी पहलेके समान दाप प्राप्त होता है । चँकि यह दोष प्राप्त न हो अतः सूत्रमें 'समनस्का' यह पद रखा है । (रा वा/२/२४/७/१३६/१७) ।

६. वेद व मैथुन संज्ञामें अन्तर

ध २/१.१/४११/२ मैथुनसज्ञा वेदस्यान्तर्भवतीति चन्न, वेदत्रयादयसामान्यनिबन्धनमैथुनसज्ञाया वेदोदयविशेषलक्षणवेदत्रय चैकरागुपपत्ते । —प्रश्न—मैथुन संज्ञाका वेदमें अन्तर्भाव हो जायेगा । उत्तर—नहीं, क्योंकि तीनों वेदोंके उदय सामान्यके निमित्तसे उत्पन्न हुई मैथुन सज्ञा और वेदके उदय विशेष स्वरूप वेद, इन दोनोंमें एकद्वय नहीं बन सकता है ।

७. लोभ व परिग्रह संज्ञामें अन्तर

ध, ७/१.१/४१३/४ परिग्रहसज्ञापि न लोभैर्नैकस्वमास्त्रन्दति, लोभोदयसामान्यस्यानीदृशार्थलाभत परिग्रहसज्ञामादधानतो भेदात् । —परिग्रह सज्ञा भी लोभ कपायके साथ एकत्वकी प्राप्त नहीं है ही है, क्योंकि ताहा पदार्थोंको विषय करनेवाला होनेके कारण परिग्रह सज्ञाकी धारण करनेवाले लोभमे लोभकपायके उदयरूप सामान्य

लोभका भेद है । (अर्थात् माया पदार्थके निमित्तमे जो लोभ होता है उसे परिग्रह सज्ञा कहते हैं ।) और लोभ कपायके उदयसे उत्पन्न परिणामोंको लोभ कहते हैं ।

८. संज्ञाओंका स्वामित्व

गो जी/जी, प्र/७०२/११२६/६ मिथ्यात्वादिप्रमत्तान्त आहारादि चतस्र गज्ञा भवन्ति । पश्यगुणस्थाने आहारसज्ञा व्युच्छिन्ना । शेषास्तिस्र अप्रमत्तादिषु अपूर्वकगणा—तत्र भयसज्ञा व्युच्छिन्ना । अनिवृत्तकरणप्रथमवेदभागत्त मैथुनपरिग्रहसज्ञे स्त । तत्र मैथुनसज्ञा व्युच्छिन्ना । मूढमत्ताम्पराये परिग्रहसज्ञा व्युच्छिन्ना । उपरि उपशान्तादिषु कार्यरहिता अपि सज्ञान मन्ति कारणभावे कार्यम्याप्यभावात् । —मिथ्यात्व गुणस्थानसे लेकर प्रमत्त पर्यन्त चारों सज्ञाएँ होती हैं । पश्य गुणस्थानमें आहार सज्ञाका व्युच्छेद हो जाता है । अपूर्वकरण पर्यन्त शेष तीन सज्ञा हैं तहाँ भय सज्ञाका विच्छेद हो जाता है । अनिवृत्तकरणसे संवेद भाग पर्यन्त मैथुन और परिग्रह दो सज्ञाएँ हैं । तहाँ मैथुनका विच्छेद हो गया । तब सूक्ष्म साम्प्रदायमे एक परिग्रहसज्ञा रह जाती है, उमका भी वहाँ विच्छेद हो गया । तब ऊपरके उपशान्त आदि गुणस्थानमें कारणके अभावमें कार्यका अभाव होता है, अतः वह कार्य रहित भी सज्ञा नहीं है ।

९. अप्रमत्तादि गुणस्थानोंकी संज्ञा उपचारमे है

ध २/१.१/४१३.४३३/६.३ यदि चतस्रोऽपि सज्ञा आलीदवाहापार्थ, अप्रमत्तानां सज्ञाभाव स्यादिति चन्न, तत्रोपचारतस्तत्स्वभावाभ्युपगमात् १४३३/६ । (कारणभूद कम्मोदय-सम्भवाद् उच्यारेण भयमेहुणपरिग्रहसण्णा अस्थि (२३३/३) । — प्रश्न—यदि ये चारों ही सज्ञाएँ बाह्य पदार्थोंके समर्गमे उत्पन्न होती हैं तो अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती जीवोंके सज्ञाओंका अभाव हो जाना चाहिए । उत्तर—नहीं, क्योंकि अप्रमत्तामें उपचारसे उन सज्ञाओंका सृष्टभाव स्वीकार किया गया है । भय आदि सज्ञाओंके कारणभूत कर्मोंका उदय संभव है इसलिए उपचारसे भय और मैथुन सज्ञाएँ हैं ।

गो जी/मू/७०२ छट्टीति पढमसण्णा सकउज सेमा य कारणवेत्त्वा । —मिथ्यात्वमे लेकर अप्रमत्त पर्यन्त चारों ही सज्ञाएँ कार्यरूप होती हैं । किन्तु ऊपरके गुणस्थानोंमें तीन आदिक सज्ञाएँ कारणरूप होती हैं । (गा क/मू/१३६) ।

१०. सज्ञा कर्मके उदयसे नहीं उदीरणासे होती है

ध २/१.१/४३१/२ अन्मादावेदणीयस्स उदीरणाभावाद्दो आहारसण्णा अप्रमत्तमज्जम्म णियि । —अमाता वेदनीय कर्मकी उदीरणाका अभाव होनेसे अप्रमत्त सयतके आहार सज्ञा नहीं है ।

दे सज्ञा/१ चारों सज्ञाओंके स्वस्व कर्मकी उदीरणा होनेपर वह सज्ञा उत्पन्न होती है ।

* सज्ञाके स्वामित्व सम्बन्धी गुणस्थान आदि २० प्ररूपणाएँ ।—दे सत् ।

* संज्ञा प्ररूपणाका कपाय मार्गणामे अन्तर्भाव ।

—दे मार्गणा ।

संज्ञासंज्ञा—क्षेत्रा एक प्रमाण विशेष । अपरनाम सज्ञासंज्ञ—दे. गणित/१/१ ।

संज्ञी—मनके सज्ञाके कारण जिन जीवोंमें शिक्षा ग्रहण करने व विशेष प्रकारसे विचार, तर्क आदि करनेकी शक्ति है वे सञ्ची कहलाते हैं । यद्यपि चींटी आदि क्षुद्र जन्तुओंमें भी छट्ट पदार्थकी प्राप्ति प्रतिगमन और अतिष्ठ पदार्थोंसे हटनेकी बुद्धि देखी जाती है पर उपरोक्त लक्षणके अभावमें वे सञ्ची नहीं कहे जा सकते ।

१ संज्ञी-अमज्ञी सामान्यका लक्षण

१ शिक्षा आदि ग्राहीके अर्थमें

प. स / प्र / १०७३ सिकवाकिरिओवएसा आलावगाही मणोवल्वेण । जो जीवो मो सण्णी तत्रिवरोओ असण्णी य १७३। = जो जीव मनके अवलम्बनसे शिक्षा, क्रिया, उपदेश और आलापको ग्रहण करता है उसे सज्ञी कहते हैं, जो इससे विपरीत है उसको अमज्ञी कहते हैं। (घ १/११०८/गा ६७/१६२), (त सा १/२/६३), (गो जी / मू / ६६१), (प स / स १/३१६) ।

रा वा ६/७/११/६०४/२७ शिक्षाक्रियालापग्राही सज्ञी, तद्विपरीता-सज्ञी । = जो जीव शिक्षा, क्रिया, उपदेश और आलापको ग्रहण करता है सो मज्ञी और उससे विपरीत अमज्ञी है। (घ १/११०८/१२७/४), (घ, ७/२,३/७/७), (प का, ता वृ / ११७/१८०/१३) ।

२ मन सहितके अर्थमें

त सू २/२४ सज्ञिन समनस्का १२४। = मनवाले जीवसज्ञी होते हैं। (घ १/११०३/३६/२६६/६) ।

प स / प्र / १/१७४-१७५ मीमसज्ञ जो पुव्व वज्जकज्ज च तच्चमिदर च । निवत्तइ गामेणेदि य समणो अमणा य विवरीओ १७४। एवं कए मए पुण एव होदि ति वज्ज णिप्पत्ती । जो वु विचारइ जीवो सो मणिण अमणिण इयरो य १७५। = जो जीव किमां कार्यको करनेसे पूर्व कर्तव्य और अर्थाव्ययी मीमासा करे, तत्त्व और अतत्त्वका विचार करे, याग्यका सोखे और उसके नामको पुनारनेपर आवे सो समनस्क, है उससे विपरीत अमनस्क है। (गो. जी / मू / ६६२) जो जीव ऐसा विचार करता है कि मेरे इस प्रकार कार्यके करनेपर कार्य-को निष्पत्ति होगी, वह सज्ञी है और इससे विपरीत असज्ञी है।

रा वा २/६/५/१०६/१३ हिताहितापरीक्षा प्रत्यसामर्थ्य असञ्चिख्वम् । = हिताहित परीक्षाके प्रति असामर्थ्य होना सो असञ्चिख्वम् ।

घ. १/११०४/१६२/३ सम्यक् जानातीति सज्ञ मन, तदस्यास्तीति सज्ञी । = जो भलो प्रकार जानता है उसको सज्ञ अर्थात् मन कहते हैं, वह मन जिसके पाया जाता है उसको सज्ञी कहते हैं।

गो, जी / मू / ६६० णोइ दिय आवरणत्वओवसम तज्जवोहण सण्णा । सा जस्सा सो वु सण्णी इदरो सेसिदियअवरोहो । = नोइन्द्रिय कर्मके क्षयोपशममे तज्जन्त्य ज्ञानको सज्ञा कहते हैं वह जिसको हो उसको सज्ञी कहते हैं और जिनके यह सज्ञा न हो किन्तु केवल यथासम्भव इन्द्रिय ज्ञान हो उसको असज्ञी कहते हैं।

प का / ता वृ / ११७/१८०/१६ नाइन्द्रियावरणस्यापि क्षयोपशमना-भास्तज्जिनो भवन्ति । = नोइन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमसे जीव सज्ञी होते हैं।

द्र स/टी / १२/३०/१ समस्तशुभाशुभविक्रपातीतपरमात्मद्रव्यविलक्षण नानाविक्रपरूपजालरूप मनो भण्यते, तेन सह ये वर्तन्ते ते समनस्का सज्ञिन तद्विपरीता अमनस्का अनज्ञिन ज्ञातव्या । = समस्त शुभाशुभ विचरणसे रहित परमात्मरूप द्रव्य उसमे विलक्षण अनेक तरहके विक्रपरूपजाल रूप मन है, उस मनसे सहित जीवको सज्ञी कहते हैं। तथा मनसे अन्य अमनस्क अर्थात् अमज्ञी है।

२. सज्ञी मार्गणाके भेद

प ख १/११/१०७/४०८ सण्णियाणुवादेण अरिथ सण्णी असण्णी १७२। [णेर सण्णि णेर असण्णिणा वि अरिथ घ / २] । = सज्ञी मार्गणाके अनुवादमे सज्ञी और अमज्ञी जीव हते हैं १७२। सज्ञी तथा असज्ञी विवरण रहित स्थान भी होता है। (रा वा २/७/११/६०४/१८), (घ २/२/४१६/११), (द्र स / टी / १३/४०/३) ।

३. संज्ञी मार्गणाका रचामित्व

१ गति आदिकी अपेक्षा

प का / मू / १११ मणपरिणामरिहदा जीवा एडदिया णया १११। = मन परिणामसे रहित पकेन्द्रिय जीव जानने।

रा वा २/११/३/१२४/२७ एकद्वित्रिचतुर्गिन्द्रियाणां पञ्चेन्द्रियेषु च केपाश्चित्त मनोविषयविशेषव्यग्रहाराभावत् अमनस्क । = एक, दो, तीन, चार और पाँच इन्द्रिय जीवोंमें कोई जीव मनके विषयभूत विशेष व्यापारके अभावमे अमनस्क है।

द्र स टी / १२/३०/४ मज्ञयसज्ञिपञ्चेन्द्रियास्तिर्यञ्च षव, नारगमनुष्प-देवा सज्ञिपञ्चेन्द्रिया एव । पञ्चेन्द्रियात्मकाशात् परे भवे द्वित्रि-चतुरिन्द्रिया । बादरमृक्षमा एकेन्द्रियास्नेऽपि अमज्ञिन एव । = पञ्चेन्द्रिय जीव सज्ञा तथा असज्ञी दोनों हाते हैं, ऐसे सज्ञी तथा असज्ञी ये दोनों पञ्चेन्द्रिय । तिर्यञ्च ही हाते हैं। नारकी मनुष्य और देव सज्ञी पञ्चेन्द्रिय ही हाते हैं। पञ्चेन्द्रियमे भिन्न अन्य सब द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, और चतुरिन्द्रिय जीव मन रहित अमज्ञी होते हैं। नादर और सूक्ष्म एकेन्द्रिय है वे भी अमज्ञी है।

गो जी / जी प्र / ६६७/११३३/८ जीवममासौ सज्ञिपर्याप्तापर्याप्तौ द्वौ । तु-पुन असज्ञिजीव स्थावरवायाद्यमद्भ्यत् मिथ्यादृष्टिगुणस्थाने एव स्यान्नियमेन तत्र जीवसमामा द्वादशसज्ञिनो द्वयाभावात् । = सज्ञी-मार्गणामे पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो जीवसमास होते हैं। असज्ञी जीव स्थावरकायसे लेकर असज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त होते हैं। इनमें एक मिथ्यात्व गुणस्थान तथा जीवसमास सज्ञी सम्बन्धी पर्याप्त और इन दोको छोड़कर शेष नारह हाते हैं।

२ गुणस्थान व सम्बन्धकी अपेक्षा

प ख १/११/१०३/४०८ सण्णी मिच्छाइद्विप्पहुडि जाण खण-कमाय-नीयराय-छदुमत्था ति १७३। = सज्ञी जीव मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर क्षीणकपाय, शीतराग, छग्रस्थ गुणस्थान तक हते हैं।

ति प / ५/२६६ तेत्तीसभेदसजुदतिरिख्वजीवाण सव्वकालम्मि । मिच्छत्तगुणद्वान वोच्छ सण्णीण त माण १२६६। = सज्ञी जीवोंको छाड़कर शेष तैतौम प्रकारके भेदोंसे युक्त तिर्यचोंके (दे जीवसमास) सर्व कालमें एक मिथ्यात्व गुणस्थान रहता है।

गा जी / मू / ६६० सण्णी सण्णिपप्पहुदो खणकमायात्ति हादि णियमेण । = सज्ञी जीव सज्ञी मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकपाय पर्यन्त होते हैं। दे सज्ञी/३/१ में गो जी असज्ञी जीवोंमें नियमने एक मिथ्यात्व गुणस्थान होता है।

गो क / जी प्र / ४६१/७४३/४ सासादनरुचौ अनज्ञिसज्ञितिर्यङ्-मनुष्येषु । = सासादनसम्यक्त्वमे सज्ञी अगवी तिर्यञ्च न मनुष्योंमें ।

४ पकेन्द्रियादिकमे मनके अभाव सवधी शका समाधान

रा वा १/१६/१०-२१/२०२/२६ यदि मनोऽन्तरेण इन्द्रियाणां वेदगणगमो न स्यात् एकेन्द्रियविकलेन्द्रियाणामज्ञिपञ्चेन्द्रियाणां च वेदना-वगमो न स्यात् ३०। प्रथगुपकारानुपलम्भात् तदभाव इति चेत्, न, गुणदोषविचारोऽदर्शनात् ३१। अतोऽस्त्यन्त कर्ण मन । = यदि मनके बिना इन्द्रियोंमें स्वग सुल-दु लानुभव ही तो पकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय और अगज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंको दुखरा अनुभव नहीं होना चाहिए। प्रथम-मनका (इन्द्रियानि) पृथक् उपकारका अभाव हनेमे मनका भी अभाव है। उत्तर-नहीं, गुण-शय विचार आदि मनके स्वतन्त्र कार्य हैं इमनिण मनरा स्वतन्त्र परिहृत है।

घ १/११ ७३/३१/४ विकनेन्द्रियेषु मनमोऽभाव वृत्तोऽपत्तीयत इति चेदापात् । कथमार्पण्य प्रामाण्यमिति चैत्स्वाभावात्प्रत्यक्षस्येव ।

—प्रश्न—विश्लेषेन्द्रियार्थं मनना अभाव है यह कि प्रमाणसे जाना जाता है। उत्तर—आगम प्रमाणसे जाना जाता है। आर आगम प्रत्यक्ष और स्वभावेसे प्रमाण है।

प का/ता वृ/११७/१८०/१६ क्षयोपशमत्रिकल्परूप हि मनो भण्यते तत्तत्पामपरतोति कथमसङ्गिन। परिहारमाह। यथा पिपीलिकाया गन्धविषये जा तस्वभावेनैवाहारादिगन्धारूप पदुत्तरमस्ति न चान्यत्र कार्यकारणव्याप्तिज्ञानविषये अन्येषामप्यसङ्गिनां तथैव। —प्रश्न—क्षयोपशमके विकल्परूप मन होता है। वह एकेन्द्रियार्थिके भी होता है, फिर वे असञ्जी कसे हैं। उत्तर—इसका परिहार करते हैं। जिम प्रकार चोटी आदि गन्धके विषयमें जाति स्वभावेसे ही आहार-दि रूप सङ्गामें चतुर हाती है परन्तु अन्यत्र कारणकार्य व्याप्ति-रूप ज्ञानके विषयमें चतुर नहीं हाती, इसी प्रकार अन्य भी असञ्जी जीवोंके जानना।

५ मनके अभावमें श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति कैसे

ध १/१,१,३५/२६१/१ अथ स्यादर्थालोकमनस्कारचक्षुर्भ्य सप्रवर्तमान रूपज्ञान समनस्केषूपलभ्यते तस्य कथमनस्केषोपविर्भाव इति नैप दाप भिन्नजातित्वात्। —प्रश्न—पदार्थ, प्रकाश, मन और चक्षु इनसे उत्पन्न होनेवाला रूप ज्ञान समनस्क जीवोंमें पाया जाता है, यह तो ठीक है, परन्तु अमनस्क जीवोंमें उस रूपज्ञानकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है। उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि समनस्क जीवोंके रूप ज्ञानसे अमनस्क जीवोंका रूप ज्ञान भिन्न जातीय है।

ध १/१,१,७३/३४४/१ मनस कार्यत्वेन प्रतिपन्नविज्ञानेन सह तत्रतन-विज्ञानस्य ज्ञानत्व प्रत्यविशेषान्मनोनिबन्धनत्वमनुमीयत इति चेन्न, भिन्नजातिस्थितविज्ञानेन सहापिशेषानुपपत्तेः। —प्रश्न—मनुष्योंमें मनके कार्यरूपसे स्वीकार किये गये विज्ञानके साथ विश्लेषेन्द्रियोंमें होनेवाले विज्ञानकी ज्ञान सामान्यकी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं दे, इसलिए यह अनुमान किया जाता है कि विश्लेषेन्द्रियों में विज्ञान भी मनसे उत्पन्न होता होगा। उत्तर—नहीं, क्योंकि भिन्न-जातिमें स्थित विज्ञानके साथ भिन्न जातिमें स्थित विज्ञानकी समानता नहीं बनती।

ध १/१,१,११६/३६१/२ अमनसां तदपि कथमिति चेन्न, मनाऽन्तरेण वनस्पतिषु हिताहितप्रवृत्तिनिवृत्त्युपसम्भतोऽनेना ताव। —प्रश्न—मन रहित जीवोंमें श्रुतज्ञान कैसे सम्भव है। उत्तर—नहीं, क्योंकि, मनके बिना वनस्पतिकायिक जीवोंके हितमें प्रवृत्ति और अहितसे निवृत्ति देखी जाती है, इसलिए मन सहित जीवोंके ही श्रुतज्ञान माननेमें उनसे अनेकान्त दाप आता है। (और भी वे अगला शार्प)।

६ श्रोतके अभावमें श्रुतज्ञान कैसे

ध १/१,१,११६/३६१/६ कथमेकेन्द्रियाणां श्रुतज्ञानमिति चेत्कथं च न भवति। श्रोत्राभावात् शब्दावगतिस्तदभावात् शब्दाधिवगम इति, नैप दाप, यतो नायमेकान्ताऽस्ति शब्दाधिविबोध एव श्रुतमिति। अपि तु अशब्दरूपादपि लिङ्गाङ्गि ज्ञानमपि श्रुतमिति। —प्रश्न—एकेन्द्रियोंके श्रुतज्ञान कसे हो सकता है। उत्तर—कैसे नहीं हो सकता है। प्रश्न—एकेन्द्रियोंके श्रात्र इन्द्रियका अभाव होनेसे शब्दका ज्ञान नहीं हो सकता है, शब्दज्ञानके अभावमें शब्दके विषयभूत अर्थका भी ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए उनके श्रुतज्ञान नहीं होता यह बात सिद्ध है। उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह एकान्त नियम नहीं है कि शब्दके निमित्तमे होनेवाले पदार्थके ज्ञानको ही श्रुत कहते हैं। किन्तु शब्दसे भिन्न रूपादिक लिंगसे भी जो लिंगीका ज्ञान होता है उसे भी श्रुतज्ञान कहते हैं।

ध १/१,१,२१/२१०/६ एहद्विष्णु सोद णोद्दिग्वज्जिण्णसु कथं सुदगा-णुपत्तो। ण, तस्य मणेण विणा वि जादिविसेसेण लिंगिविसयाणा-णुपत्तोप विरोहाभावाद्। —प्रश्न—एकेन्द्रिय जीव श्रोत्र और

नोद्दिग्गमे रहित होते हैं, उनके सुसंज्ञानकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है। उत्तर—नहीं, क्योंकि वहाँ मनके बिना भी जातिविशेषके कारण लिंगी विषय ज्ञानकी उत्पत्ति माननेमें कोई विरोध नहीं आता।

७. मञ्जीमें क्षयोपशम भाव कैसे है

ध ७/२,१,२०/१११/१० णोद्दिग्याग्गम्स मव्वधादिक्कमाण जादिव-सेण अणत्तगुणहाणीए हाइदुण देग्घादित्त पात्रिय उरमत्ताणमुदण्ण मण्णितादसणाद्दो। —नोद्दिग्ग्याग्गण कर्मके गर्वघातो स्वर्धर्कों के अणो जाति विशेषके प्रभावेसे अनन्तगुणी हानिरूप घातके द्वारा दशघातित्वको प्राप्त होकर उपशान्त हुए पुन उन्हीके उदयेसे सञ्चित उत्पन्न होता देखा जाता है।

८. अन्य सम्बन्धित विषय

१. सदा व सद्योमें अन्तर। —दे० संज्ञा।

२. सद्यो जीत सम्मूच्छेन भी होते हैं। —दे० सम्मूच्छेन।

३. असद्यो जीवोंमें वचन प्रवृत्ति कैसे सम्भव है। —दे० योग/४।

४. असद्योमें टवादि गतियोंका उदय व तत्सम्बन्धी शका-समाधान। —दे० उदय/५।

५. सक्षित्वमें कौन सा भाव है। —दे० भाव/२।

६. सद्योके गुणस्थान, जीवसमास, आदिके स्वामित्व सम्बन्धी २० प्रकरणार्थ। —दे० वह वह नाम।

७. सद्योके सत्, सत्या, क्षेत्र आदि सम्बन्धी ८ प्रकरणार्थ। —दे० वह वह नाम।

८. सभी मार्गणोंमें आयके अनुसार व्यय होनेका नियम। —दे० मार्गणा।

संग्रह—म पु/१६/१७६ दशग्राम्यास्तु मध्ये यो महात् प्राम स संग्रह। —दश गाँवके बीच जो एक बड़ा भारी गाँव होता है, उसे संग्रह (जहाँ हर वस्तुओंका संग्रह रखा जाता हो) कहते हैं।

संग्रह कृष्टि—दे. कृष्टि।

संग्रह नय—दे. नय/III/४।

संघ—१. संघका लक्षण

स सि/६/१३/३३१/१२ रत्नत्रयोपेत श्रमणगण सघ।

स मि/१/२४/४४७/६ चातुर्वर्णश्रमणनिबह सघ। —रत्नत्रयसे युक्त श्रमणोंका समुदाय संघ कहनाता है। (रा वा/६/१३/५२३) चार वर्गके श्रमणोंके समुदायको संघ कहते हैं। (रा वा/१/२४/४४७/६), (चा सा/१५/१/४), (प्र सा/ता वृ/२४६/३४३/१०) दे. वैयावृत्त/२ आचार्यसे लेकर गण पर्यन्त सर्व माधुओंकी व्याधि दूर करना संघ वैयावृत्त कहनाता है।

मा, पा/टी/७८/२२६/१ ऋषिमुनियत्यनगारनिबह सघ अथवा मृष्यायिकाभावकश्रात्रिकानिबह सघ। —श्रुति, मुनि, यति और अनगारके समुदायका नाम संघ है। अथवा श्रुति, आश्रित, श्रावक और श्राविकाके समुदायका नाम संघ है। (और भी वे अगला शार्पक)

* संघके भेद—दे इतिहास/५।

१. एक मुनिको असंघपना हो जायेगा

रा वा/६/१३/४/५२४/१ स्यादेतत् सङ्घो गणो वृन्दमित्यन्यन्तर तस्य कथमेकस्मिन् वृत्तिरिति। तन्न, कि कारणम्। अनेकव्रतगुण-

सहननादेक्यापि मङ्गलमिद्धे । उक्त च—यत्र गुणसघादो कम्मणाविमोयदा हवदि सघो । दमणणवग्गित्ते सघादितो हवदि सघो । = प्रण—सघ, गण और समुदाय ये एकार्थनाचो है ता इम कारण एक साधुको सघ केमे कह सक्ते है । उत्तर—रेमा नही है, क्वाकि एक वक्कि भी जनेक गुणवतादिका धारक होनेसे सघ कहा जाता है । कहा भी है—गुण सघातको सघ कहते है । फर्माका नाश करने और दर्शन, ज्ञान और चारित्रका संपदन करनेसे सघ कहा जाता है ।

संघात—१ संघात सामान्यका लक्षण

स. सि १/५/२६/२६५/४ पृथग्भूतानामेकत्वापत्ति सघात । = पृथग्भूत हुए पदार्थोंके एकरूप हो जानेको सघात कहते है । (रा वा १/५/२६/२/४६३/२५)

ध १४/५.६.१८/१२१/२ परमाणुपोग्गनसमुदायसमागमो सघादा णाम । = परमाणु पुद्गलोंका समुदाय समागम होना सघात है ।

२. भेद सघातका लक्षण

ध. १४/५.६.१८/१२१/४ भेद गत्तुण पुणो समागमो भेदसघादो णाम । = भेदको प्राप्त होकर पुन सघात अर्थात् समागम होना भेद सघात है ।

३ सघात नामकर्मका लक्षण

स सि १/५/२६/२६०/१ यदुदायादीदारिकादिशरीराणां विपरग्गहितान्यो-
ऽन्यप्रदेशानुपवेशेन एकत्वापादन भवति तत्रसघातनाम । = जिसके उदयसे औदारिकादि शरीरोंकी छिद्र रहित होकर परस्पर प्रदेशोंके अनुपवेशन द्वारा एकरूपता आती है वह सघात नामकर्म है । (रा वा ५/११/७/५७६/२७), (गो क/जी प्र/३२/२६/२)

ध. ६/१.६-१.२५/५३/३ जेहि कम्मख धेहि उदय पत्तेहि बधणणामकम्मो-
दण्ण व्र धमागयाण सगीरपोग्गलवलधाण मट्ठस कीरदे तेमि सरीर-
सघादसण्णा । *जदि सगीरसघादणामकम्मजीवस्स ण होउज्ज, तो तिलमोअओ वर अबुट्टसरीरो जीवो होउज्ज । = उदयको प्राप्त जिन कर्म स्फूर्णोंका मृष्टत्व अर्थात् छिद्र रहित मश्लेष किता जाता है उन पुद्गल स्फूर्णोंकी शरीरसघात यह सज्ञा है । यदि शरीर सघात नामकर्म सज्ञा न हो, तो तिलके मादकके समान अपुष्ट शरीरवाला जीव हो जावे । (ध १३/५.५ १०१/३६/२)

४. शरीर सघातके भेद

प र ६/१.६-१.२/सू ३३/७० ज त सरीरसघादणामकम्म त पचविहं,
ओरालियसरीरसघाद णाम वेउवियसरीरगघाद णाम आहारसरीर-
सघादणाम, तेरासगीरसघादणाम कम्मइयसरीरसघादणाम चेदि । = जो शरीर सघात नामकर्म है, वह पाँच प्रकार है—औदारिक शरीर सघात नामकर्म, बैक्रियकशरीर सघात नामकर्म आहारकशरीर-सघातनामकर्म, तेजसशरीर सघातनामकर्म, और कर्मणशरीर-सघात नामकर्म । (प. ख १३/५.५ सू १०६/३६७)

संघात—दूनरे नरकका दसवाँ पटल—दे० नरक/५ ।

संघात ज्ञान—दे० श्रुतज्ञान/II ।

संघातन—१ सघातन कृतिका लक्षण

ध १/५.१.६६/३२६/६ तत्थअपिदसरीरपरमाणुण णिज्जराए विणा
जो मचयो ना सघादणकदी णाम । = (पाँचों शरीरोंमें) विन-
शित शरीरके परमाणुओंका निर्जराके विना जो सघात होता है उसे
सघातन कृति कहते है ।

२. संघातन-परिशातन (उभय रूप) कृतिका लक्षण

ध १/५.१.६६/३२६/२ अपिदसरीरस्स पाग्गनरखघाणमागम-णिज्ज-
राओ सघादण-परिसादणफदी णाम । = (पाँचों शरीरोंमें-में)
विनशित शरीरके पुद्गल स्फूर्णाना आगमन और निर्जराका एक
साथ होना सघातन-परिशातन कृति कही जाती है ।

* पाँचों शरीरोंकी संघातन-परिशातन कृति !

दे० (घ. १/३५५-४५१) ।

सघात समास ज्ञान—दे० श्रुतज्ञान/II ।

सघातिम—दे० निक्षेप/५/६ ।

संघायणी—बृहत्सग्रहणी सूत्रका अपरनाम है । —दे० बृहत्सग्रहणी
सूत्र ।

संघया—पूर्व विदेहस्थ मगनावती क्षेत्रकी मुख्य नगरी । —दे०
लोक/७ ।

संचार—१. एक अक्ष या भगना अनेक भगनि विपे क्रमसे पतना ।
—दे० गणित/II/३ ।

२ न्या वि./वृ १/२०/२१७/२६ अमचार असप्रतिपत्ति । = अम-
चार अर्थात् प्रतिपत्ति गानी निश्चयना न होना ।

संचेतन—स ना /आ /क २२४ प जयचन्द्र—किसीके प्रति एकाग्र
होकर उमका ही अनुभार रूप स्वाद लिया करना उमका संचेतन
कहालाता है ।

संजयत—म पु ५/५६/३नाक स पूर्व भव स ७ में मिहपुर नगरका
राजा सिहसेन (१४६) छठेंमें सल्लकी बनमें अज्ञानिधोप नामक
हाथी हुआ (१६७) । ४वेंमें रविप्रभ विमानमें देव (२१७-२१८)
चोथेमें राजपुत्र रश्मिदेव तीसरेमें काण्वि स्वर्गमें देव (२२७-२२८)
दूमरेमें राजा अपराजितका पुत्र (२२६) पूर्व भवमें सर्वार्थनिष्ठिमें
देव था (२७३) । वर्तमान भवमें गन्धमालिनी देशमें वीतशोक
नगरके राजा वैजयन्तका पुत्र था (१०६-११०) विरक्त होकर दीक्षा
ग्रहण की (११२) । इनकी ध्यानस्थ अवस्थामें एक विद्युत्पुद्गल
नामक विद्याधरने इनका उठाकर इला पर्यतपर नदीमें टुट्टा दिया ।
तथा पत्थरोंकी वर्षा की । इस घार उपमर्गको जीतनेक फलस्वरूप
मोक्ष प्राप्त किया (११६-१२६) । (म पु ५/५६/३०६-३०७), (प
पु ५/५६-४४) ।

संजयंत नगरी—विजयार्थकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर—दे०
विद्याधर ।

संजय—एक परिव्राजक था । जिसने मौद्गलायन व नारिपुत्तको
बुद्धका शिष्य हानेमें रोका था ।

संज्वलन—१ संज्वलनका लक्षण

स सि १/५/२६/१० मयकीभावे वर्तते । मयमेन सहायस्थानादेवी-
भूय ज्वलन्ति मयमो वा ज्वलयेपु मस्सपीति मज्जलना क्रोध-
मानमायालीभा । = 'स' एकीभाव अर्थमें रहता है । मयमेके साथ
अस्थान होनेसे एह होकर जा ज्वलित हाते है ज्वात् चमक्ते
है या जिनके सहायमें मयम चमक्ता रहता है वे मज्जलन, क्रोध
मान, माया और लाभ है । (रा वा ५/६/५७५/४), (गो क /-
जी प्र/३३/२६/५), (गो क/जी प्र/४५/२६/१०) ।

ध १३/५.५.६६/३६०/१२ सम्म्यक् शोभनं जनतीति मज्जनन । = जो
सम्मत् ज्वात् शोभन रूपसे 'जनति' अर्थात् प्रकाशित हाता है वह
मज्जनन रूपाय है ।

गो जं /जी. प /२८५/६०५/१५ ज्वलननास्ते मधात्त्यातचारित्रणिक,म
कपन्ति, स ममाचीन विशुद्ध सयम मथात्त्यातचारित्रणनामयेय

ज्वलन्ति दहन्ति इति सज्वलना इति निरुक्तिवलेन तदुदये सत्यपि सामायिकादीतरस्यमाविरोधे सिद्धः । = सज्वलन क्रोधादिक सकल कपायके अभाव रूप यथाख्यात चारित्रिका घात करते हैं । 'स' कहिए समीचीन निर्मल यथाख्यात चारित्रिको 'ज्वलति' कहिए दहन करता है, तिनको सज्वलन कहते हैं, इन निरुक्तिसे सज्वलनका उदय होने पर भी सामायिक आदि चारित्रिके सद्भावका अविरोध सिद्ध होता है ।

२ सज्वलन कपायमें सम्यक्पना क्या

ध ६/१६-१,२३/४/६ किमत्र सम्यक्त्वम् । चारित्र्येण सह ज्वलनम् । चारित्तमविणासेता उदय कुण त्ति ज उत्त होदि । = प्रश्न—इस सज्वलन कपायमें सम्यक्पना क्या ? उत्तर—चारित्र्यके साथ जलना ही इनका सम्यक्पना है अर्थात् चारित्र्यका विनाश नहीं करते हुए भी ये उदयको प्राप्त हाते हैं यह अर्थ कहा है ।

ध. १३/६,६,६५/३६१,१ कुन्तत्य सम्यक्त्वम् । रत्नत्रयाविरोधात् । = प्रश्न—इसे (सज्वलनको) सम्यक्पना कैसे है ? उत्तर—रत्नत्रयका अविरोधी होनेसे ।

३ यह कपाय यथाख्यात चारित्रिको घातती है

प स प्रा १/१११४ चउरथो जहवायधार्इया । = सज्वलन कपाय यथाख्यात चारित्रिकी घातक है । (और भी दे गीर्णकम १), (प स प्रा १/१११०), (गो जी /२८३), (गो क /सू /४४), (प स /सं /१/२०४) ।

४ इसके चार भेद कैसे

ध १३/६,६,६५/३६१/१ लोह-माण-माया-ल हेसु पादेयक सज्वलणहिदोसो किमदृठ कदो । एदेसिं ववादया पुध पुध विणट्टा, पुविणल्लतिय चउक्कन्नेव अक्कमेण ण विणट्टा त्ति जाणावणट्टठ । = प्रश्न—क्रोध, मान माया और लोभमें-से प्रत्येक पदके साथ सज्वलन शब्दका निर्देश किस लिए किया गया है ? उत्तर—इनके बन्ध और उदयका विनाश पृथक्-पृथक् होता है, पहली तीन कपायोंके चतुष्पके समान इनका युगपत् विनाश नहीं होता, इस बातका ज्ञान करानेके लिए क्रोधादि प्रत्येक पदके साथ सज्वलन पद निर्देश किया गया है । (ध ६/१,६-१,२,२८/४४/६) ।

५ इसको चारित्र मोहनीय कहनेका कारण

ध ६/१,६-१,२३/४/६ चारित्तमविणासेता उदय कुण त्ति ज उत्त होदि । चारित्तमविणासेताण सज्वलणण कधं चारित्तावरणत्त जुज्जेदो । ण, सजममिह मलमुव्वाइय जहायखाटचारित्तुप्पत्तिपट्ठि-वधयाण चारित्तावरणत्ताविरोहा । = चारित्रिको विनाश नहीं करते हुए ये (सज्वलन) कपाय प्रगत होते हैं । प्रश्न—चारित्रिको नहीं नाश करने वाले सज्वलन कपायोंके चारित्र्यावरणता कैसे बन सकती है ? उत्तर—नहीं, क्योंकि ये सज्वलन कपाय समयमें मलको उपपन्न करके यथाख्यात चारित्रिकी उत्पत्तिके प्रतिबन्धक होते हैं, इसलिए इनके चारित्र्यावरणता माननेमें विरोध नहीं है ।

६ सज्वलन कपायका वासना काल

गो क /सू व टो /२६/४० अतोपुहुत्त सज्वलणमयासणाकाला दु गिय-मेण १२६ । उदयाभावेऽपि तत्तस्कारकालो वासनाकाल स च सज्वलनानामन्तर्मुहूर्त्तं । = उदयका अभाव होनेपर भी कपायका सत्कार जितने काल तक रहे उसका नाम वासना काल है । सो सज्वलन कपायका वासना काल अन्तर्मुहूर्त्तं है ।

७ अन्य सम्बन्धित विषय

- १ सज्वलन प्रकृतिके बन्ध उदय सत्त्व सम्बन्धी नियम व शका समाधानादि । —दे० वह वह नाम ।
- २ कपायोंकी मन्दता सज्वलनके कारणसे नहीं बल्कि लेश्याके कारणसे है । —दे० कपाय/३ ।
- ३ सज्वलनमें दसो करण सम्भव हैं । —दे० करण/२ ।
- ४ सज्वलन प्रकृतिका देशवातीपना । —दे० अनुभाग/४ ।

सज्वलित—तीसरे नरकका आठवाँ पटल । —दे० नरक/६ ।

संडित — भाग को हुई ।

संतलाल—सिद्धचक्रपाठ व दशलक्षिक अक्के वर्ता एक जैन कवि । (नि श १८ का मध्य, ई श १७-१८) हि जै ना ४/—१६६ कामता ।

संततना—Continuum (ज प /प्र, १०६) ।

संतान—एक ग्रह । —ग्रह ।

संतोष भावना—दे० भावना ।

सथारा—दे० मस्तग ।

सदिग्धानेकान्तिक हेतुवाभास—दे० व्यभिचार ।

सदिग्धासिद्ध हेतुवाभास—दे० असिद्ध ।

संदृष्टि—Sambal (ज प /प्र १०६) ।

संधि—१ एक ग्रह—दे० ग्रह । २ औदारिक शरीरमें सन्धियोंका प्रमाण—दे० औदारिक/१ ।

सपराय—स सि /६/१०/४-१/३ सपराय कपाय । = १ सपराय कपायका कहते हैं । (ध १/१,१,१७/१८४/४) दे आसव/१/६, २ सपराय ससारको कहते हैं ।

संपृच्छनीदोष—दे, भाषा ।

सप्रज्वलित—तीसरे नरकका नवम पटल—दे नरक/६ ।

संप्रति—दे साम्प्रति ।

संप्रदान कारक—१ प्र सा /प जयचन्द्र/१६ कर्म जिसको देनेमें आवे अर्थात् जिसके लिए करनेमें आवे सो सम्प्रदान । २ अभिन्न-कारकी व्यवस्थांमें सम्प्रदानका प्रयोग—दे कारक/१ ।

संप्रदान शक्ति—स सा /आ /परि /शक्ति ४४ स्वय दीयमान-भावोपेयत्वमयी संप्रदान शक्ति । = अपने द्वारा दिया जाता जो भाव उसके उपेयत्वमय (उसे प्राप्त करनेके योग्यपनामय, उसे लेनेके पात्रनामय) सम्प्रदान शक्ति ।

सबध—१ सत्त्व सामान्यका लक्षण

न च वृ /२२५ सत्रधा मसिलेसो णाणीण णाणणय मादीहिं—ज्ञानीका ज्ञान और ज्ञेयका सिलेश सो सम्बन्ध है ।

रा ना./हि १/७/६४ प्रयासत्ति है सो ही सम्बन्ध है ।

रा, ना. हि/४/४३/२०/११८७ जहाँपर अभेद प्रधान और भेद गौण होता है वहाँपर सम्बन्ध समझना चाहिए ।

२. सम्बन्धके भेद

[आगममें अनेका सम्बन्धांका निर्देश पाया जाता है । यथा—१ ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध, ग्राह्य ग्राहक सम्बन्ध (स सा /आ /३१), भाव्य-भावक सम्बन्ध (स सा /आ /१,२, ८३), तादात्म्य सम्बन्ध (स

सा/आ/१७.६१), मन्त्रोपसम्बन्ध (स सा/ता वृ/५७), व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध (स सा/आ/७५), आधार-आधेय सम्बन्ध (स, सा/आ./१८१-१८३), (पं ध/पू/३५०), आश्रय-आश्रयी (प ध/पू/७६), संयोग सम्बन्ध। सो दा प्रकारका है—देश प्रत्यासत्तिक संयोग सम्बन्ध, और गुण प्रत्यासत्तिक संयोग सम्बन्ध (ध १४/२.६.२३/२७/२), (प ध/पू/७६), धर्म वर्तमाने अविनाभाव सम्बन्ध (प ध/पू/७७, ४४५, ४६१, ६६ २४६), लक्ष्य-लक्षण सम्बन्ध (प ध/पू/१२, ८८, ६१६), साध्य-साधक सम्बन्ध (प ध/पू/५४५), दण्ड-दण्डी सम्बन्ध (प ध/पू/४१), समवाय सम्बन्ध (प ध/पू/७६), भविष्याभाव सम्बन्ध (स म/१६/२१७/२४),] इनके अतिरिक्त जाध्य-नाधक सम्बन्ध, वध्य-घातक सम्बन्ध, कार्य-कारण सम्बन्ध, वाच्य-वाचक सम्बन्ध, उपकार्य-उपकारक सम्बन्ध, प्रतिषेध-प्रतिषेधक सम्बन्ध, पूर्वापर सम्बन्ध, द्योत्य-द्योतक सम्बन्ध, व्यग्र-व्यग्रक सम्बन्ध, प्रकार्य-प्रकाशक सम्बन्ध, उपदान-उपादेय सम्बन्ध, निमित्त-निमित्तक सम्बन्ध इत्यादि अनेकों सम्बन्धोंका कथन आगममें अनेकों स्थलोंपर किया गया है।]

३ सम्बन्धके भेदोंके लक्षण

१ भाव्य-भावक

स सा/आ/३२ भावकत्वेन भवन्तमपि दूरत एव तदनुवृत्तेरात्मनो भाव्यस्य व्यावर्तनेन—। = (मोहकर्म) भावकपनेमें प्रगट होता है तथापि तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है ऐसा जो अपना आत्माभाव्य ।

२ व्याप्य-व्यापक

स सा/आ/७५ घटमृत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापक भाव । = बड़े और मिट्टीके व्याप्य-व्यापकभावका सङ्गाव ।

न्या दो/३/७/१०६/५ साहचर्यनियमरूपका व्याप्तिक्रिया प्रति यत्कर्म तद्व्याप्यम्, एतामेव व्याप्तिक्रिया प्रति यत्कर्म तद्व्यापकम् एव सति धूममग्निव्याप्नोति, धूमस्तु न तथाऽग्नि व्याप्नोति—। = साहचर्य नियमरूप व्याप्तिक्रियाका जो कर्म है उसे व्याप्य कहते हैं, व्याप्तिका जो कर्म है—विषय है वह व्याप्य कहलाता है। अग्नि धूमक व्याप्त करती है, किन्तु धूम अग्निको व्याप्त नहीं करता ।

३ ज्ञेय ज्ञायक व ग्राह्य ग्राहक

स सा/आ/३१ ग्राह्यग्राहकलक्षणसम्बन्धप्रत्यामत्तिवशेन भावेन्द्रिया-वगृह्यमानस्पर्शादीनिन्द्रियाथार्थं ज्ञेयज्ञायक सकरदोषत्वेनैव । = ग्राह्यग्राहक लक्षण वाले सम्बन्धकी निकटताके कारण भावेन्द्रियोंके द्वारा (ग्राहक) ग्रहण किये हुए, इन्द्रियोंके विषयभूत स्पर्शादि पदार्थोंको (ग्राह्य पदार्थोंके) । ज्ञेय (ग्राह्य पदार्थ) ज्ञायक (जाननेवाला) आत्मा-सकर नामत्र दोष ।

४ आधार-आधेय सम्बन्ध

स सा/आ/१८१-१८३ न त्वध्वेस्य त्रितीयमस्ति द्वयोर्भिन्नप्रदेशत्वे-नैवमत्तानुपपत्ते, तदमत्वे च तेन महाधाराधेयसम्बन्धोऽपि नास्त्येव, तत स्वरूपप्रतिष्ठितरण एवाधाराधेयमन्धोऽवतिष्ठते । = वास्तवमें एक वस्तुकी दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि दोनोंके प्रदेश भिन्न है, इसलिए उनमें एक मत्ताकी अनुपपत्ति है, उस प्रकार जबकि एक वस्तुकी दूसरी वस्तु नहीं है तब उनमें परस्पर आधार (जिसमें रहा जाये) आधेय (जो आश्रय लेवे) सम्बन्ध भी नहीं है। स्व स्वरूपमें प्रतिष्ठित वस्तुमें आधार-आधेय सम्बन्ध है ।

४. अन्य सम्बन्धित द्विपय

- १ संयोग आदि अन्य सम्बन्धके लक्षण । —दे नट नट नाम ।
- २ सश्लेष सम्बन्ध । —दे श्लेष ।
- ३ सम्बन्धकी अपेक्षा वस्तुमें भेदाभेद । —दे मप्रनगी/५ ।
- ४ भिन्न द्रव्योंमें आध्यात्मिक भेदाभेद । —दे तन्त्र/२ ।
- ५ द्रव्य गुण पर्यायोंमें युत मिश्र व सगवाय सम्बन्धका निषेध । —दे द्रव्य/२ ।

संबंध कारक—दे, कारक/२ ।

संबंध शक्ति—स मा/आ/परि/शक्ति/२७, स्वभावमात्र स्वस्वा-मिस्त्वमयी सम्बन्धशक्ति । = स्वभावमात्र स्वस्वामित्वमयी सम्बन्ध शक्ति । (अपना भव स्व है और स्वय उमंग स्वामी है ऐसी सम्बन्धमयी सम्बन्ध शक्ति है ।)

संभव—१ एक ग्रह—दे ग्रह, २ अमत्त वस्तुओंकी भी कथंचित् सम्भावना—दे अमत्त ।

संभवनाथ—म पु/१६/१नोक म पूर्वभव म २ में कच देशके क्षेमकरपुरका राजा विमलवार्तन था (२) । पूर्वभवमें ग्रैवेयके सुदर्शन विमानमें अहमिन्द्र (६) । वर्तमानभवमें तीसरे तीर्थकर थे (१६) । विशेष परिचय—दे तीर्थकर/५ ।

संभवयोग—दे योग/१ ।

संभावना सत्य—दे सत्य/१ ।

संभाषण—१ हितमित अथवा मिष्ट व कटु संभाषणकी शृष्टा-अनिष्टता—दे मत्स्य/३, २ व्यर्थ संभाषणका निषेध—दे मत्स्य/३ ।

संभिन्नमति—म पु/सर्ग/१नोक महाबल (ऋषभदेवरा पूर्वका नवमा भव) राजाका एव मिथ्यादृष्टि मन्त्री था (४/१६१) । इसने राजमभामे नास्तित्व मतकी मिट्टि की थी (५/३७ ३८) । अन्तमें मरकर निगाद गया (१०/७) ।

संभिन्न श्रोतृत्व ऋद्धि—दे ऋद्धि/२ ।

संभ्रान्त—प्रथम नरकाका छटा पटल—दे नरक/५ ।

संसत सत्य—दे मत्स्य/१ ।

संमूर्च्छन—१ समूर्च्छनका लक्षण

स सि/२/३१/१८७/३ त्रिपुलाके पूर्वमधरितार्थकू च दहस्य ममन्ततो मूर्च्छनं समूर्च्छनमवयवप्रकरणम् । = तीनों तीर्थोंमें ऊपर, नीचे, और तिरछे देहका चारों ओरसे मूर्च्छन अर्थात् ग्रहण होना समूर्च्छन है । (अर्थात् चारों ओरसे पुद्गलका ग्रहण कर अर्थवर्ती रचना होना), (रा वा/२/२१/१४०/२३) ।

गो जी/जी प्र/८३/२०४/१७ म ममन्तात् मूर्च्छनं जायमानजीवानु-ग्राहकाणा शरीराकारपणिमनयोग्यपुद्गलसम्बन्धाना समूर्च्छयण समूर्च्छनम् । = म अर्थात् ममन्तपने मूर्च्छन अर्थात् जन्म ग्रहण करता जो जीव, उमत्ता उपकारी ऐसे जा शरीरकार पणिमने योग्य पुद्गल सम्बन्धोंका स्वमेव प्रगट होना मा मूर्च्छन जन्म है ।

२ संमूर्च्छन जन्मका स्वामित्व

त सू/२/३३ योगाणां समूर्च्छनम् । = गर्भज और उपपादज जन्म दोनोंके अतिरिक्त ज्ञेय जीवोंका समूर्च्छन जन्म होता है ।

ति प/१/१६४८ उष्पनी मणुवाण गन्धक म्मुच्छिनं सु दृष्टेऽ । = मणुप्यका जन्म गर्भ व समूर्च्छनके भेदमें दो प्रकारका है ।

ति, प ४/२६३ उच्यते तिरियाण गभजगामुच्छिद्रमो चि ।—तिर्यचोकी उत्पत्ति गर्भे और समूच्छन जन्मसे होती है । (गो, जी/जी प्र/११/२१३/४) ।

रा वा २/२३/११/१४/२३ एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाणां पचचेन्द्रियाणां तिररचां मनुष्याणां च केपां विरमसूच्छनमिति ।—एक, दो, ती, चार इन्द्रियमाने जीवोंता, तिर्यचो पचो इन्द्रिय तिर्यचो तथा मनुष्यों-का समूच्छन जन्म होता है ।

गो जी/जी प्र/८४/२०७/६ एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाणां केपां विरपचचेन्द्रियाणां लब्धपयसिमनुष्याणां च समूच्छनमेव जन्मेति प्राची निदिष्टम् ।—पचचेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, गोरो पचचेन्द्रिय तिर्यच और लब्धपयसिमनुष्य एवमेव समूच्छन ही जन्म होता है, ऐसा प्रचलनमें कहा है । (गो जी/जी प्र/१०/२१२/११)

३. समूच्छन मनुष्य निर्देश

भ आ/वि १०८१/१३० पर उद्धृता गाथा—कर्मभूमिपु चकाराश्लभृत्तृग्भूभुजाय् । स्तन्धाभारमसूरेषु प्राबोच्चारभूमिषु । शुक्रमिधाणकश्लेष्मकर्मदन्तमलेषु च । अरुणन्तासुचिबेक्षीषु मथ समूच्छनेन ये । भूराउत्तुलस्यामरयेगभागमात्रशरीरका । आशु नश्यन्त्यपर्याप्तये स्यु समूच्छना नरा ॥ कर्मभूमिमें चक्रती, बनभद्र उग्ररह बहु गजाआके मेन्यमिं मनसूराता जहाँ लेपण करते हैं ऐसे स्थानोंपर, वीर्य, नाशक मन, रफ, कान और दाँतोंता मल और अरुणन्त अपवित्र प्रदेश इनमें तो तरनाल उत्पन्न होते हैं । जिनका शरीर अगुलके अत्यन्थात भाग मात्र रहता है । और जो जन्म लेनेके बाद शीघ्र नष्ट होते हैं और जो लब्धपयसिमथ होते हैं उनको समूच्छन मनुष्य कहते हैं ।

४ समूच्छिम तिर्यच सज्जी होते हैं तथा सम्यक्त्वादि प्राप्त कर सकते हैं

घ ४/१.१.१८/३७०/२ सण्णि पचिदियतिरिक्खसमुच्छिद्रमपज्जत्तपु मच्छ-रुच्छा-मद्धादिमु उरत्तणो । सवाल्लङ्घण अतोमुहुत्तकालेण सव्वाहिएपज्जत्तीहि पज्जत्तया जादा । विससो । विसुद्धो हीडूण मजमामजम पडिक्खणो । पुत्रकीडिआलं मजमासजमगणुपालिङ्ग मसो मोधम्मदि आरणच्चुदत्तेसु देवेसु उववण्णो । —महो पचेन्द्रिय और पर्याप्तक, ऐसे समूच्छन तिर्यच, मच्छ, कच्छप, मेघकादिगोमें उत्पन्न हुआ, सर्व लघु अन्तर्मूर्तकाल द्वारा सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्तनेको प्राप्त हुआ । पुन विश्राम लेता हुआ, विशुद्ध हो करके मयमासयमको प्राप्त हुआ । वहाँपर पूर्वकोटि काल तक मयमासयमको पालन करके मरा और सौधर्म करपको आदि लेफर आरण अच्यु-तान्तकल्पामें देवोंमें उत्पन्न हुआ । (घ ४/१.१.२३४/११६/६)

५ परन्तु प्रथमोपशमको नहीं प्राप्त कर सकते

घ ४/१.६.१०१/०३/३ सण्णिमसुच्छिद्रम-पचिदिएसुपाइय पढम-सम्मत्तगहणाभावा । —सहो पचेन्द्रिय समूच्छन जीवोंमें प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहणता अभाव है । (घ ४/१.६.२३७/११६/११) ।

६ समूच्छिमोंमें मयमासयम व अधधिज्ञानकी प्राप्ति सम्बन्धी दो मत

घ ४/१.६.२३४/११६/११ अट्ठातोसमतक्रमिआ सण्णि-समुच्छिद्रम-पज्जत्तपसु विसुद्धो वेदगसम्मत्त पडिक्खणो तदा अतोसुहुत्तेण ओधिणाणी जादो ।

घ ४/१.६.२३७/११६/११ सण्णिमसुच्छिद्रमपज्जत्तपसु सजमासजगस्सेव ओहिणाणुवसमसम्मत्ताण संभवाभावादो । त कथ गवउदे । 'पचि-दिएसु उतामामेतो गम्भोवकतिपसु उवसामेदि, णा समुच्छिमेसु'

ति च्चुनिगामुत्तादो ।—१ महाकर्मको अट्ठाईम प्रकृतियांकीमस्ता-ताना गर्भो समुच्छिम पर्याप्तोंमें उत्पन्न हुआ । तिर्यचि एवमथ सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । परन्तु अर्थात्तानी ही गया । (घ ४/१.६.२३४/११६.११७) । २ सहो समुच्छिद्रम पर्याप्तोंमें मयमासयमके मयान अवधिज्ञान और उपशम सम्यक्त्वकी मय (व्यथा) अभाव है । —प्रश्न—यह कर्म जाता है । उत्तर—पचेन्द्रियमें दर्शनगो-वा उपशमता रहता हुआ गर्भोत्पन्न जीवोंमें ही उत्पन्न रहता है । समुच्छिमार्थमें नहीं, इस प्रकार चालिया मूत्रमें जाना जाता है ।

७. महासम्यक्की शिक्षान्तायका निर्देश

घ ११/४.०.१.६/११/६ के ति आट्ठगिया मरामच्छा सुहपुत्तेसु सुद्धे मणआ चि भणत्ति । परातममत्ते दट्टण एण ण भट्टे, उट्ठिण-मच्छेमेसु विमहिएवद भवारी । अधया एदे विवय भन्ते एा समवरण-गिद्धा चि वे वि आरगिया भणत्ति । ण च सुद्ध मणसुण मरामच्छो अण्णगत्ताणमत्ताण्णत्तिमिगत्तादिगिण्णत्ताणो, विग, १.२.३ । —महा-सम्यक् सुय औ-पूशमें अतिशय मूय है, ऐसा तिर्यो ही अ चार्थ रहने है । किन्तु गरीने मर्यादा देवयत्न यह फलित नहीं रहता, तथा नहीं-रही मर्यादोंके द्वारामें व्यभिचार भी देता जाता है । अथवा ये विराम्य और उत्प्रेषण ममरणासिद्ध है ऐसा तिर्यने ही आचार्य रहने है । दूसरा मत यह है कि अतिशय मूय सुवसे मयुक्त महासम्यक् एत सौ याजननी उत्पत्ताएता प्राप्ते अन्य सिग्निगिण आदि मर्यादोंके निगनोमें समर्थ नहीं है मर्यादा नार्थि विराध जाता है ।

घ १४/१.६.६०/४६०-४६६/१० ण च महासत्ताउत्तमविमसासुवओ अणत्तगुणे हादि, जण्णवादादिगोरेव गणात्, उप्पमसुद्धमिगिणोद-रगणाय अणत्तगुणत्तपमगादो । मह,मच्छाहारो पागनकम्पावो पत्तियमरीरय,वाद् सुहमणिगाएवग-महमनेनो ण हादि त्रिभु रास्य पुट्टीण मूदउट्टियकनावा तत्ता, समुच्छिद्रदपर्यग-मज्जज्जुण-णिम यत्तय उद्ध-जवीर-हृदि हरिणादना च विस्मसो-चयगतभूदा दट्टया । ण च तस्य मट्टियारीणमुपत्तो अमिद्धा सह-लोदए परिदपणाय वि मिताभावेण परिणाददसादो सुत्तिसुद्धपदि-दोदभिदूज सुत्ताहलागरेण परिणामुत्तमभदो । ण च तस्य समु-च्छिद्रमपचिदियजीवानमुपत्तो अमिद्धा, पाउमगा-भवाउत्तमधरणि-मवधेण भेग्दर-मच्छ-रत्तादीणमुपत्ति दसणादो । — ण च नदेसि महासत्तासमिद्ध माणुमज्जटमत्तपग-पुत्तानात्त वि नाणुमववणु-त्तभादो । सत्वेमिमेदेरिं गहणादो सिद्ध उहस्मत्तिस्सासुवचयस्य अणत्तगुणत्त । अथवा आरानिय तेजा-वन्मदगपट्टमाणुपुग्गलाण वधण्णुणेण जे एमवधणमत्ता पोग्गत्ता तिरिसामुवचयमणिग्गया तीसि मच्चित्तवग्गणाय उत्तभाव, होदि । जे पुण वधणगुणेण तस्य समवेदा पाग्गत्ता जीवेण अण्णुगय भावादो अनत्तसच्चित्तवग्गण-वचणमा ते एथ विस्सामुवचया धेएत्ता । ण च णिज्जीवविस्सासुवच-याय अत्यत्तममिद्ध, रुहिर वम-मुक्क-म मेभ पित्त-मुत्त मरिक्ता-मथुलिगादीण जीववज्जिगारो विग्गामुत्तचयाण सुत्तभादो । ण च दत्तहउत्ता एव सव्वे तिरिसामुत्तचया णिज्जोवा णिज्जोवा पञ्चखा चैव, अणुभावेण अगताय विस्सासुत्तचयाण आगमचवत्त गोदराण-मुत्तभादा । एदे तिरिसामुत्तचया महासत्त देह, द्वाज्जिविणिवाय-विसमा अणत्तगुणा चि चेतव्वा । —प्रश्न—महासम्यक्का उत्सुद विस्ससोपचय अनन्तगुणा नहीं है क्योंकि जवन्म वादग निगोद वर्णनासे उत्सुद सुक्ष्म निगाद वर्णनाके अनन्तगुणे प्राप्त होनेका प्रसंग प्राप्त होता है । उत्तर—महासम्यक्का आहार रूप जो प्रहृत कल्प है वह प्रत्येक शरीर, वादर-निगाद-वर्णना और सूक्ष्मनिगादवर्णनाका समुदायमात्र नहीं होता है किन्तु उसकी पीठपर आर जमी हुई जो मिट्टीका प्रचय है वह और उसके कारण उत्पन्न हुए परथर, सर्ज नामके वृक्ष विशेष, अर्जुन, नीम, रुद्रम्व, आम, जामुन जम्बीर, सिंह और

हरिण आदिक ये सब विस्रसोपचयमें अन्तर्भूत जानने चाहिए। वहाँ मिट्टी आदिकी उत्पत्ति असिद्ध है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि शेलके पानीमें गिरे हुए पत्तोंका शिलारूपसे परिणमन देखा जाता है तथा शुक्तिपुटमें गिरे हुए जलविन्दुओंका मुक्ताफल रूपसे परिणमन उपलब्ध होता है। वहाँ पंचेन्द्रिय सम्मूर्च्छन जीवोंकी उत्पत्ति असिद्ध है यह बात भी नहीं है क्योंकि वर्षाकालके प्रारम्भमें वर्षाकालके जल और पृथिवीके सम्बन्धसे मेंढक, चूहा, मछली और कछुआ आदिकी उत्पत्ति देखी जाती है इनका महामत्स्य होना असिद्ध है यह कहना भी असिद्ध नहीं है, क्योंकि मनुष्यके जठरमें उत्पन्न हुई कृमि विशेषकी भी मनुष्य सज्ञा उपलब्ध होती है। इन सबके ग्रहण करनेसे उत्कृष्ट विस्रसोपचय अनन्तगुणा है यह बात सिद्ध होती है। अथवा ओदारिक तैजस और कर्मण परमाणु पुद्गलोंके बन्धन गुणके कारण जो एक बन्धनबद्ध विस्रसोपचय सज्ञावाले पुद्गल है उनका सच्चित्त वर्णणाओंमें अन्तर्भाव देखा जाता है। बन्धनगुणके कारण जो पुद्गल वहाँ समवेत होते हैं और जो सच्चित्त वर्णणाओंको नहीं प्राप्त होते, इसलिए यहाँ विस्रसोपचय रूपसे ग्रहण करना चाहिए। निर्जीव विस्रसोपचयोंका अस्तित्व असिद्ध है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जीव रहित रुधिर, वसा, शुक, रस, कफ, पित्त, मूत्र खरिस, और मस्तकमेंसे निकलनेवाले चिकने द्रव्यरूप विस्रसोपचय उपलब्ध होते हैं। दौंतोंकी हड्डियोंके समान सभी विस्रसोपचय प्रत्यक्षसे निर्जीव होते हैं यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अनुभावके कारण आगम चक्षुके विषयभूत अनन्त विस्रसोपचय उपलब्ध होते हैं। महामत्स्यके देहमें उत्पन्न हुए छह जीव निकायोंको विषय करनेवाले ये विस्रसोपचय अनन्तगुणे होते हैं ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए।

भ आ /वि /१६४६/१४८६/७ उरथानिका—आहारलोलुपतया स्वयं-भूरमणसमुद्रे तिमितिमिगिलादयो मत्स्या महाकाया योजनसहस्रायामा पण्मास विवृत्तवदना स्वपन्ति। निद्राविभोक्षानन्तर पिहितानना स्वजठरप्रविष्टमत्स्यादीनाहारीकृत्य अपिष्ठाननामधेय नरक प्रविशन्ति। तरुणविलग्नमलाहारा शालिसिक्थसज्ञका यदीदृशमस्माक शरीर भवेत्। किं नि सतुं एकोऽपि जन्तुर्लभते। सर्वान्भक्षयामीति कृतमन प्रणिधानास्ते तमेवावधिस्थान प्रविशन्ति। =स्वयंभूरमण समुद्रमें तिमितिमिगिलादिक महामत्स्य रहते हैं, उनका शरीर बहुत बड़ा होता है। उनके शरीरकी लम्बाई हजार योजन की कही है। वे मत्स्य छह मास तक अपना मुँह उघाड़कर नौद लेते हैं, नौद खुननेके बाद आहारमें लुब्ध होकर अपना मुँह बन्द करते हैं, तब उनके मुँहमें जो मत्स्य आदि प्राणी आते हैं, उनको वे निगल जाते हैं। वे मत्स्य आयुष्य समाप्तिके अनन्तर अवधिस्थान नामक नरकमें प्रवेश करते हैं। इन मत्स्योंके कानमें शालिसिक्थ नामक मत्स्य रहते हैं, वे उनके कानका मल खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। उनका शरीर तण्डुनके सिक्थके प्रमाण होता है इसलिए उनका नाम सार्थक है। वे अपने मनमें ऐसा विचार करते हैं कि यदि हमारा शरीर इन महामत्स्योंके समान होता तो हमारे मुँहसे एक भी प्राणी न निकल सकता, हम सम्पूर्णको खा जाते। इस प्रकारके विचारसे उत्पन्न हुए पापसे वे नरकमें प्रवेश करते हैं।

८. अन्य सम्बन्धित विषय

- १ सम्मूर्च्छन जीव नपुंसकवेदी होते हैं—दे वेद/१/३।
२. नींदी आदि सम्मूर्च्छित कैमे हैं—दे, वेद/१/६।
- ३ महामत्स्य मरकर कहा जन्म धारे इस सम्बन्धमें दो मत—दे मरण/१/६।

४. मारणान्तिक समुद्रघात गत महामत्स्यका विस्तार

—दे मरण/१/१,६।

५. बीजवाला ही जीव या अन्य कोई भी जीव इस योनि स्थानमें जन्म वारण कर सकता है—दे जन्म/२।

समोह—पिशाच जातिके व्यन्तर देवोंका एक भेद—दे पिशाच।

समोही भावना—भ आ /मृ /१८४/२०२ उम्मगदेमणो मग्गवूमणो मग्गविप्पडिवणी य। मोहेण य मोहितो समोह भावण कुण्ड १९८४। =जो मिथ्यात्वादिका उपदेश करनेवाला हो, जो सच्चे मार्गको अर्थात् दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप मोक्षमार्गको दूषण लगाता हो, जो मार्गसे विरुद्ध मिथ्यामार्गको चलाता हो ऐसा माधु मिथ्यात्व तथा मायाचारीसे जगत्को मोहता हुआ सम्मोही देवोंमें उत्पन्न होता है। (मृ आ./६७)

संयत—बहिरग और अन्तरग आत्मबोसे विरत होनेवाला महाव्रती श्रमण संयत कहलाता है। शुभोपयोगयुक्त होनेपर वह प्रमत्त और आत्मसवीतने रत होनेपर अप्रमत्त कहलाता है। प्रमत्त संयत यद्यपि सज्वलनके तीव्रोदयवश धर्मोपदेश आदि बृद्ध शुभक्रिया करनेमें अपना समय गँवाता है, पर इससे उसका संयतपना घाता नहीं जाता, क्योंकि वह अपनी भूमिकानुसार ही वे क्रियाएँ करता है, उसको उल्लंघन करके नहीं।

१	संयत सामान्य निर्देश
१	संयत सामान्यका लक्षण।
२	प्रमत्त संयतका लक्षण।
३	अप्रमत्तसंयत सामान्यका लक्षण।
*	अप्रमत्तसंयत गुणस्थानके चार आवश्यक। —दे करण/४।
*	एकान्तानुवृद्धि आदि संयत। —दे लम्बि/५।
*	प्रमत्त व अप्रमत्त दो गुणस्थानोंके परिणाम अथ- प्रवृत्तिकारणरूप होते हैं। —दे करण/४।
*	संयतमें यथा सम्भव भावोंका अस्तित्व। —दे भाव/२।
*	संयतमें आत्मानुभव सम्बन्धी। —दे अनुभव/५।
४	स्वस्थान व सातिश अप्रमत्त निर्देश।
*	सर्व गुणस्थानोंमें प्रमत्त अप्रमत्त विभाग। —दे गुणस्थान/१/४।
५	दोनों (६-७) गुणस्थानोंका आरोहण व अवरोहण क्रम।
*	चारित्रमोहका उपशम, क्षय, व क्षयोपशम विधान। —दे वट वट नाम।
*	सर्व लघुकालमें समय धारनेकी योग्यता सम्बन्धी। —दे समय/२।
*	पुन पुन संयतपनेकी प्राप्तिकी सीमा। —दे समय/२।
६	संयत गुणस्थानका स्वाप्तिव।
*	मरकर देव ही होते हैं। —दे जन्म/५,६।

* भोगमूर्ति सयम न होनेका कारण । —दे, धूमि/६ ।
* प्रत्येक मार्गणामें गुणस्थानोंके स्वामित्व सम्बन्धी शका समाधान । —दे वह वह नाम ।
* दोनों गुणस्थानोंमें सम्भव जीवसमास मार्गणास्थान आदि २० प्ररूपणाएँ । —दे सत् ।
* दोनों गुणस्थानों सम्बन्धी सत् सख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अन्तरभाव व अल्पबहुत्वरूप आठ प्ररूपणाएँ । —दे वह वह नाम ।
* सभी गुणस्थानोंमें आयेके अनुसार व्यय होनेका नियम । —दे मार्गणा ।
* दोनों गुणस्थानोंमें कर्म प्रकृतियोंका बन्ध, उदय, सत्त्वं । —दे. वह वह नाम ।
२ संयत निर्देश सम्बन्धी शंकाएँ
१ प्रमत्त होते हुए भी संयत कैसे ।
* सामायिक स्थित भी गृहस्थ संयत नहीं । —दे. सामायिक/३ ।
* व्रती भी मिथ्यादृष्टि संयत नहीं है । —दे चारित्र/३/८ ।
२ अप्रमत्तसे पृथक् अपूर्वकरण आदि गुणस्थान क्या है ।
३ संयतमें श्रायोपशमिक भाव कैसे ।
४ सञ्चलनके उदयके कारण औदयिक क्यों नहीं ।
* श्न् उदयोपशमिक क्यों नहीं कहते । —दे श्रायोपशम/२/३ ।
५ सम्यक्त्वकी अपेक्षा तीनों भाग हैं ।
६ फिर सम्यक्त्वकी अपेक्षा ष्ण औपशमिकादि क्यों नहीं कहते ।
७ सामायिक व छेदोपस्थापना संयतमें तीनों भाव कैसे ।
३ प्रमादजनक दोष परिचय
१ आर्तध्यान व स्खलना होती है पर निर्गल नहीं ।
२ साधु योग्य शुभ कार्योंकी सीमा ।
* शुभोपयोगी साधु भव्यजनोंको तार देते हैं । —दे धर्म/४/२ ।
३ परन्तु फिर भी संयतपना धाता नहीं जाता ।

१. संयत सामान्य निर्देश

१ संयत सामान्यका लक्षण

ध १/२.१.२३/३६६/१ म् सम्यक् सम्यग्दर्शनज्ञानानुसारेण यदा बहिरङ्गान्तरङ्गात्मवेभ्यो विरता संयता । = 'सम्' उपसर्ग सम्यक् अर्थका वाची है, इससिए सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक यदा अर्थात् जो बहिरंग और अन्तरंग आत्मवोंसे विरत हैं उन्हें संयत कहते हैं ।

दे, मयम/१ [व्रत समिति आदि १३ प्रकारके चारित्रिका सम्यक्त्वयुक्त पालन करना संयम है । उस मयमको धारण करनेवाला संयत है ।]
दे अनगार [श्रमण, संयत, ऋषि, मुनि, साधु, वीतराग, अनगार, भदन्त, दान्त, यति ये सब एकार्थवाची हैं ।]
दे व्रती [घरके प्रति जो निरुत्सुक है, वह संयत है ।]
दे साधु/३/४ [क्पाय हीनताका नाम चारित्र है और क्पायसे अमयत होता है । इसलिए जिम व जितने कालमें साधु क्पायोंका उपशमन करता है, उम व उतने कालमें वह संयत होता है ।]

२ प्रमत्त संयतका लक्षण

प म /प्रा /१/१४ वत्तावत्तपमाण जो वसइ पमत्तमजजो होइ । संयल-गुणसीलकनिओ महवई चित्तलायरणो ।१४। = जो पुरुष मक्त मूल-गुणोंसे और शील अर्थात् उत्तरगुणोंसे सहित है, अतएव महाव्रती, तथा व्यक्त और अत्यक्त प्रमादसे रहता है अतएव चित्रल आचरणो है, वह प्रमत्त संयत कहनाता है ।१४। (ध १/१ १ १२/गा ११३/१७८), (गो जी /मू /३३/६२), (धनका विवेचन दे. जागे)

रा वा /६/१/१७/६६०/३ तन्मूलमाधनोपपादितोपजनन ब्राह्ममाधन-मनिधानाधिर्नामप्राप्तमान प्राणेन्द्रियविषयभेदात् द्वितयीं वृत्ति-माम्कन्त मयमोपयोगमात्मसात्कुर्वन् पञ्चरात्रिधप्रमादवशात् किंचित्प्रम्वलितचारित्रपरिणाम प्रमत्तमयत इत्याख्यायते । = उस संयम-लब्धि (दे ल/१/१/१) रूप अभ्यन्तर संयम परिणामोंके अनुसार ब्राह्म माधनाके मन्निधानको स्वीकार करता हुआ प्राणिमयम और इन्द्रियसयमको पालता हुआ भी पन्द्रह प्रकारके प्रमादोंके वश कहीं कभी चारित्र परिणामोंसे स्वलित होता रहता है, अत प्रमत्त संयत कहनाता है ।

ध १/१ १ १७/१७/१० प्रथेण मत्ता प्रमत्ता , म मय्यग्य यता विरता मयता । प्रमत्ताश्च ते संयताश्च प्रमत्तसयता । = प्रथसे मत्त जीव-को प्रमत्त कहते हैं और अच्छी तरहसे विरत या मयमको प्राप्त जीवोंको संयत कहते हैं । जो प्रमत्त होते हुए भी संयत होते हैं, उन्हें प्रमत्त संयत कहते हैं ।

गो जी /मू /३२/६१ सजलणणोकन्माप्राणुदयादो मजमो हवे जम्हा । मलजणणपमादो वि य तम्हा हु पमत्तविरदो मो ।३२। = क्रोधादि सञ्चलन क्पाय और हास्यादि नोक्पाय, इनके उदयसे उत्पन्न होनेके कारण जिम मयममें मनको उत्पन्न करनेवाला प्रमाद पाया जाता है, वह प्रमत्तविरत कहलाता है ।

द्र म /टी /१३/१४/६ स एव सदृष्टि पञ्चमहाव्रतेषु वर्तते यदा तदा दु म्वन्नादिव्यक्ताव्यक्तप्रमादसहितोऽपि पष्ठगुणस्थानवर्त्ती प्रमत्त-सयतो भवति । = मयमामयमको प्राप्त वही सम्यग्दृष्टि जन पच महाव्रतोंमें वर्तता है, तब वह दु म्वन्नादि व्यक्त या अव्यक्त प्रमाद सहित होता हुआ उठे गुणस्थानवर्त्ती प्रमत्तसंयत होता है ।

गो जी /जी प्र/३३/६३/४ प्रमत्तसयत चित्रलाचरण इत्युक्तम् । चित्र प्रमाणमिश्रित लातीति चित्रल आचरण यस्यासी चित्रलाचरण । अथवा चित्रल मारग, तद्वत् शबलित आचरण यस्यासी चित्र-लाचरण । अथवा चित्त लातीति चित्तल, चित्तल आचरण यस्यासी चित्तलाचरण, इति विशेषव्युत्पत्तिरपि ज्ञातव्या । = प्रमत्त संयतको चित्रलाचरण कहा गया है । 'चित्र' अर्थात् प्रमादसे मिश्रित, 'लाति' अर्थात् ग्रहण करता है उसे चित्रल कहते हैं । ऐसा चित्रल आचरण वाला [चित्रलाचरण है] । अथवा चित्रल नाम वीतेका है, उमके समान चित्तकचरे आचरण वाला चित्रला-चरण है । अथवा 'चित्त लाति' अर्थात् मनको प्रमादस्वरूप करे सो चित्तल, ऐसे चित्तल आचरणवाला चित्तलाचरण है । ऐसी विशेष निरुक्ति भी पाठान्तरकी अपेक्षा जाननी चाहिए ।

३. अप्रमत्त संयत सामान्यका लक्षण

पं स / प्रा. / १/१६ णट्टासेसपमाओ वयगुणसीलोलिमडिओ णाणी । अणु-
वसमओ अपवओ भाणणिलीणो हु अप्पमत्तो सो । १६ । = जो व्यक्त
और अव्यक्तरूप समस्त प्रकारके प्रमादसे रहित है, महाव्रत, मूल-
गुण और उत्तरगुणोंकी मालासे मण्डित है, स्व और परके ज्ञानसे
युक्त है और कर्पायोंका अनुपशामक या अक्षपक होते हुए भी
ध्यानमें निरन्तर लीन रहता है, वह अप्रमत्तसंयत कहलाता है ।

(ध. १/१.१.१५/गा ११५/१७६). (गो जो / मू / ४६/६८) ।

रा. वा । ६/१/१५/७६०/६ पूर्ववत् संयममास्कन्दत् पूर्वोक्तप्रमादविरहात्
अविचलितसंयमवृत्ति अप्रमत्तसंयत समाख्यायते । = पूर्ववत् (दे०
प्रमत्तसंयतका लक्षण) संयमका प्राप्त करके, प्रमादका अभाव होनेसे
अविचलित संयमी अप्रमत्त संयत कहलाता है ।

ध. १/१.१.१५/१७०/७ प्रमत्तसंयता पूर्वोक्तलक्षणा, न प्रमत्तसंयता
अप्रमत्तसंयता पञ्चदशप्रमादरहितसंयता इति यावत् । = प्रमत्त-
संयतोंका स्वरूप पहले कह आये है (दे० शीर्षक स. २) । जिनका
संयम प्रमाद सहित नहीं होता है उन्हें अप्रमत्तसंयत कहते हैं ।
अर्थात् संयत होते हुए जिन जीवोंके पद्मह प्रकारका प्रमाद नहीं
पाया जाता है, उन्हें अप्रमत्तसंयत समझना चाहिए ।

गो. जी / मू. / ४५/६७ सजलणणोकसायाणुदयो मदी जदा तदा होदि ।
अप्रमत्तगुणो तेण य अमत्तो सजदो होदि । = जब क्रोधदि सज्ज-
लन कर्पाय और हास्य आदि नोकर्पाय इनका मन्द उदय हाता है,
तब अप्रमत्तगुण प्राप्त हो जानेसे वह अप्रमत्त संयत कहलाता है । ४५ ।
(म. स / टी / १३/३४/१०) ।

४. स्वस्थान व सातिशय अप्रमत्त निर्देश

गो. जी / जी प्र / ४५/६७/८ स्वस्थानाप्रमत्त सातिशयप्रमत्तश्चेति द्वौ
भेदो । तत्र स्वस्थानाप्रमत्तमयतस्वरूप निरूपयति । = अप्रमत्त
संयतके स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त ऐसे दो भेद हैं ।
तहाँ स्वस्थान अप्रमत्तसंयतका स्वरूप कहते हैं । [मूल व उत्तर
गुणोंसे मण्डित, व्यक्त व अव्यक्त प्रमादसे रहित, कर्पायोंका अनुप-
शामक व अक्षपक होते हुए भी ध्यानमें लीन अप्रमत्तसंयत स्व-
स्थान अप्रमत्त कहलाता है—गो जी / मू. / ४६ (दे० शीर्षक न ३)] ।
ल सा / मू / २०५/२५६ उवसमचरियाहिमुहो वेदगसम्मो अण विज-
यित्ता । अतोमुहुत्तकाल अधापवत्तो पमत्तो य । २०६ ।

ल सा / जी प्र / २२०/२७१/७ चारित्रमोहोपशमने कर्त्तव्ये अध प्रवृत्त-
करणमपूर्वकरणमनिवृत्तिकरण चैत्थटाधिकारा भवन्ति । तेत्थ-
प्रवृत्तकरण सातिशयाप्रमत्तसंयत यथा प्रथमोपशमसम्यक्त्वाभि-
मुखसातिशयमिथ्यादृष्टेर्भितानि । = उपशमचारित्रके सम्मुख
वेदक सम्यग्दृष्टि जीव (अप्रमत्त गुणस्थानमें) अनन्तानुबन्धीका
विसर्थाजन करके अन्तर्मुहूर्त काल पर्यन्त अध प्रवृत्त अप्रमत्त
कहलाता है । २०६ । चारित्र मोहके उपशमनमें अध प्रवृत्तकरण,
अपूर्वकरण, अनिवृत्तिरण आदि आठ अधिकार होते हैं । उनमेंसे
जो अध प्रवृत्तकरण, अप्रमत्तमयत है वह सातिशय अप्रमत्त कहलाता
है, जिस प्रकार कि प्रथमोपशम सम्यक्त्वके सम्मुख जीव सातिशय
मिथ्यादृष्टि हाता है ।

५. दोनों गुणस्थानोंका आरोहण व अवरोहण क्रम

१ अप्रमत्तपूर्वक ही प्रमत्त गुणस्थान होता है

ध. १/१.६.१२१/७४/८ उवसमसम्मत्तमपमत्तगुण च जुगव पडिउण्णो
पमत्तो जादो हेत्ता पडिउण्णतरिदो सगट्टिदि परिभमिय अपच्छिमे
भवे मणुमो जादो । • अतोमुहुत्तावसेसे ससारो अप्पमत्तो होदूण
पमत्तो जादो । लउमत्तर ।

ध. १/१.६.१२१/७४/२ उवसम्मत्तमपमत्तगुण च जुगवं पडिउण्णो
अतरिदो मणुस्सेसु अववण्णो अतोमुहुत्तावसेसे ससारो विमुट्ठो
अप्पमत्तो जादो । तदो पमत्तो अप्पमत्तो • ।

ध १/१.६.३५६/१६६/३ एको मेडोदो ओदरिय अमजदो जादो । तरथ
अतोमुहुत्तमच्छिय सजमासजम पडिउण्णो । तदो अप्पमत्तो पमत्तो
होदूण असजदो जादो । लद्धमुक्कन्ततर ।

ध १/१.६.३६३/१६७/३ एको मेडोदो ओदरिय सजदासजदो जादो ।
अतोमुहुत्तमच्छिय अप्पमत्तो पमत्तो असजदा च होदूण
सजदासजदो जादो । लद्धमुक्कन्ततर । = १ (कोई जीव)
उपशमसम्यक्त्व और प्रमत्तसंयतका एक साथ प्राप्त हुआ,
पश्चात् प्रमत्तसंयत हुआ । पीछे नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हो
अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अन्तिम भवमें मनुष्य हुआ ।
अन्तर्मुहूर्त काल ससारमें अज्ञिष्ट रहने पर अप्रमत्त संयत होकर
पुन प्रमत्तसंयत हुआ । इस प्रकार प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर
प्राप्त हुआ । २ (कोई जीव) उपशम सम्यक्त्व व अप्रमत्त गुण-
स्थानको युगपत् प्राप्त हुआ । पश्चात् अन्तरको प्राप्त हो मनुष्योंमें
उत्पन्न हुआ । ससारके अन्तर्मुहूर्त अवशेष रहने पर विशुद्ध हो
अप्रमत्तसंयत हुआ । पश्चात् प्रमत्तसंयत हो पुन अप्रमत्त संयत
हुआ । इस प्रकार अप्रमत्त संयतका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हुआ ।

३ एक संयत उपशम श्रेणीसे उतरकर असंयत सम्यग्दृष्टि हुआ ।
वहाँ अन्तर्मुहूर्त रहकर संयमसंयमको प्राप्त हुआ । पश्चात् अप्रमत्त
और प्रमत्त संयत होकर असंयतसम्यग्दृष्टि हो गया । इस प्रकार
प्रकार उपशम सम्यग्दृष्टि असंयतको उत्कृष्ट अन्तः प्राप्त हुआ । ४ एक
संयत उपशम श्रेणीसे उतरकर संयतासंयत हुआ । अन्तर्मुहूर्त
रहकर अप्रमत्तसंयत, प्रमत्तसंयत और असंयत सम्यग्दृष्टि होकर पुन
संयतासंयत हो गया । इस प्रकार संयतासंयत उपशम सम्यग्दृष्टिका
उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हुआ । ५ [इसी प्रकार काल व अन्तर प्ररूप-
णाओंमें सर्व पहले अप्रमत्त गुणस्थान प्राप्त कराके पीछे प्रमत्त गुण-
स्थान प्राप्त कराया गया है ।] (और भी दे० गुणस्थान/२/१) ।

२. आरोहण व अवरोहण सम्बन्धी कुछ नियम

ध १/१.६.३४३/६ तस्स सकिलेस विसोहीहि सह पमत्तापुव्ववृणे
मोत्तूण गुणतरगमणाभावा । मत्तस्म वि असजदसम्मादिद्विवदिरित्त-
गुणतरगमणाभावा । = अप्रमत्तसंयत जीवके नववेशकी वृद्धि हो तो
प्रमत्त गुणस्थानको और यदि विशुद्धिकी वृद्धि हो तो अपूर्वकरण
गुणस्थानको छोड़कर दूसरे गुणस्थानोंमें गमनका अभाव है । यदि
अप्रमत्त संयत जीवका मरण भी हो तो असंयतसम्यग्दृष्टि गुण-
स्थानको छोड़कर दूसरे गुणस्थानोंमें गमन नहीं होता है । [ल सा /
मू व जी प्र / ३४३/४३६] ।

दे० उपशीर्षक स १/१.२ [मिथ्यादृष्टि सीधा सम्यक्त्व व अप्रमत्त गुण-
स्थानको युगपत् प्राप्त कर सकता है । तथा संयतासंयतसे भी सीधा
अप्रमत्त हो सकता है] ।
दे गुणस्थान/२/१ [आरोहणको अपेक्षामें अनादि व सादि दोनों प्रकारके
मिथ्यादृष्टि, तीनों सम्यक्त्वोंसे युक्त सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत व
प्रमत्त संयत ये सब सीधे अप्रमत्त गुणस्थानको प्राप्त कर सकते हैं ।
अवरोहणकी अपेक्षामें अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती ही अप्रमत्तसंयतका
प्राप्त होता है अन्य नहीं और अप्रमत्तसंयत ही प्रमत्तसंयतको प्राप्त है
अन्य नहीं ।]

दे काल/६/२ [अपने उत्कृष्ट काल पर्यन्त प्रमत्त संयत रहे तो नियममें
मिथ्यात्वको प्राप्त होता है ।]

६. संयत गुणस्थानोंका स्वामित्व

गो. जी / मू / ७१० दुव्हि प अपजजत्त ओधे मिच्छेत्त होदि नियमेण ।
सासण अयद पमत्ते णिवत्तिउत्पण्णमो होदि । ७१० ।

६. संयत गुणस्थानोंका स्वामित्व

गो. जी / मू / ७१० दुव्हि प अपजजत्त ओधे मिच्छेत्त होदि नियमेण ।
सासण अयद पमत्ते णिवत्तिउत्पण्णमो होदि । ७१० ।

गो जी/जी प्र/७०३/६ प्रमत्त मनुष्या पर्याप्त। साहारऋद्यस्तु उभये। अप्रमत्तादिक्षीणकषायान्ता पर्याप्त। = १ निर्वृत्ति व लब्धि ये दानों प्रकारके अपर्याप्त नियमसे मिथ्यादृष्टिको ही होते है। सासादन असयत व प्रमत्तसयतमें निर्वृत्त्यपर्याप्त आलाप तो होता है (पर लब्धपर्याप्त नहीं)। २ प्रमत्तसयत मनुष्य पर्याप्त होते है परन्तु आहारक ऋद्धि सहित पर्याप्त व अपर्याप्त (निर्वृत्त्यपर्याप्त) दोनों होते है और अप्रमत्तादि क्षीणरूपाय पर्यंत केवल पर्याप्त ही हीते है। (और भी दे/काय/२/४)।

दे मनुष्य/२/२ [मनुष्यगतिमें ही सम्भव है।]

दे मनुष्य/३/२ [मनुष्य व मनुष्यनिर्या (भावसे स्त्रीवेदी और द्रव्यसे पुरुषवेदी) दोनोंमें सम्भव है। वहाँ भी कर्मभूमिजोंमें ही सम्भव है भोगभूमिजोंमें नहीं, आर्यखण्डमें ही सम्भव है म्लेच्छ खण्डोंमें नहीं, आर्यखण्डमें आकर म्लेच्छ भी तथा उनको कन्याओंसे उत्पन्न हुई सन्तान भी कदाचित् सयत हो सकते है, विद्याओंका त्याग कर देनेपर विद्याधरोंमें भी सम्भव है अन्यथा नहीं।]

दे वह वह गति—[नरक तिर्यक व देव गतिमें सम्भव नहीं।]

दे, आयु/६/७ [देव आयुके अतिरिक्त अन्य तीन आयु जिसने पहिले बाँध ली है, उसको सयमकी प्राप्ति नहीं हो सकती।]

दे चारित्र/३/७ ८ [मिथ्यादृष्टि व्रत्तको भी सयत नहीं कहा जा सकता है।]

दे वेद/७ [द्रव्य स्त्री सयत नहीं हो सकती।]

२ संयत निर्देश सम्बन्धी शकाएँ

१ प्रमत्त होते हुए भी सयत कैसे

घ, १/१.१.१४/१७६/१ यदि प्रमत्ता न सयता स्वरूपासवेदनात् । अथ सयता न प्रमत्ता संयमस्य प्रमादपरिहाररूपत्वादिति नेष दोष, सयमो नाम हिसानृतस्तेयान्नलपरिग्रहेभ्यो विरति गुप्तिसमित्यनुरक्षित नासौ प्रमादेन विनाश्यते तत्र तस्मान्मलोत्पत्ते । सयमस्य मलोत्पादक एवात्र प्रमादो विवक्षितो न तद्विनाशक इति । कुतोऽवसीयत इति चेत् सयमाविनाशान्यथानुपपत्ते । न हि मन्दतम प्रमाद क्षणक्षयी सयमविनाशकोऽसति विबन्धयन्नुपलब्धे । = प्रश्न—यदि छटे गुणस्थानवर्ती जेव प्रमत्त है तो सयत नहीं हो सकते है, क्योंकि, उनको अपने स्वरूपका सवेदन नहीं हो सकता है। यदि वे सयत है तो प्रमत्त नहीं हो सकते है, क्योंकि सयम भाव प्रमादके अभावस्वरूप होता है। उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, यमािक, हिसा, असय, स्तेय, अन्नल और परिग्रह इन पाँच पापोंसे विरतिभायको सयम कहते है, जो कि तीन गुप्त और षच समितियोंसे अनुरक्षित है (दे, संयम/१)। वह सयम वास्तवमें प्रमादमे नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि, सयममें प्रमादसे केवल मलकी ही उत्पत्ति है। प्रश्न—ऐसा ही सूक्ष्म प्रमाद यहाँ विवक्षित है, यह कैसे जाना। उत्तर—छटे गुणस्थानमें संयमका विनाश न हाना अन्यथा बन नहीं सकता। वहाँ होनेवाला स्वल्पकालवर्ती मन्दतम प्रमाद सयमका नाश भी नहीं कर सकता है, क्योंकि, सकल मगमका उत्कटरूपसे प्रतिबन्ध धरनेवाले प्रत्याख्यानावरणके अभावमें सयमका नाश नहीं पाया जाता।

गो जी/जी प्र/३३/६३/४ अत्र साक्षर्य महत्त्व च देशसयतापेक्षया ज्ञातव्यं, तत कारणादेव प्रमत्तमयत चित्रलाचरण इत्युक्तम् । = यहाँ सकलचरित्रपना या महाव्रतपना अपनेसे नीचेवाले देशसयमकी प्रीक्षा जानना चाहिए अपनेमे ऊपरके गुणस्थानोंकी अपेक्षा नहीं। इसलिए ही प्रमत्तमयतको चित्रलाचरण कहा गया है।

२ अप्रमत्तसे पृथक् अपूर्वकरणदि गुणस्थान क्या है

घ, १/१.१.१४/१७६/८ शेषोपसयतानामत्रैवान्तर्भावाच्छेषसयतगुणस्थानानामभाव स्यादिति चेन्न, सयतानामुपरिष्टात्प्रतिपद्यमानविशेषणाविशिष्टानामस्तप्रमादानामिह ग्रहणात् । = प्रश्न—बाबके सम्पूर्ण सयतोंका इसी अप्रमत्तसयत गुणस्थानमें अन्तर्भाव ही जाता है, इसलिए शेष गुणस्थानोंका अभाव हो जायगा। उत्तर—ऐसा नहीं है, क्योंकि, जो आगे चलकर प्राप्त होनेवाले अपूर्वकरण आदि विशेषणोंसे अविशिष्ट हैं अर्थात् भेदको प्राप्त नहीं होते हैं और जिनका प्रमाद नष्ट हो गया है, ऐसे सयतोंका ही यहाँपर ग्रहण किया गया है, इसलिए आगेके समस्त गुणस्थानोंका इसमें अन्तर्भाव नहीं होता है।

३ संयतोंमें क्षायोपशमिक भाव कैसे

घ १/१.१.१४/१७६/७ पञ्चसु गुणेषु क गुणमाश्रित्याय प्रमत्तसयतगुण उत्पन्नश्चेत्सयमापेक्षया क्षायोपशमिक । कथम् । प्रत्याख्यानावरणसर्वघातिस्पर्धकोदयक्षयात्पामेव सतामुदयाभावलक्षणोपशमात् सज्वलनोदयाच्च प्रत्याख्यानसमुत्पत्तेः । = प्रश्न—पाँचो भावोंमेंसे किस भावका आश्रय लेकर यह प्रमत्त सयत गुणस्थान उत्पन्न होता है। उत्तर—सयमकी अपेक्षा यह क्षायोपशमिक है। प्रश्न—क्षायोपशमिक किस प्रकार है। उत्तर—१ क्योंकि वर्तमानमें प्रत्याख्यानावरणके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदय क्षय होनेसे और आगामी कालमें उदयमें आनेवाले सत्तामें स्थित उन्हींके उदयमें न आनेरूप उपशमसे तथा सज्वलन कषायके उदयसे प्रत्याख्यान अर्थात् सयम उत्पन्न होता है इसलिए क्षायोपशमिक है। [विलकुल इसी प्रकार अप्रमत्तगुणस्थान भी क्षायोपशमिक है—(घ १/१.१.१४/१७६/२)] (घ १/१.७.७/२०३/१)।

घ ७/२.२.४६/६२/४ कथ खओवसमिया लब्धी । चतुसज्वलण-णवणोकसायाण देसघादिफहयणमुदये सजमुत्पत्तीदो । कथमेदेसि उदयस्स खओवसमववएसो । सव्वघादिफहयणि (दे, क्षायोपशम/१/१)। एव सामाहयच्छेदोवद्वाणसुद्धिसज्जदाण पिवत्तव्व । = प्रश्न—१ सयतके क्षायोपशमिक लब्धि कैसे होती है। उत्तर—२ चारों सज्वलन कषायों और नौ नोकषायोंके देशघाती स्पर्धकोंके उदयसे सयमकी उत्पत्ति होती है, इस प्रकार सयतके क्षायोपशमिक लब्धि पायी जाती है। प्रश्न—नोकषायोंके देशघाती स्पर्धकोंके उदयको क्षायोपशम नाम क्यों दिया गया। उत्तर—[सर्वघाती स्पर्धकोंकी शक्तिका अनन्त गुणा होना ही क्षय है और देशघाती स्पर्धकोंके रूपमें उनका अवस्थान उपशम है। दोनोंके योगसे क्षायोपशम नाम सार्थक है (दे क्षायोपशम/१/१)] इसी प्रकार सामायिक और छेदोपस्थापना शुद्धिसयतोंके विषयमें भी कहना चाहिए।

घ, १/१.७.७/२०२/३ पच्चखणावरण-चतुसजलणणवणोकसायाणमुदयस्स सव्वप्पणा चारित्तविणासणसत्तीए अभावादो तस्स खयसण्णा । तेसि चैव उप्पण्णचारित्त सेडिवावारत्तस्स उवसमसण्णा । तेहि दोहितो उप्पण्णा एदे तिण्णि वि भावा खओवसमिया जादा । = ३ प्रत्याख्यानावरण, सज्वलन चतुष्क और नवनोकषायोंके उदयके सर्वप्रकारसे चारित्त विनाश करनेका शक्तिका अभाव है, इसलिए उनके उदयकी क्षय सज्ञा है, उन्हीं प्रकृतियोंकी उत्पन्न हुए चारित्रको अथवा श्रेणीको आवरण नहीं करनेके कारण उपशम सज्ञा है। क्षय और उपशम इन दोनोंके द्वाग उत्पन्न हुए ये उक्त तीनों भाव (सयतासयत, प्रमत्तसयत और अप्रमत्तसयत) भी क्षायोपशमिक हो जाते हैं।

४ संज्वलनके उदयके कारण औदयिक क्यों नहीं

ध १/१,१,१४/१७७/१ मज्जननोदयात्म्यमो भवतीत्यौदयिक-व्यपदेशोऽस्य किं न स्यादिति चेन्न तत् सयमस्योत्पत्तेरभावात् । क तद् व्याप्रियत इति चेत्यस्याख्यानावरणमर्वाघातिस्पर्धकोदयक्षय-समुत्पन्नसयमनोत्पादाने तस्य व्यापारः । =प्रश्न—सज्वलन कपायके उदयसे सयम होता है, इसलिए उसे औदयिक नामसे क्यों नहीं कहा जाता है ? उत्तर—नहीं, क्योंकि, सज्वलन कपायके उदयसे संयमकी उत्पत्ति नहीं होती है । प्रश्न—तो सज्वलनका व्यापार कहाँ पर होता है ? उत्तर—प्रत्याख्यानावरण कपायके मर्वा-घाती स्पर्धकोके उदयाभावी क्षयमे उत्पन्न हुए सयममें मलके उत्पन्न करनेमें सज्वलनका व्यापार होता है ।

५ सम्यक्त्वकी अपेक्षा तीनों भाव है

ध. १/१,१,१४/१७७/४ सयमनिबन्धनसम्यक्त्वापेक्षया क्षायिकक्षायो-पशमिकौपशमिकगुणनिबन्धनः । =सयमके कारणभूत सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा तो यह गुणस्थान क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक भावनिमित्तक है । (और भी वे भाव/२/१०) ।

६ फिर सम्यक्त्वकी अपेक्षा इन्हें औपशमिकादि क्यों नहीं कहते

ध ४/१,७,७/२०३/१० दसणमोहणीयकम्मस्स उवसमत्वय-त्वओवसमे अस्सिदूण संजदासजदादीणभावसमियादिभावा किण्ण पक्खिदा । ण, तदो सजमासजमादिभावाणमुपपत्तीए अभावादो । ण च एत्थ सम्मत्तविसया पुच्छा अत्थि, जेण दसणमोहणिवधणआवसमियादि-भावेहि सजदासजदादीण वधएमो होज्ज । ण च एव तथाणुत्तभा । =प्रश्न—दर्शनमोहनीयकर्मके उपशम, क्षय और क्षयोपशमका आश्रय करके सयतासयतादिकीके औपशमिकादि भाव क्यों नहीं बताये गये ? उत्तर—नहीं, क्योंकि, दर्शनमोहनीयकर्मके उपशमादिसे सयमासयम आदि भावोंकी उत्पत्ति नहीं होती । दूसरे, यहाँपर सम्यक्त्वविषयक पृच्छ (प्रश्न) भी नहीं है, जिससे कि दर्शनमोहनीय निमित्तक औपशमिकादि भावोंकी अपेक्षा सयतासयतादिकीके औपशमिकादि भावोंका व्यपदेश हो सके । ऐसा है नहीं, क्योंकि उस प्रकारकी व्याख्या नहीं पायी जाती है ।

दे. सान्निपातिक—[अथवा सान्निपातिक भावोंकी अपेक्षा करनेपर यहाँ औपशमिक क्षायिक, क्षायोपशमिक व पारिणामिक इन चार भावोंके द्वि त्रि आदि सयोगी अनेक भग बन जाते हैं] ।

७. सामायिक व छेदोपस्थापनामे तीनों भाव कैसे

ध ७/१,१,१४/६८/६ ऋधमेकस्स चरित्तस्स तिण्णि भावा । ण एकस्स वि चित्तपयगतम् बहुउण्णद सणादो । = [सयत सामान्य, सामायिक व छेदोपस्थापना २ यम इनमें औपशमिक क्षायिक व क्षायोपशमिक तीनों भाव गभव है—दे भाव/२/१०] । प्रश्न—एक ही चारित्र्यमें औपशमिकादि तीनों भाव कैसे होते हैं ? उत्तर—जित प्रकार एक ही चतुर्वर्ण पक्षीके गहुतसे वर्ण देखे जाते हैं, उसी प्रकार एक ही चारित्र्य नाना भावोंसे युक्त हो सकता है ।

३ प्रमादजनक दोष परिचय

१. आर्तध्यान व स्पृहलना होते हैं पर निरर्गल नहीं

नोट—[माधुको प्रमाद वशा आर्तध्यान होना सम्भव है—(दे आर्त-ध्यान/३) । परन्तु उसे रौद्रध्यान कदापि नहीं हाता (दे रौद्र-ध्यान/८) । बहुशुश्रूष प्रतिसेवना कुशील साधुको भी उपकरणोंमें आसक्ति होनेके कारण कदाचित् आर्तध्यान सम्भव है (दे, माधु/

४/१) । वह प्रमाण वशा ऋदाचित् चाग्रिके परिणामोंमें स्पृहित भी हो जाता है—(दे सयत/१/२) । उमका आचरण चित्रन होता है—(दे सयत/१/२) । परन्तु यह आर्तध्यान सर्वसाधारण नहीं होता । —(दे अगले सदर्थ)] ।

र मा/११०-१११ ब्रमहोपडिमोयरणे गणगच्छे समयमगजाडकुले । मिस्सपडिमिस्सच्छत्ते सुयजाते कपडे पुच्छे ११०। पिच्छे मथरणे इच्छामु लोहेण कुण्ड ममया । यावच्च अट्टरुद ताण ण मुच्चेत्ति ण हु मोक्ख १११। =वसतिका, प्रतिमोपकरण, गण, गच्छ, समय, जाति, कुल, शिष्य, प्रतिशिष्य, विद्यार्थी, पुत्र, पौत्र, कपडे, पुच्छ, पीछी, मस्तर, आदिमें नोभमे जो माधु ममत्व करता है तथा ममत्व करनेके कारण जब तक आर्त और रौद्रध्यान करता है, तब तक क्या वह मोक्षमुखसे वचित नहीं रहता ११०-१११।

ज्ञा/२६/४१-४२ इत्यार्तरोद्रे गृहिणामजल ध्याने मुनिन्दो भवत् स्वतोऽपि । परिग्रहारम्भकपायदापे कलद्रिनेऽन्त कण्णे विदापुम् । ४१। त्वचित्कचिदमी भाग प्रवर्तन्ते मुनेरपि । प्राक्कर्मगोरजाच्चित्र प्राय समारकारणम् ४२। =इय प्रकार ये आर्त और रौद्रध्यान गृहस्थियाके परिग्रह आरम्भ पार कदायादिके दोषमें मुनिन्त उत्त-करणमें स्वयमेव निरन्तर होते हैं, इनमें कुछ भी सन्देह नहीं है ४१। और कभी-कभी ये भाग पूर्व कर्मकी विचित्रतामे मुनिके भी होता है । बाहुव्यसे ये समाग्ये कारण है ४२।

दे गुरु/२/२ [कदाचित् शिष्यको लात तक मार देते हैं ।]

दे अपवाद/३ [परोपकारार्थ कदाचित् मन्त्र तन्त्र व शस्त्रादि भी प्रदान करते हैं ।]

दे अपवाद/४/३ [परन्तु योग्य ही उपधिका ग्रहण करता है अयोग्य-का नहीं ।]

दे साधु/७/८ [त्रिना मोधे आहारादिका ग्रहण नहीं करता, मैत्रीभावसे रहित हो पेशुन्य आदि भाव नहीं करता । दूररोका पीडा नहीं देता, आरम्भ व सायक कार्य नहीं करता । मन्त्र तन्त्र आदिका प्रयोग नहीं करता इत्यादि ।

दे तीसरा शीर्षक—[यद्यपि सज्वलनके तीव्र उदयसे अनेको प्रकारके शुभ कार्योंमे रत रहता है, शुद्धारम्भ भावनासे च्युत हो जाता है, परन्तु फिर भी वह सयतपनेको उल्लंघन नहीं करता ।]

२ साधु योग्य शुभ कार्योंकी भीमा

प्र सा/४/१११ बालो वा वृद्धा समभिहदा वा पुणो गिलाणो वा । चरिय चग्गु सजोग मूलच्छेदा जघा ण ह्वदि १२०। अरहादिसु भत्ती वच्छलदा पवयणाभिजुत्तेसु । विज्जति जदि मामण्णे मा सुह-जुत्ता भवे चरिया १२१। वदणममण्णेहि ण्भुट्टाणाणुगमणपडि-वत्ती । समणेषु समावणओ णिट्ठिदा रायचरियन्दि १२७। दसण-णाणुवदेमो मिस्सग्गहण च पान्ण तेमि । चरिया हि मग्गाण जिणिवज्जोवदेसा य १२८। उवकुणदि जा वि णिच्च चादुक्कणस्स मणमधस्स । कायविराअणरहिद सो वि सग्गपपाणो से १२९। जोण्हाण णिरवेक्क सागारणगारचरियजुत्तण । ण्णुक्कपायवयर कुवन्तु लेयो जदि वि अणो १३१। राणेण वा दृष्ठाण वण्हाए वा समेण वा रुद । दिट्ठा समणं माह पट्टिज्जहु पारमत्तीण १३२। =बाल, वृद्ध, श्रान्त, या ग्लान श्रमण मूलका छेद जमे न हो उम प्रकारसे अपने योग्य आचरण कर १२०। [अर्थात् युवार्थी जोक्षा वृद्धमें और स्वस्थानी अपेक्षा रोगीमें यद्यपि अयोग्य ही कुछ दिशि-नता होती है, और उनलिए उनकी क्रियाओंमें भी तरतमता होती पर वह युनयुगारो उल्लंघन नहीं कर पाती] । श्रान्त्यमें यदि आ-हतादिकोंके प्रति भक्ति तथा प्रवचनत जीबोके प्रति वात्सल्य पाया जाता है, वह शुभयुक्त चर्चा है १२४। श्रमणोंके प्रति घट्टन, नमस्कार सहित अश्रुत्थान और अनुगमनरूप विनित प्रवृत्ति करना तथा उनका

श्रम दूर करना रागचर्यामें निन्दित नहीं है। १२४७। दर्शनज्ञानका उपदेश, शिष्योंका ग्रहण तथा उनका पोषण और जिनेन्द्रकी पूजाका उपदेश वास्तवमें सरागियोंकी चर्या है। १२४८। जो कोई सदा छह कायकी विराधनासे रहित चार प्रकारके श्रमणसंघका उपकार करता है, वह भी रागकी प्रधानतावाला है। १२४९। यद्यपि अरण लेप होता है तथापि साकार अनाकार चर्या युक्त (अर्थात् शुद्धात्मके ज्ञान-दर्शनमें प्रवर्तमान वृत्ति-रत्ने) जेनोका अनुकम्पारी निरपेक्षतया (शुभोपयोगसे) उपकार करो। १२५१। रोगसे, क्षुधासे, तृषामे अथवा श्रमसे आक्रान्त श्रमणको देखकर साधु अनुसार वैयावृत्ति आदि करो। १२५२।

मू आ/१११ पोसह उवओ पयसे तह साह जो करेदि णियद तु । गावाए कल्लाण चाटुम्मासेण णियमेण । ११११। —जो साधु चाटु-मार्गिक प्रतिक्रमणके नियमसे दोनों चतुर्दशो तिथियोंमें प्रोपधी-पवास अवश्य करता है वह सुखकी प्राप्ति अवश्य करता है। १११५।

र सा/१६ तच्चवियारणसीलो मोखलपहाराहणसहावजुदो । अणवरय धम्मकहापसगदो हाध णिराओ । १६१। —जो मुनिराज सदा आत्म-तत्त्वके विचार करनेमें लीन रहते हैं, मोक्षमार्गको आराधन करनेका जिनका स्थाभाव हो जाता है, और जिनका समय निरन्तर धर्मकथामें ही लीन रहता है, वे ही यथार्थ मुनिराज कहाते हैं।

दे० समय/१/६ [व्रत, समिति, गुप्ति, आदि पालन साधुका धर्म है और दानपूजा आदि गृहस्थोंका] ।

दे, साधु/२/२ [पाँच महाव्रत, पाँच समिति, पाँच इन्द्रियोंका रोध, केशलोच, पट्ट आवश्यक, अचेलरत्व, अस्नान, भूमिशयन, अदत्त-धोवन, स्थिति भोजन, एकशुक्ति ये तो साधुके २८ मूलगुण हैं और १८००० शील व ८४०००,०० उत्तर गुण इन सबका यथा योग्य पालन करता है ।]

दे कृत्तिकर्म/४/१ [देव वन्दना आचार्य वन्दना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि साधुके नित्यकर्म हैं ।]

दे वैयावृत्त्य/८ [वैयावृत्त्यके अर्थ लौकिक जनके साथ वातचीत करना निन्द्य नहीं है ।]

दे अपवाद/३ [सखलेखना गत क्षणके लिए आहार वर्तन आदि माँगकर लाते हैं, उनको तेलमर्दन करते हैं, गर्मियोंमें शीतोपचार और सर्दियोंमें उष्णोपचार करते हैं, कदाचित् उसको अनीमा लगाते हैं, क्षणके मृत शरीरके अंग आदिका छेदन करते हैं, इत्यादि अनेकों अपवाद प्रस्त क्रियाएँ भी कारण व परिस्थिति यश करता है ।]

३ परन्तु फिर भी सयतपना घाता नहीं जाता

प्र सा/मू/२२१-२२२ किध तम्हि णरिथ मुच्छा आरभो वा असज्जो तस्स । तध परदवम्मि रदो कधमप्पाण पसाधयदि । २२१। छेदो जेण ण विज्जादि गहणविसग्गेसु सेयमाणस्स । समणो तेणिह वट्टु काल खेत्त वियणित्ता । २२२। —प्रश्न—उपधिके सद्भावमें उस भिक्षुके सूच्छा आरम्भ या असयम न हो यह कैसे हो सक्ता है, तथा जो परदव्यमें रत हो वह आत्माको कैसे साध सकता है। २२१। उत्तर—जिस उपधिके ग्रहण विसर्जनमें, सेवन करनेमें, जिससे सेवन करनेवालेके छेद नहीं होता, उस उपधियुक्त [अर्थात् कमण्डलु पीछी व शास्त्ररूप लौकिक जनोके द्वारा अप्रार्थनीय उपधियुक्त—दे, अप-वाद/४/३] काल, क्षेत्रको जानकर इस लोकमें श्रमण भले वर्ते। २२२। प ध/उ/६५७, ६८०-६८६ यद्वा मोहात्प्रमादाद्वा कुर्वाणो लौकिकी क्रियाम् । तावत्काल सनाचार्योऽप्यस्ति चान्त्रत ताच्छ्युन । ६५७। सति सज्जलनस्याच्च स्वर्धका देशघातिन । तद्विपाकोऽस्त्रयमन्दो वा मन्दो हेतु क्रमाद्द्वयो । ६८०। सखलेशस्तत्क्षतिर्न विशुद्धिस्तु तदक्षति । सोऽपि तरतमस्वाशै सोऽप्यनेकेरेकेषा । ६८१। अस्तु यद्वा न शैथिल्य तत्र हेतुःशान्तिः । तथाप्येतावताचार्य सिद्धो

नात्मन्यत्पर । ६८२। तत्रावश्य विशुद्धयश्चास्तेषां मन्दोऽद्यादिति । सखलेशोऽथवा तीमोऽप्याजाय विधि रमृतः । ६८३। किन्तु देवादि-शुद्धयश्च मन्लेशोऽथवा वचस्त्वि । तद्विशुद्धेर्विशुद्धयश्च मन्लेशो-शोऽप्येय पुन । ६८४। तेषां तीमोऽप्येयस्तवदेतावानत्र यावक । सर्वतरचेत्प्रकापाय नापरायोऽपरोऽस्त्रयत । ६८५। तेनात्रेतावता वृत्तं शुद्धस्मानुभवच्युति । कत्तु न शक्यते यस्माद्नास्त्रयन्य प्रयोजक । ६८६। —जो मोहसे अथवा प्रमादसे जितने काल तत्र वह लौकिकी क्रियाको करता है उतने काल तत्र वह लौकिकी क्रियाको करता है उतने काल तत्र अन्तरंग व्रतोंसे च्युत होनेके कारण वह आचार्य नहीं है। ६८७। वास्तवमें मज्जनन कपायका तीव्र या मन्द उदय ही चारित्र्यकी क्षति व अक्षतिमें हेतु है। ६८८। सर्वलेशसे क्षति होती है और अमन्लेशसे अक्षति। वह मन्लेश भी तरतमताकी अपेक्षा अनेक प्रकारका है और वह तरतमता भी अपने कारणोंकी अपेक्षा अनेक प्रकारकी है। ६८९। उम सखलेश या विशुद्धिके योगसे आचार्यके मिथिलता होवे या न होवे परन्तु इतने मात्रसे उनकी आत्मामें अतत्परता सिद्ध नहीं होती। ६९०। तथा उम मज्जननके मन्दोदयसे होनेवाला विशुद्धि अत्र और उमके तीमोदयसे होनेवाला सखलेश अत्र ये दोनों ही उस आचार्यपदके साधक या बाधक नहीं हैं, कर्मोदयवश कभी विशुद्धि अत्र और तभी सखलेश अत्र उनके पाये ही जाते हैं। ६९१-६९५। उसका तीव्र उदय वास्तवमें उस विशुद्धिवा ही बाधक है, पर आचार्य पदका नहीं। यदि वह सखलेश आचार्य पदका ही बाधक हो जाय तब फिर उससे बड़ा कोई उपराध ही नहीं है। अर्थात् फिर उसे मन दोष न कहकर उपराध कहना चाहिए। ६९६। उम तीमोदयके द्वारा उनकी आत्मा शुद्धात्मानुभवमें च्युत नहीं हो जा सकती, क्योंकि ऐसा करनेमें मज्जननका तीव्र उदय नहीं बल्कि मिथ्यारतका उदय कारण है। ६९६।

दे सयत/२/१ [व्रत समिति गुप्ति रूप चारित्र्य प्रमादसे नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका प्रतिबन्धक प्रत्याख्यानावरण है, न कि सयतोंमें पाया जानेवाला सज्जलनका स्वर्णकालिक मन्दतम उदय ।

दे सयत/०/४ [मज्जननके उदयसे सयममें केवल मल उत्पन्न होता है, उसका विनाश नहीं ।]

दे धर्म/६/६ [व्यवहाररूप शुभधर्म प्राय गृहस्थोंको होता है, साधुओंके केवल गांणरूपसे पाया जाता है ।]

संयतासयत—सयम धारनेके अग्रासकी दक्षामें स्थित कुछ संयम और कुछ असंयम परिणाम युक्त श्रावक सयतासंयत कहलाता है। विशेष दे श्रावक ।

१	सयतासयतका लक्षण ।
*	सयनासयतता विशेष स्वरूप । —दे श्रावक ।
०	सयम व असयम युगपत् कैसे ।
*	सयत/सयतके ११ अथवा अनेक भेद । —दे श्रावक/१/२ ।
*	सयमासयम आरोहण विधि । —दे, क्षयोपशम/३ ।
*	गुणस्थानोंमें परस्पर अवरोहण आरोहण क्रम । —दे गुणस्थान/२/१ ।
*	इसके परिणाम अथ प्रवृत्तिकरणरूप होते हैं । —दे करण/४ ।
३	इसके परिणामोंमें चतु रथानपतितहानि वृद्धि ।
*	इसमें आत्मानुभवके सद्भाव सम्बन्धी । —दे अनुभव/५ ।

- ४ सयमासयमका स्वामित्व ।
 * मिथ्यादृष्टिको सम्भव नहीं । —दे चारित्र/३/८ ।
 * इसमें सम्भव जीवसमाप्त मार्गणास्थान आदि २० प्ररूपणाएँ । —दे सत् ।
 * मार्गणाओंमें इसके स्वामित्व सम्बन्धी शका-समाधान । —दे वह वह नाम ।
 * इस सम्बन्धी सत् सख्या क्षेत्र रपर्शन काल अन्तर भाव व अल्पवहुत्वरूप ८ प्ररूपणाएँ । —दे, वह वह नाम ।
 * सभी गुणरथानोंमें आयके अनुसार व्यय । —दे मार्गणा ।
 * भोगभूमिमें सयमासयमके निषेधका कारण । —दे भूमि/६ ।
 * शूद्रको झुल्लक दीक्षा सम्बन्धी । —दे, वर्णव्यवस्था/४ ।
 ५ इसके पश्चात् भव धारणकी सीमा ।
 * सर्वलघु कालमें सयमासयम धारणकी योग्यता । —दे सयम/२ ।
 * पुनः पुन सयमासयम प्राप्तिकी सीमा । —दे सयम/२ ।
 ६ सयतासयतोमें सम्भव भाव ।
 ७ इसमें क्षायोपशमिक भाव कैसे ।
 * इसे औदधिकौपशमिक नहीं कह सकते । —दे क्षायोपशमिक/२/३ ।
 * सम्यग्दर्शनके आश्रयसे औपशमिकादि क्यों नहीं । —दे सयत/२/६ ।
 * इसमें कर्म प्रकृतियोंका बन्ध उदय सत्त्वं । —दे वह वह नाम ।
 * एकान्तानुवृद्धि आदि सयतासयत । —दे तच्छि/५/८ ।
 * स्वर्गमें ही जन्मनेका नियम । —दे जन्म/५/४ ।
 * इसमें आत्मानुभव सम्बन्धी । —दे अनुभव/५ ।

१ संयतासयतका लक्षण

५. स/प्रा/१/ग जो तसवहाउ विरदो णो विग्ओ अवलथावरवहाओ । पडिसमय सो जीवो विरयाविरओ जिणेकमई १३। जो ण विरदो दु भावो थावरवहइदियस्यदोसाओ । तमवहविरओ मोच्चिय सजमा-सजमो दिहो १३४। पच तिय चउविहोहं अणुगुण-सिखवावएहि सजुत्ता । वुच्चति देमविरया सम्माइट्टो ऋडियकम्मा १३५।
 = १ जो जीव एक मात्र जिन भगवान्में ही मतिको रखता है, तथा त्रस जीवोंके घातसे विरत है, और इन्द्रिय विषयोंसे एव स्थावर जीवोंके घातसे विरत नहीं है, वह जीव प्रति समय विरताविरत है । अर्थात् अपने गुणस्थानके कालके भीतर दोनों सज्ञाओंको युगपत् धारण करता है १३। २ भावोंसे स्थावरवध और पाँचों इन्द्रियोंके विषय सम्बन्धी दोषोंसे विरत नहीं होने किन्तु त्रस बधसे विरत होनेको सयमासयम कहते हैं, और उनका धारक जीव नियमसे सयमासयमी कहा गया है १३४। ३ पाँच अणुवत्, तीन गुणवत् और चार शिक्षानतोंसे संयुक्त होने विशिष्ट संयमासयम है । उसके धारक और असंख्यात् गुणश्रेणीरूप निर्जराके द्वारा कर्मके भाङ्गने-वाले ऐसे सम्यग्दृष्टि जीव देशविरत या सयतासयत कहनाते हैं

१३५। (घ १/१.१.१२३/गा १६२/३७३), (गो जो ४७६/८८३) रा वा २/५/८/२०८/७ विरताविरत परिणाम क्षायोपशमिक सयमासयम ।

रा वा ६/१२/७/५२२/२७ संयमासयम अनात्यन्तिकी विरति ।
 = क्षायोपशमिक विरताविरत परिणामको सयमार्यम कहते हैं ।
 अथवा अनात्यन्तिकी विरक्तताको सयमासयम कहते हैं ।
 घ १/१.१.१३/१७३/१० सयतासयत ते असयतासयत सयतासयत । = जो सयत होते हुए भी असयत होते हैं, उन्हें सयतासयत कहते हैं ।
 पु. सि उ ४१ या त्वेकदेशविरतिरतिरितस्तस्यामुपामको भवति । = जो एकदेश विरतिमें लगा हुआ है वह श्रावक होता है ।
 दे व्रतो—[वरके प्रति जिसकी रुचि समाप्त हो चुकी है वह मयत है और गृहस्थी सयतासयत है ।]
 दे विरताविरत [बारह व्रतोंसे सम्पन्न गृहस्थ विरताविरत है ।]

२. संयम व असंयम युगपत् कैसे

घ १/१.१.१३/१७३/१० यदि मयत, नासावसयत । अथासयत, नासौ सयत इति विरोधान्नाय गुणो घटत इति चेदस्तु गुणानां परस्पर-परिहारलक्षणो विरोध इष्टत्वात् अन्यथा तेषां स्वरूपहानिप्रसगात् । न गुणानां महानवस्थालक्षणो विरोध सभवति सभवेद्वा न वस्तुवस्ति तस्यानेकान्तनिबन्धनत्वात् । यदर्थक्रियाकारि तद्वस्तु । सा च नैकान्ते एकानेकाभ्यां प्राप्तनिरुपितावस्थाभ्यामर्थक्रिया-विरोधात् । न चैतन्याचैतन्याभ्यामनेकान्तस्तयोर्गुणत्वाभावात् । सहधुवो हि गुणा, चानयो सहभूतिरस्ति अमति विबन्धन्यनुप-त्त्वात् । भवति च विरोध समाननिबन्धनत्वे सति । न चात्र विरोध सयमासयमयोरेन्द्रव्यवतिनेस्त्रसस्थावरनिबन्धनत्वात् । = प्रश्न—जो सयत होता है, वह असयत नहीं हो सकता है, और जो असयत होता है वह सयत नहीं हो सकता है, क्योंकि, सयम-भाव और असयमभावका परस्पर विरोध है, इसलिए यह गुणस्थान नहीं बनता है । उत्तर—१ विरोध दो प्रकारका है—परस्परपरि-हारलक्षण विरोध और महानवस्थालक्षण विरोध । इनमेंसे एक द्रव्यके अनन्तगुणोंमें होनेवाला परस्पर परिहारलक्षण विरोध यहाँ इष्ट ही है, क्योंकि यदि एक दूसरेका परिहार करके गुणोंका अस्तित्व न माना जावे तो उनके स्वरूपकी हानिका प्रसंग आता है । परन्तु इतने मात्रमें गुणोंमें सहानवस्थालक्षण विरोध सम्भव नहीं है । यदि नाना गुणोंका एक साथ रहना ही विरोधस्वरूप मान लिया जाये तो वस्तु का अस्तित्व ही नहीं बन सकता है, क्योंकि, वस्तुका सद्भाव अनेकान्त निमित्तक ही होता है । जो अर्थक्रिया करनेमें समर्थ है वह वस्तु है और वह एकान्त पक्षमें बन नहीं सकती, क्योंकि यदि अर्थक्रियाको एकरूप माना जावे तो पुन पुन उसी अर्थक्रियाकी प्राप्ति होनेसे, और यदि अनेकरूप माना जावे तो जनवस्था दोष आनेमें एकान्तपक्षमें अर्थक्रियाके होनेमें विरोध आता है । २ ऊपरके कथनसे चैतन्य और अचैतन्यके साथ भी व्यभिचार नहीं आता है, क्योंकि, चैतन्य और अचैतन्य ये दोनों गुण नहीं हैं । जो मत्भावी होते हैं उन्हें गुण कहते हैं, परन्तु ये दोनों सद्भावो नहीं हैं, क्योंकि बन्धरूप अवस्थाके नहीं रहनेपर चैतन्य और अचैतन्य ये दोनों एक साथ नहीं पाये जाते हैं । ३ दूसरे विरुद्ध दो धर्मोंकी उत्पत्तिवा कारण यदि एक मान लिया जावे तो विरोध आता है, परन्तु सयम-भाव और असयमभाव इन दोनोंको एक आश्रयमें स्वीकार कर देनेपर भी कोई विरोध नहीं आता है, क्योंकि उन दोनोंकी उत्पत्तिके कारण भिन्न-भिन्न हैं । सयमभावकी उत्पत्तिका कारण त्रसत्तिनासे विरति भाव है और असयम भावकी उत्पत्तिका कारण त्रसत्तिनासे विरति भाव है । इसलिए सयतासयत नामका पाँचवाँ गुणस्थान बन जाता है ।

३ इत्येके परिगामोमि चतु स्थान पतित हानि वृद्धि

ल मा/मू./१०६/२२८ देवो समये समये सुज्जतो सक्लित्समाणो य । चउत्तुहृद्वाहणिवद्व्यट्टिद कुणदि गुणसेदि । =अथाप्रवृत्त देश-सयत जीव समय-समय विशुद्ध और सक्लिष्ट हाता रहता है । विशुद्ध हानेपर असख्यातभाग, सख्यातभाग, सख्यातगुण न अस-ख्यातगुण इन चार प्रकारकी वृद्धि सहित, और सक्लिष्ट होनेपर इन्हीं चार प्रकारकी हानि सहित द्रव्यका अपवर्षण करके गुणश्रेणीमें निक्षेपण करता है । इस प्रकार उसके कालमें यथासम्भव चतु स्थान-पतित वृद्धि हानि सहित गुणश्रेणी विधान पाया जाता है ।

४ सयमासयमका स्वामित्-

दे नरक/४/६ [नरक गतिमें न-भव नहीं ।]

दे तिर्यच/०/२-४ [केवल मज्जी पचेन्द्रिय तिर्यचको सम्भव है, अन्य एकेन्द्रियसे अमज्जी पर्यंतको नहीं कर्मभूमिजोको ही होता है भोग-भूमिजोका नहीं, कर्म भूमिजोको भी आर्यखण्डमें ही होता है, म्लेच्छ-खण्डमें नहीं । वहाँ भी क्षायिक सम्यग्दृष्टि तिर्यचका नहीं होता । सर्वत्र पर्याप्तिको ही होता है अपर्याप्तिको नहीं ।]

दे मनुष्य/३/२ [मनुष्यमें केवल कर्मभूमिजोका ही सम्भव है भाग-भूमिजोका नहीं यहा भी आर्य खण्डमें ही सम्भव है म्लेच्छखण्डमें नहीं । विद्यावर्गमें भी सम्भव है । सर्वत्र पर्याप्तिको ही होता है अपर्याप्तिको नहीं ।]

दे देव/३/० [देव गतिमें सम्भव नहीं ।]

दे आयु/६/० [जिसने पहिले देवायुके अतिरिक्त तीन आयुको बाँध लिया है ऐमा कोई जोव सयमामयमको प्राप्त नहीं हो सकता ।]

दे सम्यग्दर्शन/११/४/४ [भायिक सम्यग्दृष्टि सयतासयत मनुष्य ही हाते है तिर्यच नहीं ।]

५ सयमामयमके पञ्चार भवधारणकी गीमा

वसु था/१३६ सिद्धम्ह तद्वयमि भवे पचमए कोवि मत्तमट्ठमए । भुज्जिज सुमणुयसुह पावेइ कमेण सिद्धयय १३६। =उपरोक्त रीतिसे श्रावणोपा आचार पानन करनेवाला (दे श्रावक)] तीसरे भवमें सिद्ध हाता है । काई क्रमसे देव और मनुष्योंके सुखको भोगकर पाँचवें मातवें या आठवें भवमें सिद्ध पदको प्राप्त करते हैं । [यह नियम या तो क्षायिक सम्यग्दृष्टिकी अपेक्षा जानना चाहिए (दे सम्यग्दर्शन/११/४/४), और या प्रत्येक तीसरे भवमें संयमामयमको प्राप्त हानेवालेकी अपेक्षा जानना चाहिए, अथवा उपचाररूप जानना चाहिए, क्योंकि एक जीव पश्यके असख्यातवे तार तक सयमासयम-को प्राप्त कर सकता है ऐसा निर्देश प्राप्त है (दे सयम/२)] ।

६ सयतासंयतमें सम्भव भाव

घ १/१,१,१३/१००/० ओदयिकादिपञ्चसु गुणेषु क गुणमाश्रित्य सयमा-सयमगुण समुत्पन्न इति चेत् क्षायोपशमिकोऽयं गुण । सयमा-नयमधाराधिहूनमस्यस्वानि क्रियन्तीति चेत्क्षायिकक्षायोपशमिकौ-पशमिकानि त्रीण्यपि भवन्ति पर्यायेण । =प्रश्न—ओदयिकादि पाँच भागोंमें किम भागके आश्रयसे सयमासयम भाग पैदा होता है । उत्तर—सयमामयम भाग क्षायोपशमिक है । (और भी दे भाव/२/६) । प्रश्न—सयमामयमरूप देशचारित्रकी धारासे सम्बन्ध रखने-वाने कितने सम्यग्दर्शन हाते हैं । उत्तर—क्षायिक, क्षायोपशमिक व औपशमिक इन तीनोंमेंसे कोई एक सम्यग्दर्शन विकल्प रूपसे होता है । (और भी दे, भाव/०/१२) ।

७. इसमें क्षायोपशमिक भाव कैसे

रा ना/०/५/९/१०९/१ अनन्तानुनन्द्यप्रत्याख्यानत्रयायष्टकोऽयमयात् मनुष्यमाचच प्रत्याख्यानकपायोदये मज्जलनकपायस्य देशघातिस्पर्-धं तदये नोऽपयानवत्स्य यथागभनादये च विरताविरतपरिणाम

क्षायोपशमिक । =अनन्तानुनन्धी और अप्रत्याख्यानावरण रूप आठ कपायोका उदयक्षय और सदपरधारूप उपशम, प्रत्याख्याना-वरण कपायका उदय, सज्वलनके देशघाति स्पर्धक और यथासभव नोकपायोका उदय होनेपर विरत—अविरत परिणाम उत्पन्न करने-वाला भाव क्षायोपशमिक है ।

घ १/१,१,१२/१०४/९ अप्रत्याख्यानावरणोपस्य सर्वघातिस्पर्धकानामुद-यथायत् सत चोपशमात् प्रत्याख्यानावरणोयोदयादप्रत्याख्यानो-त्पत्ते । =अप्रत्याख्यानावरणोय कपायके वर्तमान कालिक सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयभावी क्षय होनेसे, और आगामी कालमें उदयमें आने योग्य उन्हींके सदवस्थारूप उपशम होनेसे तथा प्रत्याख्यानावरणोय कपायके उदयसे सयमासयमरूप अप्रत्याख्यान-चारित्र उत्पन्न होता है । (गो जी/मू/४६६/९०६) ।

घ ७/२ १,१,११/१४/६ चतुस्रजलण-णवणोक्तसायाण खओवसमसण्णिदेस-घादिफहयाणमुदएण सजमासजमुत्पत्तीदो खओवसमलद्धीए सयमासयमो । तेरसण् पयड्डीण देसघादिफहयाणमुदओ सजम-लभणिमित्तो कध मजमामजमणिमित्त पड्डिवज्जदे । ण, पञ्चमखाणा-वरणमव्वघादिफहयाणमुदएण पड्डिहय चतुस्रजलणादिदेसघादिफह-याणमुदयस्स सजमासजम मोत्तुण सजमुत्पायणे असमत्थादो । =चार सज्वलन और नवनोकपायोंके क्षयोपशम मज्ञावाले देशघातीस्पर्धकोंके उदयसे सयमामयमकी उत्पत्ति होती है, इसलिए क्षयोपशम लब्धिसे सयमामयम होता है । (घ ४/१,७,७/२०२/३) । प्रश्न—चार सज्वलन और नव नोकपाय, इन तेरह प्रकृतियोंके देशघाती स्पर्धकोंका उदय तो सयमकी प्राप्तिमें निमित्त होता है (दे० मयत/२/३) । वह सयमामयमका निमित्त कैसे स्वीकार किया गया है ? उत्तर—नहीं, क्योंकि, प्रत्याख्यानावरणके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयसे जिन चार सज्वलनादिकके देशघाती स्पर्धकोंका उदय प्रतिहत हो गया है, उस उदयके सयमासयमको छोड़ सयम उत्पन्न करनेका सामर्थ्य नहीं होता है ।

दे० अतुभाग/४/६/६ [इससे प्रत्याख्यानावरणका सर्वघातीपना भी नष्ट नहीं होता है ।]

संयम - सम्यक् प्रकार यमन करना अर्थात् व्रत-समिति-गुप्ति आदि रूपसे प्रवर्तना अथवा विशुद्धात्मव्यानमें प्रवर्तना सयम है । तहाँ समिति आदि रूप प्रवर्तना अपहृत या व्यवहार सयम और दूसरा लक्षण उपेक्षा या निश्चय सयम है । इन्ही दोनोंको वीतराग व सराग चारित्र भी कहते हैं । अन्य प्राणियोंकी रक्षा करना प्राणि-सयम है और इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त होना इन्द्रिय सयम है । सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात उसके ऐसे इसके पाँच भेद हैं ।

१	भेद व लक्षण
१	सयमका लक्षण ।
२	व्यवहार सयमका लक्षण ।
३	निश्चय सयमका लक्षण ।
*	निश्चय व्यवहार चारित्रकी कथञ्चित् मुख्यता गौणता । —दे० चारित्र/४/७ ।
*	सयम लब्धिस्थान व एकान्तानुवृद्धि आदि सयम । —दे० लब्धि/५ ।
४	सयममार्गणाकी अपेक्षा भेद व लक्षण ।
*	सामायिकादि सयम । —दे० शीर्षक स ४ ।
*	क्षायोपशमिकादि सयम निर्देश । —दे० भाव/२ ।

- ५ निक्षेपोंकी अपेक्षा भेद व लक्षण ।
 ६ सकल व देशसयमकी अपेक्षा ।
 * सकल चारित्र देशचारित्रकी अपेक्षा है यथा-
 ख्यातकी अपेक्षा नहीं ।
 —दे० सयत/२/१ में गो जी ।
 ७ अपहृत व उपेक्षा सयम निर्देश—
 १. लक्षण व उनकी वीतरागता सम्बन्धी विशेषताएँ ।
 ८ प्राणी व इन्द्रिय सयमके लक्षण ।
 ९ प्राणि व इन्द्रियसयमके १७ भेद ।
 २ नियम व शंका समाधान
 * चारित्रमोहका उपशम क्षय व क्षयोपशम
 विधान । —दे० वह वह नाम ।
 * सम्यक्त्व सहित ही होता है । —दे० चारित्र/३ ।
 * व्रती भी मिथ्यादृष्टि सयमी नहीं ।
 —दे० चारित्र/३/८ ।
 * सवस्त्रसयम निषेध । —दे० वेद/७/४ ।
 १ सयम व विरतिमें अन्तर ।
 २ सयम गुप्ति व समिति आदिमें अन्तर ।
 ३ चारित्र व सयममें अन्तर ।
 * उत्सर्ग व अपवादसयम निर्देश । —दे० अपवाद/४ ।
 * सयोगकैवलीके सयममें भी कथञ्चित् मलका
 सद्भाव । —दे० कैवली/२/२ ।
 * सयममें परीपहजयका अन्तर्भाव । —दे० कायत्वेश ।
 ४ इन्द्रियसयममें जिह्वा व उपस्थकी प्रधानता ।
 ५ इन्द्रिय व मनोजयका उपाय ।
 ६ कपाय निग्रहका उपाय ।
 ७ सयम पालनार्थ भावना विशेष ।
 ८ पचम कालमें सम्भव है ।
 * निगोदसे निकलकर सीधे सयम प्राप्ति करने
 सम्बन्धी । —दे० जन्म/५ ।
 ९ जन्म पश्चात् सयम प्राप्ति योग्य सर्व लघुकाल
 सम्बन्धी नियम ।
 १० पुन पुन सयमादि प्राप्तिकी सीमा ।
 * सयमी मरकर देवगतिमें ही जन्मता है ।
 दे० जन्म/५/६ ।
 * सयममार्गणमें क्षायोपशमिक भाव सम्बन्धी ।
 —दे० सयत/२ ।
 ३ सयमका स्वामित्व
 १ सामायिक आदि सयमोंका स्वामित्व ।
 —दे० वह वह नाम ।
 २ क्षायोपशमिकादि सयमोंका स्वामित्व (५-७
 तक क्षायोपशमिक और आगे औपशमिक
 व क्षायिक) । —दे० वह वह गुणस्थान ।

- ३ गुणस्थानोंमें परम्पर सयमोंका आरोहण अव-
 रोहण क्रम । —दे० मयत/१/५ ।
 ४ बद्धायुक्तोंमें केवल देवायु वाला ही सयम
 धारण कर सकता है । —दे० आयु/६ ।
 ५ न्त्रीकी या सचेतको सम्भव नहीं । —दे० वेद/७/४ ।
 ६ सयम मार्गणमें सम्भव जीवसमाम मार्गणायान
 आदि रूप २० प्ररूपणाएँ । —दे० सत् ।
 ७ सयम मार्गणा सम्बन्धी सत्, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन
 काल, अन्तर, मात्र व अल्प बहुत्व रूप आठ
 प्ररूपणाएँ । —दे वह वह नाम ।
 ८ सयमियोंमें कर्मोंका वन्द्य-उदय-सत्त्व ।
 —दे वह वह नाम ।
 ९ सभी मार्गणा स्थानोंमें आयके अनुसार व्यय
 होनेका नियम । —दे मार्गणा ।

१ भेद व लक्षण

१. संयमका लक्षण

ध ७/२, १, ३/७/३ सम्यक् यमो वा सयम । =सम्यक् रूपसे यम
 अर्थात् नियन्त्रण सो सयम है ।

दे० चारित्र/३/७ [सयमन करनेको यमम कहते हैं । अर्थात् भावसयम-
 से रहित द्रव्यसयम संयम नहीं है ।]

२ व्यवहार सयमका लक्षण

१. व्रत समिति गुप्ति आदिकी अपेक्षा

प्र सा/मू/२४० पचसमिदो त्रिगुत्तो पचैदिय सडुडो जिदकसाओ ।
 दसणणाणसमगो समणो सो सजदो भणिदो । २४०। =पचसमिति-
 युक्त, पाँच इन्द्रियोंके सवरवाला, तीन गुप्ति सहित, कपायोंको
 जीतने वाला, दर्शन ज्ञानसे परिपूर्ण जो श्रमण है वह सयत कहा
 गया है ।

प्र सा/प्रसेपक गा मू/२४०-१ चागो व अणारभो विसयविरागो खओ
 कसायाण । सो सजमोत्ति भणिदो पव्वज्जाए विसेमेण । =आह्ला-
 भ्यन्तर् परिग्रहका त्याग, मन वचन कायरूप व्यापारसे निवृत्ति सो
 अनारम्भ, इन्द्रिय विषयोंसे विरक्तता, कपायोंका क्षय यह सामान्य-
 रूपसे सयमका लक्षण कहा गया है । विशेष रूपसे प्रव्रज्याकी अव-
 स्थाएँ होती हैं ।

चा, पा/मू/२८ पचिदियसवरण पचवया पचविसकिरियाणु । पच-
 समिदि तयगुत्तो सजमचरण गिरायार । २८। =पाँच इन्द्रियोंका
 सवर (दे सयम/२) पाँच व्रत और पचोस क्रिया, पाँच समिति,
 तीन गुप्ति इनका सद्भाव निरागार सयमाचरण चारित्र है ।

वा अ/७६ वदसमिदिपालणाए दड्ढाएण इदियजएण । परिणम-
 माणस्स पुणो सजमधम्मो ह्वे णियमा । ७६। =व्रत व समितियोंका
 पानन, मन वचन कायकी प्रवृत्तिका त्याग, इन्द्रियजय यह सब
 जिसको होते हैं उसको नियमसे सयम धर्म होता है ।

प न/प्रा १२७ वदसमिदिक्कमायाण दड्ढाएण इदियाण पंचण्ह ।
 धारणपालणणिग्घ-चाय-जओ सजमो भणिओ । १२७। = पाँच
 महाव्रतोंका धारण करना, पाँच समितियोंका पानन करना, चा-
 कपायोंका निग्रह करना, मन-वचन-काय रूप तीन दण्डोंका त्याग
 करना और पाँच इन्द्रियोंका जीतना (दे सयम/२) सो सयम
 कहा गया है । १२७। (ध १/१, १, ४/ गा ६२/१४६), (ध ७/२, १,
 २/२), (गो जी/मू/४६५/७६) ।

दे० तप/२/१ [तैरह प्रकारके चारित्रमें प्रयत्न करना सयम है ।]

३. निश्चय संयमका लक्षण

प्र सा/त प्र/१४.२४२ सकलपटुजीवनिकायनिष्कम्भनविकल्पपरिष्कारि-
याभिलाषविकल्पवाच्यव्यावर्थात्मन शुद्धस्वरूपे सयमनात् १४। ज्ञेय-
ज्ञातृत्वतथाप्रतीतिलक्षणेन सम्यग्दर्शनपर्यायेण ज्ञेयज्ञातृत्वतथा-
नुभूतिलक्षणेन ज्ञानपर्यायेण ज्ञेयज्ञातृक्रियान्तरनिवृत्तिलक्षणेन चारित्र-
पर्यायेण च त्रिभिरपि यौगपद्भ्येन परिणतस्यात्मनि यदात्मनिष्ठत्वे
सति सयतत्वं १२४२। = १ समस्त छह जीवनिर्णयके हननके
विकल्पसे और पचेन्द्रिय सम्बन्धी अभिलाषाके विकल्पसे
आरमाको व्यावृत्त करके आत्मा शुद्धस्वरूपमें सयमन करनेसे
(सयमयुक्त है) । २ ज्ञेयत्व और ज्ञातृत्वकी तथा प्रकार प्रतीति,
तथा प्रकार अनुभूति और क्रियान्तरसे निवृत्तिके द्वारा रचित उसी
त्वमें परिणति, ऐसे लक्षणवाले सम्यग्दर्शन ज्ञान व चारित्र इन
तीनों पर्यायोंकी युगपत्ताके द्वारा परिणत आरमामें आरमनिष्ठता
होनेपर जो सयतपना होता है ।

प ध/उ/१११७ शुद्धस्वार्थोपलब्धि स्यात् सयमो निष्क्रियस्य च ।
= निष्क्रिय आरमाके स्वशुद्धात्मागी उपलब्धि ही सयम कर्लाता है ।

४ सयम मार्गणाकी अपेक्षा भेद व लक्षण

प, ख १/१.२/सूत्र १२३/३६८ सजमाण्वादेण अरिथ सजदा सामाह्य-
छेदोवट्टावणशुद्धिसजदा परिहारसुद्धिसजदा सुहुमसांपराह्यसुद्धि-
सजदा जहावखादविहारसुद्धिसजदा सजदासजदा असजदा चेदि ।
१२३। = सयम मार्गणाके अनुवासे सामायिक शुद्धिसयत, छेदो-
पस्थापनाशुद्धिसयत, परिहारशुद्धिसयत, सूक्ष्मसाम्पराय शुद्धिसयत
और यथाख्यातविहारशुद्धिसयत ये पाँच प्रकारके सयत तथा सयता-
सयत और असयत जीव होते हैं । १२३। (इ स/टी/१३/३८/२) ।
दे चारित्र/१/२२ [सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्म-
साम्पराय और यथाख्यात ऐसे चारित्र पाँच प्रकारके हैं ।]
नोट— [इनके लक्षणोंके लिए—दे वृह वृह नाम ।]

५ निक्षेपोंकी अपेक्षा भेद व लक्षण

ध ७/१.१.४८/६१/५ णयसजमो ठवणसजमो ढवसजमो भावसजमो
चेदि चउत्तिहो सजमो । तवपरित्तदव्वसजमो सजमसाहण-
पिच्छाहारकत्तीपोस्थयादीणि । भावसजमो दुविहो आगमणो-
आगमभेएण । आगमो गधो । णोआगमो तिविहो खइओ खओवस-
मिओ उवसमिओ चेदि । = नामसंयम, स्थापनासयम, द्रव्यसयम
और भावसयम । इन प्रकार सयम चार प्रकारका है । (नाम स्थापना
आदि भेद-प्रभेद निक्षेपवत् जानने) । तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्य-
सयम सयमके साधनभूत पिच्छिका, आहार, कण्ठलु, पुस्तक
आदिको कहते हैं । भावसयम आगम और नोआगमके भेदसे दो
प्रकारका है—आगमभावसयम तो गया, अर्थात् निक्षेपवत् जानना ।
नोआगम भावसयम तीन प्रकारका है—क्षायिक, क्षायोपशमिक और
औपशमिक । [तहाँ क्षायोपशमिक सयमके लिए—दे सयत/२ और
औपशमिक व क्षायिकके लिए—दे. श्रेणी] ।

६ सकल व देश संयमकी अपेक्षा

चा पा/मू/२१ दुविह सजमचरण सायार तह हवे गिरायारं । सायारं
सगथे परिग्गहा रहिय खलु गिरायार । २१। = सयम चरण चारित्र दो
प्रकारका है—सागार तथा निरागार । सागर तो परिग्रहसहित श्रावक
के होता है, गृहिर निरागार परिग्रहसे रहित मुनिके होता है । २१।
र क था/५० सकल विकल चरण तरसकल सर्वसगविरतानाम् । अन-
गाराणा विकल सागाराणां ससगानाम् । ५०। = वृह चारित्र सकल
और विकलके भेदसे दो प्रकारका है । समस्त प्रकारके परिग्रहसे रहित
मुनियोंके सकल चारित्र और गृहस्थोंके विकल चारित्र होता है ।
पु सि उ/४० हिंसातोऽतृत्वचनास्त्वैयाद्वन्नह्यत परिग्रहत् । कात्स्न्यै-

कदेशविरतोऽचारित्रं जायते द्विविधम् । ४०। = हिंसा, असत्य, चोरी,
कुशील और परिग्रह इन पाँचोंके सर्वदेश व एकदेश त्यागमे चारित्र
दो प्रकारका होता है । (दे व्रत/३/१) ।

ल सा/मू/१६८/२२१ दुविहा चरित्तनद्धो देमे सयने । = चारित्रकी
लब्धि सकल व देशके भेदमे दो प्रकार है ।

प का/ता वृ/१६०/२३१/१३ चारित्र तपोधनानामाचागादिचरणग्रन्थ-
विहितमार्गेण प्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थानयोग्य पञ्चमहाव्रतपञ्चममिति-
त्रिगुणसिद्धावश्यकदिरूपम् गृहस्थानां पुनरुपासकाध्ययनग्रन्थ-
विहितमार्गेण पञ्चमगुणस्थानयोग्य दानशीलपूजोपवासादिरूपं दार्शन-
निवावतिनाथकादशनिनयरूपं वा इति । = मुनियोंका चारित्र
आचारांग आदि चारित्र विषयक ग्रन्थोंमें रचित मार्गमे प्रमत्त व
अप्रमत्त इन दो गुणस्थानोंके योग्य (दे संयत) पंच महाव्रत पंच
समिति, त्रिगुण, छह आवश्यक आदि रूप होता है (दे मयम/१/०)
और गृहस्थांका चारित्र उपासनाध्ययन आदि ग्रन्थोंमें रचित मार्गसे,
पंचमगुणस्थानके योग्य (दे मयतामयत) दान शील, पूजा, उप-
वास आदि रूप होता है । अथवा दार्शनिक प्रतिमा, व्रतप्रतिमा
आदि ११ स्थानोंरूप होता है—(दे श्रावक) ।

सिद्धान्त प्रवेक्षिका/२२५-२२५ श्रावकके व्रताकी देशचारित्र कहते
हैं । २२५। मुनियोंके व्रतोंको मकल चारित्र कहते हैं । २२५।

७. अपहृत व उपेक्षा संयम निर्देश

१ लक्षण

रा वा/६/१५/६६६/२६ सयमो हि द्विविध — उपेक्षानमोऽपहृत-
संयमश्चेति । देशकालविधानज्ञस्य परानुपरोधेन उत्सृज्यस्य
त्रिधा गुणस्य गगनैपानभिष्वङ्गलक्षण उपेक्षासयम । अपहृतसयम-
स्त्रिविध उत्कृष्टो मध्यमो जघन्यश्चेति । तत्र प्रासुकवस्त्याहार-
मात्रबाह्यसाधनस्य स्वाधीनेतृज्ञानचरणकरणस्य बाह्यजन्तूपनिपाते
आरमान ततोऽपहृत्य जीवात् प्रतिपालयत उत्कृष्ट, मृदुना प्रमुच्य
जन्तून् परिहरतो मध्यम, उपारणान्तरेच्छया जघन्य । = संयम
दो प्रकारका होता है—एक उपेक्षा मयम और दूसरा अपहृत सयम ।
देश और कालके विधानको समझनेवाले स्वाभाविक रूपमे शरीरमे
विरक्त और तीन गुणियोंके धारक व्यक्तिये राग और द्वेषरूप चित्त-
वृत्तिका न होना उपेक्षासयम है । अपहृतसयम उत्कृष्ट मध्यम और
जघन्यके भेदसे तीन प्रकार है । प्रासुक, बसति और आहारमात्र है ।
बाह्यसाधन जिनके, तथा स्वाधीन हे ज्ञान और चारित्ररूप करण
जिनके ऐसे साधुका बाह्य जन्तुओंके आनेपर उनसे अपनेको बचाकर
सयम पालना उत्कृष्ट अपहृत सयम है । मृदु उपकरणसे जन्तुओंको
बुहार देनेवाले मध्यम और अन्य उपकरणोंकी इच्छा रखनेवालेके
जघन्य अपहृत सयम होता है । (चा सा/६६/७-७६/२) (और भी
दे सयम/१/६) ।

नि सा/ता वृ/६५ अपहृतसयमिनां सयमज्ञानाद्युपकरणग्रहणविसर्ग-
समयसमुद्भवसमितिप्रकारोक्तिरियम् । उपेक्षासयमिनां न पुस्तक-
कमण्डलुप्रभृत्य अतस्ते परमजिनमुनय एकांततो निस्पृहा
अतएव बाह्योपकरणनिर्मुक्ता । = यह अपहृतसयमियोंको सयम-
ज्ञानादिकके उपकरण लेते, रखते समय उत्पन्न होनेवाली समितिका
प्रकार कहा है । उपेक्षा सयमियोंको पुस्तक, कमण्डलु आदि नहीं
हाते, वे परम जिनमुनि एकांतमें निस्पृह होते हैं, इसलिए वे बाह्य
उपकरण रहित होते हैं ।

२. दोनोंकी वीतराग व सराग चारित्रके साथ एकार्थता

प. प्र/टी/२/६७/१८८/१५ अथवोपेक्षासंयमापहृतसयमौ वीतरागसरागा-
परनामानौ तावपि तेषामेव सभवत । = उपेक्षासयम और अपहृत-
सयम जिनको कि वीतराग व सराग सयम भी कहते हैं, ये दोनों
भी उन शुद्धोपयोगियोंको ही होते हैं ।

दे चारित्र/१/१४.१६ [अपवाद, व्यग्रहारनय, एकदेश परित्याग, अप-
दत्तमयम, सरागचारित्र, शुभापयग ये सत्र शब्द, तथा उत्सर्ग,
निश्चयनय सर्गपरित्याग, पग्नोपेमासयम, वीतरागचारित्र, शुद्धो-
पयोग ये सत्र शब्द एकार्यवाची हे ।

३. अपहृतसयमकी विशेषताएँ

दे सयम/१/२ [अपहृत सयम दो प्रकारका है—इन्द्रिय सयम आर
प्राणि सयम ।]

दे शुद्धि/२ [इस अपहृत सयममें भाव, काय, विनय आदिके भेदसे आठ
शुद्धियोंका उपदेश है ।]

८ प्राणि व इन्द्रिय संयमके लक्षण

दे असयम [असयम दो प्रकारका है—प्राणि असयम और इन्द्रिय
असंयम । तहाँ पटकाय जीवोंकी विराधना प्राणि असयम है और
इन्द्रिय विषयोंमें प्रवृत्ति इन्द्रिय असयम है । (इससे विपरीत प्राणि
व इन्द्रिय सयम है—यथा)]

मू आ./४१८ पचरस पचवर्ण दोगधे अट्टाफास सत्तमशा । मणसा
चोदसजीवा इन्द्रियपाणा य सजमो जेओ । = पाँच रस, पाँच वर्ण,
दो गन्ध, आठ स्पर्श, पड़ज आदि सात स्वर ये सब मनके २८ विषय
हैं । इनका निराध सा इन्द्रिय सयम है और चौदह प्रकारकी जीवों-
की (दे जीव समास) रथा करना सो प्राणिसयम है ।

प स./प्रा/१/१२८ सगवण जीवहिंसा अट्टावीसिदियस्थ दोसा य ।
तेहिंता जो विरओ भावो सो संजमो भणिओ । १२८ । = पहले जीव-
समास प्रकरणमें जो सत्तावन प्रकारके जीव बता आये हैं (दे जीव-
समास) उनकी हिंसासे तथा अट्टाईस प्रकारके इन्द्रिय विषयोंके (दे
सन्दर्भ सं १) दोषोंसे विरति भावका होना सयम है । १२८ ।

स सि/६/१२/३३१/११ प्राणीन्द्रियेणशुभप्रवृत्तिविरति सयम ।

स सि/६/१२/१२/१ ममितिपु प्रवर्तमानस्य प्राणीन्द्रियपरिहारसयम ।
= १ प्राणियों व इन्द्रियोंके विषयोंमें अशुभ प्रवृत्तिके त्यागको सयम
कहते हैं । (रा वा/६/१२/६/७२२/२१) । २ समितियोंमें प्रवृत्ति
करनेवाले मुनिके उनका परिपालन करनेके लिए जा प्राणियोंका और
इन्द्रियोंका परिहार हाता है वह सयम है । (रा वा/६/६/१४/-
६६६/२६), (चा सा/७७/१), (त सा/६/१८), (प वि/११/६६)

रा वा/६/६/१४/६६६/२७ एकेन्द्रियादिप्राणिपीडापरिहार प्राणिसयम ।
शब्दादिपिन्द्रियार्थेषु रागानभिष्वङ्ग इन्द्रियसयम । = एकेन्द्रियादि
प्राणियोंकी पीडाका परिहार प्राणिसयम है और शब्दादि जो
इन्द्रियोंके विषय उनमें रागका प्रभाव सो इन्द्रिय संयम है । (चा
स/७५/१), (अन ध/६/३७-३८/७६१)

का अ/मू/३६६ जा जीवरवखणपरो गमनागमणादिसव्वकज्जेमु ।
तण्हेद पिण इच्छदि मजमधम्मो हवे तस्स । = जीव रक्षामें तपर
जा मुनि गमनागमन आदि सत्र कार्योंमें तृणका भी छेद नहीं करना
चाहता उस मुनिके (प्राणि) सयम धर्म हाता है । ३६६ ।

नि सा/ता वृ/१२३ मयम सकलेन्द्रियव्यापारपरित्याग । = समस्त
इन्द्रियोंके व्यापारका परित्याग सो सयम है ।

प ध/उ/११९८-११२२ पञ्चानामिन्द्रियाणां च मनसश्च निरोधनात् ।
स्यादिन्द्रियनिरोधाख्य सयम प्रथमो मत । ११९८ । स्थावराणां च
पञ्चानां प्रसस्नापि च रक्षणात् । अमुसरक्षणाख्य स्याद्विद्वितीय
प्राणसयम । ११९९ । सरयमस्यार्थस्यपञ्चाङ्गान नामयमाय यत् । तत्र
रागादिबुद्धिर्था सयमस्तत्रिरोधनम् । ११९९ । प्रसत्थावरजीवाना न
वधायोक्त मन । न वचो न वपु वत्रापि प्राणिमरक्षण स्मृतम्
। ११९९ । = पाँचो इन्द्रियों व मनके रोकनेसे इन्द्रिय सयम और प्रस
स्थावरोंकी रक्षा प्राणसयम है । ११९८-११९९ । इन्द्रियों द्वारा जा
अ विषयक ज्ञान हाता है या असयम नहीं है, किन्कि उन विषयोंमें
राग बुद्धि का न होना इन्द्रिय सयम है । ११९९ । और इसी प्रकार प्रम

व स्थावर जीवोंमेंने त्रिनीके भी वधके लिए मन, वचन व कायका
उद्यत न हाना सो प्राणिसयम है । ११९९ ।

९ प्राणि व इन्द्रिय संयमके १७ भेद

मू आ/४१६-४१७ पृथग्द्विगतैरुवाज्जगत्पक्षीसजमो य बोधव्यो ।
विगतचदुपचैदिय अजीवकामेमु मजमण । ४१६ । अप्पटिनेहं दुप्प-
टिलेहमुवेकवावहरणदु सजमो चैव । मणवयणकायमजम सत्तमम विधो
दु णादवो । ४१७ । = पृथिवी, अप, तेज, वायु व वनस्पति ये पाँच
स्थावरकाय और दो, तीन, चार व पाँच इन्द्रियवाले चार प्रस जीव
इनकी रक्षामें ६ प्रकार तो प्राणि सयम है, सृष्टे तृण आदिजा छेदन
न करना ऐसा १ भेद अजीवकायकी रथारूप है । ४१६ । अप्रतिनेरन,
दुप्पटिनेखन, उपेक्षासयम, अवहृतसयम, मन, वचन व काय सयम,
इस प्रकार कुल मिनरर १७ सयम हाते हैं । ४१७ । (यहाँ पीछीसे
द्रव्यका जोधन सो प्रतिलेख सयम है और अप्रमाद रहित यत्नपूर्वक
जोधन दुप्पटिलेख सयम है ।)

२. नियम व शका-समाधान आदि

१. सयम व विरतिमें अन्तर

ध १४/६.६.२६/१२/१ सजम-विगर्हण को भेदा । मसमिदिमहव्यायुव-
याड सजमो । ममईहिं विणा महव्यायुवया विरई । = प्रश्न—
सयम और विरतिमें क्या भेद है ? उत्तर—ममिनियकिं माथ महावत
और अणुवत सयम कहलाते हैं । और ममितियोंके बिना महावत
और अणुवत विरति कहलाते हैं । (चा सा/४०/१)
दे संवर/२/७ [विरति प्रवृत्तिरूप होती है और सयम निवृत्ति रूप]

२. सयम गुप्ति व समितिमें अन्तर

रा वा/६/६/११-१५/७६६/१५ अथ क संयम । कश्चिदाह—भाषादि-
निवृत्तिरिति । न भाषादिनिवृत्ति सयम गुप्त्यन्तर्भावात् । ११ ।
गुप्तिर्हि निवृत्तिप्रणया, जतोऽत्रान्तर्भावात् सयमाभाव स्यात् ।
अपरमाह—कायादिप्रवृत्तिविशिष्टा सयम इति । नापि कायादि-
प्रवृत्तिविशिष्टा, ममितिप्रसृतात् । १२ । समितयो हि कायादिदोष-
निवृत्तय, अतस्तत्रान्तर्भावात् प्रमज्यते । प्रमन्थावरवधप्रतिषेध आख्य-
न्तिक सयम इति चेत्, न, परिहागर्वदुद्धिचारित्रान्तर्भावात् । २० ।
कस्तर्हि सयम । ममितिपु प्रवर्तमानस्य प्राणीन्द्रियपरिहार
सयम । १४ । अतोऽप्यतसयमभेदसिद्धिः । १५ । = १ काई भाषादिकी
निवृत्तिको सयम कहता है, पर वह ठीक नहीं है, क्योंकि उसका
गुप्तिमें अन्तर्भाव हो जाता है । गुप्ति निवृत्तिप्रधान हाती है इसलिए
उपरोक्त लक्षणमें सयमका जभाव है । २ काय आदिको प्रवृत्तिका
भी सयम कहना ठीक नहीं है, क्योंकि काय आदि दापीनी निवृत्ति
करना समिति है । इसलिए इस लक्षणका समितिमें अन्तर्भाव हो
जानेसे वह सयम नहीं हो सकता । ३ प्रमन्थावर जीवोंके वधका
आख्यन्तिक प्रतिषेध भी सयम नहीं है क्योंकि परिहार त्रिवृद्धि
चारित्रमें अन्तर्भाव हो जाता है । ४ प्रश्न—तत्र फिर सयम क्या
है ? उत्तर—ममितियमें प्रवर्तमान जीवके प्राणिवध व इन्द्रिय
विषयोंका परिहार संयम कहलाता है । ५ मने अपहृत सयमके भेदों-
की सिद्धि हाती है । (जहाँच अपहृत सयम दो प्रकारका है—प्राणि-
सयम व इन्द्रिय सयम ।) (चा मा/७५/१), (जन ध/६/२७/-
५६१)

३. चारित्र व संयममें अन्तर

रा वा/६/२८/७/६२८/७ स्यादेतत् वदाविधो धर्मो व्या-गत, तत्र
सयमेऽन्तर्भावात्स्य प्राप्नन्तीति तत्र, त्रि कारणम् । ज ते तत्रमस्य
वृत्तकर्मस्यहेतुत्वात् । धर्मो जन्तर्भूतमपि चारित्रमन्तं गृह्णते मोक्ष-

संयोगवाद—

गो क/मू/८६२/१०७२ सजोगमेवेति वदति तण्णा णेवेगकचक्केण र्हो पयादि । अधो य पयू य वर्णं पविट्ठा ते सगजुत्ता णयइ पविट्ठा । ८६२१ = यथार्थज्ञानी संयोग ही को सार्थक मानते है । उनका कहना है कि जैसे एक पहियेरी रथ नहीं चलता और वनमें प्रविष्ट अन्धा और पागला एक दूसरेके सप्रयोगसे दानागिनसे अपनी रक्षा करके नगरमें प्रवेश कर जाते है, उसी प्रकार वस्तुओंके संयोगसे ही सर्वार्थ-सिद्धि होती है । ८६२१।

नोट—[उपरोक्त बात मिथ्या एकान्तरूप संयोगवादके सम्बन्धमें कही गयी है, पर मिलकुल यही बात इसी उदाहरण सहित सम्यग्दर्शन ज्ञान व चारित्रिकी मैत्री दक्षानिके लिए आगममें कही गयी— दे मोक्ष-मार्ग/१/२/२१ वा] ।

संयोग सम्बन्ध—१. लक्षण सामान्य

स सि/६/६/३२६/१० सयुजाते इति संयोगो मिश्रीकृतम् । = संयोगका अर्थ मिश्रित करना अर्थात् मिनाना है । (रा वा/६/६/२/४१६/१) । रा वा/४/१६/२७/१२ अप्राप्तिपूर्विका हि प्राप्ति संयोग । = आपके (वैशेषिकोंके मतमें) अप्राप्ति पूर्वक प्राप्ति को संयोग कहा है । (स, म/२७/३०२/२६) ।

घ. १५/२४/२ को संजोगो । पुष्पसिद्धाण मेलण संजोगो । = पृथक् सिद्ध पदार्थोंके मेलको संयोग कहते है ।

मू. आ/४८ को वसुनन्दि कृत टीका—अनात्मोपस्थानभाव संयोग । = अनात्मोप पदार्थोंमें आत्मभाव होना संयोग है ।

दे द्रव्य/१/१० [पृथक् सत्ताधारी पदार्थोंके संयोगसे संयोग द्रव्य बनते है, जैसे छत्री, मौली आदि] ।

२. संयोगके भेद व उनके लक्षण

घ. १४/६/६/२२/२७/३ तस्य संजोगो दुविहो देसपच्चासत्तिको गुण-पच्चासत्तिको चेदि । तस्य देसपच्चासत्तिको णाम दोण्ण दब्बाण-मवयवफास काऊण जमच्छण सो देसपच्चासत्तिको संजोगो । गुणेहि जमण्णेणाणुहरण सो गुणपच्चासत्तिको संजोगो । = संयोग दो प्रकारका है—देशप्रत्यासत्तिकृत संयोगसम्बन्ध और गुणप्रत्यासत्तिकृत संयोगसम्बन्ध । देशप्रत्यासत्तिकृत अर्थ है दो द्रव्योंके अवयवोंका सम्बन्ध होकर रहना, यह देशप्रत्यासत्तिकृत संयोग है । गुणों द्वारा जो परस्पर एक दूसरेको ग्रहण करना वह गुणप्रत्यासत्तिकृत संयोगसम्बन्ध है ।

* संयोग व बन्धमें अन्तर—दे युति ।

* द्रव्य गुण पर्यायमें संयोग सम्बन्धका निरास

—दे द्रव्य/४।

संयोगाधिकरण—दे अधिकरण ।

संयोजन—आहारका एक दोष—दे आहार/११/४।

संयोजना सत्य—दे सत्य/१।

संरम्भ—स सि/६/८/३२६/३ प्राणव्यपरोपणादिषु प्रमादवत् प्रयत्ना-वेग सरम्भ । = प्रमादी जीवोंका प्राणोंकी हिसा आदि कार्यमें प्रयत्नशील होना सरम्भ है । (रा वा/६/८/२/६१३/३२), (चा सा/८७/४) ।

संवत्सर—१ वीरसवत्, विक्रमसवत्, शकसवत्, ईस्वी सवत्, गुप्त सप्तमीका निर्देश—दे इतिहास/२। २ कालका एक प्रमाण विशेष । अरर नाम वर्द—दे गणित/११।

संवर—मिथ्यात्व, अनिश्चित, प्रमाद, कपाय और मन, वचन, काय की प्रवृत्ति ये सब कर्मोंके आनेके द्वार होनेसे आत्म्य है । इनके विपरीत सम्यक्त्व देश व महावत्, उप्रमाद, मोह व कपायहीन शुद्धात्म परिणति तथा मन, वचन, कायके व्यापारही निवृत्ति ये सब नवीन कर्मोंके निरोधके हेतु होनेसे संवर है । तहाँ समिति गुप्ति आदि रूप जीवके शुद्धभाव तो भाव संवर है और नवीन कर्मोंका न आना द्रव्य संवर है ।

१. संवर सामान्य निर्देश

१ संवर सामान्यका लक्षण

त सू/६/१ आयवनिरोध संवर । १। = आत्मवत्ता निरोध संवर है । रा वा/१/४/११.२.६/५८/५८ पक्ति सन्नियतेऽनेन संवरणमात्रं वा संवर, (११/२६/६) । संवर द्वा संवर । क उपमार्थ । यथा सुगुप्तमृगवृत्त-द्वारक्याट पुर सुरक्षित दुग्मादमारतिभिर्भगति, तथा सुगुप्ति-समितिधर्मात्रुप्रेक्षापरीपहजयचारित्रात्मन सुमवृत्तिन्द्रियत्रयायोगस्य अभिनवकर्मगमद्वारसंवरणात् संवर । (१८/२८/४) ।

रा वा/६/१/१.२.६/५८७ कर्मागममित्ता प्रादुर्भूतिरारुग्निरोध । १। तन्निरोधे मति तत्पूर्वकर्मदानाभाव संवर । २। मिथ्यादर्शनादि-प्रत्ययकर्मसंवरण संवर । १। = १ जिनमें कर्म रुके वह कर्मोंका रुकना संवर है । ११। संवरकी भाँति संवर होता है । जैसे जिस नगरके द्वार अच्छी तरह बन्द हों, वह नगर शत्रुओंको अगम्य है, उसी तरह गुप्ति, समिति, धर्म अनुप्रेक्षा, परीपहजय और चारित्रिके कर ली है मवृत्त इन्द्रिय कपाय व योग जिनके ऐसी आरमावे नवीन कर्मोंका द्वार रुक जाना संवर है । १८। २ अथवा मिथ्यादर्शनादि जो कर्मोंके आगमनके निमित्त है (दे० आसव) उनका अप्रादुर्भाव आसवका निराध है । १। उसके निरोध हो जानेपर, उस पूर्वक जो कर्मोंका ग्रहण पहले होता था, उसका अभाव हो जाना संवर है । १। अर्थात् मिथ्यादर्शन आदिक निमित्तसे होने वाले कर्मोंका रुक जाना संवर है । १।

भ आ/वि/२/८/१३४/१६ सन्नियते सरुध्यते मिथ्यादर्शनादि परिणामो येन परिणामान्तरेण सम्यग्दर्शनादिना गुप्त्यादिना वा स संवर । = जिस सम्यग्दर्शनादि परिणामोंसे अथवा गुप्ति, समिति आदि परिणामोंसे मिथ्यादर्शनादि परिणाम रोके जाते है वे रोकनेवाले परिणाम संवर शब्दसे कहे जाते है ।

न च. वृ/१४६ रु धिय छिद्रसहस्ते जन्जाणे जह जल तु णामवदि । मिच्छकाङ्क्षअभावे तह जीवे संवरो होई । १४६। = जिस प्रकार नावके छिद्र रुक जानेपर उसमें जल प्रवेश नहीं करता, इसी प्रकार मिथ्या-त्वादिका अभाव हो जानेपर जीवमें कर्मोंका संवर होता है, अर्थात् नवीन कर्मोंका आसव नहीं होता है ।

* संवरानुप्रेक्षाका लक्षण—दे० अनुप्रेक्षा

२ द्रव्य व भाव संवर सामान्य निर्देश

स सि/६/१/४०६/६ स द्विविधो भाजसवरो द्रव्यसंवरचेति । तत्र ससारनिमित्तक्रियानिवृत्तिर्भावसंवर । तन्निरोधे तत्पूर्वकर्मपुद्ग-गलादानविच्छेदो द्रव्यसंवर । = वह दो प्रकारका है—भावसंवर और द्रव्यसंवर । ससारकी निमित्तभूत क्रियाको निवृत्ति होना भावसंवर है, और इनका (उपरोक्त क्रियाका) निरोध होनेपर तत्पूर्वक होने वाले कर्मपुद्गलोंके ग्रहणका विच्छेद होना द्रव्यसंवर है । (रा. वा/६/१/७-६/६८०/१), (ज्ञा/२/८/१-३) ।

द्र स/मू/२४-३५ चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेतू । सो भावसवरो खलु दग्गामवरोहणे अणो । २४। वदसमिदीगुत्तीओ धम्मणुपेहा परीसहजओ य । चारित्त बहुमेया णायव्वा भावसंवर-

विसेसा १३५। = आत्माका जो परिणाम कर्मके आस्रवको रोकनेमें कारण है, उसको भाव संवर कहते हैं और जो द्रव्यास्रवको रोकनेमें कारण है द्रव्य संवर है १३४। पाँचवत, पाँचममिति, तीनगुप्ति, दशधर्म, बारह अनुप्रेक्षा, बाईस परीपहजय तथा अनेक प्रकारका चारित्र इस तरह ये सब भाव संवरके विशेष जानने चाहिए १३५।

प्र. स/टी/३४/६६/१ निरास्रवसहजस्वभावस्वात्सर्वकर्मसंवरहेतुरित्युक्त-लक्षण परमात्मा तत्स्वभावेनोत्पन्नो योऽसौ शुद्धचेतनपरिणामः स भावसंवर भवति । यस्तु भावसंवरत्कारणभूतादुत्पन्न कार्यभूतो नवतरद्रव्यकर्मगमनाभाव स द्रव्यसंवर इत्यर्थः । = आस्रवविरहित सहजस्वभाव होनेसे सब कर्मोंके रोकनेमें कारण, जो शुद्ध परमात्मतत्त्व है उसके स्वभावसे उत्पन्न जो शुद्धचेतन परिणाम है सो भावसंवर है। और कारणभूत भावसंवरसे उत्पन्न हुआ जो कार्यरूप नवीन द्रव्यकर्मोंके आगमनका अभाव सो द्रव्यसंवर है। यह गाथार्थ है।

३. संवरके निश्चय हेतु

स. सा/मू/१८७-१८९ अप्पाणमप्पणा रु धिऊण दोपुण्णपावजोएसु । दसण्णाणमिह्ठिदो इच्छाविरदो य अण्णमिह्ठि १८७। जो अस्वमगमुक्को भायदि अप्पाणमप्पणो अप्पा । णवि कम्म णोकम्म चेदा चित्तेदि एयत्त १८८। अप्पाणं भायंतो दसण्णाणमओ अण्णमओ । लहइ अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मविप्पमुक्को १८९। [एष संवरप्रकार — स सा/आ/१८९] = आत्माको आत्माके द्वारा जो पुण्यपापरूपी शुभाशुभ योगोंसे रोककर दर्शनज्ञानमें स्थित होता हुआ और अन्य वस्तुकी इच्छासे विरत होता हुआ १८७। जो आत्मा सर्वसंगसे रहित होता हुआ अपने आत्माको आत्माके द्वारा ध्याता है और कर्म तथा नोकर्मको नहीं ध्याता एव चेतयिता (होनेसे) एकस्वको ही चिन्तवन करता है, अनुभव करता है १८८। वह (आत्मा) आत्माको ध्याता हुआ दर्शनज्ञानमय और अनन्यमय होता हुआ अवपकालमें ही कर्मोंसे रहित आत्माको प्राप्त करता है १८९। यह संवरकी विधि है।

स सा/आ/१८३/क १०६ के पीछे—भेदविज्ञानाच्छुद्धात्मोपलम्भ प्रभवति । शुद्धात्मोपलम्भात् रागद्वेषमोहाभावलक्षण संवर प्रभवति । = भेद विज्ञानसे शुद्धात्माकी उपलब्धि होती है और शुद्धात्माकी उपलब्धिसे राग द्वेष मोहका अभाव जिसका लक्षण है ऐसा संवर होता है।

प्र स/टी/२८/८५/१२ कर्मास्रवनिरोधसमर्थस्वसचित्तिपरिणतजीवस्य शुभाशुभकर्मगमनसंवरण संवरः । = कर्मोंके आस्रवको रोकनेमें समर्थ स्वानुभवमें परिणत जीवके जो शुभ तथा अशुभ कर्मोंके आनेका निरोध है वह संवर है। (पं. वा/ता वृ/१४४/२०६/१०)।

४. संवरके व्यवहार हेतु

त. मू/६/२ स गुप्तिमितिधर्मनुप्रेक्षापरिपहजयचारित्रै १२। = वह संवर गुप्ति समिति दशधर्म, बारह अनुप्रेक्षा, बाईस परिपहजय और सामायिकादि पाँच प्रकार चारित्र इनसे होता है। (रा वा/१/७/१४/४०/१२), (का अ/मू/६६), (दे मर/१/१)।

का आ/मू/६५.१०१ सम्मत्त देनवय महजय तह जओ कसायाण । एदे संवरणमा जोगाभावो तथा चेव १६५। जो पुण विसयविरत्तो अप्पाण सव्वदो वि संवरए । मणहरविसएहिंतो तस्स फुड संवरो होदि १०१। = १ सम्यक्त्व, देशव्रत, महाव्रत कपायोंका जीतना और योगोंका अभाव ये सब संवरके नाम हैं १६५। [(दे संवर/०/२) — मिध्यात्व अविरति आदि जो पाँच धन्धके हेतु कहे गये हैं, उनमें विपरीत ये सम्यक्त्व आदि संवरके हेतु सिद्ध हैं।] (दे मर/१/१)। २ जो मुनि विषयोंसे विरक्त होकर, मनको हरनेवाले पाँचों इन्द्रियों-

के विषयोंसे अपनेको गदा दूर रखता है, उनमें प्रवृत्ति नहीं करता, उसी मुनिके निश्चयसे संवर होता है १०१।

दे संवर/१/२/प्र, स [उपरोक्त समिति गुप्ति आदि भाव संवरके विशेष है।]

प्र स/टी/३४/१८६/६ निरास्रवशुद्धात्मतत्त्वपरिणतिरूपस्य संवरस्य कारणभूता द्वादशानुप्रेक्षा । = निरास्रव शुद्धात्मतत्त्वकी परिणतिरूप जो संवर है उसकी कारणरूप बारह अनुप्रेक्षा है। [अर्थात् शुद्धात्मानुभूति तो संवरमें तारण है, और अनुप्रेक्षा तथा अन्य समिति गुप्ति आदि संवरके उस कारणके भी कारण है।]

दे तप/४/४ [तप संवर व निर्जरा दोनोका कारण है।]

* कर्मोंके संवरकी ओघ आदेश प्रदपणा

—दे प्रकृतिबन्ध/७।

* निर्जरामे संवरकी प्रधानता—दे निर्जरा/२।

* संवर व निर्जरारं कारणोंकी समानता—दे निर्जरा/२/४।

२ निश्चय व्यवहार संवरका समन्वय

१. निश्चय संवरकी प्रधानतामें हेतु

स, सा/मू/१८६ [कथ शुद्धात्मोपलम्भादेव संवर इति चेत्—(उत्यानिका)]—सुद्ध तु वियाणतो सुद्ध चेव अप्पय लहइ जीवो । जाणता वु असुद्ध असुद्धमेवप्पयं लहइ १८६। = प्रश्न—शुद्धात्माकी उपलब्धि ही संवर कैसे है ? उत्तर—शुद्धात्माको जानता हुआ, अनुभव करता हुआ जीव शुद्धात्माको ही प्राप्त करता है और असुद्धात्माको जानता हुआ जीव असुद्धात्माको ही प्राप्त करता है १८६। (विशेष दे संवर/१/३)

प का/मू/१४२-१४३ जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व सव्वदब्बेसे । णासवदि सुह असुह समसुहदुक्खस्स भिन्नसुहस्स १४२। जस्स जदा खलु पुण्ण जागे पाव च णत्थि विरदस्स । संवरण तस्स तदा सुहासुहदस्स कम्मस्स १४३। = जिसे सर्वद्रव्योंके प्रति राग, द्वेष या मोह नहीं है, उस समसुख-दुःख भिक्षुको शुभ और अशुभ कर्म आस्रवित नहीं होते १४२। जिसे विरतरूप वर्तते हुए योगमें अर्थात् मन, वचन, काय इन तीनोंमें ही जब पुण्य व पापमेंसे कोई भी नहीं होता है, तब उसे शुभ व अशुभ दानों भावोंकृत कर्मका अर्थात् पुण्य व पाप दोनोंका संवर होता है १४३।

वा अ/६३ सुहजोगेसु पवित्ती संवरण कुणदि असुहजोगस्म । सुहजोगस्स विरोहो सुहधुवजाणेण सभवदि । = मन, वचन, कायकी शुभ प्रवृत्तियोंसे अशुभयोगका संवर होता है और शुद्धोपयोगसे शुभयोगका भी संवर हो जाता है ६३। (और भी दे संवर/२/४)

दे धर्म/७/१ [जब तक माधु आत्मस्वरूपमें लीन रहता है तब तक ही सकल विकल्पोंसे विहीन उस साधुको मर व निर्जरा जाननी चाहिए।]

२. व्यवहार संवर निर्देशमें हेतु

वा आ/६२ पचमहव्वयमणमा अतिरमणारोहण हने नियमा । कोहादि आसवाण दाराणि म्मायरहियण्णोहिं (१) ६२। = पाँच महाव्रतोंसे नियमपूर्वक पाँच अविरति रूप परिणामोंका निरोध होता है और कपाय रहित परिणामोंमें मोहादि रूप आसवोंके द्वारा रुक जाते हैं ६२।

ध ७/२.१०/गा २/६ मिच्छत्ताविरदो वि य क्मायजोगा य आगवा होंति २। = मिध्यात्व, अविरति, कपाय और राग ये कर्मोंके आस्रव हैं। तथा (इनमें विपरीत) सम्यग्दर्शन, विषयविरति, कपायनिग्रह, और मन, वचन, कायका निरोध ये संवर हैं २।

स सि /६/सूत्रस/पृष्ठ स /पक्ति स कायादियोगनिरोधे सति तत्रिमित्ते कर्म नास्रवतीति सवरप्रसिद्धिरवगन्तव्या । (४/४१२/६) । तथा प्रवर्तमानस्यासयमपरिणामनिमित्तकमस्त्रात्सवरो भवति । (६/४१६/११) । तान्येतानि धर्मव्यपदेशभाञ्जि स्वगुणप्रतिपक्षदोषसद्भावनाप्रणिहितानि सवरकाणानि भवन्ति । (६/४१६/६) । एवमनिश्चयत्वाद्युपदेशानिधाने उत्तमक्षमादिधारणान्महाद् सवरो भवति । (७/४१६/७) । एव परिपहाद् असकलपोपस्थिताद् सहामानस्यासंश्लिष्टचेतसो रागादिपरिणामास्रवनिरोधान्महान्सवरो भवति । (६/४२८/१) ।

रा वा /६/१८/१४/६१८/६ तदेतच्चारित्रं पूर्वास्रवनिरोधकारणस्वारणमसवरहेतुवसेय । =१ काय आदि योगोंका निरोध होनेपर योग निमित्तक कर्मका आस्रव नहीं होता है, इसलिए गुप्तिते सवरकी सिद्धि जान लेना चाहिए । (रा वा /६/४/४/६६८/२०), (त सा /६/६) । इस प्रकार समितियों रूप प्रवृत्ति करनेवालेके असयमरूप परिणामोंके निमित्तसे होनेवाले कर्मोंके आस्रवका सवर होता है । (रा वा /६/६/६/६६४/३२), (ता सा /६/१२) । इस प्रकार जीवनमें उतारे गये स्वगुण तथा प्रतिपक्षभूत दोषोंके [सद्भावमें यह लाभ और यह हानि है, इस तरहकी भावनासे प्राप्त हुए ये धर्मसंज्ञावाले उत्तम क्षमादिक सवरके कारण है । (रा वा /६/६/२७/६६६/३२), (त सा /६/२२) । इस प्रकार अनित्यादि अनु-प्रक्षाओका साञ्जिध मिलनेपर उत्तमभमादिके धारण करनेसे महाद् सवर होता है । (रा वा /६/७/११/६०७/६), (त सा /६/७६) । इस प्रकार जो सकल्पके विना उपस्थित हुए परिपहणोंको सहन करता है, और जिसका चित्त संवलेश रहित है, उसके रागादि परिणामोंके आस्रवका निरोध होनेसे महाद् सवर होता है । (रा वा /६/६/२८/६१२/२१), (त सा /६/४३) । २ यह सामायिकादि भेदरूप चारित्र पूर्व आस्रवोंके निरोधका हेतु होनेसे परमसवरका हेतु है । (त सा /६/१०)

३. व्रत समिति आदि वास्तवमें शुभास्रव है संवर नहीं

स सि /७/१ की उत्थानिका/३४२/२ आस्रवपदार्थों व्याख्यात । तत्रारम्भकाले एकोक्त 'शुभ पुण्यस्य' इति तत्सामान्येनेोक्तम् । तद्विशेष-प्रतिपत्त्यर्थं क पुन शुभ इत्युक्ते इदमुच्यते—हिंसावृत्तस्तैयान्मूलपरि-ग्रहेभ्यो विरतिर्न तम् । १। =आस्रव पदार्थका व्याख्यान करते समय उसके आरम्भमें 'शुभ योग पुण्यका कारण है' यह कहा है (त सू /६/३) । पर वह सामान्य रूपसे ही कहा है अत विशेषरूपसे उसका ज्ञान करानेके लिए शुभ क्या है ऐसा पूछनेपर आगेका सूत्र कहते है कि हिंसा आदिसे निवृत्त होना व्रत है ।

रा वा /७/१ की उत्थानिका/४३१/४ केस्ते क्रियाविशेषा प्रारम्भमाणा-स्तस्यास्रवा भवन्तीति । अत्रोच्यते—व्रतिभि । = प्रश्न--वे क्रिया विशेष कौन सी है, जिनके द्वारा कि उसके प्रारम्भ करनेवालोंको पुण्यका आस्रव होता है । उत्तर--व्रतरूप क्रियाओंके द्वारा पुण्यका आस्रव होता है ।

वे पुण्य/१/६ [जीव दया, शुभ योग व उपयोग, सरलता, भक्ति, चारित्रमें प्रीति, यम, प्रशम, व्रत, मेत्रे, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्य, आगमाभ्याम, सुगुणकाय योग, व कायोत्सर्ग आदिसे पुण्य कर्मका आस्रव हाता है ।]

वे तत्त्व/२/६ [पुण्य और पाप दोनों तत्त्व आस्रवमें अन्तर्भूत हे ।]

वे वेदनीय/४ [सराग सयम आदि सातावेदनीयके आस्रवके कारण है ।]

वे आयु/३/११ [सराग सयम व सयमासयम आदि देवायुके आस्रवके कारण है ।]

वे चारित्र/१/१२ [व्रत, समिति, गुप्ति आदि शुभ प्रवृत्ति रूप चारित्र है ।]

वे मनोयोग/६ [व्रत, समिति, शीघ्र, सयम आदिको शुभ मनोयोग जानना चाहिए ।]

४. व्रतादिसे केवल पापका सवर होता है

पं वा /सू./१४१ इदियकामयमणा णिगद्विदा जेहिं सुट्टु मग्गम्मि । जावत्तावत्तेहिं पिरिय पायासात्तच्छिद् । =जा भलीभाँति मार्गमें रहकर इन्द्रिय, वपाय और संज्ञाओंका जितना निग्रह करते है उतना आस्रवका छिद्र उतना बन्द होता है ।

द सं /टी/३६/१४६/६ एव व्रतसमितिगुप्तिधर्मद्वन्द्वानुपदेशापनीपहजय चारित्राणा भावसवरकारणभूतानां यद्द्वयान्वयान् कृत, तत्र निश्चयरत्न-त्रयसाधकव्यवहाररत्नत्रयरूपस्य शुभापयोगस्य प्रतिपादकानि यानि वाक्यानि तानि पापामयम्बरणानि ज्ञातव्यानि । यानि तु व्यवहार-रत्नत्रयसाधकस्य शुद्धपयोगलक्षणनिश्चयरत्नत्रयस्य प्रतिपादकानि तानि पुण्यपापद्वयसवरकारणानि भवन्तीति ज्ञातव्यम् । =इम प्रकार भावसवर कारणभूत व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म अनुप्रेक्षा, परीपह-जय और चारित्र इन सबका जो पहले व्याख्यान किया है (दे सवर/१/४) उस व्याख्यानमें निश्चय रत्नत्रयको माधनेयाना जो व्यवहार रत्नत्रयरूप शुभापयोग है, उम्का निम्पण करनेवाले जो वाक्य है वे पापास्रवके सवरमें कारण जानने चाहिए । और जो व्यवहार रत्नत्रयसे माध्य शुद्धीपयोग रूप निश्चय रत्नत्रयके प्रति-पादक वाक्य है वे पुण्य तथा पाप इन दोनों आत्मोंके सवरके कारण होते है, ऐसा समझना चाहिए ।

दे सवर/२/२ [शुभयोगरूप प्रवृत्तिसे अशुभयोगका सवर होता है और शुद्धीपयोगसे शुभयोगका भी ।]

दे निर्जरा/३/१ [सगगी जीवोंको निर्जरासे रात्रि अशुभकर्मका विनाश होता है, पर साथ ही शुभकर्मोंका बन्ध हो जाता है ।]

* सम्यग्दृष्टिको ही संवर होता है मिथ्यादृष्टिको नहीं
—दे मिथ्यादृष्टि/४/७ ।

* प्रवृत्तिके साथ भी निवृत्तिका अंश—दे चान्त्र/७/७ ।

५ निवृत्त्यंगके कारण ही व्रतादि संवर हैं

स सि /७/१/३४३/७ ननु चास्य व्रतस्यान्ववहेतुत्वमनुपपन्न सवरहेतुत्व-न्तर्भावात् । सवरहेतवो वक्ष्यन्ते गुप्तिममित्यादय । तत्र दशविधे धर्मे सयमे वा व्रतानामन्तर्भाव इति । नेप दोष, तत्र सवरों निवृत्ति-लक्षणा वक्ष्यते । प्रवृत्तिश्चात्र दृश्यते, हिंसावृत्तादत्तादानादिरपरियागे अहिंसासत्यवचनदत्तादानादिक्रियाप्रतीते गुण्यादिसवरपरिकर्म-त्वाच्च । व्रतेषु हि कृतपरिर्मा साधु सुखेन सवर करोतीति तत पृथक्त्वेनोपदेश क्रियते । =प्रश्न—यह व्रत आस्रवका कारण है यह बात नहीं बनती क्योंकि सवरके कारणोंमें इसका अन्तर्भाव होता है । आगे गुप्ति, समिति आदि सवरके कारण नहनेवाले है । वहाँ दस प्रकारके धर्मोंमें एक सयम नामका धर्म बताया है । उसमें व्रतोंका अन्तर्भाव होता है । उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ निवृत्तिरूप सवरका कथन करेंगे, और यहाँ प्रवृत्ति देली जाती है, क्योंकि, हिंसा, असत्य और अदत्तादान आदिका रथाग करनेपर भी अहिंसा, असत्य, वचन और दत्तवस्तुका ग्रहण आदिरूप क्रिया देगी जाती है । दूसरे ये व्रत, गुप्ति आदि रूप सवरके अंग है । जिस साधुने व्रतोंकी मर्यादा कर ली है, वह सुख पूर्वक सवर करता है, इसलिए व्रतोंका अलगसे उपदेश दिया है । (रा वा /७/१/१०-१४/६३४/१४) । त सा /६/४३, ५१ एवं भावयत साधोर्भवेद्धर्ममदोषम् । ततो हि निष्प्रमादस्य महाद् भवति सवर । १४३ तपस्तु वक्ष्यते लद्धि सम्य-ग्भावयती गते । स्नेहश्यामत्तथा योगरोधाद् भवति सवर । १४१ =इस प्रकार १२ अनुप्रेक्षाओंका चिन्तन करनेसे साधुके धर्मका महाद् उच्योत होता है, ऐसा करनेसे उसके प्रमाद दूर हो जाता है

और प्रमाद रहित होनेसे कर्माँका महात्त्व सवर होता है । ४३। तप आगे कहेंगे । उसकी यथार्थ भावना करनेवाले योगीका राग-द्वेष नष्ट हो जाता है, और योग भी रुक जाते हैं । इसलिए उसके सवर सिद्ध होता है । ४१।

दे उपयोग/II/३/३ [जितना रागाश है उतना बन्ध है और जितना बीतरागाश है उतना सवर है ।]

दे, निर्जरा/२/४ [जन तक आरम्भस्वरूपमें स्थिति रहती है तब तक सवर व निर्जरा होते हैं ।]

सर्वांगित—बर्णित सर्वांगितकरण विधि—दे, गणित/II/१/६।

संवाद—दे वाद ।

संवास अनुमति—दे अनुमति ।

संवाह—

ध १३/४ ५.६३/३३६/२ यत्र शिरसा धान्यमारोप्यते स संवाह ।
= नहाँपर शिरसे लेकर धान्य रखा जाता है उसका नाम संवाह है ।
म पु १६/१७३ संवाहस्तु शिरोव्यूढधान्यसजय इष्यते । १७३। = जहाँ मस्तक पर्यन्त ऊँचे-ऊँचे धान्यके ढेर लगे हों वह संवाहन कहलाता है ।

त्रि सा ६७४-६७६ संवाह । ६७४। मिन्धुवेनागनयित । ६७६। = समुद्रकी वेलासे वेष्टित स्थान संवाह कहलाता है ।

संवाहन—

ति प. ४/१४०० संवाहन ति बहुविहरणमहासेलसिहरत्थं । १४००।
= बहुत प्रकारके अरण्योंसे युक्त महापर्वतके शिखरपर स्थित संवाहन जानना चाहिए ।

संविद्व—स्या म १६/२२१/२८ सम्यग्वैपरीत्येन विद्यतेऽवगम्यते वस्तुस्वरूपमनयेति संविद्व । = जिससे यथार्थ रीतिसे वस्तुका ज्ञान हो उस ज्ञानको संविद्व कहते हैं ।

संविति—दे अनुभव/१।

संवृत—स सि ३/३२/१८७/११ सम्यग्वृत संवृत । संवृत इति दुरूपलक्ष्यप्रदेश इत्युच्यते । = भले प्रकारसे जो ढका हो उसे संवृत कहते हैं । यहाँ संवृत ऐसे स्थानको कहते हैं जो देखनेमें न आवे । (विद्येय दे योनि), (रा वा २/३२/३/१४१/२६)

संवृति सत्य—दे सत्य/१।

संवेग—१. ससारसे मयके अर्थमें

स सि ६/२४/३३८/११ ससारद्व खान्नित्यभीरुता संवेग = ससारके द्रु खोंसे निरत्य उरते रहना संवेग है (रा, वा, ६/२४/४/५२६/२५), (चा सा ४३/४), (भा पा ६/७७/२२१/७)

म आ./वि ३५/१२७/१३ सर्वांगी ससाराद् द्वयभावरूपात् परिवर्तनात् भयमुपगत । = संवेग अर्थात् द्वय व भावरूप पञ्चपरिवर्तन ससारसे जिसको भय उत्पन्न हुआ है ।

२ धर्मोत्साहके अर्थमें

ध. = ३.४१/८६/३ सम्मदसणणचरणेषु जीवस्स समागमो लद्धी णाम । हरिसो सत्तो संवेगो णाम । लद्धीप संवेगो लद्धिसंवेगो, तस्स सपण्णदा सपत्ती । = सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यमें जो जीवका समागम होता है उसे लद्धि कहते हैं, और हर्ष व सात्त्विक भावका नाम संवेग है । लद्धिसे या लद्धिमें संवेगका नाम लद्धि संवेग और उसकी सम्पन्नताका अर्थ सम्प्राप्ति है ।

प्र. स/टी ३५/११२/७ पर उद्धृत—धम्मं य धम्मफनम्हि दंसणे य हरिसो म हु ति संवेगो । = धर्ममें, धर्मके फलमें और दर्शनमें जो हर्ष होता है, वह संवेग है ।

ध /उ ४३१ संवेग परमोत्साहो धर्मं धर्मफले चित्त । सधर्मेष्वनुरागो वा प्रीतिर्वा परमेष्ठिषु । ४३१। = धर्ममें व धर्मके फलमें आत्माके परम उत्साहको संवेग कहते हैं, अथवा धार्मिक पुरुषोंमें अनुराग अथवा पञ्चपरमेष्ठियोंमें प्रीति रखनेको संवेग कहते हैं । ४३१।

* संवेगोत्पादक कुछ भावनाएँ—दे वैराग्य/२।

* अकेले संवेगसे तीर्थकरत्वके बन्धकी सम्भावना

—दे भावना/२।

२. संवेगमें शेष १५ भावनाओंका समावेश

ध. = ३.४१/८६/५ कथं लद्धिसंवेगसपयाए सेसकारणाणं सभवो । ण सेसकारणेहि विणा लद्धिसंवेगस्स सपया जुज्जदे, विराहादो । लद्धि-संवेगो णाम तिरयणदोहनओ, ण मो दसणविमुक्कदादीहि विणा सपुणो होदि, विप्पडिमेहादो हिरण्णसुवण्णादीहि विणा अद्धो व्व । तदो अप्पणो अतोविचसेसकारणा लद्धिसंवेगमपया छट्ट कारण । = प्रश्न—लद्धिसंवेग सम्पन्नतामें शेष कारणोंकी सम्भावना कैसे है ? उत्तर—क्योंकि शेष कारणोंके बिना विरुद्ध होनेसे लद्धिसंवेगकी सम्पदाका संयोग ही नहीं हो सकता । इसका कारण यह है कि रत्नत्रय जनित हर्षका नाम लद्धिसंवेग है । और वह दर्शनविशुद्धता-दिकोंके बिना सम्पूर्ण होता नहीं है, क्योंकि, इन्में हिरण्य सुवर्णा-दिकोंके बिना धनाढ्य होनेके समान विरोध है । अतएव शेष कारणोंको अपने अन्तर्गत करनेवालों लद्धिसंवेग सम्पदा तीर्थकर कर्म-बन्धका छटा कारण है ।

संवेजनीकथा—दे कथा ।

संव्यवहरण—आहारना एक दोष—दे आहार/II/४ ।

संशय—यह सोप है या चाँदी इस प्रकारके दो कोटिमें भूलनेवाले ज्ञानको संशय कहते हैं । देव व धर्म आदिके स्वरूपमें यह ठीक है या नहीं ऐसी दोलायमान श्रद्धा संशय मिथ्यात्व है । मम्यग्दर्शनमें क्षयोपशमकी हीनताके कारण संशय व संशयातिचार हो सकते हैं पर तत्त्वोंपर दृढ प्रतीति निरन्तर बने रहनेके कारण उसे संशय मिथ्यात्व नहीं होता ।

१ संशय सामान्यका लक्षण

रा वा १/६/६/३६/११ सामान्यप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषस्मृतेश्च संशय ।

रा वा १/१५/१३/६१/२७ किं शुक्लमुद कृष्णम् इत्यादि विशेषाप्रतिपत्ते संशय । = १ सामान्य धर्मका प्रत्यक्ष होनेपर और विशेष धर्मका प्रत्यक्ष न होनेपर किन्तु उभय विशेषोंका स्पर्श होनेपर संशय होता है । (और भी दे अग्रद्व/२/१) । २ 'यह शुक्ल है कि कृष्ण' इत्यादिमें विशेषताका निश्चय न होना संशय है ।

न्या दी १/६६/६/५ विरुद्धानेककोटिस्पर्शज्ञानं संशय, यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । स्थाणुपुरुषसाधारणोद्भवतादिधर्मदर्शनात्तद्विशेषस्य वक्रकोटरशिर पाण्थादे साधनप्रमाणाभावादानेककोट्यवलम्बित्व ज्ञानस्य । = विरुद्ध अनेक पक्षोंका अवगाहन करने वाले ज्ञानको संशय कहते हैं । जैसे—'यह स्थाणु है या पुरुष है', स्थाणु और पुरुषमें सामान्य रूपसे रहने वाले ऊँचाई आदि साधारण धर्मोंके देखने और स्थाणुगत देडपान, नाटग्रव आदि तथा पुरुषगत शिर, पैर आदि विशेष धर्मोंके माधक प्रमाणोंका अभाव होनेसे नाना कोटियोंको अवगाहन करने वाला यह संशय ज्ञान उत्पन्न होता है । (स भ त ८/८०/४), (न्या सु ६/१/२३/२८/२५) ।

स भ त ८/८०/४ एकवस्तुविशेषकविरुद्धानानाधर्मप्रकारकज्ञानं हि संशय । = एक ही वस्तु विषयक, विरुद्ध नानाधर्म विद्येयक युक्त ज्ञानको संशय कहते हैं ।

श्लो वा ४/२/३३/न्या ४६६/भाषाकार/४६९/१४ भेदाभेदारमकत्वे सदसदारमकत्वे वा वस्तुनोऽसाधारणाकारेण निश्चेतुमशयत्वं संशयः । —सम्पूर्ण पदार्थोंको अस्ति-नास्तिरूप या भेद अभेदारमक स्वीकार करनेपर, वस्तुका असाधारण स्वरूप करके निश्चय नहीं किया जा सकता है, अतः संशय दोष आता है ।

२ संशयके भेद व उनके लक्षण

न्या. सू. व भाष्यका भावार्थ/१/२/२३/२५-३० समानानेकधर्मोपपत्तेर्वि-प्रतिपत्तेरुपलब्धयनुपलब्धव्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्श संशयः । —१ समान धर्मके ज्ञानसे विशेषकी अपेक्षासहित अगमर्शको संशय कहते हैं जैसे—दूर स्थानसे सूखा वृक्ष देखकर यह क्या वस्तु है । स्थाणु है या पुरुष । ऐसे अनिश्चित रूप ज्ञानको संशय कहते हैं । २ अनेक धर्मोंका ज्ञान होनेपर यह धर्म किसका है ऐसा निश्चय न होना संशय है । जैसे—यह सत् नामका धर्म द्रव्यका है, गुणका है अथवा द्रव्य गुण दोनोंका है । ३ विप्रतिपत्ति अर्थात् परस्पर विरोधी पदार्थोंको साथ देखनेसे भी सन्देह होता है । जैसे—एक शास्त्र कहता है कि आत्मा है, दूसरा कहता है कि नहीं, दोनों से एकका निश्चय कराने वाला कोई हेतु मिलता नहीं, उसमें तत्त्वका निश्चय न होना संशय है । ४ उपलब्धिकी अव्यवस्थासे भी सन्देह होता है, जैसे सत्य, जल, तालाब आदिमें और असत्य किरणोंमें । फिर कहीं प्राप्ति होनेसे यथार्थके निश्चय कराने वाले प्रमाणके अभावसे क्या सत्का ज्ञान होता है या असत्का ? यह सन्देह वा संशय होना । ५ इसी प्रकार अनुपलब्धिकी अव्यवस्थासे भी संशय होता है । पहले लक्षणमें तुल्य अनेक धर्म जानने योग्य वस्तुमें है और उपलब्धि यह ज्ञातामें है । इतनी विशेषता है ।

३ संशय मिथ्यात्वका लक्षण

स सि ८/१/३७/७ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि किं मोक्षमार्गं स्याद्वा न वेदयन्त्यतरपक्षापरिग्रह संशयः । —सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्षमार्ग है या नहीं, इस प्रकार किसी एक पक्षको स्वीकार नहीं करना संशय मिथ्यादर्शन है । (रा वा ८/१/२५/७६४/२१), (त सा ४/५) ।

भ आ ४/वि ४/६/१८०/२० ससयित संशयितं किञ्चित्त्वमिति । तत्त्वानवधारणारमकं संशयज्ञानसहचारि अश्रद्धानं संशयितम् । न हि सद्विद्वानस्य तत्त्वविषयं श्रद्धानमस्ति इवमित्यभेदेति । निश्चयप्रत्ययसहभावित्वाद् श्रद्धानस्य । —जिसमें तत्त्वोंका निश्चय नहीं है ऐसे संशयज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले श्रद्धानको संशय मिथ्यात्व कहते हैं । जिसको पदार्थोंके स्वरूपका निश्चय नहीं है उसको जीवादिर्थाका स्वरूप ऐसा ही है अन्य नहीं है ऐसी तत्त्व विषयक सच्ची श्रद्धा नहीं रहती है । जब सच्ची श्रद्धा होती है तब निश्चय ज्ञान होता है ।

ध. ८/३/६/२०/५ सवन्न सवेहो चैव णिच्छओ णत्थि त्ति अहिण्वेसो ससयमिच्छत्तं । —सर्वत्र सन्देह ही है, निश्चय नहीं है, ऐसे अभिनिवेशको संशय मिथ्यात्व कहने है ।

नि. सा/ता वृ ४/५१ संशय तावत् जिनो वा शिवो वा देव इति । —जिनदेव होंगे या शिवदेव होंगे, यह संशय है ।

गो जी/जी प्र १/६/४१/४ इन्द्रो नाम श्वेताम्बरगुरु तदादय संशय-मिथ्यादृष्टयः । —इन्द्र नामक श्वेताम्बरके गुरुको आदि देकर संशय मिथ्यादृष्टि है ।

द्र स/टी ४/२/१५०/६ शुद्धारमतत्त्वादिप्रतिपादकमागमज्ञान किं वीतरागसर्वज्ञप्रणीत भविष्यति परसमयप्रणीतं वेति, संशयः । —शुद्ध आरमतत्त्वादिका प्रतिपादक तत्त्वज्ञान, क्या वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहा हुआ सत्य है या अन्य मतियों द्वारा कहा हुआ सत्य है, यह संशय है ।

४ संशय, विपर्यय व अनध्यवसायमें अन्तर

न्या. दो. १/६/१९ इदं हि नानाकीट्यवत्सम्बन्धाभावान्न संशय विपरीतकौटिलिनश्चयाभावान्न विपर्यय इति पृथगेव । —यह (अनध्यवसाय) ज्ञान नाना पक्षोंका अवगाहन न करनेसे न संशय है और विपरीत एक पक्षका निश्चय न करनेसे न विपर्यय है ।

५ शंका अतिचार व संशय मिथ्यात्वमें अन्तर

भ आ. ४/वि ४/४/१४३/६ ननु सति सम्यक्त्वे तदतिचारो युज्यते । संशयश्च मिथ्यात्वभावहति । तथाहि मिथ्यात्वभेदेऽपि संशयोऽपि गणितः । सरयपि संशये सम्यग्दर्शनमस्त्येवेति अतिचारता युक्ता । कथं । श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमविशेषाभावात् यदि नामनिर्णयो नोपजायते । तथापि तु इदं यथा सर्वाविदा उपलब्ध तथैवेति श्रद्धेहमिति भावयत कथं सम्यक्त्वहानि । एव श्रुतश्रद्धानरहितस्य को वेति किमत्र तत्त्वमिति 'त' मिच्छत्त जमसद्वहणं तच्चाण होदि अस्थाण' मिति । किं च छत्रस्थाना रज्जुरगस्थानुपुरुषादिषु किमिय रज्जुरग, स्थाणु पुरुषो वा किमित्यनेक संशयप्रत्ययो जायते इति ते सम्यग्दृष्टय स्युः । —प्रश्न—यदि सम्यग्दर्शन हो तो उसका शंका अतिचार मानना योग्य है परन्तु संशय मिथ्यात्वनेको धारण करता है । मिथ्यात्वके भेदोंमें आचार्यने इसकी गणना भी की है । उत्तर—आपका कहना ठीक है, संशयके सद्भावमें भी सम्यक्त्व रहता ही है । अतः संशयको अतिचारपना मानना युक्तियुक्त है इसका स्पष्टीकरण ऐसा करते हैं । विशिष्ट क्षयोपशम न होना इत्यादि कारणोंसे वस्तुस्वरूपका निर्णय नहीं होता, तो भी जैसे सर्वज्ञ जिनेश्वरने वस्तु स्वरूप जाना है वह वैसी ही है ऐसी मे श्रद्धा रखता हूँ, ऐसी भावना करने वाले भव्यके सम्यक्त्वकी हानि कैसे होगा, उसका सम्यग्दर्शन समल हागा परन्तु नष्ट न होगा । उपर्युक्त श्रद्धासे जो रहित है वह हमेशा संशयाकुलित ही रहता है, वास्तविक तत्त्वस्वरूप क्या है ? उसको कौन जानता है कुछ निर्णय कर नहीं सकते ऐसी उसकी मति रहती है संशय मिथ्यात्वसे सच्चे तत्त्वके प्रति अरुचि भाव रहता है । छत्रस्थोंको भी डोरी, सर्प, खूँट, मनुष्य इत्यादि पदार्थों में यह रज्जू है । या सर्प है । यह खूँट है या मनुष्य है इत्यादि अनेक प्रकारका संशय उत्पन्न होता है तो भी वे सम्यग्दृष्टि हैं ।

अन ध २/७१ विश्व विश्वविदाज्ञयाम्युपगत शङ्कास्तमोहोदयाज्-ज्ञानावृत्त्युदयान्मति प्रवचने दोलायिता संशयः । दृष्टि निश्चय-माश्रितां मलिनयेत्सा नाहिरज्ज्वादिगा-या मोहोदयसंशयात्तदरुचि स्यात्सा तु सशोतिदृक् । ७१ —मोहोदयके उदयका अस्त होनेसे यथावत् विश्वास करनेवाले जीवको ज्ञानावरण कर्मके उदयसे तत्त्वोंके विषयमें दोलायमान बुद्धिको संशय कहते हैं । इस संशयको ही शंका नामक अतिचार कहते हैं वही निश्चय सम्यग्दर्शनको मलिन करती है । सर्प रज्जू आदिके विषयमें उत्पन्न शंका उसको मलिन नहीं करती । अर्थात् जिस शंकासे सम्यग्दर्शन मलिन हो उसे शंका अतिचार कहते हैं । जो शंका मोहनोय कर्मके उदयसे उत्पन्न हो और जिससे सर्वज्ञोक्त तत्त्वोंमें अश्रद्धा हो उसको संशय मिथ्यात्व कहते हैं ।

* संशय मिथ्यात्व व मिश्र गुणस्थानमें अन्तर

—वे मिश्र/२ ।

* सम्यग्दृष्टिको भी कदाचित् पदार्थके स्वरूपमें संशय

—दे नि शंक्ति ।

* सम्यग्दृष्टिको संशयके समय कथंचित् अन्धश्रद्धान

या अश्रद्धान—दे श्रद्धान/३ ।

संशयवचनी भाषा—दे. भाषा ।

संशयसमा जाति —

न्या. सू. सू. व भाष्य/४/१/१४/२६३/१३ सामान्यदृष्टान्तयोरिन्द्रिय-
कत्वे समाने नित्यानित्यसाधर्म्यात्संशयसमा ११४। अनित्य शब्द-
प्रयत्नान्तरीयकत्वाद् घटवदित्युक्ते हेतौ सशयेन प्रत्यवतिष्ठते । सति
प्रयत्नान्तरीयकत्वे अस्त्येवास्य नित्येन सामान्येन साधर्म्यमिन्द्रिय-
कत्वमस्ति च घटेनानित्येनातो नित्यानित्यसाधर्म्यादिनिवृत्त संशय-
इति अस्थोत्तरम् ११४। —सामान्य (शब्दत्व) और दृष्टान्त (घट)
दोनोंके ऐन्द्रियकत्व समान होनेपर नित्य, अनित्योंके साधर्म्यसे
संशयसमा प्रतिषेध उठा दिया जाता है ११४। जैसे—शब्द अनित्य है
प्रयत्नसे उत्पन्न होनेवाले घटकी भाँति । ऐसा कहनेपर हेतुमें सन्देह
खड़ा रहता है । प्रयत्नकी समानता रहनेपर भी इसका नित्य
सामान्यके साथ ऐन्द्रियकत्व रूप साधर्म्य है और अनित्य घटके साथ
भी समानधर्मता है, इसलिए नित्यानित्यके साधर्म्यसे सदेह निवृत्त
न हुआ । (श्लो. वा २/१/३/न्या ३८०/५०६/१३ में इसपर चर्चा) ।

संशयानेकान्तिक हेतुभास—दे. व्यभिचार ।

संशयासिद्ध हेतुभास—दे असिद्ध ।

संश्लेश बन्ध—दे. श्लेष ।

संसक्त साधु—१ भ आ./सू./१३१३-१३१४ इदियकसायदोसेहि
अथवा समणनागपरिततो । जो उवायदि सो होदि गियत्तो साधु-
सत्थादो १३१३। इदियकसायवसिया केई ठाणाणि ताणि सव्वाणि ।
पाविज्जते दोसेहि तेहि सव्वेहि समत्ता १३१४। —इन्द्रिय और
कषायोंके दोषसे अथवा सामान्य ध्यानादिकसे विरक्त होकर जो साधु
चारित्रसे भ्रष्ट होता है वह साधु सार्थसे अलग होता है १३१३। इन्द्रिय
विषय और कषायके बशीभूत कितनेक भ्रष्ट मुनि सर्व दोषोंसे युक्त
होकर सर्व अशुभ स्थानको प्राप्ति करानेवाले परिणामोंको प्राप्त होते
हैं १३१४।

भ. आ./वि/१६५०/१७२२/२४ संसक्तो निरूप्यते—प्रियचारित्रे प्रिय-
चारित्र अप्रियचारित्रे दृष्टे अप्रियचारित्र, नटवदनैकरूपग्राही
ससक्त, पञ्चेन्द्रियेषु प्रसक्त विविधगौरवप्रतिषेध, स्त्रीविषये
सक्लेशसहित, गृहस्थजनप्रियश्च संसक्त । —ससक्त मुनिका वर्णन—
ऐसे मुनि चारित्रप्रिय मुनिके सहवाससे चारित्रप्रिय और चारित्र-
अप्रिय मुनिके सहवाससे चारित्र अप्रिय बनते हैं । नटके समान इनका
आचरण रहता है । ये मसक्त मुनि इन्द्रियोंके विषयमें आसक्त रहते
हैं, तथा तीन प्रकार गारवोंमें आसक्त होते हैं । स्त्रीके विषयमें इनके
परिणाम सक्लेश युक्त होते हैं । गृहस्थोंपर इनका विशेष प्रेम
होता है ।

षा सा./१४४/१ १. मन्त्रवैद्यकज्योतिष्कोपजीवी राजादिसेवक' ससक्त ।
—जो मन्त्र, वैद्य वा ज्योतिष शास्त्रमें अपनी जीविका करते हैं
और राजा आदिकोंकी सेवा करते हैं वे ससक्त साधु हैं । (भाषा पा/
टो/१४/१३७/२०) । २ मसक्त साधु मन्त्रघो विषय—दे साधु/५ ।

संसर्ग—१ त्या म/२३/२५४/२८ संसर्गे तु भेद प्रधानम् -अभेदो-
गौण इति विशेष । —संसर्गमें भेदकी प्रधानता और अभेदकी
गौणता होती है । (स भ त/३३/२१) । २ संसर्गकी अपेक्षा
वस्तुमें भेदाभेद—दे सप्तमगी/५/८ ।

संसार—ससरण करने अर्थात् जन्म मरण नरनेका नाम संसार है ।
अनादिकालसे जन्म मरण करते हुए हम जीवने एक-एक करके लोकके
सर्व परमाणुओंको, सर्व प्रदेशोंको, ज्ञानके सर्व ममगोंको, सर्व
प्रकारके कषाय भावोंको और नरकादि सर्वभयोंको अनन्त-अनन्त-

वार ग्रहण करके छोड़ा है । हम प्रजा प्रव्य, क्षेत्र ज्ञान, भाव व
भवके भेदसे यह संसार पच परिवर्तन रूप कहा जाता है ।

१ संसार सामान्य निर्देश

१. संसार सामान्यका लक्षण

१ परिवर्तन

स सि/२/१०/१६४/५ मसरण मसार परिवर्तनमित्यर्थ ।
स मि/६/७/२१५/१ र्मविपाकवशादात्मनो भवान्तगवाप्ति संसार ।
—१ मसरण करनेको संसार कहते हैं जिसका अर्थ परिवर्तन है ।
२ कर्मके विपाकके वशसे आत्माको भवान्तरकी प्राप्ति होना संसार
है । (रा वा./—२/१०/१/१२२/१५, ६/१/८/४८८/२, ६/७/१-
६००/२८) ।

का अ/सू/३२-३३ एक चयदि शरीर अणु गिणैदि जवणव जीवो ।
पुणु पुणु अणु अणु गिणहदि मुचैदि म्हु कार १२२। एव जं समगण
णाणा-देहेसु होदि जीवस्स । मा ममारो भण्णदि मिच्छंसापहि
जुत्तम्म १३३।—जीव एक शरीरको छोड़ता है और दूसरे नये शरीरको
ग्रहण करता है । पश्चात् उसे भी छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण
करता है । इस प्रकार अनेक बार शरीरको ग्रहण करता है और अनेक
बार उसे छोड़ता है । मिथ्यात्व कषाय वगैरहमें युक्त जीवका हम
प्रकार अनेक शरीरोंमें जो ससरण (परिभ्रमण) होता है, उसे संसार
कहते हैं ।

२. कर्म

ध १३/५.४.१७/४४/१० संसरन्ति अनेन घातिकर्मकलापेन चतसृषु गति
त्विति घातिकर्मकलापेन ममार । —जिस घातिकर्म ममूहके कारण
जीव चारों गतियोंमें समरण करते हैं, वह घातिकर्म ममूह
संसार है ।

२ संसार असंसार आदि संसार निर्देश

रा वा/६/७/३/६००/२५ चतुर्विधासमाप्रस्था—संसार असंसार जो-
संसार तत्रितयव्यपायश्चेति । तत्र संसारश्चतसृषु गतिषु नाना-
योनिविकल्पेषु परिभ्रमणम् । अनागतिसंसार शिवपदपरमाभूत-
सुखप्रतिष्ठा । नोसंसारस्योकेवलिन चतुर्गतिभ्रमणाभावात्
असंसारप्राप्त्यभावाच्च ईपरमसारो नोसंसार इति । अयोग्ये तन्नित
तत्रितयव्यपाय भवभ्रमणाभावात् नयोग्येवतिवत् प्रदेष्टव्यमप्य-
विगमात् अमनारावाप्त्यभावाच्च । —आत्माकी चार अवस्थाएँ
होती हैं - संसार, असंसार, नामंसार और इन तीनोंमें विन्दन है
अनेक योनियोंकी चारों गतियोंमें परिभ्रमण करना संसार है । फिर
जन्म न लेना—शिवप्रद प्राप्ति या परमसुख प्रतिष्ठा असंसार है । चतु-
र्गतिमें परिभ्रमण न होनेमें तथा अभी मोक्षकी प्राप्ति न होनेमें
मयोग्येवलीकी जीवन्मुक्त अवस्था ईपरमसार या नोसंसार है ।
अयोग्येवली इन तीनोंसे विन्दन है । इनके चतुर्गति भ्रमण और
असंसारकी प्राप्ति तो नहीं है पर केवलीकी तरह शरीर परित्यज्द
भी नहीं है । जब तक शरीर परित्यज्द न होनेपर भी आत्म प्रदेष्टो-
का चलन होता रहता है तब तक संसार है । (चा सा/६००/३) ।

३ द्रव्य क्षेत्रादि संसार निर्देश

रा वा/६/७/३/६०१/४ द्रव्यनिमित्तममारश्चतुर्विध कर्मनाकर्मवस्तु-
विषयाभ्यभेदात् । तत्र क्षेत्रहेतुकी द्विविध —स्वक्षेत्रपरक्षेत्रविशेषत्वात् ।
लोककाशतुल्यपदेशमपामन् कर्मद्वयवशात् संहरणविमर्षधर्मण
होनाधिकप्रदेशपरिणामात्प्रादिक स्वक्षेत्रममार । मन्मूर्त्तनगर्भ-
पदाजन्म तन्मयोनिविकल्पाज्ञानमन परमेष्ठममार । कालो
द्विविध —प-मार्थरूपो जगत्प्रकारश्चेति । तयार्थक्षप्राग्व्यान्या-

तम् । तत्र परमार्थकालान्तितपरिस्पन्देतरपरिणामविकल्प तत्पूर्वक-
कालव्यपदेशोपचारिककालत्रययुक्ति कालसंसारम् । भवनिमित्त
संसार द्वात्रिंशद्विध—पृथिव्यप्तेजोवायुकायिका प्रत्येक चतुर्विधा
सूक्ष्मवाटरपर्याप्तिकापर्याप्तिकभेदात् । वनस्पतिकायिका द्वेधा-प्रत्येक-
शरीरा साधारणशरीराश्चेति । प्रत्येकशरीरा द्वेधा-पर्याप्तिका-
पर्याप्तिकभेदात् । साधारणशरीराश्चतुर्धा सूक्ष्मवाटरपर्याप्तिका-
पर्याप्तिकविकल्पात् । विरलेन्द्रिया प्रत्येक द्विधा पर्याप्तिकापर्याप्तिकवि-
कल्पात् । पञ्चेन्द्रियाश्चतुर्धा सङ्घसन्निपर्याप्तिकापर्याप्तिकापेक्षयेति ।
भवनिमित्तो संसारो द्वेधा स्वभावपरभावाश्रयात् । स्वभावो
मिथ्यादर्शनादि परभावो ज्ञानावरणादिकर्मरसादि । = १ कर्म
नोकर्म वस्तु और विषयाश्रयके भेदसे द्रव्यसंसार चार प्रकारका
है । २ स्वक्षेत्र और परक्षेत्रके भेदसे क्षेत्रसंसार दो प्रकारका
है । लोकाकाशके समान असंख्य प्रदेशी आरमाको कर्मादयवश
सहस्रविस्पर्ण स्वभावके कारण जो छोटे-बड़े शरीरमें रहना है
वह स्वक्षेत्र संसार है । सम्मूर्धन गर्भ उपपाद आदि नौ प्रकारकी
योनियोंके आधीन परक्षेत्र संसार है । ३ काल व्यवहार और पर-
मार्थके भेदसे दो प्रकारका है । परमार्थ कालके निमित्तसे होनेवाले
परिस्पन्द और अपरिस्पन्दरूप परिणमन जिनमें व्यवहारकालका
विभाग भी होता है कालसंसार है । ४ भवनिमित्त संसार बत्तीस
प्रकारका है—सूक्ष्म, वाटर और पर्याप्त व अपर्याप्तके भेदसे चार-चार
प्रकारके—पृथिवी, जल, तेज और वायुकायिक, पर्याप्त और अपर्या-
प्तक प्रत्येक वनस्पति—सूक्ष्म, वाटर, पर्याप्त और अपर्याप्तक ये चार
साधारण वनस्पति, पर्याप्तक और अपर्याप्तकके भेदसे दो दो प्रकार-
के—द्वौन्द्रिय, त्रौन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय, सञ्जी, असञ्जी, पर्याप्तक
और अपर्याप्तक ये चार पचेन्द्रिय इस प्रकार बत्तीस प्रकार भवसंसार
है । ५ भवनिमित्तिक संसारके दो भेद हैं स्वभाव और परभाव ।
मिथ्यादर्शनादि स्वभाव संसार है तथा ज्ञानावरणादि कर्माका रस
परभाज संसार है ।

प्र. सा/ता प्र/ यस्तु परिणममानस्य द्रव्यस्य पूर्वोत्तरदशापरि-
रयागोपादानारमक क्रियाव्यपरिणामात्संसारस्य स्वरूपम् ।
= परिणमन करते हुए द्रव्यका पूर्वोत्तर दशाका त्याग-ग्रहणारमक
क्रिया नामक परिणाम है सो वह (भाव) संसारका स्वरूप है ।

प्र. सा/ता वृ/७/६/६ मिथ्यात्वरगादिसंसरणरूपेण भावसंसारं
पतन्त = मिथ्यात्व रागादिके संसरणरूप भाव संसार

* जितने जीव मोक्ष जाते हैं उतने ही निगोदसे निक-
लते हैं—३ मोक्ष/२ ।

* निरन्तर मुक्त होते भी जोवोंसे संसार रिक्त नहीं
होता—३ मोक्ष/६ ।

२ पंच परिवर्तनरूप संसार निर्देश

१. परिवर्तनके पाँच भेद

स सि/०/१०/१६६/१ तत् परिवर्तनं पञ्चविध द्रव्यपरिवर्तन क्षेत्रपरि-
वर्तन कालपरिवर्तन भवपरिवर्तन भावपरिवर्तन चेति । = परि-
वर्तनके पाँच भेद हैं—द्रव्यपरिवर्तन, क्षेत्रपरिवर्तन, कालपरिवर्तन
भगपरिवर्तन और भावपरिवर्तन । (सू आ/७०४), (घ ४/१,५,४/
३०५/५), (गो जी/जी प्र/१६०/६६/१४)

२ द्रव्यपरिवर्तन आदिके उत्तर भेद

स, मि/०/१०/१६६/२ द्रव्यपरिवर्तनं द्विविधम्—नोकर्मद्रव्यपरिवर्तनं
कर्मद्रव्यपरिवर्तनं चेति ।

घ ४/१,५,४/३०७/१० पागलपरियट्टकालो तिविहोहोदि, जगहितगह-
णद्वा गहिदगहणद्वा मिससयगहणद्वा चेदि । = १ द्रव्यपरिवर्तनके

दो भेद हैं—नोकर्म द्रव्यपरिवर्तन और कर्मद्रव्यपरिवर्तन । (घ
४/१,५,४/३२५/७), (गो जी/जी प्र/१६०/६६/१४) । २ यह
पुद्गल (नोकर्म) परिवर्तनकाल तीन प्रकारका होता है—अगृहीत-
ग्रहण काल, गृहीतग्रहण काल और मिश्र काल ।

३ द्रव्यपरिवर्तन निर्देश

स सि/२/१०/१६६/२ तत्र नोकर्मद्रव्यपरिवर्तनं नाम त्रयाणां शरी-
राणां पण्णा पर्याप्तोना च योग्या ये पुद्गला एकेन जीवेन एकस्मि-
न्समये गृहीता स्निग्धरूपवर्णगन्धादिभिस्तीव्रमन्दमध्यमभावेन च
यथावस्थिता द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीर्णं अगृहीतानन्तवारान-
तीर्य मिश्रक्राश्चानन्तवारानतीर्य मध्ये गृहीताश्चानन्तवारानतीर्य
त एव तेनैव प्रकारेण तस्यैव जीवस्य नोकर्मभावमापद्यन्ते यावत्ता-
वत्समुदित । नोकर्मद्रव्यपरिवर्तनम् । कर्मद्रव्यपरिवर्तनमुच्यते—
एकस्मिन्समये एकेन जीवेनाष्टविधकर्मभावेन ये गृहीता पुद्गला
समयाधिकामावलिकामतीत्य द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीर्णं, पूर्वोक्ते-
नैव क्रमेण त एव तेनैव प्रकारेण तस्य जीवस्य कर्मभावमापद्यन्ते
यावत्तावत्कर्मद्रव्यपरिवर्तन उक्त च—“सर्वे वि पुगला खलु
कमसो भुत्तु चिम्भया य जीवेण । असद् अणतखुत्तो पुगलपरियट्ट-
ससारे ।” = नोकर्मद्रव्यपरिवर्तनका स्वरूप कहते हैं—किसी एक
जीवने तीन शरीर और छह पर्याप्तियोंके योग्य पुद्गलोंको एक
समयमें ग्रहण किया । अनन्तर वे पुद्गल स्निग्ध या रूभ स्पर्श तथा
वर्ण और गन्ध आदिके द्वारा जिस तीव्र, मन्द और मध्यम भावसे
ग्रहण किये थे उस रूपसे अवस्थित रहकर द्वितीयादि समयोंमें
निर्जीर्ण हो गये । तत्पश्चात् अगृहीत परमाणुओंको अनन्तवार ग्रहण
करके छोड़ा, मिश्र परमाणुओंको अनन्त बार ग्रहण करके छोड़ा
और बीचमें गृहीत परमाणुओंको अनन्त बार ग्रहण करके
छोड़ा । तत्पश्चात् जब उसी जीवके सर्वप्रथम ग्रहण किये गये
वे ही परमाणु उसी प्रकारसे नोकर्म भावको प्राप्त होते हैं, तब यह सब
मिलकर एक नोकर्म द्रव्यपरिवर्तन है । अब कर्मद्रव्यपरिवर्तनका
कथन करते हैं—एक जीवने आठ प्रकारके क्रमरूपसे जिन पुद्गलोंको
ग्रहण किया वे समयाधिक एक आवलीकालके बाद द्वितीयादिक
समयोंमें भर गये । पश्चात् जो क्रम नोकर्म द्रव्यपरिवर्तनमें बतलाया
है उसी क्रमसे वे ही पुद्गल उसी प्रकारसे उस जीवके जब कर्मभाव-
को प्राप्त होते हैं तब यह सब मिलकर एक कर्म द्रव्यपरिवर्तन होता
है । “इस जीवने सभी पुद्गलोंको क्रमसे भोगकर छोड़ा है । और
इस प्रकार यह जीव अनन्तवार पुद्गल परिवर्तनरूप संसारमें घूमता
रहता है । (भा, पा/वृ/२२), (बा अतु/२५), (घ ४/१,५,४/
३२५-३३), (का अ/६७), (प्र स/टी/३५/१०३/५), (गो, जी/
जी प्र/१६०/६६/१५)

४. क्षेत्रपरिवर्तन निर्देश

१ स्वक्षेत्र

गो जी/जी प्र/१६०/६६/२० स्वक्षेत्रपरिवर्तनमुच्यते—कश्चिज्जीव
सूक्ष्मनिगोदजघन्यावगाहनेनोरपन्न स्वस्थिति जीवित्वा मृत पुन
प्रदेशोत्तरावगाहनेन उरपन्न । एवं ब्रयादिप्रदेशोत्तरक्रमेण महामरत्या-
वगाहनपर्यन्ता सख्यातघनाङ्गुलप्रमितावगाहनविकल्पा तेनैव
जीवेन यावत्स्वीकृता तत् सर्वं समुदितं स्वक्षेत्रपरिवर्तनं भवति ।
= स्वक्षेत्र परिवर्तन कहते हैं—कोई जीव सूक्ष्मनिगोदियाकी जघन्य
अवगाहनासे उरपन्न हुआ, और अपनी आयु प्रमाण जीवित रहकर मर
गया । फिर वही जीव एक प्रदेश अधिक अवगाहना लेकर उरपन्न
हुआ । एक-एक प्रदेश अधिककी अवगाहनाओंको क्रमसे धारण करते-
रते महामरत्यकी उरकृष्ट अवगाहना पर्यन्त सख्यात घनाङ्गुल प्रमाण
अवगाहनाके विकल्पोंको वही जीव जितने समयमें धारण करता है
उतने कालके समुदायको स्वक्षेत्र परिवर्तन कहते हैं ।

० परक्षेत्र

या अणु/२६ मवर्द्धि लोयखेते कमो तण्णस्थि जण उप्पण्ण । उग्गाहणेण बहुमो परिभमिदो वेनमसार । २६। = क्षेत्र परिवर्तनरूप संसारमें अनेकवार भ्रमण करता हुआ यह जीव तीनों लोकोंमें सम्पूर्ण क्षेत्रमें ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, जहाँपर अपनी जगहाहना वा परिणामको लेकर उत्पन्न न हुआ हो । (भा पा / मू / २९), (स नि / २/१० पर उद्धृत), (प प्र./ मू / ६५/प्रक्षेपक), (ध ४/१.५.४/गा २३/३३३), (का, अ / मू / २८), (द्र म / टी. / ३७/१०३/७) ।

स. सि / २/१०/१६४/१३ क्षेत्रपरिवर्तनमुच्यते—सूक्ष्मनिगोदजीवा-SPयसिक्त सर्वजघन्यप्रदेशशरीरा लोकस्याष्टमध्यप्रदेशात् स्वशरीर-मध्ये कृत्वोरपन्न क्षुद्रभवग्रहण जीवित्वा मृत । म एव पुनस्तेनैवाव-गाहेन द्विरुत्पन्नस्तथात्रिस्तथा चतुस्त्रित्येव यावद् घनाद्गुणस्थामख्येय-भागप्रमिताकागप्रदेशास्तावत्स्वस्तत्र जन्त्वा पुनरेकेऋप्रदेशाधिक-भावेन सर्वा लोक आत्मनो जन्मक्षेत्रभावमुपनीतो भवति यावत्ता-वत्क्षेत्रपरिवर्तनम् । = जिनका शरीर जात्राशके सबसे कम प्रदेशपर स्थित है, ऐसा एक सूक्ष्म निगोद लक्ष्यपर्याप्तजीव लोकके आठ मध्य प्रदेशको अपने शरीरके मध्यमें करके उत्पन्न हुआ और क्षुद्रभव ग्रहण कालतक जीवित रहकर मर गया । पश्चात् वही जीव पुन उसी अयगाहनासे वहाँ दूसरी बार उत्पन्न हुआ, तीसरी बार उत्पन्न हुआ, चौथी बार उत्पन्न हुआ । इस प्रकार अणुके अमर्यातबे भागमें आकाशके जितने प्रदेश प्राप्त हो उतनी बार वहाँ उत्पन्न हुआ । पुन उसने आकाशका एक-एक प्रदेश बढ़ाकर सब लोकको अपना जन्म क्षेत्र बनाया । इस प्रकार वह सब मिलकर एक क्षेत्रपरिवर्तन होता है । (गो जी / जी प्र / ४६०/६६२/२) ।

५. काल परिवर्तन निर्देश

वा अणु/२७ अवसत्पिणि उत्सत्पिणि समयावलिमासु गिरवसेसासु । जादो सुदो य बहुसो परिभमिदो बालससारे । = काल परिवर्तनरूप संसारमें भ्रमण करता हुआ उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालके सम्पूर्ण समयों और आवलियोंके अनेक बार जन्म धारण करता है और मरता है । (भा पा / मू / ३४), (स सि / २/१०/१६६ पर उद्धृत), (ध, ४/१.५.४/गा २४/३३३), (का अ / मू / ६६), (द्र म / टी. / ३५/१०३/६) ।

स. सि/२/१०/१६६/६ कालपरिवर्तनमुच्यते—उत्सर्पिण्या प्रथमसमये जात कश्चिज्जीव स्वायुष परिमसाणी मृत । म एव पुनद्वितीयाया उत्सर्पिण्या द्वितीयममये जात स्वायुषपक्षयान्मृत । स एव पुनस्तृतीयाया उत्सर्पिण्या तृतीयममये जात । एवमनेन क्रमेणोत्सर्पिणी परिसमाप्ता । तथावसर्पिणी च । एव जन्मनेरन्तर्मुक्तम् । मरणस्यापि नरन्त्यं तथैव ग्राह्यम् । प्तावत्कालपरिवर्तनम् । = कोई जीव उत्सर्पिणीके प्रथम समयमें उत्पन्न हुआ और आयुके समाप्त हो जानेपर मर गया । पुन वही जीव दूसरी उत्सर्पिणीके दूसरे समयमें उत्पन्न हुआ और अपनी आयुके समाप्त होनेपर मर गया । पुन वही जीव तीसरी उत्सर्पिणीके तीसरे समयमें उत्पन्न हुआ इस प्रकार इसने क्रमसे उत्सर्पिणी समाप्त की और इसी प्रकार अवसर्पिणी भी । यह जन्म नरत्यं कहा । तथा इसी प्रकार मरणका भी नरन्त्यं लेना चाहिए । यह सब मिनर एक कालपरिवर्तन है । (गो, जी / जी प्र / ४६०/६६२/१०) ।

६. भव परिवर्तन निर्देश

वा अणु/२८ गिर्याउज्जहणादिमु जाव दु उपरिस्त ना [गा] दुगेवेज्जा मिच्छत्तमभेदेण दु बहुमो वि भवत्टिदीभमिदा । २८। = इस मिथ्याग नयुक्त जीवने नरन्वी छाटीसे छाटी आयु लेकर ऊपरके श्रेणिक विमान तककी आयु क्रमसे अनेक बार पाकर भ्रमण किया है । (भा पा / मू / २८), (स नि / २/१०/१६७ पर उद्धृत), (ध. ४/

१.५.४/गा. २४/३३३), (का, अ / मू / ७०), (द्र म / टी / ३७-१०७/१) ।

स नि / २/१०/१६७/१ नरकगती सर्वजघन्यमायुर्दशवर्षमहसाणि । तेनायुषा तत्रोत्पन्न पुन परिभ्रम्य तेनैवायुषा जात । एव दशवर्षमह-साणां यावन्त समयास्तानस्कृत्वस्तत्र जाता मृत । पुनरेककसमया-धिकभावेन त्रयस्त्रिंशत्सागरापमाणि परिममापितानि । तत् प्रच्युत्य तिर्यग्गतावन्तर्मुहूर्तायु ममुत्पन्न । पूर्वोक्तितेनैव क्रमेण त्रीणि पयाप-मानि तेन परिममाप्तानि । एव मनुष्यगती च । देवगती च नारकवत् । अय तु विशेष — एकत्रिंशत्सागरापमाणि परिममाप्तानि यावत्तावद् भवपरिवर्तनम् । = नरकगतिमें सबसे जघन्य आयु दस हजार वर्षकी है । एक जीव उस आयुसे वहाँ उत्पन्न हुआ पुन धूम-फिरकर पुन उसी आयुसे वहाँ उत्पन्न हुआ । इस प्रकार दस हजार वर्षके जितने समय है उतनी बार वहाँ उत्पन्न हुआ और मर गया । पुन आयुमें एक-एक समय बढ़ाकर नरककी तीसरी सागर आयु समाप्त की । तदनन्तर नरकने निकलकर अन्तर्मुहूर्त आयुके साथ तिर्यक् गतिमें उत्पन्न हुआ । और पूर्वाक्त क्रमसे उसने तिर्यक् गतिकी तीन पर्य आयु समाप्त की । इसी प्रकार मनुष्य गतिमें अन्तर्मुहूर्तसे लेकर तीन पर्य आयु समाप्त की । तथा देवगतिमें नरक गतिके नमान आयु समाप्त की । किन्तु देवगतिमें इतनीावशेषता है कि यहाँ ३१ सागर आयु समाप्त होने तक कथन करना चाहिए । [क्योंकि ऊपर जब अनुदिश आदिके देव समारमें भ्रमण नहीं करते] इस प्रकार यह सब मिलकर एक भवपरिवर्तन है । (गो जी / जी प्र / ४६०/६६२/२०) ।

७. भाव परिवर्तन निर्देश

वा, अणु/२९ सव्वे पयडिद्विदो अणुभागप्पवेमनधट्टाणाणि । जीवो मिच्छत्तवसा भमिदो पुण भावमसारे । २९। = इस जीवने मि/यात्वेके वशमें पडकर प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशान्त्वके कारणभूत जितने प्रकारके परिणाम वा भाव है, उन सबका अनुभव करते हुए भाव परिवर्तनरूप संसारमें अनेक बार भ्रमण किया है । (स सि / २/१०/१६९ पर उद्धृत), (ध ४/१.५.४/गा २६/३३३), (का अ / मू / ७१) ।

स सि / २/१०/१६७/१० भावपरिवर्तनमुच्यते—पच्चैन्द्रिय सञ्ज्ञी पर्याप्त को मिथ्यादृष्टि करिचञ्जीव सर्वजघन्या स्वयोर्या ज्ञानानरण-प्रकृते स्थितिमन्त कोटीकोटीसङ्घिकासापणते । तस्य कपायाध्य-वसायस्थानान्यसख्येयलोकप्रमितानि पट्स्थानपतितानि तस्स्थिति-योग्यानि भवन्ति । तत्र सर्वजघन्यकपायाध्यवसायस्थाननिमित्तान्यनृ-भागाध्यवसायस्थानान्यसख्येयलोकप्रमितानि भवन्ति । एव सर्व-जघन्या स्थिति सर्वजघन्य च कपायाध्यवस्थानं सर्वजघन्यमेवानु-भागान्वस्थानमास्वन्दतस्तद्योग्य सर्वजघन्य योगस्थान भवति । तेषामेव स्थितिकपायानुभागस्थानानां द्वितीयमसख्येयभागवृद्धिदुक्त यागस्थान भवति । एव च तृतीयादिषु चतुस्थानपतितानि श्रेण्य-सख्येयभागप्रमितानि योगस्थानानि भवन्ति । तथा तामेव स्थिति तदेव कपायाध्यवसायस्थान च प्रतिपद्यमानस्य द्वितीयमनुभावाध्य-वसायस्थान भवति । तस्य च योगस्थानानि पूर्ववद्वेदितव्यानि । एव तृतीयादिष्वपि अनुभावाध्यवसायस्थानेषु आद्यसख्येयनीकपानि-समाप्ते । एव तामेव स्थितिमापद्यमानस्य द्वितीय कपायाध्यवसाय-स्थान भवति । तस्याप्यनुभावाध्यवसायस्थानानि च पूर्ववद्वेदित-व्यानि । एव तृतीयादिष्वपि कपायाध्यवसायस्थानेषु जा अख्येय-लोकपरिममाप्टेर्दृष्टिक्रमो वेदितव्य । उन्नाया जघन्याया स्थिते समयाधिकार्या कपायादिस्थानानि पूर्ववत् । एव ममयाधिचक्रने-आ उत्पत्ति-योग्यसागरापमाणां कोटीपमितताया उदायादि-स्थानानि वेदितव्यानि । अनन्तभागवृद्धि इमानि पट्स्थानानि । हानिरपि तथैव । अनन्तभागवृद्धयन्तमुहूर्तिरहितानि

चत्वारि स्थानानि । एव सर्वेषां कर्मणां मूलप्रकृतीनामुत्तरप्रकृतीनां च परिवर्तनक्रमो वेदितव्यः । तदेतत्सर्वं समुदितं भावपरिवर्तनम् ।
 —भाव परिवर्तनका कथन करते हैं—पञ्चैन्द्रिय सङ्घी पर्याप्तिक मिथ्यादृष्टि कोई एक जीव ज्ञानाधारण प्रकृतिको सबसे जघन्य अपने योग्य अन्त कोड़ा-कोडी प्रमाण स्थितिको प्राप्त होता है उसके उस स्थितिके योग्य पदस्थान पतित असंख्यात लोक प्रमाण कपाय अध्यवसाय स्थानोंके निमित्तसे असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान होते हैं । इस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति, सबसे जघन्य कपाय अध्यवसाय स्थान और सबसे जघन्य अनुभाग अध्यवसाय स्थानको धारण करनेवाले इस जीवके तद्योग्य सबसे जघन्य याग स्थान होता है । तत्परचाव स्थिति कपाय अध्यवसाय स्थान और अनुभाग अध्यवसाय स्थान वहाँ रहते हैं किन्तु योगस्थान दूसरा हो जाता है जो असंख्यात भाग वृद्धि समुक्त होता है । इसा प्रकार तीसरे, चौथे आदि योग स्थानोंमें समझना चाहिए । ये सब याग-स्थान चार स्थान पतित होते हैं, और इनका प्रमाण श्रेणिके असंख्यातवे भाग है । तदनन्तर उसी स्थिति और उसी कपाय अध्यवसाय स्थानको धारण करनेवाले जीवके दूसरा अनुभाग अध्यवसायस्थान होता है इसके योगस्थान पहलेके समान जानना चाहिए । तत्पर्य यह है कि यहाँ भी पूर्वाक्त तीनों बातें ध्रुव रहती हैं किन्तु यागस्थान श्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण होते हैं । इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थानके होने तक तीसरे आदि अनुभाग अध्यवसाय स्थानोंमें जानना चाहिए । तत्पर्य यह है कि यहाँ स्थिति और कपाय अध्यवसायस्थान तो जघन्य ही रहते हैं । किन्तु अनुभाग अध्यवसाय स्थान क्रमसे असंख्यात लोक प्रमाण हो जाते हैं और एक-एक अनुभाग अध्यवसाय स्थानके प्रति जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण योगस्थान होते हैं । तत्परचाव उभी स्थितिको प्राप्त होनेवाले जीवके दूसरा कपाय अध्यवसाय स्थान होता है, इसके अनुभाग अध्यवसाय स्थान और योगस्थान पहलेके समान जानना चाहिए । इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण कपाय अध्यवसाय स्थानोंके होने तक तीसरे कपाय अध्यवसाय स्थानोंमें वृद्धिका क्रम जानना चाहिए । जिस प्रकार सबसे जघन्य स्थितिके कपायादि स्थान कहे हे उसी प्रकार एक समय अधिक जघन्य स्थितिके भी कपायादि स्थान जानना चाहिए । और इसी प्रकार एक-एक समय अधिकके क्रमसे तीस कांडाकोडी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तक प्रत्येक स्थिति विकल्पके भी कपायादि स्थान जानने चाहिए । अनन्तभागवृद्धि ये वृद्धिके छह स्थान हैं तथा इसी प्रकार हानि भी छह प्रकारकी है । इनमेंसे अनन्तभागवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि इन दो स्थानोंके कम कर देनेपर चार स्थान होते हैं । इस प्रकार सर्व मूल व उत्तर प्रकृतियोंके परिवर्तनका क्रम जानना चाहिए । यह सब मिलकर एक भाव परिवर्तन होता है । (द्र. स/टो ३५/१०४/८), (गो जी./जी. प्र/५६०/६१२/२२) ।

८ पाँच परिवर्तनोंमें अल्पवहुत्व

ध ४/१.५.४/३३४/७ अदीकाले एगस्स जीवस्स सव्वरथो वा भावपरियट्ट-
 वारा । भवपरियट्टवारा अणत्तगुणा । कालपरियट्टवारा अणत्तगुणा ।
 खेत्तपरियट्टवारा अणत्तगुणा । पोग्लपरियट्टवारा अणत्तगुणा । सव्व-
 रथोवो पोग्लपरियट्टकालो । खेत्तपरियट्टकालो अणत्तगुणो । कालपरि-
 यट्टकालो अणत्तगुणो । भवपरियट्टकालो अणत्तगुणा भावपरियट्टकालो
 अणत्तगुणो । — १ अतीतकालमें एक जीवके सबसे कम भाव परिवर्तन-
 के बार है । भव परिवर्तनके बार भावपरिवर्तनके बारोंसे अनन्तगुणे
 है । काल परिवर्तनके बार भव परिवर्तनके बारोंसे अनन्तगुणे है ।
 क्षेत्र परिवर्तनके बार कालपरिवर्तनके बारोंसे अनन्तगुणे है । पुद्गल
 परिवर्तनके बार क्षेत्र परिवर्तनके बारोंसे अनन्तगुणे है । २ पुद्गल

परिवर्तनका काल सबसे कम है । क्षेत्र परिवर्तनका काल पुद्गल
 परिवर्तनके कालसे अनन्तगुणा है । कालपरिवर्तनका काल क्षेत्र
 परिवर्तनके कालसे अनन्तगुणा है । भव परिवर्तनका काल, काल
 परिवर्तनके कालमें अनन्तगुणा है । भावपरिवर्तनका काल भव-
 परिवर्तनके कालमें अनन्तगुणा है । (गो जी./जी. प्र./५६०/६१४/३) ।

संसारानुप्रेक्षा—अनुप्रेक्षा ।

संसारो—१ जीवोंका एक भेद—दे. जीव/१२ न, च वृ/१०६
 कम्मफलवाणीणा अनद्धससहारभावमत्तारा । गुणमग्ग जीवट्टिया
 जीवा समारिणो भणिया । १०६। — कर्म तन्त्रमें जो निम्न है, स्व-
 राभावको जिन्होंने प्राप्त नहीं किया । गुणस्थान, मार्गनास्थान तथा
 जीवस्थानमें जो स्थित है वे गमारी जीव नहीं गये हैं ।
 पं वा/ता वृ/१०६/१०४/१३ कर्मचेतनार्थमन्त्रचेतनारमका संसा-
 र्णिण जसुत्तोपयोगमुत्ता मत्तारिण । — कर्म व कर्मफलचेतना-
 रमक संसारी जीव हैं । गमारी जीव जसुत्तोपयोगमें युक्त हैं ।
 प ध/उ/३४ वट्ठो यथा स नसारी स्यादन्धस्वस्वप्नवात् । वृत्तिदोऽ-
 नादितोऽष्टाभिर्दानाद्यावृत्तिर्मभि । — जा अनादिवालमें आठ
 कर्मोंसे माहित होकर अपने स्वप्नका नहीं पाये वाला और यथा
 हुआ यह संसारी जीव है ।

संस्कार—व्यक्तिके जीवनकी सम्पूर्ण शुभ और अशुभ वृत्ति
 उसके नस्कारोंके अधीन है, जिनमेंसे कुछ यह पूर्व भवमें अपने
 साथ लाता है, और कुछ इसी भवमें मगति व शिक्षा आदिके
 प्रभावसे उत्पन्न करता है । इसी लिए गर्भमें आनेके पूर्वसे ही
 वातात्ममें विशुद्ध संस्कार उत्पन्न करनेके लिए विधान बताया गया
 है । गर्भउत्तरणसे लेकर निर्वाण पर्यन्त यथावसर जिनैन्द्र पूजन व
 मन्त्र विधान सहित ३३ क्रियाओंका विधान है, जिनमें मानकके
 संस्कार उत्तरोत्तर विशुद्ध होते हुए एक दिन यह निर्वाणका भाजन
 बन जाता है ।

१. संस्कार सामान्य निर्देश

१. संस्कार सामान्यका लक्षण

सि वि/वृ/१/६/३४/१४ वस्तुरवभावोऽय मत् संस्कार स्मृतिदीजमा-
 दधीत । — वस्तुका स्वभाव ही संस्कार है । जिसको स्मृतिवा यीज
 माना गया है ।

स श/टो/३७/२३६/८ शरीरगदौ स्थिरारमोयादिज्ञानान्यान्यत्रिचात्ता-
 सामम्य स पुन पुन प्रवृत्तिस्तेन जनिता संस्कारा वासनास्तै
 कृत्वा । — शरीरगदिका शुचि स्थिर और आरमोय मानने रूप जो
 अविद्या अज्ञान है उनके पुन-पुन प्रवृत्ति रूप अभ्याससे उत्पन्न
 संस्कार अर्थात् वासना द्वारा करके ।

प का/ता वृ/परि/२५/१६ निजपरमारमणि शुद्धसंस्कारं करोति स
 आरमसंस्कार । — निज परम आरमामें शुद्ध संस्कार करता है वह
 आरम संस्कार है ।

२ पठित ज्ञानके संस्कार साथ जाते हैं

सू आ/२८६ विणएण सुदमधीद जदिवि पमादेण होदि विस्मरिद ।
 तसुवट्ठादि परभवे केवलण च आत्रहादि । — विनगसे पढ़ा हुआ
 शास्त्र किसी समय प्रमादसे विस्मृत हो जाये तो भी वह अन्य
 जन्ममें स्मरण हो जाता है संस्कार रहता है और क्रमसे केवलज्ञान-
 को प्राप्त करता है । (ध ६/४.१.१८/गा २२/८२) ।

ध. ६/४.१.१८/८०/१ तस्य जम्मतरं चउत्विहणिम्लम्लमदिवत्तेण विण-
 एणावहारिदधुवालसगरस देवेसुप्पज्जिय मणुस्सेसु अत्रिणद्धमराकाणु-
 प्पण्णरस एत्थ भवम्मि पट्ठग-गुणण-पुच्छणवावारिविरहियस्स अउ-
 प्पत्तिया णाम । — उनमें (चार प्रकार प्रज्ञाओंमें) जन्मान्तरमें

चार प्रकारकी निर्मल बुद्धिके बलसे विनयपूर्वक चार अंगका अवधारण करके देवोंमें उत्पन्न होकर पश्चात् अविनष्ट संस्कारके साथ मनुष्योंमें उत्पन्न होनेपर इस भवमें पढ़ने-सुनने व पढ़ने आदिके व्यापारसे रहित जीवकी प्रज्ञा औत्पत्तिकी कहलाती है।

ल सा/जो प्र/६/४४/४ नारकादिभवेषु पूर्वभवश्रुतधारिततत्त्वार्थस्य संस्कारबलात् सम्यग्दर्शनप्राप्तिर्भवति । =नरकादि भवोंमें जहाँ उपदेशका अभाव है, वहाँ पूर्व भवमें धारण किये हुए तत्त्वार्थ-ज्ञानके संस्कारके बलसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है। (और भी दे० सम्यग्दर्शन/III)।

मो. मा प्र/७/२८३/१० इस भवमें अभ्यास करि परलोक त्रिपै तिर्यचादि गतिविषे भी जाय—तौ तहाँ संस्कारके बलसे देव गुरु शास्त्र विना भी सम्यक्त्व होय जाय। तारतम्यतै पूर्व अभ्यास संस्कारतै वर्तमान इनका निमित्त न होय (देव-शास्त्र आदि निमित्त न होय) तौ भी सम्यक्त्व होय सकै।

३. संस्कारके उदाहरण

स. श/मू/३७ अविद्याभ्याससंस्कारे रवश क्षिप्यते मन । तदेव ज्ञान-संस्कारे स्वतस्तत्त्वेऽवतिष्ठते । ३७ =अविद्याके अभ्यास रूप संस्कारोंके द्वारा मन स्वाधीन न रहकर विक्षिप्त हो जाता है। वही मन विज्ञान रूप संस्कारोंके द्वारा स्वयं ही आरमस्वरूपमें स्थिर हो जाता है।

ध. ६/१,६-१,२३/४१/१० एदेहि जीवमिह जणिदमसंस्कारस्य अणतेसु भवेसु अवद्गणभ्रुवगमादो । =इन (अनन्तानुबन्धी) कर्पायोके द्वारा जीवमें उत्पन्न हुए संस्कारका अनन्त भवोंमें अवस्थान माना गया है।

ध ८/३,३६/७३/१ तित्थयराडरिय-बहुसुद-पवयण-विसयरागजणिद-संस्काराभावादो । =वहाँ (अपूर्वकरणके उपरि सप्तम भागमें) तीर्थकर आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन विषयक रागसे उत्पन्न हुए संस्कारोंका अभाव है।

ध ६/४१,४६/१५४/३ आहितसंस्कारस्य कस्यचिच्छब्दग्रहणकाल एव तदसादिप्रचयोत्पत्त्युपलम्भाच्च । =शब्द ग्रहणके कालमें ही संस्कार युक्त किसी पुरुषके उसके (शब्दके वाच्यभूत पदार्थके) रसादि विषयक प्रत्ययकी उत्पत्ति पायी जाती है।

४. पूर्व संस्कारका महत्त्व

स. श/मू/४५ जानन्नप्यारमन्तत्त्वं विविक्त भाग्यन्नपि । पूर्वविभ्रम-संस्काराद् भ्रान्ति भूयोऽपि गच्छति । =शुद्ध चैतन्य स्वरूपको जानता हुआ भी, और अन्य पदार्थोंसे भिन्न अनुभव करता हुआ भी पूर्व भ्रान्तिके संस्कारवश पुनरपि भ्रान्तिकी प्राप्त होता है।

द्र सं/टी/३८/१५६-१६०/६ सम्यग्दृष्टि तत्र (शुद्धारमन्तत्त्वे) अस-मर्थं सद् परम भक्तिं करोति । तेन पञ्चविधैहेषु गत्वा पश्यति समवशरण पूर्वभवभावितविशिष्टभेदज्ञानवासना (संस्कार) नलेन मोहं न करोति, ततो जिनदीक्षां गृहीत्वा मोक्ष गच्छति । =सम्यग्दृष्टि शुद्धारमभावना भावनें असमर्थ होता है, तब वह परम भक्ति करता है। पश्चात् पंच विदेहोंमें जाकर समवशरणको देखता है। पूर्व जन्ममें भावित विशिष्ट भेदज्ञानकी वासना (संस्कार) के बलसे मोह नहीं करता अतः दीक्षा धारण करके मोक्ष पाता है।

* शरीर संस्कारका निषेध—दे० माधु/२/७।

* धारणा ज्ञान मन्त्रन्धी संस्कार—दे० धारणा।

* रजस्वला स्त्री व सतक पातक भ्रात्रि—दे० सूतक।

२. संस्कार कर्म निर्देश

१. गर्भान्वयादि क्रियाओंका नाम निर्देश

म पु/३८/५१-६८ गर्भान्वयक्रियाञ्चैव तथा दीक्षान्वयक्रिया । कर्त्र-न्वयक्रियाश्चेति तास्त्रिष्वैव बुधैर्मता ५१। आधानाद्यास्त्रिपञ्चाशत् क्रिया गर्भान्वयक्रिया । चत्वारिंशदथाष्टौ च स्मृता दीक्षान्वय-क्रिया ५२। कर्त्रन्वयक्रियाश्चैव सप्त तज्ज्ञैः समुच्चिता । तामां यथाक्रम नामनिर्देशोऽयमनूयते ५३। पञ्चानां सप्तमादद्वाद्दुस्तरा-दर्णवादपि । श्लोकै रष्टभिरुन्नेष्ये प्राप्तं ज्ञानसर्वं मया ५४। (नोट—आगे केवल भाषार्थ) । =गर्भान्वय क्रिया, दीक्षान्वय क्रिया और कर्त्रन्वय क्रिया इस प्रकार विद्वात् लोगोंने तीन प्रकारकी क्रियाएँ मानी हैं ५१। गर्भान्वय क्रिया आधानादि तिरपन (५३) जाननी चाहिए। और दीक्षान्वय क्रियाएँ अडतालीस (५८) समझना चाहिए ५२। इसके अतिरिक्त इस त्रिपयके जानतार लोगोंने कर्त्र-न्वय क्रियाएँ सात (७) मग्रह की हैं। जय आगे यथा क्रमसे उनका नाम निर्देश किया जाता है ५३। जो समुद्रमें भी दुस्तर हैं, ऐसे १२ अंगोंमें मातर्वे अंग (उपासकाध्ययनांग) से जो कुछ मुझे ज्ञानका अंश प्राप्त हुआ है उसे मैं नीचे लिखे हुए श्लोकोंसे कहता हूँ ५४। केवल भाषार्थ—गर्भान्वयकी १३ क्रियाएँ—१ गर्भाधान, २ प्रीति, ३ सुप्रीति, ४ धृति, ५ मोद, ६ प्रियोद्भव, ७ नामकर्म, ८ सहियानि, ९ निपद्या, १० प्राज्ञान, ११ च्युष्टि, १२ केशवाप, १३ लिपि मरुत्यान संग्रह १४ उपनीति १५ व्रतचर्या, १६ व्रताचरण, १७ विवाह, १८ वर्णनाभ, १९ कुलचर्या, २० गृहीशिता, २१ प्रशान्ति, २२ गृहत्याग, २३ दीक्षाद्य, २४ जिन-रूपता, २५ मौनाध्ययन व्रतत्व, २६ तीर्थकृतभाजना, २७ गुरुस्थानाभ्युपगमन, २८ गणापग्रहण, २९ स्वगुरुस्थान सक्रान्ति, ३० निःसगत्वात्मभावना, ३१ योगनिर्वाणसे प्राप्ति, ३२ योगनिर्वाणसाधन, ३३ इन्द्रोपपाद, ३४ अभिषेक, ३५ विधिदान, ३६ मुखोदय ३७ इन्द्र-त्याग, ३८ अनतार, ३९ हिरण्यं कृष्टजन्मता, ४० मन्दरेन्द्राभिषेक, ४१ गुरुपूजोपलम्भन, ४२ यौवराज्य, ४३ म्बराज, ४४ चक्रलाभ, ४५ दिग्विजय, ४६ चक्राभिषेक, ४७ सायाज्य, ४८ निष्क्रान्ति, ४९ योग-सन्मह, ५० आर्हन्त्य, ५१ तद्विहार, ५२ योगत्याग, ५३ अग्रनिवृत्ति । परमागममें ये गर्भमें लेकर निर्वाण पर्यन्त ५३ क्रियाएँ मानी गयी हैं। ५२-५३। २ दीक्षान्वयकी ४८ क्रियाएँ—१ अनतार, २ वृत्तलाभ, ३ स्थानलाभ, ४ गणग्रह, ५ पुजाराध्य, ६ पुण्ययज्ञ, ७ वृत्तचर्या, ८ उपयोगिता । इन आठ क्रियाओंके साथ (गर्भान्वय क्रियाओंमेंसे) उपनीति नामकी चौदहवीं क्रियासे अग्रनिवृत्ति नामकी तिरपनकी क्रिया तककी चालीस क्रियाएँ मिलाकर कुल अडतालीस दीक्षान्वय क्रियाएँ कहलाती हैं ६४-६५। ३ कर्त्रन्वयकी ७ क्रियाएँ—कर्त्रन्वय क्रियाएँ वे हैं जो कि पुण्य करनेवाले लोगोंको प्राप्त हो सकती हैं, और जो समीचीन मार्गकी आराधना करनेके फलस्वरूप प्रवृत्त होती हैं ६६। १ सज्जाति, २ सहगृहित्व, ३ पात्रिज्य, ४ सुरेन्द्रता, ५ सायाज्य, ६ परमार्हन्त्य, ७ परमनिर्वाण । ये सात स्थान तीनों लोकोंमें उत्पन्न माने गये हैं और ये सात ही जन्म भगवान्के वचनरूपी अमृतके आस्वादनसे जीवोंको प्राप्त हो सकते हैं ६७-६८। महर्षियोंने इन क्रियाओंका समूह अनेक प्रकार माना है ज्यति अनेक प्रकारसे क्रियाओंका वर्णन किया है, परन्तु मे यहाँ विस्तार छोड़कर मसैपसे उनके लक्षण करता हूँ ६९।

२ गर्भान्वयकी ५३ क्रियाओंके लक्षण

म पु/३८/७१-७१० आधा नाम गर्भो न संस्कारो मन्त्रपूर्वक । परमोऽमृतमती स्नातां पुरुरुर्यार्हद्विज्या ७०। अत्रापि पूर्व-वदान जनी पूजा च पूर्ववत् । इष्टमन्धनमादानं समाशादिश्च लक्ष्यताम् ६९। क्रियाग्रनिवृत्तिर्निम पगनिर्वाणमाद्युप । स्वभाव-

जनितासूर्धात्रज्यामास्त्रन्दतो मता ॥२०६॥ इति निर्वाणपर्यन्ता क्रिया गर्भादिका सदा । भव्यात्मभिरनुष्ठेया त्रिपञ्चाक्षरसमुच्चयात् ॥२१०॥
 १ गर्भाधान क्रिया—श्रुतुमती स्त्रीके चतुर्थ स्नानके पश्चात् गर्भाधानके पहले, अर्धन्तदेवको पूजाके द्वारा मन्त्र पूर्वक जो सम्पन्न किया जाता है, उसे आधान क्रिया कहते हैं । ७०। भगवात्सु मे मागने तीन अग्निर्वाकी अर्धन्तकुण्ड, गणधरकुण्ड, व केवली कुण्डमें स्थापना करके भगवात्सुकी पूजा करें। तत्पश्चात् आहूति दें। फिर वेत्त पुत्रोत्पत्तिकी इच्छासे भोगाभिलाष निरपेक्ष रघोमर्ग करें। इस प्रकार यह आधानक्रिया विधि है ७१-७६। २ प्रोत्तिक्रिया—गर्भाधानके पश्चात् तीसरे महीने, पूर्ववत् भगवात्सुकी पूजा करनी चाहिए। उस दिनमे लेकर प्रतिदिन बाजे, नगाड़े आदि मजधाने चाहिए ७३-७६। ३ सुप्रोत्तिक्रिया—गर्भाधानके पाँचवें महीने पुन पुत्रोत्पत्तिकी इच्छासे भोगाभिलाष निरपेक्ष रघोमर्ग करें। इस प्रकार यह आधानक्रिया विधि है ७१-७६। ४ धृत्तिक्रिया—गर्भाधानके सातवें महीनेमें गर्भकी वृद्धिके लिए पुन पूर्वोक्त विधान करना चाहिए ७२। ५ मोदक्रिया—गर्भाधानके नवमें महीने गर्भकी वृद्धिके लिए पुन पूर्वोक्त विधान करके, स्त्रीको गान्त्रिकान्ध, मन्त्रपूर्वक बीजाक्षर लेखन, व मगलाभूषण पहनाना ये कार्य करने चाहिए ७३-७४। ६ प्रियोद्भव क्रिया—प्रसूति होनेपर जात कर्मरूप, मन्त्र व पूजन आदिका बडा भाग पूजन विधान किया जाता है। जिसका स्वरूप उपामत्राध्ययनसे जानने योग्य है ७५-७६। ७ नामकर्म क्रिया—जन्मसे १२वें दिन, पूजा व द्विज आदिके अकार पूर्वक, अपनी इच्छासे या भगवात्सुके १००८ नामोंसे घटपत्र विधिद्वारा (Ballot Paper System) बालकका कोई योग्य नाम छोटकर रखना (७७-७८) ८ बहिर्यान क्रिया—जन्मसे ३१४ महीने पश्चात् ही बालकको प्रसूतिगृहसे बाहर जाना चाहिए। बालकको यथाशक्ति कुक्ष भेंट आदि दी जाती है १६०-१२। ९ निपद्या क्रिया—बहिर्यानके पश्चात् मिष्ठ भगवात्सुकी पूजा विधिपूर्वक बालकको किसी विद्यामे हुए शुद्ध आसनपर बिठाना चाहिए १६३-१४। १० अन्नप्राशन क्रिया—जन्मके ७/८ माह पश्चात् पूजन विधिपूर्वक बालकको अन्न खिलाये १६५। ११ व्युष्टि क्रिया जन्मके एक वर्ष पश्चात् जिनेन्द्र पूजनविधि, दान व बन्धुवर्ग निमन्त्रणादि कार्य करना चाहिए। इसे वर्षवर्धन या वर्षगौठ भी कहते हैं १६६-१७। १२, केशवाप क्रिया—तदनन्तर किसी शुभ दिन, पूजा विधिपूर्वक बालकके सिरपर उत्तरा फिरवाना अथवा मुण्डन करना, व उसे आशीर्वाद देना आदि कार्य किया जाता है। बालक द्वारा गुरुको नमस्कार कराया जाता है १६८-१०१। १३ लिपि सख्यात—पाँचवें वर्ष अध्ययनके लिए पूजा विधिपूर्वक किसी योग्य गुरुस्थी गुरुके पास छोडना १२०२-१०३। १४ उपनीति क्रिया—आठवें वर्ष यज्ञोपवीत धारण कराते समय, केशोंका धुण्डन तथा पूजा विधिपूर्वक योग्य व्रत ग्रहण कराके बालकको कमरमें सूजकी रस्सी बाँधनी चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करके, सफेद धोती पहनकर, निरपर चोटी रखनेवाला वह बालक माता आदिके द्वारपर जाकर भिक्षा माँगे। भिक्षामें आगत द्रव्यसे पहले भगवात्सुकी पूजा करे, फिर वेप सचे अन्नको स्वय खाये। अम यह बालक ब्रह्मचारी कहलाने लगता है १२०४-१०५। १५ व्रतचर्या क्रिया—ब्रह्मचर्य आश्रमको धारण करनेवाला वह ब्रह्मचारी बालक अत्यन्त पवित्र व स्वच्छ जीवन जिताता है। व मरमें रत्नत्रयके चिह्न स्वरूप तीन लरकी सूजकी रस्सी, टाँगोंमें पवित्र अर्धन्त कुलकी सूचक उज्ज्वल व सादी धोती, वक्षस्थलपर सात लरका यज्ञोपवीत, मन वचन व कायकी शुद्धिका प्रतीक सिरका मुण्डन—इतने चिह्न धारण करके अहिंसापुत्रताका पालन करता हुआ गुरुके पास विद्याध्ययन करता है। वह कभी हरी दाँतोंनहीं करता, पान खाना, अन्न लगाना, उदटनसे स्नान करना व पलगपर सोना आदि बातोंका त्याग करता है। स्वच्छ जलसे स्नान करता है तथा अकेला पृथिवीपर सोता है।

अद्ययन मगमें गुरो सुगमे पाने श्राययागार औग फिर ज्य्यात्त शास्त्रका ज्ञान कर लीके जगन्तर व्याकरण, व्यास, इन्द्र, अन्नकार, गणित, ज्योतिष आदि विद्याजालि। नी यथा इति पश्या है १२६-१२०। १६ व्रतापत्तरण क्रिया—विद्याध्ययन पूरा कर लेनेपर माहर्षे या सान्नेह्ये गर्भमें गुरु माश्रीमें, श्रेयपुत्रादि नि। पूर्वक गुरुध आश्रममें प्रवेश पानेके लिए उपरान्त गर्व वतर्गा २ मागकर, श्रावकके योग्य आठ मूलगृहा (दे आश) का प्रण करता है। और पदाचिष्य शश्रिय धर्मके पाननाथ श्रया शासार्थ जोर शम्भ धारण करता है। १२१-१२६। १७ विद्या क्रिया—विद्याया इच्छा होनेपर गुरु माश्रीमें सिद्ध भगवात्सु पूर्वोक्त (प्रथम विद्यावत्) तीन अग्निर्वाकी पूजा विधिपूर्वक, श्रिगी प्रदक्षिणा सेते हुए, कुर्जन कस्याप पाणि प्रण करे। सात दिन पर्यन्त दोनो ब्रह्मर्षि से, फिर तीर्थयात्रादि करे। तदनन्तर केवल मन्त्राभ्यासके लिए, श्रिके पुनयागमें लग्न करे। शारीरिक दक्षिण है। तो पूर्ण ब्रह्मचर्यमे रहे १२७-१३१। १८, वर्णनाम क्रिया—गर्भाप पूजा विधिपूर्वक पिता उमरको बृह सम्पत्ति व दम्पति देवर धर्म व स्वाय पूर्वक जीवन जिताते हुए पूजा रहनेके लिए करता है १२४-१२५। १९ कुलचर्या क्रिया—जगती जन् परम्पराके अनुसार धन पुत्रादि गुरुस्थके पदगमोका यथाविधि निरा पालना है। महा, कुलचर्या है १२७-१४३। २०, गृहीशिता क्रिया—धार्मिक श्रेयमे तथा ज्ञानके क्षेत्रमें वृद्धि करता हुआ, जन्म गुरुस्थके द्वारा करण किसे जाने योग्य गृहीश या गुरुस्थाचार्य होता है १२७-१४४। २१ प्रशान्ति क्रिया—अपने पुत्रको गुरुगत भार मोक्ष निरस्त चित्त हो विशेष रूपसे धर्मरा पालन करते हुए दान्तर वृत्तिमे रहने लगता है। १२८-१४६। २२, गृह त्याग क्रिया—गुरुस्थापनमें कृताधीनता प्राप्त हो, योगिपूजा विधि पूर्वक अपने उमेष्ठ प्रपत्तिको भरी सम्पूर्ण सम्पत्ति व कुटुम्ब पोषणता तर्पणार मोक्षपर, तथा धार्मिक जीवन श्रिताग उपदेश करके स्वयं घर त्याग देता है १२७-१४६। २३ दीक्षा क्रिया—शुद्ध व्रत रूप उरुष्ट व्रतवरी दीक्षा लेना है १२७-१४८। २४ जिनरूपता क्रिया—क्रममे तथा अन्तर दिग्म्बर रूपवाले दुनिवतकी दीक्षा १२६-१६०। २५ मौनाध्ययन वृत्ति क्रिया—गुरुके पास यथोक्त कानमें मौनपूर्वक शारत्रागमन करना १६१-१६२। तीर्थवृत्तवना क्रिया—तीर्थपर पदकी वागण्यत मोक्ष भावनाओको भाता है। १६४-१६५। २६ गुरुस्थापानुपगमन क्रिया—प्रमत्ता पूर्वक उसे योग्य समझकर गुरु (आचार्य) को मद्यके आधिपत्यका गुरुपद प्रदान करे तो उसे तिनय पूर्वक स्वीकार करना १६६-१६७। २७ गणोपग्रहण क्रिया—गुरुपदनिष्ठ होकर चतुसधकी रक्षा व पालन करे तथा नरीन जिज्ञासुओंको उनकी दक्षिके अनुसार व्रत व दीक्षा दे १६८-१७१। २८ स्वगुरु स्थानावास क्रिया—गुरुकी भाँति स्वयं भी अवस्था विशेषकी प्राप्त हो जानेपर, मद्यमेंसे योग्य विद्यको छाँटकर उसे गुरुपदका प्राप्त कराने करे। १७२-१७४। ३० नि सगत्वभावना क्रिया—एकल विहारी होकर अत्यन्त निर्ममता पूर्वक अधिकाधिक चारित्र्यमें विद्युष्टि करना १७५-१७७। ३१ योगनिर्वाणसमाप्ति क्रिया आयुन्त अन्तिम भाग प्राप्त हो जानेपर वैराग्यको उत्कर्षता पूर्वक एवम् व अन्यत्त्व भाननाको भाता हुआ मल्लेखना धारण करके शरीर त्याग करनेके लिए साम्यभाव साँहत उसे धीरे-धीरे वृक्ष करने लगता है १७७-१८५। ३२ योग निर्वाण साधन क्रिया—अन्तिम अवस्था प्राप्त हो जानेपर साक्षात् समाधि या सन्नेखनाको धारणकर तिष्ठे १८६-१८६। ३३ इन्द्रोपपाद क्रिया—उपरोक्त तपके प्रभावसे वैमानिक देवोंके इन्द्र रूपसे उत्पाद होना १८०-१८४। ३४ इन्द्राभिषेक क्रिया—इन्द्रपदपर आरुढ करनेके लिए देव लोग उसका इन्द्राभिषेक करते हैं १८६-१८५। ३५, विधिदान क्रिया—देवोंको उन-उनके पदोपर नियुक्त करना १८६। ३६, सुखोदय क्रिया—

इन्द्रके योग्य मुख भोगते हुए देवलोके चिरकाल तक रहना । २००-२०१। ३७ इन्द्र त्याग क्रिया—आयुके अन्तमें शान्ति पूर्वक समस्त वभवका त्याग कर तथा देवोंको उपदेश देकर देवलोके च्युत होना । २०२-२१३। ३८ इन्द्रावतार क्रिया—सिद्ध भगवान्को नमस्कार करके, १६ स्वप्नों द्वारा माताका अपने अवतारकी सूचना देना । २१४-२१६। ३९ हिरण्योत्कृष्ट जन्मता—छह महीने पूर्वसे ही कुबेर द्वारा हिरण्य, सुवर्ण व रत्नोंकी वर्षा हो रही है जहाँ, तथा श्री हो आदि देवियों कर रही है सेवा जिसकी, ऐसा तथा शुद्ध गर्मवाली माताके गर्भमें तीन छानोंको लेकर अवतार धारण करना । २१७-२२४। ४० मन्दराभिषेक क्रिया—जन्म धारण करते ही नवजात इम बालकका इन्द्र द्वारा सुमेरु पर्वतपर अभिषेक किया जाना । २२५-२२८। ४१ गुरु पूजन क्रिया—बिना शिक्षा ग्रहण किये तीनों जगत्के गुरु स्वीकारे जाना । २२९-२३०। ४२ यौवराज्य क्रिया—पूजन अभिषेक पूर्वक युवराज पदका श्राद्धा जाता । २३१। ४३ स्वराज्य क्रिया—राज्याधिपतिके स्थानपर निष्ठ होना । २३२। ४४. चक्रलाम क्रिया—पुण्यके प्रतापसे नवनिधि व चक्ररत्नकी प्राप्ति । २३३। ४५ दिशाजय क्रिया—पट्ट खण्ड सहित समुद्रान्त पृथिवीको जीतकर वहाँ अपनी सत्ता स्थापित करना । २३४। ४६ चक्राभिषेक क्रिया—दिग्विजय पूर्ण कर नगरमें प्रवेश करते समय चक्रका अभिषेक करना । नगरके लोग चक्रवर्ती पदपर आसीन उनके चरणोंका अभिषेक कर चरणोदकको मस्तकपर चढाते है । २३५-२३६। ४७ साम्राज्य क्रिया—शिष्टोंका पालन व दृष्टीका निग्रह करनेका तथा प्रेम व न्याय पूर्वक राज्य करनेका उपदेश अपने आधीन राजाओंको देकर मुखपूर्वक राज्य करना । २३७-२६१। ४८ निष्क्रान्ति क्रिया—वेराग्य पूर्वक राज्यको त्यागना, लौकान्तिक देवी द्वारा सम्वाधनको प्राप्त होना । क्रमसे मनुष्यों, विद्याधरों व देवों द्वारा उठायी हुई शिचिकापर आरूढ होकर वनमें जाना । वस्त्रालकारको त्याग कर सिद्धोंकी सोक्षीमें दिग्म्बर व्रतको धारण कर पंचसुष्टि केश लौच करना आदि क्रियाएँ । २६६-२६४। ४९ योग सम्मह क्रिया—ज्ञानाध्ययनके योगसे उत्कृष्ट तेज स्वरूप केवलज्ञानकी प्राप्ति । २६५-३००। ५० आर्हन्त्य क्रिया—समवशरणकी दिव्य रचनाकी प्राप्ति । ३०१-३०३। ५१ विहारक्रिया—धर्मचक्रको आगे करके भव्य जीवोंके पुण्यसे प्रेरित, उनको उपदेश देनेके अर्थात् उन अर्हन्त भगवान्का विहार होना । ३०४। ५२. योग त्याग क्रिया—केवलसमुद्रात करके मन, वचन, वाय रूप योगोंको अत्यन्त निरोध कर, अत्यन्त निश्चल दशाको प्राप्त होना । ३०५-३०७। ५३ अग्रगिर्वृत्ति क्रिया - समस्त अघातिया कर्मोंका भी नाश कर, विनश्वर शरीरसे सदाके लिए नाता छुड़ाकर उत्कृष्ट व अविनश्वर सिद्ध पदको प्राप्त हो, लोक शिखरपर अष्टम भूमिमें जा निवास करना । ३०८-३०९।

३ दीक्षान्वयकी ४८ क्रियाओंका लक्षण

म पु ३६/१-८० अथात्रवीह द्विजन्मभयो मनुदीक्षान्वयक्रिया । १। तदुन्मुखस्य या वृत्ति पुसो दीक्षेत्यसी मता । तामन्विता क्रिया या तु सा स्याद् दीक्षान्वया क्रिया । ५। यस्वेतास्तत्त्वतो ज्ञात्वा भव्य समनुत्तिष्ठति । सोऽधिगच्छति निवर्णिम् अचिरात्सुखसाद्रजम् । १०। इति दीक्षान्वय क्रिया । = दीक्षान्वय सामान्य—व्रतको धारण करनेके समुख व्यक्ति त्रिदशको प्रवृत्तिसे सम्बन्ध रखनेवाली क्रियाओंको दीक्षान्वय क्रियाएँ कहते हैं । १-५। १ अवतार क्रिया—मिथ्यात्वसे दूषित कोई भव्य समीचीन मार्गको ग्रहण करनेके सम्मुख हो किन्हीं मुनिराज अथवा गृहस्थाचार्यके पास जाकर, यथार्थ देव शास्त्र गुरु व धर्मके सम्बन्धमें योग्य उपदेश प्राप्त करके, मिथ्या मार्गमें प्रेम हटाता है और समीचीन मार्गमें बुद्धि लगाता है । गुरु ही उम समय पिता है, और तत्त्वज्ञान रूप भस्कार ही गर्भ है । यहाँ यह भव्य

प्राणी अवतार धारण करता है । ६-२५। २ वृत्तिलां क्रिया—गुरुके द्वारा प्रदत्त व्रतको धारण करना । ३६। ३ रथानाम क्रिया—गृहस्थाचार्य उमके हाथगे मन्दिर जोमें जिनेन्द्र भगवान्के समवशरणकी पूजा करावे । तदनन्तर उसका मस्तक स्पर्श करके उस श्रावणकी दीक्षा दे । पंच सुष्टि लोचके प्रतीक स्वरूप उमके मन्तरना स्पर्श करे । तत् पश्चात् विधि पूर्वक उस पंच नमस्कार मन्त्र प्रदान करे । ४०-४४। ४ गग ग्रहणक्रिया—मिथ्या देवनाओंको शान्ति पूर्वक विसर्जन करता हुआ अपने घरमें टटाकर किसी अन्य योग्य रथानमें पहुँचाना । ४५-४८। ५ पुनाराध्य क्रिया—जिनेन्द्र देवकी पूजा करते हुए द्वादशगणना अर्थ ज्ञानी जनोके मुखने सुनना । ४९। ६ पुण्य यज्ञक्रिया—साधर्मि पुरपाके साथ पुण्य वृष्टिके कारणप्रत चौदह पुत्रियाओंका सुनना । ५०। ७ टटचर्या क्रिया—शास्त्रके अर्थका अनुधारण करके स्वमतमें दृढ़ता धारण । ५१। ८ उपयोगिता क्रिया—पर्वके दिन उपवासमें अर्थात् रात्रिके समय प्रतिमा योग धारण करके ध्यान करना । ५२। ९ उपनीति क्रिया—ब्रह्मचारीका स्वच्छवेश व यज्ञोपवीत आदि धारण करके शारत्रानुसार नाम परिवर्तन पूर्वक जिनमतमें श्रावणकी दीक्षा लेना । ५३-५६। १० व्रतचर्या क्रिया—तदनन्तर उपासनाध्ययन करके योग्य व्रतादि धारण करना । ५७। ११ व्रतावरण क्रिया—विद्याध्ययन समाप्त हो जानेपर गुरुकी साक्षीमें पुन जाभूषण आदिका ग्रहण करके गृहस्थमें प्रवेश करना । ५८। १२ विवाह क्रिया—स्व स्त्रीको भी अपने मतमें दीक्षित करके पुन उसके साथ पूर्व रूपेण सर्व विवाह संस्कार करे । ५९-६०। १३ वर्णतामक्रिया—नमाजके चार प्रतिष्ठित व्यक्तियोंमें अपनेको समाजमें सम्मिलित होनेकी प्रार्थना करे और वे विधि पूर्वक इसे अपने वर्णमें मिला ले । ६१-७१। १४ कुलचर्या क्रिया—जेनकुलकी परम्परा अनुसार देव पूजादि पट्ट जावश्यक क्रियाओंमें नियममें प्रवृत्ति करना । ७२। १५ गृहोपनिषत् क्रिया—शारत्रमें पूर्ण अभ्यस्त हो जानेपर तथा प्रायश्चित्तादि विविधा ज्ञान हो जानेपर गृहस्थाचार्यके पदको प्राप्त होना । ७३-७४। १६ प्रशान्तता क्रिया—नाना प्रकारके उपवासादिकी भावनाओंको प्राप्त होना । ७५। १७ गृहत्याग क्रिया—योग्य पुत्रको नीति सहित धर्मधारकी शिक्षा देकर, विरक्त बुद्धि वह द्विजोत्तम गृह त्याग कर देता है । ७६। १८ दीक्षाद्य क्रिया—एक वस्त्रको धारण करके वनमें जा श्रुतलकरी दीक्षा लेना । ७७। १९ जिनरूपता क्रिया—गुरुके समीप दिग्म्बरकी दीक्षा धारण करना । ७८। २०-४८ मौनाध्ययन वृत्ति—मे लेकर अप्रनिवृत्ति क्रिया तक ये जागेकी सर्व क्रियाएँ गर्भान्वय क्रियाओं में न २५ में न ४३ तककी क्रियाओं वृत्त जानना । ७९-८०।

४ कर्त्तव्ययादि ७ क्रियाओंके लक्षण

म पु ७८/६६ तास्तु कर्त्तव्यया ज्ञेया या प्राप्या पुण्यवर्त्तुभि । फनरूपतया वृत्ता नन्मार्गागधनस्य वे । ६६। = कर्त्तव्य क्रियाएँ वे हैं जो कि पुण्य करनेवाले लोगोंको प्राप्त हो जाती हैं, और जो समीचीन मार्गकी आराधना करनेके फलस्वरूप प्रवृत्त होती हैं । ६६। म पु ३६/८०-२०७ अथात सप्रवक्ष्यामि द्विजा कर्त्तव्यक्रिया । ८१। तत्र सजातिरित्याया क्रिया श्रेयाऽनुनिन्धनी । या मा वासत्रभव्यस्य नृजन्मोपगमे भवेत् । ८२। रस्त्ववर्ममलापायात् नृशुचिऽन्तरात्मन । सिद्धिं स्यात्सोपलब्धिं सा नानाया न गणाच्चिदा । २०६। इत्यागमानुसारेण प्रोक्ता कर्त्तव्यक्रिया । सन्तता परम्पानमर्गातिर्यत्र योगिनः । २०७। = सजाति क्रिया - कर्त्तव्यकी महत्त्व प्राप्तिका कारणरूप मनुष्य जन्म, उनमें भी शिवात्वा उत्तम दान जी माताको उत्तम जातिमें उरवन्न दृष्टा कोर् भव्य, जिम समय यज्ञोपवीत आदि स्वकारको पात्र परस्वकी प्राप्त होता है । तत्र जाति दिव्य पानन्पी गर्भसे उत्पन्न हुआ होनेके कारण सजातिने धारण

करनेवाला समझा जाता है। १९-२८। २ सद्गृहस्थ क्रिया—गृहस्थ योग्य अंसि मंसि आदि पदकर्मोंका पालन करता हुआ, पृथिवी-तलपर ब्रह्मतेजके वेद या ज्ञानब्रह्मज्ञानको स्वयं पढता हुआ और दूसरोंको पढाता हुआ वह प्रशसनीय देव-ब्राह्मणपनेको प्राप्त होता है। अर्हन्त उसके पिता हैं, रत्नत्रय रूप संस्कार उनकी उत्पत्तिकी अगर्भज योनि है। जिनेन्द्र देवरूप ब्रह्माकी सन्तान है, इसलिए वह देव ब्राह्मण है। उत्तम चारित्रको धारण करनेके कारण वर्णोत्तम है। ऐसा सच्चा जैन भ्रावक ही सच्चा द्विज व ब्राह्मणोत्तम है। मैत्रो, प्रमोद, कारुण्य व माध्यस्थ्यदि पक्ष तथा चर्या व प्रायश्चित्तादि साधनके कारण उनसे उद्योग सम्बन्धी हिंसाका भी स्पर्श नहीं होता। इस प्रकार गुणोंके द्वारा अपने आत्माको वृद्धि करना सद्गृहस्थ क्रिया है। १६६-१५४। ३. पारिव्राज्य क्रिया—गृहस्थ धर्मका पालन कर घरके निवासमें विरक्त होते हुए पुरुषका जो दीक्षा ग्रहण करना है उसे परिव्रज्या कहते हैं। ममत्व भावको छोड़कर दिग्म्बररूप धारण करना यह पारिव्राज्य क्रिया है। १९५५-२००। ४. सुरेन्द्रता क्रिया—परिव्रज्याके फलस्वरूप सुरेन्द्र पदकी प्राप्ति। २०१। ५-साम्राज्य क्रिया—चक्रवर्तीका वैभव व राज्य प्राप्ति। २०२। ६ आर्हन्त्य क्रिया—अर्हन्त परमेष्ठोको जो पंचकल्याणक रूप सम्पदाओंकी प्राप्ति होती है, उसे आर्हन्त्य क्रिया जानना चाहिए। २०३-२०४। ७ परिनिर्वृत्ति क्रिया—अन्तमें सर्वकर्म विद्युक्त सिद्ध पदकी प्राप्ति। २०५-०६।

* इन सब क्रियाओंके लिए मन्त्र विधान—दे मन्त्र/१/७।

५. गृहस्थको ये क्रियाएँ अवश्य करनी चाहिए

म. पु/३८/४६-५० तदेपां जातिमस्कार द्रव्यत्रिति सोऽधिराट्। स प्रोवाच द्विजन्मेभ्य क्रियाभेदानुशेषतः। ४६। तारच क्रियास्त्रिधा-मनाता श्रायत्प्रधायसगरे। सद्दृष्टिभिर्गुण्येया महोदका शुभा-वहा। ४७। = इसके लिए इन द्विजों (उत्तम कुलीनों) की जातिके संस्कारको दृढ करते हुए मघाट् भरतेस्वरने द्विजोंके लिए नीचे लिखे अनुमार क्रियाओंके समस्त भेद कहे। ४६। उन्होंने कहा कि श्रायका-ध्ययन सग्रहमें क्रियाएँ तीन प्रकारकी कही हैं। सग्रहदृष्टि पुरुषोंको उन क्रियाओंका पालन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि वे सभी उत्तम फल देनेवाली और शुभ करनेवाली हैं। ४७।

* यज्ञोपवीत संस्कार विशेष—दे. यज्ञोपवीत।

* संस्कार द्वारा अजैनको जैन बनाया जा सकता है
—दे यज्ञोपवीत/२।

संस्तनक—दूसरे नरकका दूसरा पटल—दे नरक/५।

संस्तर—भ आ/मु/६४०-६४४/८४०-८४५ पुढविसिलामओ वा फलमओ तणमओ य सथारो। होदि समाधिणिमित्त उत्तरसिर अह्व पुवसिरो। ६४०। अघसे समे अहुसिरे अहिमुयअविल्ले य अप्पपाणे य। असिणिद्धे घणगुत्ते उज्जावे भूमिसथानो। ६४१। विद्धथो य अफुडिदो गिररूपो सव्वदो अमसत्तो। समपट्टो उज्जावे सिलामओ होदि सथारो। ६४२। भूमि समर दलओ अफुडिल एगणि अप्पमाणो य। अच्चिदो य अफुडिदो तण्हो वि य फलय सथारो। ६४३। णिस्सघी य अपाण्हो गिरवहदो समधि वास्सणिज्जत्तु। सुहपडिल्लेहो मउओतण-सथारो ह्वे चरिमो। ६४४। जुत्तो पमाणरइयो उभयकालपडिल्लेहणा-मुद्धो। विधिविहिदो सथारो आरोहणो तिगुत्तेण। ६४५। = पृथिवी, शिलामय, फलकमय, और तृणमय ऐसे चार प्रकारके संस्तर हैं। समाधिके निमित्त इनकी आवश्यकता पडती है। इन संस्तरोंके मस्तकका भाग पूर्व व उत्तर दिशाकी तरफ होना चाहिए। ६४०। भूमि-संस्तर—जो जमीन मृदु नहीं है, जो छिद्र रहित, सम, सूखी, प्राणि-

रहित, प्रकाशयुक्त, क्षपकके वेदप्रमाणके अनुसार और गृध, और सुर-क्षित है ऐसी जमीन संस्तररूप होगी अन्यथा नहीं। ६४१। शिलामय संस्तर—शिलामय संस्तर अग्निज्वालासे दग्ध, टाँकीके द्वारा उकेरा गया, वा घिसा हुआ, होना चाहिए। यह संस्तर टूटा-फूटा न हो, निश्चल हो, सर्वतः जीवोंसे रहित हो, खटमल आदि दोषोंसे रहित, समतल और प्रकाशयुक्त होना चाहिए। ६४२। फलकमय संस्तर—चारों तरफसे जो भूमिसे सलग्न है, रुन्द और हलका, उठाने रखनेमें अनायाम कारक, सरल, अखण्ड, स्निग्ध मृदु, अफूट ऐसा फलक संस्तरके लिए योग्य है। ६४३। तृणसंस्तर—तृणसंस्तर गाँठ रहित तृणसे बना हुआ, छिद्र रहित, न टूटे हुए तृणसे बना हुआ, जिसपर सोने व श्वेतनेसे खुजली न होगी ऐसे तृणसे बना हुआ, मृदुस्पर्शवाला, जन्तुरहित, जा सुखमें सोधा जाता है, ऐसा होना चाहिए। ६४४। संस्तरके सामान्य लक्षण—चारों प्रकारके संस्तरोंमें ये गुण होने चाहिए। योग्य, प्रमाणयुक्त हो। तथा सूर्योदय व सूर्यास्तकालमें शोधन करनेसे शुद्ध होता है। शास्त्रोक्त विधिसे जिसकी रचना हुई है, ऐसे संस्तरपर मन वचन कायका शुद्ध कर आगेष्टण करना चाहिए। ६४५।

संस्तव—दे भक्ति/३।

संस्थान—१. संस्थान सामान्य व संस्थान नामकर्मका

लक्षण

स सि/५/२४/२६६/१ संस्थानमाकृति।

स सि/८/११/३६०/३ यदुदयादीदारिकादिशरीराकृतिनिर्वृत्तिर्भवति तत्संस्थानाम्। = १ संस्थानका अर्थ आकृति है। (रा वा/३/८/३/१७०/१५)। २ जिसके उदयसे औदारिकादि शरीरोंकी आकृति बनती है वह स्थान नामकर्म है। (रा वा.८/११/८/५७६/२६), (घ. ६/१.६-१ २८/५३/६), (घ. १३/५ ५ १०१/३६४/३), (गो क/जी प्र/३३/२६/२)।

रा वा/५/२४/१/४८५/१३ संतिष्ठते, सस्थीयतेऽनेनेति, सस्थितिर्वा संस्थानम्। = जो संस्थित होता है या जिसके द्वारा संस्थित होता है या संस्थितिको संस्थान कहते हैं।

क पा २/२-२२/४१५/६/२ तस-चउरस-वट्टादीणि सठाणाणि। = त्रिकोण, चतुष्कोण, और गोल आदि (आकार) को संस्थान कहते हैं।

२. संस्थानके भेद

प खं ६/१.६-१/मु ३४/७० जं त शरीरसठाणणामकम्म त छन्विहं, ममचउरमसरीरसठाणणाम गणोहपरिमडलसरीरसठाणणाम सादियसरीरसठाणणाम खुज्जसरीरसठाणणाम वामणसरीरसठाणणाम हुडमरीरसठाणणाम चेदि। = जो शरीर संस्थान नामकर्म है वह छह प्रकारका है—समचतुरस्र शरीरसंस्थाननामकर्म, न्यप्रोद्यपरिमण्डल-शरीरसंस्थाननामकर्म, स्वातिशरीरसंस्थाननामकर्म, कुज्जशरीर-संस्थान नामकर्म, वामनशरीरसंस्थाननामकर्म, और हुंडकशरीर-संस्थाननामकर्म। (प ख १३/५. ५/मु. १०७/३६८), (स. सि/८/११/३६०/३), (प स/प्रा/१/१/की टीका), (द्र स/१६६/५३/६), (भा पा/टी/६४/२-६/१३)।

स. सि/५/२४/२६६/१ तद्द (संस्थानं) द्विविधमित्थलक्षणमनित्थलक्षणं चेति। = इस (संस्थान) के दो भेद हैं—द्वयलक्षण और अनित्थलक्षण।

द्र स/टी/१६६/५३/८ वृत्तत्रिकोणचतुष्कोणादिव्यक्ताव्यक्तरूप बहुधा संस्थानम्। = गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि प्रगत अग्रगत अनेक प्रकारके संस्थान हैं।

३. संस्थानके भेदोंके लक्षण

१. समचतुरस्र

रा वा /८/११/८/५७६/३२ तत्रोर्ध्वाधोमध्येषु समप्रविभागेन शरीरावयव-
मनिवेशत्रयस्थापनं कुशलशिल्पिनिर्वृत्तिसमस्थितिचक्रात् अव-
स्थानम् समचतुरस्रसंस्थाननाम । = ऊपर नीचे मध्यमें कुशल
शिल्पिके द्वारा बनाये गये समचक्रकी तरह समान रूपसे शरीरके
अवयवोंकी रचना होना समचतुरस्र संस्थान है ।

ध ६/१.६-१.३४/७१/१ सम चतुरस्र समचतुरस्र समविभक्तमित्यर्थ ।
जस्य कम्मस्य उदपण जोवाण समचउरस्ससठाण होदि तस्स कम्मस्य
समचउरस्ससठाणमिदि सण्णा । = समान चतुरस्र अर्थात् समविभक्तकी
समचतुरस्र कहते हैं । जिस कर्मके उदयसे जावोंके समचतुरस्रसंस्थान
होता है उस कर्मकी समचतुरस्र सज्ञा है ।

ध १३/५.५.१०७/२६५/५ चतुर शोभनम्, समन्ताच्चतुर ममचतुरम्,
समानमानोन्मानमित्यर्थ । समचतुर च तत्र शरीरसंस्थानं च सम-
चतुरशरीरसंस्थानम् । तस्य संस्थानस्य निवर्त्तक यत् कर्म तस्याप्ये-
पेव सज्ञा, कारणे कार्योपचारात् । = चतुरका अर्थ शोभन है, सन
ओरसे चतुर समचतुर कहलाता है । समान मान और उन्मानवाला,
यह उक्त कथनका तात्पर्य है । समचतुर ऐसा जा शरीरसंस्थान वह
समचतुरस्रशरीरसंस्थान है । उस संस्थानके निवर्त्तक कर्मकी भी
कारणमें कार्यके उपचारसे यही सज्ञा है ।

२. न्यग्रोध परिमण्डल

रा, रा /८/११/८/५७६/३३ नाभेरुपगिष्टाह भ्रूयसो देहमनिवेश्याधस्ता-
च्छाषोपयोसो जनक न्यग्राधपरिमण्डलसंस्थानम् । = चडके पेडकी तरह
नाभिके ऊपर भारी और नीचे लघुभेदोंकी रचना न्यग्राधपरिमण्डल
संस्थान है ।

ध ६/१.६-१.३४/७१/२ णग्गोहो वडरवलो, तस्स परिमण्डल व परिमण्डल
जस्स सगोरस्स तण्णग्गाहपरिमण्डल । णग्गाहपरिमण्डलमेव सरोर-
सठाण णग्गोहपरिमण्डलसगोरसठाण आयतवृत्तमित्यर्थ । = न्यग्राध
वट वृक्षका कहते हैं, उसके परिमण्डलके समान परिमण्डल जिस
शरीरका होता है उसे न्यग्रोध परिमण्डल कहते हैं । न्यग्रोध परि-
मण्डलरूप ही जो शरीर संस्थान है, वह न्यग्रोध परिमण्डल अर्थात्
आयतवृत्त शरीरनामकर्म है ।

ध १३/५.५.१०७/३६८/७ न्यग्रोधो वटवृक्ष समन्तान्मण्डल परिमण्डलम्,
न्यग्रोधस्य परिमण्डलमिव परिमण्डल यस्य शरीरसंस्थानस्य तन्न्य-
ग्रोधपरिमण्डलशरीरसंस्थान नाम । अधस्तात् श्लक्ष्ण उपरि विशाल
यच्छरीरं तन्न्यग्रोधपरिमण्डलशरीरसंस्थान नाम । एतस्य यत्
कारणं कर्म तस्याप्येपैव सज्ञा, कारणे कार्योपचारात् = न्यग्रोधका
अर्थ वटका वृक्ष है, और परिमण्डलका अर्थ सब ओरका मण्डल ।
न्यग्रोधके परिमण्डलके समान जिस शरीर संस्थानका परिमण्डल
होता है वह न्यग्रोध परिमण्डल शरीर संस्थान है । जो शरीर नीचे
सूक्ष्म और ऊपर विशाल होता है वह न्यग्रोध परिमण्डल शरीर
संस्थान है । कारणमें कार्यके उपचार इसके कारण कर्मकी यही
सज्ञा है ।

३. स्वाति

रा वा /८/११/८/५७७/२ तद्विपरीतसनिवेशार स्वातिसंस्थाननाम
वस्त्रोन्तुष्याकारम् । = न्यग्रोधमें उलटा ऊपर लघु और नीचे भारी,
वास्त्रोंकी रचना स्वाति संस्थान है । (ध १३/५.५.१०७/२६८/१०) ।
ध ६/१.६-१.३४/७१/४ स्वातिर्वस्त्रोक्तं शास्त्रमनिर्वा, तस्य संस्थानमिदं
संस्थानं तस्य शरीरस्य तन्नातिशरीरसंस्थानम् । अतो विमाल
उपरि णग्गमिरे जं उनं होदि । = स्वाति नाम वस्त्राका या
शास्त्रमनो वृक्षका है । उसके जाकारके समान जाकार जिस शरीरका

है, वह स्वाति संस्थान है । अर्थात् यह शरीर नाभिके नीचे विमाल
और ऊपर सूक्ष्म या हीन होता है ।

४. कुञ्ज

रा वा /८/११/८/५७७/२ पृष्ठप्रदेशभाजिवहुपुद्गलप्रचयविधोषनक्षणस्य
निवर्त्तकं कुञ्जसंस्थाननाम । = पीठपर बहुत पुद्गलनाका पिण्ड हो
जाना अर्थात् कुञ्जडापन कुञ्जक संस्थान है ।

ध ६/१.६-१.३४/७१/६ कुञ्जस्य शरीरं कुञ्जशरीरम् । तस्य कुञ्ज-
शरीरस्य संस्थानमिव संस्थान यस्य तत्कुञ्जशरीरसंस्थानम् । 'जस्म
कम्मस्य उदपण साहाण दीहत्तं मज्झस्मं गृह्मसत्तं च होदि तस्म
खुज्जशरीरसठाणमिदि सण्णा । = कुण्डे शरीरको कुञ्ज शरीर कहते
हैं । उस कुञ्ज शरीरके संस्थानके समान संस्थान जिस शरीरका
होता है, वह कुञ्ज शरीर संस्थान है । जिस कर्मके उदयसे गावा-
ओंकी वीर्यता और मध्य भागके ह्रस्वता होती है, उसकी 'कु-
ञ्ज शरीर संस्थान' यह सज्ञा है । (ध १३/५.५.१०७/२६८/१२) ।

५. वामन

रा वा /८/११/८/५७७/३ सर्वाङ्गापाद्गृहस्वयवस्थाविशेषकारणं वामन-
संस्थाननाम । = सभी अंग उपांगोंकी छोटा बनानेमें कारण वामन
संस्थान है ।

ध ६/१.६-१.३४/७१/८ वामनस्य शरीरं वामनशरीरम् । वामन-
शरीरस्य संस्थानमिव संस्थान यस्य तद्वामनशरीरसंस्थानम् । जस्म
कम्मस्य उदपण साहाणं ज गृहस्सत्तं कायस्य दीहत्तं च होदि त
वामनशरीरसठाणं हादि । = बौनिके शरीरकी वामन शरीर कहते
हैं । वामन शरीरके संस्थानके समान संस्थान जिससे होता है, वह
वामन शरीर संस्थान है । जिस कर्मके उदयसे गावाओंके ह्रस्वता
और शरीरके वीर्यता होती है, वह वामनशरीर संस्थान नामकर्म
है । (ध १३/५.५.१०७/२६८/१३) ।

६. हु टक

रा वा /८/११/८/५७७/४ सर्वाङ्गोपाङ्गानां हुण्डमस्थितत्वात् हुण्डमरथा-
ननाम । = सभी अंग और उपांगोंका वितरतीन हु टकी तरह रचना
हुण्डक संस्थान है ।

ध ६/१.६-१.३४/७१/२ त्रिसमपासाणभरियदडओ व विम्भो विसम
हुड । हुडस्य शरीरं हुडशरीरं तस्म सठाणमिव सठाण जस्म त
हुडमरीरसठाणणाम । जस्म कम्मस्य उदपणं पुट्टवृत्तपचनठाणेहितो
वदिरित्तमणसठाणमुत्पज्जइ एकत्तीमभेदभिण्णं त हुडसठाण-
सण्णिद होदि त्ति णादव्व । = त्रिसम अर्थात् समानता रहित अनेक
आकारवाले पापांगोंमें भरी हुई मृदाके समान मर्त आग्ने त्रिसम
जाकारका हुड कहते हैं । हुडके शरीरका हुड शरीर कहते हैं । उसके
संस्थानके समान संस्थान जिसके हाता है उसका नाम हुड शरीर
संस्थान है । जिस कर्मके उदयसे पूर्याक्त पाँच संस्थानोंमें व्यतिरिक्त,
इकतीस भेद भिन्न अन्य संस्थान उत्पन्न हाता है, वह शरीर हुड-
संस्थान सज्ञा वाता है, ऐसा जानना चाहिए । (ध १/५.५.१०६/३६६/१) ।

७. इत्थं अनित्य संस्थानके लक्षण

स सि /५/२४/२६६/१ तृणप्रचयुग्नात्तपग्निमण्डानादीनामिदं लक्ष-
णम् । अतोऽयमनेजदीनां संस्थानमने कश्चिदमित्यमिदमित्ति निरूप-
णाभारादनिर्त्यनक्षणम् । = जिसके विषयमें 'यह संस्थान उस प्रकार-
का है' यह निर्देश किया जा सके वह इत्थं लक्षण संस्थान है । वृत्त,
त्रिगुण, चतुःकोण, आयत और परिमण्डल, आदि त्रेण इत्थं लक्षण
संस्थान है । तथा इसके अतिरिक्त मेघ प्रायिके जाकार जा कि अनेक
प्रकारके हैं और जिनके विषयमें 'यह इस प्रकारका है' यह नहीं कहा

सस्थान निर्माण कर्म

जा स्रुता वह अनित्यलक्षण सस्थान है। (रा. वा १/२४/१३/४८-६/१)।

५. गति मार्गणामे संस्थानोंका स्वामित्व

मू. ब्रा १/२०६० ममचतुरस्रिण्गोहामादि य खुज्जा य वामणा हुडा । पचि-
दियतिरियणरा देवा चउरस्स णारया हुडा । = समचतुरस्र, त्र्यग्रोध,
सात्तिक कुञ्जरु, वामन और हुड ये छह सस्थान पचेन्द्रिय तिर्यच
ओर मनुष्योंके होते हैं, वेव चतुरस्र सस्थान वाले हैं, नारकी सव
हुडन सस्थान वाले होते हैं। १०६०

६ अन्य सन्धियुक्त विषय

- १ एकेन्द्रियोंमें सस्थानका अभाव तथा तत्सम्बन्धी शक्ता समाधान ।
—दे, उदय/५ ।
- २ विकलान्द्रियोंमें हुटक सस्थानका नियम तथा तत्सम्बन्धी
शक्ता समाधान । —दे उदय/५ ।
- ३ विग्रहगतिमें जीर्णोका सस्थान । —दे, अवगाहना /१ ।
- ४ सस्थान नामकर्मकी बन्ध उदय स्रज प्ररूपणा तथा
तत्सम्बन्धी नियम व शक्ता समाधान आदि । —दे वह वह नाम ।

सस्थान निर्माण कर्म—दे निर्माणकर्म ।

संस्थान विचय धर्म ध्यान—दे धर्मध्यान/१ ।

सस्थानाक्षर—दे अक्षर ।

संहनन—१. सहनन सामान्यका लक्षण

स सि १/११/६०/५ यस्योदयादस्थिवन्धनविशेषो भवति तत्सहनन-
नाम । = जिसके उदयसे अस्थियाका बन्धन विशेष होता है वह
सहनन नामकर्म है। (रा. वा १/११/६५/७/५), (ध ६/१, ६-९,
२८/४४/८) (ध १३/५, ६, १०७/३६४/५), (गो क/जी प्र/३३/
२६/६)।

२ सहननके भेद

प ख ६/१, ६-१/मू ३६/७३ ज त सरीरसघडणणामकम्म त छत्विह,
वज्जरिसद्वदरणारायणसरीरसघडणणाम वज्जणारायणसरीरसघड-
णणाम णारायणसरीरसघडणणाम अङ्गणारायणसरीरसघडणणाम
खीलियमरीरसघडणणाम असपत्तसेवट्टसरीरसघडणणाम चेदि । ३६ ।
= जाशरीर सहनन नामकर्म है वह छह प्रकारका है— वज्ररूपभ-
नाराचशरीरसहनन नामकर्म, वज्रनाराचशरीरसहनन नामकर्म,
नाराचशरीरसहनन नामकर्म, अर्धनाराच शरीरसहनन नामकर्म,
कीलकशरीरसहनन नामकर्म, और असप्राप्त सृपाटिकाशरीरसहनन
नामकर्म । (प ख, १३/५, ६/१ १०६/३६६) (स सि १/११/
३६०/६), (प म/प्रा १/४ की टी) (रा. वा १/११/६/५७/६),
(गो, क/जी प्र/३२/२६/६)।

३ स ननके भेदोंके लक्षण

रा वा १/११/६/५७/७ तत्र वज्राकारभयास्थिसन्धि प्रत्येक मध्ये
वलयनन्धन सनाराच सुसहत वज्रपनाराचसहननम् । तदेव वलय-
बन्धनविरहित वज्रनाराचसहननम् । तदेवाभय वज्राकारबन्धन-
व्यपेतमवलयनन्धन सनाराच नागचसहननम् । तदेवेकपार्श्वे
मनाराचम् इतरानाराचम् अर्धनाराचसहननम् । तदुभयमन्ते
सकील गीनि कासहननम् । अन्तगसप्राप्तपरस्परस्थिमन्धि वहि
सिगस्तायुमांस वटितम् असप्राप्तसृपाटिकासहननम् । = दोनो हड्डियों

की सन्धियाँ वज्राकार हों। प्रत्येकमें वलयबन्धन और नाराच हों
ऐसा सुसहत बन्धन वज्रपनाराचसहनन है। वलय बन्धनसे रहित
वही वज्रनाराच सहनन है। वही वज्राकार बन्धन और वलय
बन्धनसे रहित पर नाराच युक्त होनेपर सनाराच सहनन है। वही
एक तरफ नाराच युक्त तथा दूसरी तरफ नागच रहित अवस्थामें
अर्ध नाराच है। जत्र दोनो हड्डियोंके छोरोंमें कील लगी हों तब वह
कीलक सहनन है। जिसमें भीतर हड्डियोंका परस्पर बन्धन न हो
मात्र बाहिरसे वे सिरा स्नायु मांस आदि लपेट कर सवटित की
गयी हों वह असप्राप्तसृपाटिका सहनन है। (ध १३/५, ६, १०६/
३६६/११)।

ध. ६/१, ६-१, ३६/७३/८ सहननप्रस्थिसचय, ऋपभो वेण्टनम्,
वज्रदभेद्यत्नाद्वज्ररूपम् । वज्रननाराच वज्रनाराच, तो द्वावपि
यस्मिन् वज्रशरीरसहनने तद्वज्ररूपमवज्रनाराचशरीरसहननम् । जस्स
कम्मस्स उदएण वज्जहट्टाद् वज्जवेट्टेण वेट्टियाद् वज्जणाराएण
खीलियाद् च होति त वज्जरिसहवद्वरणारायणसरीरसघडणमिदि
उत्त होदि । एसो चैव हट्टुबधो वज्जरिसहवज्जिओ जस्स कम्मस्स
उदएण होदि तं कम्म वज्जणारायणसरीरसघडणमिदि भण्णदे ।
जस्स कम्मस्स उदएण वज्जविसेसणरहिदणारायणखीलियाओ
हट्टुसधोओ हवति त णारायणसरीरसघडण णाम । जस्स कम्मस्स
उदएण हट्टुसधोओ णाराएण अद्वविद्विओ हवति त अद्वणारायण-
सरीरसघडण णाम । जस्स कम्मस्स उदएण अवज्जहट्टाद् खीलियाद्
हवति त खीलियसरीरसघडण णाम । जस्स कम्मस्स उदएण अणो-
णमसपत्ताद् सरिसिवहट्टाद् व छिरावद्वद् हट्टाद् हवति त अस-
पत्तसेवट्टसरीरसघडण णाम । = हड्डियोंके सचयको सहनन कहते हैं।
वेण्टनको ऋपभ कहते हैं। वज्रके समान अभेद होनेसे 'वज्ररूपम्' कह-
लाता है। वज्रके समान जो नाराच है वह वज्रनाराच कहलाता है।
ये दोनो अर्थात् वज्ररूपम् और वज्रनाराच, जिस वज्र सहननमें होते
हैं, वह वज्ररूपम् वज्रनाराच शरीर सहनन है। जिस कर्मके उदयसे
वज्रमय हड्डियाँ वज्रमय वेण्टनसे वेष्टित और वज्रमय नाराचसे
कीलित होती हैं, वह वज्ररूपभनाराच शरीर सहनन है। ऐसा
अर्थ कहा गया है। यह उपर्युक्त अस्थिबन्ध ही जिस कर्मके उदयसे
वज्र रूपभसे रहित होता है, वह कर्म वज्रनाराचशरीर सहनन इस
नामसे कहा जाता है। जिस कर्मके उदयसे वज्र विशेषणसे रहित
नाराच कीलें और हड्डियोंकी सधियाँ होती हैं वह नाराच शरीर
सहनन नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे हाडोंकी सन्धियाँ नाराच
से आधी विधी हुई होती हैं, वह अर्धनाराच शरीर सहनन नामकर्म
है। जिस कर्मके उदयसे वज्र-रहित हड्डियाँ और कीलें होती हैं वह
कीलक शरीर सहनन नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे सरीरसृप
अर्थात् सर्पकी हड्डियोंके समान परस्परमे असप्राप्त और शिरावद्व
हड्डियाँ होती हैं, वह असप्राप्तसृपाटिका शरीर सहनन नामकर्म है।

४. उत्तम संहननका तात्पर्य प्रथम तीन सहनन

रा वा १/६/२७/१/६३५/१६ आद्य सहननत्रयमुत्तमम् । १। वज्रवृपभ-
नाराचसहनन वज्रनाराचसहनन नाराचसहननमित्येतत्रितय
सहननमुत्तमम् । कुत । ध्यानादिवृत्तिविशेषहेतुत्वात् । = आदिके
तीन उत्तम सहनन है अर्थात् वज्ररूपभनाराचसहनन, वज्रनाराच-
सहनन, नाराचसहनन ये तीनों ध्यानकी वृत्ति विशेषका कारण
होनेसे उत्तम सहनन कहे गये हैं। (भ आ/वि १/६६६/१६२१/१४)।

५. ध्यानके लिए उत्तम सहननकी आवश्यकता

रा वा १/६/२७/१, ११/६२६-६२६/२० तत्र मोक्षस्य कारणमाद्यमेव ।
ध्यानस्य त्रितयमपि (१/६२६) उत्तमसहननाभिधानम् अन्यस्येय-
त्कालाध्यवसायधारणासामर्थ्यात् । ११/६२६ । = उपरोक्त तीनों

उत्तम सहननमेंसे मोक्षका कागण प्रथम सहनन होता है और ध्यानके कागण तो तीनों हैं। १। क्योंकि उत्तम सहननवाला ही इतने समय तक ध्यान धारण कर सकता है अन्य सहननवाला नहीं। (भ आ / वि / १६६६/१६२१/१४) ।

ध १३/४ २.२६/७६/१२ सुकनेस्मिओ उज्जरिसहज्जरणारायणसरीर-मघडणी (विदासेसकमायवगो) । = जिसके शुक्ल लेश्या है (जो) वज्ररूपभ नागच सहननका स्वामी है ऐसा क्षीणरूपाय जीव ही एकत्व जितक अविचार ध्यानका स्वामी है ।

शा ४/१/६७ न रगमित्तमत शुक्ले त्रियतेऽत्यवचेतसाम् । आद्य-सहननस्येव तत्प्रणीत पुरातनं । ६। छिन्ने भिन्ने हते दग्धे देहे स्वमिव दूरगम् । प्रपश्यत् वर्षवातादिदु खरपि न कम्पते । ७। = पहले सहननवालेके ही शुक्लध्यान कहा है क्योंकि इस सहननवालेका ही चित्त ऐसा होता है कि शरीरको छेदने, भेदने, मारने और जलानेपर भी अपने आत्मको अत्यन्त भिन्न देखता हुआ चलायमान नहीं होता, न वर्षाकाल आदिके दु खोंमें कम्पायमान होता है । ६-७।

त अनु / ५४ यत्पुनर्वज्रफायस्य ध्यानमित्थागमे वच । श्रेण्याध्यानि प्रतीत्योक्त तन्नाधस्तनिपेधकम् । ५४। = 'उज्जकायस्य ध्यान ऐसा जो वचन निर्देश है वह दाना श्रेणियोंको लक्ष्य करके कहा गया है इसलिए वह नीचेके गुणस्थानवर्तियोंके लिए ध्यानका निपेधक नहीं है (प का / ता वृ / १२६/२२२/४४), (द्र स / टी / १५/२३२/४) । द्र, स / टी / १५/२३२/६ उपशमक्षपक्षेत्रयो शुक्लध्यानं भवति, तच्चोत्तमसहननैर्नैव, अपूर्वगुणस्थानादधस्तनेषु गुणस्थानेषु धर्म-ध्यान, तच्चादिमत्रिकात्तमसहननाभावेऽप्यान्तमात्रसहननैनापि भवति । = उपशम श्रेणी तथा क्षपक्षेत्रीयों जो ध्यान होता है और वह उत्तम सहननसे ही होता है, निवृत्त अपूर्वकरण गुणस्थानसे नीचेके गुणस्थानमें जो धर्मध्यान होता है वह पहले तीन उत्तर सहननके अभाव होने पर भी अन्तिमके तीन सहननसे भी होता है ।

६. स्त्रीको उत्तम सहनन नहीं होती

मो क / मू / ३२ अतिमतिप्रसहणस्सुदया पुग कम्मभूमिमहिलाण । आदिमतिप्रसहणं परियथि जिणेहि णिहिण्ट । = कर्म भूमिकी स्त्रियोंके अन्तके तीन अर्द्धनाराच आदि सहननका ही उदय होता है, आदिके तीन वज्ररूपभनाराचादि सहननका उदय नहीं होता । (प, का / ता वृ / प्रशेष / २२५-५/३०४ पर उद्धृत) ।

७ अन्य सम्प्रन्धित विषय—

१. किस सहननवाला जीव मरकर कहा उत्पन्न हो तया कौन सा गुण उत्पन्न करनेको समर्थ हो । —दे जन्म/६ ।
- २ सहनन नाम तर्कको बन्ध उदय सत्त्व प्रत्युपायं तथा तत्सम्बन्धी शका समाधान । —दे वह वह नाम ।
- ३ सल्लेखनाम सहनन निर्देश । —दे. सल्लेखना/३ ।

सककापिर—भरतक्षेत्र दक्षिण आर्य खण्डका एक देश—दे, मनुष्य/४ ।

सकलकोति—नन्दीसघ बलात्कार गणकी गुर्वात्रिलीके अनुसार यह पद्मनन्दि न १० के शिष्य तथा भुवनकोतिके गुरु थे । कृति— १. प्रश्नोत्तरापासनाचार, २ तत्त्वार्थसार दीपिका, ३ मूल-आचार-प्रदीपिका, ४ पार्वरारण, ५ मृदुमाल चरित्र, ६ श्रीपाल चरित्र, ७ गङ्गाधर चरित्र, = आदिपुण्य, ८ उन्नत पुराण, ९ महावीर पुण्य, ११ मन्दिनाथ पुराण, १२ पुराण नगह । समय—ई १४३३-१४४२ A, V Up ति १५१० (ई १४६३) प गजाधर (म पु/प्र २० प पन्नालाल)—दे, इतिहास/५/१३ ।

सकलचन्द—माघनन्दिनीकी गुर्वात्रिलीके अनुसार आप माघनन्दिनीके शिष्य तथा धीनन्दि (रामनन्दि) के गुरु थे । धीनन्दिनीके लिए पत्र-

नन्दिने जम्बूदीव पण्णत्ति लिखी थी । समय—त्रि, १०००-१०४४ (ई ६४३-६६८), (प ख, १/प्र १६/II L Jain)—दे इतिहास/४/२२ ।

सकलदत्ति—दे दान/१ ।

सकल परमात्मा—दे, परमात्मा/१ ।

सकल विधि विधान—दे पूजा ।

सकलादेश—१. सकलादेश निर्देश

रा वा ४/४२/१३/२५२/२३ यदा तु तेषामेव धर्माणां कालादिभिर्भेदेन वृत्तात्मरूपमुच्यते तदैकेनापि शब्देन एकधर्मप्रत्यायनमुत्तेन तदारमत्तमापन्नस्य अनेकाशेषरूपस्य प्रतिपादनमभावात् यौगपद्यम् । तत्र यदा यौगपद्य तदा सकलादेश, स एव प्रमाणमित्युच्यते । 'सकलादेश प्रमाणाधीन' इति वचनात् । = जत्र उन्हीं अस्तित्वादि धर्मोंकी कालादिककी दृष्टिसे अमेद विवक्षा होती है तत्र एक भी शब्दके द्वारा एक धर्ममुखेन तादात्म्य रूपसे एतत्त्वको प्राप्त सभी धर्मोंका अखंड भावसे युगपत् कथन हो जाता है । यह सकलादेश कहलाता है । सकलादेश प्रमाण रूप है । कहा भी है—सकलादेश प्रमाणाधीन है । (श्लो, वा २/१/६/४४/४१/१५), (स्या म / २३/ २८३/१०) ।

श्लो वा २/१/६/५६/५८ म / पक्ति स धर्ममात्रवचन सकलादेश धर्म-मात्रकथन तु विकलादेश इत्यन्यसारम्, सन्वाद्यन्यतमेनापि धर्मैणा-विशेषितस्य धर्मिणो वचनासंभवात् । धर्ममात्रस्य कच्चिद्विषय्य वर्तमानस्य वक्तुमशक्ते । स्याज्जीव एव स्यादस्त्येवेति धर्ममात्रस्य च धर्ममात्रस्य वचन संभवत्येवेति चेत्, न, जीवशब्देन जीवत्व-धर्मरूपकस्य जीववस्तुन कथनादस्तिशब्देन चास्तित्वस्य कच्चिद्वि-शेष्ये विशेषणतया प्रतीयमानस्याभिधानात् । (४४६/११) सकलाप्रति-पादकत्वात् प्रत्येक सदादिव्याय विकलादेश इति न मनीषीना युक्तिस्तत्समुदायस्यापि विकलादेशत्वप्रसगात् । ४४६/२३। यदि पुनरस्तित्वादिधर्मसप्तमुखेनाशेषानन्तमप्यभिधाय विषयानन्तधर्मरूपक-स्वभावस्य वस्तुन कालादिभिर्भेदवृत्त्या भेदोपचारेण प्रकाशनात्स-दादिसप्तविकल्पात्मकवाक्यस्य सकलादेशत्वात्सिद्धिस्तदा रयादस्त्येव जीवादिबन्धित्वस्य सकलादेशत्वमस्तु । विवक्षितस्तित्वमुत्तेन शेषानन्तधर्मरूपको वस्तुनस्तथावृत्त्या कथनात् (४६२/१) = १ केवल धर्मोंको कथन करनेवाला वाक्य सकलादेश है और केवल धर्मोंको कथन करना ही तो विकलादेश है । इस प्रकार लक्षण सागरहित है क्योंकि अस्तित्व नास्तित्वादिके धर्मोंमेंसे किसी एक भी धर्मसे विशिष्ट नहीं किये गये धर्मोंका कथन असम्भव है । अर्थात् सम्पूर्ण धर्मोंसे रहित शुद्ध वस्तुका निरूपण नहीं हो सकता है । किसी न किसी धर्मसे युक्त ही धर्मोंका कथन किया जा सकता है । (स भ त / १७/१) २ कथचित् जीव ही है, इस प्रकार केवल जीवद्रव्य रूप धर्मोंको कहनेवाला वचन विद्यमान है, और 'कथचित् ही ही' ऐसे केवल अस्तित्व धर्मोंको कहनेवाला वाक्य भी सम्भवता है । ऐसा कोई कटाक्ष करते हैं । सो ऐसा तो नहीं कहना क्योंकि धर्मों वाचक जीव शब्द करके प्राणधारणरूप जीवरूप धर्मसे तादात्म्य ही नहीं जीव वस्तु कथन को गयी है केवल धर्मोंका ही कथन नहीं । और धर्म-वाचक अस्तित्व शब्द करके किसी विशेष्यमें विशेषण द्वारा प्रतीत किया जा रहे ही अस्तित्वका निरूपण किया गया है जो अस्तित्वधर्म ही नहीं । ४४६/११। ३ अस्तित्व नामित्त्व आदि धर्मोंको कहनेवाले माता भी वाक्य यदि प्रत्येक अकेले बोले जाय तो मन्वानेन ही उन प्रकार दूसरे अन्यवादी कह रहे हैं । वे भी युक्ति और आत्म प्रमाणमें प्रवीण नहीं हैं क्योंकि युक्ति और आत्म दोनोंका अभाव है । तो तो उन सातों वाक्योंके समुदायको भी विकलादेशपन्नता प्रसंग हो, गा । अस्तित्व आदि सातों वाक्य भी मनुष्यित हाकर भी सम्पूर्ण वस्तु, अर्थके प्रतिपादक नहीं हैं । ४६०/२३। ४ अस्तित्व आदि सातों धर्मों

प्राप्त नही किये गये हरे अकुर, हरे बीज, जल, नमकादि पदार्थोंको नहीं खानेवाला दयामूर्ति श्रावक सचित्त विरत माना गया है । १८। जो प्रयोजनपत्र वैरसे भी छूता हुआ अपनी निन्द्य करता है वह श्रावक मिले हुए है अनन्तान्त निगोदिया जीव जिसमें ऐसी वनस्पतियोंको कैसे खायेगा । १९। सज्जनोंका जिनागम सम्बन्धी निर्णय, इन्द्रिय विषय आश्चर्यजनक है, क्योंकि वैसे सज्जन दिखाई नहीं देते जो, प्राणोंका क्षय होनेपर भी हरी वनस्पतिको नहीं खाते । १०।

३ सचित्तापिधान आदिके लक्षण

स. सि ७/३५-३६/३७/१६ सचित्त चेतनायद् द्रव्यम् । तदुपश्लिष्ट सधन्ध । तद्द्रव्यतिकर्ण समिध १३५। सचित्ते पद्मपत्रादौ निक्षेप सचित्तनिक्षेप । अपिधानमावरणम् । सचित्तेनेव सवध्यते सचित्तापिधानमिति । ३६। = सचित्तेसे चेतना द्रव्य लिया जाता है । इससे सम्बन्धको प्राप्त हुआ द्रव्य सम्बन्धाहार है । और इससे मिश्रित द्रव्य सम्मिश्र है । ३५। (रा वा ७/३७/२-३/५५/५) । सचित्त कमल पत्र आदिमें रखना सचित्तनिक्षेप है । अपिधानका अर्थ भाँकना है । इस शब्दको भी सचित्त शब्दसे जोड़ लेना चाहिए जिससे सचित्तापिधानका सचित्त कमलपत्र आदिसे भाँकना यह अर्थ फलित होता है । (रा वा ७/३६/१-२/५५/२०) ।

४. भोगोपभोग परिमाण व्रत व सचित्त त्याग प्रतिमामें अन्तर

चा सा ३८/१ अस्योपभोगपरिभोगपरिमाणशीलव्रतातिचारो व्रत भयतीति । = उपभोग परिभोग परिमाण शीलके जो अतिचार है उनका त्याग ही इस प्रतिमामें किया जाता है ।

सा ध ७/११ सचित्तभोजन यत्प्राड् मनस्वेन जिहासितम् । व्रतयत्यङ्गिपञ्चरव-चरितस्तस्य पञ्चम । ११। = व्रती श्रावकने सचित्त भोजन पहले भोगोपभोग परिमाण व्रतके अतिचार रूपसे छोड़ा था उस सचित्त भोजनको प्राणियोंके मरणसे भयभीत पचम प्रतिमाधारी व्रत रूपसे छोड़ता है । ११।

ला सं ७/१६ इत् पूर्व कदाचिद्धै सचित्त वस्तु भक्षयेत् । इत् पर स नाशनुयासचित्त तज्जलायपि । १६। = पचम प्रतिमासे पूर्व कभी-कभी सचित्त पदार्थोंका भक्षण कर लेता था । परन्तु अत्र सचित्त पदार्थोंका भक्षण नहीं करता । यहाँ तक कि सचित्त जलका भी प्रयोग नहीं करता । १६।

५. वनस्पतिके सर्व भेद अचित्त अवस्थामें ग्राह्य है

दे भक्ष्याभक्ष्य/४/४ [जिमिकद आदिको सचित्त रूपमें खाना ससार-वा कारण है ।]

दे० सचित्त /२ [सचित्त विरत श्रावक सचित्त वनस्पति नहीं खाता]

दे सचित्त/६ [आगपर पके व विदारे कदमूल आदि प्राप्तक है] ।

शू आ ८/२५-२६ फलकदमूलवीथ्य अणगिगपवत् तु आमय किंचि । णच्चा अणेमणीय णवि य पडिच्छति ते धीरा । २५। ज ह्वदि अगिर्वीथ्य गिवट्टिम फामुयं कय चैव । णाऊण एसणीय त भिक्ख मुणपडिच्छति । २६। = अग्निकर नहीं पके, ऐसे कद, मूल, बीज, तथा अन्य भी जो कच्चा पदार्थ उसके अभक्ष्य जानकर वे धीर वीर मुनि भक्षणको इच्छा नहीं करते । २५। जो निर्जीज हो और प्राप्तक किया गया है ऐसे आहारको खाने योग्य समझ मुनिराज उसके लेनेकी इच्छा करते हैं । २६।

ला म २/१०४ विवेक्यागकाशोऽस्ति देशतो विरतावपि । आदेय

प्राप्तक योग्य नादेय तद्विपर्ययम् । १०४। = देश त्यागमें विवेककी बड़ी आवश्यकता है । निर्जीव तथा योग्य पदार्थोंका ग्रहण करना चाहिए । सचित्त तथा जयोग्य ऐसे पदार्थोंका ग्रहण नहीं करना चाहिए । १०४।

६. पदार्थोंको प्राप्तक करनेकी विधि

शुक्ल पक्क तप्त अत्रिल लवणेण मिस्सय दब्बं । ज अतेण य छिन्नं त सब्ब पासुय भणिय । २५। = सूखी हुई, पकी हुई, तपायी हुई, खटाई या नमक आदिसे मिश्रित वस्तु तथा किसी त्र अर्थात् चाकू आदिसे छिन्न-भिन्न की गयी सब ही वस्तुओंका प्राप्तक कहा जाता है ।

गो जी /जी. प्र २/२४/२५/१४ शुष्कपक्वध्वस्ताम्ललवणसमिश्रद्रव्यादि द्रव्य प्राप्तक । = सूखे हुए, पके हुए, ध्वस्त, खटाई या नमक आदिसे मिश्रित अथवा जले हुए द्रव्य प्राप्तक है ।

७. अन्य सम्बन्धित विषय

१ सचित्त त्याग प्रतिमा व आरम्भ त्याग प्रतिमामें अन्तर ।

—दे आरम्भ ।

२ सूखे हुए भी उदम्बग फल निषिद्ध हैं । —दे भक्ष्याभक्ष्य ।

३ साधुके विहारके लिए अचित्त मार्ग । —दे विहार/१/७ ।

४. मानको प्राप्तक किया जाना सम्भव नहीं । --दे माम/२ ।

५ अनन्त कार्याकरो प्राप्तक करनेमें फल कम है और हिसा अधिक । —दे भक्ष्याभक्ष्य/४/३ ।

६ वही जीव या अन्य कोई भी जीव उमी बीजके योनि ग्यानमें जन्म धारण कर सकता है । —दे जन्म/२ ।

सचित्त गुणयोग—दे योग ।

सचित्त निक्षेप—दे निक्षेप ।

सचित्त योनि—दे योनि ।

सचित्त संबंध—दे सचित्त/३ ।

सचित्त समिश्र—दे सचित्त/३ ।

सचित्तापिधान—दे सचित्त/३ ।

सज्जनचित्त वल्लभ—जा मक्खिण (ई १०४७) द्वारा विरचित अध्यात्म उपदेश रूप संस्कृत छन्द मठ ग्रन्थ है । इसमें २५ श्लोक हैं ।

सत्—सत्का सामान्य लक्षण पदार्थोंका स्वतः सिद्ध अस्तित्व है । जिसका निरन्वय नाश सम्भव है । इसके अतिरिक्त किन् गति जाति व तायता पर्याप्त या अपर्याप्त जीव किस-किस याग मार्गणमें अथवा कषाय मम्मरत्य व गुणरथानादिमें पाने सम्भव है, इन प्रकारकी निस्तृत प्रम्पणा ही इस अविचारका विषय है ।

१	मत् निर्देश
१	सत् सामान्यका लक्षण ।
२	द्रव्यका लक्षण सत् । —दे. द्रव्य/१ ।
३	सत् शब्दका अनेकों अर्थोंमें प्रयोग ।
४	सत् स्वत सिद्ध व अहेतुक है ।
५	द्रव्यकी स्वतन्त्रता आदि विषयक । —दे. द्रव्य ।
६	सत् सदा अपने प्रतिपक्षीकी अपेक्षा रहता है । —दे. अनेकान्त/१ ।
७	सत्मे उत्पाद व्यय ध्रौव्यता विषयक । —दे. उत्पाद ।
८	सत्का विनाश व असत्का उत्पाद असम्भव है ।
९	द्रव्य गुण पर्याय तीनों सत् हैं । —दे. उत्पाद/३/६ ।
१०	असत् वस्तुओंका भी कथञ्चन सत्त्व । —दे. असत् ।
११	सत् ही जगत्का कर्ता होता है ।
१२	सत्ताके दो भेद—महासत्ता व अत्रान्तर सत्ता । —दे. अस्तित्व ।
२	सत् विषयक प्ररूपणार्थ
१	सत् प्ररूपणके भेद ।
२	सत् व सत्त्वमें अन्तर ।
३	सत् प्ररूपणका कारण व प्रयोजन ।
४	सारणीमें प्रयुक्त मन्त्रेन सूची ।
५	सत् विषयक ओप प्ररूपणा ।
६	अध क्रम आदि विषयक आदेश प्ररूपणा ।
७	पांचों शरीरोंकी सजातन परिशासन कृति सम्बन्धी ।

१. सत् निर्देश

१ सत् सामान्यका लक्षण

स म् १/१८/२६/६ मदित्वस्तिवनिर्देश । =सत् अस्तित्वका सूचक है । (स सि १/१२/१३९/७), (ग वा १/१/१/११/१६), (ग वा १/३०/१/१६४/८), (ग ऋ जी प्र १/२६-४६२) ।

घ १/१.१.८/१५६/६ सत्त्वप्रमिस्यर्थः । सच्छब्दोऽस्ति शोभनवाचकः, यथा मन्त्रभिवान मर्यमिरयादि । अस्ति अस्तित्ववाचकः, सति मर्ये व्रतीत्यादि । अत्रास्तित्ववाचको ग्राह्य । =सत्का अर्थ सत्त्व है । सत् शब्द शोभन अर्थात् सुन्दर अर्थका वाचक है । जैसे, मन्त्रभिवान, अर्थात् शोभनरूप मन्त्रनका मर्य कहते हैं । सत् शब्द अस्तित्वका वाचक है ।

दे द्रव्य/१/७ [सत्ता, सत्त्व, सामान्य, द्रव्य, अन्वय, वस्तु, अर्थ, विधि ये सर्व पर्यायवाची शब्द हैं ।

दे उत्पाद/२/१ [उत्पाद, व्यय, ध्रुव इन तीनोंकी युगपत् प्रवृत्ति सत् है ।]

२. सत् शब्दका अनेकों अर्थोंमें प्रयोग

ग, मि १/१८/२६/६ म (सत्) प्रशमादिषु तर्तमात्रा ऽह गुरात् । = यह (सत्) प्रशमा आदि तर्कों के अर्थोंमें रहता है ।

ग वा १/१८/१/११/१६ मत्प्रत्यय प्रशमादिषु उच्यते । तथा प्रशमायां तावत् 'मरपुरण', मत्प्रत्यय इति । 'प्रतिपक्षी' इति 'सत्' शब्द, 'सत्' शब्द इति । मत्प्रत्यय प्रशामाने-प्रतिपक्षी मत्त्वधर्मत्वात् । 'प्रतिपक्षी' इति प्रशामायां अर्थः । मत्प्रत्ययान्ते 'मत्' शब्दार्थान्ते भाजयतीति 'आशय इत्यर्थः । 'मत्' शब्दार्थान्ते प्रयोग उक्तं अर्थान्ते हाता है जैसे 'मरपुरण, मत्प्रत्यय यह प्रशामार्थ मत्त्व शब्द है । 'सत्' शब्द, 'मत्' शब्द' यहाँ 'मत्' शब्द प्रसिद्ध वाचक है । 'प्रतिपक्षी मत्त्व' प्रतिवाचक है । 'मत्प्रत्यय में मत्त्व शब्द आशयार्थ है । (ग वा १/१८-३०/१/१६४/७) ।

घ १/१.१.८/१५६/६ सत्त्वप्रत्यय । = सत्त्वका अर्थ सत्त्व है ।

३ सत् स्वत सिद्ध व अहेतुक है

प्र मा.सत् प्र/गा, न यत्तत् मत्प्रत्ययत्वात् सत् सिद्धनास्तिहेतुत्व-प्रशमाशानितया स्वपरिच्छेदर मदीय मम नाम चेतन्मत्त्व १६० अस्तित्व इति त्वत्त्व इत्यस्य स्वभाव तावन्मत्त्वत्वात् नित्य-त्वादानात्तत्त्वत्वाहेतुत्वत्वात् स्वभावत्वात् १६१ न मत्त्वप्रत्ययत्वात्-त्वादानात्तत्त्वत्वात्, प्रत्ययत्वात् स्वभावत्वात् । सत् तावन्मत्त्वत्वात् न तेषामनादित्वात्तत्त्वत्वात् । जनादिनिधन इति तत्त्वत्वात्तत्त्वत्वात् १६२ = सत्त्व और अत्रान्तर इति तत्त्वत्वात् अन्तर्मुख-मदित्वत्वात् प्रशमाशाना हातेमे स्वपरिच्छेदर मदीय मम नाम चेतन्मत्त्व १६० अस्तित्व वास्तवमें प्रशमा स्वभाव है प्रो-सत् (अस्तित्व) अन्वय माधनमे निरोध हातेमे जगत् जनादि-जनत हातेमे जरेवृत्त, एव वृत्ति रूप १६१ वास्तवमें प्रशमा प्रशमा-प्रो उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि सर्व प्रशमा स्वभावत्वात् (अन्वय) स्वभावत्वात्ता ही अनन्वय जनादि निधनतामें है । क्योंकि जनादि निधन माधनान्तररी उपेया नहीं रहना १६२ ।

प घ १/१८/२६-६ सत्त्व सम्नाभक्ति मन्मात्र वा यत् स्वत सिद्धम् । तस्मादनादिनिधन स्वसहाय निरिच्छत्वात् १६१ इत्ये नो चैवस्तत् प्रादुर्भूतिरिन्द्रिया भवति । परत प्रादुर्भावी युक्तिरित्यत्र सत्ता-विनाशा वा । ६ । = सत्त्व का अन्वय मत्त्व है । सत्त्व ही सत्त्व है । जिस कारणमे कि वह स्वभावमे ही सिद्ध है इत्यन्विष्ट यह जनादि अनन्त है । स्वसहाय है, निरिच्छत्वात् है । यदि ऐसा न मानें तो अन्वयकी उत्पत्ति होने लगेगी । तथा परमे उत्पत्ति होने लगेगी । पदार्थ, दृश्ये पदार्थके संयोगमे पदार्थ रहनामेगा । मत्त्वके विनाशाका प्रमग आवेगा १६१ ।

दे कारण/II/१ [वस्तु स्वत अपने परिणमनमें कारण है ।]

४ सत्ता विनाश व अन्वयका उत्पाद अन्वयम्भव है

पं ग १/१८/२६-६ नास्ति जतिषा जो जतिषा अभावत्वात् चैव उत्पादो । गुणपञ्चयेसु भावा उत्पादवत् पञ्चवृत्ति । = तात् (सत्) का नाश नहीं है । तथा अभाव (अन्वय) का उत्पाद नहीं है । भाव (सत्त्व द्रव्य) गुण पर्यायोंमें उत्पाद व्यय करते हैं १६१ ।

स स्तो १/२८ नेवाऽसतो जन्म सता न नाशो, दोषस्तम पुद्गलभावती-ऽस्ति । = जो सर्वथा असत् है उनका कभी जन्म नहीं होता और सत्ता कभी नाश नहीं होता । दोषत्त्व दृश्ये पर सर्वथा नाश-को प्राप्त नहीं होता, किन्तु उस समय अन्वयकार रूप पुद्गल पर्यायको धारण किये हुए अपना अस्तित्व रक्ता है १२८ ।

प. ध /पू/१८३ नैव यत् स्वभावादसतो जन्म न सतो विनाशो वा ।
उत्पादादित्रयमपि भवति च भावेन भावतया ।१८३। =इस प्रकार
शंका ठीक नहीं है । क्योंकि स्वभावसे असत्की उत्पत्ति और सत्-
का विनाश नहीं होता है किन्तु उत्पादादि तीनोंमें भवनशील रूप-
से रहता है ।

५. सत् ही जगत्का कर्ता-हर्ता है

पं का /मू/२२ जीवा पुद्गलकाया आयास अस्थिकाइय सेसा । अमया
अस्थित्तमया कारणभूदा हि लोगस्स ।२२। =जीव पुद्गलकाय
आकाश और शेष दो अस्तिकाय अकृत हे, अस्तित्वमय है और
वास्तवमें लोकके कारणभूत है ।२२।

२. सत् विषयक प्ररूपणाएँ

१. सत् प्ररूपणाके भेद

प ख व धवला/१/१.१/सू ८/१५६ सतप्ररूपणदाए दुविहो णिह्देसो
ओधेण आदेसेण य ।८। न च प्ररूपणायास्तृतीय प्रकारोऽस्ति
सामान्यविशेषव्यतिरिक्तस्यानुपलम्भात् । =सत्प्ररूपणामें
आद्य अर्थात् सामान्यकी अपेक्षासे और आदेश अर्थात् विशेषकी
अपेक्षासे इस तरह दो प्रकारका कथन है ।८। इन दो प्रकारकी
प्ररूपणाकी छोड़कर वस्तुके विवेचनका तीसरा उपाय नहीं पाया
जाता, क्योंकि वस्तुमें सामान्य विशेष धर्मको छोड़कर तीसरा धर्म
नहीं पाया जाता ।

२. सत् व सत्त्वमें अन्तर

रा वा./१/८/१२/४२/२५ नानेन सम्यग्दर्शनादे सामान्येन सत्त्व-
मुच्यते किन्तु गतीन्द्रियकायादिषु चतुर्दशसु मार्गस्थानेषु 'कास्ति
सम्यग्दर्शनादि, क नास्ति इत्येव विशेषणार्थं सद्वचनम् । =इस
(सत्) के द्वारा सामान्य रूपसे सम्यग्दर्शन आदिका सत्त्वमात्र नहीं
कहा जाता है किन्तु गतिन्द्रिय न्याय आदि चौदह मार्गणा
स्थानोंमें 'कहाँ है, कहाँ नहीं है' आदि रूपसे सम्यग्दर्शनादिका
अस्तित्व सूचित किया जाता है ।

३. सत् प्ररूपणाका कारण व प्रयोजन

रा वा./१/८/१३/४२/२८ ये त्वनधिकृता जीवपर्याया । क्रोधादयो ये
चाजीवपर्याया वर्णादयो घटादयश्च तेषामस्तित्वाधिगमार्थं पुन-
र्वचनम् । =अनधिकृत क्रोधादि या अजीव पर्याय वर्णादिके अस्तित्व
सूचन करनेके लिए 'सत्' का ग्रहण आवश्यक है ।

वे सत्/२/२ गति इन्द्रियादि चौदह मार्गणाओंमें सम्यग्दर्शनादि कहाँ
हैं कहाँ नहीं है यह सूचित करनेको सत् शब्दका प्रयोग है ।

प का /ता घृ/८/२/१ शुद्ध जीवद्रव्यस्य या सत्ता नैवोपादेया भव-
तीति भावार्थः । =शुद्ध जीव द्रव्यकी जो सत्ता है वही उपादेय
है ऐसा भावार्थ है ।

४ मारणीमें प्रयुक्त संकेत सूची

अज्ञा,	अज्ञान
अना	अनाकार, अनाहारक
अनु	अनुभव
अप,	अपर्याप्त, अपर्याप्ति, अपक्वायिक
अभ,	अभव्य
अव,	अवधिज्ञान
अवि	अविरत गुणस्थान
अशु	अशुभ लेश्या आदि
असं,	असङ्गी, असयम
आ,	आहारक, आहारसंज्ञा
उ,	उत्कृष्ट, उभय
एके	एकेन्द्रिय
औ	औदारिक काययोग, औपशमिक सम्य
का	कापीत लेश्या, फार्मण
केवल	केवलज्ञान, केवलदर्शन
१ यो	क्षयोपशमिक सम्य
क्षा	क्षायिक सम्प्रादर्शन
ज्ञा,	ज्ञान
च	चतुर्गतिनिगोद
छे	छेदोपस्थापना चारित्र
ति	तियचगति
ते	तेजालेश्या (पीत)
त्र	त्रसक्याय
दे	देवगति
देश, स	देशमयम
न.	नरकगति
नि.	नित्यनिगोद
प	पचेन्द्रिय
परि	परिग्रह, परिहार वि
प	पर्याप्ति, पर्याप्त
पृ	पृथिवीकाय
प्र	प्रतिष्ठित, प्रत्येक
व	वनस्पतिकाय
भ	भव्य
मन	मन पर्याय मनोयोग
मनु	मनुष्यगति
मा	मानरूपाय
मि	मिथ्यात्व
मै	मेथुनसंज्ञा
यथा	यथाख्यात
लो.	लोभकपाय
व	वचनयोग
वै.	वैक्रियकयोग
शु	शुक्ललेश्या
श्रु	श्रुतज्ञान
सं	मङ्गी
सा,	साधारण वनस्पति
सा	सामायिक, सामादन
सू	सूक्ष्म, सूक्ष्मसाम्पराय

५ सत् विपयक ओव प्ररूपणा

ध २/११/४२१-४४८

२० प्ररूपणाए

मार्गणा विरोग		पुण स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	मिति	परि	काय	योग	परि	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेश्या भा	भव्य	सम्य	सहि	आहा	उपयोग
१	जीव सामान्य-(ध २/११/४२१-४२२)	१४	७ प	६,६,४ पर्यासि	१०/६,८/७, ६/४	४	६	तीनों मिश्र व कार्मण कायचिना११	३ व ३	४	८	७	४	६	२ भव्य, अभव्य	६	२ स अन	२ आ, अना	२ सा, अना
२	अपर्यासि (१,२, ४, ६, १४)	६	७ अप	६,६,४ अपर्यासि	७/७, ६/४, ४/३	४	६	तीनों मिश्र व कार्मण	४	४	६ मन, विभाग बिना	४ सामा छे, यथा, अस	४	२ का, शु	२ भव्य, अभव्य	६	२ स,असे, अनुभव्य	२ आहा, अना	२ सा, अना
२	मिथ्यादृष्टि-(ध २/११/४२४-४२६)	१	१४ प	६,६,४ प	१०/७, ६/७, ८/७, ७/६, ७/६, ६/४, ४/३	४	६	आहा द्वि, बिना	३	४	३ अज्ञान	१ असय	२ चक्षु, अचक्षु	६	२ भ, अभ	१ मिथ्या,	२ सं, अस	२ आ, अना	२ सा, अना
२	पर्यासि	१	७ अप	६,६,४ पर्यासि	१०,६,८,७, ६,४	४	६	मन ४, वच ४ औ १, वे १	१०	४	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या	२ स, अस	१ आहा, अना	२ सा, अना
३	अपर्यासि	१	७ अप	६,६,४ अपर्यासि	७/७, ६,६, ४, ३	४	६	औ व वे मिश्र, कार्म	३	४	२ कुमति व कुभुत	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु का, शु	६	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या	२ स, अस	२ आहा, अना	२ साका, अना
३	सासादन सन्गदृष्टि-(ध २/११/४२६-४२७)	१	२	६ पर्या, ६ अप	१०, ७	४	१	औ द्वि बिना	३	४	३ अज्ञान	१ अस, अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ भव्य,	१ सासा	१ संहि	२ आ, अना	२ सा, अना
२	पर्यासि	१	१ स प	६ पर्यासि	१०	४	१	मन ४, वच ४ औ १, वे १	१०	४	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ भव्य,	१ सासा	१ सहि	१ आहा	२ सा, अना
३	अपर्यासि	१	१ स अप, १ अपर्यासि	६ पर्यासि	७ वचे अप के	४	१	औ व वे मिश्र, कार्म	३	४	२ कुमति, कुभुत	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु का, शु	६	१ भव्य,	१ सासा,	१ सहि	२ आहा, अना	२ सा, अना

मार्गना विनये		२० प्ररूपणार्																		
सं	पर्याप्त अपर्याप्त	गुण स्थान	जीव समान	पर्याप्त	प्राण	लिङ्ग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	वेद	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेश्या द्र भा	भव्य	सम्य	सङ्घि	आहा	उपयोग
४. सव्यमिथादृष्टि—(घ. २/१.१/४२८)																				
१	३	पा अप प (अप नहीं है)	१ मि.	१ स प	६ पर्याप्त	१०	४	१	त्र	१० मनः, वचः औ. १ व वै १	३	३ तीनों ज्ञान व अज्ञान मिश्र	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ भव्य	१ मिश्र	१ सङ्घि	१ आहा.	२ साकार अना
५. असयत सम्यदृष्टि—(घ. २/१.१/४२९-४३१)																				
१	४	सामान्य	१ अवि	२ स. प.	६ पर्याप्त, ६ अपर्याप्त	१०	४	१	त्र	१३ आ दृि के विना	३	३ म श्रुत व अवधि	१ अस	३ चक्षु, अचक्षु व अवधि	६	१ भव्य	३ औप, शा, श्यो	१ सङ्घि	२ आहा, अना	२ साका, अना,
२	४	पर्याप्त	१ अवि	१ स प	६ पर्याप्त	१०	४	१	त्र	१० मनः, वचः औ. १, वै १	३	३ म, श्रु, अव	१ अस.	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	६	१ भव्य	३ औ, शा, श्यो	१ सङ्घि	१ आहा	२ सा, अना
३	४	अपर्याप्त	१ अवि	१ स अप	६ अपर्याप्त	७ अप. के	४	१	त्र	३ औ, वै मिश्र व कार्मण	२	३ म, श्रु, अव	१ अस	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	२ का शु	१ भव्य	३ औ, शा, श्यो.	१ सङ्घि	२ आहा अना.	२ साका, अना
६. संयतसयत—																				
१	१	सा पर्याप्त	१ तौ	१ स प	६ पर्याप्त	१०	४	१	त्र	६ मनः, वचः औ. १	३	३ मति, श्रुत, अवधि	१ सयमा- सयम	३ चक्षु, अचक्षु, अवधि	६	१ भव्य	३ औ, शा, श्यो	१ सङ्घि	१ आहा	२ सा, अना
७. प्रगत सयत—(घ. २/१.१/४३२)																				
१	६	सा पर्याप्त	१ द्वौ	७ स प	६/६ पर्याप्त, ६ अपर्याप्त	१०/७ के १० प के ७ अप. के	४	१	त्र	११ मनः, वचः औ. १, आहा. २	३	४ मति, श्रुत, अव, मन,	३ सामा, छे, परि	३ चक्षु, अचक्षु, अवधि	६	१ भव्य	३ औ, शा, श्यो.	१ सङ्घि	१ आहा.	२ सा, अना

२० प्ररूपणाए

मार्गवाचिणेय

सं	वर्णन		प्राण	गति	इन्द्रिय	नाय	योग	वेद	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेखा		भव्य	सम्य	सद्भि	आहा	उपयोग							
	वर्णन	वर्णन										द्र	भा												
८ अमरसंख्यत—(ध. २/१,१/४३४)																									
१	७	सा प	१	१	६	पर्यासि	१०	१	मनु	१	प	१	१	३	शु	१	भव्य	३	औ, शा, सयो	१	सद्भि	१	आहा	२	सा, अना
९ अपूर्वकरण—(ध. २/१,१/४३५)																									
१	८	पर्यासि	१	१	६	पर्यासि	१०	१	मनु	१	प.	१	१	३	शु	१	भव्य	३	औ, शा.	१	सद्भि	१	आहा	२	सा, अना
१० अनिवृत्तकरण—(ध. २/१,१/४३६-४३८)																									
१	९	पर्यासि-प्र भाग	१	१	६	पर्यासि	१०	२	मनु	१	प	१	१	३	शु	१	भव्य	३	औ, शा	१	सद्भि	१	आहा	२	सा, अना
२	९	द्वि भाग	१	१	६	पर्यासि	१०	१	मनु	१	प.	१	१	३	शु	१	भव्य	३	औ, शा	१	सद्भि	१	आहा	२	सा, अना
३	९	तु भाग	१	१	६	पर्यासि	१०	१	मनु	१	प	१	१	३	शु	१	भव्य	३	औ, शा	१	सद्भि	१	आहा	२	सा, अना
४	९	चतुर्थ भाग	१	१	६	पर्यासि	१०	१	मनु	१	प	१	१	३	शु	१	भव्य	३	औ, शा	१	सद्भि	१	आहा	२	सा, अना
५	९	पचम भाग	१	१	६	पर्यासि	१०	१	मनु	१	प	१	१	३	शु	१	भव्य	३	औ, शा.	१	सद्भि	१	आहा	२	सा, अना

२० प्ररूपणार्थ

मार्गना विशेष		२० प्ररूपणार्थ																	
म	पर्याप्त स्थान	जीव समास	पयासि	प्राण	लिङ्ग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	केल	ज्ञान	सयम	दर्शन	वैश्या	भव्य	सम्य	सहि	आहा	उपयोग
११	सुकुम साम्प्रदाय—(ध २/१,१/४३६)	१	६	१०	१	मनु	५	१	मनः, वचः औ, १	०	४ मति, श्रुत, अव, मन	१ सुक्ष्म साप	३ चक्षु, अचक्षु, अवधि	६	१ भव्य	२ औ, क्षा	१ सहि	१ आहा	२ सा अना
१२	उपशान्त न्याय—(ध २/१,१/४४०)	१	६	१०	०	१	५	१	मनः, वचः औ १	०	४ मति, श्रुत, अव, मन	१ यथा, यथा,	३ चक्षु, अचक्षु, अवधि	६	१ भव्य	२ औ क्षा	१ सहि	१ आहा	२ सा अना
१३	दीण कपाय—(ध, २/१,१/४४०)	१	६	१०	०	१	५	१	मनः, वचः औ १	०	४ मति, श्रुत, अव, मन	१ यथा	३ चक्षु, अचक्षु, अवधि	६	१ भव्य	१ क्षा.	१ सहि	१ आहा	२ सा अना
१४	सयोग केवली—(ध २/१,१/४४६)	१	६/६	४/२ (४/३, २, १ दे केवली/६)	०	१	५	१	मनः, वचः औ २, का १	०	१ केवलज्ञान	१ यथा	१ केवलदर्शन	६	१ भव्य	१ क्षा	०	२ अनुभव, अना	२ सा, अना शु उ
१५	अयोग केवली—(ध २/१,१/४४७)	१	६	१	०	१	५	१	अयोग	०	१ केवलज्ञान	१ यथा	१ केवल द	६	१ भव्य	१ क्षा.	०	१ अना,	२ सा अना शु उ

२० प्रस्तुतपाए

मागणा विवेक		प्राप	गति	इन्द्रिय	काय	योग	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या द्र भा	भव्य	सम्य	मजि	आहा	उपयोग
१	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५
२	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५

६. सत्य त्रिविक्रम आदेश प्रकल्पणा

(ध २/१.१/४४६-८४६)

मागणा विवेक		प्राप	गति	इन्द्रिय	काय	योग	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या द्र भा	भव्य	सम्य	मजि	आहा	उपयोग
१	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५
२	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५

मार्गणा विशेष		२० प्ररूपणाए																			
स	पर्याप्त अपर्याप्त	गुण स्थान	जीन समास	पर्याप्त अपर्याप्त	प्राण	लिटि	गति	इन्द्रिय	काम	योग	वेद	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेश्या		भव्य	सम्य	सद्धि	आहा	उपयोग
															त्र	भा					
४	१ सामान्य	१ मि	२ स प सं. अप	६/६ ६ पर्याप्त ६ अपर्याप्त	१०/७ १० पर्याप्त ७ अपर्याप्त	४	१ न	१ प	१ त्रस	११ मन ४, वच ४, वै. २, का १	१ नपु	३ अज्ञान	१ असयम	२ चक्षु, अचक्षु	३ लृ ३ लि	३ लृ ३ लि	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या.	१ सद्धि	२ आ, अना	२ सा, अना.
५	१ पर्याप्त	१ मि	१ सं. प	६ पर्याप्त	१०	४	१ न	१ पं	१ त्रस	६ मन ४, वच ४, वै. १	१ नपु	३ अज्ञान	१ असयम	२ चक्षु, अचक्षु	३ लृ ३ लि	३ लृ ३ लि	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या.	१ सद्धि	१ आहा.	२ सा, अना
६	१ अपर्याप्त	१ मि	१ सं. अप	६ अपर्याप्त	१०	४	१ न	१ पं	१ त्रस	२ वे मि, का	१ नपु	२ कुम, कुमृत	१ असयम	२ चक्षु, अचक्षु	३ लृ ३ लि	३ लृ ३ लि	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या.	१ सद्धि	२ आ, अना	२ सा, अना
७	२ सामान्य (पर्याप्त ही)	१ सा	१ सं. प	६ पर्याप्त	१०	४	१ न.	१ प	१ त्रस	६ मन ४, वच ४, वै. १	१ नपु	३ अज्ञान	१ असयम	२ चक्षु, अचक्षु	३ लृ ३ लि	३ लृ ३ लि	२ भव्य, अभव्य	१ सा.	१ सद्धि	१ आहा	२ सा, अना.
८	२ सामान्य (पर्याप्त ही)	१ मि	१ स प	६ पर्याप्त	१०	४	१ न.	१ पं	१ त्रस	६ मन ४, वच ४, वै. १	१ नपु	३ ज्ञान, अज्ञा. मिश्र	१ असयम	२ चक्षु, अचक्षु	३ लृ ३ लि	३ लृ ३ लि	२ भव्य, अभव्य	१ मिश्र	१ सद्धि	१ आहा	२ सा, अना

२० प्ररूपणाए

सामान्य विषय	पर्याय	प्राग	गति	अन्वय	नाय	योग	संज्ञ	ज्ञान	संज्ञ	दर्शन	निरुपण		सम्य	सिद्धि	आटा	उपयोग
											र	ना				
६	गान्धर्व	१	१	१	१	११	१	३	१	३	३	३	३	१	२	२
१०	पर्याय	५	१	१	३	६	५	३	१	३	३	३	३	१	१	२
११	अपर्याय	५	१	१	३	२	५	३	१	३	३	३	३	१	२	२
२ प्रथम पृथिवी—(घ २/२, १/४५-४६४)																
१	सामान्य	५	१	१	३	११	५	६	१	३	३	३	६	१	२	२
२	पर्याय	५	१	१	३	६	५	६	१	३	३	६	६	१	२	२
३	अपर्याय	५	१	१	३	२	५	६	१	३	३	३	३	१	२	२

२० प्ररूपणाए

स	मार्गणा िरूप		गुण स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	ल्लि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	ल्लि	ल्लि	ज्ञान	संयम	दर्शन	लेश्या		भव्य	सम्य	सशि	आहा	उपयोग
	ल्लि	ल्लि															द्र	भा					
४	१	१ सामान्य	१ मि	२ म. प स अप	६/६ ६ पर्यासि ६ अपर्यासि	१०/७ १० पर्या के ७ अप के	४	१ न	१ प	१ त्रस	११ मन ४, वच ४, वै २, का १	१ नपु	४	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	३ का	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या	१ सशि	२ आ, अना	२ साकार अना	
५	१	१ पर्यासि	१ मि	१ मं प.	६ पर्यासि	१०	४	१ न	१ प	१ त्रस	१ मन ४, वच ४, वै १	१ नपु	४	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	३ का	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या	१ सशि	१ आहा	२ साकार अना	
६	१	१ उपर्यासि	१ मि.	१ स अप	६ अपर्यासि	७	४	१ न	१ प	१ त्रस	२ वे मि., का	१ नप	४	२ कुमति, कुभुत	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	३ का	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या	१ सशि	२ आ, अना	२ साकार अना	
७	२	२ सामान्य (पर्या ही)	१ सा.	१ स प	६ पर्यासि	१०	४	१ न.	१ प.	१ त्रस	१ मन ४, वच ४, वै. १	१ नपु	४	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	३ का	१ भव्य	१ सासा	१ सशि	१ आहा	२ साकार अना	
८	३	३ सामान्य (पर्यासि ही)	१ मिश्र	१ म प	६ पर्यासि	१०	४	१ न.	१ प	१ त्रस	१ मन ४, वच ४, वै १	१ नपु	४	३ ज्ञानाज्ञान मिश्र	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	३ का	१ भव्य	१ मिश्र	१ सशि	१ आहा	२ साकार अना	
९	४	४ सामान्य	१ अवि	२ स. प स अप	६/६ ६ पर्यासि ६ अपर्यासि	१०/७ १० पर्या के ७ अपर्या के	४	१ न	१ प	१ त्रस	११ मन ४, वच ४, वै २ का १	१ नपु	४	३ ज्ञान	१ अस.	३ चक्षु, अचक्षु, अम.	३ का	१ भव्य	३ शा, क्षयो, औ	१ सशि	२ आ, अना	२ साकार अना	
१०	४	४ पर्यासि	१ अवि	१ स प	६ पर्यासि	१०	४	१ न	१ प	१ त्रस	१ मन ४, वच ४, वै १	१ नपु	४	३ मति, शुद्ध, अवधि	१ अस	३ चक्षु, अचक्षु, अव	३ का	१ भव्य	३ शा, क्षयो, औ.	१ सशि	१ आहा.	२ साकार अना	
११	४	४ अपर्यासि	१ अवि.	१ स अप	६ अपर्यासि	७	४	१ न.	१ प	१ त्रस	२ वे मि, का	१ नपु	४	३ मति, शुद्ध, आ	१ अस	३ चक्षु, अचक्षु, अव	३ का	१ भव्य	२ शा, क्षयो, औ.	१ सशि	२ आ, अना	२ साकार अना.	

२० प्ररूपणाएँ

मार्गणा विशेष		गुण स्थान	जीव समास	पर्यास	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	शक्ति	ज्ञान	समय	दर्शन	लेख्या	भव्य	सम्य.	सक्ति	आहा	उपयोग
स.	सि.	सि.												द्र	भा.				
३ द्वितीय पृथिवी- (घ २/१,१/४६-४७०)																			
१	×	सामान्य	४	६/६ पर्यासि	१०/७	१० पर्या के	१	५	११	१	४	१	३	३	२	५	१	२	२
			१-४	सं प स, अप	१० पर्यासि ७ अपर्यासि के	१	५	१	मन ४, वच ४, वै २, का १	१	३ ज्ञान ३ अज्ञान	१	३ चक्षु, अचक्षु, अन्वधि	३ का	२ भव्य, अभव्य	५	१ संक्षि	२	२ साकार अना
२	×	पर्यास	४	६ पर्यासि	१०	१०	१	५	६	१	४	१	३	३	२	५	१	१	२
			१-४	स प	१० पर्यासि	१	५	१	मन ४, वच ४, वै १	१	३ ज्ञान ३ अज्ञान	१	३ चक्षु, अचक्षु, अन्वधि	३ का	२ भव्य, अभव्य	५	१ सक्षि	१	२ साकार अना
३	×	अपर्यासि	१	६ अपर्यासि	७	७	१	५	२	१	४	१	३	३	२	५	१	२	२
			मि	स, अप	७ अपर्यासि के	१	५	१	वै मि, का नपु	१	३ कुमति, कुभुत	१	३ चक्षु, अचक्षु, अन्वधि	३ का	२ भव्य, अभव्य	५	१ सक्षि	२	२ साकार अना
४	१	सामान्य	१	६/६ पर्यासि	१०/७	१० पर्या के	१	५	११	१	४	१	३	३	२	५	१	२	२
			मि	स, प स, अप	१० पर्यासि ७ अपर्यासि के	१	५	१	मन ४, वच ४, वै २, का. १	१	३ अज्ञान	१	३ चक्षु, अचक्षु, अन्वधि	३ का	२ भव्य, अभव्य	५	१ संक्षि	२	२ साकार अना
५	१	पर्यासि	१	६ पर्यासि	१०	१०	१	५	६	१	४	१	३	३	२	५	१	१	२
			मि	स प	१० पर्यासि	१	५	१	मन ४, वच ४, वै १	१	३ अज्ञान	१	३ चक्षु, अचक्षु, अन्वधि	३ का	२ भव्य, अभव्य	५	१ संक्षि	१	२ साकार अना
६	१	अपर्यासि	१	६ अपर्यासि	७	७	१	५	२	१	४	१	३	३	२	५	१	२	२
			मि	स, अप	७ अपर्यासि के	१	५	१	वै मि, का नपु	१	३ कुमति, कुभुत	१	३ चक्षु, अचक्षु, अन्वधि	३ का	२ भव्य, अभव्य	५	१ सक्षि	२	२ साकार अना

मार्गणा विशेष	पर्यासि त्रयसि	गुण स्थान	जीव समान	पर्यासि	प्राण	लि प्र	गति	इन्द्रिय	काय	योग	शु क	प्रति क	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या		सम्य	संज्ञि	आहा	उपयोग
																द्र	भा.				
७	३ सामान्य (पर्या ही)	१ सा	१ स प	६ पर्यासि	१०	४	१ न	१ पं	१ त्रस	६ मन ४, वच ४, वै १	१ नपु	४	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	१ का	१ सासा.	१ सञ्चि	१ आहा.	२ साकार, अना	
८	३ सामान्य (पर्या ही)	१ मिश्र	१ स, प	६ पर्यासि	१०	४	१ न.	१ प.	१ त्रस	६ मन ४, वच ४, वै १	१ नपु	४	३ ज्ञान मिश्र	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	१ का	१ मिश्र	१ सञ्चि	१ आहा.	२ साकार, अना.	
९	४ सामान्य (पर्या ही)	१ अचि. अचि.)	१ स, प.	६ पर्यासि	१०	४	१ न.	१ पं.	१ त्रस	६ मन ४, वच ४, वै १	१ नपु	४	३ ज्ञान	१ अस.	३ चक्षु, अचक्षु अव.	१ का.	२ औ, सय्यो	१ सञ्चि	३ आहा	२ साकार अना.	
४ तृतीय मे सप्तम पृथिवी - (घ. २/१.१/४७०)																					
१	तृतीय पृथिवी									सर्वत्र द्वितीय पृथिवी वत्						२ का.		द्वितीय पृ वत्			
२	चतुर्थ									"						२ नी					
३	पचम									"						२ नी					
४	षष्ठ									"						२ कृ.					
५	सप्तम									"						२ कृ					
२. त्रिचन गति																					
१ त्रिचन सामान्य - (घ. २/१.१/४७२-४८२)																					
१	X सामान्य	६	१४	६ प / ६ अप	१०/७, ६/७,	४	१ ति	१	६	११ मन ४, वच ४, औ २, ता १	३	४	३ ज्ञान ३ अज्ञान	२ अस. दे सं	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	६	२ अव्य, अभव्य	६	२ सञ्चि, असञ्चि	२ आ, अना	२ साकार, अना.

२० प्ररूपणाए

स	मार्गणा विशेष		गुण स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	मि	ज्ञान	सगम	दर्शन	तेरया		भव्य	सम्य	सशि	आहा	उपयोग
	पर्यासि	अपर्यासि													द्र	मा					
२	२	१-१	५	७ पर्या	६, ६, ४ पर्यासि	१०, ६, ५, ७, ६, ४	४	१ ति.	६	६ मन ४, वच ४, औ १	२	३ ज्ञान ३ अज्ञान	३ अस, दे., न	३ चक्षु, अचक्षु, अवधि	६	२ भव्य, अभव्य	६	२ सशि, अमशि	३ आहा	२ साकार, अना	
३	३	१, २, ४	३	७ अप	६, ६, ४ अपर्यासि	७/७, ६/६, ४/३	४	१ ति	६	२ मि, का	३	५ कुम, कुशुत मति, शु, अव	३ अस	३ चक्षु, अचक्षु, अवधि	३	२ भव्य, अभव्य	३	२ सशि, अमशि	३ आहा, अना	३ साकार, अना	
४	१	सामान्य	१ मि	१४	६, ६, ४ अप ५, ५, ४ अप	१०/७, ६/७, ६/६, ७/६, ४/३, ४/३	४	१ ति	६	११ मन ४, वच ४, औ २, का १	३	३ अज्ञान	३ अस	३ चक्षु, अचक्षु	६	२ भव्य, अभव्य	३	२ सशि, अमशि	३ आहा, अना	२ साकार, अना	
५	१	पर्यासि	१ मि	७ पर्या	६, ६, ४ पर्यासि	१०, ६, ५, ७, ६, ४	४	१ ति	६	६ मन ४, वच ४, औ १	३	३ अज्ञान	३ अम.	३ चक्षु, अचक्षु	६	२ भव्य, अभव्य	३	२ सशि, अमशि	३ आहा	२ साकार, अना	
६	१	अपर्यासि	१ मि	७ अप	६, ६, ४ अपर्यासि	७/७, ६/६, ४/३	४	१ ति	६	२ मि, का	३	३ कुमति, कुशु	३ अस.	३ चक्षु, अचक्षु	३	२ भव्य, अभव्य	३	२ सशि, अमशि	३ आहा, अना	२ साकार, अना	
७	२	सामान्य	१ सा	२ स, प सा अप	६/६ ६ पर्या ६ अप	१०/७ १० पर्या के ७ अप के	४	१ ति	१	११ मन ४, वच ४, औ २ का, १	३	३ अज्ञान	३ अम	३ चक्षु, अचक्षु	६	१ भव्य, अभव्य	३	३ सशि, अमशि	३ आहा, अना	२ साकार, अना	
८	२	पर्यासि	१ सा	१ स, प सा अप	६ ६ पर्यासि	१०	४	१ ति.	१	६ मन ४, वच ४, औ १	३	३ अज्ञान	३ अस	३ चक्षु, अचक्षु	६	१ भव्य, अभव्य	३	३ सशि	३ आहा	२ साकार, अना	

२० प्ररूपणाए

सं.	सार्गणा विधेय		गुण स्थान	जीव समास	पर्याप्त	प्राण	लिङ्ग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	ऋ	लिङ्ग	ज्ञान	संयम	दर्शन	लेख्या		भव्य	सम्भ.	सञ्चि	आहा.	उपयोग
	परासि	अपरासि															द्र	भा					
६	२	अपरासि	१	म अप	६	७	४	१	१	१	२	३	४	२	१	२	२	३	१	१	२	२	३
१०	३	सामान्य (पर्यासि ही)	१	म प	६	१०	४	१	१	१	६	३	४	३	१	२	६	६	१	१	१	१	२
११	४	सामान्य	१	स प	६/६	१०/७	४	१	१	१	११	३	४	३	१	३	६	६	१	३	३	२	३
१२	४	पर्यासि	१	स अप	६ अपर्यासि	७ अप के	४	१	१	१	६	३	४	३	१	३	६	६	१	३	३	१	२
१३	४	अपरासि	१	म अप	६ अपर्यासि	७	४	२	१	१	२	१	४	३	१	३	६	६	१	२	२	२	३
१४	६	सामान्य (पर्यासि ही)	१	स प	६ पर्यासि	१०	४	१	१	१	६	३	४	३	१	३	६	६	१	२	२	१	२

२. पंचेन्द्रिय तिर्यक्त—(ध २/१,१/४३-४६२)

१	X	सामान्य	४	६/५	१०,६,७	४	१	१	१	१	११	३	४	३	१	३	६	६	२	६	२	२	३
			१-५	६ प, अप	१०/७	६	१	१	१	१	मन ४, वच ४, औ २, का १	३	४	३	२	३	६	६	२	६	२	२	३
				६ प, अप	६/७	६	१	१	१	१	मन ४, वच ४, औ २, का १	३	४	३	२	३	६	६	२	६	२	२	३
				६ प, अप	६/७	६	१	१	१	१	मन ४, वच ४, औ २, का १	३	४	३	२	३	६	६	२	६	२	२	३

स		२० प्ररुपणाए										उपयोग				
सं	विशेष	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लक्ष	ज्ञान	सयम	दर्शन	सैरमा	भव्य	सम्य	सक्ति	आहा	उपयोग
२	पर्याप्त अपर्याप्त	१०/६ १० ६	१ १ १	१ ५ ५	१ ३ ३	६ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३
३	पर्याप्त	७/७ ७ ७	१ १ १	१ ५ ५	१ ३ ३	६ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३
४	सामान्य	१० ७ ७	१ १ १	१ ५ ५	१ ३ ३	६ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३
५	पर्याप्त	१०/६ १० ६	१ १ १	१ ५ ५	१ ३ ३	६ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३
६	अपर्याप्त मि	७/७ ७ ७	१ १ १	१ ५ ५	१ ३ ३	६ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३
७	सामान्य	१०/७ १० ७	१ १ १	१ ५ ५	१ ३ ३	६ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३
८	पर्याप्त	१० १० १०	१ १ १	१ ५ ५	१ ३ ३	६ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३	३ ३ ३

स	मार्गणा विशेष		गुण स्थान	जीव समास	पर्याप्त	प्राण	लक्ष	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लक्ष	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या		सम्भ	संज्ञि	आहा	उपयोग												
	पर्याप्त	अपर्याप्त														द्र	भा																
६	२	अपर्याप्त	१	सा	६	अपर्याप्त	७	४	१	त्र	२	औ, मि, का.	३	४	२	कुम, कुशु	१	अस.	२	चक्षु, अचक्षु	३	का	३	१	भा	१	संज्ञि	२	सा	१	संज्ञि	२	सा, अना
१०	३	सामान्य (पर्याप्त ही)	१	मिश्र	६	पर्याप्त	१०	४	१	त्र.	६	मन ४, वच ४ औ १	३	४	३	ज्ञानाज्ञान मिश्र	१	अस	२	चक्षु, अचक्षु	६	६	६	१	भा	१	मिश्र	१	संज्ञि	१	सा, अना		
११	४	सामान्य	१	अधि	६/६	पर्याप्त	१०/७	४	१	त्र	११	मन ४, वच ४ औ २, का १	३	४	३	मति, श्रुत, अवधि	१	अस	३	चक्षु, अचक्षु अवधि	६	६	६	१	भा	३	औ, सा, शयो.	३	औ, सा, शयो.	१	सा, अना		
१२	४	पर्याप्त	१	अधि	६	पर्याप्त	१०	४	१	त्र	६	मन ४, वच ४ औ १	३	४	३	मति, श्रुत, अवधि	१	अस	३	चक्षु, अचक्षु अवधि	६	६	६	१	भा	३	औ, सा, शयो.	३	औ, सा, शयो.	१	सा, अना		
१३	४	अपर्याप्त	१	अधि	६	अपर्याप्त	७	४	१	त्रस	२	औ, मि, का.	१	४	३	मति, श्रुत, अवधि	१	अस	३	चक्षु, अचक्षु अवधि	२	का	३	१	भा	१	सा, शयो	२	सा, शयो	१	सा, अना		

स	मार्गणा दिवस		पुण स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	लिङ्ग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	ल्लिङ्ग	ज्ञान	समस	दर्शन	लेख्या		भव्य	सम्प	सञ्चि	आहा	उपयोग
	दि०	दि०														द	भा					
१	१४	५ सामान्य (पर्यासि ही)	१	१ सा. प	६ पर्यासि	१०	४	१ ति	१ प	१ त्र	६ मन ४, वच ४ औ १	३	३ मति, श्रुत, देवता अवधि	१ अस चक्षु, अचक्षु अवधि	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	६	३ युम	१ भव्य	२ ओ, शयो	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा, अना
३ पचेन्द्रिय तिर्यच योनिमति—(ध २/१,१/४६३-५००)																						
१	×	सामान्य	१-५	४ सा, प स, अप स, प अस, प अप,	६/५ ६ पर्यासि ६ अप ५ पर्यासि ५ अप	१०/६, ६/७	४	१ ति	१ प	१ त्र	११ मन ४, वच ४ औ २, का १	१ स्त्री	३ ज्ञान ३ अज्ञान	२ अस दे स	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	६	२ भव्य, अभव्य	५ क्षा बिना	२ सञ्चि, अस	२ आ, अना	२ सा, अना	
२	×	पर्यासि	१-५	२ सा, प अस, प	६/५ ६ पर्यासि ५ पर्यासि	१०/६ १० ६	४	१ ति	१ प	१ त्र	६ मन ४, वच ४ औ, १	१ स्त्री	३ ज्ञान ३ अज्ञान	२ अस दे स	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	६	२ भव्य, अभव्य	५ क्षा बिना	२ सञ्चि, अस	१ आहा	२ सा, अना	
३	×	अपर्यासि	२ मि, सा	२ स, अप अस, अप	६/५ ६ अप ५ अप	७/७ ७ ७	४	१ ति	१ प	१ त्र	२ ओ, मि का	१ स्त्री	२ कुम, कुपु	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	३ का शु	२ भव्य, अभव्य	२ मि सा,	२ सञ्चि, अस	२ आ, अना	२ सा, अना	
४	१	सामान्य	१ मि	४ स प स अप अस, प अप	६/५ ६ पर्यासि ६ अप ५ पर्यासि, ५ अप	१०/७, ६/७ १० ७ ६ ७	४	१ ति	१ प	१ त्र	११ मन ४, वच ४ औ २, का १	१ स्त्री	३ अज्ञान	१ अस	३ चक्षु, अचक्षु	६	२ भव्य, अभव्य	१ मि,	२ सञ्चि, अस	२ आ, अना	२ सा, अना	

२० प्ररूपणार्

मर्णना विषय	पर्याप्त त्रपर्याप्त	गुण स्थान	जोव समास	पर्याप्त	प्राण	लि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	वेद	इ	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेशया		सन्ध्य	सङ्घि	आहा	उपयोग
																द्र	भा				
६	१ पर्याप्त	१ मि	२ स प अस. प	६/५ ६ पर्याप्त ५ अपर्याप्त	१०/६ १० ६	४	१ ति	१ प	१ त्रस	६ मनः, वच ४ औ १	१ स्त्री	४	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	२ भव्य अभव्य	१ मिश्र	२ सङ्घि. असङ्घि	१ आहा.	२ सा, अना
६	१ अपर्याप्त	१ मि	२ स अप अस अप	६/५ ६ अपर्याप्त ५ पर्याप्त	७/७ ७ ७	४	१ ति	१ प	१ त्रस	२ औ मि, का	१ स्त्री	४ कुमति, कुटु	२ अस	२ वक्षु, अचक्षु	३	२ भव्य, अभव्य	१ मिश्र	२ सङ्घि असङ्घि	२ आहा, अना	२ सा अना	
७	२ सामान्य	१ सा,	२ स प स अप.	६/६ ६ पर्याप्त ६ अपर्याप्त	१०/७ १० ७	४	१ ति	१ पं	१ त्रस	११ मनः, वच ४ औ २, का १	१ स्त्री	४ अज्ञान	१ अम	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ भव्य	१ सा.	१ सङ्घि	२ आ अना.	२ साका. अना	
८	२ पर्याप्त	१ सा	१ स प	६ पर्याप्त	१०	४	१ ति	१ प	१ त्रस	६ मनः, वच ४ औ १	१ स्त्री	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ भव्य	१ सासा	१ सङ्घि	१ आहा	१ सा अना	
६	२ अपर्याप्त	१ सा	१ स अप.	६ अपर्याप्त	७	४	१ ति	१ प	१ त्रस	२ औ मि, का	१ स्त्री	२ कुमति, कुटु	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	३	१ भव्य	१ सा	१ सङ्घि	२ आहा अना.	२ सा अना.	
१०	३ सामान्य (पर्याप्त ही)	१ मिश्र	१ सं प	६ पर्याप्त	१०	४	१ ति	१ प	१ त्रस	६ मनः, वच ४ औ १	१ स्त्री	३ ज्ञानाज्ञान मिश्र	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ भव्य	१ मिश्र	१ सङ्घि	१ आहा	२ सा अना	
११	४ सामान्य (पर्याप्त ही)	१ पत्रि.	१ स प	६ पर्याप्त	१०	४	१ ति	१ प	१ त्रस	६ मनः, वच ४ औ १	१ स्त्री	३ ज्ञान	१ अस	३ चक्षु, अचक्षु, अत्र	६	१ भव्य	२ औ क्षयो	१ सङ्घि	१ आहा.	२ सा. अना	

२० प्ररूपणार्

स	मार्गणा विधीप	पयसि	पयसि	पयसि	पयसि	पयसि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	शु	ज्ञान	सयस	दशन	लेरया	भव्य	सम्य	सद्धि	आहा	उपयोग
स	पयसि	अपयसि	पयसि	अपयसि	पयसि	अपयसि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	शु	ज्ञान	सयस	दशन	लेरया	भव्य	सम्य	सद्धि	आहा	उपयोग
१२	१ सामान्य (पयसि हो)	१ ५	१ ५	६ पर्यासि	१०	४	१ ति	१ ५	१ प्रस	६ मनः, वच श्रुती	१ ५	३ ज्ञान	१ देहा स	३ चतु, अचतु अरथि	६ ३ शुभ	१ भव्य औ, शयो	२ सद्धि	१ जाहा	२ सा अना	
४	४ लक्षप्रवर्षिक विर्यक (घ २/१,१/१०१)																			
१	१ सामान्य (अपयसि हो)	१ ५	१ ५	६/६ अपयसि	७/७	४	१ ति	१ ५	१ प्रस	२ औ मि, का	१ ५	२ कुमति कुपुत	१ अम	२ चतु, अचतु	२ ३	२ भव्य अभव्य	१ मि	२ नद्धि अनद्धि	२ जा अना	२ सा अना,
३	३ मनुष्य गति—																			
१	१ मनुष्य सामान्य—(घ २/२,२/१०२-११२)				१०/७	४	१ मनु	१ ५	१ प्रस	१३ मनः, वच श्रुती २, आ २ का १	३ ३	८	७	४	६ ६	२ भव्य अभव्य	६	२ नद्धि असद्धि	२ जा अना	२ सा अना, उभय
२	२ सामान्य	१ ५	१ ५	६/६ पर्यासि	१०/७	४	१ मनु	१ ५	१ प्रस	१० मनः, वच श्रुती १, आ १	३ ३	८	७	४	६ ६	२ भव्य अभव्य	६	१ आहा	२ सा, अना, यु, उभय	
३	३ सामान्य	१ ५	१ ५	६/६ पर्यासि	७	४	१ मनु	१ ५	१ प्रस	३ औ मि, का, चरा मि	३ ३	६ ६	५ अम, मा, ३, यया	४	२ ३	२ भव्य अभव्य	४ मि, ना	२ जाहा	२ सा अना	

२० प्ररूपणार्थे

सं	सार्गना विधेय		गुण स्थान	जोन समास	पर्यासि	प्राण	लि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लक्ष	ज्ञान	समय	दर्शन	लेख्या		भव्य	सम्य	सञ्चि	आहा.	उपयोग
	प्र	प्र														द्र.	भा					
४	१	सामान्य	१	मि.	१	१०/७	४	१	१	१	११	३	३	१	१	७	६	२	१	१	२	२
					६/६			१	१	१	मनः, वचः, औ २, का, १	३	३	१	१	७	६	२	१	१	२	२
					६ पर्यासि	१०		१	१	१	मनः, वचः औ १	३	३	१	१	७	६	२	१	१	१	१
					६ अपर्यासि	७		१	१	१	औ मि, का	३	३	१	१	७	६	२	१	१	१	१
५	१	पर्यासि	१	मि.	१	१०	४	१	१	१	६	३	३	१	१	७	६	२	१	१	१	१
					६ पर्यासि	१०		१	१	१	मनः, वचः औ १	३	३	१	१	७	६	२	१	१	१	१
					६ अपर्यासि	७		१	१	१	औ मि, का	३	३	१	१	७	६	२	१	१	१	१
६	२	सामान्य	१	सा	१/६	१०/७	४	१	१	१	११	३	३	१	१	७	६	२	१	१	१	१
					६ पर्यासि	१०		१	१	१	मनः, वचः औ २, का १	३	३	१	१	७	६	२	१	१	१	१
					६ अपर्यासि	७		१	१	१	औ मि, का	३	३	१	१	७	६	२	१	१	१	१
७	२	पर्यासि	१	सा	६	१०	४	१	१	१	६	३	३	१	१	७	६	२	१	१	१	१
					६ पर्यासि	१०		१	१	१	मनः, वचः औ १	३	३	१	१	७	६	२	१	१	१	१
					६ अपर्यासि	७		१	१	१	औ मि, का	३	३	१	१	७	६	२	१	१	१	१
८	२	पर्यासि	१	सा	६	१०	४	१	१	१	६	३	३	१	१	७	६	२	१	१	१	१
					६ पर्यासि	१०		१	१	१	मनः, वचः औ १	३	३	१	१	७	६	२	१	१	१	१
					६ अपर्यासि	७		१	१	१	औ मि, का	३	३	१	१	७	६	२	१	१	१	१
९	३	सामान्य (पर्यासि ही)	१	मिभ	६	१०	४	१	१	१	६	३	३	१	१	७	६	२	१	१	१	१
					६ पर्यासि	१०		१	१	१	मनः, वचः औ. १	३	३	१	१	७	६	२	१	१	१	१
					६ अपर्यासि	७		१	१	१	औ मि, का	३	३	१	१	७	६	२	१	१	१	१

२० प्ररूपणाएँ

मार्गणा विशेष		प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लक्ष	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेखना		सम्य	सञ्चि	आहा	उपयोग
स	प										द्र	भा				
११	४ सामान्य पर्याप्त अवि.	१०/७ १० ७	१ मनु	१ पं	१ त्रस	११ मनः, वचन, औ २, का १	३	३ मति श्रुत, अवि.	१ अस	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	६	३ औ, सा सयो.	१ सञ्चि	२ आ अना	२ सा, अना	
१२	४ पर्याप्त अवि.	१०	१ मनु	१ प.	१ त्रस	६ मनः, वचन औ १	३	३ मति श्रुत, अवि.	१ अस	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	६	३ औ, सा सयो	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा, अना	
१३	४ अपर्याप्त अवि	७	१ मनु	१ प.	१ त्रस	२ औ मि, का.	१ पु	३ मति श्रुत, अवि	१ अस	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	६	२ सा, सयो	१ सञ्चि	२ आ अना	२ सा, अना	
१४	४ सामान्य (पर्याप्त ही)	१०	१ मनु	१ प	१ त्रस	६ मनः, वचन, औ १	३	३ मति श्रुत, अवि	१ देश सं	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	३	३ औ, मा सयो	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा अना	
१५	६- सामान्य पर्याप्त (अप.)	-	-	-	-	औषधत्व	←	-	-	-	-	-	-	-	-	
२.	मनुष्य पर्याप्त-(घ, २/१, १/१२२)	-	-	-	-	औषधत्व	←	-	-	-	-	-	-	-	-	
१	१- सामान्य पर्याप्त व अपर्याप्त	-	-	-	-	औषधत्व	←	-	-	-	-	-	-	-	-	

२० प्ररूपणाए

मार्गजा विधिपु	पर्याप्त	गुण स्थान	जीव समास	पर्याप्त	प्राण	लि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लि	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेखा		भव्य	सम्य.	सञ्चि	आहा	उपयोग															
															द्र	भा																				
३ मनुष्यनी - (ध २/१,२/१३-३३०)																																				
१	×	पामात्य	१४	२	६/६	१०/७	४	१	मनु	१	प	१	त्र	११	मन ४, वच ४ औ २, का १	१	स्त्री	४	७	मन बिना	६	परि बिना	४	४	६	६	२	भव्य, अभव्य	३	मि, सा	१	सञ्चि, अनुभव्य	२	आहा, अना	२	सा, अना
२	×	पर्याप्त	१४	१	६	१०	४	१	मनु.	१	प	१	त्रस	११	मन ४, वच ४ औ. १, अयो. वै २, आ २ बिना	१	स्त्री	४	७	मन. बिना	६	परि बिना	४	४	६	६	२	भव्य, अभव्य	३	मि, सा	१	सञ्चि, अनुभव्य	१	आहा	२	सा, अना पु उभव्य
३	×	अपर्याप्त	३	१	६	७	४	१	मनु	१	प	१	त्रस	११	मि, का	१	स्त्री	४	३	कुम, कु केवल	२	अस यथा	३	चक्षु, अचक्षु केवल	२	३/१	२	भव्य, अभव्य	३	मि, सा	१	सञ्चि, अनु	२	आहा, अना	२	सा, अना
४	१	मामात्य	१	२	६/६	१०/७	४	१	मनु	१	प	१	त्रस	११	मन ४, वच ४, औ. २, का. १	१	स्त्री	४	३	अज्ञान	१	अस.	१	चक्षु, अचक्षु	२	६	२	भव्य, अभव्य	३	मि	१	सञ्चि	२	आहा, अना	२	सा, अना
५	१	पर्याप्त	१	१	६	१०	४	१	मनु.	१	प.	१	त्रस	११	मन ४, वच ४, औ १	१	स्त्री	४	३	अज्ञान	१	अस	१	चक्षु, अचक्षु	२	६	२	भव्य, अभव्य	३	मि	१	सञ्चि	१	आहा	२	सा, अना.

मार्गणा विशेष		गुण स्थान	जीव समास	पर्याप्त	प्राण	लिंग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लिंग	ज्ञान	सयम	दर्शन	शेषया भा	प्रत्य	सम्य	सहि	आहा	उपयोग
६	१ अपर्याप्त	१ मि	१ स अप	६ अपर्याप्त	७	४	१ मनु	१ प	१ त्रस	२ औ मि, का	१ स्त्री	२ कुम, कुमु	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	२ का गु	२ म अभ	१ मि	१ सञ्चि	२ आ, अना	२ सा, अना
७	२ सामान्य	१ सा,	२ स प स अप	६/६ पर्याप्त, अप	१०/७ १० ७	४	१ मनु	१ प	१ त्रस	११ मन ४, वच ४, औ २, का १	१ स्त्री	२ कुम, कुमु	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ भव्य	१ सा	१ सञ्चि	२ आ, अना	२ सा, अना
८	२ पर्याप्त	१ सा	१ स प	६ पर्याप्त	१०	४	१ मनु	१ प	१ त्रस	६ मन ४, वच ४, औ १	१ स्त्री	२ कुम, कुमु	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ भव्य	१ सा	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा, अना
९	२ अपर्याप्त	१ सा	१ स. अप	६ अपर्याप्त	७	४	१ मनु	१ प	१ त्रस	२ औ मि, का.	१ स्त्री	२ कुम, कुमु	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	२ का गु	१ भव्य	१ सा	१ सञ्चि	२ आ, अना	२ सा, अना.
१०	३ सामान्य (पर्याप्त ही)	१ मिश्र	१ स प	६ अपर्याप्त	१०	४	१ मनु.	१ प	१ त्रस	६ मन ४, वच ४ औ १	१ स्त्री	३ ज्ञानाज्ञान मिश्र	१ अस,	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ भव्य	१ मिश्र	१ सञ्चि	१ आहा.	२ सा, अना.
११	४ सामान्य (प ही)	१ अत्रि	१ स. प	६ पर्याप्त	१०	४	१ मनु	१ प	१ त्रस	६ मन ४, वच ४ औ १	१ स्त्री	३ मति, शु अव.	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ भव्य	३ औ, सा सयो	१ सचि	१ आहा	२ सा, अना
१२	६ सामान्य (प ही)	१ रौ	१ स प	६ पर्याप्त	१०	४	१ मनु	१ प	१ त्रस	६ मन ४, वच ४ औ १	१ स्त्री	३ मति, शु अवधि	१ देवा स	२ चक्षु, अचक्षु, अवधि	३ सुभ	१ भव्य	३ औ, सा शयो	१ सचि	१ आहा	२ सा, अना

नं.	सामान्य विधेय		गुण स्थान	जीव समान	पर्याप्त	प्राण	लक्ष	गति	इन्द्रिय	काय	योग	वेद	ज्ञान	सयम	दर्शन	लैभ्या		सम्प	सञ्चि	आहा.	उपयोग
	पर्याप्त	अपर्याप्त														द्र	मा				
१३	६	सामान्य (पर्याप्त ही)	१	१	६ पर्याप्त	१०	४	१ मनु.	१ प	१ त्रस	६ मनः, वचः, श्रो औ. १	१ श्रौ	३ मति, श्रुत, अवधि	२ सा, छे, चक्षु, अवधि	३ चक्षु, अवधि	६	३ शुभ	१ औ, शा, क्षयो	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा, अना
१४	७	सामान्य (पर्याप्त ही)	१	१	६ पर्याप्त	१०	३	१ मनु	१ प.	१ त्रस	६ मनः, वचः, श्रो औ. १	१ श्रौ	३ मति, श्रुत, अवधि	२ सा, छे, चक्षु, अवधि	३ चक्षु, अवधि	६	३ शुभ	१ औ, शा, क्षयो	१ सञ्चि	१ आहा.	२ सा, अना
१५	८	सामान्य (पर्याप्त ही)	१	१	६ पर्याप्त	१०	३	१ मनु	१ प	१ त्रस	६ मनः, वचः, श्रो औ. १	१ श्रौ	३ मति, श्रुत, अवधि	२ सा, छे, चक्षु, अवधि	३ चक्षु, अवधि	६	१ शुभ	१ औ, शा, क्षयो	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा, अना
१६	६/१	सामान्य (पर्याप्त ही)	१	१	६ पर्याप्त	१०	२	१ मनु.	१ प	१ त्रस	६ मनः, वचः, श्रो औ. १	१ श्रौ	३ मति, श्रुत, अवधि	२ सा, छे, चक्षु, अवधि	३ चक्षु, अवधि	६	१ शुभ	१ औ, शा, क्षयो	१ सञ्चि	१ आहा.	२ सा, अना
१७	११/३	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	४	"	"	"	"	"	"	"	"	"
१८	११/३	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	३ श्रो	"	"	"	"	"	"	"	"	"
१९	११/३	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	२ मान श्रो	"	"	"	"	"	"	"	"	"
२०	१६/१	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	१ श्रो.	"	"	"	"	"	"	"	"	"

मार्गणा विशेष		गुण स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	छिद्रि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	ज्ञान	सयम	दर्शन	तैर्या	भव्य	सम्य	संज्ञि	आहा	उपयोग
२१	१० सामान्य (पर्यासि ही)	१ १०वाँ	१ स प	६ पर्यासि	१०	१ १०	१ मनु	१ प	१ तस	६ मनः, त्वच ४, औ १	३ मति, श्रुत, अवधि	१ सू सा	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	६ शुभ	१ भव्य	२ औ क्षा	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा अना
२२	११ सामान्य (पर्यासि ही)	१ ११वाँ	१ स प	६ पर्यासि	१०	० १०	१ मनु	१ प	१ तस	६ मनः, त्वच ४, औ १	३ मति, श्रुत, अवधि	१ यथा	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	६ शुभ	१ भव्य	१ औ क्षा	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा, अना
२३	१२ सामान्य (पर्यासि ही)	१ १२वाँ	१ स प	६ पर्यासि	१०	० १०	१ मनु	१ प	१ तस	६ मनः, त्वच ४, औ १	३ मति, श्रुत, अवधि	१ यथा	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	६ शुभ	१ भव्य	१ क्षा	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा, अना
२४	१३ सामान्य (पर्यासि ही)	१ १३वाँ	२ स अप	६/६ पर्यासि ६ अपर्यासि	४/२ ४ २	० १०	१ मनु	१ प	१ तस	७ मनः, त्वच ३, औ २, ना १	१ केवनज्ञान	१ यथा	१ केवनदर्शन	६ शुभ	१ भव्य	१ क्षा	० अतु	२ आ अना	२ सा, अना मु ल,
२५	१४ सामान्य (पर्यासि ही)	१ अयो	१ स प	६ पर्यासि	१ आयु	० १०	१ मनु	१ प	१ तस	० अयोग	१ केवल	१ यथा	१ केवन	६ शुभ	१ भव्य	१ क्षा	० अतु	१ आहा	२ सा, अना मु ल

मार्गणा विशेष		पुण स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	क्रि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	क्रि	ज्ञान	संगम	दर्शन	लेख्या	भव्य	सम्य.	संज्ञि	आहा	उपयोग
१	सत्त्वपर्यासि मनुष्य- (घ २/१२/१३२)	१ मि	१ स, अप	६ अपर्यासि	७	४	१ मनु	१ प	१ त्रस	२ औ मि, का,	१ तपु	२ कुम, कुशु	१ अस.	२ चक्षु, अचक्षु	२ का अशु शु	२ भव्य अभव्य	१ मि	१ सञ्चि	२ आ, अना,	२ सा, अना, यु उ
२	आर्ग मनेक्ष सपढके मनुष्य- (ति प /४/२६३४-२६३३)																			
१	सामान्य	१४	३ स अप स ल	६/६ पर्या अप	१०/७ १० ७	४	१ मनु	१ प	१ त्रस	१३ वै, द्वि, विना	३ प्रक्रि	=	७	४	६ प्रक्रि	२ भव्य अभव्य	६	१ सञ्चि	२ आ, अना,	२ सा, अना, यु उ
२	भरतै- रावतके १० सेज	१४	२ सं प स ल, अप	६/६ पर्या अप	१०/७ १० ७	४	१ मनु	१ प	१ त्रस	१३ वै, द्वि, विना	३ प्रक्रि	=	७	४	६ प्रक्रि	२ भव्य अभव्य	६	१ सञ्चि	२ आ, अना,	२ सा, अना, यु उ
३	विदेहके १६० सेज	१४	२ स प स ल, अप	६/६ पर्या अप	१०/७ १० ७	४	१ मनु	१ प	१ त्रस	१३ वै, द्वि, विना	३ प्रक्रि	=	७	४	६ प्रक्रि	२ भव्य अभव्य	६	१ सञ्चि	२ आ, अना,	२ सा, अना, यु उ
४	रियाधर (विद्या सहित)	६	२ स प स ल, अप	६/६ पर्या अप	१०/७ १० ७	४	१ मनु	१ प	१ त्रस	११ मनः, वचः औ २, का, १	३ प्रक्रि	३ ज्ञान ३ अज्ञान	२ अस देश सं	३ चक्षु, अचक्षु, आधि	६	२ भव्य अभव्य	६	१ सञ्चि	२ आ, अना,	२ सा, अना, यु उ
५	रियाधर (विद्या सेज देनेपर)	१४	२ स प स ल, अप	६ पर्या अप	१०/७ १० ७	४	१ मनु	१ प	१ त्रस	१३ वै द्वि विना	३ प्रक्रि	=	७	४	६ प्रक्रि	२ भव्य अभव्य	६	२ मञ्चि असञ्चि	२ आ, अना,	२ सा, अना, यु उ

मार्गणा विशेष		पर्याप्त आर्यासि स्थान	गुण	जीव समास	पर्याप्त	प्राण	लिङ्ग	गति	रुचिद्रय	काय	योग	क्षेत्र	ज्ञान	सगम	दर्शन	विरया	भव्य	सम्य	सहि	आहा	उपयोग
६	तर्म- श्रुमिज	१	स प स अप स अप	६/६ ६ पर्या ६ अप ”	१०/७	४	१ मनु	१ प	१ त्रस	११ मनः, वचः औ २, का १	३	४	२ कुमति, कुभुत	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	२ भव्य अभव्य	१ मि.	१ नहि	२ आ, अना	२ सा, अना
७	अन्त- द्वेषल	४	२ स प स अप स अप	६/६ ६ पर्या ६ अप	१०/७	४	१ मनु	१ प	१ त्रस	११ मनः, वचः औ २, का १	३	४	२ ज्ञान ३ अज्ञान	१ अस	३ चक्षु, अचक्षु, अन्धि	६	२ भव्य अभव्य	६	१ सहि	२ आ, अना	२ सा, अना
८	भोग श्रुमिज	४	२ स प स अप, स अप	६/६ ६ पर्या ६ अप	१०/७	४	१ मनु	१ प	१ त्रस	११ मनः, वचः औ २, का १	३	४	३ ज्ञान ३ अज्ञान	१ अस	३ चक्षु, अचक्षु अन्धि	६	२ भव्य, अभव्य	६	१ सहि	२ आहा अना	२ साकार अना
९	सामान्य	४-४	२ स प स अप स अप	६/६ ६ पर्याप्त ६ अपर्याप्त	१०/७ १० ७	४	१ देव	१ प.	१ त्रस	११ मनः, वचः औ २, का १	२ औ पु	४	६ अज्ञान ३ ज्ञान	१ अस.	३ चक्षु, अचक्षु, अन्धि	६	२ भव्य, अभव्य	६	१ सहि	२ आहा, अना	२ साकार अना
२	पर्याप्त	४-४	१ स प	६ पर्याप्त	१०	४	१ देव	१ प	१ त्रस	६ मनः, वचः औ २, का १	२ औ पु	४	३ ज्ञान ३ अज्ञान	१ अम	३ चक्षु, अचक्षु, अन्धि	६	२ भव्य, अभव्य	६	१ सहि	२ आहा	२ साकार अना

४ देवगति—

१ देव सामान्य—(ध २/११/५३१-५३३)

मार्गका विशेष		२० प्ररूपणाएँ																			
सं	पर्याप्त अपर्याप्त	गुण स्थान	जीव समास	पर्याप्त	प्राण	लिंग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लक्ष	प्रकृति	ज्ञान	सयम	दर्शन	सौर्या	भ्रम	सम्य	सहि	आहा	उपयोग
१	३	१, २, ३, ४	१ म, अप	६ अपर्याप्त	७	४	१ देव	१ प	१ त्रस	२ वै मि, का	२ ली पु	४	५ मति भूत, अन, कुम, कुमुत	१ असं	३ चक्षु, अचक्षु अवधि शु	२ का, शुभ	२ भव्य, अभव्य	६ मित्र विना	१ सहि	२ आहा, अना	२ साका, अना
४	१	मि.	२ स, प स अप	६/६ पर्याप्त अपर्याप्त	१०/७	४	१ देव	१ ८	१ त्रस	११ मन ४, वच ४ वै दे, का १	२ ली पु	४	३ अज्ञान	१ अस.	२ चक्षु, अचक्षु	६	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या	१ सहि	२ आहा, अना	२ सा, अना
५	१	मि	१ स प.	६ पर्याप्त	१०	४	१ देव	१ ८	१ त्रस	६ मन ४, वच ४, वै १	२ ली पु	४	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	३ शुभ	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या	१ सहि	१ आ, अना	२ सा, अना
६	१	मि	१ स अप	६ अपर्याप्त	७	४	१ देव	१ ५	१ त्रस	२ वै मि, का.	३ त्रि पु.	४	२ कुम, कुमु	१ अस	२ वक्षु, अचक्षु शु	६	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या	१ सहि	२ आहा, अना	२ ना, अना
७	३	सा.	२ स प स अप	६/६ पर्याप्त अपर्याप्त	१०/७ १० ७	४	१ देव	१ ५	१ त्रस	११ मन ४, वच. ४, वै २, का १	२ ली पु	४	३ अज्ञान	१ अस.	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ भव्य	१ सा	१ सहि	२ आहा, अना	२ सा, अना
८	२	सा	१ स प.	६ पर्याप्त	१०	४	१ देव	१ ८	१ त्रस	६ मन ४, वच ४ वै १	२ ली पु	४	३ अज्ञान	१ अस	३ चक्षु, अचक्षु	६	१ भव्य	१ सा	१ सहि	१ आहा, अना	२ सा, अना

मार्गणा विवेच सं.	पञ्चसि अपर्याप्त	गुण स्थाप	जोव समास	पर्याप्त	प्राण	लि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या		भव्य	सम्य	सञ्चि	आहा	उपयोग
														द्र	भा					
६	२	२	१	६	७	४	१	१	१	२	२	१	२	२	६	१	१	१	२	२
१०	३	१	१	६	७	४	१	१	१	२	३	१	२	३	३	१	१	१	१	२
१	४	१	२	६/६	१०/७	४	१	१	१	१	३	१	३	६	३	१	३	१	२	२
१२	४	१	२	६	१०	४	१	१	१	२	३	१	३	६	३	१	३	१	१	२
१३	४	१	१	६	७	४	१	१	१	२	३	१	३	२	२	१	३	१	२	२
२०. भवनत्रिकल्पेव -- (ति प २/४२२-११०), (ध २/११/१८३-१६२)																				
१	१-४	४	२	६/६	१०/७	४	१	१	१	१	६	१	३	६	४	२	४	१	२	२

२० प्ररूपणार्थ

म	मार्गणादिप		गुण स्थान	जीव समास	पर्याप्त	प्राण	लिंग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	वेद	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या द्र	भव्य	सम्य.	सङ्घि	आहा	उपयोग		
	पर्याप्त	अपर्याप्त																					
२	×	पर्याप्त	४ १-४	१ स प	६ पर्याप्त	१०	४	१ देव	१ प.	१ त्रस	६ मान ४, वच ४, वै. १	२ स्त्री पु	४	३ ज्ञान ३ अज्ञान	१ अस.	३ चक्षु, अचक्षु, अवधि	६	१ तैज	२ भव्य, अभव्य	६ क्षा विना	१ सङ्घि	१ आहा.	२ साकार अना.
३	×	अपर्याप्त	४ १-२	१ स. अप.	६ अपर्याप्त	७	४	१ देव	१ प	१ त्रस	२ वै मि, का	२ स्त्री पु	४	२ कुमति, कुभुत	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु शु	२ का शु	३ अशु अभव्य	२ मि सा	१ सङ्घि	२ आ. अना	२ सा अना.	
४	१	नामान्य	१ मि	२ स प. स अप	६/६ पर्याप्त ६ अप	१०/७ १० ७	४	१ देव	१ प	१ त्रस	११ मान ४, वच ४, वै. २, का १	२ स्त्री पु	४	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	४ अशु तैज	१ मि.	१ सङ्घि	२ आहा. अना	२ साकार अना	
५	१	पर्याप्त	१ मि.	१ स प	६ पर्याप्त	१०	४	१ देव	१ प.	१ त्रस	६ मान ४, वच ४, वै. १	२ स्त्री पु	४	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ तैज	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ मङ्घि	१ आहा	२ सा. अना
६	१	अपर्याप्त	१ मि.	१ स. अप.	६ अपर्याप्त	७	४	१ देव	१ प.	१ त्रस	२ वै मि, का.	२ स्त्री पु	४	३ कुमति, कुभुत	१ अस.	२ चक्षु, अचक्षु शु	२ का शु	३ अशु अभव्य	१ मि	१ सङ्घि	२ आ. अना	२ साकार अना	
७	२	सामान्य	१ सा	२ सं प. स. अप	६/६ पर्याप्त ६ अप	१०/७ १० ७	४	१ देव	१ प.	१ त्रस	११ मान ४, वच ४, वै. २, का १	२ स्त्री पु	४	३ अज्ञान	१ असं.	२ चक्षु, अचक्षु	६	४ अशु तैज	१ सासा	१ सङ्घि	२ आहा. अना.	२ साकार अना	
८	२	पर्याप्त	१ मा.	१ स. प	६ पर्याप्त	१०	४	१ देव	१ प	१ त्रस	६ मान ४, वच ४, वै. १	२ स्त्री पु	४	३ अज्ञान	१ असं.	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ तैज	१ सासा	१ सङ्घि	१ आहा.	२ सा अना.	

२० प्ररूपणाए

मार्गणा विधेय		गुण स्थान	जीव समास	पर्याप्ति	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	श्लोक	ज्ञान	समस	दर्शन	तैरमा द भा	भव्य	सम्य	सञ्चि	आहा	उपयोग
६	२ अपर्याप्ति	१ सा	१ स, अप	६ अपर्याप्ति	७	१ देव	१ प	१ त्रस	२ वै मि, ता	२ री पु	४ कुमति, कुभुत	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	२ री पु	१ भव्य	१ सासा	१ सञ्चि	२ आ, अना	२ साकार, अना
१०	३ सामान्य (पर्या. ही)	१ मिश्र	१ स प	६ पर्याप्ति	१०	१ देव	१ प	१ त्रस	६ मन ४, वच ४, वै १	२ री पु	३ ज्ञानाज्ञान मिश्र	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६ री पु	१ मिश्र	१ मिश्र	१ सञ्चि	२ आहा	२ साकार, अना
११	४ सामान्य (पर्या. ही)	१ अनि.	१ स प	६ पर्याप्ति	१०	१ देव	१ प	१ त्रस	६ मन ४, वच ४, वै, १	२ री पु	३ मति, श्रु, आ.	१ अस	३ चक्षु, अचक्षु, अतधि	६ री पु	१ भव्य	२ और्यो	१ सञ्चि	१ आहा	२ साकार, अना
३	सौधर्म ऐशान देव - (ध २/१,१/५१-५६०)																		
१	× सामान्य	४	२ स प	६/६ पर्याप्ति	१०, ७	१ देव	१ प	१ त्रस	११ मा ४, वच ४, वै, २, ता १	२ री पु	३ शान ३ अज्ञान	१ अस	३ चक्षु, अचक्षु, अतधि	३ री पु	२ भव्य, अभव्य	६	१ सञ्चि	२ आहा, अना	२ साकार, अना
२	× पर्याप्ति	४	१ स प	६ पर्याप्ति	१०	१ देव	१ प	१ त्रस	६ मन ४, वच ४, वै १	२ री पु	३ शान ३ अज्ञान	१ अस	३ चक्षु, अचक्षु, अतधि	३ री पु	२ भव्य, अभव्य	६	१ सञ्चि	१ आहा	२ साकार, अना
३	× अपर्याप्ति	३	१ स प	६ अपर्याप्ति	७	१ देव	१ प	१ त्रस	३ मि, ता	२ री पु	३ शान, त्रम, कुभुत	१ अस	३ चक्षु, अचक्षु, अतधि	३ री पु	२ भव्य, अभव्य	६	१ सञ्चि	२ आ, अना	२ साकार, अना

मार्गणा विशेष		२० प्ररूपणार्थं																			
म	पर्याप्त अपर्याप्त	पुण स्थान	जीव समाप्त	पर्याप्त	प्राण	लि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	वेद	विशेष	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्य द्र भा	भव्य	सम्य	सहि	आहा.	उपयोग
४	१ सामान्य	१ मि	२ स अप	६/६ ६ पर्याप्त ६ अपर्याप्त	१०/७ १० ७	४	१ देव	१ प	१ त्रस	११ मन ४, वच ४, वै २, का १	२ स्त्री पु	४	३ अज्ञान	१ असयम	२ चक्षु, अचक्षु	३ ते	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या	१ सशि	२ आहा, अना	२ सा, अना
५	१ पर्याप्त	१ मि	१ सं. प	६ पर्याप्त	१०	४	१ देव	१ प	१ त्रस	६ मन ४, वच ४, वै. १	२ स्त्री पु	४	३ अज्ञान	१ असयम	२ चक्षु, अचक्षु	३ ते	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या	१ सशि	१ आहा.	२ सा, अना
६	१ अपर्याप्त	१ मि	१ सं. अप	६ अपर्याप्त	७	४	१ देव	१ प	१ त्रस	२ वै मि, का १	२ स्त्री पु	४	२ कुमुत	१ असयम	२ चक्षु, अचक्षु	३ ते	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या	१ सशि	२ आहा, अना	२ सा, अना
७	२ सामान्य	१ सा	२ स अप	६/६ ६ पर्याप्त ६ अप.	१०/७ १० ७	४	१ देव	१ प	१ त्रस	११ मन ४, वच ४, वै २, का १	२ स्त्री पु	४	३ अज्ञान	१ असयम	२ चक्षु, अचक्षु	३ ते	१ भव्य	१ सासा	१ सशि	२ आहा, अना	२ सा, अना
८	२ पर्याप्त	१ सा	१ सं. प	६ पर्याप्त	१०	४	१ देव	१ प	१ त्रस	६ मन ४, वच ४, वै १	२ स्त्री पु	४	३ अज्ञान	१ असयम	२ चक्षु, अचक्षु	३ ते	१ भव्य	१ सासा	१ सशि	१ आहा, अना	२ सा, अना
९	२ अपर्याप्त	१ सा.	२ स अप	६ अपर्याप्त	७	४	१ देव	१ प	१ त्रस	२ वै मि, का १	२ स्त्री पु	४	२ कुमुत	१ असयम	२ चक्षु, अचक्षु	३ ते	१ भव्य	१ सासा	१ सशि	२ आहा, अना	२ सा, अना

मार्गणा विषय		२० प्रहणानं																			
सं	वि	गुण स्थान	जीव समस्त	पर्याप्त	प्राण	लि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	शक्ति	ज्ञान	संयम	दर्शन	तेरगा	भव्य	सम्य	सक्ति	आहा	उपयोग	
१०	३	सामान्य (पर्याप्त ही)	१	पर्याप्त	१०	४	देव	१	१	मन ४, वच ४, वै १	२	ज्ञानान मित्र	१	अस	३	१	१	१	१	२	साकार, जना.
११	४	सामान्य	२	पर्याप्त	१०/७	४	देव	१	१	मन ४, वच ४, वै २, का १	२	मति, श्रुत, अवधि	१	अस	३	१	३	१	१	२	साकार, जना
१२	४	पर्याप्त	१	पर्याप्त	१०	४	देव	१	१	मन ४, वच ४, वै १	२	मति, श्रुत, अव.	१	अस	३	१	३	१	१	२	साकार, जना
१३	४	अपर्याप्त	१	अपर्याप्त	७	४	देव	१	१	वै मि. का	१	मति, श्रुत, अवधि	१	अस	३	१	३	१	२	२	साकार, जना
४ समकुमार माहेन्द्र देव - (घ. २/१, २/१६१-१६२)																					
१	४	सामान्य	२	पर्याप्त	१०/७	४	देव	२	१	मन ४, वच ४, वै २, का १	२	ज्ञान	१	अस	३	२	६	१	३	२	साकार, जना
२	४	पर्याप्त	१	पर्याप्त	१०	४	देव	१	१	मन ४, वच ४, वै १	२	ज्ञान	१	अस	३	२	६	१	३	२	साकार, जना
३	४	अपर्याप्त	१	अपर्याप्त	७	४	देव	१	१	वै मि, का	२	ज्ञान	१	अस	३	२	६	१	३	२	साकार, जना

२० प्ररूपणादि

मार्गणा विकीप		पर्याप्त	गुण	जीव	पयसि	प्राण	कि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	हृ	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या	भव्य	सम्य	सङ्गि	आहा	उपयोग
म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म
१	४	सामान्य	—	—	—	—	—	—	—	→	सनकुमार	साहेन्द्रवत्	←	—	—	१	→	सनकुमार	साहेन्द्रवत्	←	—
१	४	सामान्य	—	—	—	—	—	—	—	→	"	"	←	—	—	१	→	"	"	←	—
१	४	सामान्य	—	—	—	—	—	—	—	→	"	"	←	—	—	१	→	"	"	←	—

१ नहसे महायुक्त तकके देव—(घ. २/१,२/५६३)

६. शतार सहस्रादि—(घ. २/१,२/५६४)

१ × सा, प सर्वत्र सनकुमारवत् / केन लेख्याने विशेष / केन लेख्या सामान्य का शु, उ, प, ज, शु, पर्या = उ प, ज, शु, अपर्या = का, शु, (भाव लेख्या सामान्य = उ प, ज, वन्य शु, पर्या = उ प ज शु अपर्या = उ प, ज, शु.)

० आनससे अच्युत—(घ. २/१,२/५६४)

१ × सा, प सर्वत्र सनकुमारवत् / नेश्याने विशेष = (द्रव्यलेख्या सामान्य = का, शु, मध्य शु, पर्या = मध्य शु, अपर्या = का, शु,) (भाव लेख्या सामान्य = मध्यम शु, पर्या = मध्य शु; अपर्या = मध्य शु.)

८ नव अनुदिश व पच अनुतर—

१	२	६/६	१	२	६/६	१०/७	४	१	देव	१	प	१	१	१	३	१	१	३	१	२	२	साकार
१	२	६/६	१	२	६/६	१०/७	४	१	देव	१	प	१	१	१	३	१	१	३	१	२	२	साकार
१	२	६/६	१	२	६/६	१०/७	४	१	देव	१	प	१	१	१	३	१	१	३	१	२	२	साकार
१	२	६/६	१	२	६/६	१०/७	४	१	देव	१	प	१	१	१	३	१	१	३	१	२	२	साकार

२० प्ररूपणारे

मार्गणा विशेष		गुण स्थान	जीव समस	पर्यासि	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लक्ष	ज्ञान	सयम	दर्शन	तैरया द्र भा	भव्य	सम्य	सति	आहा	उपयोग
सं	पर्यासि	अपर्यासि	अवि सं. अप	६	७	१	१	१	२	१	३	१	३	२	१	३	१	२	२
३	अपर्यासि	अवि सं. अप	१	अपर्यासि	७	१	१	१	२	१	३	१	३	२	१	३	१	२	२
<p>६ देव पुरुष वेदी - (ध २/११/५६०)</p> <p>सर्व विकल्प → देवोंके सर्वआलापोंवत ←</p>																			
<p>१० देवियाँ - (ध २/११/५६०-५६०)</p> <p>सा. → सौधर्म या भवनत्रिकवत ←</p> <p>पर्यासि → सौधर्म या भवनत्रिकवत ←</p> <p>अपर्यासि → सौधर्म या भवनत्रिकवत ←</p>																			
<p>२. इन्द्रिय मार्गणा -</p> <p>१. ऐकेन्द्रिय</p> <p>१. ऐकेन्द्रिय सामान्य - (ध २/११/५६६-५७१)</p>																			
१	सामान्य	१ मि (२) (दे जन्म/४)	४ मा प ना अप सू. प जन्म/४) सू. अप	४/४	४	१	१	४	३	१	४	१	१	३	२	१	१	२	२

२० प्ररूपणार्

भार्गवा त्रिकोप

म	पर्याप्त अपर्याप्त	गुण स्थान	जीव समाप्त	पर्याप्त	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लक्ष	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या भा.	भव्य	सन्ध.	सङ्घि	आहा	उपयोग
२	× पर्याप्त	१ मि	२ ना प सू. प.	४ पर्याप्त	४	१ ति	१ एके.	५ त्रस बिना	१ औ.	१ नपु	४ कुमति, कुशुत	१ अस	१ अचक्षु	२ का शु.	२ भव्य अभव्य	१ मिथ्या	१ सङ्घि	२ आहार अना.	२ साकार अना.
३	× अपर्याप्त	१ मि. (२) (दे जन्म/४)	२ ना. अप सू. अप	४ अपर्याप्त	३	१ ति	१ एके.	५ त्रस बिना	२ औ. मि, का नपु	१ नपु	४ कुमति, कुशुत	१ अस	१ अचक्षु	३ का. शु	२ भव्य अभव्य	१ मि सा दे जन्म/४	१ असङ्घि	२ आहार अना	२ सा. अना
३.	वावर एकेन्द्रिय— × सामान्य	१ मि (२) (दे जन्म/४)	२ वा प. ना अप	४/४ पर्याप्त ४ अपर्याप्त	४/३ ४ ३	१ ति.	१ एके	५ त्रस बिना	३ औ. २, का नपु	१ नपु	४ कुमति, कुशुत	१ अस	१ अचक्षु	६ का. शु	२ भव्य अभव्य	१ मि सा दे जन्म/४	१ अस	२ आहा अना.	२ सा अना.
३	× पर्याप्त	१ मि	१ वा प	४ पर्याप्त	४	१ ति.	१ एके	५ त्रस रहित	१ औ	१ नपु	४ कुमति, कुशुत	१ अस	१ अचक्षु	६ का. शु	२ भव्य अभव्य	१ मि.	१ अस	१ आहा अना	२ सा अना
३	× अपर्याप्त	१ मि. (२) (दे जन्म/४)	१ ना. अप	४ अपर्याप्त	३	१ ति	१ एके	५ त्रस रहित	२ औ. मि, का नपु	१ नपु	४ कुमति, कुशुत	१ अस	१ अचक्षु	२ का शु	२ भव्य अभव्य	१ मि सा दे जन्म/४	१ अं अं	२ आहा. अना	२ सा अना
३.	सूक्ष्म एकेन्द्रिय—घ	२/१, १/१	२/१, १/१	४ पर्याप्त	४/३ ४ ३	१ ति	१ एके.	५ त्रस रहित	३ औ. २, का नपु	१ नपु	४ कुमति, कुशुत	१ अस	१ अचक्षु	२ का शु	२ भव्य अभव्य	१ मि सा दे जन्म/४	१ अस.	२ आहा अना.	२ सा अना.
१	× सामान्य	१ मि (२) (दे जन्म/४)	२ सू. प सू. अप	४ पर्याप्त	४/३ ४ ३	१ ति	१ एके.	५ त्रस रहित	३ औ. २, का नपु	१ नपु	४ कुमति, कुशुत	१ अस	१ अचक्षु	२ का शु	२ भव्य अभव्य	१ मि सा दे जन्म/४	१ अस.	२ आहा अना.	२ सा अना.

मार्गणा वि.प	पर्याप्त अ.प्राप्ति	गुण भ्यान्	जीव समाप्त	पर्याप्त	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या द्र भा.	भव्य	सम्य.	सक्ति	आहा	उपयोग
२	पर्याप्त	१ मि.	१ सू.प	४ पर्याप्त	४	१ ति	१ एके	५ त्रस रहित	१ औ	१ नपु	४	२ कुमति, कुमु	१ अस	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ अस	२ आ अना.	२ साकार अना
३	अपर्याप्त	१ मि (२) जे. जन्म/४	१ सू.अप.	४	३	१ ति	१ एके	५ त्रस रहित	२ कुमति, कुमु	४	१ अस	१ अस	३ लृष्टि	२ भव्य, अभव्य	१ मि. सा. दे जन्म/४	१ अस.	२ आहा अना	२ आहा अना.
२	द्वोन्द्रिय—(घ. २/१, २/२, २/३-१७७)	१ मि	२ द्वी.प	५ पर्याप्त	६/४	१ ति.	१ द्वी.	१ त्रस	३ औ २, का. १	४	१ अस	१ अस	३ लृष्टि	२ भव्य, अभव्य	१ मि सा. दे जन्म/४	१ अस	२ आहा अना	२ सा अना
३	अपर्याप्त	१ मि	१ द्वी.प	५ पर्याप्त	६	१ ति	१ द्वी	१ त्रस	२ औ, व अष्ट, नपु	४	१ अस	१ अस	३ शु	२ भव्य, अभव्य	१ मि, सा. दे जन्म/४	१ अस	१ आहा	२ सा अना
३	अपर्याप्त	१ मि. (२) जे. जन्म/४	१ द्वी.अप.	६ अपर्याप्त	४	१ ति.	१ द्वी	१ त्रस	२ औ मि., का नपु	४	१ अस	१ अस	३ का. शु	२ भव्य, अभव्य	१ मि सा. दे जन्म/४	१ अस	२ आहा अना	२ सा अना
३	त्रोन्द्रिय—(घ. २/१, २/२, २/३-१७६)	१ मि	३ त्री.प.	५ पर्याप्त	७/५	१ ति.	१ त्री	१ त्रस	४ औ २, का नपु	४	१ अस	१ अस	३ लृष्टि	२ भव्य, अभव्य	१ मि सा. दे जन्म/४	१ अस.	२ आहा अना	२ सा अना.
३	अपर्याप्त	१ मि (२) जे. जन्म/४	३ त्री.अप.	५ अपर्याप्त	७	१ ति.	३ त्री	१ त्रस	४ औ २, का नपु वच अनुभय १	४	१ अस	१ अस	३ लृष्टि	२ भव्य, अभव्य	१ मि सा. दे जन्म/४	१ अस.	२ आहा अना	२ सा अना.

स	मार्गणा विषय		प्राण	लिटि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	वेद	ज्ञान	संयम	दर्शन	तैर्या		भव्य	सम्य	संज्ञि	आहा	उपयोग
	पयसि	अपयसि											द्र	भा					
२	१	१	७	४	१	१	१	२	१	२	१	१	६	३	२	१	१	१	२
	पयसि	पयसि			ति	त्री.	त्रस	औ वच	नपु	कुमति, कुशु.	असं.	अचक्षु	६	लिटि	भव्य, अभव्य	मि	असं.	आहा	सा, अना
३	१	१	५	४	१	१	१	२	१	२	१	१	२	३	२	१	१	२	२
	अपयसि	अपयसि			ति	त्री.	त्रस	औ मि, का.	नपु	कुमति, कुशु	अस	अचक्षु	२	का शु.	भव्य, अभव्य	मि सा दे जन्म/४	असं	आ. अना	साकार अनाकार
४. चतुरिन्द्रिय-(व २/११/५०-५८१)																			
१	१	२	८	४	१	१	१	४	१	२	१	२	६	३	२	१	१	२	२
	पयसि	चतु. प. चतु. अ.			ति.	चतु.	त्रस	औ २, का १ वच अनुभय	नपु	कुमति, कुशु	अस	चक्षु, अचक्षु	६	लिटि	भव्य, अभव्य	मि सा दे जन्म/४	असं	आ. अना	साकार अनाकार
२	१	१	८	४	१	१	१	२	१	२	१	२	६	३	२	१	१	१	२
	अपयसि	चतु. प			ति	चतु	त्रस	औ, वच अनुभय	नपु	कुमति, कुशु	असं	चक्षु, अचक्षु	६	शुभ	भव्य, अभव्य	मि.	असं.	आहा	सा अना.
३	१	१	६	४	१	१	१	२	१	२	१	२	२	३	२	१	१	२	२
	अपयसि	चतु.- अप			ति.	चतु	त्रस	औ. मि, फ.	नप.	कुमति, कुशु	असं.	चक्षु, अचक्षु	२	का. शु	भव्य, अभव्य	मि सा. दे जन्म/४	असं.	आ अना.	सा अना

२० प्ररूपणाएँ

स	मार्पणा विषय		गुण स्थान	जीन समास	पर्यासि	माण	लि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	वेद	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या		सम्य	सञ्चि	आहा	उपयोग	
	लि	लि														द्र	भा					
१	१४	१-१४	४	स अप	६/६, ६/६	१०/७, ६/७	४	४	१ पं	१ त्रस	१५ अयोग	३ लि	८	७	४	६ लि	२ भव्य, अभव्य	६	२ सञ्चि असञ्चि अनुभव्य	२ आहा, अना	२ सा अना	
२	१४	१-१४	२	स, प अस	६/६	१०/६	४	४	१ प.	१ त्रस	११ मन ४, वच ४ औ. १, वै १ आ १, अयोग	३ लि	८	७	४	६ लि	२ भव्य, अभव्य	६	२ स, अस अनुभव्य	१ आहा	२ सा, अना, अनुभव्य	
३	६	१, २, ३, ६, १३	२	स अप अस, अप	६/६	७/७	४	४	१ पं	१ त्रस	४ ओ. मि., वै मि., आ मि., का.	३ लि	६	४	४	४	६ लि	२ भव्य, अभव्य	६	२ स, अस अनुभव्य	२ आहा, अना	२ सा, अना
४	१	मि.	४	स प स अप अस प	६/६	१०/७, ६/७	४	४	१ प.	१ त्रस	१३ आ, वि बिना	३ लि	३	१	२	६ लि	२ भव्य, अभव्य	१	२ सञ्चि अस.	२ आहा, अना	२ सा, अना.	

६ पचेन्द्रिय-

१ पचेन्द्रिय सामान्य-(घ २/१, १/६, २/६, २/७, २/८)

स	सार्गना विशेष		गुण स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	लि प्र	गति	इन्द्रिय	काय	योग	वेद	प्रक्रि	ज्ञान	मयम	दर्शन	लिया		सम्प.	सञ्चि	आहा	उपयोग										
	पर्यासि	अपर्यासि															द्र	भा.														
५	१	पर्यासि	१	मि	६/५ ६ पर्या ५ पर्या.	१०/६ १० ६	४	४	१	त्रस	१० मान ४, वच ४, औ. १, ने १	३	४	३	अज्ञान	१	अस	२	चक्षु, अचक्षु	६	६	२	भव्य, अभव्य	१	मि	२	सञ्चि अस.	१	आहा	२	सा अना	
६	१	अपर्यासि	१	मि	६/५ ६ अप. ५ अप.	७/७ ७ ७	४	४	१	त्रस	३ ने मि, औ. मि का.	३	४	२	कुमति, कुमु. कुमति, कुमु.	१	अस.	२	चक्षु, अचक्षु का शु	६	६	२	भव्य, अभव्य	१	मि.	२	सञ्चि अस.	२	आहा, अना	२	सा. अना.	
७	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→ मूलओषवत्	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
२	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→ मूल ओषवत्	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
३	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
३	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
१	×	सामान्य	१	मि.	५/५ ५ पर्या, ५ अप.	६/७ ६ ७	४	१	५	१	त्रस	४ व अनुभव औ. २, का. १	३	४	२	कुमति, कुमु	१	अस	२	चक्षु, अचक्षु	६	३	२	भव्य, अभव्य	१	मि	२	अस. अस.	२	आहा, अना	२	सा. अना
२	×	पर्यासि	१	मि	५ पर्यासि	६	४	१	५	१	त्रस	५ व च. ४, औ. १	३	४	२	कुमति, कुमु.	१	अस	२	चक्षु, अचक्षु	६	३	२	भव्य, अभव्य	१	मि.	१	अस	१	आ	२	सा. अना

२० प्ररूपणाएं

मार्गणा विधाय		गुण स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	हृत्	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या	भव्य	सम्य	सहि	आहा	उपयोग
३	× अपर्यासि	१ मि	१ अस अप.	६ अपर्यासि	७	१ ति	१ प	१ त्रस	२ ओ मि, का	३	२ कुम, कुशु	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	३ का शु	२ भव्य अभव्य	१ मि	१ अस.	२ आ अना	२ साकार अना.
४ पचेन्द्रिय लब्धपर्यासि—(घ २/१,१/१८६-१६०)																			
१	× सामान्य	१ मि	२ स अप अस अप	६/१ ६ पर्यासि १ अपर्यासि	७/७ ७	२ मनु ति	१ प	१ त्रस	२ ओ मि, का	१ नपु	२ कुम, कुशु	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	३ का शु	२ भव्य अभव्य	१ मि	२ सशि प्रस	२ आहा अना	२ साकार अना
२	× सशि अप.	१ मि	१ स. अप	६ अपर्यासि	७	२ मनु ति.	१ प.	१ त्रस	२ ओ मि, का	१ नपु	२ कुम, कुशु	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	३ का शु	२ भव्य अभव्य	१ मि	१ अस	२ आहा अना	२ साकार अना
३	× असशि अप	१ मि	१ अम. अप	६ अपर्यासि	७	१ ति	१ प.	१ त्रस	२ ओ. मि, का	१ नपु	२ कुम, कुशु	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	३ ल शु	२ भव्य अभव्य	१ मि	१ अस	२ आहा अना	२ साकार अना
३ काय मार्गणा—																			
१ पट् काय सामान्य—(घ. २/१,१/६०१-६०३)																			
१	× सामान्य	१४	१७	६/६, ५/५ ४/५ ६,२ ४ प. ६-२, ६ अप	१०/७, ६/७ ८/६, ७/५ ६/४, ४/३ ४/२, २	४	६	६	१६ अयोग	३	८	७	४	६	२ भव्य, अभव्य	६	२ सशि अस अनुभव्य	२ आहा अना शु ७	२ साकार अना
२	× पर्यासि	१-२४	१६	६,६,४ पर्यासि	१०,६/८,७/६ ४/४, १	४	६	६	११ मनः, नच ४, जी १, ने १ आ १	३	८	७	४	६	२ भव्य, अभव्य	६	२ सशि अस अनुभव्य	२ आहा अना	२ साकार अना

मार्गणा विधिप		२० प्रस्तुपाए																		
न	पर्यासि अपर्यासि	गुण स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	लिङ्ग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लिङ्ग	ज्ञान	समय	दर्शन	लेख्या भा.	भव्य	सम्य.	सङ्घि	आहा	उपयोग
३	अपर्यासि १, २, ४, ६, १३	५	३८	६, ९, ४ अपर्यासि	७/७, ६/५ ४/३, २	४ लिङ्ग	४	५ मि औ. मि वै मि आ. मि. का.	६	४ मि औ. मि वै मि आ. मि. का.	३ लिङ्ग	४ विभाग, मन विना	४ सा छे यथा अस.	४	४ का शु	२ भव्य अभव्य	५ मिभ विना	२ स अस. अनु.	२ आहा, अना.	२ सा अना
२. पृथिवी काय																				
१ सामान्य—(ध २/१, १/६०४-६०७)																				
१	सामान्य (दे. जन्म/४)	१ मि (२)	४ मा प वा, अप सू. प. सू अप.	४/४ अपर्यासि ४ अपर्यासि	४/३	४ लिङ्ग	१ ति	१ एके	१ पृ.	३ औ. २, का १ नपु	१ लिङ्ग	२ कुमति, कुशु	१ अस	१ अचक्षु	६ अनु	२ भव्य अभव्य	१ मि	१ अस	२ आहा अना.	२ सा अना.
२	पर्यासि	१ मि	२ मा प. सू प	४ पर्यासि	४	४ लिङ्ग	१ ति	१ एके	१ पृ.	१ ओ.	१ नपु	२ कुमति, कुशु	१ अस.	१ अचक्षु	६ अनु	२ भव्य अभव्य	१ मि	१ असङ्घि	१ आहा	२ सा अना
३	अपर्यासि (दे. जन्म/४)	१ मि (२)	२ मा, अप सू अप.	४ अपर्यासि	३	४ लिङ्ग	१ ति	१ एके	१ पृ	३ औ मि. का. नपु.	१ लिङ्ग	२ कुमति, कुशु	१ अस	१ अचक्षु	२ का शु	२ भव्य अभव्य	१ मि	१ अस	२ आहा अना	२ सा अना.

२० प्ररूपणादि

मार्गणा विशेष		गुण स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	लङ्	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लङ्	ज्ञान	सयम	दर्शन	विरया द्र भा	भव्य	सत्य	सक्ति	आहा.	उपयोग
२	बाह्य पृथ्वी काय—(ध २/१/६०७-६०६)																			
१	सामान्य पर्यासि (२) (दे जन्म/४)	१ मि	२ बा प	४ पर्यासि	४/४	४	१ ति	१ एकै	१ पृ	३ औ, २, का, १ नपु	४	२ कुमति, कुमु	१ अस	१ अचसु	३ अशु	२ भव्य अभव्य	१ मिथ्या	१ अस.	२ आहा अना.	२ सा, अना.
२	पर्यासि (२) (दे जन्म/४)	१ मि	१ बा प	४ पर्यासि	४	४	१ ति	१ एकै	१ पृ	१ औ	४	२ कुमति, कुमु	१ अस	१ अचसु	३ अशु	२ भव्य अभव्य	१ मिथ्या	१ अस	२ आहा अना.	२ सा, अना.
३	अपर्यासि ल अप (२) (दे जन्म/४)	१ मि	१ बा अप	४ पर्यासि	३	४	१ ति	१ एकै	१ पृ	२ औ मि, का	४	२ कुमति, कुमु	१ अस	१ अचसु	३ का अशु	२ भव्य अभव्य	१ मि	१ अस	२ आहा अना.	२ सा, अना.
३. सूक्ष्म पृथ्वी काय—(ध २/१/६०८-६०६)																				
१	सामान्य पर्यासि (२) (दे जन्म/४)	१ मि	२ सू प, सू अप	४ पर्यासि	४/४	४	१ ति.	१ एकै	१ पृ	३ औ, २, का १	४	२ कुमति, कुमु	१ अस	१ अचसु	३ का अशु	२ भव्य अभव्य	१ मि.	१ अस	२ आहा अना.	२ सा अना
२	पर्यासि (२) (दे जन्म/४)	१ मि	१ सू प	४ पर्यासि	४	४	१ ति	१ एकै	१ पृ	१ औ	४	२ कुमति, कुमु	१ अस	१ अचसु	३ का अशु	२ भव्य अभव्य	१ मि	१ अस.	१ आहा अना.	२ सा, अना
३	अपर्यासि (ल अप)	१ मि	१ सू, अ	४ अप	३	४	१ ति	१ एकै	१ पृ	२ औ मि, का	४	२ कुमति, कुमु	१ अस	१ अचसु	३ का अशु	२ भव्य अभव्य	१ मि	१ अनं	२ आ. अना.	२ सा, अना

मार्गणा विषय		२० प्ररूपणाए																				
म	पर्यासि प्रयसि	गुण स्थान	जोग समास	पर्यासि	प्राण	लि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	नपु	कु	ज्ञान	सयम	दर्शन	तेर्या द्र	भा	भव्य	सम्य	सद्धि	आहा	उपयोग
२	अपुनायिक																					
१	मामान्य	१ मि	०	४/३	४/३	४	१ त्ति.	१ एकै	१ अप	३ औ २, का १	१ नपु	४	२ कुमति, कुमु	१ असं	१ अचसु	२ का शु.	३ लि	२ भव्य, अभव्य	१ मि.	१ असि	२ आ.	२ सा. अना
		(२) मि	वा. प	४ पर्या.	४	४																
		(दि. जन्म/४)	वा. अप.	४ पर्या.	४	४																
			सु प	४ पर्या.	४	४																
			सु अप	४ अप	४	४																
२	पर्यासि	१ मि	२	४	४	४	१ त्ति	१ एकै.	१ अप	१ औ	१ नपु	४	२ कुमति, कुमु	१ असं	१ अचसु	१ शु	३ लि	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ असं.	१ आहा	२ सा. अना
			वा. प.	४ पर्यासि	४	४																
			सु प.																			
३	आप्यासि	१ मि.	२	४	४	४	१ त्ति	१ एकै.	१ अप.	२ औ मि, का	१ नपु	४	२ कुमति, कुमु.	१ असं.	१ अचसु	२ का शु.	३ लि	२ भव्य, अभव्य	१ मि.	१ असं.	२ आ.	२ सा. अना.
		(२) मि.	वा. अप.	४ अप.	४	४																
		(दि. जन्म/४)	सु अप																			
२	वादर अपुनायिक																					
१	मामान्य	१ मि.	२	४/३	४/३	४	१ त्ति.	१ एकै	१ अप	३ औ २, का १	१ नपु	४	२ कुमति, कुमु	१ असं	१ अचसु	२ का शु	३ लि	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ असं	२ आ.	२ सा. अना.
		(२) मि.	वा. प.	४ पर्या.	४	४																
		(दि. जन्म/४)	वा. अप	४ अप	४	४																
२	पर्यासि	१ मि	१	४	४	४	१ त्ति.	१ एकै	१ अप.	१ औ.	१ नपु	४	२ कुमति, कुमु	१ असं.	१ अचसु	१ शु.	३ लि	२ भव्य, अभव्य	१ मि.	१ असं.	१ आहा.	२ सा. अना.
			वा. प	४ पर्यासि	४	४																

२० प्ररूपणाएं

सं	मार्गणा विशेष		प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	वेद	ज्ञान	सयम	दर्शन	सैश्या		भव्य	सम्य	सङ्घि	आहा	उपयोग
	पयसि	स्थान										जीव	मा					
३	अपयसि (ल अप) (दे जन्म/श)	१ मि (२)	१ ना, अप	४ अप	१ एकै.	१ अप	२ औ मि, का	१ नपु	४ कुमति, कुमु	१ अस	१ अवसु	२ का सु	३ का सु	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ अस	२ आहा अना	२ सा, अना
३, सूक्ष्म अस्कायिक-																		
१	सामान्य	१ मि	२ सू प सू अप	४/४ ४ पयसि ४ अप	१ एकै.	१ अप	३ औ २, का १	१ नपु	४ कुमति, कुमु	१ अस	१ अवसु	२ का सु	३ का सु	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ अस	२ आहा अना.	२ सा, अना
२	पयसि	१ मि	१ सू प	४ पयसि	१ एकै.	१ अप	१ औ.	१ नपु	४ कुमति, कुमु	१ अस	१ अवसु	१ का सु	३ का सु	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ अन	१ आहा	२ सा, अना
३	अपयसि ल अप	१ मि	१ सू अप	४ अपयसि	१ एकै.	१ अप	२ औ मि, का	१ नपु	४ कुमति, कुमु	१ अस	१ अवसु	२ का सु	३ का सु	२ भव्य, अभव्य	१ मि	२ अस	२ आहा, अना	२ सा, अना
३ तेज कायिक-																		
१	सामान्य	१ मि	४ ना, प मा अप	४/४ ४ पयसि ४ अप	१ एकै.	१ तेज	२ औ मि, का.	१ नपु	४ कुमति, कुमु	१ अस	१ अवसु	२ का सु	३ का सु	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ अस	२ आहा, अना	२ सा, अना
२	पयसि	१ मि	२ ना, प सू प.	४ पयसि	१ एकै.	१ तेज	१ औ.	१ नपु	४ कुमति, कुमु	१ अस	१ अवसु	१ तेज	३ तेज	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ अस.	१ आहा, अना.	२ सा, अना.

२० प्ररूपणादि

मार्गना विशेष	पयसि	पुल	जीव	पयसि	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	ऋ	ज्ञान	सयम	दर्शन	तेरया		भव्य	सम्य.	सञ्ज्ञि	आहा	उपयोग
														द्र	भा					
३	पयसि	१ मि	२ वा, अप	४ अप	३	१ ति	१ एकै.	१ तेज	२ औ. मि. का.	१ नपु	४ कुमति, कुमु	१ असं	१ अचक्षु	२ का शु	३ लृ	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या	१ अस.	२ आहा, अना.	२ सा, अना.
२	वाटर तेजस् कायिक-	(घ. २/१.१/१११)																		
१	सामान्य	१ मि	२ वा प.	४ पयसि	४/३ ४ ३	१ ति	१ एकै.	१ तेज	३ औ. २, का. १	१ नपु	४ कुमति, कुमु	१ असं	१ अचक्षु	३ का शु. ते	३ लृ	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या	१ अस.	२ आहा, अना.	२ सा, अना.
२	पयसि	१ मि.	१ ना. प.	४ पयसि	४	१ ति	१ एकै.	१ तेज	१ ओद	१ नपु	४ कुमति, कुमु	१ अस	१ अचक्षु	१ तेज	३ लृ	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ अस.	१ आहा	२ सा, अना
३	अपयसि	१ मि	१ वा अप	४ अपयसि	३	१ ति	१ एकै.	१ तेज	२ औ. मि. का.	१ नपु	४ कुमति, कुमु	१ अस	१ अचक्षु	२ का शु	३ लृ	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ अस	२ आहा, अना.	२ सा, अना
३	सूक्ष्म तेजस्कायिक-	(घ. २/१.१/१११)																		
१	सामान्य	१ मि	२ सू प	४ पयसि	४/३ ४ ३	१ ति	१ एकै.	१ तेज	३ औ. २, का. १	१ नपु	४ कुमति, कुमु	१ अस	१ अचक्षु	२ का शु	३ लृ	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या.	१ सञ्ज्ञि	२ आहा, अना	२ सा, अना
२	पयसि	१ मि	१ सू. प	४ पयसि	४	१ ति	१ एकै.	१ तेज	१ औ	१ नपु	४ कुमति, कुमु	१ अस	१ अचक्षु	१ का.	३ लृ	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या	१ अस.	१ आहा	२ सा, अना.
३	अपयसि	१ मि.	१ सू. अप.	४ अपयसि	३	१ ति	१ एकै.	१ तेज	२ औ. मि. का.	१ नपु	४ कुमति, कुमु	१ असं.	१ अचक्षु	२ का शु.	३ लृ	२ भव्य, अभव्य	१ मि.	१ अस.	२ आहा, अना	२ सा, अना.

मार्गणा विशेष	पर्यास अपर्यासि	गुण स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	लिङ्ग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	के	ज्ञान	संयम	दर्शन	द्वि	सैरया भा	भव्य	सम्य.	सहि	आहा	सपयोग
४ वायुकायिक—																					
१ वायु कायिक सामान्य—																					
१ सामान्य	१ मि	१ मि	४ प वा प सू प वा अप सू अप	४/४ ४ पर्यासि ४ अपर्यासि ४ अप " "	४/३ ४ ३ "	४	१ ति	१ एकै	१ वायु	३ औ २, का १ नपु	१ नपु	४ कुमति, कुशु	१ अस	१ अचक्षु	४ का सु गो सूत्र मृगा	३ लिङ्ग	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ अस	२ आहा अना	२ सा, अना
२ पर्यासि	१ मि	१ मि	४ प वा प सू प	४ पर्यासि	४	४	१ ति	१ एकै	१ वायु	१ औद	१ नपु	४ कुमति, कुशु	१ अस	१ अचक्षु	३ का सु गो सूत्र मृगा	३ लिङ्ग	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ अस	१ आहा	२ सा, अना
३ अपर्यासि	१ मि	१ मि	२ अप वा अप सू अप	४ अपर्यासि	३	४	१ ति	१ एकै	१ वायु	२ औ, मि, का.	१ नपु	४ कुमति, कुशु	१ अस	१ अचक्षु	३ का सु गो सूत्र मृगा	३ लिङ्ग	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ अस	२ आहा अना	२ सा, अना
२ वादर वायु कायिक—																					
१ सामान्य	१ मि	१ मि	२ प वा प सू अप	४/४ ४ पर्यासि ४ अप	४/३ ४ ३	४	१ ति	१ एकै	१ वायु	३ औ २, का, १ नपु	१ नपु	४ कुमति, कुशु	१ अस	१ अचक्षु	४ का सु गो सूत्र मृगा	३ लिङ्ग	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ अस	२ आहा अना	२ सा अना
२ पर्यासि	१ मि	१ मि	१ प वा प	४ पर्यासि	४	४	१ ति	१ एकै	१ वायु	१ औद	१ नपु	४ कुमति, कुशु	१ अस	१ अचक्षु	३ गो सूत्र मृगा	३ लिङ्ग	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ असहि	१ आहा	२ सा, अना

२० प्ररूपणाएँ

मार्गणा निरूप		प्राण	लिङ्ग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लक्ष	ज्ञान	संयम	दर्शन	लेख्या	भव्य	सम्य	सच्चि	आहा	उपयोग	
नं.	पर्याप्त अपर्याप्त	जीव समास	गुण स्थान	पर्याप्त	व्यक्ति	काय	योग	लक्ष	ज्ञान	संयम	दर्शन	द्र	भा	सम्य	सच्चि	आहा	उपयोग	
३	अपर्याप्त (न अप.)	१ ना अप.	१ मि	४ अपर्याप्त	१ एकै	१ वायु.	३ ओ मि, का.	१ नपु	२ कुमति, कुशु	१ असं	१ अचक्षु	२ का शु	३ ल्लं ल्लं	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ सच्चि	२ आ, अना	२ साका, अना
३	सूक्ष्म वायुकायिक—(घ. २/१.१/६११)																	
१	नामान्य	२ सू प सू अप	१ मि	४/४ पर्याप्त ४ अपर्याप्त	१ एकै	१ वायु	३ ओ २, का १	१ नपु	२ कुमति, कुशु	१ असं	१ अचक्षु	२ का शु	३ ल्लं ल्लं	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या	१ असं	२ आहा, अना	२ सा, अना
२	पर्याप्त	१ सू. प.	१ मि	४ पर्याप्त	१ एकै	१ वायु.	१ ओ	१ नपु	२ कुमति, कुशु	१ असं	१ अचक्षु	१ का शु	३ ल्लं ल्लं	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या,	१ असं	१ आहा,	२ सा, अना
३	अपर्याप्त (न अप.)	१ सू. अप	१ मि	४ अपर्याप्त	१ एकै	१ वायु.	२ ओ मि, का.	१ नपु	२ कुमति, कुशु	१ असं	१ अचक्षु	२ का शु	३ ल्लं ल्लं	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या	१ असं	२ आ, अना	२ सा, अना.
५	वत्स्यति काय—																	
१	नामान्य	१२ साधार	१ मि	४/४ पर्याप्त	१ एकै	१ नन	३ ओ २, का १	१ नपु	२ कुमति, कुशु	१ असं	१ अचक्षु	१	३ ल्लं ल्लं	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ असं	२ आहा, अना	२ सा, अना.
१	(२. जन्म/४)	४ अप	(२)	४ अप	१ एकै													

२० प्ररूपणार्

मार्गणा विरुष		पुण स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	शु	कुम्भ	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या	भव्य	सम्य.	सङ्गि	आहा	उपयोग
२	पर्यासि अपर्यासि	१ मि	६ साधा ४ प्र २	४/४ पर्या ४ अप	४	४ ति	१ एके	१ वन	१ औ	१ नपु	४ कुमति, कुशु	२ कुमति, कुशु	१ अस	१ अचसु	३ का, लु शु	२ भव्य, अपभव्य	१ मिय्या	१ अस	१ आहा.	२ साकार, अना
३	अपर्यासि (दि. जन्म/४)	१ मि (२)	६ साधा ४ प्र २	४/४ पर्या ४ अप	३	४ ति	१ एके	१ वन	२ औ, मि का	१ नपु	४ कुमति, कुशु	२ कुमति, कुशु	१ अस	१ अचसु	२ का, लु शु	२ भव्य, अपभव्य	१ मिय्या	१ अस	२ आहा., चना	२ साकार, अना
२	पर्यासि	१ मि	२ प्र ५ अप	४/४ पर्यासि	४	४ ति.	१ एके	१ वन.	३ औ २, ला, १ नपु	१ नपु	४ कुमति, कुशु	२ कुमति, कुशु	१ अस	१ अचसु	६ लु	२ भव्य, अपभव्य	१ मि	१ अस.	२ आहा.	२ साकार, अना
३	अपर्यासि (दि. जन्म/४)	१ मि (२)	१ प्र ५ अप.	४ अपर्यासि	३	४ ति	१ एके	१ वन	२ औद मि १, न. का १	१ नपु	४ कुमति, कुशु	२ कुमति, कुशु	१ अस.	१ अचसु	२ का, लु शु	२ भव्य, अपभव्य	१ मि	१ अस.	२ आहा., अना.	२ साकार, अना
२ प्रत्येक वनस्पति प्रति अप्रति. -- (घ २/१, १/१४-१६)																				
१	सामान्य	१ मि (२)	२ प्र ५ अप	४/४ पर्यासि	४/३	४ ति	१ एके	१ वन.	३ औ २, ला, १ नपु	१ नपु	४ कुमति, कुशु	२ कुमति, कुशु	१ अस	१ अचसु	६ लु	२ भव्य, अपभव्य	१ मि	१ अस	२ आहा., अना	२ साकार, अना
२	पर्यासि	१ मि	१ प्र ५ अप	४ पर्यासि	४	४ ति.	१ एके	१ वन	१ औद	१ नपु	४ कुमति, कुशु	२ कुमति, कुशु	१ अस	१ अचसु	६ लु	२ भव्य, अपभव्य	१ मि	१ अस	२ आहा.	२ साकार, अना
३	अपर्यासि	१ मि (२)	१ प्र ५ अप.	४ अपर्यासि	३	४ ति	१ एके	१ वन	२ औद मि १, न. का १	१ नपु	४ कुमति, कुशु	२ कुमति, कुशु	१ अस.	१ अचसु	२ का, लु शु	२ भव्य, अपभव्य	१ मि	१ अस.	२ आहा., अना.	२ साकार, अना
३ साधारण वनस्पति सामान्य वादर व सूक्ष्म -- (घ २/१, १/१७-१२१)																				
१	सामान्य	१ मि	५ प्र ४ अप	४/४ पर्या ४ अप	४/३	४ ति	१ एके	१ वन	३ औ, २, ला १ नपु	१ नपु	४ कुमति, कुशु	२ कुमति, कुशु	१ अस.	१ अचसु	६ लु	२ भव्य, अपभव्य	१ मि	१ अस	२ आहा., अना.	२ साकार, अना.

२० प्ररूपणार्

मार्गणा विधेय	मार्गणा स्थान	गुण	जीव समास	पर्यासि	प्राण	लि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	नपु	कु	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या		सम्य	सद्धि	आहा	उपयोग
																द्र	भा.				
२	पर्यासि (सा सू)	१ मि.	४	४ पर्यासि	४	४	१ ति	१ एकै	१ मन	१ औद.	१ नपु	४	२ कुमति, कुमु	१ अस	१ अचक्षु	३	३	२ भव्य, अभव्य	१ अस.	१ आहा	२ सा., अना.
३	पर्यासि मा. सू	१ मि	४	४ अपर्यासि	३	४	१ ति.	१ एकै	१ मन.	३ जी २, का. १ नपु	१ नपु	४	२ कुमति, कुमु	१ अस	१ अचक्षु	३	३	२ भव्य, अभव्य	१ अस.	२ आ, अना	२ सा., अना.
१	मा. मामान्य	१ मि.	४ नि. प च. प नि. अप. च. अप	४/४ पर्यासि " " ४ अप " "	४	४	१ ति.	१ एकै	१ मन	३ जी २, का १ नपु	१ नपु	४	२ कुमति, कुमु	१ अस	१ अचक्षु	६	६	२ भव्य, अभव्य	१ अस.	२ आ, अना.	२ सा, अना.
२	ना पर्यासि	१ मि	२ नि. प नि. अप.	४ पर्यासि	४	४	१ ति.	१ एकै	१ मन	१ औद.	१ नपु.	४	२ कुमति, कुमु	१ असं	१ अचक्षु	६	६	२ भव्य, अभव्य	१ अस	१ आहा.	२ साका, अना.
३	मा अपर्यासि	१ मि	२ नि. अप च अप	४ अपर्यासि	३	४	१ ति.	१ एकै	१ मन	२ जी मि, का.	१ नप	४	२ कुमति, कुमु	१ असं	१ अचक्षु	३	३	२ भव्य, अभव्य	१ अस.	२ आहा. अना	२ सा, अना
१	सू. मामान्य	१ मि.	४ नि प च. प. नि. अप. च. अप	४/४ पर्यासि " " ४ अप " "	४/३	४	१ ति	१ एकै	१ मन.	३ जी. २, का १ संपुं	१ संपुं	४	२ कुमति, कुमु.	१ अस	१ अचक्षु	३	३	२ भव्य, अभव्य	१ असं	२ आहा, अना.	२ साकार, अनाकार

मार्गणा विधेय		पयसि	गुण	जीव	पर्यासि	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	हृत्	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेश्या	भव्य	सम्य	संज्ञि	आहा	उपयोग
सं.	हृत्	हृत्	स्थान	समास	पर्यासि	प्राण	हृत्	हृत्	काय	योग	हृत्	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेश्या	भव्य	सम्य	संज्ञि	आहा	उपयोग
२	सु पर्यासि	१ मि	१ मि	२ नि प च प.	४/ पर्यासि	४	४	१ एके	१ मन	१ औद	१ नपु	२ कुमति, कुमु	१ अस	१ अचक्षु	१ का	२ भव्य, पभव्य	१ मि	१ अस	१ आहा	२ साकार अनाकार
३	सु अपर्यासि	१ मि	१ मि	२ नि अप च अप	४ अप	३	४	१ एके	१ मन	२ औ मि, का	१ नपु	२ कुमति कुमु	१ अस	१ अचक्षु	२ का	२ भव्य, उभव्य	२ मिय्या	१ अस	२ आहा.	२ साकार, अनाकार
१	चतुर्गति व नित्य निगोद साधारण ना सू प, अप	—	—	—	—	—	—	—	—	→ सति नादर व नृक्ष साधारण ननस्तरिय ←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
२	न अप मि	१ मि	१ मि	१ अप	४ अपर्यासि	३	४	१ एके	१ मन	२ औ मि का	१ नपु	२ कुमति, कुमु	१ अन	१ अपपु	२ का गु	२ भव्य, उभव्य	१ मि,	१ अस.	२ आहा अना	२ नादर, अनाकार
१	सामान्य १-१४ स जम	१/६	१/६	५, जम अप	६ प	१०/७ ६/७, ५/६, ७/५,	४	४	१ प्रस	१क अपोग	३	५	७	४	६ हृत्	२ पभ्य, उभय	६	२ मसि, जम, अनुभव	२ आहा, अना.	२ साकार, अनाकार पु, उ.
२	पर्यासि १-१४	६/५	६/५	५, जम अप, ज्ञी त्री चतु प अप,	६ प, ६ अप	१	४	४	१ प्रस	११ मन, प, अ, त्री २, रा. १ प्रयोग	३	५	७	४	६ हृत्	२ भय, उभय	६	२ सं, अस पभय	१ आहा	२ साकार, अनाकार गु उ

६. तस कायिक—(ध. २/१/६१-६२)

मार्गणा विधेय		२० प्ररूपणाए																	
सं०	पर्याप्त अपर्याप्त	गुण स्थान	जोत्र समाप्त	पर्याप्त	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	वेद	ज्ञान	संयम	दर्शन	लेखना द्रभा	भव्य	सम्य	सञ्चि	आहा	उपयोग
३	अपर्याप्त	५ १,२,४ ६,१३	५ द्वी त्रि चतु, स अस अप	६/५ ६ प ५ अप	७,७,६,६, ४,२	४	४ द्वी, त्री च, प	१ त्रस	४ ओ. मि, द्वे मि, आ मि का	३ द्वि, द्वि द्वि	४ विभंग, मन बिना	४ सा, छे यथा, अस	४	२ का शु	२ भव्य, अभव्य	५ मिभ बिना	२ स अस, अनुभव्य	३ आहा, अना.	३ सा अना शु उ
४	द्वी, त्री, चतु, संज्ञि, अस्तञ्चिके सर्व आलाप																		
५	१ सामान्य	१ मि	१० द्वी त्री चतु अस स प अप	६/५ ६ पर्या, ५ अप	१०/७, ६/७ ८/६, ७/५ ६/४	४	४ द्वी त्री च प,	१ त्रस	१३ आहा द्वि बिना	३	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	२ भव्य, अभव्य	१ मि	२ सञ्चि अस.	२ आहा, अना	२ साकार अनाकार
६	१ पर्याप्त	१ मि	५ द्वी, त्री चतु स अस अप,	६/५ ६ पर्या, ५ अप	१०,६,६,७, ६	४	४ द्वी त्री च प,	१ त्रस	१० मनः, वचः, ओ १, वे १	३	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	२ भव्य, अभव्य	१ मि,	२ सञ्चि असञ्चि	१ आहा	२ साकार, अनाकार
७	१ अपर्याप्त	१ मि,	५ द्वी त्री च प स अस	६/५ ६ पर्या ५ अप,	७,७,६,६ ४	४	४ द्वी त्री च प	१ त्रस	३ ओ मि, द्वे मि का,	३	३ कुमति, कुद्रु	१ अस,	२ चक्षु, अचक्षु, का, शु	६	२ भव्य, अभव्य	१ मि,	२ सञ्चि असञ्चि	२ आहा, अना,	२ साकार अनाकार
८	२-१४ मा प उप																		
९	१ न. उप	१ मि,	५ द्वी त्री च अप स अप	६/५ ६ अप, ५ अप,	७/७, ६/६ ४	४	४ द्वी त्री च प,	१ त्रस	२ ओ मि, का	१	२ कुमति, कुद्रु	१ अस,	२ चक्षु, अचक्षु, का, शु	३	२ भव्य, अभव्य	१ मि	२ सञ्चि असञ्चि	२ आहा, अना	२ साकार अनाकार

सामान्य विधि		गुण	जीव	पर्याप्त	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	वेद	ज्ञान	संयम	दर्शन	विशय	भोग	साम्य	संज्ञि	अज्ञा	उपयोग	
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.	९.	१०.	११.	१२.	१३.	१४.	१५.	१६.	१७.	१८.	१९.	२०.	
७ अज्ञानात्—(घ २/१,१/१२०)																				
१	x सामान्य	अतीत	अतीत	अतीत	अतीत	अतीत	अतीत	अतीत	अयोग	वेद	केवल ज्ञान	अतीत	केवल र.	वि	अतीत	शा	अतीत	अज्ञा	२	साकार, अनाकार यु उ
४. योगमार्गणा—																				
१ मनोयोग—																				
१ मनोयोग सामान्य—(घ. २/१.२/६३३-६३४)																				
१	सामान्य	१-१३	१	६	१०	४	१	१	४	३	७	अतीत	४	६	२	६	१	१	२	साकार, अनाकार यु, उ
२	सामान्य	१	१	६	१०	४	१	१	४	३	१	अस.	२	६	२	१	१	१	२	साकार, अनाकार
३	सामान्य	१	१	६	१०	४	१	१	४	३	१	अस.	२	६	१	१	१	१	२	साकार, अनाकार
४	सामान्य	१	१	६	१०	४	१	१	४	३	१	अस.	२	६	१	१	१	१	२	साकार, अनाकार

मार्गणा विशेष		३० प्ररूपणाए																				
स	सं	पर्याप्त अवस्था	गुण स्थान	जीव समास	पर्याप्त	प्राण	लि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	क	सं	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेखा द. भा.	भव्य	सम्य	संज्ञि	आहा	उपयोग
५	४	सामान्य (पर्याप्त ही)	१ अभि	१ स प	६ पर्याप्त	१०	४	४	१ प	१ त्रस	४ मनोयोग	३	३	३ मति, श्रुत, अवधि	१ अस	३ चक्षु, अचक्षु, अवधि	६	१ भव्य	३ औ, क्षा, क्षयो	१ संज्ञि	१ आहा.	३ सा, अना.
६	५	सामान्य (पर्याप्त, ५ वाँ ही)	१ वाँ	१ स, प	६ पर्याप्त	१०	४	२ ति मनु	१ प	१ त्रस	४ मनोयोग	३	३	३ मति, श्रुत, अवधि	१ देश स	३ चक्षु, अचक्षु, अवधि	६	१ भव्य	३ औ, क्षा, क्षयो	१ संज्ञि	१ आहा.	३ सा, अना
७	६	सामान्य (पर्याप्त प्रसन्न ही)	१ प्रसन्न	१ स प	६ पर्याप्त	१०	४	१ मनु	१ प,	१ त्रस	४ मनोयोग	३	३	४ मति, श्रुत, अव, मन,	३ सा, द्वे, परि	३ चक्षु, अचक्षु, अवधि	६	१ भव्य	३ औ, क्षा, क्षयो	१ संज्ञि	१ आहा	३ सा, अना
८	७	सामान्य (पर्याप्त, ७-१२ ही)	६ ७-१२	१ सं. प	६ पर्याप्त	१०	—	—	—	—	४ मनोयोग	—	—	यथा योग्य	मूल औष नत	—	—	—	—	१ संज्ञि	१ आहा.	३ सा, अना
९	८	सामान्य (पर्याप्त सयोग ही)	१ सयोग	१ स प	६ पर्याप्त	१०	०	१ मनु,	१ प,	१ त्रस	२ सत्य, अनुभव	०	०	१ केवलज्ञान	१ यथा	१ केवलद,	६	१ भव्य	१ क्ष	० अनुभव	१ आहा.	३ सा, अना मु. उ
१	९	सामान्य विशेष—(ध. २/१, १/६३३ ६३४)																				
१	१०	सामान्य मनो (पर्याप्त, १-१३ ही)	१२																			

सं	सामान्य विषय	पुनः स्थान	नीय सामान्य	पर्याय	बाण	दिशि	गति	इन्द्रिय	नाम	गोम	वेद	सूक्ति	ज्ञान	मयम	दशान	लेखना	भय	सम्प	नशि	आहा	उपायोग
१	५ अक्षर- गा (पार्श्व ही)	१२ १-१२	१ मं पं.	६ पर्यायि	१०	४ सिद्धि	४	१ प	१ प्रम	१ सृष्टामन	३	४	७ केवल विना	७	३ चक्षु, अचक्षु अस	६	२ भय, अभय	६	१ मशि	१ आहा	२ सा,
३	५ अक्षर- ना	-	-	→	मूलोपवत्	←	-	-	-	१ सृष्टामनी	-	-	-	→	मूलोपवत्	←	-	-	-	-	-
४	५ उभय ममा. पि	१२ १-१२	-	→	मूलोपवत्	←	-	-	-	१ सत्यसृष्टा	-	-	-	→	मूलोपवत्	←	-	-	-	-	-
५	५ अनुभव	१-१३	-	→	मूलोपवत्	←	-	-	-	१ असत्यसृष्टा	-	-	-	→	मूलोपवत्	←	-	-	-	-	-
२ वचन योग- (ध २/१,१/६३३-६३६)																					
१	५ सामान्य (पर्या ही)	१३ १-१३	६ द्वी, नौ चक्षु, स अस प	६/५	६,७,८,९,१०	४ सिद्धि	४	४ एकै. विना	१ त्रस	४ वचन	३	४	८	७	४	६ सिद्धि	२ भय, अभय	६	२ सशि, अस	१ आहा	२ साकार अना
२	१ विशेष (पर्या ही)	२ मि	६ द्वी, नौ चक्षु प अस प.	६/५	१०,६,८,७,९	४ सिद्धि	४	४ एकै. विना	१ त्रस	४ वचन	३	४	३ अज्ञान	१ असं	२ चक्षु, अचक्षु	६	२ भय, अभय	१ मि	२ स. अस	१ आहा	२ सा, अना

२० प्ररूपणाएँ

मार्गणा विधीय		गुण स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	शुद्धि	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या	भव्य	सम्प.	संज्ञि	आहा.	उपयोग
सं.	पर्यासि अप्यासि													द्र भा.					
३	विकेप (पर्या ही)	१२	-	→ मनोयोगी वत्		←	-	-	४ वचन योग	-	→	मनोयोगी वत्	←	-	-	-	-	-	-
४	विकेप (पर्या ही)	२-१२	-	→ मनोयोगी वत्		←	-	-	२ सत्य अनुभव	-	→	मनोयोगी वत्	←	-	-	-	-	-	-
५	सत्य वचन	-	-	→ सत्य मनोयोगी वत्		←	-	-	१ सत्य वचन	-	→	सत्य मनोयोगी वत्	←	-	-	-	-	-	-
६	मृषा वचन	-	-	→ मृषा मनोयोगी वत्		←	-	-	१ मृषा वचन	-	→	मृषा मनोयोगी वत्	←	-	-	-	-	-	-
७	उभय वचन	-	-	→ उभय मनोयोगी वत्		←	-	-	१ उभय वचन	-	→	उभय मनोयोगी वत्	←	-	-	-	-	-	-
८	अनुभव वचन	-	-	→ अनुभव वत्		←	-	-	१ अनुभव वच	-	→	अनुभव मनोयोगी वत्	←	-	-	-	-	-	-
३. काय योग																			
१. काय योग सामान्य - (घ. २/१.१/६३०-६४६)																			
१	X सामान्य	१३	१४	६,६,४ पर्या. अप.	१०/७, ६/७, ८/६, ७/६, ६/४, ४/३, ४/२	४	५	६	७ काय	४	८	७	४	६	२ भव्य, अभव्य	६	३ सत्स अनुभव	२ सा. जना.	२ सा. जना मु. उ.
२	X पर्यासि	१३	७	६,६,४ पर्यासि	१०.६, ८.७, ६.४, ४	४	५	६	६/३	४	८	७	४	६	२ भव्य, अभव्य	६	३ सत्स अनुभव	१ सा. जना.	२ सा. जना मु. उ.

मार्गणा विशेष		गुण स्थान	जीव समास	पर्याप्त	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	ज्ञान	सम	दर्शन	संख्या	भव्य	सम्य.	सहि	आहा	उपयोग
सं	पर्याप्त	स्थान	समास	पर्याप्त	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	ज्ञान	सम	दर्शन	संख्या	भव्य	सम्य.	सहि	आहा	उपयोग
३	अपर्याप्त	५, १२, ४, १३	७ अप	६, ५, ४ अप.	७, ७, ६, ३, २	४	५	६	४ मि, वै मि, आ. मि	विभाग व मन विना	४ सा छे यथा, अस.	४ का शु	६ मिभ्र विना	२ भव्य, अभव्य	६	२ सं अस अनुभव	२ आहा, अना	२ सा, अना यु. उ
४	सामान्य	१ मि	१४ ७ प. ७ अप	६, ५, ४ पर्याप्त अपर्याप्त	१०/७, ६/७, ५/६, ६/४, ४/३	४	५	६ औ. वै. का १	अज्ञान	३ अज्ञान	१ अस	६ चक्षु, अचक्षु	१ मि	२ भव्य, अभव्य	१	२ संहि अस.	३ आहा, अना	२ सा, अना.
५	पर्याप्त	१ मि	७ प	६, ५, ४ पर्याप्त	१०, ६, ५/७, ६, ४	४	५	६ औ. वै. का १	अज्ञान	३ अज्ञान	१ अस	६ चक्षु, अचक्षु	१ मि	२ भव्य, अभव्य	१	२ संहि अससहि	२ आहा, अना	२ सा, अना.
६	अपर्याप्त	१ मि	७ अप	६, ५, ४ अपर्याप्त	७, ७, ६, ६, ४, ३	४	५	३ औ. मि, वै मि का.	कुमति, कुभ्र	२ कुमति, कुभ्र	१ अस	६ चक्षु, अचक्षु का शु	१ मि	१ भव्य, अभव्य	२	२ संहि अस.	२ आहा, अना	२ सा, अना
७	सामान्य	१ सा	२ स, प सं, अप	६/६ ६ पर्याप्त ६ अप	१०/७ १० ७	४	५	६ औ. वै. का १	अज्ञान	३ अज्ञान	१ अस	६ चक्षु, अचक्षु	६ सासा	१ भव्य, अभव्य	१	१ सहि	१ आहा	२ सा, अना
८	पर्याप्त	१ सा.	१ सं प	६ पर्याप्त	१० ७	४	५	२ औ. वै. का.	अज्ञान	३ अज्ञान	१ अस.	६ चक्षु, अचक्षु	१ सा	१ भव्य, अभव्य	१	१ सहि	१ आहा	२ सा,
९	अपर्याप्त	१ सा	१ सं, अप	६ अपर्याप्त	७	४	५	३ औ. मि, वै मि का.	कुमति, कुभ्र	२ कुमति, कुभ्र	१ अस	६ चक्षु, अचक्षु का शु	१ सा.	१ भव्य, अभव्य	१	१ संहि	२ आहा, अना.	२ सा, अना.

२० प्रस्तुपाए

सं	मार्गणा विधिप		गुण स्थान	जीव समास	पर्यास	प्राण	लि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	ऋ	ल्ल	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या		भव्य	सम्प.	सच्चि	आहा	उपयोग
	पर्यास	अपर्यास															द्र	भा					
१०	३	सामान्य (पर्यास ही)	१	विम	६ पर्यास	१०	४	४	१ प.	१ त्रस	२ औ, वै	३	४	३ ज्ञानाज्ञान मिम	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	६	१ भव्य	१ मिम	१ सच्चि	१ आहा.	२ सा. अना.
११	६	सामान्य	१	अधि	६/६ ६ पर्यास ६ अप.	१०/७	४	४	१ .	१ त्रस	५ औ २, वै, २ का. १	३	४	३ ज्ञान	१ असं	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	६	६	२ भव्य	३ औ, शा, क्षयो	१ सच्चि	२ आहा अना	२ सा. अना.
१२	४	अपर्यास	१	अधि	६ पर्यास	१०	४	४	१ प	१ त्रस	२ औ, वै	३	४	३ मति श्रुत, अवधि	१ अस.	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	६	६	१ भव्य	३ औ, शा, क्षयो	१ सच्चि	१ आहा	२ सा, अना
१३	४	अपर्यास	१	अधि	६ अपर्यास	७	४	४	१ प	१ त्रस	३ औ मि, वै मि, का	३	४	३ मति, श्रुत, अवधि	१ अस	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	२	६	१ भव्य	३ औ, शा, क्षयो	१ सच्चि	२ आहा अना.	२ सा. अना.
१४	६	सामान्य (पर्यास ही)	१	ध्व	६ पर्यास	१०	४	२	१ पं	१ त्रस	१ औ	३	४	३ मति, श्रुत, अवधि	१ देशस.	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	६	३	१ भव्य	३ औ, शा, क्षयो.	१ सच्चि	१ आहा.	२ साकार अना
१५	६	सामान्य	१	प्रमत्त	६/६ ६ पर्यास ६ अप	१०/७ १० ७	४	१	१ पं.	१ त्रस	३ औ १, जा २,	३	४	३ मति श्रुत, अव, मन	३ सा, छे परि	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	६	३	१ भव्य	३ औ सा क्षयो.	१ सच्चि	१ आहा	२ साकार अना

२० प्ररूपणार्

मार्गणा विशेष	पयसि अपयसि	गुण स्थान	जीव समास	पयसि	प्राण	लिंग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लक्षणे	ज्ञान	सयम	दर्शन	विरया द्र भा	भव्य	सम्य	सञ्चि	आहा	उपयोग
१६ ७ सामान्य (पर्या ही)	६ पर्यासि	१ षर्वा	१ स प	६ पर्यासि	१०	३ आ	१ मनु	१ पं	१ त्रस	१ औ	३	४ केवल विना सा, छे परि	३	चक्षु अचक्षु अवधि	६ ३ शुभ	१ भव्य	३ औ क्षा सयो	१ सञ्चि	१ आहा	२ साकार अना
१७ ८ सामान्य (पर्या ही)	→	५ ८-१२	१ स प	→	मूलौषवत्	←	→	→	→	औ	→	→	→	मूलौषवत्	→	→	→	→	→	→
१८ ९ सामान्य सयो	६ पर्यासि अपयसि	१ सयो	१/२ स प अप	६ पर्यासि अपयसि	४/२ ४ २	० लक्षणे	१ मनु	१ प.	१ त्रस	३ औ, २, का १	० लक्षणे	१ केवल	१ यथा	१ केवल	६ १ शु	१ भव्य	१ क्षा	० अनुभय	२ सा, अना यु. छ.	
२ ४ सामान्य (पर्या ही)	६ ५, ४ पर्यासि	१३ १-१३	७ प	६ ५, ४ पर्यासि	१०, ६, ८, ७, ६, ४	४ लक्षणे	२ ति मनु	५	६	१ औ	४ लक्षणे	८	७	४	६ २	२ भव्य अभव्य	६	२ स अस अनुभय	१ आहार अना	२ सा अना.
२ १ सामान्य (पर्या ही)	६ ५, ४ पर्यासि	१ मि.	७ प.	६ ५, ४ पर्यासि	१०, ६, ८, ७, ६, ४	४ लक्षणे	२ ति मनु	५	६	१ औ.	३ लक्षणे	३ अज्ञान	१ अस.	२ चक्षु अचक्षु	६ २	२ भव्य अभव्य	१ मि.	२ स अस	१ आहा	२ सा, अना.
३ २ सामान्य (पर्या ही)	६ पर्यासि	१ सा, सं. प	१ सं. प	६ पर्यासि	१०	४ लक्षणे	२ ति. मनु	१ प.	१ त्रस	१ औ	३ लक्षणे	३ अज्ञान	१ अस.	२ चक्षु अचक्षु	६ २	१ भव्य	१ सा	१ सञ्चि	१ आहा, अना.	२ सा अना.

२ औदारिक काययोग-

२० प्ररूपणाए

सं	सामान्य (पर्याप्त ही)	पर्याप्त अपर्याप्त	गुण स्थान	जीव समास	पर्याप्त	प्राण	लि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	अ	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेश्या द्र. भा.	भव्य	सम्भ.	संज्ञि	आहा	उपयोग
४	३ सामान्य (पर्याप्त ही)	६ पर्याप्त	१ मि	१ सं प	६ पर्याप्त	१०	४	२ ति मनु	१ पं	१ त्रस	१ औद	३	३ ज्ञानाज्ञान	१ असं.	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ भव्य	१ मिश.	१ सञ्चि	१ आहा.	२ सा, अना.
५	४ सामान्य (पर्याप्त ही)	६ पर्याप्त	१ अवि	१ सं प	६ पर्याप्त	१०	४	१ ति मनु	१ पं	१ त्रस.	१ औद	३	३ मति, श्रुत अव	१ असं	३ चक्षु, अचक्षु, अम.	६	१ भव्य	१ औ. क्षा क्षयो	१ सञ्चि	१ आहा.	२ सा अना.
६	५ सामान्य (पर्याप्त ही)	→ काययोग सामान्य वत् ←	—	—	—	→ काययोग सामान्य वत् ←	—	—	—	—	१ औद.	—	—	—	→ काययोग सामान्य वत् ←	—	—	—	—	—	—
७	३ सामान्य (पर्याप्त ही)	६ पर्याप्त	१ अयो	१ सं प	६ पर्याप्त	४	०	१ मनु	१ पं	१ त्रस	१ औ.	०	१ केवल	१ यथा.	१ केवल द.	६	१ भव्य	१ क्षा.	० अनु	१ आहा	२ सा, अना, यु उ.
८	५ सामान्य (पर्याप्त ही)	७ अपर्याप्त	४	७	६, ५, ४ अपर्याप्त	७, ६, ५, ४, ३, २	४	२ मनु, ति	५	६	१ ओ मि	४	६ विभाग, मन, निना	१ अस यथा.	४ चक्षु रहितरे का दे, दर्शन/७/३	६	२ भव्य, अभव्य	४ मि, सा, क्षयो	२ स, अस अनु	१ आहा	२ सा, अना यु उ
९	१ सामान्य (अप. ही)	७ अपर्याप्त	१ मि.	७ अप	६, ५, ४ अपर्याप्त	७, ७, ६, ५, ४, ३	४	२ मनु ति.	५	६	१ ओ. मि.	३	२ कुमति, कुमु	१ असं	२ चक्षु, अचक्षु	३	२ भव्य, अभव्य	१ मि	२ सञ्चि असं	१ आहा	२ सा, अना

३. औदारिक मिश्र काययोग—(ध २/१, २/६५३-६६१)

मार्गणा विधौ		२० प्रकृत्याए																			
सं.	पदासि अपदासि	गुण स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	लि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	क	क	ज्ञान	संगम	दर्शन	लेखा द्र भा	भव्य	सम्य	सहि	आहा	उपयोग
३	सामान्य (अपर्या ही)	१ सा.	१ स अप	६ अपर्यासि	७	४	२ ति मनु	१ प	१ नस	१ औ मि.	३	४	२ कुमति, कुमु	१ अस	२ चसु, अवसु	१ ३	१ भव्य	१ सासा	१ सति	१ आहा	२ सा अना
४	सामान्य (अप. ही)	१ अवि	२ स अप	६ अप	७	४	१ ति मनु.	१ प	१ नस	१ औ. मि	१ पु	४	२ कुमति, कुमु अवधि	१ अस	२ चसु अवसु अवधि	१ ६	१ भव्य	२ सा शयो	१ सति	१ आहा	२ सा, अना
६	सामान्य (अप. ही)	१ सगो	१ स. अप	६ अपर्यासि	२ या ४ (दे केवली)	०	१ मनु.	१ प.	१ नस	१ औ मि	०	०	१ केवल	१ गथा	१ केवल	१ १	१ भव्य	१ सा	०	१ आहा.	२ सा अना यु ड
१	सामान्य (पर्या. ही)	४	१ स प	६ पर्यासि	१०	४	२ नरक देव	१ पं.	१ नस	१ री.	३	४	३ शान ३ अशान	१ अस	२ चसु, अवसु अवधि	१ ६	२ भव्य, अभव्य	१ ६	१ सति	१ आहा	२ सा अना
२	सामान्य (पर्यासि ही)	१ मि.	१ सं. प.	६ पर्यासि	१०	४	२ नरक देव	१ पं	१ नस	१ वै	३	४	३ अज्ञान	१ अस.	२ चसु, अपचसु	१ ६	२ भव्य, अभव्य	१ मि.	१ सति	१ आटा.	२ सा अना
३	सामान्य (पर्या. ही)	२ सा	१ सं प.	६ पर्यासि	१०	४	२ नरक देव	१ पं.	१ नस	१ वै	३	४	३ अज्ञात	१ असं.	२ चसु, अवसु	१ ६	१ भव्य	१ सां.	१ सति	१ आहा	२ सा, अना.
४	सामान्य (प ही)	२ मि.	१ स प	६ पर्यासि	१०	४	२ नरक देव	१ पं	१ नस	१ नै.	३	४	३ गुणाज्ञान	१ असं.	२ चसु, अपचसु	१ ६	१ भव्य	१ मि.	१ सति	१ आहा	१ सा अना

४ वैश्विक काययोग—(घ, २/१, २/६६१-६६४)

२० प्रत्युपाय

सं	मार्गणा विशेष		गुण स्थान	जीव समास	पर्यास	प्राण	लिङ्ग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	वेद	मन्त्र	ज्ञान	सयम	दर्शन	वैश्या		सम्य	सञ्ज्ञि	आहा	उपयोग
	पर्यास	अपर्यास															द्र	भा				
१	४ सामान्य (पर्या ही)	१ अवि	१ सं. प.	६ पर्यासि	१०	४	२ नरक देव	१ प	१ त्रस	१ वै.	३	४	३ मति, श्रत अवधि	१ अस	३ चक्षु, अवच्छ अवधि	६	१ भव्य	३ औ, क्षा क्षयो	१ सञ्ज्ञि	१ आहा.	२ सा, अना	
५ वैक्रियिक मिश्र काययोग — (ध. २/१,१/६६४-६६६)																						
१	४ सामान्य (अप ही)	३ १,२,४ म अप	१ सं. अप	६ अपर्यासि	७	४	२ नरक देव	१ प.	१ त्रस	१ वै मि	३	४	३ ज्ञान, कुम कुशुत	१ अस	३ चक्षु, अवच्छ अवधि	६	२ भव्य, अभव्य	५ मिश्र विना	१ सञ्ज्ञि	१ आहा	२ सा, अना.	
२	१ सामान्य (अप. ही)	१ मि, सं. अप	१ सं. अप	६ अपर्यासि	७	४	२ नरक देव	१ प.	१ त्रस	१ वै मि	३	४	३ कुमति, कुशु	१ अस	२ चक्षु, अवच्छ का.	६	२ भव्य अभव्य	१ मिथ्या	१ सञ्ज्ञि	१ आहा	२ सा, अना	
३	२ सामान्य (अप. ही)	१ सा, सं. अप	१ सं. अप	६ अपर्यासि	७	४	१ देव	१ प	१ त्रस	१ वै मि	२ स्त्री पु	४	३ कुमति, कुशु	१ अस	२ चक्षु, अवच्छ का	६	१ भव्य	१ सासा	१ सञ्ज्ञि	१ आहा	२ सा, अना.	
४	४ सामान्य (अप. ही)	१ अवि	१ सं. अप	६ अपर्यासि	७	४	२ नरक देव	१ प	१ त्रस	१ वै. मि	२ पु नपु	४	३ मति, श्रत अवधि	१ अस	३ चक्षु, अवच्छ अवधि	८ का शुभ	१ भव्य	३ औ, क्षा क्षयो.	१ सञ्ज्ञि	१ आहा.	२ सा, अना	
६ आहारक काययोग — (ध. २/१,१/६६७)																						
१	४ सामान्य (प ही)	१ प्रमत्त	१ सं. प.	६ पर्यासि	१०	४	१ मज्ज.	१ प.	१ त्रस	१ आहा	१	४	३ मति, श्रुत. अन	२ सा, छे	३ चक्षु, अवच्छ अव	१ सं. शुभ	१ भव्य	२ क्षा, क्षयो.	१ सञ्ज्ञि	१ आहा	२ सा, अना	

२० प्ररूपणाएं

मार्गणा विशेष	पर्याप्त अवस्था	गुण स्थान	जीव समास	पर्याप्त	प्राण	लिङ्ग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	शक्ति	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेखना		भव्य	सम्य	सक्ति	आहा	उपयोग
															द्र	भा					
७ आहारक मिश्र काययोग—(घ २/१,१/६६८)					७	४	१ मनु	१ पं	१ त्रस	१ आ, मि	१ पु.	४	३ मति, श्रु अव	२ सा, छे चक्षु, अचक्षु, का अव	३ चक्षु, अचक्षु, का अव	३ शुभ	१ भव्य	२ क्षा, क्षमो	१ सक्ति	१ आहा.	३ सा, अना.
१ × सामान्य (अप, ही)	१ प्रसक्त	१ स अप	१ अपर्याप्त	६	७,७,६ १,४,३,२	४ लिङ्ग	४	६	६	१ कामेण	३	४ विभग, मन चिना	२ अस. यथा	४ चक्षु चिना दे दर्शन	६ शु	२ भव्य, अभव्य	६ मिश्र बिना	२ सक्ति अस. अनुभव्य	१ अना	३ सा, अना	
८ कार्मण काययोग—					७	४	४	४	६	१ कामेण	३	४ कुमति, कुमु	१ अस. अव	४ चक्षु, अचक्षु शु	६	२ भव्य, अभव्य	१ मि	२ स अस	२ अना	३ सा, अना	
१ × सामान्य (अप, ही)	१ स अप	१ स अप	६	६,६,४ ४,३	७	४	३ नरक रहित	१ पं	१ त्रस	१ कामेण	३	४ कुमति, कुमु	२ अस. अव	४ चक्षु, अचक्षु शु	६	१ भव्य	१ सा	१ सक्ति	१ अना	३ सा, अना	
२ सामान्य (अप, ही)	१ स अप	१ स अप	६	६	७	४	४	१ पं	१ त्रस	१ कामेण	३	४ मति, श्रुत, अव	१ अस. अव	४ चक्षु, अचक्षु शु	६	१ भव्य	३ औ., क्षा, क्षयो	१ सक्ति	१ अना	३ सा, अना	
४ सामान्य (अप, ही)	१ स अप	१ स अप	६	६	७	४	४	१ पं	१ त्रस	१ कामेण	३	४ केवन	१ यथा,	४ केवच	६ शु.	१ भव्य	१ क्षा	० अनुभव्य	१ अना.	३ सा, अना यु उ	
५ सामान्य (अप, ही)	१ स अप	१ स अप	६	६	७	४	४	१ पं	१ त्रस	१ कामेण	३	४ केवन	१ यथा,	४ केवच	६ शु.	१ भव्य	१ क्षा	० अनुभव्य	१ अना.	३ सा, अना यु उ	

२० प्ररूपणार्थं

मार्गका विशेष	२० प्ररूपणार्थं																					
	म. सं.	पर्याप्त अपर्याप्त	गुण स्थान	जीव समाप्त	पर्याप्त अपर्याप्त	प्राण	क्र. सं.	गति	इन्द्रिय	काय	योग	स्त्री	ज्ञान	समय	दर्शन	लेख्य द्र. भा.	भव्य	सम्य.	सङ्घि.	आहा	उपयोग	
६	१	अपर्याप्त	१ मि	२ स अप अस. अप.	६/४ अपर्याप्त	७/७	४	३ नरक रहित	१ प	१ तस	३ औ. मि. वै मि. कार्मण	१ स्त्री	४	२ कुमदि, कुशु	१ अस	२ चक्षु, अचक्षुका शु	३ लो लि	२ भव्य, अभव्य	१ मि	२ सङ्घि अस.	२ आहा. अना	२ सा. अना.
७	२	सामान्य	१ सा	२ सं प म अप.	६/६ पर्याप्त अप	१०/७ ७	४	३ नरक रहित	१ प.	१ तस	३ आ द्वि रहित	१ स्त्री	४	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ भव्य	१ सा.	२ आहा अना.	२ सा. अना	
८	३	पर्याप्त	१ मा.	१ स प.	६ पर्याप्त	१०	४	३ नरक रहित	१ पं	१ तस	१० मन ४, वच. ४ औ. १, वै. १	१ स्त्री	४	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ भव्य	१ सासा	१ आहा	२ सा. अना	
९	४	अपर्याप्त	१ सा.	१ म अप.	६ अपर्याप्त	७	४	३ नरक रहित	१ पं.	१ तस	३ औ मि. वै मि का.	१ स्त्री	४	२ कुमदि, कुशु	१ अस	२ चक्षु, अचक्षुका शु	३ लो लि	१ भव्य	१ सासा	२ आहा. अना.	२ सा अना.	
१०	५	सामान्य (पर्याप्त हृी)	१ मिश्र	१ सं. प.	६ पर्याप्त	१०	४	३ नरक रहित	१ पं	१ तस	१० मन ४, वच ४, औ. १, वै. १	१ स्त्री	४	३ ज्ञानज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ भव्य	१ मिश्र	१ आहा.	२ सा अना.	
११	६	सामान्य (पर्याप्त हृी)	१ जिवि	१ सं. प.	६ पर्याप्त	१०	४	३ नरक रहित	१ पं.	१ तस	१० मन ४, वच ४, औ. १, वै. १	१ स्त्री	४	३ मति, श्रुत अवधि	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु अवधि	६	१ भव्य	३ औ. सा. श्रयो.	१ आहा	२ सा अना.	

मार्गणा विशेष		२० प्ररूपणार्																		
स	पर्यासि अपर्यासि	गुण स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	लिंग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लक्षणे	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या द्र भा	भव्य	सम्भ.	सङ्घि	आहा	उपयोग
५ वेद मार्गणा—																				
१ स्त्री वेद—(घ २/१,१/६७३-६८४)																				
१	सामान्य	६	४	६/५ ६ पर्यासि	१०,६,७	४	३	१	१	१३	१	६	४	३	६	२	६	२	२	२
	१-६		सं प अस प स अप अस अप	६ पर्यासि १ ६ अप १	१० ६ ७ ७		ति मनु देव	१	१	आ द्वि विना	१	केवल, मन विना	अस देश स सा, छे	चक्षु, अचक्षु अवधि	६	२	६	२	आहा, अना	साकार अना
२	पर्यासि	६	२	६/५ पर्यासि	१०/६	४	३	१	१	१०	१	६	४	३	६	२	६	२	१	२
	१-६		स प अस प	६/५ पर्यासि	१०/६		नरक रहित	१	१	मन ४, वच ४ औ १, वै, १	१	केवल, मन विना	अस देश स सा, छे	चक्षु, अचक्षु अवधि	६	२	६	२	आहा, अना	साकार, अना
३	अपर्यासि	२	२	६/५ अप	७	४	३	१	१	३	१	कुमति, कुमु	अस	१, अचक्षु १, अचक्षु	३	२	२	२	आ अना	साकार, अना
	१,२		स, अप अस अप	६/५ अप	७		नरक रहित	१	१	औ मि, वै मि का	१	कुमति, कुमु	अस	१, अचक्षु १, अचक्षु	३	२	२	२	आ अना	साकार, अना
४	सामान्य	१	४	६/५ ६ पर्यासि	१०,६,७	४	३	१	१	१३	१	३	४	३	६	२	६	२	२	२
	मि		स, प अस प स अप अस अप	६/५ ६ पर्यासि १ ६ अप १	१०,६,७		नरक रहित	१	१	आ द्वि, रहित	१	अज्ञान	अस	चक्षु, अचक्षु	६	२	६	२	आहा अना	साकार अना
५	पर्यासि	१	२	६/५ पर्यासि	१०/६	४	३	१	१	१०	१	अज्ञान	अस	चक्षु, अचक्षु	६	२	६	२	१	२
	मि		स प अस प	६/५ पर्यासि	१०/६		नरक रहित	१	१	मन ४, वच ४ औ १, वै, १	१	अज्ञान	अस	चक्षु, अचक्षु	६	२	६	२	आहा, अना	साकार, अना

२० प्रकरणार्थ

सं	सू	मार्ग्याविशेष	गुण स्थान	जीव ममास	पर्याप्त	प्राण	लक्ष	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लक्ष	ज्ञान	सयम	दर्शन	उपया द्र भा.	भव्य	सम्य	संज्ञि	आहा	उपयोग
१२	४	सामान्य (पर्या ही)	१ ध्रुव	१ स प	६ पर्याप्त	१०	४	२ ति मनु	१ प	१ त्रस	६ मानध, वच, ध्रुवस्त्री औ १	१	३ मति, श्रुत, अवधि	१ देश सं चक्षु, अचक्षु, अवधि	३	६ शुभ	१ भव्य	३ औ, क्षा, क्षयो	१ संज्ञि	१ आहा,	२ सा, अना.
१३	६	सामान्य (पर्या ही)	१ प्रस	१ स, प	६ पर्याप्त	१०	४	१ मनु	१ प.	१ त्रस	६ मानध, वच, ध्रुवस्त्री औ १	१	३ मति, श्रुत, अवधि	२ सा, छे, चक्षु, अचक्षु, अवधि	३	६ शुभ	१ भव्य	३ औ, क्षा, क्षयो	१ संज्ञि	१ आहा,	२ सा, अना
१४	७	सामान्य (पर्या ही)	१ ध्रुव	१ स प	६ पर्याप्त	१०	३ आ	१ मनु	१ प.	१ त्रस	६ मानध, वच, ध्रुवस्त्री औ, १	१	३ मति, श्रुत, अवधि	२ सा, छे, चक्षु, अचक्षु, अवधि	३	६ शुभ	१ भव्य	३ औ, क्षा, क्षयो	१ संज्ञि	१ आहा	२ सा, अना
१५	८	सामान्य (पर्या ही)	१ ध्रुव	१ स, प	६ पर्याप्त	१०	३ आ	१ मनु	१ प	१ त्रस	६ मानध, वच, ध्रुवस्त्री औ, १	१	३ मति, श्रुत, अवधि	२ सा, छे, चक्षु, अचक्षु, अवधि	३	६ शुभ	१ भव्य	२ औ, क्षा	१ संज्ञि	१ आहा.	२ सा, अना.
१६	९	सामान्य (पर्या ही)	१ ध्रुव	१ स, प	६ पर्याप्त	१०	२ ध्रुव	१ मनु.	१ प.	१ त्रस	६ मानध, वच, ध्रुवस्त्री औ १	१	३ मति, श्रुत, अवधि	२ सा, छे, चक्षु, अचक्षु, अवधि	३	६ शुभ	१ भव्य	२ औ, क्षा	१ संज्ञि	१ आहा.	२ सा, अना
२ मुख्य वेद - (ध, २/१, २/६२२ ६२७)																					
१	×	सामान्य	६	४ म. प. अर्ध, प स अप. अर्ध, अप.	६/४ पर्याप्त	१०, ६, ७	४	१ नाम रहित	१ प	१ त्रस	१५	१ प्रु	७ केवल रहितसू	५ यथाचक्षु, अचक्षु रहित	३ अवधि	६	२ भव्य अभव्य	६	२ संज्ञि असंज्ञि	२ आहा. अना.	२ साकार अना

मार्गणा विशेष		गुण स्थान	जीव समास	पर्याप्त	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लक्ष	लक्ष	ज्ञान	समय	दर्शन	लेख्य भा	भव्य	सम्य	सञ्चि	आहा	उपयोग
२	पर्याप्त	६-६	२ सं. प असं प	६/५ ६ पर्याप्त. ५ "	१०/६ १० ६	३ नरक रहित	१ पं	१ त्रस	११ मनः, नच ४ औ १, वै १ आ १	१ पु	४ केवल विना	५ सू यथा रहित	३ चक्षु अचक्षु अवधि	६	२ भव्य, अभव्य	६	२ सञ्चि असञ्चि	१ आहा	२ साकार, अनाकार	
३	अपर्याप्त	४ १, २, ४ असं ६	२ स अप अस अप	६/५	७/७	३ नरक रहित	१ प.	१ त्रस	४ औ मि, नच ४ वै मि, आ मि का	१ पु	४ कुमति, कुमु ३ ज्ञान	३ अस सा छे	३ चक्षु अचक्षु अवधि शु,	६	२ भव्य, अभव्य	५ मिश्र बिना	२ सञ्चि असञ्चि	२ आहा अना	२ सा, अना	
४	सामान्य	१ मि	४ स अप स अप अप	६/५ ६ पर्याप्त ५ " ५ अप ५ "	१०, ६, ७	३ नरक रहित	१ प.	१ त्रस	१३ आ द्वि. बिना	१ पु	४ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु अचक्षु	६	२ भव्य, अभव्य	१ मि	२ सञ्चि असञ्चि	२ आ, अना	२ साकार, अना.	
५	पर्याप्त	१ मि	२ स अप अस, प	६/५ ६ पर्याप्त ५ "	१०/६ १० ६	३ नरक रहित	२ प	१ त्रस	१० मनः, नच ४ औ १, वै १	१ पु	४ कुमति, कुमु विभाग	१ अस	२ चक्षु अचक्षु	६	२ भव्य, अभव्य	१ मि.	२ सञ्चि अस	१ आहा.	२ सा, अना.	
६	अपर्याप्त	१ मि	२ स अप असं अप	६/५ अपर्याप्त	१०/६ १० ६	३ नरक रहित	१ प.	१ त्रस	३ औ मि वै मि, कार्मण	१ पु	४ कुमति, कुमु	१ अस	२ चक्षु अचक्षु का शु	६	२ भव्य, अभव्य	१ मिथ्या	१ सञ्चि अस	२ आहा, अना	२ सा, अना	

२० प्ररूपणाए

मार्गणा विशेष		गुण स्थान	जीव मयात्	पर्याप्त	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या द्र भा	भव्य	साम्य.	सहि	आहा.	उपयोग	
७	सा प अप	-	→	मूलोपवत्	←	३ नरक रहित	-	-	१ गु	-	→	मूलोपवत्	←	-	-	-	-	-	
८	सा प अप	-	→	मूलोपवत्	←	-	-	-	१ गु	-	→	मूलोपवत्	←	-	-	-	-	-	
३. नयुक्त वेद - (ध २/१, १/६८-६९८)																			
१	X सामान्य	६	१४	६/४/४	१०/७, ६/७	४	६	६	१३ आ द्वि. विना	६ केवल, मन, विना	४ अस देश सा., छे.	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	६	२	६	२	२	२	२
२	X पर्याप्त	६	७	६/४/४	१०, ६, ८	४	६	६	१० मन ४, वच ४ औ १, वै १	६ केवल, मन, विना	४ अस देश सा., छे.	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	६	२	६	२	१	२	२
३	X आपासि	३	७	६/४/४	७, ७, ६, ४, ४, ३	४	६	६	३ मि, वे मि का.	६ कुमरि, कुशु ३ ज्ञान	१ अस.	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	३	२	४	२	२	२	२
४	१ सामान्य	६	१४	६/४/४	१०/७, ६/७	४	६	६	१३ आ द्वि. विना	६ अज्ञान	१ अस.	३ चक्षु, अचक्षु	६	२	१	२	२	२	२

२० प्ररूपणाए

सं	सामान्य वि.ने.प		गुण	जीव समास	पर्यास	प्राग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	शक्ति	ज्ञान	संगम	दर्शन	सेवया		सम्य	संज्ञि	आहा	उपयोग
	प.सं.	प्र.सं.													द	भा				
१	१	पर्यास	१	मि	१	१०, ६, ५, ७ ६/४	३ देव रहित	१	६	१० मन ४, वच ४ नपु औ १, वै १	४	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	२	१ मि	२ संज्ञि अस	१ आहा	२ सा, अना
६	१	अपर्यास	१	मि	६/४/४ अपर्यासि	७, ७, ६, ५, ४, ३	३ देव रहित	६	६	३ औ मि, का वे मि, का	४	२ कुमति, कुभु	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	२	२	१ मि	२ संज्ञि अस.	२ आहा अना	२ सा अना
७	२	सामान्य	१	सा	६ पर्यासि अप.	१०/७ १० ७	३ देव रहित	१ त्रस	१ त्रस	१२ मन ४, वच ४ नपु औ २, वै १, का १	४	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	१	१ सासा	१ संज्ञि	२ आहा अना	२ सा, अना
८	२	पर्यास	१	सा.	६ पर्यासि	१०	३ देव रहित	१ त्रस	१ त्रस	१० मन ४, वच ४ नपु औ १, वै १	४	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु अचक्षु	६	१	१ सा	१ संज्ञि	१ आहा.	२ सा, अना
९	२	अपर्यास	१	सा	६ अपर्यासि	७	२ ति मनु	१ त्रस	१ त्रस	औ. मि, का.	४	२ कुमति, कुभु	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	३	१	१ सा	१ संज्ञि	२ आहा. अना	२ सा, अना
१०	३	सामान्य (पर्या ही)	१	विभ्र	६ पर्यासि	१०	३ देव रहित	१ त्रस	१ त्रस	१० मन ४, वच ४ नपु औ १, वै १,	४	३ ज्ञानज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	१	१ मिभ्र	१ संज्ञि	१ आहा.	२ सा, अना
११	४	सामान्य	१	अवि	६ पर्यासि अपर्यासि	१०/७ १० ७	३ देव रहित	१ त्रस	१ त्रस	१२ मन ४, वच ४ नपु औ १, वै २, का १	४	३ मति, शुत. अवधि	१ अस	३ चक्षु, अचक्षु अव	६	३	३ औ, क्षा क्षयो	१ संज्ञि	२ आहा अना	२ सा, अना

मार्गका विशेष		२० प्ररूपणाए																			
म	पर्याप्त अपर्याप्त	गुण स्थान	जीव समाप्त	पर्याप्त	प्राण	क्रि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	श्ल	श्ल	ज्ञान	संयम	दर्शन	लेख्या द्र. भा	भव्य	सम्य	सक्ति	आहा.	उपयोग
१२	पर्याप्त	१ अधि	१ म प	६ पर्याप्त	१०	४	३ देव रहित	१ पं.	१ त्रस	१० मनः, वचन औ १, वै २	१ ननु	४	३ मति, श्रुत, अव.	१ अस.	३ चक्षु, अचक्षु, अव	६ ६	१ भव्य	३ औ., क्षा क्षयो.	१ सक्ति	१ आहा	२ सा, अना.
१३	अपर्याप्त	१ अधि	१ स प	६ अपर्याप्त	७	४	१ न.	१ प	१ त्रस	२ वे मि., का ननु	१ ननु	४	३ मति, श्रुत, अवधि	१ अस.	३ चक्षु, अचक्षु, का. का. शु.	१ १	१ भव्य	२ क्षा, क्षयो	१ सक्ति	२ आ अना.	२ सा, अना.
१४	सामान्य (अप ही)	१ क्ष नां	१ स प	६ पर्याप्त	१०	४	२ ति मनु	१ प	१ त्रस	६ मनः, वचन औ १	१ ननु	४	३ मति, श्रुत अवधि	१ अस.	३ चक्षु, अचक्षु अव	६ ३	१ भव्य	३ औ., क्षा, क्षयो.	१ सक्ति	१ आहा	२ सा, अना
१५	सामान्य (पर्या. ही)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	१ ननु	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
४. अपरा २२—(ध २/१,१/६६६)																					
१	सामान्य	१	१	६/६ पर्याप्त.	१०, ४, २, १	१	१	१	१	११ मनः, वचन औ. २, का. १ अयो	०	४	५ ज्ञान	४ सा., छे सू यथा अनुभव	४	१	१	२ औ., क्षा, अनुभव	१ सक्ति अनुभव	२ आहा अना	२ सा, अना
१. तत्पय मार्गणा—																					
१ तीर्थ पर्याप्त—(ध. २/१,१/३००-३१२)																					
१	सामान्य	६	१४	६/६/४ पर्याप्त	१०/७, ६/७, ८/६, ७/६, ६/४, ४/३	४	४	५	६	१५	३	१	७ केवल के मिना	५ सू. यथा के मिना	२	६	२	६	२ सक्ति अनं	१ आहा	२ सा, अना

स	मार्गणा विशेष		गुण स्थान	जीव समाप्त	पर्याप्त	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	प्रतिष्ठा	ज्ञान	संयम	दर्शन	लेखा		भव्य	सम्य.	सहि	आहा	उपयोग
	प्रतिष्ठा	अपर्याप्त													द्र	भा					
२	×	पर्याप्त	६ १-६	७ ५	६/६/४ पर्याप्त	१०,६,८,७,६, ६,४	४	४	६	मनः, वचः औ १, वै १ आ १	३ को	७ केवल विना	५ यथा चक्षु के विना	३ चक्षु अचक्षु अवधि	६ ६	२ भव्य, अभव्य	६	२ सहि अस	१ आहा	२ सा अना	
३	×	अपर्याप्त	४ १,२,४ ६	७ अप	६/६/७ अपर्याप्त	७,७,६,६, ४,३	४	४	६	४ मि, वै मि, आ मि का	३ को कुमति, कुमु ३ ज्ञान	२ ज्ञान	१ असं सा, हे	३ चक्षु, अचक्षु का शु	६ ६	२ भव्य, अभव्य	६	२ सहि अस.	२ आहा अना	२ सा अना	
४	१	सामान्य	१ मि	७ ५ अप	६/६/४ पर्याप्त अपर्याप्त	१०,६,८,७,६, ४ प, ७,७ ६,६,४,३	४	४	६	१३ आ द्वि विना	३ को	३ अज्ञान	१ असं	२ चक्षु अचक्षु	६ ६	२ भव्य अभव्य	१	२ सहि अम	१ आहा अना	२ सा अना	
५	२	पर्याप्त	१ मि	७ ५.	६/६/४ पर्याप्त	१०,६,८,७,७, ६,४	४	४	६	१० मनः, वचः, औ १, वै. १	३ को	३ अज्ञान	१ अस.	३ चक्षु, अचक्षु	६ ६	२ भव्य अभव्य	१	२ सहि अम	१ आहा.	२ सा अना	
६	३	अपर्याप्त	१ मि	७ अप.	६/६/४ अपर्याप्त	७,७,६,६,४,३, ३	४	४	६	३ औ, मि, वै मि, का,	३ को कुमति, कुमु	२ अज्ञान	१ असं.	२ चक्षु अचक्षु का शु.	६ ६	२ भव्य अभव्य	१	२ सहि असं.	२ आहा. अना.	२ सा अना	
७	२	सामान्य	१ सा.	२ सं ५ स अ	६/६ पर्याप्त अप	१०/७ १० ७	४	४	१	१३ आ द्वि, विना	३ को	३ अज्ञान	१ अस	३ चक्षु, अचक्षु	६ ६	१ भव्य	१	१ सहि	२ आहा अना	२ सा, अना	

२० प्ररूपणाए

म. क्र.	मार्गणा विशेष		पर्याप्त स्थान	गुण समास	जोन समास	पर्याप्त	प्राण	लिपि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	को	ज्ञान	समय	दर्शन	लेख्या द्र. भा	भव्य	सम्प	सञ्चि	आहा	उपयोग
	पर्याप्त	अपर्याप्त																				
८	२	पर्याप्त	१ सा.	१ सं प	१ पर्याप्तिसि	६ पर्याप्तिसि	१०	४	४	१ प	१ त्रस	१० मन ४, वच ४ औ १, वे १	३ क्रो.	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ भव्य,	१ सासा	१ सञ्चि	१ आहा.	२ सा. अना.
९	३	अपर्याप्तिसि	१ सा	१ न अप.	६ अपर्याप्तिसि	७	३ नरक रहित	३	१ पं	१ त्रस	२ औ, मि वे मि, कार्मण	३ कुमुति, कुमु शु.	३ क्रो	२ कुमुति, कुमु शु.	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु का शु.	६	१ भव्य	१ सा.	१ सञ्चि	२ आहा अना	२ सा. अना.
१०	३	नामान्य (पर्याप्त ही)	१ मिश्र	१ स प.	६ पर्याप्तिसि	१०	४	४	१ पं.	१ त्रस	१० मन ४, वच ४ औ १, वे १	३ क्रो	३ ज्ञानाज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ भव्य	१ मिश्र	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा. अना	
११	४	नामान्य	१ अपि	२ स प. मं अप	६ पर्याप्तिसि	१०/७ १० ७	४	४	१ पं.	१ त्रस	१३ आ द्वि विना	३ क्रो	३ मति, श्रुत अवधि	२ अस	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	६	१ भव्य	३ औ, शा क्षयो.	१ सञ्चि	२ आहा. अना	२ सा अना.	
१२	४	पर्याप्तिसि	१ अपि	१ सं, प	६ पर्याप्तिसि	१०	४	४	१ पं.	१ त्रस	१० मन ४, वच ४ औ १, वे १	३ क्रो	३ मति श्रुत अवधि	१ अस	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	६	१ भव्य	३ औ, शा. क्षयो	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा. अना	
१३	४	अपर्याप्तिसि	१ अपि	१ सं अप	६ अपर्याप्तिसि	७	४	४	१ पं	१ त्रस	३ औ मि, वे मि का.	३ क्रो.	३ मति, श्रुत अवधि	१ अस	३ चक्षु, अपचक्षु अवधि	२ का. शु	१ भव्य	३ औ, शा. क्षयो.	१ सञ्चि	२ आहा. अना	२ सा अना.	

२०२२										
क्र.सं.	वर्ग	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
१६	१०	२	१	६	१	१	१	३	६	२
१७	१०/७	४	१	११	३	४	३	६	३	३
१८	१०	३	१	६	३	४	३	६	३	३
१९	७	३	१	६	३	४	३	६	३	३
२०	१०	२	१	६	३	४	३	६	३	३
२१	१०	१	१	६	३	४	३	६	३	३

२० प्ररूपणाए

मार्गणा विशेष		जीव	गुण	पयसि	प्राण	मति	इन्द्रिय	काय	योग	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या	भव्य	सम्य	संज्ञि	आहा.	उपयोग	
म	पयसि	समास	स्थान	प्रयसि	प्रयसि	प्रयसि	प्रयसि	प्रयसि	प्रयसि	प्रयसि	प्रयसि	प्रयसि	प्रयसि	प्रयसि	प्रयसि	प्रयसि	प्रयसि	प्रयसि	
२.	मान कपाय—(घ. २/१.२/७१२)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
१-१६	तक सर्व आलाप—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
३	साया कपाय—(घ. २/१.१/७१२)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
१-१६	तक सर्व आलाप—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
४.	लोक कपाय—(घ. २/१.१/७१२)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
१	X सामान्य	१०	१४	६/४/४	१०,६८, ७,६,४	४	४	६	१५	७	६	३	६	२	६	२	२	२	
		१-१०	प.	पयसि	पयसि के.					केवल बिना	यथा	केवलके	६	भव्य	२	संज्ञि	आहा	सा.	
			अप	अपयसि	अपयसि के.					केवल बिना	बिना	बिना	६	अभव्य	२	असं	अना.	अना	
					अपयसि के														
नोट—२-१६ सर् आलाप क्रोध कपायवत् जानना । विशेषता यह हे कि पयसि आलापोंमें गुणस्थान, कपाय व सयमकी प्ररूपणा लोभ सामान्यवत् जाननी । अपयसिमें कपाय तो लोभवत् कहनी पर गुणस्थान व सयम क्रोधवत् जानना ।																			
१	अकपायी—(घ. २/१.१/७१२)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
१	X सामान्य	४	२	६/६	१०, ४	१	१	१	११	५	१	४	६	३	२	१	२	२	
		११-१६	सं प	६ पयसि	१०, ४					मति, भुत	यथा,	४	१	भव्य,	२	१	आहा	सा.	
		अतीत	सं. अप	६ अपयसि	२, १					अव मन	अनुभव	४	१	अनुभव	२	१	अना.	अना.	
		अतीत	अतीत	अतीत	अतीत					केवल	अनुभव		६	अनुभव	२	१	अना.	मु. उ.	

क्र.सं.	विवाहक प्रकल्पनाएँ	व्यक्तिगत	सामूहिक	संस्थागत	व्यक्तिगत	सामूहिक	संस्थागत	व्यक्तिगत	सामूहिक	संस्थागत
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

२० प्ररूपणाए

मार्गणा ररूप	पर्यासि	गुण स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	ल्लि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	ज्ञान	समय	दर्शन	लेख्या	भव्य	सम्य	सङ्घि	आहा	उपयोग
७	२ सामान्य (पर्यासि उपर्यासि)	१ सा	२ सं प मं. अप	६, ५ पर्यासि ५ उपर्यासि	१०, ७	४	४	१ प.	१ त्रस	१३ आ द्वि विना	२ कुमति, कुमु	१ अस	२ चछु अचछु	६	१ भव्य	१ सा.	१ स	२ आहार अना	२ सा. अना
८	२ पर्यासि	१ सा	१ स प	६ पर्यासि	१०	४	४	१ प	१ त्रस	मन ४, वच ४ औ. १, वै. १	२ कुमति, कुमु	१ अस.	२ चछु अचछु	६	१ भव्य	१ सा	१ स	१ आहा	२ सा अना
९	२ उपर्यासि	१ मा	१ स अर	६ पर्यासि	७	४	३ नरक रहित	१ पं	१ त्रस	३ औ मि, वै मि कार्मण	२ कुमति कुमु	१ अस	२ चछु अचछु का कु	६	१ भव्य	१ सासा	१ सङ्घि	२ आहा अना	२ सा अना
१०	२ सामान्य (पर्यासि हो)	१, २ मि	१ मं प	६ पर्यासि	१०	४	४	१ पं	१ त्रस	१० मन ४, वच ४ औ. १, वै १	१ विभग	१ अस	२ चछु, अचछु	६	२ भव्य अभव्य	२ मि, सा.	१ सङ्घि	१ आहा	२ सा अना
११	२ सामान्य (पर्यासि हो)	१ मि	१ मं. प.	६ पर्यासि	१०	४	४	१ प	१ त्रस	१० मन ४, वच ४ औ. १, वै १	१ विभग	१ अस	२ चछु, अचछु	६	२ भव्य अभव्य	१ मि	१ सङ्घि	१ आहा.	२ साकार अना
१२	२ सामान्य (पर्यासि हो)	१ सा	१ मं. प	६ पर्यासि	१०	४	४	१ पं	१ त्रस	१० मन ४, वच ४ औ. १, वै. १	१ विभग	१ अस	२ चछु, अचछु	६	१ भव्य	१ सा.	१ मङ्घि	१ आहा.	२ सा अना

२. विभग मान—(ध २/२/७२१-७२२)

मार्गणा विशेष		२० प्रत्ययार्थ										उपयोग								
स	पर्यासि स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	लिङ्ग	गति	इन्द्रिय	काम	योग	वेद	लिङ्ग	ज्ञान	मंसम	दर्शन	सिख्या द भा	भव्य	सम्ब	सहि	आहा	उपयोग
३. मत्तश्रुत शान्त—(ध २/१.१/७२३-७२६)																				
१	× सामान्य	६ २	६/६	१०/७	४	४	१ पं.	१ प्रस	१५	३	४	२ मति, भुत	७	३ केस के बिना	६	१ भव्य	३ औ. शा समो	१ मति,	२ आहा जना	२ मा, जना
२	× पर्यासि	६ ४-१२	६ पर्यासि ६ अपर्यासि	१०	४ लिङ्ग	४	१ प.	१ प्रस	१० मन ४, वष ४/ ६, आ १/६	३	४ लिङ्ग	२ मति, भुत	७	३ केस के बिना	६	१ भव्य	३ औ. शा समो	१ मति,	१ आहा जना	२ साकार जना
३	× अपर्यासि	२ अवि प्रस	६ अपर्यासि	७	४	४	१ पं	१ प्रस	४ ३ मि. औ. मि. ना. मि. ना	२ पु १	४	२ मति, भुत	३ अम. मा तैरो	३ केस के बिना	२ का गु	१ भव्य	३ औ. शा समो	१ मति,	२ आहा जना	२ माकार, जनाकार
४	× सामान्य	१ अवि	६/६ पर्यासि ६ अपर्यासि	१०/७	४	४	१ पं	१ प्रस	१३ आ दि, पिता	३	४	२ मति, भुत	१ अमं	३ केस के बिना	६	१ भव्य	३ औ. शा समो	१ मति,	२ आहा जना	२ साकार, पनाकार
५	× पर्यासि	१ अवि	६ पर्यासि ६ अपर्यासि	१०	४	४	१ पं.	१ प्रस	१० मन ४, वष ४/ औ. १. १	३	४	२ मति, भुत	१ अमं	३ केस के बिना	६	१ भव्य	३ औ. शा समो	१ मति,	१ आहा जना	२ साकार, पनाकार
६	× अपर्यासि	१ अवि	६ पर्यासि ६ अपर्यासि	७	४	४	१ पं.	१ प्रस	३ औ. मि. १ मि. सामं	२ पु १	४	२ मति, भुत	१ अमं	३ केस के बिना	६	१ भव्य	३ औ. शा समो	१ मति,	१ आहा जना	२ साकार, पनाकार
७	× सामान्य	६-१२	—	—	—	—	—	—	—	—	—	२ मति, भुत	—	—	—	—	—	—	—	—

२० प्ररूपणार्

मार्गणा विषय		गुण	जीन	पर्याप्त	प्राण	लि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	वेद	ज्ञान	समय	दर्शन	लेख्या	भव्य	सम्य.	सञ्चि	आहा	उपयोग
६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६
४ अविद्याज्ञान—(घ. २/१.१/७२६)																				
१	सर्ग	—	—	—	—	—	मतिशुत व	—	—	—	—	१ अविधि	—	—	मति श्रुतव	—	—	—	—	—
	आलाप	—	—	—	—	—	१ पं	—	—	—	१ ४	१ मन	४ सा., छे	३ केवल के	६ १	१ भव्य	३ औ. शा	१ स	१ आहा	२ साकार,
	सामान्य	७	१	६	१०	४	१ मनु	१ वस	१ वस	१ मन ४, वच, ४	१ ४	१ मन	४ सा., छे	३ केवल के	६ १	—	—	—	—	२ अनाकार
	पर्याप्त	६-१२	स. प	६	—	—	—	—	—	औ १	—	—	४ परि	—	—	—	—	—	—	—
२	६-१२	सर्व	—	—	—	—	—	—	—	—	—	१ मन	४ परि	—	—	—	—	—	—	—
	आलाप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	४ परि	—	—	—	—	—	—	—
५. नेतृज्ञान—(घ. २/१.१/७२७)																				
१	५	सामान्य	२	६/६	४, २, १	०	१ मनु	१ प.	१ वस	१०	०	१ केवल	१ यथा,	१ केवल	६ १	१ भव्य	१ क्षा	० अनुभग	२ आहा	२ साकार,
	पर्याप्त	१३-१४	पर्या	६ पर्या	अतीत	—	१ सिद्ध	अतीत	अकाय	मन ४, वच ४	०	—	अनुभय	—	—	—	—	—	—	—
	अतीत	अतीत	अप	अप	अतीत	—	—	—	—	औ २, का	—	—	अनुभय	—	—	—	—	—	—	—
	अतीत	अतीत	अप	अप	अतीत	—	—	—	—	अयोग	—	—	अनुभय	—	—	—	—	—	—	—
६. संयम मार्गणा																				
१. सथम सामान्य—																				
१	सामान्य	६	३	६, ६	१०, ७, ४,	४	१ मनु	१ प.	१ वस	१३	४	६ मति, शुत,	६ सा., छे	४	३ शुभ	१ भव्य	३ औ शा	१ सञ्चि	२ आहा.	२ साकार,
	पर्याप्त	६-१४	सं प	अप	२, १	—	—	—	—	वै द्वि	—	अव., मन,	४ परि	—	—	—	—	—	—	—
	अतीत	अतीत	अप	अप	अतीत	—	—	—	—	विना	—	के	—	—	—	—	—	—	—	—

मार्गणा विशेष		२० प्ररूपणाए																		
सं	प्ररूपणा	पर्याप्त	गुण	जीव	पर्याप्त	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	वेद	ज्ञान	सयम	दर्शन	द्वेष	भय	सम्य	सङ्घि	आहा	उपयोग
२	६ सामान्य	२	१	२	६/६	१०/७	४	१	१	११	३	४	३	३	३	१	३	१	१	२
	६	स	६	स	६ पर्या	१०	४	१	१	मन ४, वच ४	३	४	३	३	३	१	३	१	१	२
	७	स	७	स	६ अप.	७	४	१	१	औ १, आ २	३	४	३	३	३	१	३	१	१	२
३	७ सामान्य	१	१	१	६	१०	३	१	१	६	३	४	३	३	३	१	३	१	१	२
	७	स	७	स	६	१०	३	१	१	मन ४, वच ४	३	४	३	३	३	१	३	१	१	२
	७	स	७	स	६	७	३	१	१	औ १	३	४	३	३	३	१	३	१	१	२
४	३ सामान्य	१	१	१	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	३	सर्व	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	३	आलाप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
२. सामाविक सयम—(घ २/१,१/७३३)																				
१	६-६ सामान्य	४	२	२	६/६	१०/७	४	१	१	१०	३	४	३	३	३	१	३	१	१	२
	६-६	स	६	स	६ पर्या	१०	४	१	१	मन ४, वच ४	३	४	३	३	३	१	३	१	१	२
	६-६	स	६	स	६ अप	७	४	१	१	औ १, आ १	३	४	३	३	३	१	३	१	१	२
२	६-६	सर्व	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	६-६	आलाप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
३. वेदोपस्थापना सयम—(घ २/१,१/७३३)																				
१	६-६	सर्व	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	६-६	आलाप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

मार्गणा विशेष		२० प्ररूपणार्थ																		
न.	पर्याप्ति	गुण स्थान	जीव समाप्त	पर्याप्ति	प्राण	लक्ष	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लक्ष	ज्ञान	संयम	दर्शन	लेख्या	भव्य	सम्य.	संज्ञि	आहा	उपयोग
४. परिहार विरुद्ध सयम—																				
१	×	मामान्य	२	६	पर्याप्ति	१०	४	१	१	६	१	३	३	१	६	१	२	१	१	२
		६,७	स ५							मनः, वच ४, प्रु		४	३	१	३	१	२	१	१	२
२	६,७	मर्व आलाप	—	→	मूलोषवत्					ओ १		३	१	→	←	२	२	→	←	
										मनः, वच ४, प्रु, ओ १		३	१	परि.	मूलोषवत्	२	२	→	←	
५. सूक्ष्म साम्यस्य सयम— (ध. २/१,१/७३५)																				
												मूलोषवत्								
६. यथाख्यात सयम— (ध. २/१,१/७३५)																				
१	११-सामान्य	४	२	६/६	१०,४,२,१	०	१	१	१	११	०	६	६	४	६	१	२	१	२	२
	१४	११-१४ सं. ५	६ पर्याप्ति							मनः, वच ४	०	६	६	४	६	१	२	१	२	२
			मं अप.	६ अपर्याप्ति						ओ २, का. १	०	६	६	४	६	१	२	१	२	२
२	११	सर्	—	—						मूलोषवत्										
	१५																			
७. असयम— (ध. २/१,१/७३६-७)																				
१	×	मामान्य	४	६,४,४	१०,६,५, ७,६,४	४	४	४	६	१३	३	६	६	३	६	२	६	२	२	२
		१-४		पर्याप्ति						आ हि		३	६	३	६	२	६	२	२	२
				अपर्याप्ति						विना		३	६	३	६	२	६	२	२	२

२० प्रश्नपत्राणि

स	सामान्य विषय		गुण स्थान	जीव समाप्त	पर्याप्त	प्राण	लि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	वेद	ज्ञान	सयम	दर्शन	सैर्या		भव्य	सम्य	संज्ञि	आहा	उपयोग
	पर्याप्त	अपर्याप्त														द	भा					
२	४	४	७	५	६५४ पर्याप्त	४	४	४	६	१० मनः, वचः, श्रुति औ १ वै १	३	४	३ ज्ञान ३ अज्ञान	१ अस	३ केवल द विना	६	२	२ भव्य, अभव्य	६	२ सञ्ज्ञि असञ्ज्ञि	१ आहा	२ साकार असाकार
३	३	३	७	५	६५४ अपर्याप्त	४	४	४	६	३ औ मि, वै मि, तर्माण	३	४	४ कुमति, कुमु ३ ज्ञान	१ अस	३ केवल द विना	६	२	२ भव्य, अभव्य	६	२ सञ्ज्ञि असञ्ज्ञि	२ आहा जना	२ साकार असाकार
१	१	१	६	५	६५४ पर्याप्त	४	४	४	३	१०, ६, ५, ७, ६, ४	३	४	७ केवलके विना	७	१ चतु	६	२	२ भव्य, अभव्य	६	२ सञ्ज्ञि असञ्ज्ञि	२ आहा जना	२ साकार असाकार
२	२	२	३	५	६५४ पर्याप्त	४	४	४	३	१०, ६, ५, ७, ६	३	४	७ केवलके विना	७	१ चतु	६	२	२ भव्य, अभव्य	६	२ सञ्ज्ञि असञ्ज्ञि	२ आहा जना	२ साकार असाकार
३	३	३	३	५	६५४ पर्याप्त	४	४	४	३	१०, ६, ५, ७, ६	३	४	७ केवलके विना	७	१ चतु	६	२	२ भव्य, अभव्य	६	२ सञ्ज्ञि असञ्ज्ञि	२ आहा जना	२ साकार असाकार
४	४	४	३	५	६५४ पर्याप्त	४	४	४	३	१०, ६, ५, ७, ६	३	४	७ केवलके विना	७	१ चतु	६	२	२ भव्य, अभव्य	६	२ सञ्ज्ञि असञ्ज्ञि	२ आहा जना	२ साकार असाकार

१ दर्शन मार्गणा
 १ चतु दर्शन—(घ २/१/७३८-७४३)
 १ सामान्य ११-१२ चतु सं ६/४ पर्या अस के ६/४ अप, व अप

श्री ३ विज्ञान कौश

२० प्ररूपणाएँ

मार्गना विविय	पयसि स्थान		पयसि	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	हस्त	ज्ञान	सयम	दर्शन	शेषया		सम्य.	सहि	आहा	उपयोग	
	पयसि	अपयसि											द्र	भा					
१	१	१ मि	६,६ पयसि	१०,६,८	४	२ चतु प.	१ त्रस	१० मनध, वच ४, औ १, वै. १	३	३ अज्ञान	१ अस.	१ चक्षु	६	२ भव्य अभव्य	१ मि	२ संहि अस.	१ आहा	२ साकार अना	
६	१	१ मि	६,६ अपयसि	७,७,६	४	२ चतु प	१ त्रस	३ औ मि, वै मि, आ मि	३	२ कुमति, कुशु	१ असं.	१ चक्षु	६	२ भव्य अभव्य	१ मि	२ संहि अस	२ आहा, अना.	२ साकार, अना	
७	२-२२	सर्व आ नाय	—	मूलौषवत्	—	—	—	—	—	—	—	१ चक्षु	—	→	मूलौषवत्	←	—	—	
२. अचक्षु दर्शन—(घ २/११/७४३-७४७)																			
१	५	सामान्य	१४	६,६,४	४	४	६	१६	३	७ केवल के चिना	७	१ अचक्षु	६	२ भव्य, अभव्य	६	२ संहि असं	२ आहा अना	२ साकार, अना	
		१-१२	पयसि अपयसि	७,७,६,६,४,३	४	४	६	११ मनध, वच ४, वै १, औ १, आ १	३	७ केवलके चिना	७	१ अचक्षु	६	२ भव्य, अभव्य	६	२ संहि असंहि	१ आहा.	२ साकार अना.	
२	५	पयसि	६,६,४	१०,६,८,६	४	४	६	४	३	७ केवलके चिना	७	१ अचक्षु	६	२ भव्य, अभव्य	६	२ संहि असंहि	१ आहा.	२ साकार अना.	
		१-१२	पयसि	४	४	४	६	४	३	७ केवलके चिना	७	१ अचक्षु	६	२ भव्य, अभव्य	६	२ संहि असंहि	१ आहा.	२ साकार अना.	
३	५	अपयसि	६,६,४	७,७,६,६,४,३	४	४	६	४	३	७ केवलके चिना	७	१ अचक्षु	६	२ भव्य, अभव्य	६	२ संहि असंहि	१ आहा.	२ साकार अना.	
		१-२,४, ६	अपयसि	४	४	४	६	४	३	७ केवलके चिना	७	१ अचक्षु	६	२ भव्य, अभव्य	६	२ संहि असंहि	१ आहा.	२ साकार अना.	

मार्गणा विशेष		२० प्ररूपणार्																	
स	प्रकार	पयसि स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लक्षण	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या	भव्य	सम्य	सञ्चि	आहा	उपयोग
४	१ सामान्य	१ मि	१४	६,६,४ पर्यासि अपर्यासि	१०,६,८,७, ६,४	४	६	६	१३ आ द्वि विना	३	४	१ अस	१ अचक्षु	६	२ भव्य, अभव्य	१ मि	२ सञ्चि अस	२ आहा अना	२ सा, अना.
५	१ पर्यासि	१ मि	७ पर्या	६,६,४ पर्यासि	१०,६,८,७, ४	४	६	६	१० मनः, वच, ४, औ, १, वै १	३	४ अज्ञान	१ अस	१ अचक्षु	६	१ भव्य, अभव्य	१ मि.	२ सञ्चि अस	१ आहा	२ सा, अना
६	१ अपर्यासि	१ मि	७ अपर्या	६,६,४ अपर्यासि	७,७,६,६,४, ३	४	६	६	३ औ मि, वै मि, कार्मण	३	३ कुमति, कुमु	१ अस	१ अचक्षु	२ का शु	२ भव्य अभव्य	१ मि	२ सञ्चि अस	२ आहा अना	२ सा, अना
७	२-१२ सर्व आलाप				सुलौषवत्											सुलौषवत्			
८	२ अपर्यासि	१ मि	७ अपर्या	६,६,४ अपर्यासि	१०/७	४	१	१	१५	३	४ मति, श्रुत अत्र, मन	७	१ अव	६	१ भव्य	३ औ, क्षा क्षयो	१ सञ्चि	२ आ अना.	२ सा, अना
९	२ सामान्य	१ मि	७ अपर्या	६,६,४ अपर्यासि	१०	४	१	१	११ मनः, वच, ४, वै १ औ १ आ १	३	४ केवल के विना	७	१ अव	६	१ भव्य	३ औ, क्षा क्षयो.	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा, अना
१०	२ सामान्य	१ मि	७ अपर्या	६,६,४ अपर्यासि	७	४	१	१	४ औ, मि, वै मि, आ, मि, न पु कार्मण	३	४ मति, श्रुत अवधि	३ अस, सा, छे	१ अवधि	२ का शु	१ भव्य	३ औ, क्षा क्षयो	१ सञ्चि	२ आहा, आन	२ साकार अना

३० प्ररूपणार्

सार्गना विरोग		३० प्ररूपणार्																							
५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०
सर्ग	पयसि	जीव	पयसि	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या	भय	सम्य	संज्ञि	आहा,	उपयोग								
सर्व	आलाप	समान	पयसि	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या	भय	सम्य	संज्ञि	आहा,	उपयोग								
४	सर्व	—	—	अवधिज्ञानवत्	—	—	—	—	१	अवधि	—	—	अवधिज्ञानवत्	—	—	—	—								
५. केवल दर्शन—(घ २/१,२/७६०)																									
१	सर्व	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
१	सर्व	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
१०. लेख्या सार्गणा—(घ. २/१,२/७६० ७६६)																									
१. कृण लेख्या—																									
१	सामान्य	१४	६,६,४	१०,६,६,७, ६,४	४	४	६	१३	६	अज्ञान ३	१	६	२	६	२	२	२								
	पयसि	७	पयसि -	७,७,६,६,४,४,३	३	५	६	आ द्वि.	३	ज्ञान ३	३	४	२	६	२	२	२								
	अपयसि	७	अपयसि	३	३	५	६	विना	३	ज्ञान ३	३	४	२	६	२	२	२								
२	पयसि	७	६,६,४	१२,६,६,७ ६,४	३	५	६	१०	३	ज्ञान ३	३	४	२	६	२	२	२								
	अपयसि	७	पयसि	३	३	५	६	मन ४, वच. ४	३	ज्ञान ३	३	४	२	६	२	२	२								
	अपयसि	७	अपयसि	३	३	५	६	जी. १, वै. १.	३	अज्ञान	३	४	२	६	२	२	२								
३	अपयसि	७	६,६,४	७,७,६,६,४,३ ६,४	४	५	६	३	५	कुमति, कुभु ३ ज्ञान	३	४	२	६	२	२	२								
	अपयसि	७	अपयसि	३	३	५	६	औ मि, का	३	अज्ञान	३	४	२	६	२	२	२								
	अपयसि	७	अपयसि	३	३	५	६	वै मि, का	३	अज्ञान	३	४	२	६	२	२	२								
४	सामान्य	१	६,६,४	१०,६,६,७, ६,४	४	५	६	१३	३	अज्ञान	३	४	२	६	२	२	२								
	पयसि	७	पयसि	३	३	५	६	आ द्वि	३	अज्ञान	३	४	२	६	२	२	२								
	अपयसि	७	अपयसि	३	३	५	६	विना	३	अज्ञान	३	४	२	६	२	२	२								

मार्गणा विशेष		गुण स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	लिङ्ग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	हस्त	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेश्या		भव्य	सम्य	सञ्चि	आहा	उपयोग
स	ह														द्र	भा					
१	पर्यासि	१ मि	७ पर्या	६,६,४ पर्यासि	१०,६,५,७, ६,४	४	३ देव रहित	५	६	१० मनः, त्वचः औ १, वै १	३	३ अज्ञान	१ अस	३ चक्षु अचक्षु	६	१ कृ	२ भव्य, अभव्य	१ मि	२ सञ्चि अस	१ आहा	२ सा अना
६	अपर्यासि	१ मि	७ अप	६,६,४ अपर्यासि	७,७,६,६,४,३	४	४	६	६	३ औ मि वे मि कार्मण	३	२ कुमति, कुमु	१ अस	२ चक्षु अचक्षु	२	१ कृ	२ भव्य, अभव्य	१ मि	२ सञ्चि अस	२ आहा अना	२ सा अना
७	सामान्य	१ सा	२ स, प म अप	६ पर्यासि अपर्यासि	१०/७ १० ७	४	४	१ पं.	१	१३ आ द्वि विना	३	३ अज्ञान	१ अस	३ चक्षु अचक्षु	६	१ कृ	१ भव्य	१ सा.	१ सञ्चि	२ आ. अना	२ माता अना.
८	पर्यासि	१ सा	१ स प	६ पर्यासि	१०	४	३ देव रहित	१ प	१	१० मनः, त्वचः औ १, वै १	३	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु अचक्षु	६	१ कृ	१ भव्य	१ ना	१ सञ्चि	१ आटा	२ सा अना
९	अपर्यासि	१ सा.	१ स अप	६ अपर्यासि	७	४	३ देव रहित	१ प	१	३ औ मि, वै मि, कार्मण	३	२ कुमति, कुमु	१ अस.	२ चक्षु अचक्षु	२	१ कृ	१ भव्य	१ मा	१ सञ्चि	२ आहा. अना	२ नाकार. अनाकार
१०	सामान्य (पर्या ही)	१ मिम्र	१ स प	६ पर्यासि	१०	४	३ देव रहित	१ प	१	१० मनः, त्वचः औ १, वै १	३	३ ज्ञानाज्ञान मिम्र	१ अस	२ चक्षु. अचक्षु	६	१ कृ	१ भव्य	१ मिम्र	१ सञ्चि	१ आहा	२ माता अना
११	सामान्य	१ अवि	२ स प. स अप	६/६ पर्यासि अपर्यासि	१०/७ १० ७	४	३ देव रहित	१ पं.	१	१२ माः, त्वचः औ. ३, वै १ कार्मण १	३	३ मति, कु. अवि	१ अस.	३ देव दे मिना	६	१ कृ	१ भव्य	३ औ. ३/१ शमी	१ सञ्चि	२ आटा अना	२ नाकार अना.

२० प्ररूपणार्थ

म	मार्गणा विधीय		प्राण	गति	चन्द्रिय	काय	योग	ज्ञान	समय	दर्शन	लेख्या द्रभा	भव्य	सम्य	सञ्चि	आहा.	उपयोग
	पर्याप्त अपर्याप्त	गुण स्थान														
१२	१ पर्याप्त	१ अवि	१	३ देव रहित	१ पं	१ त्रस	१० मनः, वच ४, औ १, वे १	३ मति, श्रुत अवधि	१ अस	३ केवल द के बिना	६ कृ	१ भव्य	३ औ, क्षा क्षयो	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा, अना.
१३	१ अपर्याप्त	१ अवि	७	१ मनु	१ प	१ त्रस	२ औ, मि., का	३ मति, श्रुत अवधि	१ अस	३ केवल द के बिना	२ का शु	१ भव्य	१ क्षयो	१ सञ्चि	२ आहा अना	२ सा, अना
२ नील लेख्या—(ध २/१,२/७३६)																
१ १-४ मर्त आनाप	—	—	—	—	—	→	कृष्ण लेख्या वत्	←	—	—	१ नील	—	→	कृ से वत् ←	—	—
३ कापोत लेख्या—(ध २/१,२/७३६)																
१ × सामान्य	४ १-४	४ पर्याप्त अपर्याप्त	१४	४ देव रहित	४	६	१३ आ द्वि, के बिना	६ ३ ज्ञान ३ अज्ञान	१ अस.	३ केवल द के बिना	६ का, का.	२ भव्य अभव्य	६	२ सञ्चि अस	२ आहा अना	२ सा अना
२ × पर्याप्त	४ १-४	७ पर्याप्त	७	३ देव रहित	४	६	१० मनः, वच ४ वे १, औ १	६ ३ अज्ञान ३ ज्ञान	१ असं	३ केवल द के बिना	६ का का	२ भव्य अभव्य	६	२ सञ्चि अस	२ आहा अना.	२ सा अना.
३ × अपर्याप्त	३ १,२,४	७ अपर्याप्त	७	४	४	६	३ औ मि, वे, मि, कार्मण	६ कुमति, श्रुत ३ ज्ञान	१ असं	३ केवल द के बिना	२ का शु	२ भव्य, अभव्य	४ मि., सा, क्षा, क्षयो	२ सञ्चि अस.	२ आहा अना	२ सा, अना

२० प्ररूपणाए

मार्गणा विशेष		पुण स्थान	जीव समाप्त	पर्याप्त	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	शक्ति	ज्ञान	सयम	दर्शन	सौर्या	भव्य	सम्य	सक्ति	आहा	उपयोग
४	१ सामान्य	१ मि	१४	६,६,४ पर्याप्त अपर्याप्त	१०,६,६,७, ६,४	४	६	६	१३ आ द्वि के विना	३	४	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६ का	२ भव्य, अप्रव्य	१ मि	२ सक्ति अर्ज	२ आहा अना	२ सा, अना
५	१ पर्याप्त	१ मि	७ पर्याप्त	६,६,४ पर्याप्त	१०,६,६,७, ६,४	३ देव रहित	६	६	१० मनः, वचः, औ ६, ६, १	३	४	१ अस	२ चक्षु अचक्षु	६ का	२ भव्य, अप्रव्य	१ मि	२ सक्ति अत	१ आहा अना	२ सा अना
६	१ अपर्याप्त	१ मि	७ अप	६,६,४ अपर्याप्त	७,७,६,६,४, ३	४	६	३ औ मि वै मि, गर्भण	३	४	२ कुमति, कुट्ट	१ अम.	२ चक्षु, अचक्षु ना शु	६ का	२ भव्य अप्रव्य	१ मि	२ सक्ति अर्ज	२ आहा अना	२ सा अना
७	२ सामान्य	१ सा	२ स प, स अप	६, ६ वर्ग अपर्याप्त	१०,७	४	१ प	१३ आ, द्वि रहित	३	४	३ अज्ञान	१ अर्ज	२ चक्षु, अचक्षु	६ का	१ भव्य	१ सासा	१ सक्ति	२ आहा अना	२ सा अना.
८	२ पर्याप्त	१ सा	१ म. प.	६ पर्याप्त	१०	३ देव रहित	१ व	१० माः, वचः औ ६, ६, १	३	४	३ अज्ञा	१ अर्ज	२ चक्षु, अचक्षु	६ का	१ भव्य	१ सासा,	१ मशि	१ आहा अना	२ सा अना
९	३ अपर्याप्त	१ मा	१ म, अप	६ अपर्याप्त	७	३ नरक रहित	१ व.	३ औ मि, वै, मि का	३	४	३ कुमति, कुट्ट	१ अर्ज.	२ चक्षु, अचक्षु ना, शु.	६ का	१ भव्य	१ सासा,	१ सक्ति	१ आहा अना.	२ सा अना,
१०	३ सामान्य (पर्याप्त ही)	३ मित्र	१ स प.	६ पर्याप्त	१०	३ देव रहित	१ व.	१० मनः, वचः औ ६, ६, १	३	४	३ कुमति, कुट्ट	१ अम.	२ चक्षु, अपक्षु	६ का,	१ भव्य	१ मित्र	१ सक्ति	१ आहा अना	२ सा अना

मार्गणा विषय		गुण स्थान	जीव समास	पर्याप्त	प्राण	लि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	हृ	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या	भव्य	सम्य	सञ्चि	आहा	उपयोग
११	४ सायान्या पर्याप्त अपर्याप्त	१ अवि	२ सं प स, अप	६ पर्याप्त अपर्याप्त	१०,७	४	३ देव रहित	१ पं.	१ त्रस	१३ आ हि. रहित	३	३ मति, श्रुत, अवधि	१ अस	३ केवल द, के विना	६ का	१ भव्य	३ शा, क्षयो औप.	१ सञ्चि	२ आहा अना.	२ सा, अना
१२	४ पर्याप्त	१ अवि	१ सं प	६ पर्याप्त	१०	४	३ देव रहित	१ प.	१ त्रस	१० मनः, वच, ४ औ १, नै १	३	३ मति, श्रुत, अवधि	१ असं.	३ केवल द, के रहित	१ का	१ भव्य	३ औ., शा; क्षयो	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा, अना.
१३	४ अपर्याप्त	१ अवि	१ म अप	६ अपर्याप्त	७	४	३ देव रहित	१ पं.	१ त्रस	३ औ मि, दे मि. कार्मण	२ पु नपु	३ मति, श्रुत, अवधि	१ असं	३ केवल द, रहित	१ का	१ भव्य	२ शा, क्षयो, सा	१ सञ्चि	२ आहा अना	२ सा, अना
४ तेज लेख्या - (ध २/१, १/७६८ ७७६)																				
१	५ सामान्य	७ १-७	२ सं प मं. अप.	६/६ पर्याप्त अपर्याप्त	१०,७	४	३ नरक रहित	१ प	१ त्रस	१६	३	७ केवल ज्ञान रहित	५ यथा रहित	३ केवल दर्शन रहित	६ ते	२ भव्य अभव्य	६	१ सञ्चि	२ आहा अना.	२ सा, अना
२	५ पर्याप्त	७ १-७	१ सं प	६ पर्याप्त	१०	४	३ नरक रहित	१ पं.	१ त्रस	११ मनः, वच, ४ औ. १, नै १ कार्मण	३	७ केवल ज्ञान रहित	६ यथा रहित	३ केवल दर्शन रहित	१ ते	२ भव्य अभव्य	६	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा. अना
३	५ अपर्याप्त	१, २, ४, ६	१ म अप	६ अपर्याप्त	७	४	२ देव मनु	१ पं	१ त्रस	४ औ. मि. वे मि, शा मि. कार्मण	२ पु नपु.	३ कुमति, कुपु, अवधि	३ अस ना, छे.	३ केवल दर्शन के विना	२ का शु.	२ भव्य अभव्य	५ मिप्र विना	१ सञ्चि	२ आहा अना	२ सातर अना

२० प्रश्नपत्रार्थ

सं	प्रश्नार्थ विवेक		गुण स्थान	जीव समास	पर्याप्ति	प्राण	लिंग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लक्ष	ज्ञान	सयम	दर्शन	वैरम्य भा	भव्य	सन्ध्य	सञ्चि	जाहा	उपयोग
	पर्याप्ति	अपर्याप्ति																			
४	१ सामान्य	१ मि	१	२ स प	६ पर्या ६ अप	१०७	४	३ नरक रहित	१ प.	१ व्रस	१२ मनः, वचः श्रौ २ वै, १, कामिण	३	४ अज्ञान	१ असं चक्षु, अचक्षु	६ १ ते	२ २ भव्य अभव्य	१ मि	१ मञ्चि	२ आहा अना	२ मा अना	
५	१ पर्याप्ति	१ मि	१०	१ स प	६ पर्याप्ति		४	३ नरक रहित	१ प.	१ व्रस	१० मनः, वचः श्रौ १, वै १	३	३ अज्ञान	१ असं चक्षु, अचक्षु	६ १ ते	२ २ भव्य अभव्य	१ मि	१ सञ्चि	१ आहा अना	२ सा अना	
६	१ अपर्याप्ति	१ मि	७	१ स अप	६ अपर्याप्ति		४	१ देव	१ प.	१ व्रस	२ वै मि, कामिण	३ पुत्री	२ कुमति कुपु	१ असं चक्षु अचक्षु	२ १ ते	१ १ भव्य अभव्य	१ मि	१ सञ्चि	२ आहा-अना, अना,	२ सा अना	
७	२ सामान्य	१ सा	१०७	१ स. प म अप	६ पर्याप्ति ६ अपर्या,		४	३ नरक रहित	१ पं.	१ व्रस	१२ मनः, वचः श्रौ १, वै २ कामिण	३	३ अज्ञान	१ असं चक्षु, अचक्षु	६ १ ते	१ १ भव्य	१ मा	१ मञ्चि	२ आहा अना	२ सा अना,	
८	२ पर्याप्ति	१ सा	१०	१ स प	६ पर्याप्ति		४	३ नरक रहित	१ पं	१ व्रस	१० मनः, वचः श्रौ १, वै १	३	३ अज्ञान	१ असं चक्षु, अचक्षु	६ १ ते	१ १ भव्य	१ सा,	१ सञ्चि	१ आहा अना	२ साकार अना	
९	२ अपर्याप्ति	१ सा	७	१ स, अप	६ अपर्याप्ति		४	१ देव	१ पं	१ व्रस	२ वै मि, कामिण	३ स्त्री	२ कुमति कुपु	१ असं चक्षु, अचक्षु	२ १ ते	१ १ भव्य	१ सा	१ सञ्चि	२ आहा, अना,	२ साकार अना	
१०	३ सामान्य (पर्याप्ति ही)	१ मित्र	१०	१ स प	६ पर्याप्ति		४	३ नरक रहित	१ पं.	१ व्रस	१० मनः, वचः श्रौ १, वै १	३	३ सामान्य मित्र	१ असं चक्षु, अचक्षु	६ १ ते,	१ १ भव्य	१ मित्र	१ सञ्चि	१ आहा अना	२ साकार अना,	

मार्गवा विवेक		गुण स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	लक्षण	मति	इन्द्रिय	काय	योग	वेद	हि हि	ज्ञान	मयम	दर्शन	तोरया द्र. भा	भव्य	सम्य.	संज्ञि	आहा	उपयोग
११	४ सामान्य पर्यासि	१ अनि	२ सं प स अप	६ पर्यासि ६ अपर्यासि	१०, ७ १० ७	४	३ नरक रहित	१ पं.	१ त्रस	१३ आ, हि., रहित	१ प	१ त्रस	३ मति, श्रुत अवधि	१ अस	३ केवल द के बिना	६ ते.	१ भव्य	३ औ. सा क्षयो.	१ सञ्चि,	२ आहा अना	२ सा, अना
१२	४ पर्यासि	१ अनि	१ मं प.	६ पर्यासि	१०	४	३ नरक रहित	१ पं.	१ त्रस	१० मनः, वचः औ १, वै. १	३	१ त्रस	३ मति, श्रुत अवधि	१ अस	३ केवल द के बिना	६ ते	१ भव्य	३ औ. सा. क्षयो.	१ सञ्चि	१ आहा अना	२ साकार अना.
१३	४ अपर्यासि	१ अनि	१ सं, अप	६ अपर्यासि	७	४	२ देव मनु	१ पं.	१ त्रस	३ औ मि, वै मि., कर्मण	१ पु	१ त्रस	३ मति, श्रुत अवधि	१ असं	३ केवल द के बिना	२ का शु	१ भव्य	३ औ. सा क्षयो	१ सञ्चि	२ आहा अना	२ साकार, अनाकार
४१	६ सामान्य (पर्यासि ही)	१ श्रुत.	१ सं, प	६ पर्यासि	१०	४	३ ति. मनु	१ पं.	१ त्रस	६ मनः, वचः औ १	३	१ त्रस	३ मति, श्रुत अवधि	१ देसा स	३ केवल दर्शन के बिना	६ ते	१ भव्य	३ औ सा क्षयो	१ सञ्चि	२ आहा अनाकार	२ साकार, अनाकार
१५	६ सामान्य पर्यासि (पर्यासि ही)	१ प्रमत्त	२ सं प स अप	६ पर्यासि ६ अपर्यासि	१०/७ १० ७	४	१ मनु	१ पं.	१ त्रस	६ मनः, वचः, औ १	३	१ त्रस	३ मति, श्रुत अवधि	३ सा छेदी परि	३ केवल द के बिना	६ ते	१ भव्य	३ औ. सा क्षयो	१ सञ्चि	१ आहा अनाकार	२ साकार, अनाकार
१६	७ सामान्य (पर्यासि ही)	१ प्रमत्त	१ सं प	६ पर्यासि	१०	३	३ मनु	१ पं.	१ त्रस	६ मनः, वचः, औ. १	३	१ त्रस	४ मति, श्रुत अवधि, मन	३ सा, छे परि	३ केवल द के बिना	६ ते	१ भव्य,	३ औ सा. क्षयो	१ सञ्चि	१ आहा अनाकार	२ साकार, अनाकार

मार्गणा विशेष		२० प्ररूपणार्थे																			
स	पर्यासि अपर्यासि	गुण स्थान	जीव समास	पर्यासि (घ २/१२/७७६-७७८)	प्राण	लिङ्ग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	वेद	हिङ्ग	ज्ञान	सयम	दर्शन	तेरया द्र भा	भव्य	सम्य	सति	आहा	उपयोग
१	× सामान्य	७ १-७	२ स. प स अप	६ ६ पर्या ६ अप.	१०/७ १० ७	४	३ नरक रहित	१ प	१ त्रस	१६	३	४	७ केवल ज्ञान रहित	५ अस दे स, सा त्रे परि	३ केवल द रहित	६ प	२ भव्य अभव्य	६	१ सति	२ आहा जना	२ साकार अनाकार
२	× पर्यासि	७ १-७	१ स प	६ पर्यासि	१०	४	३ नरक रहित	१ प	१ त्रस	११ मनः, वचः औ. १ वै १	३	४	७ केवल ज्ञान विना	५ अस दे स सा त्रे परि	३ केवल द रहित	६ प	२ भव्य, अभव्य	६	१ सति	१ आहा जना	२ सा. जना
३	× अपर्यासि	४ १-२, ४ ६	१ स प	६ अपर्यासि	७	४	२ देव मनु	१ प.	१ त्रस	४ मि. वै. मि आ मि, का	१ पु	४	५ कुमति, कुमु ३ यान	३ अस मा द्विरो	३ केवल द रहित	२ ता. पम शु	२ भव्य, अभव्य	५ मिम रहित	१ मसि	२ आहा, जना.	२ साकार अनाकार
४	१ सामान्य	१ मि.	२ स प म अप	६ पर्या ६ अप	१०/७ १० ७	४	३ नरक रहित	१ पं	१ त्रस	१२ मनः, वचः, औ. १ वै २ कार्मण	३	४	३ अज्ञान	१ अम	३ चपु, जपपु.	६ प	२ भव्य, अभव्य	१ मि.	१ रति	२ आहा, जना.	२ साकार अनाकार
५	१ पर्यासि	१ मि	१ स. प	६ पर्यासि	१०	४	३ नरक रहित	१ पं	१ त्रस	१० मनः, वचः, औ १ वै १	३	४	३ अज्ञान	१ अमं.	३ चपु, जपपु	६ प	२ भव्य, अभव्य	१ मिम	१ सति	१ आहा, जना.	२ साकार, अनाकार
६	१ अपर्यासि	१ मि.	१ स अप.	६ अपर्यासि	७	४	१ देव	१ पं	१ त्रस	३ मि, कार्मण	१ पु	४	५ कुमति, कुमु	१ अम.	३ चपु, जपपु, ता शु	२ ता १२ शु	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ सति	२ आहा, जना	२ साकार अनाकार

मार्गणा विधौप		२० प्ररूपणाए																		
सं.	पर्याप्त अपर्याप्त	गुण स्थान	जीव समास	पर्याप्त	प्राण	लिङ्ग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लक्षण	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या द्र. भा	भव्य	सम्य.	संज्ञि	आहा	उपयोग
७	२ सामान्य	१ सा.	२ सं. प सं. अप	६ पर्याप्त ६ अपर्याप्त	१०/७ १० ७	४	३ नरक रहित	१ प.	१ त्रस	१२ मन ४, वच ४ औ. १, ने. १ का	३	४	१ अस	२ चक्षु अचक्षु	६ पत्र	१ भव्य	१ सा	१ सज्ञि	२ आहार अना.	२ सा अना.
८	२ पर्याप्त	१ सा.	१ सं. प सं. अप	६ पर्याप्त	१०	४	३ नरक रहित	१ प	१ त्रस	१/१० मन ४, वच ४ औ. १, ने. १	३	४	१ अस.	२ चक्षु अचक्षु	६ पत्र	१ भव्य	१ सा	१ सज्ञि	१ आहा	२ सा अना
९	२ अपर्याप्त	१ सा	१ सं. अप	६ अपर्याप्त	७	४	१ देव	१ प	१ त्रस	३ औ. मि., कार्मण	१ पु	४	१ अस	२ चक्षु अचक्षु	२ का शु	१ भव्य	१ सा	१ सज्ञि	२ आहा अना	२ सा अना
१०	३ सामान्य (पर्या ही)	१ मिश्र	१ सं. प	६ पर्याप्त	१०	४	३ नरक रहित	१ प	१ त्रस	१० मन ४, वच ४ औ. १, ने. १	३	४	१ अस.	२ चक्षु, अचक्षु	६ पत्र	१ भव्य	१ मिश्र	१ सज्ञि	१ आहा	२ सा अना
११	४ सामान्य	१ अवि	२ सं. प. मं. अप	६ पर्याप्त ६ अप	१०/७	४	३ नरक रहित	१ प	१ त्रस	१३ आ द्वि रहित	३	४	१ अन	३ चक्षु, अचक्षु अवधि	६ पत्र	१ भव्य	३ औ. , क्षा. क्षयो	१ सज्ञि	२ आहा अना	२ साकार अना
१२	४ पर्याप्त	१ जनि	१ सं. प.	६ पर्याप्त	१०	४	३ नरक रहित	१ प	१ त्रस	१० मन ४, वच ४ औ. १, ने. १	३	४	१ अस	३ केवल द. के विना	६ पत्र	१ भव्य	३ औ. , क्षा. क्षयो.	१ सज्ञि	१ आहा.	२ सा. अना
१३	४ अपर्याप्त	१ जनि	१ सं. अप.	६ अपर्याप्त	७	४	१ देव मनु	१ प.	१ त्रस	३ औ मि, द्वै मि कार्मण	१ पु	४	१ अस	३ केवल दर्शन रहित	२ का शु	१ भव्य	३ औ. , क्षा. क्षयो.	१ सज्ञि	२ आहा अना.	२ सा अना.

मार्गणा विशेष		२० प्रकरणगत																		
सं.	विवरण	गुण स्थान	जीव समास	पर्यास	प्राण	दि.	गति	इन्द्रिय	राय	योग	शु.	शान	नाम	दशम	नैरमा	भक्त्य	मन्व्य	मति	जहा	उपयोग
१४	६ सामान्य (पर्या ही)	१ ६ वां सं प	१ सं प	६ पर्यासि	१०	४	२ मनु ति	१ प	१ प्रस	६ मन श्च जो १	३	३ मति शुरु जराधि	१ देश म	३ केचन द रहित	६ १ म	१ मन्व	३ जो शा. सुवो.	१ मति	१ जहा	२ ना. जना
१५	६ सामान्य (पर्या ही)	१ प्रस सं प	१ सं प	६ पर्यासि सं अण ई उप.	१०/७	४	१ मनु	१ ७.	१ म	११ मन्व, मन्व जो १. ता०	३	४ केचनशान रहित	३ मा. ते. मति	३ केचन द मति	६ १ म	१ मन्व	३ जो शा. सुवो.	१ मति	१ जहा	२ ना. जना
१६	७ सामान्य (पर्या ही)	१ ७ वां सं प	१ सं प	६ पर्यासि	१०	३	१ मनु. ति	१ पं.	१ म	६ मन्व, मन्व जो १	३	५ केचनशान रहित	३ मा. ते. मति	३ केचन द मति	६ १ म	१ मन्व	३ जो शा. सुवो.	१ मति	१ जहा	२ ना. जना
६. शुक्ल लेख्या—(प २/१,१/२०-२०)																				
१	× सामान्य	१३ १-१३	३ सं ७ मं. अण ई उप	६ पर्यासि ई उप	१०/६	६	३ ति. मनु देव	१ पं.	१ म	१३	३	६	५	५	६ १ म	१ मन्व, मन्व	१	३ मति	३ जहा	२ ना. जना
२	× पर्यास	१३ १-१३	६ सं ७ मं. अण ई उप	६ पर्यासि	१०/५	६	३ ति. मनु देव	१ पं.	१ म	१३	३	६	५	५	६ १ म	१ मन्व, मन्व	१	३ मति	३ जहा	२ ना. जना

२० प्ररूपणार्थं

मार्गणा विक्षेप	२० प्ररूपणार्थं																			
	पर्याप्त अपर्याप्त	गुण स्थान	जीव समाप्त	पर्याप्त	प्राण	लिप्ता	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लक्षणा	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या द्रभा	भव्य	सम्प.	सञ्चि	आहा.	उपयोग
३	अपर्याप्त	५ १,२,४, ६,१३	१ सं, अप	६ अपर्याप्त	७,२	४ लिप्ता	२ देव मनु	१ प.	१ त्रस	४ औ मि, वै मि, आ मि, कार्मण	४ विभाग, मन रहित	४ अस, सा. छे, परि	४ अस	४ अस	२ का, शु, शु.	२ भव्य अभव्य	५ मिश्र रहित	१ सञ्चि अनुभव्य	२ आहा अना.	२ साकार अना यु ल
४	सामान्य	१ मिश्र	२ सं, प, सं, अप	६ पर्याप्त अपर्याप्त	१०/७	४	३ नरक रहित	१ प.	१ त्रस	१२ मनः, वचः वे २ औ, १, कार्मण	३ अज्ञान	१ अस	२ अस	२ चक्षु अचक्षु	१ शु	२ भव्य अभव्य	१ मिश्र	१ सञ्चि	२ आ, अना	२ साकार अना
५	पर्याप्त	१ मि	१ सं, प	६ पर्याप्त	१०	४	३ नरक रहित	१ प.	१ त्रस	१० मनः, वचः औ १, वै १	३ अज्ञान	१ अस	२ अस	२ चक्षु अचक्षु	१ शु	२ भव्य अभव्य	१ मि.	१ सञ्चि	१ आहा.	२ साकार, अनाकार
६	अपर्याप्त	१ मि.	१ सं, प	६ अपर्याप्त	७	४	१ देव	१ प	१ त्रस	२ वै मि, कार्मण	२ कुमति, कुमु.	१ अस	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु का शु.	१ शु	२ भव्य अभव्य	१ मि	१ सञ्चि	२ आहा अना	२ सा अना
७	सामान्य	१ सा	२ सं, प सं, अप	६ पर्याप्त अपर्याप्त	१०/७	४	३ नरक रहित	१ प.	१ त्रस	१२ मनः, वचः वे. १ का १	३ अज्ञान	१ अस	२ अस	२ चक्षु अचक्षु	१ शु	१ भव्य	१ सा	१ सञ्चि	२ आहा. अना.	२ साका अना.
८	पर्याप्त	१ गा	१ मं, प.	६ पर्याप्त	१०	४	३ नरक रहित	१ पं.	१ त्रस	१० मनः, वचः औ, १, वै १	३ अज्ञान	१ अस	२ अस	२ चक्षु अचक्षु	१ शु.	२ भव्य, अभव्य.	१ सा	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा अना

२० प्रत्यगाष्ट

मार्गणा विशेष

सं	पर्याप्त	अपर्याप्त	गुण स्थान	जीन समास	पर्याप्त	प्राण	क्रि	गति	इन्द्रिय	काम	योग	श्लो	श्लो	शाप	समय	दर्शन	नेत्र्या भा	भय	सम्य	नरि	जटा	उपयोग
६	२	अपर्याप्त	१ सा	१ स अप	६ अपर्याप्त	७	४	१ देव	१ पं.	१ प्रस	१० मनः, तच ४ ओ १, १, १, १	३	४	३ अज्ञान	१ अं	३ चतु, अपर्याप्त	६ १ १	१ भय	१ साक्षा	१ सदि	२ जहा, अना	२ सा अना
१०	३	सामान्य (पर्याप्त ही)	१ मि	१ सं प.	६ पर्याप्त	१०	४	३ नरक रहित	१ प	१ प्रस	१० मनः, तच ४ ओ १, १, १, १	३	४	३ ज्ञानाशन निश्चित	१ अं	३ चतु, अपर्याप्त	६ १ १	१ भय	१ सिध	१ जहा	२ सा अना	
११	४	सामान्य	१ अवि	२ स प सं, अप	६ पर्याप्त ६ अपर्याप्त	१०/७	४	३ नरक रहित	१ वं.	१ प्रस	१३ आ दि, रहित	३	४	३ मति, मुग ज्ञापि	१ अं	३ केवन र, रहित	६ १ १	१ भय	३ जो, सा, सुते.	१ सदि	२ जहा पना.	२ सा, अना.
१२	४	पर्याप्त	१ अवि.	१ सं प	६ पर्याप्त	१०	४	३ नरक रहित	१ वं.	१ प्रस	१० मनः, तच ४ ओ १, १, १, १	३	४	३ मति, मुग ज्ञापि	१ अं	३ केवन र, रहित	६ १ १	१ त्प	३ जो, सा, सुते	१ सदि	२ जहा.	१ सा प्रग.
१३	४	अपर्याप्त	१ अवि	१ सं, अप	६ पर्याप्त	७	४	२ वेप मनु	१ वं	१ प्रस	३ जो मि, ३, मि, कमान	३	४	३ मति, मुग ज्ञापि	१ अं	३ केवन र, रहित	६ १ १	१ भय	३ जो सा, सुते	१ सदि	२ जहा जना	२ सापर जना.
१४	४	सामान्य (पर्याप्त ही)	१ अवि	१ सं प	६ पर्याप्त	१०	४	२ वि. म	१ वं	१ प्रस	६ मनः, तच ४ ओ १, १, १, १	३	४	३ मति, मुग ज्ञापि	१ अं	३ केवन र, रहित	६ १ १	१ भय	३ जो सा, सुते	१ सदि	२ जहा जना	२ सापर जना.
१५	६	सामान्य	१ प्रस	१ सं, प म अप	६ पर्याप्त ६ नर.	१०/७	४	१ मनु	१ वं.	१ प्रस	११ मार, तच ४ ओ १, १, १, १	३	४	३ मति, मुग ज्ञापि	१ अं	३ केवन र, रहित	६ १ १	१ भय	३ जो सा, सुते	१ सदि	२ जहा	२ सापर जना.

२० प्ररूपणाए

मार्गणा विरुप		पर्याप्त	पुण स्थान	जीव समास	पर्याप्त	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लक्ष	सिद्धि	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या	भव्य	सम्य	सञ्चि.	आहा	लपयोग
१५	७ सामान्य (पर्याप्त ही)	१	७ वा	१ स प.	६ पर्याप्त	१०	१ मनु	१ प.	१ त्रस	६ मान, वच, श्र. औ १	३	४ मति, श्रुत अव, मन	३ सा, छे, परि.	३ केवल द रहित	१ शु	१ भव्य	३ औ., शा. स्यो	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा. जना	
१६	८ सर्व आलाप	—	—	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
७. अल्लेख्य—(घ २/१,१/२०१)																					
१	१४ मिद्ध-सामान्य वच	—	—	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
११. अव्यक्त मार्गणा—																					
१. भव्य—(घ. २/१,१/२०१)																					
१	२२ सर्व आलाप	—	—	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
२. अभव्य—(घ २/१,१/२०३)																					
१	१ सामान्य	१	मि	१४	६,६,४ पर्याप्त	१०,६,५,७, ६,४	४	५	६	१२ आ, हि रहित	३	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ अभव्य	१ मि	२ सञ्चि अस.	२ आहा. जना	२ सा. जना.	
२	१ पर्याप्त	१	मि	७	६,६,४ पर्याप्त	१०,६,५,७, ६,४	४	५	६	१० मान, वच, श्र औ १, ने १	३	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ अभव्य	१ मि.	२ सचि अस.	१ आहा	२ सा. जना.	
३	१ अपर्याप्त	१	मि	७	६,६,४ अपर्याप्त	७,७,६,६,४,४,२	४	५	६	३ औ मि वै मि. कार्मण	३	३ कुमति, कुश्रु	१ अस.	२ चक्षु, अचक्षु ना. शु	६	१ अभव्य	१ मि	२ सचि अस	२ आहा. जना	२ सा. जना	

मार्गणा विशेष		गुण स्थान	जीव समाप्त	पर्याप्त	प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्य	भव्य	सम्य	सच्चि	आहा	उपयोग	
स	ह	प	व	स	प	व	स	प	व	स	प	व	स	प	व	स	प	व	
१२. सम्यक्त्व मार्गणा—																			
१. सम्यक्त्व सामान्य—																			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
२. क्षावित् सम्यक्त्व—(घ. २/१,१/०७ ५१२)																			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०

मार्गणा विधेय		प्राण	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लक्ष	प्रकृति	ज्ञान	संयम	दर्शन	लेश्या द्र भा	भव्य	सम्य	सहि	आहा.	उपयोग
२	पर्याप्त अपर्याप्त	११ ४-१४	१ स. प.	१ प	१ त्रस	११ मनः, वच ४, औ १, वै १ आ १	३ प्रकृति	४ प्रकृति	१ ज्ञान	७	४	६ प्रकृति	१ भव्य	१ शा	१ सहि अनुभव	२ आहा अना	२ सा, अना
३	अपर्याप्त	३ ४, ६ १४	१ म अप	१ प	१ त्रस	४ मि, वै मि, कार्मण	२ पु नपु अप	४ प्रकृति	४ मति, श्रुत यत् केवल	४ अस, सा. छि, यथा	४	४ का शुभ	१ भव्य	१ शा.	१ सहि अनुभव	२ आहा अना	२ सा अना यु उ
४	सामान्य	१ अपि	२ स स अप	१ प	१ त्रस	१३ आ द्वि रहित	३	४	३ मति, श्रुत अवधि	१ अस	३ केवल द रहित	६ प्रकृति	१ भव्य	१ शा	१ सहि	२ आहा अना	२ सा अना.
५	पर्याप्त	१ अपि	१ स. प	१ प	१ त्रस	१० मनः, वच ४ औ १ वै १,	३	४	३ मति, श्रुत अवधि	१ अम	३ केवल द रहित	६ प्रकृति	१ भव्य	१ शा	१ सहि	१ आहा	२ सा, अना
६	अपर्याप्त	१ अपि	१ य अप	१ प.	१ त्रस	३ मि, वै मि का	२ पु नपु	४	३ मति, श्रुत, अवधि	१ अस	३ केवल द रहित	४ का शुभ	१ भव्य	१ शा	१ सहि	२ आहा अना	२ सा अना
७	सामान्य	१ देश	१ स. प	१ प	१ त्रस	६ मनः, वच ४ औ १	३	४	३ मति, श्रुत अवधि	१ देश स	३ केवल द रहित	३ शुभ	१ भव्य	१ शा	१ सहि	१ आहा	२ साकार अना
८	मर् आताप	—	—	—	→	वृत्तवत्	—	—	←	—	—	—	—	१ शा	—	वृत्तवत्	वृत्तवत्

मार्गणा विशेष		२० प्ररूपणाए																		
स	पयसि अपयसि	गुण स्थान	जीव समास	पयसि	प्राण	लिंग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	काल	ज्ञान	सयम	दर्शन	तेरया द भा	भव्य	सम्प	सञ्चि	आहा	उपयोग
१	४ सामान्य	४-७	२ स प स अप	६ पयसि ६ अप	१०,७	४	४	१ प	१ वस	१५	३	४ मति, द्रुत, अव, मन	५ अर्म, देश ना, धि परि	३ केवस द. ररिह	६	१ भव्य	१ क्षयो	१ नञि	२ आहा जना	२ सा, जना
२	४ पयसि	४-७	१ स प	६ पयसि	१०	४	४	१ प	१ मन	११ मान, वच ७ ओ १ ते १ आ	३	४ मति, द्रुत अव, मन	५ अस, देश ना, धि परि	३ केवस द ररिह	६	१ भव्य	१ क्षयो	१ नञि	१ आहा	२ सा, जना
३	४ अपयसि	२ ४, ६	१ स अप	६ अपयसि	७	४	४	१	१ म	४ ओ मि न मि. आ. मि. नपु कर्मण	३	३ मति, द्रुत अवधि	५ उम ना, धि	३ केवस द. ररिह	२	१ भव्य	१ क्षयो	१ नञि	२ आहा जना	२ सा, जना
४	४ सामान्य	१ जवि	२ स, प स अप	६ पयसि ६ अपयसि	१०/७	४	४	१ पं.	१ वस	१२ आ दि ररिह	३	३ मति, द्रुत यराधि	५ अर्म	३ केवस द ररिह	६	१ भव्य	१ क्षयो	१ नञि	२ आ जना	२ सा जना
५	४ पयसि	१ जवि	१ स प	६ पयसि	१०	४	४	१ पं	१ वस	१० मन, वच ७ ओ. १ ते १	३	३ मति, द्रुत जाधि	५ उम	३ केवस द ररिह	६	१ भव्य	१ क्षयो	१ नञि	१ आहा	२ सा, जना
६	४ अपयसि	१ जवि	१ स, अप	६ अपयसि	७	४	४	१ प	१ म	१ ओ. मि, वे मि, कर्मण	३	३ मति, द्रुत अवधि	५ अर्म.	३ केवस द ररिह	२	१ भव्य	१ क्षयो	१ नञि	२ आहा, जना	२ सा, जना

२० प्रश्नपत्रार्थ

मार्गिका विशेष	पर्याप्त अपर्याप्त	गुण स्थान	जीव समास	पर्याप्त	प्राण	लिङ्ग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लिङ्ग	ज्ञान	सयम	दर्शन	तेरया		संज्ञि	आहा.	उपयोग	
															द्र	भा				
७	५ सामान्य (पर्याप्त ही)	१ देश	१ सं प	६ पर्याप्त	१०	४	२ ति मनु	१ प	१ त्रस	६ मनः, वचः आ. १	३	३ मति, श्रुत अवधि	१ देश स	३ केवल द रहित	६ शुभ	१ भव्य	१ क्षयो	२ सञ्ज्ञि	१ आहा	२ साकार अना
८	६ सामान्य प्रमत्त	१ प्रमत्त	२ सं प	६ पर्याप्त	१०/७	४	१ मनु	१ प	१ त्रस	११ मनः, वचः आ. १, वै १ आ १	३	४ मति, श्रुत, अवधि, मन	३ सा. छे परि	३ केवल द रहित	६ शुभ	१ भव्य	१ क्षयो	२ सञ्ज्ञि	१ आहा	२ साकार अना
९	७ सामान्य (पर्याप्त ही)	१ अग्रमत्त	१ सं प	६ पर्याप्त	१०	३ आ	१ मनु	१ प	१ त्रस	६ मनः, वचः, आ. १	३	४ मति, श्रुत, अवधि, मन	३ सा. छे, परि	३ केवल द रहित	६ शुभ	१ भव्य	१ क्षयो.	२ सञ्ज्ञि	२ आहा	२ साकार अना
४. उपलक्ष्य सम्बन्ध—																				
१	× सामान्य	८ ४-११	२ सं प.	६ पर्याप्त	१०/७	४	४	१ प.	१ त्रस	११ मनः, वचः आ. १, वै १ कामज	३	४ मति, श्रुत अवधि, मन.	६ परि, रहित	३ केवल द रहित	६	१ भव्य	१ औप	२ सञ्ज्ञि	२ आहा अना	२ साकार अना.
२	× पर्याप्त	८ ४-११	१ सं प	६ पर्याप्त	१०	४	४	१ प.	१ त्रस	१० मनः, वचः, आ. १, वै १	३	४ मति, श्रुत, अव., मन	६ परि, रहित	३ केवल द रहित	६	१ भव्य	१ औ.	२ सञ्ज्ञि	२ आहा अना.	२ साकार अना

मार्गणा विशेष		गुण स्थान	जीव समास	पर्याप्त	प्राण	ह्रिः	गति	इन्द्रिय	काय	मोक्ष	वेद	ह्रिः	ज्ञान	मगम	दर्शन	शैष्या		भव्य	मन्त्र	नशि	आहा	उपयोग
सं.	ह्रिः															त्र	ना					
३	X अपर्याप्त	१ अवि	१ स प	६ अपर्याप्त	७	४	१ देव	१ प	१ प्रस	२ वै मि. जा	१ पु	४	३ मति, सुत अवधि	१ जर्म	३ केरन दर्शन रक्षित	२ ३ गुम	१ ३ भव्य	१ ३ शीप	१ ३ नशि	२ ३ आहा.	३ ३ सा. जना.	
४	सामान्य	१ अवि	२ स प म अप	६ पर्याप्त ६ अप. ६ अप.	१०/७	४	१ प.	१ प.	१ प्रम	१० मन ६, रा. ७ जी १ वै १ रा.	३	३ मति, सुत जाति	१ प्रम	३ केरन दर्शन विना	६ ६ ३ गुम	१ ६ भव्य	१ ६ शीप	१ ६ नशि	२ ६ आहा.	३ ६ सा. जना		
५	पर्याप्त	१ ननि	१ सं. प	६ पर्याप्त	१०	४	४	१ प.	१ पम	१० मन ६, रा. ७ जी १ वै १ रा.	३	३ मति, सुत जाति	१ प्रम	३ केरन दर्शन रक्षित	६ ६ ३ गुम	१ ६ भव्य	१ ६ शीप	१ ६ नशि	२ ६ आहा.	३ ६ सा. जना		
६	अपर्याप्त	१ अवि	१ म प	६ अपर्याप्त	७	४	१ देव	१ प	१ प्रम	२ वै मि. जा	१ पु	४	३ मति, सुत जाति	१ प्रम	३ केरन दर्शन रक्षित	२ ३ गुम	१ ३ भव्य	१ ३ शीप	१ ३ नशि	२ ३ आहा.	३ ३ सा. जना	
७	सामान्य (पर्याप्त ही)	१ दिश म	१ सं प	६ पर्याप्त	१०	४	१ प	१ प	१ प्रम	६ मन ६, रा. ७ जी १ वै १ रा.	३	३ मति, सुत जाति	१ प्रम	३ केरन दर्शन रक्षित	६ ६ ३ गुम	१ ६ भव्य	१ ६ शीप	१ ६ नशि	२ ६ आहा.	३ ६ सा. जना		
८	सामान्य	१ प्रम	१ सं प	६ पर्याप्त	१०	४	१ प	१ प.	१ प्रम	६ मन ६, रा. ७ जी १ वै १ रा.	३	३ मति, सुत जाति	१ प्रम	३ केरन दर्शन रक्षित	६ ६ ३ गुम	१ ६ भव्य	१ ६ शीप	१ ६ नशि	२ ६ आहा.	३ ६ सा. जना		

मार्गणा विशेष		२० प्ररूपणार्																		
न	पर्याप्त आप्यासि	गुण स्थान	जीव समास	पर्याप्त	प्राण	लि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	वि	ज्ञान	सयम	दर्शन	तिरया द्र भा.	भव्य	सम्य.	सङ्गि	आहा	उपयोग
६	७ सामान्य (पर्या ही)	१ ७	१ स प	६ पर्याप्त	१०	३ आ	१ मनु	१ प	१ त्रस	६ मनः, वच ४, औ १	३	३ मति, श्रुत अवधि, मन	२ सा, छे	३ केवल द रहित	६ ३ शुभ	१ भव्य,	१ औप	१ सङ्गि	१ आहा.	२ सा अना
१०	८. सर्व आलाप								→	श्रुतौभवत्	←						→ १ औ.			
५	मिथ्यात्व—(घ. २/१,१/२२५)								→	ओषमै मिथ्यादृष्टि गुणस्थानवत्	←									
१	१ —								→	ओषमै सासादन गुणस्थानवत्	←									
६	सामादन सत्यत्वं—(घ २/१,१/२२५)								→	ओषमै मिथ्यादृष्टि गुणस्थानवत्	←									
१	२ सर्व आलाप								→	श्रुतौभवत्	←									
७	साम्यमिथ्यात्व—(घ २/१,१/२२५)								→	श्रुतौभवत्	←									
१	३ मत् आलाप								→	श्रुतौभवत्	←									
१२. संज्ञी मार्गणा																				
१. संज्ञी—(घ २/१,१/२२५-२३४)																				
१	× नामान्य	२२	२	६ पर्याप्त	१०/७	४	४	१ प	१ त्रस	१५	३	७ केवल ज्ञान विना	७	३ केवल द रहित	६ ६	२ भव्य, अभव्य	६	१ सङ्गि	२ आहा. अना	२ सा. अना
१	१-१२ मं प, मं अप			६ अपर्याप्त																
२	× पर्याप्त	१२	१ स प	६ पर्याप्त	१०	४	४	१ प	१ त्रस	११ मनः, वच ४ औ १, वै १, कर्मण	३	७ केवल ज्ञान विना	७	३ केवल दर्शन रहित	६ ६	२ भव्य अभव्य	६	१ मधि	१ आहा	२ मातर अना

मार्गणा विषय		२० प्ररूपणाएँ																			
स	पर्याप्त अपर्याप्त	गुण स्थान	जीव समास	पर्याप्त	प्राण	लिङ्ग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	शुद्धि	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेश्या द्र भा	भव्य	सम्य	सङ्घि	आहा	उपयोग	
३	अपर्याप्त	४ १,२,४ ४	१ स. अप.	६ अपर्याप्त	७	४	४	१ प.	१ त्रस	४ मि. वै मि. कार्मण	३	६ कुमति, कुमु ३ ज्ञान	३ अस सा, छे	३ केवल दर्शन रहित	२ का शु	६	२ भव्य अभव्य	६ सन्यमि विना	१ सङ्घि	२ आहार अना	२ सा. अना
४	सामान्य	१ मिश्र	२ स प स अप	६ पर्याप्त अपर्याप्त	१०/७	४	४	१ पं.	१ त्रस	१२ आ द्वि रहित	३	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु अवक्षु	६	२ भव्य अभव्य	१ मिश्र	१ सङ्घि	२ आहा- अना	२ सा अना	
६	पर्याप्त	१ मिश्र	१ सं प	६ पर्याप्त	१०	४	४	१ प	१ त्रस	१० मनः, वच ४ ओ. १, वै १	३	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु अवक्षु	६	२ भव्य अभव्य	१ मिश्र	१ सङ्घि	१ आहा अना	२ सा अना	
६	अपर्याप्त	१ मिश्र	१ स प	६ अपर्याप्त	७	४	४	१ पं	१ त्रस	३ ओ मि, वै मि, कार्मण	३	३ कुमति, कुमु, कुमति	१ अस	२ चक्षु अवक्षु	२ का शु	६	२ भव्य अभव्य	१ मिश्र	१ सङ्घि	२ सा, अना	
७	सामान्य	१ सा	२ स प स अप	६ पर्याप्त अपर्याप्त	१०/७	४	४	१ प	१ त्रस	१२ आ द्वि रहित	३	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अवक्षु	६	१ भव्य	१ सा	१ सङ्घि	२ आकार अना	२ साकार अना	
८	पर्याप्त	१ सा	१ स अप	६ पर्याप्त	१०/७	४	४	१ पं	१ त्रस	१० मनः, वच ४ ओ. १, वै १	३	३ अज्ञान	१ अस	२ चक्षु, अवक्षु	६	१ भव्य	१ सा	१ सङ्घि	१ आहा अना	२ सा अना	
६	अपर्याप्त	१ सा	१ सं प	६ अपर्याप्त	७	४	३ नरक रहित	१ प	१ त्रस	३ ओ. मि, वै मि, का	३	३ कुमति, कुमु, कुमति	१ अस	२ चक्षु, अवक्षु	२ का शु	६	१ भव्य	१ सा	१ सङ्घि	२ सा. अना,	

मार्गणा विशेष		२० प्ररूपणाएं																		
स. क्र. ह.	पर्याय अव्यासि	गुण स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	क्रि. क्रि.	गति	इन्द्रिय	काय	योग	लु.	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या भा.	भव्य	सम्य.	सञ्चि	आहा	उपयोग
१०	३ सामान्य (पर्या. ही)	१ मिश्र	१ स. प।	६ पर्यासि	१०	४	४	१ प.	१ त्रस	१० मनः, वच. ४ औ १, वै १	३	३ ज्ञानाज्ञान मिश्र	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६	१ भव्य	१ मिश्र	१ सञ्चि	१ आहा.	२
११	४ सामान्य	१ अवि	२ सं. प. सं. अप	६ पर्यासि ६ अप	१०/७	४	४	१ प.	१ त्रस	१३ आ द्वि निना	३	३ मति श्रुत अवधि	१ अस	३ केवल द. रहित	६	१ भव्य	३ औ. क्षा. क्षयो.	१ सञ्चि	२ आहा. अना	२ साकार, अनाकार
१२	४ पर्यासि	१ अवि	१ सं. प	६ पर्यासि	१०	४	४	१ पं.	१ त्रस	१० मनः, वच ४ औ १, वै १	३	३ मति, श्रुत अवधि	१ अस	३ केवल द रहित	६	१ भव्य	३ औ. क्षा. क्षयो	१ सञ्चि	१ आहा	२ साकार, अनाकार
१३	४ अपर्यासि	१ अवि.	१ सं. प	६ अपर्यासि	७	४	४	१ प.	१ त्रस	३ औ. मि. वै मि. का	३ पु नमु	३ मति, श्रुत अवधि	१ अस	३ केवल द रहित	६	१ भव्य	३ औ. क्षा. क्षयो	१ सञ्चि	२ आहा. अना	२ साकार, अनाकार
१४	सर्व आनाप	-	-	-	-	-	-	-	→	मूलोपवत्	-	←	-	-	-	-	-	-	-	-
२. असतो—(भ २/१, १/२३४-२३६)																				
१	१ सामान्य	१ मि	१ सं. प.	६ पर्यासि	६, ७, ६, ४	४	१ ति.	६	६ अनुभव वच औ २, का १	३	२ कुमति, कुमु	१ अस	३ चपु. अचक्षु	६	३ अनु	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ अस.	२ आहा. अना.	२ साकार, अनाकार

मार्गणा विशेष		२० प्ररूपणार्																		
स	पर्याप्त अपर्याप्त	गुण स्थान	जीव समास	पर्याप्त	प्राण	लिंग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	वेद	ज्ञान	समय	दर्शन	तैश्या द्र भा	भव्य	सम्य	सक्ति	आहा	उपयोग
२	पर्याप्त	१ मि	६ स प बिना	६,४ पर्याप्त	६,५,७,६,४	४	१ ति	६	६	२ अनुभव्य वच १, औ १	३	२ कुमति, कुमु	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु	६ ३ लि	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ अस	१ आहा	२ साकार, अनाकार
३	अपर्याप्त	१ मि	६ स अप बिना	६,४ अपर्याप्त	७,६,४,४,३	४	१ ति	६	६	२ औ मि, कार्मण	३	२ कुमति, कुमु	१ अस	२ चक्षु, अचक्षु का शु	२ ३ लि	२ भव्य, अभव्य	१ मि	१ अस	२ आहा अना	२ साकार, अनाकार
३. अनुभव्य—(घ २/१,२/८३८)																				
१-१३	सिद्ध	सर्व	आलाप	—	—	—	—	—	→	शुलीवत	—	←	—	—	—	—	—	—	—	—
१४ आहारक मार्गणा—																				
१ आहारक—(घ २/१,२/८३६-८४०)																				
१	पर्याप्त	११	१४	६,४,४ पर्याप्त	१०,६,८,७, ६,४,३	४	४	६	६	१४ कार्मण रहित	३	२	७	४	६ ६ लि	२ भव्य, अभव्य	६	२ सक्ति अस अनुभव्य	१ आहा	२ साकार, अनाकार यु. उ
२	पर्याप्त	१३	७ पर्याप्त	६,४,४ पर्याप्त	१०,६,८,७, ६,४,३	४	४	६	६	११ मान ४, वच ४ औ १, वे १ औ १	३	२	७	४	६ ६ लि	२ भव्य, अभव्य	६	२ सक्ति अस अनुभव्य	१ आहा	२ साकार, अनाकार यु. उ
३	अपर्याप्त	६	७ अप	६,४,४ अपर्याप्त	७,७,६,४,४, ३,२	४	४	६	६	३ औ मि, वे मि या मि,	३	६ कुमति, कुमु मति, मुत अव केवल	४ अम, धि सा परि	४	६ ३ लि	२ भव्य, अभव्य	६ मि, सा औ., हा सयो	३ सक्ति अस, अनुभव्य	१ आहा	२ साकार अना. यु. उ

स		२० प्ररूपणाए																														
स	मार्गणा विचोव	पर्यासि अपर्यासि	गुण स्थान	जीव समास	पर्यासि अपर्यासि	प्राण	क्रि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	शक्ति	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या		भव्य	सम्य	सङ्घि	आहा	उपयोग										
																द्र	भा															
४	१	सामान्य	१	मि	१४	६,६,४ पर्यासि अपर्यासि	१०,६,५,७, ६,४	४	४	५	६	१२ मनः, वचः औ २, वै, २	३	४	३	अज्ञान	१	अस	२	चक्षु अचक्षु	६	६	२	भव्य अभव्य	१	मि	१	सङ्घि अस	१	आहा	२	सा अना
५	१	पर्यासि	१	नि	७	६,६,४ पर्यासि	१०,६,५,७, ६,४	४	४	५	६	१० मनः, वचः औ १, वै १	३	४	३	अज्ञान	१	अस	२	चक्षु अचक्षु	६	६	२	भव्य अभव्य	१	मि	१	सङ्घि अस	१	आहा	२	साका, अना.
६	१	अपर्यासि	१	मि	७	६,६,४ अपर्यासि	७,७,६,६,४,३	४	४	५	६	२ मि, वै मि	३	४	३	अज्ञान	१	अस	२	चक्षु, अचक्षु	६	६	२	भव्य अभव्य	१	मि	२	सङ्घि अस	१	आहा	२	सा अना
७	२	गामान्य	१	मा	२	६ पर्यासि अपर्यासि	१०/७	४	४	५	१	१२ मनः, वचः औ २, वै २	३	४	३	अज्ञान	१	अस	२	चक्षु अचक्षु	६	६	१	भव्य	१	सा	१	सङ्घि	१	आहा	२	साकार, अनाकार
८	२	पर्यासि	१	सा	१	६ पर्यासि	१०	४	४	५	१	१० मनः, वचः औ १, वै. १	३	४	३	अज्ञान	१	अस	२	चक्षु अचक्षु	६	६	१	भव्य	१	सा	१	सङ्घि	१	आहा	२	साकार अना
९	२	अपर्यासि	१	सा.	१	६ अपर्यासि	७	४	४	५	१	२ मि, वै मि	३	४	३	कुमति, कुमु	१	अस	२	चक्षु, अचक्षु	६	६	१	भव्य	१	सा.	१	सङ्घि	१	आहा.	२	साप्तर पना
१०	२	गामान्य (पर्या सि)	१	मित्र	१	६ पर्यासि	१०	४	४	५	१	१० मनः, वचः औ १, वै १	३	४	३	ज्ञानाज्ञान	१	अस	२	चक्षु, अचक्षु	६	६	१	भव्य	१	मित्र	१	सङ्घि	१	आहा.	२	सा, पना

२० प्ररूपणाएँ

मार्गणा विधेय	पर्यासि अपर्यासि	गुण स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	लिङ्ग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	शक्ति	ज्ञान	समय	दर्शन	सिद्धि	सिद्धि	आहा	उपयोग
११	४ सामान्य	१ अवि	२ स प स अप	६ पर्यासि ६ अप	१/७	४	४	१ प	१ त्रस	१२ मनः, वचः औ २, वै २,	३	३ मति, श्रुत अवधि	१ अस	३ केवल द रहित	६	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा, अना
१२	४ पर्यासि	१ अवि	१ स प	६ पर्यासि	१०	४	४	१ प	१ त्रस	१० मनः, वचः औ १, का १	३	३ मति, श्रुत अवधि	१ अस	३ केवल द रहित	६	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा, अना
१३	४ अपर्यासि	१ अवि	१ स प	६ अपर्यासि	७	४	४	१ प	१ त्रस	२ औ मि, वै मि	३	३ मति, श्रुत अवधि	१ अस	३ केवल द रहित	१ का	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा, अना
१४	५ सामान्य (पर्यासि ही)	१ ५ वीं	१ स प	६ पर्यासि	१०	४	२ ति. मनु	१ प	१ त्रस	६ मनः, वचः औ १	३	३ मति, श्रुत अवधि	१ देश स	३ केवल द रहित	३ शुभ	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा, अना
१५	६ सामान्य	१ प्रमत्त	२ स प स अप	६ पर्यासि ६ अप	१०/७	४	१ मनु	१ प.	१ त्रस	१० मनः, वचः औ १, वै १	३	४ मति, श्रुत अव मन	३ सा, छे परि	३ केवल दर्शन रहित	३ शुभ	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा, अना
१६	७ सामान्य	१ अप्रमत्त	१ स प.	६ पर्यासि	१०	३	१ मनु	१ प	१ त्रस	६ मनः, वचः औ १	३	४ मति श्रुत अव, मन	३ सा, छे परि	३ केवल दर्शन रहित	६ शुभ	१ सञ्चि	१ आहा	२ सा, अना

मार्गणा विधि		२० प्ररूपणार्थं																		
सं.	पथसि अपथसि	गुण स्थान	जीव समास	पर्यासि	प्राण	लिङ्ग	गति	इन्द्रिय	काय	योग	कृत्	ज्ञान	संयम	दर्शन	लेख्या द्र भा	भव्य	सम्य	सङ्घि	आहा.	उपयोग
१८	८ सामान्य	१ नवों	१ सं.प.	६ पर्यासि	१०	३ आ	१ मनु	१ पं.	१ त्रस	६ मनः, वचः, औ १	३	४ मति, श्रुत अव, मन.	२ सा छे	३ केवल द रहित	६ शु	१ भव्य	२ औ, क्षा	१ सङ्घि	१ आहा	२ सा अना.
१९	९ प्रथम भाग	१ नवों	१ स प	६ पर्यासि	१०	२ मे	१ मनु	१ पं.	१ त्रस	६ मनः, वचः, औ १	३	४ मति, श्रुत अव मन.	२ सा, छे.	३ केवल द. रहित	६ शु	१ भव्य	२ औ, क्षा.	१ सङ्घि	१ आहा	२ सा अना.
२०	९ शेष ४ भाग—	—	—	—	—	—	—	—	→	सुलौक्यवत्	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
२१	१० सामान्य	१ सु	१ सं.प	६ पर्यासि	१०	१ मनु	१ मनु	१ पं.	१ त्रस	६ मनः, वचः, औ १	०	४ मति, श्रु. अव मन	१ सूक्ष्म	३ केवल द रहित	६ शु	१ भव्य	२ औ क्षा	१ सङ्घि	१ आहा	२ सा अना
२२	११ सामान्य	१ नवों	१ सं.प	६ पर्यासि	१०	० क	१ मनु	१ पं.	१ त्रस	६ मनः, वचः, औ १	०	४ मति श्रुत अव, मन	१ यथा	३ केवल द रहित	६ शु	१ भव्य	२ औ क्षा	१ सङ्घि	१ आहा	२ सा. अना.
२३	१२ सामान्य	१ नवों	१ सं.प	६ पर्यासि	१०	०	१ मनु	१ पं.	१ त्रस	६ मनः, वचः, औ १	०	४ मति श्रुत अव मन	१ यथा	३ केवल द रहित	६ शु	१ भव्य	१ क्षा	१ सङ्घि	१ आहा,	२ साकार अना.

२० प्ररूपणार्

सं	पर्याप्त स्थान	गुण	जीव समास	पर्याप्त	प्राण	लि	गति	इन्द्रिय	काय	योग	वेद	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेश्या भा	भव्य	सम्य	सहि	आहा	उपयोग
१३	सामान्य प, अप	१ सयो	२ अप	६ पर्याप्त अपर्याप्त	४,२	० लि	१ मनु	१ प	१ त्रस	६ मन, क्व, औ.२	० लि	१ केवल	१ यथा	३ केवल द	६ शुभ	१ भव्य	१ हा	० अनुभव	१ आहा	२ साकार अनाकार
२	अनाहारक—(घ २/१,२/५६०-५६१)																			
१	सामान्य १,२,३ १३-१४ अतीत	५ अतीत	५ अप अतीत	६ पर्याप्त अप अतीत प	७,७,६,६, ४,३,२,१ अतीत प्राण	४ लि	४ सिद्धग	५ लि	६ अकाम	१ का उपयोग	३ लि	६ विमग व मत निना	२ अस यथा अनुभव	३ चक्षु रहित दे जन्म/४	६ लि	२ भव्य, अभव्य अनुभव	५ मिम निना	२ सहि असहि	१ अना	२ सा अना
२	सामान्य १ मि.	१ मि.	७ अप	६ पर्याप्त अपर्याप्त	७,७,६,६, ४,३	४ लि	४	५	६	१ कामग	३ लि	२ कुमति, कुमु	१ अस	२ चक्षु, अवक्षु, शुभ	६ लि	२ भव्य, अभव्य	१ मि	२ सहि असहि	१ अना	२ साकार अनाकार
३	सामान्य १ सा	१ सा	१ अप	६ पर्याप्त अपर्याप्त	७	४ लि	३ नरक रहित	१ वं	१ त्रस	१ कामग	३ लि	२ कुमति, कुमु	१ अस	३ चक्षु, अवक्षु, शु	६ लि	१ भव्य	१ सा	१ सहि	१ अना.	२ साकार, अनाकार

भाषणा विधेय		२० प्ररूपणाए																			
सं	पर्याप्त अपर्याप्त	गुण स्थान	जीव ममान	पर्याप्त	प्राण	लिप्ता	गति	इन्द्रिय	काय	योग	वृत्ति	ज्ञान	सयम	दर्शन	लेख्या द्र. भा	भव्य	सम्य	सङ्घि	आहा	उपयोग	
४	४ सामान्य	१ अवि	१ स अप	६ अपर्याप्त	७	४	४	१ प	१ त्रस	१ कार्मण	२ पु. नपु	४	३ मति, सुत अवधि	१ अस, यथा.	३ केवल दर्शन विना	१ शु	१ भव्य	३ औ, क्षा, क्षयो.	१ सङ्घि	१ अना	२ सा, अना मु. उ.
५	१३ सामान्य	१ सयो	१ अप	६ अपर्याप्त	२	० लिप्ता	१ मनु	१ प	१ त्रस	१ कार्मण	० लिप्ता	० लिप्ता	१ केवल	१ यथा.	१ केवल दर्शन	१ शु. ६	१ भव्य	१ क्षा.	० अनुभवय	१ अना	२ सा, अना मु. उ.
६	१४ सामान्य	१ अयो	१ पर्याप्त	६ पर्याप्त	१ आयु	० लिप्ता	१ मनु	१ प	१ त्रस	० अयोग	० लिप्ता	० लिप्ता	१ केवल	१ यथा	१ केवल दर्शन	६	१ भव्य	२ क्षा.	० अनुभवय	१ अना	२ सा, अना मु. उ.
७	३ मित्र सामान्य	१ मित्र अतीत	१ अतीत जीव	० अतीत प	० अतीत प्रा	० लिप्ता	० सिद्ध मति	० लिप्ता	० अकाय	० अयोग	० लिप्ता	० लिप्ता	१ केवल	० अनुभवय	१ केवल दर्शन	० लिप्ता	० अनुभवय	१ क्षा	० अनुभवय	१ अना	२ सा, अना मु. उ.

६. अधःकर्म आदि विषयक आदेश प्ररूपणा—(घ १३/४,४/६१-६२)

स.	मार्गणा	प्रयोग कर्म	समवधान कर्म	अधः कर्म	ईयापय कर्म	तप कर्म	क्रियाकर्म	स.	मार्गणा	प्रयोग कर्म	समवधान कर्म	अधः कर्म	ईयापय कर्म	तप कर्म	क्रिया कर्म
१	गति मार्गणा							३	अवधि मन पर्यय ज्ञान	"	"	"	"	"	"
१	नरक गति सामान्य विशेष	"	"	×	×	×	"	४	केवल ज्ञान	"	"	"	"	"	×
२	तिर्यचगति सामान्य विशेष पर्याप्त	"	"	"	×	×	"	८	सयम मार्गणा	"	"	"	"	"	"
	" पचेन्द्रिय अपर्याप्त	"	"	"	×	×	×	१	सयत सामान्य	"	"	"	"	"	"
३	मनुष्यगति सामान्य विशेष पर्याप्त	"	"	"	"	"	"	२	सामायिक, छेदोपस्थापना	"	"	"	"	"	"
	" " " अपर्याप्त	"	"	"	×	×	×		परिहार वि०	"	"	"	×	"	"
४	देवगति सामान्य विशेष	"	"	×	×	×	"	३	सूक्ष्म साम्पराय	"	"	"	×	"	×
२	इन्द्रिय मार्गणा							४	यथाख्यात	"	"	"	"	"	×
१	एकेन्द्रिय व विकलेन्द्रिय	"	"	"	×	×	×	५	सयतासयत	"	"	"	×	×	"
२	पचेन्द्रिय पर्याप्त	"	"	"	"	"	"	६	असयत	"	"	"	×	×	"
३	पचेन्द्रिय अपर्याप्त	"	"	"	×	×	×	९	दर्शन मार्गणा	"	"	"	"	"	"
३	काय मार्गणा							१	चक्षु, अचक्षु व अवधिदर्शन	"	"	"	"	"	"
१	पाँचों स्थावर	"	"	"	×	×	×	२	केवल दर्शन	"	"	"	"	"	×
२	त्रस पर्याप्त	"	"	"	"	"	"	१०	लेख्या मार्गणा	"	"	"	"	"	"
३	त्रस अपर्याप्त	"	"	"	×	×	×	१	कृष्ण, नील व कापोत लेख्या	"	"	"	×	×	"
४	योग मार्गणा							२	पीत पद्म	"	"	"	×	"	"
१	पाँचों मन वचन योग	"	"	"	"	"	"	३	शुक्ल	"	"	"	"	"	"
२	औदारिक व मिश्र काय	"	"	"	"	"	"	४	अलेख्य	"	"	"	"	"	×
३	वै क्रियिक व मिश्र काय	"	"	×	×	×	"	११	सम्बन्ध मार्गणा						
४	आहारक व मिश्र काय	"	"	"	×	"	"	१	सामान्य, क्षायिक उपशम	"	"	"	"	"	"
५	कार्मण	"	"	"	"	"	"	२	क्षयोपशम	"	"	"	×	"	"
५	वेद मार्गणा							३	सासादन व मिश्र	"	"	"	×	×	×
१	तीनों वेद	"	"	"	×	"	"	४	मिथ्यादर्शन	"	"	"	×	×	×
२	अपगत वेद	"	"	"	"	"	"	१२	भन्यत्व मार्गणा						
६	कपाय मार्गणा							१	भव्य	"	"	"	"	"	"
१	चारों कपाय	"	"	"	×	"	"	२	अभव्य	"	"	"	×	×	×
२	अकपाय	"	"	"	"	"	×	१३	सङ्गी मार्गणा						
७	ज्ञान मार्गणा							१	सङ्गी	"	"	"	×	×	×
१	मतिश्रुत अज्ञान व विभग	"	"	"	×	×	×	२	असङ्गी	"	"	"	×	×	×
२	मतिश्रुत ज्ञान	"	"	"	"	"	"	१४	आहारक मार्गणा						
								१	आहारक, अनाहारक	"	"	"	"	"	"

७ पाँचों शरीरोंकी संघातन परिक्षातन कृति सम्बन्धी

* पाँचों शरीरोंके याग्य पुद्गल स्कन्धोंकी उत्कृष्ट अधन्य संघातन व परिक्षातन कृतियाँ ओष व आदेश प्ररूपणा— (घ ६/४,१,७१/३५४-३५८)

सत्कथा—दे कथा ।

सत्कर्मिक—दे सत्त्व ।

सत्क्रिया—दे क्रिया/३ ।

सत्पुरुष—किंपुरुष जातिका व्यन्तर देव—दे किंपुरुष ।

सत्वाद—ध/१६/१७/१७ भाषा—चूंकि असत् कार्य नहीं किया जा सकता है । अतएव कारण व्यापारसे पूर्व भी कार्य सत् ही है, यह सिद्ध है । ऐसा किन्हीं कपिलादिका कहना है ।

सत्संगति—दे मगति ।

सत्तालक—पिशाच जातीय व्यन्तर देव—दे पिशाच ।

सतीपुत्र—मद्रास प्रान्तमें वर्तमान केरल । (म पु / प्र ५०) ।

सत्कार पुरस्कार परिषद्—

म.सि / ६/६/४२६/६ सत्कार पूजाप्रशासक । पुरस्कारो नाम क्रिया-रम्भादिष्वप्रत' करणमामन्त्रण वा, तत्रानादरो मयि क्रियते । चिरो पितृजह्मचर्यस्य महातपस्विन स्वपरसमयनिर्णयज्ञस्य बहुकृत्व परवा-दिविजयिन प्रणामभक्तिसमभ्रमामनप्रदानादीनि मे न कश्चिद्व-रोति । मिथ्यादृष्टय एवातीवभक्तिमन्तः किंचिदजानन्तमपि सर्वज्ञ-संभावनाय सामान्यम्बसमयप्रभावन कुर्वन्ति । व्यन्तरादय पुरा अष्ट्युप्रतपसा प्रत्यग्रपूजां निर्वर्तयन्तीति मिथ्याश्रुतिर्यदि न स्यादि-दानो कस्मान्मादृशां न कुर्वन्तीति, दुष्प्रणिधानविरहितचित्तस्य सत्कारपुरस्कारपरिपहविजय इति विज्ञायते । = सत्कारका अर्थ पूजा-प्रशसा है । तथा क्रिया आरम्भ आदिकमें आगे करना या आमन्त्रण देना पुरस्कार है । इस नियममें यह मेरा अनादर करता है । चिरकाल-से मेने ब्रह्मचर्यका पालन किया है, महा तपस्वी हूँ, स्वसमय और परसमयका निर्णयज्ञ हूँ, मेने बहुत बार परवादियोंको जीता है तो भी कोई मुझे प्रणाम, और मेरी भक्ति नहीं करता एव उत्साहसे आसन नहीं देता, मिथ्यादृष्टि ही अत्यन्त भक्तिवाले होते हैं, कुछ नहीं जानने वालेको भी सर्वज्ञ समझ कर आदर-सत्कार करके अपने समयकी प्रभावना करते हैं, व्यन्तरादिक पहले अत्यन्त उग्र तप करने वालोंकी प्रत्यग्र पूजा रचते हैं यदि मिथ्या श्रुति नहीं है तो इस समय वे हमारे समान तपस्वियोंकी क्यों नहीं करते इस प्रकार खोटे अभिप्रायसे जिसका चित्त रहित है उसके सत्कारपुरस्कार परीपह जय जानना चाहिए । (रा वा / ६/६/२७/६२४) । (चा सा / १२६/५) ।

सत्ता—प वा / मू / ८ सत्ता सव्वपयस्था सविस्सरूवा अणतपज्जाया । भगुप्पादधुवत्ता सप्पट्टिवत्ता हवदि एक्का । ८। = सत्ता, उत्पाद, व्यव-धौव्यात्मक, एक सर्वपदार्थ स्थिति, सविश्वरूप, अनन्त-पर्यायमय और सप्रतिपक्ष है । ८। (ध. ६/४.१.४५/गा, ६०/१७९), (ध १३/५, ३.१२/गा ४/१६) ।

दे द्रव्य/१/७ [सत्ता, सत्त्व, मत, सामान्य, द्रव्य, अन्वय, वस्तु, अर्थ और विधि ये एकार्थक शब्द है]

नि सा / ता वृ / २४ अस्तित्व नाम सत्ता । = अस्तित्वको सत्ता कहते हैं ।

* सत्ताके दो भेद—महामत्ता व अवान्तर सत्ता—(दे अस्तित्व) ।

सत्ताप्राहक द्रव्यार्थिक नय—दे नय/IV/२ ।

सत्तावलीकन—दे दर्शन/१,३ ।

सत्य—जैसा हुआ हो वैसा ही कहना सत्यका सामान्य लक्षण है, परन्तु अध्यात्म मार्गमें स्वयं पर अहिंसाकी प्रधानता होनेसे हित व भित्त वचनको मरग कहा जाता है, भले ही कदाचित्त व कुछ असत्य भी क्यों न हो । सत्य वचन जनेत्र प्रकारके होते हैं जिनका परिचय गहों दिया गया है ।

१ सत्य निर्देश

१. सत्य धर्मका लक्षण

वा अणु / ७४ परमतावयकारणवयणं मोक्षणु मणहृदवयण । जो वददि भिक्वु तुद्वयो तत्स दु धम्मो हवे सत्त्व १७४। = जो मुनि दृग्गरेको वलेश पहुँचाने वाले वचनोंको छोड़कर अपने और दृग्गरेके हित करने वाले वचन कहता है उसके चौथा मरय धर्म होता है ।

स.मि / ६/६/४२२/७ सत्त्व प्रशान्तेषु जनेषु माधुवचन मरयमित्युच्यते । = अच्छे पुरुषोंके साथ माधु वचन बोलना सत्य है । (ग वा / ६/६/६/६६/७), (चा सा / ६/२/३), (अन घ / ६/३५) ।

भ.आ / वि / ४६/१४४/१६ मतां साधूनां हितभाषण मरयम् । = मुनि और उनके भक्त अर्थात् श्रावक इनके साथ आत्महितकर भाषण बोलना यह सत्य धर्म है ।

त सा / ६/१७ ज्ञानचारित्रश्रियादौ स धर्म मुनिगच्छते । धर्मोपवृ हणार्थं यत् साधु सत्य तदृच्यते । १७। = धर्मकी वृद्धिके लिए धर्म सहित बोलना वह सत्य कहाता है । इस धर्मके व्यवहारकी आवश्यकता ज्ञान चात्रिकके सिखाने आदिमें लगती है ।

पं.वि / १/६१ स्वपरहितमेव मुनिभिर्गितममृतमम सदैव मरय च । वक्तव्य वचनमथ प्रविधेय धोधर्नैर्मौनम् । ६१। = मुनियोंको सदैव हो स्वपर हितकारक, परिमित तथा अमृतके सदृश ऐसा मरय वचन बोलना चाहिए । यदि उदाचित्त सत्य वचन बोलनेमें बाधा प्रतीत होती है तो मौन रहना चाहिए । ६१।

का अ / मू / ३६८ जिण-वयणमेव भासदि त पालेदुं जसक्कमाणा वि । ववहारेण वि जलिय ण वददि जो सत्त्ववाई मो । ३६८। = जो जिन-आचारोंको पालनेमें जममर्थ होता हुआ भी जिन-वचनका कथन करता है उसमें विपरीत कथन नहीं करता है तथा व्यवहारमें भी झूठ नहीं बोलता वह सत्यवादी है । ३६८।

२ महाव्रतका लक्षण

नि सा / ५७ रागेण व दोसेण व मोहेण व मोम भासपरिणाम । जो पजहदि साहु सया विदियवय होइ तस्सेव । ५७। = रागसे, द्वेषमें अथवा मोहसे होनेवाले, मृषा भाषाके परिणामको जा साधु छोड़ता है, उनी-को सदा दूसरा व्रत है । ५७।

मू आ / ६,२६० रागादीहिं जसच्च चत्ता परतावमच्चयणोत्ति । सुत्त-स्थानवि कहेणे अयथा वयणुज्जमण मच्च । ६। हस्मभयरोहनीहा मणिविचिकायेण सव्वकालम्मि । मोम ण य भासिज्जो पच्चयघादी हवदि एसो । २६०। = राग, द्वेष, मोहके कारण असत्य वचन तथा दूसरोंको मन्ताप करनेवाले ऐसे सत्यवचनको छोड़ना और द्वादशांगके अर्थ कहनेमें अपेक्षा रहित वचनको छोड़ना सत्य महाव्रत है । ६। हास्य, भय, क्रोध अथवा नोभसे मन-वचन-जायजर रिस्ती मयमें भी विरयस घातक दृग्गरेको पीडाकारक वचन न बोलें । यह मरयव्रत है । २६०।

३. सत्य अणुव्रतका लक्षण

र क श्रा / १४ स्थूलमनीज न वदति न पगन्नादयति सरमपि विपदे । यत्तद्वदन्ति सन्त स्थूलमृषावादावैरमणम् । = स्थूल झूठ ही न आप बोलें न दृग्गरेमें दुनवावे, तथा जिन वचनमें निपत्ति जाती हो, ऐसा वचन यथार्थ भी न आप बोलें और न दृग्गरेमें दुनवावे ऐसे उमरा मरुपुरुष सत्यापुत्र कहते हैं ।

स मि / ७/२०/३५८/८ स्नेहमहाशिवशह गृहनिनां गमनिनां वा वारणमिरमभिमतादणमवचार्णित्तो गृहनिनां द्विर्गमपुत्रस्य । = गृहस्थ स्नेह और न हादिकके उमरे गृहनिनाम और आमनिनाम

सत्य

कारण असत्य वचनसे निवृत्त है, इसलिए उसके दूमरा अणुवत है।
(रा वा १७/२०/२/४४७/८)।

बहु श्रा १/२१० अलिय ण जपणीय पाणिग्रहकर तु सच्चवयण पि । रायेण
य दोषेण य पेय विदिय वय धूल १२१०—रागसे अथवा द्वेषसे झूठ
वचन नहीं बोलना चाहिए, और प्राणियोंका घात करनेवाला
सत्य वचन भी नहीं बोलना चाहिए यह दूमरा स्थूल मर्यादा
जानना चाहिए।

का अ ३३३-३३४ हिंसा वयण ण वयदि ककम-वयण पि जो ण
भासेदि । णिट्टुरे वयण पि तथा ण भासदे पुज्ज-वयण पि ३३३।
हिंसा-मिद वयण भासदि मतोम-रर तु सव-जीवाण । धम्म-पयासण-
वयण अणुवदी होदि सो विदियो ३३३। —जो हिंसाका वचन नहीं
रहता, कठोर वचन नहीं रहता, निरादुर वचन नहीं रहता, और
न दूसरोंकी गुप्त बातको प्रकट करता है। तथा हित-मित वचन
बोलता है, सब जीवोंको सन्तोषकारक वचन बोलता है, और धर्म-
का प्रकाशन करनेवाला वचन बोलता है यह दूसरे सत्याणुवतका
धारी है ३३३-३३४।

४ सत्यके भेद

भ आ०/मू १/१९६/१९६ जणवदसमदिठणाणामे रूवे पडुच्चववहारे ।
सभावणववहारे भावेणोपम्मसच्चेण १९६३। —जनपद, सम्मति,
स्थापना, नाम, रूप, प्रतीति, सम्भावना, उपग्रह, भाव और उपमा-
सत्य ऐसे सत्यके १० भेद है। (मू आ, ३०८), (गो जी मू १/२२२) ।
रा वा १/२०/२२/७५/२० दशविध इत्यसद्भाव नामरूपस्थापना-
प्रतीत्य-सञ्चित-मयोजना-जनपद-देशभाव-समयसत्यभेदेन । —सत्य-
के दश भेद हैं—नाम, रूप, स्थापना, प्रतीति, सञ्चित, मयोजना,
जनपद, देश, भाव, और समयसत्य । (ध १/१.१.२/११०/६), (ध
६/४.१.४५/२९९/१) ।

५ जघन्योत्कृष्ट सत्य निर्देश

सा ध ४/४१-४३ यद्वस्तु यद्देशालप्रमाकारं प्रतिश्रुतम् । तस्मिन्स्त-
थैव समादि सत्यासत्यं वचो वदेत् ४१। असत्य वय वासोऽन्धो,
रन्ध्रयेत्यादि-सत्यगम् । वाच्य कालातिक्रमेण, दानात्सत्यमसत्यगम् ।
४२। यस्त्वस्य नास्ति तत्कथ्ये दास्यामीरयादिसविदा । व्यग्रर
विरुद्धान, नासत्यासत्यमालपेत् ४३। —जो वस्तु जिस देश, पाल,
प्रमाण और आकारवाली प्रसिद्ध है, उस वस्तुके विषयमें उसी देश
काल, प्रमाण और आकार रूप कथन करनेवाले सत्यासत्य वचनको
बोलना चाहिए ४१। सत्याणुवतके पालक श्रावकके द्वारा वस्त्रको बुना
और भातको पकाओ इत्यादि सत्यसूचक असत्यवचन तथा कालकी
मर्यादाको उल्लंघन करके देनेसे असत्य सूचक वचन बोलने योग्य
है। ऐसे वचन सत्यासत्य कहलाते हैं ४२। सत्याणुवतको पालन
करनेवाला श्रावक जो वस्तु अपनी नहीं है वह वस्तु मैं तुम्हारे लिए
प्रात काल दूंगा इत्यादि रूप प्रतिज्ञाके द्वारा लोक व्यवहारको बाधा
देनेवाले असत्यासत्य वचनको नहीं बोले ४३।

६. जनपद आदि दश सत्योके लक्षण

मू आ ३/३६-३९ जणपदसच्च जघ ओदणादि रुचिदे य सन्वभासाए ।
बहुजणसमदमवि होदि ज तु लोए तथा देवी ३०६। ठवणा ठविद
जह देवदादि णाम च देवदत्तादि । उक्कडदरोत्ति वण्णे रूवे सेओ
जघ बलाया ३३९। अण्ण अपेच्छसिद्धं पडुच्चसत्य जहा हवदि
दिग्घ । ववहारेण य सच्च रज्जदि कुरो जहा लोए ३३९। सभायणा
य सच्च जदि णामेच्छेज्ज एव कुज्जति । जदि सकको इच्छेज्जो
जघ्घदीव हि पवत्थे ३३९। हिंसादिदोसविमुदं सच्चमकप्पियवि-
भायदा भाव । अण्णमेण द्दु मच्च जाणसु पल्लोवमादीया ३३९।

—जो सब भाषाओंमें भातके नाम पृथक् पृथक् बोलने जाते हैं जैसे
चोर, कून, भक्त आदि ये देशगत हैं। और बहुत जगहके भाग
माना गया जो नाम वह सम्प्रतत्सत्य है, जैसे—नोरमें रामकी
स्त्रीकी देवी कहा ३०६। जो अर्थात् आदिकी वापण आदिमें
स्थापना वह स्थापनासत्य है। जो गुणकी अपेक्षा न गणना उप-
हारके लिए देवदत्त आदि नाम रखना वह नामसत्य है। जो जो
रूपके बहुतवनेसे कहा कि बहुतोंकी प्रति मर्यादा होती है वह
रूपसत्य है ३३९। अन्यको अपेक्षामें जो कहा जाय गो वह प्रतीत्य-
सत्य है जैसे 'गह दीर्घ है' यहाँ तत्त्वकी अपेक्षामें है। जो जोके
'भात पक्ता' है ऐसा वचन कहा जाता है वह व्यवहार सत्य है।
३३९। जैसे इच्छा गे नैरा रर मके वह सम्भावना सत्य है।
जैसे इन्द्र इच्छा रहे तो जम्बूद्वीपकी उलट मरगा है ३३९। जो
हिंसादि दोष रहित अयोग्य वचन भी हो वह भावसत्य है जैसे
रिग्नीने पुला कि, 'चोर देना, उसने कहा कि, 'नहीं देना'। जो
उपमा सहित हो वह वचन उपमासत्य है जैसे 'गणपति, सागणपति
आदि कहा। (भ. ज्ञा. वि १/१९६३/१९८६/१९), (गो जी मू, २/
२३३-२३४/४५९/७)

ग वा १/२०/२२/७५/२० सत् सचेतनतद्द्रव्यस्यागत्याधर्म्यं यद्ग्रहणार्थं
मत्प्रारण तन्नामगत्यम्, इन्द्र इराणां । यद्ग्रहणं विधीयते तत्
मात्रेणोच्यते तद्द्रव्यमसत्यम्, यथा चित्रप्ररुपादिषु उत्तरमसति चैत-
नयोगादार्यं पुरुष इत्यादि । असत्यधर्म्यं गणकार्यं स्थापित
यत्साक्षनिर्देशादिषु तत् स्थापनासत्यम् । आदिमदनादिमदोपार्थमि-
कादीन् भावात् प्रतीत्य यद्ग्रहण इन्द्रप्रतीत्यमसत्यम् । उत्पत्तिं प्र-
तीत्य वचस्तत् सञ्चितसत्यं यथा पृथिव्याऽनेनकाऽत्वेऽपि सति
'पृथ्वी जात पदुमम्' इत्यादि । धूयन्तं वासात्रुनेनप्रवर्षादिषु प-
रमव-हस-मतीभद्र-क्रीडा-दृष्टादिषु वा नचेतनेतद्द्रव्याणां यथा
भागविधिर्ननिर्देशाविर्भावं यद्ग्रहणतत् ममाजनासत्यम् । द्वाविदा-
ज्जनपदेष्वार्यानिर्माणभेदेषु धर्मार्थकाममोक्षाणां प्राप्तं यद्ग्रहण
जनपदसत्यम् । ग्रामनगरराजगणवाण्डजातिबुनादिधर्मानुसुपदेष्ट
यद्ग्रहण तद् देशसत्यम् । ध्रुवस्थानस्य द्रव्यमाधारम्यादर्शनेऽपि
सत्यस्य मयतामयतस्य वा स्वगुणपरिपाणनार्थं प्राप्तुमिदमप्राप्तु-
मिरयादि यद्ग्रहण तत् भावसत्यम् । प्रतिनियतपदतयद्रव्यपर्यायाणाम-
गमगम्यानां याथात्म्याविपर्यय यद्ग्रहण तत् समयसत्यम् । —पदार्थो-
के न होनेपर भी सचेतन और जचेतन द्रव्यकी नज्ञा करनेकी
नामसत्य कहते हैं जैसे इन्द्र इत्यादि । पदार्थना सन्निधान न होने-
पर भी रूपमात्रकी अपेक्षा जो कहा जाता है वह रूपसत्य है जैसे
चित्रप्ररुपादिमें चेतन्य उपयोगादि रूप पदार्थके न होनेपर भी 'पुरुष'
इत्यादि करना । पदार्थके न होनेपर भी कार्यके लिए जो लूरेके
पाँमे आदि निरीयोंमें स्थापना की जाती है वह स्थापना सत्य है ।
नादि व अनादि आदि भावोंकी अपेक्षा करके जो वचन कहा जाता
है वह प्रतीत्यसत्य है। जो वचन लोक रूठिमें सुना जाता है वह
सञ्चितसत्य है, जैसे पृथिवी आदि जनेक कारणोंके होनेपर भी पक
अर्थात् कीचडमें उरपन्न होनेमें 'पक्क' इत्यादि वचनप्रयोग । सुग-
न्धित धूपचूर्णके लेपन और घिमनेमें अथवा पत्र, मकर, हस, सर्वतो-
भद्र और क्रीडारूप व्यूट (संन्यरचना) आदिमें भिन्न द्रव्योंकी
विभाग विधिके अनुसार की जानेवाली रचनाकी प्रगत करनेवाला
वचन वह मयोजना सत्य वचन कहलाता है। आर्य व अनार्य भेदयुक्त
मत्तोम जनपदोंमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका प्रापक जो वचन
वह जनपदसत्य है। जो वचन, ग्राम नगर, राजा, गण पालण्ड,
जाति एव कुन आदि धर्मोंका व्यवदेश करनेवाला है वह देशसत्य
है। ध्रुवस्थ ज्ञानीके द्रव्यके यथार्थ स्वरूपका दर्शन होनेपर भी सत्य
अथवा संयतासत्यके अपने गुणोंका पालन करनेके लिए 'यह प्राप्तुक
है—यह अप्राप्तुक है' इत्यादि जो वचन कहा जाता है वह भावसत्य
है। जो वचन आगमगम्य प्रतिनियत छह द्रव्य व उनकी पर्यायोंकी

यथार्थताको प्रगट करनेवाला है वह समयसत्य है। (घ १/१.१.२-१/१७/८), (घ १/४.१.४५/२१८/२), (चा सा १/६२/२), (अन घ-४/४७)।

आमत्रणी आदि भाषाओंमें कथञ्चित् सत्यासत्यपना।—दे० भाषा।

७. सत्यकी भावनाएँ

१. सत्यधर्मकी अपेक्षा

रा वा १/६/२७/५६६/१८ सत्यवाचि प्रतिष्ठिता सर्वा गुणसंपदा। अनृत-भाषिण बन्धवोऽपि अवमन्यते(न्ते) मित्राणि च परित्यजन्ति, जिहाच्छेदनसर्वस्वरहरणाद्विषयसन्भाषिण भवति।—सभी गुण सम्पदाएँ सत्य वक्तृमें प्रतिष्ठित होती हैं। झूठेका बन्धुजन भी तिरस्कार करते हैं। उसके कोई मित्र नहीं रहते। जिहा छेदन, सर्व घन हरण आदि दण्ड उसे भुगतने पड़ते हैं। (चा सा १/६५/४)।

२ सत्यव्रतकी अपेक्षा

मू आ १/३३८ कोहभयलोहहासपहृण्णा अणुवीचिभासण चेव। विदियस्स भावणावो वदस्स पचेव ता होंति।—क्रोध, भय, लोभ, हास्य, इनका त्याग और सूत्रानुसार बोलना—ये पाँच सत्यव्रतकी भावनाएँ हैं। (भा, पा/मू/३३)।

त सू ७/७ क्रोधनोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचीभाषणं च पञ्च।१।

स सि ७/७/३४७/६ अनृतवादी श्रद्धेयो भवति इहैव च जिहाच्छेदादीन् प्रतिभते मिथ्याभ्याख्यानं दु खितेभ्यश्च बद्धवैरेभ्यो बहूनि व्यसनान्यवाप्नोति प्रेत्य चाशुभा गतिं गर्हितश्च भवतीति अनृतवचनानुपरम श्रेयात्। एव हिंसादिष्वपायावच्छेदनं भावनीयम्।—१ क्रोधप्रत्याख्यान, लोभप्रत्याख्यान, भीरुत्वप्रत्याख्यान हास्यप्रत्याख्यान और अनुवीचीभाषण ये सत्यव्रतकी पाँच भावनाएँ हैं। २ असत्यवादीका कोई श्रद्धान नहीं करता। वह इस लोकमें जिहा-छेद आदि दुखोंको प्राप्त होता है तथा असत्य बोलनेसे दुखी हुए अतएव जिन्होंने वैर बाँध लिया है, उनसे बहुत प्रकारकी आपत्तियोंको और परलोकमें अशुभगतिको प्राप्त होता है और गर्हित भी होता है इसलिए असत्य वचनका त्याग श्रेयस्कर है। इस प्रकार हिंसा आदि दोषोंमें अपाय और अवश्यके दर्शनकी भावना करनी चाहिए।

८. सत्याणुव्रतके अतिचार

त सू ७/२६ मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रभेदा।२६।—मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्यासापहार और साकारमन्त्रभेद ये सत्याणुव्रतके पाँच अतिचार हैं। [र क आ में साकारमन्त्रके स्थानपर पैशुन्य है।] (र. क आ/५६)।

सा. घ ४/४ मिथ्यादेश रहोभ्याख्यां कूटलेखक्रियां द्यजेत्। न्यस्तांश-विस्मर्त्तुं मन्त्रभेद च तद्व्रत १४५।—सत्याणुव्रतको पालनेवाले प्रायकोंको मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्या, कूटलेखक्रिया, न्यस्तांश-विस्मर्त्तुं और मन्त्रभेद इन पाँचों अतिचारोंका त्याग कर देना चाहिए १४५।

* सत्यव्रतकी भावनाओं व अतिचारों सम्बन्धी विशेष विचार—दे व्रत/२।

२. सत्यासत्य व हिताहित वचन विवेक

१. अहितकारी सत्य भी अमत्य और हितकारी अमत्य भी सत्य है

कुरल/१/२ मकटाकीर्णजीवानामुद्धारकरणेच्छया। नहिता साधु-भिर्जित् मृषोक्तिरमृषैव सा।२।—उस झूठमें भी मर्यादाकी विशेषता है जिसके परिणाममें नियममें भलाई ही होती है। २।—(जागधना-सार/३/८)।

चा सा/टो/२ यद्विद्यमानार्थविपर्यय प्राणिपीडाकारण तत्सत्यमप्य-सत्यम्।—विद्यमान पदार्थोंकी विद्यमान कहनेवाले वचन यदि प्राणियोंको पीडा देनेवाले हों तो वे सत्य होते भी अमत्य माने जाते हैं।

ज्ञा १/३ असत्यमपि तत्सत्य यत्सत्त्वाशमक वच। सायत्र यच्च पुष्पाति तत्सत्यमपि निन्दितम्।३।—जो वचन जीवोंका दृष्ट हित करनेवाला हो वह अमत्य हो तो भी सत्य है और जो वचन पाप सहित हिंसारूप कार्यको पुष्ट करता हो वह सत्य भी हो तो अमत्य और निन्दनीय है। (आचार्यसार/१/२२-२३)।

अन घ ४/४२ सत्य प्रिय हित चाटु मृत मृतव्रत। तत्सत्यमपि नो सत्यमप्रिय चाहित च यत् १४२।—जो वचन प्रशस्त कल्याणकारक तथा सुननेवालेको आह्लाद उत्पन्न करनेवाला, उपकारी हो, ऐसे वचनको सत्यव्रतियोंने सत्य कहा है। किन्तु उम सत्यको सत्य न समझना जो अप्रिय और अहितकर हो।

ला. स. १/६/६.७ मत्यमपि असत्यता याति कचिद्विसानुमन्धत। ६। असत्य सत्यतां याति कचिज्जीवस्य रक्षणात्। ७।—जिन वचनोंमें जीवोंकी हिंसा सम्भव हो ऐसे सत्य वचन भी असत्य हैं। ६। इसी प्रकार कहीं-कहीं जीवोंकी रक्षा होनेसे अमत्य वचन भी सत्य कहलाते हैं।

मो मा प्र ८/४१३/१५ जो झूठ भी है पर साँचा प्रयाजन की पीढ़ी तौ वाकी झूठ न कहिये बहुदि साँच भी है अर झूठा प्रयोजन की पीढ़ी तौ वह झूठ ही है।

२ कटु भी हितोपदेश असत्य नहीं

भ आ/मू/३५७/५६१ पथ हिदयागिदु पि भण्णमाणस्स मगणवासिस्स। कट्टण व ओमह तं म्हरुविवाय एवट तस्म १३५।—हे मुनिगण। तुम अपने मंथवामी मुनियोंसे हितकर वचन बोलो, यद्यपि वह हृदयको अप्रिय हो तो कोई हरकत नहीं है। जैसे—कट्टण भी औषध परिणाममें मधुर और कल्याणकारक होता है नैमे तुम्हारा भाषण मुनिका कल्याण करेगा।

पु सि उ/१०० ऐतौ प्रमत्तयोगे निर्दिष्टे मरुत्तवितयवचनानाम्। ऐयानुष्ठानादेरनुवदन भवति नामत्यम् १००।—ममस्त ही अत वचनोंका प्रमाद सहित योग निर्दिष्ट होनेसे ऐयोपादेयादि अनुष्ठानोंका कहना झूठ नहीं होता। [ऐयोपादेयका उपदेश करनेवाले मुनिराजके वचनोंमें नवम्सपूर्ण विषयोंका वर्णन होनेपर भी तथा पापकी निन्दा करनेसे पापी जीवोंको अप्रिय लगनेपर भी तथा उपे बन्धुओंको हितोपदेशके कारण दुखी होने पर भी उन्हें अत्यन्त दोष नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रमादयोग नहीं है। (प टो/४मन)]।

* कठोर भी हितोपदेशकी दृष्टता—दे उपदेश/३।

३. असत्य सम्भाषणका निषेध

भ. आ./सू./८७, ८५०/६७, ६७७ अलियं सकिं पि भणिदं घाद कुणदि बहुगण सव्वाणं । अदिसक्दि य सयमवि होदि अलियभासणो पुरिसो । ८७७ परलोगम्मि वि दोस्सा ते चैव हवति अलियवादिस्स । मोसादीए दोसे जत्तेण वि परिहरत्तस्स । ८५०।—एक बार बोला हुआ असत्य भाषण अनेक बार बोले सत्य भाषणोंका सहार करता है । असत्यवादी स्वयं डरता है तथा शकायुक्त है कि मेरा असत्य भाषण प्रकट होगा तो मेरा नाश होगा । ८७७ असत्य भाषणोंके अविश्वास आदि दोष परलोकमें भी प्राप्त होते हैं परजन्ममें प्रयत्नसे इनका त्याग करनेपर भी इन दोषोंका उसके ऊपर आरोप आता है । ८५०।
कुरल/१७/६ नीति मन परिस्थय्य कुमार्गं यदि धावते । सर्वनाश विजानीहि तदा निकटसस्थितम् । ६।—जब तुम्हारा मन सत्यसे विमुख होकर असत्यकी ओर झुकने लगे तो समझ कि तुम्हारा सर्वनाश निकट ही है ।

४. कटु सम्भाषणका निषेध

कुरल/१३/८, ६ एकमेव पद वाप्यामस्ति चेन्मर्मघातकम् । विनष्टास्तर्हि विज्ञेया उपकारा पुराकृता । ८। दग्धमङ्ग पुन साधु जायते कालपाकत । कालपाकमपि प्राप्य न प्ररोहति नावक्षतम् । ६।
कुरल/१४/६ विद्याविनयसपन्न शालीनो गुणवान् नर । प्रमादादपि दुःखिय न ब्रूते हि कदाचन । ६।—यदि तुम्हारे एक शब्दसे भी किसीको कष्ट पहुँचता है तो तुम अपनी सब भलाई नष्ट हुई समझो । ६। आगका जला हुआ तो समय पाकर अच्छा हो जाता है, पर वचनका घाव सदा हरा बना रहता है । ६। अवाच्य तथा अपशब्द, भूलकर भी सयमी पुरुषके मुखसे नहीं निकलेंगे ।

५. व्यर्थ सम्भाषणका निषेध

कुरल/२०/७, १० उचितं बुध चेद् भाति कुर्या कर्कशभाषणम् । पर नैव वृथालाप यतोऽस्माद्भि तदुत्तमम् । ७। वाक्स्ता एव वक्तव्या या श्लाघ्या सम्यमानवै । वर्जनीयास्ततो भिन्ना अवाच्या या वृथोक्तया । १०।—यदि समझदारको माझूम पडे तो मुखसे कठोर शब्द कह ले, क्योंकि यह निरर्थक भाषणसे कहीं अच्छा है । ७। मुखसे बोलने योग्य वचनोंका ही तू उच्चारण कर, परन्तु निरर्थक शब्द मुखसे मत निकाल । १०।

६. सत्यकी महत्ता

भ. आ./सू./८३६-८३२ ण उहदि अग्गी सच्चेण णर जलं च तं ण बुद्धेइ । सच्चमलिय खु पुरिसं ण वहदि तिमखा गिरिणदी वि । ८३२। सच्चेण देवदामो णवति पुरिसस्स ठति व वसम्मि । सच्चेण य गहगहिद मोएइ करेति रत्थं च । ८३६।—असत्यवादीको अग्नि जलाती नहीं, पानी उमको बुझानेमें असमर्थ होता है । सत्य भाषण ही जिसका सामर्थ्य है ऐसे मनुष्यको नडे वेगसे पर्वतसे झरनेवाली नदी नहीं बहा ससती । ८३२। सत्यके प्रभावसे देवता उनका बन्दन करते हैं उसके रक्ष होते हैं, सत्यके प्रभावसे पिशाच भाग जाता है तथा वेरता उनके रक्षण करते हैं । ८३६। (झा । ६/२८) ।

कुरल/१०/३, ६ स्नेहपूर्णा, दयादृष्टिर्दीकी या च वाक्सुधा । एतयोरेव मध्ये तु धर्मो वसति सर्वदा । ३। भूषणे हे मनुष्यस्य नम्रताप्रियभाषणे । अन्वदि भूषण शिष्टैर्नरैर्तं सभ्यससदि । ६।

कुरल/१०/७ न वक्तव्य न वक्तव्य मृपावाच्यं कदाचन । सत्यमेव परो धर्म किं परैर्धर्ममाधने । ७।—हृदयसे निकली हुई मधुर वाणी और

ममतायमी स्निग्ध दृष्टिमें ही धर्मका निवासस्थान है । ३। नम्रता और प्रिय-सम्भाषण, नस ये ही मनुष्यके आभूषण हैं अन्य नहीं । ६। असत्य भाषण मत करो यदि मनुष्य इस आदेशका पालन कर सके तो उसे दूसरे धर्मको पालन करनेकी आवश्यकता नहीं है । ७।

झा । ६/२७, २६ व्रतश्रुतयमस्थान विद्याविनयभूषणम् । चरणज्ञानयोर्भाज सरयसङ्ग व्रत मतम् । २७। चन्द्रमूर्तिरिवानन्द वर्द्धयन्ती जगत्त्रये । स्वर्गिभिर्धियते मूर्ध्ना कीर्ति सत्योत्थिता नृणाम् । २६।—सत्यव्रत श्रुत और यमोंका स्थान है, विद्या और विनयका भूषण है, और सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्र उत्पन्न करनेका कारण सत्य वचन ही है । २७। तीन लोकोंमें चन्द्रमाके समान आनन्दको बढ़ानेवाली सत्यवचनसे उत्पन्न हुई मनुष्योंकी कीर्तिको देवता भी मस्तकपर धारण करते हैं । २६। (प वि । १/६२-६३) ।

७. धर्मापत्तिके समय सत्यका त्याग भी न्याय है

सा घ । ४/३६ कन्यागोक्षमालीक-कूटसाक्ष्यन्यासापलापवत् । स्यात्सत्याणु-व्रती सत्यमपि स्वान्यापदे त्यजन् । ३६।—व्रती श्रावक कन्या अलीक, गोअलीक, पृथ्वी अलीक, कूटस्थ अलीक और न्यासापलापकी तरह अपने तथा परको विपत्तिके हेतु सत्यको भी छोड़ता हुआ सत्याणु-व्रतधारी कहलाता है । ३६।

अमि श्रा । ६/४७ सत्यमपि विमोक्तव्य परपीडारम्भतापभयजनकम् । पाप विमोक्तुकामे मुजनेरिव पापिनां वृत्तम् । ७।—पापारम्भको छोड़नेकी वाँछावाला पुरुष पर जीवोंको पीड़ाकारक आरम्भ, भय व सन्ताप जनक ऐसे सत्य वचनको भी छोड़े । ४७।

* धर्म हानिके समय बिना बुलाये भी बोले—दे वाद ।

८. सत्यधर्म व भाषा समितिमें अन्तर

स सि । ६/४१२/७ ननु चैतद् भाषासमितावन्तर्भवति । नैप दोष । समितौ प्रवर्तमानो मुनि साधुष्वप्याधुपु च भाषाव्यवहार कुर्वन् हित मित च ब्रूयात् अन्यथा रागादनर्थदण्डदोष स्यादिति वाक्समितिरित्यर्थः । इह पुन सन्त प्रव्रजितास्तद्भवता वा तेषु साधु सत्यं ज्ञानचारित्रशिक्षणादिषु यद्यपि कर्तव्यमित्यनुज्ञायते धर्मोपबृह-णार्थम् ।—प्रश्न—इसका (सत्यका) भाषा समितिमें अन्तर्भाव नहीं होता है । उत्तर—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि समितिके अनुसार प्रवृत्ति करने वाला मुनि साधु और असाधु दोनों प्रकारके मनुष्योंमें भाषा व्यवहार करता हुआ हितकारी परिमित वचन बोले, अन्यथा राग होनेसे अनर्थदण्ड दोष लगता है यह वचन समितिका अभिप्राय है । किन्तु सत्य धर्मके अनुसार प्रवृत्ति करने वाला मुनि सज्जन पुरुष, दीक्षित या उनके भक्तोंमें साधु सत्य वचन बोलता हुआ भी ज्ञान चारित्रके शिक्षणके निमित्त बहुविध कर्तव्योंकी सूचना देता है और यह सब धर्मकी अभिवृद्धिके अभिप्रायसे करता है । इसलिए सत्य धर्मका भाषा समितिमें अन्तर्भाव नहीं होता । (रा. वा । ६/६/१०/४६६/६) ।

सत्यका अहिंसामे अन्तर्भाव—दे अहिंसा/३ ।

सत्यकिपुत्र—१ भावि कालीन २३, २४ वें तीर्थकरका पूर्व अनन्तर भव—दे तीर्थकर/६ । २ वर्तमान कालीन १९वें रुद्र ८ । दे, शलाका पुरुष/७ ।

सत्यघोष—१ म पु । ६/१/श्लोक स सिद्धपुर नगरके राजा सिंहेसेन राजाका श्रीभूति नामक मन्त्री था । परन्तु इसने अपनेको सत्यघोष प्रसिद्ध कर रखा था (१४६-१४७) । एक समय भद्रमित्र सेठके रत्न लेकर मुकर गया (१५१) । तब रानीने चतुराईसे इसके घरसे रत्न

मंगवाये (१६८-१६९) । इसके फलमें राजा द्वारा दण्ड दिया जानेपर आर्तध्यानसे मरकर सर्प हुआ (१७५-१७७) अनेकों भवोंके पश्चात् विद्वयुद्धदृष्ट विद्याधर हुआ । तब इग्ने सिंहासनके जीव सजयन्त मुनि पर उपसर्ग किया ।—विशेष दे विद्युद्धदृष्ट । २ इसीके रत्न उपरोक्त सत्यघोषने मार लिये थे । इसकी सत्यतासे प्रमत्त होकर राजाने इसको मन्त्री पदपर नियुक्त कर सत्यघोष नाम रखा । — दे चंद्रमित्र

सत्यदत्त—एक विनयवादी —दे वैनयिक ।

सत्य प्रवाद—द्रव्यश्रुतका छठा पूर्व —दे श्रुतज्ञान/III

सत्यभामा—ह पु/सर्ग/श्लोक—सुकेतु विद्याधरकी पुत्री थी । कृष्णकी रानी थी (३६/५८) इसके भानु नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई (४४/१) । अन्तमें दीक्षा धारण कर ली (६९/४०) ।

सत्यमनोयोग—दे, मन ।

सत्यवचनयोग—दे, वचन ।

सत्यवाक कंगुनीवरम्—एक राजा था । समय—ई ६०८-६४० (जीवन्धर चम्पू/प्र./१४) ।

सत्य शासन—आ विद्यानन्दि (ई. ७७५-८४०) द्वारा रचित संस्कृत भाषा ब्रह्म न्यायविषयक ग्रन्थ है जिसमें न्याय पूर्वक जिन-शासनकी स्थापना की गयी है ।

सत्यादेवी—रुचकपर्वत निवासिनी दिवकुमारीदेवी —दे लोक/७ ।

सत्याभ—एक लोकान्तिकदेव —दे लौकान्तिक ।

सत्योपचार—दे उपचार/१ ।

सत्त्व—सत्त्वका सामान्य अर्थ अस्तित्व है, पर आगममें इम शब्दका प्रयोग ससारी जीवोंमें यथा योग्य कर्म प्रकृतियोंके अस्तित्वके अर्थमें किया जाता है । एक मार बंधनेके पश्चात् जब तक उदयमें आ-आकर विवक्षित कर्मके निषेक पूर्णरूपेण भङ नहीं जाते तब तक उस कर्मकी सत्ता कही गयी है ।

१	सत्त्व निर्देश
१	सत्त्व सामान्यका लक्षण ।
०	उत्पन्न व स्वस्थान सत्त्वके लक्षण ।
*	बन्ध उदय व सत्त्वमें अन्तर । —दे उदय/२
३	सत्त्व योग्य प्रकृतियोंका निर्देश ।
२	सत्त्व प्ररूपणा सम्बन्धी नियम
१	तीर्थकर व आहारकरके सत्त्व सम्बन्धी ।
०	अनन्तानुबन्धीके सत्त्व असत्त्व सम्बन्धी ।
३	छब्बीस प्रकृति सत्त्वका स्वामी मिथ्यादृष्टि होता है ।
४	=८ प्रकृतिका सत्त्व प्रथमोपशमके प्रथम समयमें होता है ।
*	प्रकृतियों आदिके सत्त्वकी अपेक्षा प्रथम सम्यक्सत्त्वकी योग्यता । —दे, सम्यग्दर्शन/IV/२

*	गतिप्रकृतिके सत्त्वसे जीवके जन्मका सम्बन्ध नहीं, आयुके सत्त्वसे है । —दे आयु/२
*	आयु प्रकृति-मत्त्व युक्त जीवकी विशेषताएँ । —दे, आयु/६
५	जघन्य स्थिति सत्त्व निषेक प्रधान है और उत्कृष्ट काल प्रधान ।
६	जननस्थिति सत्त्वका स्वामी कौन ।
*	सातिशय मिथ्यादृष्टिका सत्त्व सर्वत्र अन्त क्रीडा-कोटिसे भी हान है । —दे प्रकृतिसम्बन्ध/७/४
*	अयोगिके शुभ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभाग सत्त्व पाया जाता है । —दे उपरर्षण/४/
७	प्रदेशोंका सत्त्व सर्वदा १॥ गुणहानि प्रमाण होना है ।
*	प्रकृतियोंके सत्त्वमें निषेक रचना । —दे उदय/३
८	सत्त्वके साथ बन्धका समानाधिकरण नहीं ।
९	सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य स्थिति सत्त्व २ समय कैसे ।
१०	पाँचवेंके अभिसुप्तका स्थिति सत्त्व पहलके अभिसुप्तसे हीन है ।
११	सत्त्व व्युच्छित्ति व सत्त्व स्थान सम्बन्धी दृष्टिभेद
३	सत्त्व विषयक प्ररूपणाएँ
१	प्रकृति सत्त्व व्युच्छित्तिकी ओर प्ररूपणा ।
२	सातिशय मिथ्यादृष्टियोंमें सर्व प्रकृतियोंका सत्त्व चतुष्क ।
३	प्रकृति सत्त्व व्युच्छित्तिकी आदेश प्ररूपणा ।
४	मोह प्रकृति सत्त्वकी विभक्ति अविभक्ति ।
५	मूलोत्तर प्रकृति सत्त्व स्थानोंकी ओर प्ररूपणा ।
६	मूल प्रकृति सत्त्व स्थान सामान्य प्ररूपणा ।
७	मोहप्रकृति सत्त्व स्थान सामान्य प्ररूपणा ।
८	मोह सत्त्व स्थान ओर प्ररूपणा ।
९	मोह सत्त्व स्थान आदेश प्ररूपणाका स्वामित्व विशेष ।
१०	मोह सत्त्व स्थान आदेश प्ररूपणा ।
११	नाम प्रकृति सत्त्व स्थान सामान्य प्ररूपणा ।
१२	जीव पदोंकी अपेक्षा नामकर्म सत्त्व स्थान प्ररूपणा ।
१३	नामकर्म सत्त्व स्थान ओर प्ररूपणा ।
१४	नामकर्म सत्त्व स्थान आदेश प्ररूपणा ।
१५	नाम प्रकृति सत्त्व स्थान पर्याप्तपर्याप्त प्ररूपणा ।
१६	मोह स्थिति सत्त्वकी ओर प्ररूपणा ।
१७	मोह स्थिति सत्त्वकी आदेश प्ररूपणा ।
*	सम्यग्त्व व मिथ्य प्रकृतिके सत्त्व कालकी प्ररूपणा विशेष । —दे वान/६

* वन्ध उद्वय सत्त्वकी त्रिसयोगी प्ररूपणाएँ। —दे, उद्वय/८
* मूलोत्तर प्रकृतिके चार प्रकार सत्त्व व सत्त्वार्थिकों सम्बन्धी सख्या, क्षेत्र, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर व अल्प बहुत्व प्ररूपणाएँ। —दे बहु-बहु नाम
१८ मूलोत्तर प्रकृतिके सत्त्व चतुष्ककी प्ररूपणा सम्बन्धी सूची।
१९ अनुभाग सत्त्वकी ओष आदेश प्ररूपणा सम्बन्धी सूची।

३ सत्त्व योग्य प्रकृतियोंका निर्देश

ध १२/४, २, १४, ३८/४६१/१२ जासि गुण पयडीण बधो चैव णरिथ, बधे सत्तेवि जासि पयडीण द्विदिसतादो उवरि सव्वकालं बधो ण भवदि, ताओ रातपयडीओ, सतपहाणत्तादो। ण च आहारपुग-तिरथयराणं द्विदिसतादो उवरि बधो अरिथ, समाइडोसु तदणुवल-भादो तम्हा सम्भत्त-सम्ममिच्छत्ताण व एदाणि तिण्णि वि संत-कम्माणि। = जिन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता है और बन्धके होनेपर भी जिन प्रकृतियोंका स्थिति सत्त्वसे अधिक मदाकाल बन्ध सम्भव नहीं है वे सत्त्व प्रकृतियाँ हैं, क्योंकि, सत्त्वही प्रधानता है। आहारकद्विक और तीर्थकर प्रकृतिका स्थिति सत्त्वसे अधिक बन्ध सम्भव नहीं है, क्योंकि वह सम्यग्दृष्टियोंमें नहीं पाया जाता है, इस कारण सम्यक्त्व व सम्यग्मिथ्यात्वके समान ये तीनों ही सत्त्व प्रकृतियाँ हैं।

गो, क/सू./३८ पच णव दोण्णि अट्ठावीस चउरो कमेण तेणउदो। दोण्णि य पच य भणिया एदाओ सत्त पयडोओ ३८। = पाँच, नौ, दो अट्ठाईस, चार, तिरानवे, दो और पाँच, इस तरह सब (आठों कर्मोंकी सर्व) १४८ सत्त्वरूप प्रकृतियाँ कही है। ३८।

२. सत्त्व प्ररूपणा सम्बन्धी कुछ नियम

१. तीर्थकर व आहारकके सत्त्व सम्बन्धी

१. मिथ्यादृष्टिको युगपत् सम्भव नहीं

गो क/जी प्र/३३३/४८५/४ मिथ्यादृष्टौ तीर्थकृत्वसत्त्वे आहारक-द्वयसत्त्वं न। आहारकद्वयसत्त्वे च तीर्थकृत्वसत्त्वं न, उभयसत्त्वे तु मिथ्यात्वाभ्रयणं न तेन तद् द्वयम्। तत्र युगपदेकजीवापेक्षया न नाना-जीवापेक्षयास्ति तत्सत्त्वकर्मणा जीवानां तद्गुणस्थान न सम्भ-तीति कारणात्। = मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें जिसके तीर्थकरका सत्त्व हो उसके आहारक द्विकका सत्त्व नहीं होता, जिसके आहारक द्वय-का सत्त्व हो उसके तीर्थकरका सत्त्व नहीं होता, और दोनोंका सत्त्व होनेपर मिथ्यात्व गुणस्थान नहीं होता। इसलिए मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें एक जीवकी अपेक्षा युगपत् आहारक द्विक व तीर्थकरका सत्त्व नहीं होता, केवल एकका ही होता है। परन्तु एक ही जीवमें अनुक्रमसे वा नाना जीवकी अपेक्षा उन दोनों का सत्त्व पाया जाता है। इसलिए इन प्रकृतियोंका जिनके सत्त्व हो उसके यह गुणस्थान नहीं होता (गो क/जी प्र/६१६/८२३/११)।

२. सासादनको सर्वथा सम्भव नहीं

गो क/जी प्र/३३३/४८५/६ सासादने तदुभयमपि एकजीवापेक्षयानेक-जीवापेक्षया च क्रमेण युगपद्वा सत्त्व नैति। = सासादन गुणस्थानमें एक जीवकी अपेक्षा वा नाना जीव अपेक्षा आहारक द्विक तथा तीर्थकरका सत्त्व नहीं है।

३ मिश्र गुणस्थानमें सत्त्व व असत्त्व सम्बन्धी दो दृष्टियाँ

गो क/जी प्र/३३३/४८५/६ मिश्रे तीर्थकरत्वसत्त्व न तत्सत्त्वकर्मणां जीवानां तद्गुणस्थान न सम्भवोति कारणात्।

गो क/जी प्र./६१६/प्रक्षेपक/१/२२३/१२ मिश्रे गुणस्थाने तीर्थयुक्त चारिस्ति। तत्र कारणमाह। तत्तरकर्मसत्त्वजीवानां तत्तद्गुणस्थानं न सम्भवति। = १, मिश्र गुणस्थानमें तीर्थकरका सत्त्व नहीं होता। इसका सत्त्व

१ सत्त्व निर्देश

१ सत्त्व सामान्यका लक्षण

१ अस्तित्वके अर्थमें

दे सत्/१/१ सत्त्वका अर्थ अस्तित्व है।

दे, द्रव्य/१/७ सत्ता, सत्त्व, सत्त, सामान्य, द्रव्य, अन्वय, वस्तु, अर्थ और विधि ये सब एकार्थक है।

२. जीवके अर्थमें

स सि/७/११/३४६/८ दुष्कर्मविपाकनशानानायोनिषु सीदन्तीति सत्त्वा जीवा। = बुरे कर्मके फलसे जो नाना योनियोंमें जन्मते और मरते हैं वे सत्त्व हैं। सत्त्व यह जीवका पर्यायवाची नाम है। (रा वा/७/११/४/६३८/२३)

३. कर्मोंकी सत्ताके अर्थमें

प स/पा/३/३ धण्णस्स संगहो वा सत्त। = धान्य सग्रहके समान जो पूर्व सचित कर्म हैं, उनके आत्मामें अवस्थित रहनेको सत्त्व कहते हैं।

क पा/१/१, १३-१४/४२५/०, २६१/६ ते चैव विदियसमयप्पहुडि जाव फलदाणहेडिमसमओ त्ति ताथ सतववएस पडिवज्जत्ति। = जीवसे सबद्ध हुए वे ही (मिथ्यात्वके निमित्तसे सचित) कर्म स्कन्ध दूसरे समयसे लेकर फल देनेसे पहले समय तक सत्त्व इस सज्ञाको ग्राह्य होते हैं।

२. उत्पन्न व स्वस्थान सत्त्वके लक्षण

गो, क/भापा/३५१/५०६/१ पूर्व पर्याय विपै जो विना उद्वेलना [अप-कर्षण द्वारा अन्य प्रकृतिरूप करके नाश करना] तै सत्त्व भया तिम तिस उत्तर पर्याय विपै उपजे, तहाँ उत्तरपर्याय विपै तिस सत्त्वकी उत्पन्न स्थानविपै सत्त्व कहिए। तिस विवक्षित पर्याय विपै विना उद्वेलना व उद्वेनना तै जो सत्त्व होय ताकी स्वस्थान विपै सत्त्व कहिए।

होनेपर यह गुणस्थानमें तीर्थकर सहित सत्त्व स्थान है, परन्तु आहारक सहित सत्त्व स्थान नहीं है, क्योंकि इन कर्मोंकी सत्ता होनेपर यह गुणस्थान जीवोंके नहीं होता। [यह दूसरी दृष्टि है]

२ अनन्तानुबन्धीके सत्त्व असत्त्व सम्बन्धी

क. पा. २/२-२२/९ स./पु स/प अविहृत्ती कस्स। अण्ण-सम्मादिट्ठित्तस विसज्जीयिद-अणत्ताणुवधिचउवकस्स (§११०/६४/७) णिरयगदीए णेरइयु अणत्ताणुवधिचउवकाण ओघभगो। एव पदमाए पुढवीए त्ति वत्तव्व। विदियादि जाव सत्तमि त्ति एव चेण णवरि मिच्छत्त-अविहृत्ती णत्थि (§१११/६२/३-७) वेदगसम्मादिट्ठिसु-अविहृत्ति कस्स। अण्णविसज्जीयद-अणत्ताणुं चउवकस्स। उव-समसम्मादिट्ठिसु, विसज्जीयिद अणत्ताणुवधि चउवकस्स। सास-णसम्मादिट्ठिसु सव्वपयडीण विहृत्ती कस्स। अण्णं। सम्मामिं अणत्ताणुं चउवकं विहृत्ती अविहृत्ति च कस्स। अण्णं (§११७/६५/१-५) मिच्छत्तस्स जो विहृत्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणत्ताणुवधिचउवकाणं सिया विहृत्तियो, सिया अविहृत्तिओ (§१४२/१३०/५) णेरइयो तिरिक्खो मणुस्सो देवो वा सम्माइट्ठी सम्मामिच्छाइट्ठी च सामिओ होदि त्ति। (§२४६/२९६/८) = जिस अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है, ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धी चतुष्क अविभक्ति है। (§११०/११/७) नरकगतिमें अनन्तानुबन्धि चतुष्कका कथन ओघके समान है। इस प्रकार पहली पृथिवीके नारकियोंके जानना चाहिए। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवी पृथिवी तकके नारकियोंके इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके मिथ्यात्व अविभक्ति नहीं है। (§१११/६२/३-७) वेदक सम्यग्दृष्टि जीवके जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की है उसकी अविभक्ति है। जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है उस उपशम सम्यग्दृष्टिके अविभक्ति है। सासादन सम्यग्दृष्टि जीवके सभी प्रकृतियोंकी विभक्ति है। सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्ति किसी भी सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवके है (§११७/६८/१) जो जीव मिथ्यात्वकी विभक्ति वाला है वह सम्यक् प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है। (§१४२/१३०/५) नारकी, तिर्यच, मनुष्य या देव इनमेंसे किसी भी गतिका सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव चौबीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है। (§२४६/२९६/८)

३. छन्वीस प्रकृति सत्त्वका स्वामी मिथ्यादृष्टि ही होता

क. पा. २/२-२२/ चूर्णसूत्र/§ २४७/२२१ छन्वीसाए विहृत्तिओ को होदि। मिच्छाइट्ठी णियमा। = नियमसे मिथ्यादृष्टि जीव छन्वीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है।

४. २८ प्रकृतिका सत्त्व प्रथमोपशमके प्रथम समयमें होता है

दे० उपशम/२/२ प्रथमोपशम सम्यक्त्वसे पूर्व अनिष्टित्तिकरणके अन्तिम समयमें अनादि मिथ्यादृष्टि जीव जग मिथ्यात्वके तीन तण्ड वरता है तब उसके मोहकी २६ प्रकृतियोंकी वजाय २८ प्रकृतियोंका सत्त्व स्थान हो जाता है।

५. जघन्य स्थिति सत्त्व निपेक प्रधान है और उत्कृष्ट काल प्रधान

क. पा. ३/३, २२/§ ४७६/२६७/१० जहण्णट्ठिदि अद्दाछेदो णिसेग-पहाणो। उवकस्सट्ठिदो पुण कालपहाणो तेण णिमिगेण विणा एगसमए गलिदे वि उवकस्सत्त फिट्ठिदि। = जघ-य स्थिति अद्दाछेद निपेक प्रधान है। किन्तु उत्कृष्ट स्थिति काल प्रधान है, इनलिण निपेकके विना एक समयके गल जानेपर भी उत्कृष्ट स्थितिमें उत्कृष्टत्व नाश हो जाता है।

क. पा. ३/३, २२/§ ५१३/२६१/८ जहण्णट्ठिदि-जहण्णट्ठिदि अद्दाछेदाण जह्वसहुच्चारणाइरिएहि णिसेगपहाणाण गहणादो। उवकस्सट्ठिदो उवकस्सट्ठिदि अद्दाछेदो च उवकस्सट्ठिदिममयपन्नणिमेगे मोत्तण णाणासमयपन्नणिसेगपहाणा। पुत्तिस्सलववलाणमेदेण सुत्तेण सह-किण्ण विरुज्जदे। विरुज्जदे चैव, किन्तु उवकस्सट्ठिदि उवकं ट्ठिदि अद्दाछेद जहण्णट्ठिदि-जंट्ठिदिअद्दाछेदाण भेदपस्वणट्ठ त ववलाण कय ववलाणाइरिएहि। युत्तिस्सुत्तुच्चारणाइरियाण पुण एसो णाहिप्पाओ,। = जघन्य स्थिति और जघन्य स्थिति अद्दाछेदको यतिवृषभ आचार्य और उच्चारणाचार्यने निपेक प्रधान स्वीकार किया है। तथा उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्टस्थिति अद्दाछेद उत्कृष्ट स्थितिवाले समय प्रकृष्टके निपेकोंकी उपेक्षा न होकर नाना समय प्रकृष्टके निपेकोंकी प्रधानतासे होता है। प्रश्न—पूर्वोक्त व्याख्यान इस सूत्रके साथ निरोधको क्यों नहीं प्राप्त होता। उत्तर—विरोधको प्राप्त होता ही है किन्तु उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति अद्दाछेदमें तथा जघन्य स्थिति और जघन्य अद्दाछेदमें भेदके कथन करनेके लिए व्याख्यानार्थाने यह व्याख्यान किया है। चूर्णसूत्रकार और उच्चारणाचार्यका यह अभिप्राय नहीं है।

६. जघन्य स्थिति सत्त्वका स्वामी कौन

क. पा. ३/३, २२/§ ३५/२२/३ जो एइदियो हतसमुपत्तिय ऋऊण जाव सब्बा ताव सतकम्मस्स हेट्ठा बधिय सेकाले समट्ठिदिं बोलेहिदि त्ति तस्स जहण्णय ट्ठिदिसतकम्म। मिच्छादिं त्ति। = जो कोई एकेन्द्रिय जीव हतसमुपत्तिकको करके जघतक शय्य हो समुत्त सत्तामें स्थित मोहनीयकी स्थितिसे कम स्थितिवाने कर्मका बन्ध करके तदनन्तर कालमें सत्तामें स्थित मोहनीयकी स्थितिके समान स्थितिवाले कर्मका बन्ध करेगा उसके मोहनीयता जघन्य स्थिति सत्त्व हाता है। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए।

७. प्रदेशोका सत्त्व सर्वदा १३ गुणहानि प्रमाण होता है

गो क /सू /५/५ गुणहाणीणदिवड्ढ समयपमद हवे मत्त।
गो क /सू /६४३ सत्त समयपमद दिवड्ढगुणहाणि ताडिय अणं।
तियकोणसरूवट्ठिददध्वे मिलिदे हवे णियमा। ६४३। = कुट्ट क म डेठ गुणहानि आयामसे गृणित ममय प्रमाण समय प्रमद सत्ता (वर्तमान) अवस्थामें रहा करते है। मच्च द्रव्य कुछ म डेठ गुणहानिपर गुणा हुआ समय प्रमद प्रमाण है। वह त्रिधाण रचनाके सय द्रव्यका जोड देनेसे नियमसे इतना ही होता है।

८. सत्त्वके साथ बन्धका सामानाधिकरण नहीं है

ध ६/१ ६२, ६१/१०२/० ण च सत्तम्मि विरोहानाव दट्ठण मधम्मि वि तदभायो वातु न किञ्चए, यध-संताणमेवत्ताभाया। = सत्त्वमें

(परस्पर विरोधी प्रकृतियोंके) विरोधका अभाव देखकर बन्धमें भी उस (विरोध) का अभाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बन्ध और सत्त्वमें एकत्वका विरोध है।

९. सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्यस्थिति सत्त्व दो समय कैसे

क पा. ३/२.२२/१४२०/२४४/६ एगसमयकालद्विदिय विष्णु बुद्धदे। ण, उदयाभावेण उदयणितेयद्विदी परसरूवेण गदाए विदियणितेयस्स दुसमयकालद्विदियस्स एगसमयावट्ठाणविरोहादो। विदियणितेओ सम्मामिच्छत्तसरूवेण एगसमय चेव अच्छदि उवरिमसमए मिच्छत्तस्स सम्मत्तस्स वा उदयणितेयसरूवेण परिणामधुवत्तभादो। तदो एयसमयकालद्विदितेस त्ति वत्तव्व। ण, एगसमयकालद्विदिए णितेगे सत्ते विदियसमए चेव तस्स णितेगस्स अदिण्णफलस्स अकम्मसरूवेण परिणामप्पसगादो। ण च कम्म सगसरूवेण परसरूवेण वा अदत्तफलमकम्मभाव गच्छदि विरोहादो। एगसमय सगसरूवेणच्छिय विदियसमए परपयडिसरूवेणच्छिय तदियसमए अकम्मभाव गच्छदि त्ति दुसमयकालद्विदियहेसो वदो। --प्रश्न--सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थिति एक समय काल प्रमाण क्यों नहीं कही जाती है। उत्तर--नहीं, क्योंकि जिस प्रकृतिका उदय नहीं होता उसकी उदय निपेक स्थिति उपान्त्य समयमें पर रूपसे सक्रमित हो जाती है। अतः दो समय कालप्रमाण स्थितिवाले दूसरे निपेककी जघन्य स्थिति एक समय प्रमाण माननेमें विरोध आता है। प्रश्न--सम्यग्मिथ्यात्वका दूसरा निपेक सम्यग्मिथ्यात्व रूपसे एक समय काल तक ही रहता है, क्योंकि अगले समयमें उसका मिथ्यात्व या सम्यक्त्वके उदयनिपेक रूपसे परिणमन पाया जाता है अतः सूत्रमें 'दुसमयकालद्विदितेस'के स्थानपर 'एकसमयकालद्विदितेस' ऐसा कहना चाहिए। उत्तर--नहीं, क्योंकि इस निपेकको यदि एक समय काल प्रमाण स्थितिवाला मान लेते हैं तो दूसरे ही समयमें उसे फल न देकर अकर्म रूपसे परिणमन करनेका प्रसंग प्राप्त होता है और कर्म स्वरूपसे या पररूपसे फल बिना दिये अकर्म भावको प्राप्त होते नहीं, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है। किन्तु अनुदयरूप प्रकृतियोंके प्रत्येक निपेक एक समय तक स्वरूपसे रहकर और दूसरे समयमें पर प्रकृतिरूपसे रहकर तीसरे समयमें अकर्मभावको प्राप्त होते हैं ऐसा नियम है अतः सूत्रमें दो समय काल प्रमाण स्थितिका निर्देश किया है।

१०. पाँचवेंके अभिमुखका स्थिति सत्त्व पहल्लेके अभिमुखसे हीन है

ध ६/१.६-८-१४/२६६/१ एदस्स अनुव्वकरणचरिमसमए वट्टमाणमिच्छा-इद्विस्स द्विदिसत्तकम्म पढमसम्मत्ताभिमुहअणियट्टीकरणचरिम-समयद्विदमिच्छाइद्विदिसत्तकम्मादो कधं सखेज्जगुणहीणं। ण, द्विदिसत्तमोवट्टियं काज्जण संजमासंजमपडिबज्जमाणस्स सजमा-सजमचरिममिच्छाइद्विस्स तदविरोहादो। तथत्तणअणियट्टी-

करणद्विदियादो वि एरथत्तणअणुव्वकरणद्विदियादस्स बहुययरत्तादो वा। ण चेद ण पुव्वकरण पढमसम्मत्ताभिमुहमिच्छाइद्वि अणुव्वकरणेण तुणल, सम्मत्त संजम-संजमागजमफणाण तुणलत्तविरोहा। ण चाणुव्वरणाणि सव्वअणियट्टीकरणेहिंत्तो अणत्तगुणहीणाणि त्ति वोत्तुं जुत्तु, तत्पट्टप्पायाणसुत्ताभावा। --प्रश्न--अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें वर्तमान इस अपूर्वक मिथ्यादृष्टि जीवका स्थिति सत्त्व, प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें रिधति मिथ्यादृष्टिके स्थितिसत्त्वसे संरगात् गुणित हीन कैसे है। उत्तर--नहीं, क्योंकि, स्थिति सत्त्वका अपवर्तन करके समयमासयमको प्राप्त होनेवाले संयमासयमके अभिमुख चरमसमय-यत्ती मिथ्यादृष्टिके संख्यात् गुणित हीन स्थिति सत्त्वके होनेमें कोई विरोध नहीं है। अथवा वहाँके, अर्थात् प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख मिथ्यादृष्टिके, अनिवृत्तिकरणसे होनेवाले स्थिति घातकी अपेक्षा यहाँके अर्थात् समयमासयमके अभिमुख मिथ्यादृष्टिके, अपूर्वकरणसे होनेवाला स्थितिघात बहुत अधिक होता है। तथा, यह, अपूर्वकरण, प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख मिथ्यादृष्टिके अपूर्वकरणके साथ समान नहीं है, क्योंकि, सम्यक्त्व, समय और समय-संयम रूप फलवाले विभिन्न परिणामोंके समानता होनेका विरोध है। तथा, सर्व अपूर्वकरण परिणाम सभी अनिवृत्तिकरण परिणामोंके अनन्तगुणित हीन होते हैं, ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि, इस बातके प्रतिपादन करनेवाले सूत्रका अभाव है।

११. सत्त्व व्युच्छित्ति च सत्त्व स्थान सम्बन्धी दृष्टि भेद

गो क ५/३७३.३६१.३६२ तिरथाहारचउक्क अण्णदराउगमुग च सत्तेवे। हारचउक्क वज्जिय तिण्णि य केइ समुद्विट्ठं। २७३। अत्थि अणं उवसमगे खवगाणुव्व खविच्चु अट्ठा य। पच्छा सोलादीण खवणं इदि केइ णिद्विट्ठं ३६१। अणियट्टिगुणट्ठाणे मायारहिंणं च ठाणमिच्छत्ति। ठाणा भगपमाणा केइ एव परुवेत्ति ३६२। --सासादन गुणस्थानमें तीर्थंकर, आहारककी चौकडी, भुज्यमान व वद्वयमान आयुके अतिरिक्त कोई भी दो आयुसे सात प्रकृतियों हीन १४१ का सत्त्व है। परन्तु कोई आचार्य इनमें-से आहारककी ४ प्रकृतियों-को छोड़कर केवल तीन प्रकृतियाँ हीन १४४ का सत्त्व मानते हैं ३७३। श्री कनकनन्दी आचार्यके सम्प्रदायमें उपशम श्रेणी वाले चार गुणस्थानोंमें अनन्तानुबन्धी चारका सत्त्व नहीं है। इस कारण २४ स्थानोंमें-से बद्ध व अवस्थायुके आठ स्थान कम कर देनेपर १६ स्थान ही हैं। और क्षपक अपूर्वकरण वाले पहले आठ कषायोंका क्षय करके पीछे १६ आदिक प्रकृतियोंका क्षय करते हैं ३६१। कोई आचार्य अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें मायारहित चार स्थान हैं, ऐसा मानते हैं। तथा कोई स्थानोंको भगके प्रमाण कहते हैं ३६२।

दे, सत्त्व/२/१ मिश्रमें तीर्थंकरके सत्त्वका कोई स्थान नहीं, परन्तु कोई कहते हैं कि मिश्रमें तीर्थंकरका सत्त्व स्थान है।

३. सत्त्व विषयक प्ररूपणाएँ—

सत्त्व योग्य प्रकृतियाँ—नाना जीवों की अपेक्षा = १४८। एक जीव की अपेक्षा सर्वत्र ६ विकल्प ग्रहण किये जा सकते हैं—मद्भाग्युष्क तीर्थकर रहित = १४४, मद्भाग्युष्क आहारक द्विक रहित १४४, मद्भाग्युष्क आहारक द्विक व तीर्थकर रहित = १४३, अमद्भाग्युष्क तीर्थकर रहित = १४४, अमद्भाग्युष्क आहारकद्विक रहित = १४३, अमद्भाग्युष्क आहारक द्विक व तीर्थकर रहित = १४२,

नोट—इस प्रकार सत्त्व योग्य प्रकृतियोंके आधार पर अपनी ओरसे प्रत्येक गुणस्थानमें एक जीवकी अपेक्षा छह-छह विकल्प बना लेने चाहिए।

संकेत—प्रकृतियोंके संकेतोंके लिए देखो प्रकृति (मन्ध) के भेद।

१. प्रकृति सत्त्व व्युच्छित्तिकी ओघप्ररूपणा

(पं स./प्रा /३/४६-६३), (प सं./प्रा /५/४८६-४००), (प. स /स /३/६१-७७), (पं स /स /५/४६२-४७७), (गो क /३३६-३४३/४८८-४६६)।

गुण स्थान	व्युच्छित्तिकी प्रकृतियाँ	असत्त्व	कुल सत्त्व योग्य	असत्त्व	सत्त्व	व्युच्छिद्र	शेष सत्त्व योग्य
१	×	×	१४८	×	१४८	×	१४८
२	×	तीर्थकर व आ द्वि	१४८	३	१४५	×	१४५
३		×	१४८	×	१४८	×	१४८
१	उपशम व क्षयोपशम सम्यक्त्व						
४	×	×	१४८	×	१४८	×	१४८
५	×	नरकायु	१४८	१	१४७	×	१४७
६	×	नरक व तिर्यचायु	१४८	२	१४६	×	१४६
७	×	१४८	२	१४६	×	१४६
८-११	×	१४८	२	१४६	×	१४६
२	क्षायिक सम्यक्त्व—(गो क/जी प्र /३५५/५१२/४)						
४	नरकायु, तिर्यचायु, दर्शनमोहकी ३, अनन्तानुबन्धी ४	दर्शनमोह, अनन्ता-७	१४८	७	१४१	६	१३६
५	×	×	१३६	×	१३६	×	१३६
६	×	×	१३६	×	१३६	×	१३६
७	देवायु	×	१३६	×	१३६	१	१३५
३	क्षायिक सम्यक्त्व उपशम श्रेणी—(गो क /जी प्र /३५५/५१२/४)						
८-११	×	×	१३८	×	१३८	×	१३८
४	क्षायिक सम्यक्त्व क्षपक श्रेणी—(गो.क /जी प्र /३३६-३४३/४८८-४६६)						
नोट	अमद्भाग्युष्क ही क्षपक श्रेणी पर चढे।						
५	×	×	१३८	×	१३८	×	१३८
६/१	नरकद्विक, तिर्यच द्वि, १-४ इन्द्रिय, स्वयानुष्टित्तिक, आतप, उद्योत, सूक्ष्म, साधारण, स्थावर-१६	×	१३८	७	१३१	६	१२५
६/११	प्रत्यात्म्यान ४, अप्रत्यात्म्यान ४=८	×	१३२	×	१३२	=	१३२

गुण स्थान	पुरुष वेदोदय सहित				स्त्री वेदोदय सहित				नपुसक वेदोदय सहित				
	मोह सत्त्व स्थान	व्युच्छित्तिकी प्रकृतियाँ	सत्त्व योग्य	व्युच्छि	शेष सत्त्व	मोह सत्त्व स्थान	व्युच्छित्तिकी प्रकृतियाँ	सत्त्व योग्य	शेष सत्त्व	मोह सत्त्व स्थान	व्युच्छित्तिकी प्रकृतियाँ	सत्त्व योग्य	शेष सत्त्व
६/III	१३	नपुसक वेद	११४	१	११३	१३	×	११४	×	१३	×	११४	११४
६/IV	१२	स्त्री वेद	११३	२	११२	१३	स्त्रीवेद	११४	१	१३	१३	११४	११४
६/V	११	हास्यादि छह नोकपाप	११२	६	१०६	१२	नपुसक वेद	११३	१	१२	१३	११४	११४
६/VI	६	पुरुष वेद	१०६	१	१०५	११	पुरुष वेद व हास्यादि ६	११२	७	११	११	११२	१०५
६/VII	४	म. क्रोध	१०५	१	१०४	४	स क्रोध	१०५	१	४	४	१०५	१०५
६/VIII	३	स मान	१०४	१	१०३	३	स मान	१०४	१	३	३	१०४	१०३
६/IX	२	स माया	१०३	१	१०२	२	स माया	१०३	१	२	२	१०३	१०२
गुण स्थान	व्युच्छित्तिकी प्रकृतियाँ				व्युच्छित्तिकी प्रकृतियाँ				अमरत्व				
१०	सज्जलन लोभ												
१२/1	(द्विचरम समयमें) निद्रा, प्रचला												
१२/11	(अन्त समयमें) ६ ज्ञानानरणी, ४ दर्शनानरणी, ६ अन्तराम = १४												
१३	×												
१४/1	(द्विचरम समय) ६ शरीर, ६ बन्धन, ६ मघात, ६ अंगोपांग, ३ अंगोपांग, ३ अर्ण, २ गन्ध, ४ रस, २ स्पर्श = ६०+स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, स्वरूप, वैमद्विज, विहायांगतिद्वय, दुर्मग, निर्माण, अयशा, अनादेय, प्रत्येक, अपयसि, अपुरुल्लु, उपधात, परधात, उच्छ्रदास, अनुस्यरूप अन्यतम वेदनीय, नीचगोत्र = ७२												
१४/11	(चरम समयमें) शेष उदयवानी वेदनीय, मनुष्य शिक, पचेन्द्रिय सुभग, श्रम, धार, नर्मासि, आदेय, यश, तीर्थंर, उच्चगोत्र = १३												

२. सातशय मिथ्यादृष्टिमें सर्व प्रकृतियोंका सत्त्व चतुष्क—(घ ६/२०७-२१३)

दृष्टव्य—(घ ६/२६८) प्रथमोपम सहित सयमासयमके अभिमुख सातशय मिथ्यादृष्टिका स्थिति सत्त्व इस सारणीमें कथित अन्त कोटाकोटिसे संख्यात गुणा हीन अन्त कोटाकोटि जानना।

क्र	प्रकृतिका नाम	सत्त्व				क्र.	प्रकृतिका नाम	सत्त्व			
		प्रकृति	स्थिति	अनुभाग	प्रदेश			प्रकृति	स्थिति	अनुभाग	प्रदेश
१	ज्ञानावरणीय					३	पचेन्द्रिय जाति	है	अन्तको को	चतु स्थान	अजघन्य
	पाँचो	है	अन्तको को	द्विस्थान	अजघन्य		औदारिक शरीर	"	"	"	"
२	दर्शनावरणीय—						वैक्रियरू "	"	"	"	"
१	निद्रा-निद्रा	है	"	"	"		आहारक "	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
२	प्रचला-प्रचला	"	"	"	"	४	तेजस कार्माण	है	अन्तको को	चतु स्थान	अजघन्य
३	स्थान गृद्धि	"	"	"	"	५	अगोपग	—	स्व स्व	शरीरवत्	—
४	शेष सर्व	"	"	"	"	६	निर्माण	है	अन्तको को	चतु स्थान	अजघन्य
३	वेदनीय—					७	बन्धन	—	स्व स्व	शरीरवत्	—
१	साता	"	"	चतु.स्थान	"	८	सघात	—	"	"	—
२	असाता	"	"	द्वि. "	"	९	सम चतुरङ्गसस्थान	है	अन्तको को	चतु स्थान	अजघन्य
४	मोहनीय—					१०	शेष पाँच	"	"	द्वि. "	"
१	दर्शनमोह	प्रस्थान (२८) (२७)				११	वज्र ऋषभ नाराच	"	"	चतु "	"
१	सम्यग् प्रकृति	है नहीं	"	"	"	१२	शेष पाँच सहनन	"	"	द्वि "	"
११	मिथ्यात्व	है है	"	"	"	१३	वर्ण, गन्ध, रस व	"	"	"	"
१११	सम्यग्मिथ्यात्व	है नहीं	"	"	"	१४	स्पर्श प्रशस्त	"	"	चतु "	"
	"	२६ प्रस्था. में भी है	"	"	"	१५	अप्रशस्त	"	"	द्वि "	"
२	चारित्र्य मोह—					१६	आनुपूर्वी	—	स्व स्व	शरीरवत्	—
१	अनन्ता चतु	है	"	"	"	१७	अगुरु लघु	है	अन्तको को	चतुस्थान	अजघन्य
११	अप्रत्याख्यान	"	"	"	"	१८	उपघात	"	"	द्वि. "	"
१११	प्रत्याख्यान	"	"	"	"	१९	परघात	"	"	चतु "	"
१४	सञ्चलन "	"	"	"	"	२०	आतप	"	"	"	"
५	सर्व नोकपाय	"	"	"	"	२१	उद्योत	"	"	"	"
६	आयु—					२२	उच्छ्वास	"	"	"	"
१	नरक, तिर्यचगति	व. मु. है	व. मु. है	द्विस्थान	अजघन्य	२३	विहायोगति	"	"	"	"
२	मनुष्य, देवगति	"	"	चतु "	"	२४	प्रशस्त	"	"	चतु "	"
६	नाम—					२५	अप्रशस्त	"	"	द्वि "	"
१	नरक, तिर्यचगति	है	अन्तको को	द्विस्थान	"	२६	प्रत्येक	"	"	चतु "	"
२	मनुष्य, देवगति	"	"	चतु "	"	२७	साधारण	"	"	द्वि "	"
२	१-४ इन्द्रि जाति	"	"	द्वि "	"	२८	व्रस	"	"	चतु "	"
						२९	स्थावर	"	"	द्वि "	"
						३०	सुभग	"	"	चतु "	"
						३१	दुर्भग	"	"	द्वि "	"
						३२	सुस्वर	"	"	चतु "	"
						३३	दुस्वर	"	"	द्वि "	"

क्र	प्रकृतिका नाम	सत्त्व				क्र	प्रकृतिका नाम	सत्त्व			
		प्रकृति	स्थिति	अनुभाव	प्रदेश			प्रकृति	स्थिति	अनुभाव	प्रदेश
३०	शुभ	है	अन्तको को.	चतु स्थान	अजघन्य	७	गोत्र—				
३१	अशुभ	"	"	द्वि "	"	१	उच्च	है	अन्तको को	चतु. स्थान	अजघन्य
३२	बादर	"	"	चतु. "	"	२	नीच	"	"	द्वि. "	"
३३	सूक्ष्म	"	"	द्वि "	"	८	अन्तराय—	"	"	"	"
३४	पर्याप्त	"	"	चतु "	"		पाँचों	"	"	"	"
३५	अपर्याप्त	"	"	द्वि "	"			"	"	"	"
३६	स्थिर	"	"	चतु "	"						
३७	अस्थिर	"	"	द्वि "	"						
३८	आदेय	"	"	चतु "	"						
३९	अनादेय	"	"	द्वि. "	"						
४०	यश कीर्ति	"	"	चतु. "	"						
४१	अयश कीर्ति	"	"	द्वि "	"						
४२	तीर्थकर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं						

सारणीमें प्रयुक्त संकेतोंका अर्थ—
अन्त को को. = अन्त कोडाकोटि भाग ।
द्विस्थान = निम्न व काजीर रूप अनुभाग ।
चतु स्थान = गुड, खांड, अमृत व शर्करा रूप अनुभाग ।
म = वध्यमान आयुष्क ।
धु = भुज्यमान आयुष्क ।

३. प्रकृति सत्त्व व्युच्छित्तिकी आदेश प्ररूपणा

द्रष्टव्य—सर्वत्र ओषवत् । सत्त्व योग्य प्रकृतियोंकी अपेक्षा प्ररूपणामें भी प्रकृतियोंकी हीनाधिकता कर देना । किसी गुणस्थानमें कोई विशेषता है वह दे दी गयी है ।

मार्गणा	गुण स्थान	असत्त्व	कुल सत्त्व योग्य	असत्त्व	सत्त्व	कुल गुण स्थान
गति मार्गणा—						
नरक गति—(गो.क/भापा/३४६/४६८)						
सामान्य		देवायु	१४८	१	१४७	४
१-३ पृथिवी		स्वस्थान उद्वेलना—आ द्वि	१४६	४	१४१	४
४-६ "		सम्यग्, मिश्र=४				
७ "		—				
तिर्यंच गति—(गो क/भापा/३४६/४६६-४००)		देवायु, तीर्थकर=२	१४८	२	१४६	४
सामान्य		देव, मनुष्यायु, तीर्थ=३	१४८	३	१४६	४
अविरत सम्य		तीर्थकर=१	१४८	१	१४७	६
सयतासयत		४ थे गुण स्था में नरक, मनुष्य,	१४७	×	१४७	—
पंचेन्द्रिय प,		आयुकी व्युच्छित्ति	१४७	२	१४६	—
		×				
		—				
			सामान्य तिर्यंचवत्			

क्र.	मार्गणा	गुण स्थान	असत्त्व	कुल सत्त्व योग्य	असत्त्व	सत्त्व	कुल गुण स्थान
३	योनिमति प		—	सामान्य तिर्यंचवत्			—
४	तिर्यंच ल अप,		तीर्थ, देवायु, नरकायु	१४८	३	१४५	१
३	मनुष्यगति—(गो क./भाषा/३४६/५०३)						
१	सामान्य		×	१४८	×	१४८	१४
	सयतासंयत		तिर्यंच, नरकायु	१४८	२	१४६	—
२	मनुष्य पर्याप्त		—	मनुष्य सामान्यवत्			—
३	मनुष्यणी प		—				—
	(तीर्थ सहित क्षपक)	७	स्त्री वेदकी व्युच्छित्ति	१४६	×	१४६	—
	"	"	×	१४६	१	१४५	—
४	ल. अप मनुष्य		तीर्थ, देवायु, नरकायु	१४८	३	१४५	१
४	देवगति—(गो. क./भाषा)						
१	सामान्य		नरकायु	१४८	१	१४७	४
२	भवनत्रिक देव		तीर्थकर, नरकायु	१४८	२	१४६	४
३	सौधर्म ईशानदेवी		—	भवनत्रिकवत्			—
४	सौधर्म-सहस्रार		—	सामान्य देववत्			—
५	आनत-नवग्रैवेयक		नरक, तिर्यंचायु	१४८	२	१४६	४
६	अनुदिश-सर्वार्थसिद्धि		" "	१४८	२	१४६	१ चौथा
५	चारो गतिके उद्वेलना सहित जीव						
१	सामान्य		तीर्थ, देवायु, नरकायु	१४८	३	१४५	—
२	आहार द्वि.की उद्वेलना सहित		अहारक द्विक	१४५	२	१४३	—
३	सम्यग्की		सम्यक्त्व मोह	१४३	१	१४२	—
४	मिश्रकी		मिश्र मोह	१४२	१	१४१	—
२	इन्द्रिय मार्गणा—						
१	१-४ इन्द्रिय						
	सामान्य		तीर्थकर, देव, नरकायु	१४८	३	१४५	०
	उद्वेलना सहित—						
(1)	उत्पन्न उद्वेलना		आहा द्वि, सम्य, मिश्र,	१४५	४	१४१	२
(11)	" "		उच्चगोत्र	१४१	१	१४०	२
(111)	" "		मनुष्यद्विक	१४०	२	१३८	२
1	स्वस्थान उद्वेलना		देवद्विक	१४१	२	१३९	२
11	"		नरक चतु (नरक द्विक)	१३९	४	१३५	०
			वैकि द्विक				
	11 व 111 की उत्पन्न उद्वेलना वाला			(1)			
	यदि स्वस्थानमें भी करेंगे			(11)			
२	पंचेन्द्रिय		×	१४८	×	१४८	१४
३	काय मार्गणा—(गो क /भाषा /३४६-३५१/५०२-५०६)						
१	पृथि अप वन सा		देवायु, नरकायु, तीर्थ	१४८	३	१४५	२
	उद्वेलना सहित		—	१-४ इन्द्रियवत्			—
२	तेज. वातकाय सा		देव, नरक, मनुष्यायु, तीर्थ	१४८	४	१४४	१
	उद्वेलना सहित उत्पन्न स्थानमें		आहारक द्विक	१४४	२	१४२	१
			सम्यक्त्व मोह	१४२	१	१४१	१
			मिश्र मोह	१४१	१	१४०	१
			देव द्विक	१४०	२	१३८	१

क्र	मार्गणा	गुण स्थान	अमत्त्व	कुल सत्त्व योग्य	असत्त्व	सत्त्व	कुल गुण रयान
	स्व स्थानमें		नरक द्वि, वैक्रि, द्वि उच्च गोत्र मनुष्य द्वय	१३८ १३६ १३४ १३८	४ १ २ ×	१३४ १३५ १३९ १४८	१ १ १ १४
३	पचेन्द्रिय —		×				
४	योग मार्गणा—(गो क/भाषा/३५२-३५३/१०६-१०८)						
१	चार मन, चार वचन व औदारिक काय योग		×	१४८	×	१४८	१२, १३
२	आहारक व आ. मिश्र		नरकायु, तिर्यचायु	१४८	२	१४६	१ (६)
३	वैक्रियक		×	१४८	×	१४८	×
४	वैक्रियक मिश्र	१	तीर्थकर प्रकृतिवाना तीसरे नरक तक या देवगतिमें जाता है । तिर्यच, मनुष्यायु	१४८	२	१४६	४
		१, ४		१४६	×	१४६	
		२	आ द्वि, तीर्थ, नरफायु	१४६	४	१४२	—
		३	— ओषवत् —	—	—	—	—
५	औदारिक मिश्र		देवायु, नरकायु	१४८	२	१४६	१-४ व १३ वां
६	कार्माण		— वैक्रियक मिश्र व सहयोगीवत् —	१४८	×	१४८	४
५	वेद मार्गणा—(गो क/जी प्र/३५४/१०८/१)						
१	पुरुष वेद		×	१४८	×	१४८	१४
२	स्त्री वेद सा		×	१४८	×	१४८	१४
३	, क्षपक श्रेणी नपुंसक वेद		तीर्थकर — स्त्रीवेदवत् —	१४८	१	१४७	६ (८-१४)
६.	कषाय मार्गणा—						
	क्रोधादिमें गुणस्थान	६	लोभमें गुणस्थान १०	१४८	×	१४८	६ या १०
७.	ज्ञान मार्गणा—(गो क/जी प्र/३५४/१०८/६)						
१	कुमति, कुश्रुत, विभग		×	१४८	×	१४८	२
२	मति, श्रुत, अवधि		×	१४८	×	१४८	४-१२
३	मन पर्यय		नरक तिर्यचायु	१४८	२	१४६	६-१२
४	केवल		ओषवत् व्युच्छिन्ति	१४८	६३	८५	१३-१४
८	सयम मार्गणा—(गो क/जी प्र/३५४/१०८/६)						
१	सामान्य						
२	सामायिक छेदोपस्था		नरक, तिर्यचायु	१४८	२	१४६	६-६
३	परिहार विशुद्धि		"	"	"	"	६-७
४	सूक्ष्म साम्पराय (उप)		"	"	"	"	१ (१०)
५	" " (क्षपक)		ओषवत् ४६ व्युच्छिन्ति	१४८	४६	१०२	१० वां
६	यथाख्यात उप × उपशम		नरक, तिर्यचायु	१४८	२	१४६	१ (११)

क्र	मार्गणा	गुण स्थान	अमत्त्व	कुल मत्त्व योग्य	जमत्त्व	मत्त्व	कुल गुण स्थान
	यथाख्यात क्षा (× उपशम,)		नरक, तिर्यंच, देवायु, दर्शन मोहकी	१४८	६	१३६	१ (११)
६	सयतासंयत		३, अनन्तानुबन्धि ४	१४८	४७	१०१	१२-१७
७	असयत		ओषवत् व्युच्छिन्न ४७	१४८	१	१४७	१ (७)
९	दर्शन मार्गणा—(गो क/जी. प्र/३५४/५०६/५)		नरकायु ×	१४८	×	१४८	१-४
१	चक्षु, अचक्षु दर्शन		×	१४८	×	१४८	१-१२
२	अवधि दर्शन		×	१४८	×	१४८	६-१२
३	केवल "		ओषवत् व्युच्छिन्न	१४८	६३	८६	१३-१४
१०	लेश्या मार्गणा—(गो क/जी प्र/३५४/५०६/७)						
१	कृष्ण, नील		तीर्थकर	१४८	१	१४७	४
२	कापोत	१	×	१४८	×	१४८	४
३	पीत, पद्म	१	×	१४८	×	१४८	१-७
४	शुक्ल	१	तीर्थकर (तीर्थ, सत्त्ववाला नरक जानेके सम्मुख होय तभी मम्यवत्त्व जो छोड़े। परन्तु तब लेश्या भी कापोत हो जाये। क्योंकि शुभ लेश्यामें मम्यवत्त्वकी विराधना नहीं होती।)	१४८	१	१४७	—
११	भव्यत्व मार्गणा—(गो. क/जी प्र/३५४-३६५/७०६-६१०/१६)						
१	भव्य		×	१४८	×	१४८	१४
२	अभव्य		तीर्थ, मम्य., मिश्रमोह, आ. द्वि., आ बन्धन सघात द्वय=७	१४८	७	१४१	१
१२	सम्यक्त्व मार्गणा—(गो.क/जी प्र/३६५/६१२/१)						
१	क्षायिक मम्य.		नरक, तिर्यंचायु, दर्शन, मोह ३, अनन्ता, व, ४	१४८	७	१४१	४-१४
२	वेदक मम्य		×	१४८	×	१४८	४-७
३	उपशम "		×	१४८	×	१४८	४-११
४	द्वितीयोपशम (ल सा/२२०)		अनन्ता व ४, नरक, तिर्यंचायु	१४८	६	१४२	७-११
४	सम्यग्मिथ्यात्व		तीर्थकर	१४८	१	१४७	१ (३)
५	सासादन		तीर्थ., आ द्वि=३	१४८	३	१४५	१ (२)
६	मिथ्यादृष्टि		×	१४८	×	१४८	१
१३	सज्ञा मार्गणा—(गो. क/जी प्र/३६५/६१२/७)						
१	सज्ञी		×	१४८	×	१४८	१-१२
२	असज्ञी		तीर्थकर	१४८	१	१४७	२
१४	आहारक मार्गणा—(गो क/जी प्र/३६५/६१२/६)						
१	आहारक		×	१४८	×	१४८	१३
२	अनाहारक		×	१४८	×	१४८	४
		१२, ४ १३	— वामाणि वायु योगवत् — — ओषवत् —	— —	— —	— —	(१, २, ३ १३, १४)

३. मोह प्रकृति सत्त्वकी विभक्ति अविभक्ति

प्रमाण—क पा २/९ १०१/२३-२७ ।

उक्तेन—२२ प्र = मोहकी सर्व २८ प्रकृतियाँ ७ प्र = दर्शन मोह ३+ अनन्तानु ४; ६ प्र = मिथ्यात्व रहित ७, २ प्र = सम्य, व मिश्र मोह

प्रमाण	मार्गणा	विभक्ति अविभक्तिकी प्रकृति या शेषकी विभक्ति				
		२२ प्र.	७ प्र.	७ प्र	२ प्र	अन्य विकल्प
१	गति मार्गणा					
२३	नरक गति सामान्य	×	"	×	×	×
२४	प्रथम पृथिवी	×	"	×	×	×
२५	२-७ पृथिवी	×	×	"	×	×
२६	तिर्यंच सामान्य	×	"	×	×	×
२७	पंचेन्द्रिय ति सा प	×	"	×	×	×
२८	तिर्यंच योनिमति	×	×	"	×	×
२९	पंचे ति ल, अप	×	×	×	"	×
३०	मनुष्य त्रिक	"	×	×	×	×
३१	मनुष्य ल, अप	×	×	×	"	×
३२	देव सामान्य	×	"	×	×	×
३३	भवनत्रिक देवी	×	×	"	×	×
३४	सर्वरूप वासी	×	"	×	×	×
२	इन्द्रिय मार्गणा					
३५	सर्व एकेन्द्रि प अप	×	×	×	"	×
३६	" विपलेन्द्रि प अप	×	×	×	"	×
३७	" पचेन्द्रिय सा, प	"	×	×	×	×
३८	, पचे ल, अप,	×	×	×	"	×
३	काय मार्गणा	—	इन्द्रिय मार्गणावत्	—	—	—
४	योगमार्गणा					
३९	पौर्षो मनीयोग	"	×	×	×	×
४०	" वचन "	"	×	×	×	×
४१	नाय योग सामान्य	"	×	×	×	×
४२	औ, औ, मिश्र	"	×	×	×	×
४३	वै, वै मिश्र	×	"	×	×	×
४४	आ, आ मिश्र	×	"	×	×	×
४५	रामार्ग	"	×	×	×	×
५	वेद मार्गणा					
४६	स्त्री वेद	×	×	×	×	अत्रय, आदि १२ क्पाय, दर्शन मोह ३, नपु. = १६ की वि अवि शेष १२ की अवि ।
४७	पुंर वेद	×	×	×	×	सज्व ४, व पुरुष वेदके बिना २३ की विभक्ति अवि, । और इन १ की वि ।
४८	रामर वेद	×	×	×	×	१२ क्पाय दर्शनमोह ३, नपु इन १६ की वि, अवि । शेष १० की वि ।
४९	दशम वेद	×	×	×	×	अनन्तानु ४के बिना २४ वि अवि अनन्तानु, की विभक्ति ।

प्रमाण	मार्गणा	२८ प्र.	७ प्र.	७ प्र.	२ प्र.	अन्य विकल्प
६	कपाय मार्गणा					
८६	क्रोध	×	×	×	×	सज्व ४ विना २४ की वि, अवि
८६	मान	×	×	×	×	सज्व, मान, माया, लोभ विना २६ की वि अवि ।
८६	माया	×	×	×	×	सज्व, माया, लोभ, विना २७ की वि अवि
८६	लोभ	×	×	×	×	सज्व, लोभ विना २७ की वि, अवि.
८६	अकपायी	×	×	×	×	अनन्तानु ४ विना २४ की वि अवि,
७	ज्ञान मार्गणा					
८४	मत्ति, श्रुत, अज्ञान	×	×	×	,"	×
८४	विभग ज्ञान	×	×	×	,"	×
८३	मत्ति, श्रुत, अवधि	,"	×	×	×	×
८३	मन पर्यय	,"	×	×	×	×
८	सयम मार्गणा					
८३	संयम सा,	,"	×	×	×	×
८६	सामायि, छेदो	×	×	×	×	सज्व लोभ विना २७ की वि अवि
८४	परिहार विशुद्धि	×	,"	×	×	×
८६	सूक्ष्म साम्पराय	×	×	×	×	मज्व लोभ अनन्ता ४ विना २३ की वि, अवि
८६	यथाख्यात	×	×	×	×	अनन्ता ४ विना २४ की वि अवि
८४	सयतासयत	×	,"	×	×	×
×	असयत	×	×	×	×	×
९	दर्शन मार्गणा					
८३	चक्षु, अचक्षु	,"	×	×	×	×
८३	अवधि	,"	×	×	×	×
१०	लेख्या मार्गणा					
८४	कृष्णादि ५	×	,"	×	×	×
८३	शुक्ल	,"	×	×	×	×
११	भव्य मार्गणा					
८३	भव्य	,"	×	×	×	
८७	अभव्य	×	×	×	×	सम्य, मित्र मोह विना २६ की वि, अवि ।
१२	सम्यक्त्व मार्गणा					
८३	सम्यक्त्व सा	,"	×	×	×	
८७	क्षायिक	×	×	×	×	अनन्ता, ४, दर्शन मोह ३ विना २१ की वि, अवि
८७	वेदक	×	×	×	×	अनन्ता, ४, सम्य, मित्र मोह विना २२ की वि., अवि
८७	उपशम	×	×	×	×	अनन्ता ४ विना २४ की वि, अवि
८७	सम्यग्मिध्यादृष्टि	×	×	×	×	," " " "
८७	सासादन	×	×	×	×	सर्व २८ की वि । × की वि. अवि ।
८७	मिध्यादृष्टि	×	×	×	,"	
१३	संशी मार्गणा					
८३	संशी	,"	×	×	×	×
८५	असंशी	×	×	×	,"	×
१४	आहारक मार्गणा					
८३	आहारक	,"	×	×	×	×
८३	अनाहारक	,"	×	×	×	×

स्थान नं	स्थानका स्वामी	असुरत्वकी प्रकृतियाँ	असुरत्वके भग		वज्रायुष्मके भग		प्रति स्थान भग	असुरत्वके भग
			प्रति स्थान भग	विवरण	प्रति स्थान भग	विवरण		
५.	अधिराज सम्पत्—गो क/३७६-३९/४७०-४४६ कुल स्थान=४० (वज्रा =२०, अवज्रा =२०), कुल भग=१२० (वज्रा =६०, अवज्रा =६०)							
१	तीर्थका सरन तिर्य, को न हो ।	तिर्यं च व अन्य कोई आयु	१४८ २ १४६	२	यु मनु, व. नरक, यु. मनु, व देव Vice versa	२	अन्यतम ३ आयु	
२		उपरोक्त २+अनन्ता, ४	१४६ ४ १४२	२	"		"	
३		उपरोक्त ६+मिथ्यात्व	१४२ १ १४१	२	"		यु मनुष्यायु	
४		" + मिश्र व मिथ्यात्व	१४२ २ १४०	२	"		यु अन्यतम तीन	
५		" + दर्शन मोह ३	१४२ ३ १३९	२	"		"	
६		तीर्थ, यु व विना २ आयु	१४८ ३ १४५	५	दिलो आयु कर्मके सत्त्व स्थान)		अन्यतम चारों आयु	
७		यु व विना २ आयु, अन. ४, तीर्थ =७	१४८ ७ १४१	५	"		चारों सुखमानायु	
८	मनुष्य	उपरोक्त ७+मिथ्यात्व	१४८ ८ १४०	३	यु मनु, व ति, नारक देव । व मनु, पुनरुक्त		यु, मनुष्यायु	
९		उपरोक्त +मिथ्यात्व, मिश्र	१४८ ९ १३९	३	"		चारों यु आयु	
१०		" + दर्शनमोह ३	१४८ १० १३८	४	यु नरक, व. मनु, यु ति व देव, यु. मनु, व देव, यु. मनु व ति. !		अन्यतम ३ आयु	
११		ति व अन्य कोई आयु, आ चतु	१४८ ६ १४२	२	"		"	
१२		+ ४ अनन्तायु	१४२ ४ १३८	२	"		अन्यतम ३ आयु	
१३		+ मिथ्यात्व	१३८ १ १३७	२	"		"	
१४		+ मिश्र	१३७ १ १३६	२	"		अन्यतम ३ आयु	
१५		+ सम्भवत्व	१३६ १ १३५	२	"		"	
१६		अन्यतम २ आयु, तीर्थ, आ चतु	१४८ १ १४१	५	(देलो आयु कर्मके सत्त्व स्थान)		चारोंमें अन्यतम आयु	
१७		+ अनन्तायु ४	१४१ ४ १३७	५	"		"	
१८		+ मिथ्यात्व	१३७ १ १३६	३	यु मनु व ति, नारक, देव / व मनुष्य पुनरुक्त		यु मनु	
१९		+ मिश्र	१३६ १ १३५	३	"		अन्यतम ४ आयु	
२०		+ सम्भवत्व	१३५ १ १३४	४	देलो न (१०)		"	
				४				
				६०				
५.	देश सयत—(गो क/३७६/५६०) कुल स्थान=४० (वज्रा, २०, अवज्रा. =२०) कुल भग=४८ (वज्रा, =२४; अवज्रा =२४)							
१-५	अधिराज	अधिराजत्व			बोसों स्थानोंमें यु मनु, व. देवका एक भग	१५५	यु मनुष्य	
६-७	"	"			यु मनु, व देव / यु ति, व. देव ।	२५२	यु मनु या तिर्यं च	
८-१०	"	"			यु मनु, व देवका एक भग सर्वत्र	१५८	यु मनु सर्वत्र	
११-१२	"	"			स ६, ७ वत्	२५२	स. ६, ७ वत्	
१३-२०	"	"			सं १-५ वत्	१५३	स. १-५ वत्	
				२४				
६-७	प्रगत असयत सयत—(गो क/३७६/५६०) कुल स्थान ४०=(वज्रा =२०, अवज्रा. =२०) कुल भग=१२० (वज्रा =६०, अवज्रा =६०)				यु मनु, वज्रा देवका एक भग सर्वत्र	१५२०	यु मनु सर्वत्र	
१-२०	अधिराजत्व	अधिराजत्व				२०		

८. अन्नस्य विधी (एत एत मन्वन्तर)

(१० ७ / १८१-१८७/१४१-१४३)—स्थान-२४, अंग-२४ ।

अन्तर-ब्राह्मणस्य विद्यास्य चतुर्वर्षिके अनुमाने यहाँ स्थान नं. १,२,७,८,१३,१४,१९ इन आठ स्थानोंको छोड़कर १६ स्थान व १६ भग होते हैं ।

(१० ७ / १२१(४८) ।

क्र.सं.	अन्नस्य विधी प्रकृतियाँ	पट्टे मन्त्र योग्य	अस्यव	अम स्यव योग्य	भंग	विवरण
१	मन्त्र, विधी आमु	१४८	२	१४६	१	मन्त्रायु मनुष्य
२				१४५	१	अन्नमायु मनुष्य
३	अन्नस्य विधी	१४६	४	१४२	१	मन्त्रायु मनुष्य
४				१४१	१	अन्नमायु मनुष्य
५	मन्त्रस्य विधी	१४२	३	१३९	१	मन्त्रायु मनुष्य
६				१३८	१	अन्नमायु मनुष्य
७	मन्त्र विधी आमु + तीर्थ	१४८	३	१४५	१	मन्त्रायु मनुष्य
८				१४४	१	अन्नमायु मनुष्य
९	अन्नस्य विधी	१४५	४	१४१	१	मन्त्रायु मनुष्य
१०				१४०	१	अन्नमायु मनुष्य
११	मन्त्रस्य विधी	१४१	३	१३८	१	मन्त्रायु मनुष्य
१२				१३७	१	अन्नमायु मनुष्य
१३	मन्त्र-विधी आमु + आमु + आमु	१४८	६	१४२	१	मन्त्रायु मनुष्य
१४				१४१	१	अन्नमायु मनुष्य
१५	अन्नस्य विधी	१४२	४	१३८	१	मन्त्रायु मनुष्य
१६				१३७	१	अन्नमायु मनुष्य
१७	मन्त्रस्य विधी	१३८	३	१३५	१	मन्त्रायु मनुष्य
१८				१३४	१	अन्नमायु मनुष्य
१९	मन्त्र-विधी आमु + आमु + आमु + तीर्थ	१४८	७	१४१	१	मन्त्रायु मनुष्य
२०				१४०	१	अन्नमायु मनुष्य
२१	अन्नस्य विधी	१४१	४	१३७	१	मन्त्रायु मनुष्य
२२				१३६	१	अन्नमायु मनुष्य
२३	मन्त्रस्य विधी	१३७	३	१३४	१	मन्त्रायु मनुष्य
				१३३	१	अन्नमायु मनुष्य

९-१) अन्नस्य विधी (एत एत मन्वन्तर)

(१० ७ / १८१/१८३) स्थान २४ अंग २४ ।

अन्तर-२४ ब्राह्मणस्य विद्यास्य चतुर्वर्षिके अनुमाने यहाँ स्थान १६, अंग-१६ ।

→ मन्त्रस्य विधी आमु + आमु + आमु + तीर्थ

८. क्षपक श्रेणी (अपूर्व कारण)

(गो क./३८५/५७३)—स्थान=४, भग=४।

द्रष्टव्य—ब्रह्मायुष्मको क्षपक श्रेणी सम्भव नहीं अतः केवल अब्रह्मायुष्मक मनुष्यके ही स्थान है।

स्थान स.	असत्त्ववाली प्रकृतियाँ	पहले सत्त्व योग्य	असत्त्व	असत्त्व योग्य	भग	विवरण
१	तीन आयु + अनन्त चतु + दर्शनमोह त्रिक.	१४८	१०	१३८	१	×
२	तीर्थंकर	१३८	१	१३७	१	×
३	आहा चतु.	१३८	४	१३४	१	×
४	आहा चतु + तीर्थ	१३८	५	१३३	१	×

९. क्षपक श्रेणी (अनिवृत्तिकरण)

(गो क./३८६-३८८/५७४-६६६)—स्थान=३६, भग=

द्रष्टव्य—गो सामें पुरुष वेदी व स्त्रीवेदी दोनोंके समान आलाप मानकर कुल स्थान ३६ बताये हैं, पर भारणी १ के अनुसार पुरुष व स्त्री-वेदीके आलापोंमें कुछ अन्तर होनेसे यहाँ स्थान ४४ बनते हैं।

सकेत—पु. वेदी=पुरुषवेदीदय सहित श्रेणी चढने वाला।

स्त्रीवेदी—स्त्रीवेदीदय सहित श्रेणी चढने वाला।

नपु वेदी=नपुसकवेदीदय सहित श्रेणी चढने वाला।

द्रष्टव्य—केवल अनब्रह्मायुष्मक मनुष्यके आलाप ही सम्भव है क्योंकि ब्रह्मायुष्मक क्षपक श्रेणी पर नहीं चढ सकता।

गुण स्थान	सत्त्व स्थान	असत्त्ववाली प्रकृतियाँ	पहले सत्त्व योग्य	असत्त्व	असत्त्व योग्य	भग	विवरण
६/१	१	३ आयु + अनन्त चतु + दर्शनमोह त्रि	१४८	१०	१३८	१	×
	२	तीर्थंकर	१३८	१	१३७	१	×
	३	आहारक चतु	१३८	४	१३४	१	×
	४	आहा चतु + तीर्थ	१३८	५	१३३	१	×
६/११	१	नरक द्वि, तिर्य, द्वि १-४ इन्द्रिय, स्वयान त्रिक, आतप उद्योत, मूष्म, साधारण, स्थावर=१६।	१३८	१६	१२२	१	×
	२	तीर्थंकर	१२२	१	१२१	१	×
	३	आहा चतु.	१२२	४	११८	१	×

गुण संख्या	संख्या संख्या	अक्षरसंख्या मन्त्राणां	मन्त्रे मन्त्रसंख्या	प्रमाण	संख्या संख्या	संख्या	विशेष
६/II	४	आ चतु + तीर्थं	१२२	१	११३	१	४
६/III	१	अक्षरा ४-संख्या ४-५	१२३	२	११४	१	४
	२	तीर्थं च	११४	१	११३	१	४
	३	आ चतु	११४	४	११५	१	४
	४	आ चतु + तीर्थं	११४	६	११६	१	४
६/IV	१	५	११४	५	११५	१	४ वेदी व ४५, ४६
	२	तीर्थं च	११४	१	११३	१	४
	३	ननु	११४	१	४	१	४ वेदी
	४	तीर्थं + चतु	११४	३	११३	१	४
	५	आ चतु	११४	४	११५	१	४ वेदी व ४५, ४६
	६	आ चतु + ननु	११४	६	११६	१	४ वेदी
६/V	१	आ चतु + तीर्थं	११४	६	४	१	४ वेदी व ४५, ४६
	२	आ चतु + तीर्थं + चतु	११४	९	११७	१	४ वेदी
	३	५	११४	५	११५	१	४ वेदी
	४	तीर्थं च	११४	१	११३	१	४
	५	तीर्थं वेद	११४	१	४	१	४ वेदी व ४५ वेदी
	६	तीर्थं + तीर्थं वेद	११४	२	११२	१	४
	७	आ चतु	११४	४	११५	१	४ वेदी
	८	आ चतु + तीर्थं	११४	६	४	१	४ वेदी व तीर्थं वेदी
६/VI	१	आ चतु + तीर्थं + तीर्थं	११४	९	४	१	४ वेदी
	२	आ चतु + तीर्थं + तीर्थं	११४	९	४	१	४ वेदी व तीर्थं वेदी
	३	आ चतु + तीर्थं + तीर्थं	११४	९	४	१	४ वेदी
	४	आ चतु + तीर्थं + तीर्थं	११४	९	४	१	४ वेदी व तीर्थं वेदी

गुण स्थान	सत्त्व स्थान	असत्त्व वाली प्रकृतियाँ	पहले सत्त्व योग्य	असत्त्व	अय सत्त्व योग्य	भाग	विवरण
६/vi	१	स्त्री व नपु	११४	२	११२	१	गीवेदी व नपु वेदी
	२	तीर्थकर	११२	१	१११	१	"
	३	आ चतु	११२	४	१०८	१	"
	४	आ, चतु + तीर्थ	११२	५	१०७	१	"
	५	हास्यादि ६	११२	६	१०६	१	पु वेदी
	६	तीर्थ,	१०६	१	१०५	१	"
	७	आ, चतु	१०६	४	१०२	१	"
	८	आ चतु. + तीर्थ	१०६	५	१०१	१	"
६/vii	१	पु वेद	१०६	१	१०५	१	तीनों वेदी
	२	तीर्थकर	१०५	१	१०४	१	"
	३	आ चतु.	१०५	४	१०१	१	"
	४	आ चतु. + तीर्थ	१०५	५	१००	१	"
६/viii	१	सज्व, क्रोध	१०५	१	१०४	१	×
	२	तीर्थकर	१०४	१	१०३	१	×
	३	आहा चतु	१०४	४	१००	१	×
	४	आ. चतु + तीर्थ	१०४	५	९९	१	×
६/ix	१	सज्व, मान	१०४	१	१०३	१	×
	२	तीर्थकर	१०३	१	१०२	१	×
	३	आ चतु.	१०३	४	९९	१	×
	४	आ चतु + तीर्थ	१०३	५	९८	१	×
१०. सूक्ष्म साम्प्रदाय (क्षपक) (गो.क./३८६/५५६) - स्थान = ४, भाग = ४							
	१	सज्व माया	१०३	१	१०२	१	×
	२	तीर्थकर	१०२	१	१०१	१	×
	३	आ. चतु	१०२	४	९८	१	×
	४	आ चतु + तीर्थ	१०२	५	९७	१	×

गुण स्थान	सत्त्व स्थान	असत्त्ववाली प्रकृतियाँ	पहले सत्त्व योग्य	असत्त्व	अम सत्त्व योग्य	भंग	विषय
११		क्षीण कपाय—(गो क/३६/५६६)—स्थान=८, भंग=८					
१		संज्ञ, लोभ	१०२	१	१०१	१	५
२		तीर्थंकर	१०१	१	१००	१	×
३		आ चतु	१०१	४	९७	१	×
४		आ चतु + तीर्थ'	१०१	५	९६	१	द्वि चरम समय
५		निद्रा, प्रचला	१०१	२	९९	१	चरम समय
६		तीर्थंकर	९९	१	९८	१	..
७		आ. चतु	९९	४	९५	१	..
८		आ चतु + तीर्थ'	९९	५	९४	१	.
१२		सयोगकेवली—(गो क/३६०/५६७)—स्थान=४, भंग=४					
१		५ ज्ञानावरण + ५ दर्शना- वरण + ४ अन्तराय	९९	१४	८५	१	×
२		तीर्थंकर	८५	१	८४	१	×
३		आहा, चतु	८५	४	८१	१	×
४		आ. चतु. + तीर्थ'	८५	५	८०	१	×
१३		अयोग केवली— (गो क/३६०/५६७)—स्थान=८, भंग=८					
१-४		सयोगीवत् चारों स्थान					द्वि चरम समय तक
५		व्युच्छित्ति=७२ (दे चरित्र नं १)	८५	७२	१३	१	चरम समय
६		तीर्थंकर	१३	१	१२	१	..
७		व्युच्छित्ति=१३	१३	१३	×	१	चरम समयके अन्तमें
८		व्युच्छित्ति=१२	१२	१२	×	१	

५. मूल प्रकृति सत्त्व स्थान सामान्य प्ररूपणा

सं.	मार्गणा	कुल स्थान	प्रति स्थान प्रकृति	प्रति स्थान भग	प्रकृतियोंका विवरण
१.	ज्ञानावरणीय—(प स / प्रा / क), (प. स / प्रा / क / ४-२४); (पं. स. / सं. / क), (पं. सं / स. / क / ५-३०), (गो. क. / ६३० / ८३०) १-१२ गुणस्थान	१ १	५	×	पाँचों ज्ञानावरणीय
२.	दर्शनावरणीय—(गो. क. / ६३१-३२ / ८३१)				
१	१-६/१	१	६	१	सर्व दर्शनावरणीय
२	६/११-१२/१	१	६	१	सत्या, त्रिक रहित ६
३	१२/११	१	४	१	चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल
		३			
३.	वेदनीय—(गो. क. / ६३३-६३४ / ८३२)				
१	१-१४/१	१	२	१	दोनों वेदनीय
२	१४/११	१	१	१	साता या असाता
		२			
४.	मोहनीय — (देखो पृथक् सारणी)				
५.	आयु—(गो. क. / ३६६-३७१ / ४२२-४३६)				
१	ब्रह्मायुष्क	२	१	२	(१) भु. मनु, मध्य मनु (११), ति, .. तिर्य (१) भु मनु, म ति ११ c / vice versa (११) भु. मनु व. नारक c / vice versa (१११) भु. मनु व. देव c / vice versa (१११) भु ति, व. नारक c / vice versa (१११) भु ति, व. देव c / vice versa
			२	५	
	अमर्यायुष्क	१	१	४	अन्यतम भु. आयु से ४ भग
		३			
६.	नाम— (देखो पृथक् सारणी)				
७.	गोत्र—(गो. क. / ६३५ / ८३३-८३६)				
१	१-१४/१	१	२	१	दोनों गोत्र
२	१४/११	१	१	१	उच्च गोत्र
		२			
८.	अन्तराय—(गो. ६३० / ८३०)				
१	१-१२/११	१	५	१	पाँचों अन्तराय

६. मोह प्रकृति सत्त्व स्थान सामान्य प्ररूपणा

(क पा २/पृष्ठ), (प स./पा./५/३३-३६), (प, स./मं./५/४२ ४७) मृग सत्त्व योग-२८, मृग सत्त्व स्थान-१५

द्रष्टव्य—अनिवृत्ति करणमें मोहनीयके क्षयका क्रम—

१ नवें गुणस्थानके कालके संख्यासर्वे भागको व्यतीत करके (अप्रमत्त व प्रमत्त) ८ प्रकृतियाँ क्षय करता है।

२ अनन्तर अन्तर्मुहूर्त बिता कर क्रमसे (६/१) में दर्शायी ६ का क्षय करता है।

३ ओषधमें की प्ररूपणा पुरुषवेद सहित चतुर्वेदानोंकी है। यदि स्त्री, नपु वेदके साथ स्त्री चड़े तो ६/११ व ६/१५ में स्त्री वेदकी क्षयना ६ नो कषायोंके साथ युगपत् प्रारम्भ करता है। तहाँ पुरुष वेदकी अन्तिम राश्टरी क्षयनाके निकट उगमे रहने ही स्त्री व नपु वेदोंके अन्तिम खण्डोंका अभाव हो जाता है। तब तहाँ ६/१४ स्थाय प्रयाग ५ के गणने ११ के गणनाया बनता है। फिर ५, वेद व ६ नो-कषायको युगपत् क्षय करके ६/११ में पुरुषवेदीय ही ५ या गणन कर नेता है।

सं	मार्गणा		गु नं.	प्रति स्थान प्रकृति	प्रमाण	प्रकृतियाँका विवरण
	प्रमाण	स्वामी जीव				विवरण
	क पा २/पृ.					क. पा २/पृ.
१	२११	क्षयक मनु मनुष्यणी	६/५	१	२०२	मञ्जवन लोभ
२	२१२	"	६/१५	२	"	मं, लोभ, माया
३	"	"	६/१११	३	"	" " " य माय
४	"	"	६/१११	४	"	चारों मञ्जवन
५	"	"	६/११	५	२०३	चारों सं, व पुरुष वेद
६	"	"	६/५	११	"	४ संज्व, पु वेद, ६ नो कषाय
७	"	"	६/१४	१२	"	४ म, ६ नो कषाय, पु स्त्रीवेद
८	"	"	६/१११	१३	"	" " ३ वेद
९	"	दर्शन मोहके क्षय सहित चारों गणिके जीव	६/११	२१	"	४ अनन्ता रहित चारित्र मोहकी २५
१०	"	दर्शन मोह क्षयक मनुष्य, मनुष्यणी	४-७	२२	"	उपरोक्त २१ व सम्य प्रकृ
११	२१७	"	"	२३	"	मिथ्यात्व, अन रहित सर्व
		(मिथ्यात्वका क्षय कर चुका हो क्षेप दोका क्षय करना बाकी हो)				
१२	२१८	चतुर्गणिके उपशम या वेदक सम्यग्-दृष्टि या सम्प्रगमिथ्यादृष्टि अनन्ता की विरांयोजना सहित	वृत्त-पुरुष वे			
१३	२२१	चतुर्गणिके अनादि या सादि मिथ्यादृष्टि	१	२६	२०३	सम्य व मित्र मोह
१४	२२१	चतुर्गणिके सादि मि (मिष्र मोहकी उद्वेलना सहित)	१	२७	"	सम्य प्रकृति रहित सर्व
१५	"	उपशम व वेदक सम्य, यो १-३ गु स.	१-४	२८	"	सर्व

७. मोह सत्त्व स्थान ओघ प्ररूपणा—(क पा. २/पृष्ठ), (पं.सं/प्रा/५/३६३-३६८), (पं स/सं/५/४०५-४१०), (गो. क./६५५-६५६/८६६-८७८)

द्रष्टव्य—(सत्त्व स्थानमें प्रकृतियोंका विवरण देखो सत्त्व स्थान प्ररूपणा)

स.	प्रमाण	गुणस्थान	विकल्प नं. १	विकल्प नं. २	विकल्प नं ३	विकल्प नं ४
	क. पा २/पृ.	सादि मि	अनादि मि	सातिशय मि		
१		मिध्यादृष्टि	२६, २७, २८	२६	२६	
२		सासादन	२८	×	×	
३		सम्यगिमध्यात्व	२८	×	×	
		सम्यक्त्व	क्षायिक	कृतकृत्य वेदक	वेदक	उपशम
४	२१२/२२१	अविरत सम्य.	२१	२२, २३, २४	२८	२८
५	"	सयत्तासयत	"	"	"	"
६	"	प्रमत्तसयत	"	"	"	"
७	"	अप्रमत्त सासादन	"	"	"	"
	"	अप्रमत्त सा	×	"	×	×
		क्षपक श्रेणी—	पुरुषवेदी आरोहक	स्त्रीवेदी आरोहक	नपु वेदी आरोहक	
८	"	अपूर्वकरण	२१	२१	२१	
९	२१२	अनिवृत्तिकरण (१)	"	"	"	
		द्रष्टव्य—[देखो सत्त्व/३/४—सारणी सं. १]				
		" (ii)	"	"	"	
		" (iii)	१३	१३	१३	
		" (iv)	१२ (१३-नपु)	"	"	
		" (v)	११ (१२-स्त्री)	१२ (१३-स्त्री)	१३	
		" (vi)	५ (११-६ कपाय)	११ (१२-नपु)	११ (१३ स्त्री)	
		" (vii)	४ (५-पु)	४ (११-पु ६ कपाय)	४ (११-पु ६)	
		" (viii)	५	३	३	
		" (ix/x)	२	२	२	
		" (ix/xi)	१ (बादर)	१ (बादर)	१ बादर	
१०	२११	सूक्ष्मसाम्पराय	१ सूक्ष्म	१ सूक्ष्म	१ सूक्ष्म	
१२		क्षीण कपाय	×	×	×	
		उपशम श्रेणी उपशम सम्यक्त्व—				
		८-११	२८-२४ के दो स्थान			
		उपशम श्रेणी क्षायिक सम्यक्त्व—				
		८-११	२१ का स्थान			

८. मोह सत्त्व स्थान आदेश प्ररूपणाका स्वामित्व विशेष

सं.	मार्गणा स्थान	सं.	मार्गणा स्थान
१	गति अपेक्षा— पर्याप्त—		सम्यक्तर अपेक्षा— पर्याप्त—
		१०	अन्यतम सम्यक्तर
१	चारोंमें अन्यतम गतिके जीव	११	वेचन क्षामित्व सम्यक्तर
२	केवल मनुष्य गति	१२	केवल वृत्तवृत्त वेदक सम्यक्तर
३	मनुष्य व देव गति	१३	केवल वेदक सम्यक्तर
४	मनुष्य व तिर्यंच	१४	केवल उपशम सम्यक्तर
५	देव व नरक	१५	उपशम व वेदक सम्यक्तर
६	नरक व मनुष्य	१६	उपशम वेदक सम्यक्तर व सम्यक्मिथ्यारहित
७	देव मनुष्य व तिर्यंच	१७	उपर्युक्त सं. १६ + सासादन व सादि मि
८ नरक	१८	सादि मि व सासादन
९	मनुष्य, तिर्यंच व नरक	१९	वेदक सम्यक्, मिथ्य, सासादन, मि
	दृष्टव्य—(i) यह ९ स्थान 'पर्याप्तक' के जानने।	२०	सादि मिथ्यारहित
	(ii) इन्हीं ९ स्थानोंको 'अपर्याप्तक' बनानेके लिए	२१	अनादि मिथ्यारहित
	स्थान सं. १ के आगे 'अ' लिखना।	२२	सादि अनादि मिथ्यारहित
	(iii) इन्हीं ९ स्थानोंको पर्याप्तपर्याप्तके बनानेके लिए		वेदकी अपेक्षा
	स्थान सं. १ के आगे 'उ' लिखना।	२३	केवल पुरुष वेद

१ मोह सत्त्व स्थान आदेश प्ररूपणा

(क पा. २/पृष्ठ)

प्रमाण	मार्गणा	कुल सत्त्व स्थान	प्रति स्थान प्रकृतियाँ	प्रत्येक स्थानका क्रमशः स्वामित्व विशेष (दे. सारणी)
१.	गति मार्गणा			
२२१	नरक गति—			
"	सामान्य	६	२८, २७, २६, २४, २२, २१	१७, २०, २२, १६, १२/अ, १०
"	प्रथम पृथिवी	६	"	"
"	२-७ "	४	२८, २७, २६, २४	१७, २०, २२, १४
	तिर्यचगति—			
"	सामान्य	६	२८, २७, २६, २४, २२, २१	१७, २०, २२, १६, १२/अ भोग भूमि, १०
"	पचेन्द्रिय सा व प.	६	"	"
"	" योनिमति	४	२८, २७, २६, २४	१७, २०, २२, १६
२२३	लब्धपर्वाप्त तिर्यच	३	२८, २७, २६	२०, २०, २२
	मनुष्यगति—			
"	सामान्य		— → ओषवत् ←	— —
"	मनु प व मनुष्यणी		— → " ←	— —
२२४	मनुष्य ल, अप.	३	२८, २७, २६	१८, २०, २२
	देवगति—			
२२२	सामान्य	६	२८, २७, २६, २४, २२, २१	१७, २०, २२, १६, १२/ २३/अ ११-२३
"	भवनत्रिक देव	४	२८, २७, २६, २४	१७, २०, २२, १४
"	सौधर्मादि देवियाँ	४	"	"
"	सौधर्म-नवग्रैवेयक	६	२८, २७, २६, २४, २२, २१	१७, २०, २२, १६, १२/२३/अ., ११/२३
"	अनुदिश-सर्वार्थसिद्धि	२	२८, २४, २०, २१	१४, १४, १०/अ, ११

प्रमाण	मार्गणा	कुल सत्त्व स्थान	प्रति स्थान प्रकृतियाँ	प्रत्येक स्थानका क्रमशः स्यामिन्व विद्येय (दे. गारणी)
२.	इन्द्रिय मार्गणा			
२१४	एकेन्द्रिय सर्व भेद	३	२८, २७, २६	१८, २०, २२
"	विकलेन्द्रिय "	३	"	२०, २०+२२
"	८ सामान्य व पर्याप्त	१४	— → ओषवत् ←	— —
"	५ लक्ष्यपर्याप्त	३	२८, २७, २६	२०, २०, २२
३.	काय मार्गणा			
२२४	सर्वस्थावर	३	२८, २७, २६	२०, २०, २२
"	त्रस सा व पर्याप्त	१५	— → ओषवत् ←	— —
"	त्रस ल अप,	३	२८, २७, २६	२०, २०, २२
४	योग मार्गणा			
२२४	५ मन, ५ वचन, व काय सामान्य योगी	१५	— → ओषवत् ←	— —
"	औदारिक काय		— → " ←	— —
२२५	औदारिक मिश्र	६	२८ २८ २८, २७, २६ २४, २२ व २१	२/अ/१३, २/अ, भोग भूमि/१२ ति. अ भोग भूमि/१२ ४/अ/१८, ४/अ ४/अ/२०४/अ/२० २/अ/१३, ४/अ, योग/१३
"	वेक्रियक		२८, २७, २६, २४, २१	५/१७, ५/२०, ४/२२
२२६	वैक्रियक मिश्र	६	उपरोक्त सर्व + २२	५/अ के उपरोक्त सर्व + ५ अ./१२
"	आहारक व आ मि	३	२८, २४, २१	१३, १३, ११
"	कामाणि	६	२८, २८, २८, २७, २६, २४, २४	१/१८, ३/१३, देव/१४, १/२० १/२२, ३/१३, देव/१४, १/१२, १/१२ (यहाँ तिर्य , को भोगभूमिज ही जानना ।)

प्रमाण	मार्गणा	कुल सत्त्व स्थान	प्रति स्थान प्रकृतियाँ	प्रत्येक स्थानका क्रमशः स्वाभिरव विद्योप (दे. सारणी)
५.	वेद मार्गणा			
२२७	स्त्रीवेदी	६	२८, २७, २६, २४ २३, २२, १३, १२, २१	७/१७, ७/२०, ७/२२, ७/१५ २/१२, २ क्षपक, २/११
"	पुरुषवेदी	११	२८, २७, २६, २४ २१, २३, २२ १३, १२, ११, ५	७/१७, ७/२०, ७/२२, ७/१५ ७/११, २/१२, ७/१२ व ओघवत्
२५८	नर्पुंसकवेदी	६	२८, २७, २६, २४ २२, २१, १३, १३, १२	६/१७, ६/२०, ६/२२, ६/१५ ६/१२, ६/११, २/१२ ओघवत्
२२६	अपगतवेदी	८	२४, २१ ११, ५, ४, ३, २, १	उपशान्त कपाय → ओघवत् ←
६	कपाय मार्गणा			
२२६	क्रोध	१२	२८ से ४ तक	→ ओघवत् ←
"	मान	१३	२८ से ३ तक	→ " ←
"	माया	१४	२८ से २ तक	→ " ←
"	लोभ	१५	२८ से १ तक	→ " ←
"	अकपायी	२	२४, २१	उपशान्त कपाय
७.	ज्ञान मार्गणा			
२२४	मति, श्रुत अज्ञान	३	२८, २७, २६	१८, २०, २२
"	विभग	"	"	"
२२६	मति, श्रुतज्ञान	१३	२८, २४ से १ तक	१/१५, ओघवत्
"	अवधिज्ञान	"	"	"
"	मन पर्ययज्ञान	"	"	"

प्रमाण	मार्गणा	कुल सत्त्व स्थान	प्रति स्थान प्रकृतिर्गा	प्रत्येक स्थानका क्रमशः स्वागिरव विद्येय (दे, गारणी)
८	सयम मार्गणा			
	सयम सामान्य			
२२६	सामायिक, छेदोप,	१३	२८, २४ से २ तक	२/१४, ओघवत्
२३०	परिहार विद्युद्धि	५	२८, २४, २३, २२, २१	२/१४, १६, १२, ११
"	सूक्ष्म साम्पराय	३	२४, २१, १	उपशामक, क्षपक
२२६	यथाख्यात	२	२४, २१	उपशान्त कपाम
२३०	सयमासयम	५	२८, २४, २३, २२, २१	४/१६, ४/१६, ३/१२, ३/११
"	असयम	०	२८ से २१ तक	→ ओघवत् ←
९	दर्शन मार्गणा			
२२२	चक्षु	—	— → ओघवत् ← —	— — —
	अचक्षु	—	— " —	— — —
२२६	अवधि	१३	२८, २४ से १	१/१६, ओघवत्
१०	लेख्या मार्गणा			
२३०	कृष्ण	५	२८, २८, २७, २६, २४, २१	१/१८, ६/१६, १/२०, १/२२ ६/१६, २/११
"	नील	५	"	"
"	कापोत	२	२२	ति अ भोग भूमिज
			२१	६/७/१२, ११
२३१	पीत, पद्म	७	२८, २७, २६, २४ २६, २३, २२	७/१७, ७/२०, ७/२२, ७/१६ ७/१९, २/१२, ३/१२ देव अ
२२४	शुक्ल	१६	२२, सर्व १६ स्थान	→ ओघवत् ←

प्रमाण	मार्गणा	कुल सत्त्व स्थान	प्रति स्थान प्रकृतियों	प्रत्येक स्थानका क्रमशः स्वामिश्र विवेक (दै. सारणी)
११	भव्यत्व मार्गणा			
२२२	भव्य		→ ओघवत् ←	— — —
२३२	अभव्य	१	२६	२१
१२	सम्यक्त्व मार्गणा			
२२६	सम्यक्त्व सा	१३	२८, २४ से १ तक	१/१६ ओघवत्
२३२	क्षायिक	६	२१ से १ तक	१/११ ..
..	वेदक	४	२८, २४, २३, २२	१/१३, १/१३, २/१३, १/१२
..	उपशम	२	२८, २४	१, १
..	सम्यग्मिथ्या,	२	"	"
..	सासादन	१	२८	१
२३४	मिथ्यादृष्टि	३	२८, २७, २६	२०, २०, २२
१३	सञ्जी मार्गणा			
२२३	सञ्जी		→ ओघवत् ←	— — —
२२४	असञ्जी	३	२८, २७, २६	१८, २०, २२
१४	आहारक मार्गणा			
२२२	आहारक		→ ओघवत् ←	— — —
२३२	अनाहारक		→ कामणिकाय योगवत् ←	— — —

१०. नामप्रकृति सत्त्वस्थान सामान्य प्ररूपणा—(प सं /प्रा./५/२०८-२१६); (प सं., स /५/२२२-२२६), (गो. क./भापा./६१०/-
८१७), (गो क /भापा/६२०-८२४), (गो. क./भापा /७५६/६३१) कुल सत्त्व स्थान = १३, कुल सत्त्व योग = ६३ ।

स.	स्वामी जीव गो. क./भापा/६२०-८२४	प्रति स्थान प्रकृति	प्रकृतियोंका विवरण (गो क /भापा/६१०/८१७)
१	कर्म भूमिज मनु प व नि अप. असंयमादि वेमानिक देव असंयत	६३	२
२	सासादन रहित चतुर्गतिके जीव	६२	६३-तीर्थकर
३	देव सम्यग्दृष्टि, मनुष्य, नारकी सम्यक् व मिथ्यादृष्टि	६१	६३-आहारक द्विक्
४	अनिवृत्ति क में प्रकृतियोंका क्षय भये पीछे चतुर्गति ।	६०	६३-आ द्वि व तीर्थ
५	देव द्विक्की उद्वेलना, एकेन्द्रिय या विकलेन्द्रियके होय तो वह मरकर जहाँ उपजे वहाँ तिर्यंच, मनुष्य मिथ्यादृष्टि भी उस उद्वेलना सहित रहे है ।	८८	उपर्युक्त ६०-देवद्विक्
६	उपर्युक्त स ५ जीव नारकद्विक्की उद्वेलना कर ले तो ।	८४	उपर्युक्त ८८-नारक द्विक् व वैक्रियक द्विक्
७	मनुष्यद्विक्की उद्वेलना भये तेज, वात कायिक या अन्य ८८ वाले स्थानवत् होय ऐसा तिर्यंच सा मिथ्यादृष्टि ।	८२	६३-(तीर्थ , आ. द्वि., देवद्विक्, नारकद्विक्, वै द्विक्, मनु द्विक्
८	अनिवृत्तिकरण ६/३ से १४/१ तक	८०	६३-(नरक द्वि , ति द्वि , १-४ इन्द्रिय आतप, उद्योत, सूक्ष्म साधारण, स्थावर ।
९	"	७६	८०-तीर्थकर
१०	"	७८	८०-आ द्विक्
११	"	७७	८०-आ, द्विक्, तीर्थ
१२	तीर्थकर अयोगीका अन्तसमय	१०	मनु गति, पंचे, सुभग, ब्रस, बादर, पर्याप्त, आदेय, यज्ञ, तीर्थ, मनुष्यानुपूर्वी
१३	सामान्य अयोगी का अन्तसमय	६	उपर्युक्त १०-तीर्थकर

११. जीव पदोंकी अपेक्षा नामकर्म सत्त्व स्थान प्ररूपणा—(गो क /६२३-६२७/५२८)

क्र.	मार्गणा	कुल स्थान	प्रति स्थान प्रकृतियाँ	प्रकृतियों का विवरण
१	नारकी सामान्य	३	६०, ६१, ६२	देखो सत्त्व स्थानोंकी सारणी
२	नारकी (४-७ पृ)	२	६०, ६२	
३	तिर्यंच (सर्व)	३	८२, ८४, ८८	
४	मनु सामान्य	१२	८२ रहित सर्व	
५	अयोग केवली	४	७७, ७८, ७९, ८०, ६, १०	
६	सयोग केवली	४	७७, ७८, ७९, ८०	
७	आहारक	२	६२, ६३	
८	सर्व भोग भू मनु. ति	२	६०, ६३	
९	वैमानिक देव	४	६०, ६१, ६२, ६३	
१०	भवनत्रिक	२	६०, ६२	
११	सर्व सासादनवर्ती	१	६०	

१२. नाम कर्म सत्त्व स्थान औघ प्ररूपणा—(पं. स /प्रा/१/२१७), (प. स./प्रा./४०२-४१७), (प स /स /१/४१६-४२८),
(गो. क./६६२-७०२/५७२)

गुण स्थान	कुल स्थान	प्रतिस्थान प्रकृति	गुण स्थान	कुल स्थान	प्रति स्थान प्रकृतियाँ
१	६	८२, ८४, ८८, ६०, ६१, ६२	८	४	६०, ६१, ६२, ६३
२	१	६०	६	८	सपक ७७, ७८, ७९ ८० उपशमक, ६०, ६१, ६२, ६३
३	२	६०, ६२	१०	८	पूर्वोक्त नवम गुणस्थानवत्
४	४	६०, ६१, ६२, ६३	११	४	६०, ६१, ६२, ६३
५	४	"	१२	४	७७, ७८, ७९, ८०
६	४	"	१३	४	"
७	४	"	१४	६	६, १०, ७७, ७८, ७९, ८०

१३. नाम कर्म सत्त्व स्थान आदेश प्ररूपणा—(प स./प्रा/५/२१८-२१९, ४१९-४७२), (प. स./स/५/२३०-२३१)

(गो क/७१२-७३८/८८१-८८७)

गुण स्थान	मार्गणा	कुल स्थान	प्रति स्थान प्रकृति	गुण स्थान	मार्गणा	कुल स्थान	प्रति स्थान प्रकृति
१	गति मार्गणा—			४	वैक्रियक	४	९०, ९१, ९२, ९३
१	नरक	३	९०, ९१, ९२	५	वैक्रियक मिश्र	४	"
२	तिर्य्य	५	८२, ८४, ८८, ९०, ९२	६	आहारक	२	९२, ९३
३	मनुष्य	१२	७७, ७८, ७९, ८०, ८४, ८८, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९०	७	आ. मिश्र	२	"
४	देव	४	९०, ९१, ९२, ९३	८	कार्मण	११	७७, ७८, ७९, ८०, ८२, ८४, ८८, ९०, ९१, ९२, ९३
२	इन्द्रिय मार्गणा—			५	वेद मार्गणा—		
१	एकेन्द्रिय	५	८२, ८४, ८८, ९०, ९२	१	स्त्री वेद	९	७७, ७९, ८२, ८४, ८८, ९०, ९१, ९२, ९३
२	विकलेन्द्रिय	५	"	२	नपुं वेद	९	पूर्वोक्त स्त्री वेदवत्
३	पचेन्द्रिय	१३	७७, ७८, ७९, ८०, ८२, ८४, ८८, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९०	३	पु. "	११	७७, ९०, ७९, ८०, ८२, ८४, ८८, ९०, ९१, ९२, ९३
३	काय मार्गणा—			७	ज्ञान मार्गणा—		
१	{ पृ अप, तेज वायु वनस्प	५	८२, ८४, ८८, ९०, ९२	१	मति शु अज्ञान	६	८२, ८४, ८८, ९०, ९१, ९२
२	प्रस	१३	पचेन्द्रियवत्	२	विभग	३	९०, ९१, ९२
४	योग मार्गणा—			३	मति, श्रुत अवधि	८	७७, ८८, ७९, ८०, ९०, ९१, ९२, ९३
१	सर्व मन वचन	१२	७७, ७८, ८९, ८०, ८४, ८८, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९०	४	मन पर्यय	८	"
२	औदारिक	११	७७, ७८, ७९, ८०, ८२, ८४, ८८, ९०, ९१, ९२, ९३	५	केवल	६	७७, ७८, ७९, ८०, ९०, ९१
३	जी मिश्र	११	"	८	सयम मार्गणा—		
				१	सा छेदो	८	७७, ७८, ७९, ८०, ९०, ९१, ९२, ९३
				२	परि विशुद्धि	४	९०, ९१, ९२, ९३
				३	सूक्ष्म साम्पराय	८	७७, ७८, ७९, ८०, ९०, ९१, ९२, ९३

गुण स्थान	मार्गणा	कुल स्थान	प्रतिस्थान प्रकृति	गुण स्थान	मार्गणा	कुल स्थान	प्रतिस्थान प्रकृति
४	यथाख्यात	१०	७७, ७८, ७९, ८०, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९०	१२	सम्यक्त्व मार्गणा		
५	देश संयत	४	९०, ९१, ९२, ९३	१	क्षायिक	१०	७७, ७८, ७९, ८०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९०
६	असंयत	७	८२, ८४, ८८, ९०, ९१, ९२, ९३	२	वेदक	४	९०, ९१, ९२, ९३
				३	उपशम	४	"
९	दर्शन मार्गणा			४	सम्य मि.	२	९०, ९३
१	चक्षु	९	७७, ७९, ८२, ८४, ८८, ९०, ९१, ९२, ९३	५	सासादन	१	९०
२	अचक्षु.	९	"	६	मिथ्यादृष्टि	६	८२, ८४, ८८, ९०, ९१, ९२
३	अरधि	८	७७, ७८, ७९, ८०, ९०, ९१, ९२, ९३	१३	सज्ञी मार्गणा		
४	केवल	६	७७, ७८, ७९, ८०, ९१, ९०	१	सज्ञी	९	७७, ७८, ८२, ८४, ८८, ९०, ९१, ९२, ९३
				२	असज्ञी	५	८२, ८४, ८८, ९०, ९१
१०	लेश्या मार्गणा			१४	आहारक मार्गणा		
१	कृष्णादि ३	७	८२, ८४, ८८, ९०, ९१, ९२, ९३	१	आहारक	९	७७, ७९, ८२, ८४, ८८, ९०, ९१, ९२, ९३
२	पीत	४	९०, ९१, ९२, ९३	२	अना सामान्य	११	७७, ७८, ७९, ८०, ८२, ८४, ८८, ९०, ९१, ९२, ९३
३	पद्म	४	"	३	अना अप्रोगी	२	९१
४	शुक्ल		७७, ७८, ७९, ८०, ९०, ९१, ९२, ९३				
११	भव्य मार्गणा						
१	भग	१३	सर्व स्थान				
२	अभव्य	४	८२, ८४, ८८, ९०				

१४ नाम प्रकृति सत्त्वस्थान पर्यासापर्यास प्ररूपणा—(गो. क /७०४-७१२/८७८)

क्र	मार्गणा	गुण स्थान	प्रति स्थान प्रकृति	क्र	मार्गणा	गुण स्थान	प्रति स्थान प्रकृति
१	अपर्यासक—						
१	अप सातों समास	५	८२, ८४, ८८, ९०, ९२	३	सज्ञी प.	११	७७, ७८, ७९, ८०, ८२,
२	सर्व एके वि असंज्ञी अप.	५	८२, ८४, ८८, ९०, ९२				८४, ८८, ९०, ९१, ९२, ९३

१५. मोह स्थिति सत्त्वकी ओघप्ररूपणा—(क पा. ३/पृष्ठ) अन्त = अन्त.कोडाकोड़ी सागर

क्र	प्रकृति	प्रमाण	जघन्य स्थिति क्षपक श्रेणीमें ही सम्भव	क्र	प्रकृति	प्रमाण	जघन्य स्थिति क्षपक श्रेणीमें ही सम्भव
१	मिथ्यात्व	२०३	२ समय	८	सज्वलन माया	२०६	अन्त कम १/२ मास
२	सम्य मिथ्यात्व	११	२ समय	९	लोभ	२०५	१ समय
३	सम्यक्प्रकृति	२०५	१ समय	१०	ई नोकपाय	२१०	संख्यात वर्ष
४	अनन्ता ४			११	स्त्री वेद	२०५	१ समय
५	८ कपाय	२०३	२ समय	१२	पुरुष वेद	२०६	अन्त कर्म ८ वर्ष
६	सज्वलन क्रोध	२०७	अन्त कम २ मास	१३	नर्पु वेद	२०५	१ समय
७	मान	२०८	अन्त' कम १ मास	१४	सक्रमण होनेके पश्चात् दोष बची सम्यक्प्रकृति	२०५	११

१६. मोह स्थिति सत्त्वकी आदेश प्ररूपणा—(क पा. ३/पृष्ठ) अन्त = अन्त कोडाकोड़ी सागर

प्रमाण	गुणस्थान व प्रकृति	स्थिति सत्त्व			प्रमाण	गुणस्थान व प्रकृति	स्थिति सत्त्व		
		जघन्य	प्रमाण	उत्कृष्ट			जघन्य	प्रमाण	उत्कृष्ट
		प्रमाण पृ ६०३		प्रमाण पृ. दे सामान्य					
१	मिथ्यादृष्टि—								
६	मोह सामान्य	१ सा पश्य/अस		७ को. को सा		४ अविरत सम्यग्दृष्टि (वेदक)—			
१६४	मिथ्यात्व	२ समय (दे सत्त्व/३/१५)		"	१३	मोह सामान्य	अन्त को. को सा	१०	अन्त कम ७० को को सा
१६५	सम्य. मिथ्रमोह	"		अन्त कम १ सा	२०३	दर्शन मोह त्रिक	२ समय (दे सत्त्व/३/१५)	२००	"
१६७	१६ कषाय	"		४० को को. सा.					
"	नो कषाय	"		१ आवली कम	"	१६ कषाय	"		अन्त. कम ४० को को. सा
२	सासादन—								
११	सामान्य मोह	अन्त को. को सा		अन्त को. को सा		नो कषाय	२ समय (दे सत्त्व/३/१५)	२००	अन्त कम ४० को को सा
२००	दर्शन मोह त्रिक	२ समय (दे सत्त्व/३/१५)		"					
"	१६ कषाय	"		"	१३	मोह सामान्य	अन्त	११	अन्त
"	नो कषाय	"		"					
३	सम्यग्मिथ्यादृष्टि—				२०३	दर्शन मोह त्रिक	२ समय (दे. सत्त्व/३/१५)	२००	"
१०	मोह सामान्य	अन्त		अन्त कम ७० को को सा	"	१६ कषाय	"	"	"
२००	दर्शन मोह त्रि	२ समय (दे सत्त्व/३/१५)	२००	अन्त कम		नो कषाय	"	"	"
"				७० को. को सा					
"	१६ कषाय	"	"	अन्त कम ४० को को सा					
"	नो कषाय	"	"	"	१३	मोह सामान्य	अन्त (दे. सत्त्व/३/१५)	११	अन्त
	४ अविरत सम्यग्दृष्टि (क्षायिक)—								
११	मोह सामान्य	अन्त	११	अन्त	२०३	दर्शन मोह त्रिक		२००	"
२००	१२ कषाय	(दे सत्त्व/३/१५)	२००	"	"	१६ कषाय	"	"	"
"	नो कषाय	"	"	"		नो कषाय	"	"	"

प्रमाण	गुणस्थान	स्थिति सत्त्व			प्रमाण	गुणस्थान	स्थिति सत्त्व		
		जघन्य	प्रमाण	उत्कृष्ट			जघन्य	प्रमाण	उत्कृष्ट
६-७	प्रमत्त अप्रमत्त सयत (सामान्य) —				११	उपशान्त कपाय —			
	सामान्य स	सयतासयतवत्	१०	सयतासयतवत्	१३	मोह सामान्य	अन्त.	१०	अन्त
	सा छेदो	"	२००	"		दर्शनमोह त्रि.	दे सत्त्व/३/१५	२००	अन्त
१३	परिहार वि.	"	"	"		१२ कपाय	"	"	"
६	क्षायिक सामायिक छेदो —					नोकपाय	"	"	"
१४	मोह सामान्य	अन्तर्मुहूर्त			८-६	क्षपक —			
६-७	क्षायिक परिहार विशुद्धि —					मोह सामान्य	दे सत्त्व/३/१५		
	मोह सामान्य					१२ कपाय	" —		
	१२ कपाय					नोकपाय	"		
	६ कपाय				१०	सूक्ष्म साम्पराय क्षपक —			
८-६	(उपशामक) —				१२	मोह सामान्य	१ समय		
	सर्व स्थान		२००	सयतासयतवत्		लोभ	दे, सत्त्व/३/१५		
१०	सूक्ष्म साम्पराय उपशामक —								
	सर्व स्थान	दे, सत्त्व/३/१५	२००	"					

१७. मूलोत्तर प्रकृति चतुष्ककी प्ररूपणाओं सम्बन्धी सूची

प्रकृति	सू. या उ.	विषय	सत्त्व स्थान	भुजगारादि पद	ज. उ. वृद्धि-हानि	संख्यात भागादि वृद्धि	सामान्य सत्कर्म
१. ओष आदेशसे प्रकृति सत्त्व—(क पा. २/ $\frac{\$}{\text{पृ. सं.}}$							
मोह	सू.	भगविचय					$\frac{६५-६६}{४४-४७}$
	उ.	समुत्कीर्तना	$\frac{२१०-२३४}{२०२-२०६}$	$\frac{४१८}{३८४-३८६}$	$\frac{४७६-४७७}{४२६-४२८}$	$\frac{४८५-४८६}{४३७-४३६}$	$\frac{१०१-१०४}{८३-८८}$
	"	सन्निकर्ष					$\frac{१४२-१५२}{१३०-१४४}$
	"	भगविचय	$\frac{३०८-३४६}{२८१-३१६}$	$\frac{४४३-४४५}{४०२-४०४}$		$\frac{५०५-५०७}{४६६-४६८}$	$\frac{१५३-१६६}{१४४-१५१}$
२. ओष आदेशसे स्थिति सत्त्व—क. पा./पृ. सं / $\frac{\$}{\text{पृ. सं.}}$							
मोह	सू.	समुत्कीर्तना	$\frac{३}{३} \frac{६-२१}{६-१६}$	$\frac{३}{३} \frac{१६६-१७०}{६५-६६}$	$\frac{३}{३} \frac{२२६-२२६}{१२७-१२६}$	$\frac{३}{३} \frac{२४६-२४८}{१३६-१३८}$	
	"	भगविचय	$\frac{३}{३} \frac{६३-६७}{५४-५८}$	$\frac{३}{३} \frac{१६५-१६७}{१११-११३}$		$\frac{३}{३} \frac{२६०-२६४}{१६०-१६४}$	
	उ.	समुत्कीर्तना	$\frac{३}{३} \frac{३६९-४००}{१६४-२२६}$			$\frac{४}{४} \frac{२२३-२६६}{११७-१६०}$	$\frac{४}{४} \frac{४०७-६४०}{३१६-३२६}$
	"	भगविचय	$\frac{३}{३} \frac{५७३-६६८}{३४५-३५४}$	$\frac{४}{४} \frac{६२ १०३}{५०-५५}$		$\frac{४}{४} \frac{३५८-३६४}{२२२-२२६}$	
	"	सन्निकर्ष	$\frac{३}{३} \frac{७०६-८७०}{४२५-५२४}$	$\frac{४}{४} \frac{१६३-१७६}{८३-६५}$		$\frac{४}{४} \frac{४१८-४२७}{२४६-२५६}$	
	"	अद्धाच्छेद	$\frac{३}{३} \frac{३६१-४००}{१६४-२२६}$				

१८ अनुमात्र सत्त्वकी ओघ आदेश प्ररूपणा सम्बन्धी सूची—क., पा./प्र. स/वृ. स.

प्रकृति	सू व र	विषय	सत्त्व स्थान	भुजगारादि पद	ज उ वृद्धि-हानि	संख्यात भागादि वृद्धि	सामान्य सत्कर्म
मोह	सू.	समुरकीर्तना		$\frac{१४१}{६२}$	$\frac{१६२-१६४}{१०७-१०८}$	$\frac{१६६-१७०}{११२-११३}$	हृतसमु. $\frac{१८६}{१२५-१२७}$
	"	भगविचय	$\frac{८२-८७}{६३-६६}$	$\frac{१६१}{६६-१०१}$		$\frac{१७७}{११८-११९}$	
	उ.	समुरकीर्तना	$\frac{१६६-२२३}{१३६-१६६}$	$\frac{४७१-४७३}{२७३-२७६}$	$\frac{६३१-६३६}{३०७}$		
	"	भगविचय	$\frac{३२६-३४६}{२१३-२२१}$	$\frac{४८७-४८९}{२८६-२८८}$	$\frac{६४४-६४७}{३१६}$		
	"	सन्निकर्ष	$\frac{४१८-४२७}{२४६-२६६}$				
	"	सत्कर्म	$\frac{१८६-१९६}{१२६-१३६}$				$\frac{६७०-६२७}{३३०-३६०}$

सत्त्व काल—दे काल/१/६।

सत्त्व भावना—दे भावना/१।

सदर चउक—गो क./भापा/११३/१००/८ तिर्यंघगति, तिर्यंघगत्या-
नृपूर्वी, तिर्यंचायु और उद्योत इन चार प्रकृतिनिकी सदर चउक
कहिए।

सदवस्था रूप उपशम—दे उपशम/१।

सदाशिव तत्त्व—दे. शैवदर्शन।

सदाशिवमत—सांख्य दर्शन—दे सांख्य।

सदासुखदास—जयपुर निवासी एक विरक्त पण्डित थे। दिगम्बर
आम्नायमें थे। पिताका नाम दुलीचन्द था। काशलीवाल गोत्रीय
थे। बंशका नाम 'डेडराज' था। इनका जन्म वि १८६२ में हुआ
था। राजकीय स्वतन्त्र सस्था (कापड़द्वारे) में कार्य करते थे।
कुटुम्ब धीसपन्थी था, पर ये स्वयं तेरापन्थी थे। इनके गुरुका नाम
पं मुन्नालाल था। इनके पं, पन्नालाल संधी, नाथूलाल जो दोशी,

प पारसदास जी निगोस्या सहपाठी थे। इनको विरागकी हतनी
रुचि थी कि इन्होंने राजकीय सस्था से ८) मासिककी वजाय ६)
मासिक लेना स्वीकार किया था। ताकि २ घण्टे शास्त्र स्वाध्यायके
लिए मिल जाये। कृति—भगवती आराधनाकी भाषा वचनिका,
नाटक समयसार टीका, तत्त्वार्थ सूत्रकी लघु टी., रत्नकरण्ड श्रावका-
चारकी टीका, अक्लक स्तोत्र, मृत्यु महोत्सव, नित्य नियम पूजा
सस्कृतकी टीका तथा आरावासी प परमेष्ठीदासकृत अर्थप्रकाशिका-
का शोधन तथा उसमें ४००० श्लोकोंकी वृद्धि की। समय—वि.
१८६० १९२० (ई १७६३-१८६३), (अर्थप्रकाशिका/प्र. ६ परमानन्द
शास्त्री), (र क आ /प्र./१४)।

सदुश—१ एक ग्रह—दे ग्रह। २ प घ /पू ३२७ जीवस्य यथा ज्ञान
परिणाम परिणमस्तदेवेति। सदृशस्योदाहृतिरितिजातेरनतिक्रमत्वतो
वाच्या। ३२७— जैसे जीवका ज्ञानरूपपरिणाम परिणमन करता
हुआ प्रतिमय ज्ञानरूप ही रहता है। यही ज्ञानस्व जातिका उल्लं-
घन न करनेसे सदृशका उदाहरण है।

सद्भाव स्थापना—दे, निक्षेप/४।

सद्भावानित्य—२. नय/IV/४।

सद्भूत नय—दे नय/VI/५।

सन्तकुमार—१ चौथा चक्रवर्ती—दे शलाकापुरुप/२। २ कल्प-
वासी देवोंका एक भेद तथा उनका अस्थान—दे स्वर्ग/५।

सन्नासल—क्षेत्रका प्रमाण विशेष। अपरनाम संज्ञासज्ञा—दे
गणित/II/१।

सन्निकर्ष—प ख व घ वला १२/४, २, १३/सू २-३/३७५ जो सो वेयण-
सण्णियासो सो दुविहो सत्याणवेयणसण्णियासो चैव परत्याणवेयण-
सण्णियामो चैव। २। अप्पिपदेगकम्मस्स दब्ब-खेत्त-काल-भावविसओ
सत्याणसण्णियासो णाम। अट्ठकम्मविसओ परत्याणसण्णियासो
णाम। सण्णियासो णाम किं। दब्ब-खेत्त-काल-भावेसु जहण्णुक्कस्स-
भेदभिण्णेषु एउकम्मिह्णि गिरुद्धे सेसाणि किमुक्कस्साणि किमणुक्कस्साणि
किं जहण्णाणि वा पदाणि होति त्ति जा परिकत्वा सो सण्णियासो
णाम। =जो वह वेदना सन्निकर्ष है वह दो प्रकार है—स्वस्थान-
वेदनासन्निकर्ष और परस्थान वेदना सन्निकर्ष। २। किसी विवक्षित
एक कर्मका जो द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव त्रिपयक सन्निकर्ष होता है
वह स्वस्थानसन्निकर्ष कहा जाता है और आठों कर्मों विषयक सन्निक-
र्ष परस्थान सन्निकर्ष कहलाता है। प्रश्न—सन्निकर्ष (सामान्य)
कित्ते कहते है। उत्तर—अध्वन्य व उत्कृष्ट भेद रूप द्रव्य, क्षेत्र, काल
एवं भावोंमें से किसी एकको विवक्षित करके उसमें शेष पद क्या
उत्कृष्ट है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या अध्वन्य है और क्या अजध्वन्य है, इस
प्रकारको जो परीक्षा को जाती है वह सन्निकर्ष है।

सन्निकर्ष प्रमाण—दे. प्रमाण/४।

सान्निपातिक भाव—

१. सान्निपातिक भाव सामान्यका लक्षण

रा. वा /२/७/२२/११४/१० सान्निपातिक एको भावो नास्तीति सयोग-
भङ्गापेक्षया अस्ति। (यथा) औदयिकौपशमिकसांनिपातिक-
जीवाभावो नाम। =सान्निपातिक नामका एक स्वतन्त्र भाव नहीं
है। सयोग भगकी अपेक्षा उसका ग्रहण किया। जेने औदयिक-
ओपशमिक-मनुष्य और उपशान्त क्रोध। (ज्ञा /६/४०) जीव भाव
सान्निपातिक है।

घ. ५/१, ७, १/१६३/१ एकम्मिह्ण गुणट्ठाणे जीवसमासे वा वहवो भावा
जम्मिह्ण सण्णिवद ति तेसिं भावाण सण्णिवादिएत्ति सण्णा। =एक ही
गुणस्थान या जीवसमासमें जो बहुतसे भाव आकर एकत्रित होते है,
उन भावोंको सान्निपातिक ऐसी संज्ञा है।

२. सान्निपातिक भावोंके भेद

रा. वा /२/७/२२/११४/१५ पर उद्भूत-दुग तिग चदु पचेत्त य समोगा
होति सन्निकावेसु। दस दस पच य एक य भावा छन्नीस पिडेण।
=सान्निपातिक भाव दो सयोगी, तीन चार तथा पाँच सयोगी
क्रमसे १०, १०, ५ तथा १ इस प्रकार छन्नीस बताये है (घ. ५/१, ७, १/
१६३/३)।

रा. वा /२/७/२२/११४/१३ सान्निपातिकभाव पट्टविंशतिविध पट्ट-
त्रिंशद्विध एकचत्वारिंशद्विध द्रव्येवमादिरागमे उक्त। =सान्नि-
पातिक भाव २६, ३६ और ४१ आदि प्रकारके आगममें बताये गये
है [४१ भगोंमें २६ व ३६ आदि सर्व भग गणित है इसलिए नीचे
४१ भगोंका निर्देश किया जाता है]।

संकेत—औद०=औदयिक, औप०=ओपशमिक, क्षा०=क्षायिक,
क्षयो०=क्षायोपशमिक, पा०=पारिणामिक।

१. द्विसयोगी—

क्र	भग निर्देश	विवरण
१	औद + औद	मनुष्य और क्रोधी
२	औद + औप	मनुष्य और उपशान्त क्रोध
३	औद + क्षा	मनुष्य और क्षीणकपाय
४	औद + क्षयो	क्रोधी और मतिज्ञानी
५	औद + पारि	मनुष्य और भव्य
६	औप + औप	उपशम सम्यग्दृष्टि और उपशान्त कपाय
७	औप + औद	उपशान्त कपाय और मनुष्य
८	औप + क्षा	उपशान्त क्रोध और क्षायिक सम्यग्दृष्टि
९	औप + क्षयो	उपशान्त कपाय और अवधिज्ञानी
१०	औप + पारि	उपशम सम्यग्दृष्टि और जीव
११	क्षा + क्षा	क्षायिक सम्यग्दृष्टि और क्षीणकपाय
१२	क्षा + औद	क्षीणकपाय और मनुष्य
१३	क्षा + औप	क्षायिक सम्यग्दृष्टि और उपशान्त वेद
१४	क्षा + क्षयो	क्षीण कपायी और मतिज्ञानी
१५	क्षा + पारि	क्षीण मोह और भव्य
१६	क्षयो + क्षयो	सयत और अविज्ञानी
१७	क्षयो + औद	सयत और मनुष्य
१८	क्षयो + औप	सयत और उपशान्त कपाय
१९	क्षयो + क्षा	सयतसयत और क्षायिक सम्यग्दृष्टि
२०	क्षयो + पारि	अप्रमत्त सयत और जीव
२१	पारि + पारि	जीव और भव्य
२२	पा. + औद	जीव और क्रोधी
२३	पारि + औप	भव्य और उपशान्त कपाय
२४	पारि + क्षा	भव्य और क्षीण कपाय
२५	पारि + क्षयो	सयत और भव्य

२. त्रिसयोगी

क्र	भग निर्देश	विवरण
१	औद + औप + क्षा	उपशान्त मोह और क्षायिक सम्यग्दृष्टि
२	औद + औप + क्षयो	मनुष्य उपशान्त क्रोध और बाग्योगी
३	औद + औप + पा	मनुष्य उपशान्तमोह और जीव
४	औद + क्षा + क्षयो	मनुष्य क्षीणकपाय और श्रुतज्ञानी
५	औद + क्षा + पारि	मनुष्य क्षायिक सम्यग्दृष्टि और जीव
६	औद + क्षयो + पारि	मनुष्य मनोयोगी और जीव
७	औप + क्षा + पारि	उपशान्तमान क्षायिक सम्यग्दृष्टि और काययोगी
८	औप + क्षा + पारि	उपशान्त वेद क्षायिक सम्यग्दृष्टि और भव्य
९	औप + क्षयो + पारि	उपशान्तमान मतिज्ञानी और जीव
१०	क्षा + क्षयो + पारि	क्षीणमोह पचेन्द्रिय और भव्य

३. चतुः सयोगी

क्र	भग निर्देश	विवरण
१	औप + क्षा + क्षयो + पारि,	उपशान्त लोभ क्षायिक सम्यग्दृष्टि पञ्चेन्द्रिय और जीव
२	औद + क्षा + क्षयो + पारि	मनुष्य क्षीणकपाय मतिज्ञानी और भव्य
३	औद + औप + क्षयो + पारि	मनुष्य उपशान्त वेद श्रुतज्ञानी और जीव
४	औद + औप + क्षा + पारि	मनुष्य उपशान्तराग क्षायिक सम्यग्दृष्टि और जीव
५	औद + औप + क्षा + क्षयो.	मनुष्य उपशान्त मोह क्षायिक सम्यग्दृष्टि और अवधिज्ञानी

४. पंच भाव सयोगी

औद + औप, + क्षा, + क्षयो + पारि—मनुष्य उपशान्तमोह क्षायिक सम्यग्दृष्टि पंचेन्द्रिय जीव ।

सन्निवेश—ध १३/१, ६३/३३६/२ विपद्याधिपत्य अरस्थान सन्निवेश । = देशके स्वामीके रहनेके स्थानका नाम सन्निवेश है ।

सन्नोरा—भरत क्षेत्रस्थ मध्य आर्य खण्डकी एक नदी—दे मनुष्य/४ ।

सन्मति—१ भगवात् महावीरका अपर नाम था—दे महावीर; २ द्वितीय कुलकर थे—दे, शालाका पुरुष/९ ।

सन्मति कीर्ति—सुमति कीर्ति का अपरनाम था।—दे सुमतिकीर्ति ।

सन्मतिसूत्र—श्वेताम्बराचार्य सिद्धसेन दिवाकर (ई. ४५०) द्वारा विरचित तत्त्वार्थ विषयक संस्कृत भाषावद्ध ग्रन्थ । यह दिग्म्बर व श्वेताम्बर दोनोंको मान्य है । दिग्म्बराचार्योंने अपने ग्रन्थोंमें उसकी गाथाएँ अपनी वातकी पुष्टिके अर्थ प्रमाण रूपसे उद्धृत की है—यथा क पा १/१-२०/गा, १३४-१४४/३६१-३६० । इसपर श्वेताम्बराचार्य श्री अभयदेव सूरि (ई श १०) ने एक टीका लिखी है ।

संन्यास मरण—दे सबलेखना ।

सपर्या—दे पूजा/११ याग, यज्ञ, ऋतु, पूजा, सपर्या, इज्या, अध्वर, मल, मह यह सप्त पूजाविधिके नाम हैं ।

सप्तऋषि—५ पु / ९२/श्लोक स प्रभापुर नगरके राजा श्री नन्दनके सात पुत्र थे—सुरमन्यु, श्रीमन्यु, श्रीनिचय, सर्वसुन्दर, जयवात्, विनयलालस, और जयमित्र । (२-३) प्रीतिकर महाराजके केवलज्ञानके अवसरपर देवीके आगमनसे प्रतिबोधको प्राप्त हुए तथा पिता सहित सातोंने दीक्षा ले ली (५-६) । उत्तम तपके कारण सातों भाई सप्तऋषि कहलाये (७) । उनके प्रभावसे ही मथुरा नगरीमें चमरेन्द्र यज्ञ द्वारा प्रसारित महामारी रोग नष्ट हुआ था । १६ ।

सप्त ऋषि पूजा—दे पूजा ।

सप्त कुंभ—ह पु / ३४/९० इसकी विधि तीन प्रकार कही गयी है—उत्तम, मध्यम व अधम्य । विधि—१ उत्तम—क्रमश १६, १५, १४, १३, १२, ११, १०, ९, ८, ७, ६, ५, ४, ३, २, १, १५, १४, १३ १२, ११, १०, ९, ८, ७, ६, ५, ४, ३, २, १, १५, १४, १३ १२, ११, १०, ९, ८, ७, ६, ५, ४, ३, २, १, १५, १४, १३ १२, ११, १०, ९, ८, ७, ६, ५, ४, ३, २, १—इस प्रकार एक हानिक्रमसे एक बार १६ से १ तक और इससे आगे ३ बार १६ से एक तक कुल ४६६ उपवास करे । चौथके (१) वाले ६१ स्थानोंमें सर्वत्र एक एक पारणा करे । २ मध्यम—ह पु / ३४/८९ सर्वविधि उपरोक्त ही प्रकार है । अन्तर

इतना है कि यहाँ १६ की जगज ९ उपवासोंसे प्रारम्भ करना । एक बार ९ से १ तक और इससे आगे ३ बार ५ से १ तक एक हानि क्रमसे कुल १६३ उपवास करे । चौथके ३३ स्थानोंमें एक-एक पारणा करे । अधम्य—ह पु / ३४/८८ क्रमश ५, ४, ३, २, १, ४, ३, २, १, ४, ३, २, १, ४, ३, २, १ इक प्रकार ४५ उपवास करे । चौथके १७ स्थानोंमें एक-एक पारणा करे । तथा तीनों ही विधियोंमें नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप करे । (व्रतविधान संग्रह/६६) ।

सप्त गोदावर—भरतक्षेत्रस्थ आर्य खण्डकी नदी—दे, मनुष्य/४ ।

सप्त तत्त्व—दे, तत्त्व ।

सप्तपारा—भरत क्षेत्रस्थ आर्य खण्डकी नदी—दे मनुष्य/४ ।

सप्तभंगी—प्रश्नकारके प्रश्नवश अनेकान्त स्वरूप वस्तुके प्रतिपादनके सात ही भंग होते हैं । न तो प्रश्न सातसे हीन या अधिक हो सकते हैं और न ये भग ही । उदाहरणार्थ—१ जीव चेतन स्वरूप ही है, २ शरीर रवरूप मिलकुल नहीं, ३ क्योंकि स्वलक्षणरूप अस्तित्व परकी निवृत्तिके बिना और परकी निवृत्ति स्व लक्षणके अस्तित्वके बिना ही नहीं सकती है, ४ पृथक् या क्रमसे कहे गये ये स्वसे अस्तित्व और परसे नास्तित्व रूप दोनों धर्म वस्तुमें युगपत् सिद्ध होनेसे वह अवक्तव्य है, ५ अक्तव्य होते हुए भी वह स्वस्वरूपसे सत् है, ६ अवक्तव्य होते हुए भी वह परसे सदा व्यावृत्त ही है, ७ और इस प्रकार वृत् अस्तित्व, नास्तित्व, व अवक्तव्य इन तीन धर्मोंके अभेद स्वरूप है । इस अवक्तव्यको वक्तव्य बनानेके लिए इन सात बातोंका क्रमसे कथन करते हुए प्रत्येक वाक्यके साथ कर्थाचित वाचक 'स्यात्' शब्दका प्रयोग करते हैं जिसके कारण अनुक्त भी शेष छह बातोंका सप्रह हो जाता है, और साथ ही प्रत्येक अपेक्षाके अनुधारणार्थ एवकार का भी । स्यात् शब्द सहित कथन होनेके कारण यह पद्धति स्याद्वाद कहलाती है ।

१	सप्तभगी निर्देश
१	सप्तभगीका लक्षण ।
२	सप्तभगीके नाम निर्देश ।
३	सातों भगीके पृथक्-पृथक् लक्षण ।
४	भग सात ही हो सकते हैं हीनाधिक नहीं ।
५	दो या तीन ही भग मूल हैं ।
*	सात भगीमें स्यात्कारकी आवश्यकता —दे स्याद्वाद/५ ।
*	सप्तभगीमें एकारकी आवश्यकता —दे एकान्त/२ ।
*	सापेक्ष ही सातों भग सम्यक् हैं निरपेक्ष नहीं —दे नय/II/७ ।
६	स्यात्कारका प्रयोग कर देनेपर अन्य अर्गोंकी क्या आवश्यकता ।
*	सप्तभगीका प्रयोजन —दे अनेकान्त/३ ।
२	प्रमाण नय सप्तभगी निर्देश
१	प्रमाण व नय सप्तभगीके लक्षण व उदाहरण ।
*	प्रमाण व नय सप्तभगी सम्बन्धी विशेष विचार —दे, सप्तत्वादेश व विकलादेश ।
२	प्रमाण सप्तभगीमें हेतु ।
३	प्रमाण व नय सप्तभगीमें अन्तर ।

- ४ सप्त भंगीमें प्रमाण व नयका विभाजन युक्त नहीं
 ५ नय सप्तभंगीमें हेतु ।
- ३ अनेक प्रकारसे सप्तभंगी प्रयोग
- १ एकान्त व अनेकान्तकी अपेक्षा ।
 २ स्वपर चतुष्टयकी अपेक्षा ।
 ३ विरोधी धर्मोंकी अपेक्षा —दे सप्तभंगी/५/७ ।
 ४ सामान्य विशेषकी अपेक्षा
 ५ नयोंकी अपेक्षा ।
 ६ अनन्तां सप्तभंगियोंकी सगणता ।
- ४ अस्ति नास्ति भंग निर्देश
- १ वस्तुकी सिद्धिमें इन दोनोंका प्रधान स्थान ।
 २ दोनोंमें अविनाभावी अपेक्षा ।
 ३ दोनोंकी सापेक्षतामें हेतु ।
 ४ नास्तित्वभंगकी सिद्धिमें हेतु ।
 ५ नास्तित्व वस्तुका धर्म है तथा तद्गत शक्ता ।
 ६ उभयात्मक तृतीय भंगकी सिद्धिमें हेतु ।
- ५ अनेक प्रकारसे अस्तित्व नास्तित्व प्रयोग
- १ स्वपर द्रव्यगुण पर्यायकी अपेक्षा ।
 २ स्वपर क्षेत्रकी अपेक्षा ।
 ३ स्वपर कालकी अपेक्षा ।
 ४ स्वपर भावकी अपेक्षा ।
 ५ वस्तुके सामान्य विशेष धर्मोंकी अपेक्षा ।
 ६ नयोंकी अपेक्षा ।
 ७ विरोधी धर्मोंमें ।
- * वस्तुमें अनेक विरोधी धर्म युगल तथा उनमें कथचित् अविरोध । —दे, अनेकान्त/४,६ ।
 * आकाश कुसुमादि अभावात्मक वस्तुओंका कथचित् विधि निषेध । —दे असत् ।
- ८ कालादिकी अपेक्षा वस्तुमें भेदाभेद ।
 ९ मोक्षमार्गकी अपेक्षा ।
- ६ अवक्तव्य भंग निर्देश
- १ युगपत् अनेक अर्थ कहनेकी असमर्थता ।
 २ वङ् सर्वथा अवक्तव्य नहीं ।
 ३ कालादिकी अपेक्षा वस्तु धर्म अवक्तव्य है ।
 ४ सर्वथा अवक्तव्य कहना मिथ्या है ।
 ५ वक्तव्य व अवक्तव्यका समन्वय ।
- * शब्दकी वक्तव्यता तथा वाच्य वाचकता । —दे, आगम/४ ।
 * वस्तुमें सूक्ष्म क्षेत्रादिकी अपेक्षा स्वपर विभाग । —दे, अनेकान्त/४/७ ।
 * शुद्ध निश्चय नय अत्राच्य है । —दे नय/१/२/२ ।
 * सूक्ष्म पर्याय अवाच्य हैं । —दे पर्याय/३/१ ।

१. सप्तभंगी निर्देश

१. सप्तभंगीका लक्षण

रा वा. /१/६/५/३३/१५ एकस्मिन् वस्तुनि प्रश्नप्रश्नाद् दृष्टेनेष्टेन च प्रमाणेनाविरुद्धा विधिप्रतिषेधविकल्पना सप्तभंगी त्रिज्ञेया । = प्रश्नके अनुसार एक वस्तुमें प्रमाणसे अविरुद्ध विधि प्रतिषेध धर्मोंकी कल्पना सप्तभंगी है । (स म /२३/२७८/८) ।
 प. का /ता वृ /१४/३०/१६ पर उद्घृत—एकस्मिन्विधिघेन प्रमाणनय-वाक्यत । सदादिकल्पना या च सप्तभङ्गीति सा मता । = प्रमाण वाक्यसे अथवा नय वाक्यसे, एक ही वस्तुमें अविरोध रूपसे जो सत्-असत् आदि धर्मकी कल्पना की जाती है उसे सप्तभंगी कहते हैं ।
 न्या ही /३/६८२/१२७/३ सप्तानां भङ्गानां समाहार सप्तभङ्गीति । = सप्त-भंगोंके समूहको सप्तभंगी कहते हैं (स भ त. /१/१०) ।
 स भ. त. /३/१ प्राश्निकप्रश्नज्ञानप्रयोज्यत्वे सति, एकवस्तुविशेष्यका-विरुद्धविधिप्रतिषेधात्मकधर्मप्रकारकनोधजनकसप्तवाक्यपर्यायसमुदा-यत्वम् । = प्रश्नकतकि प्रश्नज्ञानका प्रयोज्य रहते, एक पदार्थ विशेषक अविरुद्ध विधि प्रतिषेध रूप नाना धर्म प्रकारक बोधजनक सप्त वाक्य पर्याय समुदायता (सप्तभंगी है) ।

२. सप्तभंगोंके नाम निर्देश

प का. /मू. /१४ सिय अस्थि गण्थि उह्य अव्वत्त्व पुणो य तत्तिदर्य । दव्व खु मत्तभग आदेशवसेण मभवदि । १४ । = आदेश (कथन) के वश द्रव्य वास्तवमें स्यात्-अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति-नास्ति, स्यात् अवक्तव्य और अवक्तव्यता युक्त तीन भगवाला (स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, और स्यात् अस्ति-नास्ति अवक्तव्य) इस प्रकार सात भगवाला है । १४ । (प्र सा /मू / ११६), (रा वा /४/४२/१५/२५३/३), (स्या म /२३/२७८/११), (स भ. त. /२/१) ।
 न च वृ /२५२ सत्तैव हृति भगा पमाणनयदुणयभेदजुत्तावि । = प्रमाण सप्तभंगी में, अथवा नय सप्तभंगीमें, अथवा दुर्नय सप्तभंगीमें सर्वत्र सात ही भग ही है ।
 स भ त /१६/१ स च सप्तभंगी द्विविधा—प्रमाणसप्तभंगी नयसप्तभंगी चेति । = सप्तभंगी दो प्रकारकी है—प्रमाण सप्तभंगी और नय सप्तभंगी ।

३. सातों भंगोंके पृथक्-पृथक् लक्षण

स भ त. /५४ स /पक्ति स तत्र धर्मान्तराप्रतिषेधत्वे सति विधिविषयकबोधजनकवाक्य प्रथमो भङ्ग । स च स्यादस्त्येव घट इति वचनरूप । धर्मान्तराप्रतिषेधत्वे सति प्रतिषेधविषयकबोधजनकवाक्य द्वितीयो भङ्ग । स च रयान्नास्त्येव घट इत्याकार (२०/३) । घट स्यादस्ति च नास्ति चेति तृतीय । घटादिरूपै र्धर्मिदिशेष्यरूपापि तविधिप्रतिषेधप्रकारकबोधजनकवाक्यत तत्त्वक्षणम् । रूपापित-स्वरूपपररूपाद्यपेक्षयास्तित्वास्त्यत्वात्मको घट इति निरूपितमायम् । सहापितस्वरूपपररूपादिविवक्षाया स्यादवाचको घट इति चतुर्थ । घटादिविशेष्यकावक्तव्यत्वप्रकारकबोधजनकवाक्यत तत्त्वक्षणम् (६८/१) व्यस्त द्रव्य समस्तौ सहापितौ द्रव्यपर्यायावाश्रित्य स्यादस्ति चावक्तव्य एव घट इति पञ्चमभङ्ग । घटादिरूपै र्धर्मिदिशेष्यक-सत्त्वविशिष्टावक्तव्यप्रकारकबोधजनकवाक्यत तत्त्वक्षणम् । तत्र द्रव्यार्पणादस्तित्वस्य युगपद्द्रव्यपर्यायापिणावक्तव्यत्वस्य च विवक्षितत्वात् । (७१/७) तथा उक्तस्य पर्याय नमस्तौ द्रव्यपर्यायौ चाश्रित्य स्यान्नास्ति चावक्तव्यो घट इति षष्ठ । तत्त्वक्षण च घटादिरूपै र्धर्मि-विशेष्यकनास्तित्वविशिष्टावक्तव्यप्रकारकबोधजनकवाक्यत्वम् । एव व्यस्तौ रूपापितौ नमस्तौ सहापितौ च द्रव्यपर्यायावाश्रित्य स्यादस्ति

नास्ति चावक्तव्य एव घट इति सप्तमभङ्ग । घटादिरूपेकवस्तुविशेष्यकसत्त्वासत्त्वविशिष्टावक्तव्यत्वप्रकारबोधजनकवाक्यत्व तत्त्वलक्षणम् (७२/१)। = १ अन्य धर्मोका निषेध न करके विधि विषयक बोध उत्पन्न करनेवाला प्रथम भग है । वह 'कथंचित् घट है' इत्यादि वचन रूप है । २ धर्मान्तरका निषेध न करके निषेध विषयक बोधजनक वाक्य द्वितीय भग है । 'कथंचित् घट नहीं है' इत्यादि वचनरूप उसका आकार है । (२०/३) । ३. 'किसी अपेक्षासे घट है किसी अपेक्षासे नहीं है' यह तीसरा भग है । घट आदि रूप एक धर्मो विशेष्यवाला तथा क्रमसे योजित विधि प्रतिषेध विशेषणवाले बोधका जनक वाक्यत्व, यह तृतीय भगका लक्षण है । क्रमसे अपित स्वरूप पररूप द्रव्य आदिकी अपेक्षा अस्ति नास्ति आरम्भक घट है । यह विषय निरूपित है । ४ सह अपित् स्वरूप-पररूप आदिकी विवक्षा करने-पर किसी अपेक्षासे घट अवाच्य है यह चतुर्थ भग होता है । घटादि पदार्थ विशेष्यक और अवक्तव्य विशेषणवाले बोध (ज्ञान) का जनक वाक्यत्व, इसका लक्षण है । (६०/१) ५ पृथक् भूत द्रव्य और मिलित द्रव्य पर्याय इनका आश्रय करके 'कथंचित् घट अवक्तव्य है' इस भंगकी प्रवृत्ति होती है । घट आदिरूप धर्मो विशेष्यक और सत्त्व सहित अवक्तव्य विशेषणवाले ज्ञानका जनक वाक्यत्व, यह इसका लक्षण है । इस भगमें द्रव्यरूपसे अस्तित्व, और एक युगपद द्रव्य पर्यायको मिलाके योजन करनेसे अवक्तव्यत्व रूप विवक्षित है । ६. ऐसे ही पृथगभूत पर्याय और मिलित द्रव्य पर्यायका आश्रय करके 'किसी अपेक्षासे घट नहीं है तथा अवक्तव्य है' इस भगकी प्रवृत्ति होती है । घट आदि रूप एक पदार्थ विशेष्यक और असत्त्व सहित अवक्तव्यत्व विशेषणवाले ज्ञानका जनक वाक्यत्व, इसका लक्षण है । ७. क्रमसे योजित तथा युगपद योजित द्रव्य तथा पर्यायका आश्रय करके 'किसी अपेक्षासे सत्त्व असत्त्व सहित अवक्तव्यत्वका आश्रय घट, इस सप्तम भगकी प्रवृत्ति होती है । घट आदि रूप एक पदार्थ विशेष्यक और सत्त्व असत्त्व सहित अवक्तव्यत्व विशेषणवाले ज्ञानका जनक वाक्य, इसका लक्षण है । (और भी दे, नय/१/५/२)

४ भंग सात ही हो सकते हैं हीनाधिक नही

रा, वा ४/४२/१५/२५३/७ पर उद्भूत—पुच्छावसेण भगा सत्त्वेव दु स-भवादि जस्त जथा । वस्तुत्ति त पञ्चच्चदि सामणविसेसदो नियद । = प्रश्नके वशसे ही भग होते हैं । क्योंकि वस्तु सामान्य और विशेष उभय धर्मोसे युक्त है ।

रलो वा, २/१६/४६-५२/४१४/१६ ननु च प्रतिपर्यायमेक एव भङ्गस्याद्वचनस्य न तु सप्तभङ्गो तस्य सप्तधा वस्तुमशक्ते । पर्यायशब्देस्तु तस्याभिधाने कथ तन्नियम सहस्रभङ्ग्या अपि तथा निषेद्धुमशक्तेरिति चैत नैतत्सार, प्रश्नवशादिति वचनात् । तस्य सप्तधा प्रवृत्तौ तत्प्रतिवचनस्य सप्तविधत्तोपपत्ते प्रश्नस्य तु सप्तधा प्रवृत्ति वस्तुन्येवस्य पर्यायस्याभिधाने पर्यायान्तराणामाक्षेपसिद्धिः । = प्रश्न—प्रत्येक पर्यायकी अपेक्षासे वचनका भग एक ही होना चाहिए । सात भग नहीं हो सकते, क्योंकि एक अर्थका सात प्रकारसे कहना अशक्य है । पर्यायवाची सात शब्दों करके एकका निरूपण करोगे तो सातका नियम कैसे रहा । हजारों भंगोंके समाहारका निषेध भी नहीं कर सकते हो । उत्तर—यह कथन सार रहित है । क्योंकि, प्रश्नके वश ऐसा पद डालकर कहा है । प्रश्न सात प्रकारसे प्रवृत्त हो रहा है तो उसके उत्तर रूप वचनको सात-सात प्रकारपना युक्त ही है । और यह वस्तुमें एक पर्यायके कथन करनेपर अन्य प्रतिपेय, अवक्तव्य आदि पर्यायोंके आक्षेप कर लेनेसे सिद्ध है ।

स भ त /८ पर उद्भूत रलो-भङ्गासत्त्वाद्यस्सप्त सशयास्सप्त तद्गता । जिज्ञासास्सप्त सप्त स्यु, प्रश्नास्सप्तोत्तराण्यपि । = 'कथंचित् घट है' इत्यादि वाक्यमें सत्त्व आदि सप्तभंग इस हेतुसे हैं कि उनमें स्थिति

सशय भी सप्त है, और सप्तसशयके लिए जिज्ञासाओंके भेद भी सप्त है, और जिज्ञासाओंके भेदसे ही सप्त प्रकारके प्रश्न तथा उत्तर भी है । (स्या म /२३/२२/१४,१७), (स, भ त /४/७) ।

५ दो या तीन ही भग मूल हैं

स्या म /२४/२६/१२ अभीपामेय प्रयाणा (अस्ति नास्ति अवक्तव्यानां) मुख्यत्वाच्छेषभङ्गानां च सयोगजत्वेनामीष्वेवान्तर्भावोदिति । = क्योंकि आदिके (अस्ति, नास्ति व अवक्तव्य ये) तीन भग ही मुख्य भग हैं, शेष भग इन्होंने तीनोंके सयोगसे बनते हैं, अतएव उनका इन्होंने अन्तर्भाव हो जाता है ।

स भ, त/७/६ इत्येवं मूलभङ्गद्वये सिद्धे उत्तरे च भङ्गा एवमेव योजयितव्या । = इस रीतिसे मूलभूत (अस्ति-नास्ति) दो भगकी सिद्धि होनेसे उत्तर भंगोंकी योजना करनी चाहिए ।

६. स्यात्कारका प्रयोग कर देने पर अन्य अंगोंकी क्या आवश्यकता

रा वा ४/४२/१५/२५३/१३/२० यद्ययमनेकान्तार्थास्तेनैव सर्वस्योपादानात् इतरेषां पदानामानर्थक्यं प्रसज्यते, नैप दोषः, सामान्येनोपादानेऽपि विशेषार्थिना विशेषोऽनुप्रयोजितव्य १३। यद्येव स्यादस्त्येव जीवः इत्यनेनैव सकलादेशेन जीवद्रव्यगतानां सर्वेषां धर्माणोसग्रहात् इतरेषां भङ्गानामानर्थक्यमासजति, नैप दोषः, गुणप्राधान्यव्यवस्थाविशेषप्रतिपादनार्थत्वात् सर्वेषां भङ्गानां प्रयोगोऽर्थवाच् । = प्रश्न—यदि इस 'स्यात्' शब्दसे अनेकान्तार्थका धोतन हो जाता है, तो इतर पदोंके प्रयोगका क्या अर्थ है ? ऐसा प्रसंग आता है । उत्तर—इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि सामान्यतया अनेकान्तका धोतन हो जानेपर भी, विशेषार्थी विशेष शब्दका प्रयोग करते हैं । प्रश्न—यदि 'स्यात् अस्त्येव जीव' यह वाक्य सकलादेशी है तो इसीसे जीव द्रव्यके सभी धर्मोका सग्रह हो ही जाता है, तो आगेके भग निरर्थक है । उत्तर—गौण और मुख्य विवक्षासे सभी भगोंकी सार्थकता है ।

२. प्रमाण नय सप्तभंगी निर्देश

१ प्रमाण व नय सप्तभंगीके लक्षण व उदाहरण

रा वा ४/४५/१५/२१३/३ तत्रैतस्मिन् सकलादेश आदेशवशात् सप्तभङ्गी प्रतिपद वेदितव्या । तथा—स्यादस्त्येव जीव, स्यान्नास्त्येव जीव, स्यादवक्तव्य एव जीव, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च इत्यादि । तत्र स्यादस्त्येव जीव इत्येतस्मिन् वाक्ये जीवशब्दो द्रव्यवचन विशेष्यत्वात्, अस्तीति गुणवचनो विशेषणत्वात् । तयोस्सामान्यार्थाविच्छेदेन विशेषणविशेष्यसम्बन्धावद्योतनार्थ एवकार ।

रा वा, ४/४२/१७/२६०/२२ तत्रापि विकलादेशे तथा आदेशवशेन सप्तभङ्गी वेदितव्या । तथा सर्वसामान्यादिषु द्रव्यार्थादेशेषु केनचित्तुपलभ्यमानत्वात् स्यादस्त्येवास्तीति प्रथमो विकलादेशः । एव शेषभङ्गेष्वपि विवक्षिताशमात्रप्ररूपणायाम् इतरेष्वौदासीन्येन विकलादेशकल्पना योज्या । = १ इस सकलादेशमें प्रत्येक धर्मकी अपेक्षा सप्तभंगी होती है । १. स्यात् अस्त्येव जीव, २. स्यात् नास्त्येव जीव, ३. स्यात् अवक्तव्य एव जीव, ४. स्यात् अस्ति च नास्ति च, ५. स्यात् अस्ति च अवक्तव्यश्च, ६. स्यात् नास्ति च अवक्तव्यश्च, ७. स्यात् अस्ति नास्ति च अवक्तव्यश्च । = 'त्यात्' 'अस्त्येव जीव' इस वाक्यमें जीव शब्द विशेष्य है द्रव्यवाची है और अस्ति शब्द विशेषण हे गुणवाची है । उनमें विशेषण विशेष्यभाव द्योतनके लिए 'एव' का प्रयोग है । २. विकलादेशमें भी सप्त-

भगो होती है। यथा—सर्व सामान्य आदि किसी एक द्रव्यार्थ दृष्टिसे 'स्यादस्त्येन आत्मा' यह पहला विकलादेश है। इसी तरह अन्य धर्मों में भी स्व विवक्षित धर्मकी प्रधानता होती है और अन्य धर्मोंके प्रति उदासीनता, न तो उनका विधान ही होता है और न प्रतिषेध ही।

क पा १/१, १३-१४/१ १७०/२०१/२ स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्यादवक्तव्य स्यादस्ति च नास्ति च स्यादस्ति चावक्तव्यश्च स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च घट इति सप्तापि सकलादेशः। एष सकलादेश प्रमाणाधीन प्रमाणायत्त प्रमाणव्यपश्रय प्रमाणजनित इति यावत्।

क. पा १/१, १३-१४/१७१/२०३/६ अस्त्येव नास्त्येव अवक्तव्य एव अस्ति नास्त्येव अस्त्येवक्तव्य एव नास्त्यवक्तव्य एव अस्ति नास्त्यवक्तव्य एव घट इति विकलादेशः। अयं च विकलादेशो नयाधीन नयायत्त नयवशादुत्पद्यत इति यावत्। = १ कथंचित् घट है, कथंचित् घट नहीं है कथंचित् घट अवक्तव्य है, कथंचित् घट है और नहीं है, कथंचित् घट है और अवक्तव्य है, कथंचित् घट नहीं है और अवक्तव्य है, कथंचित् घट है नहीं है और अवक्तव्य है, इस प्रकार ये सातों भग सकलादेश कहे जाते हैं। यह सकलादेश प्रमाणाधीन है अर्थात् प्रमाणके वशीभूत है, प्रमाणाश्रित है या प्रमाणजनित है ऐसा जानना चाहिए। २. घट है ही, घट नहीं ही है, घट अवक्तव्य रूप है, घट है ही और नहीं ही है, घट है ही और अवक्तव्य ही है, घट नहीं ही है और अवक्तव्य ही है, घट है ही और अवक्तव्य ही है, इस प्रकार यह विकलादेश है। यह विकलादेश नयाधीन है, नयक वशीभूत है या नयसे उत्पन्न होता है।

घ ६/४, १ ४४/१६६/४ सकलादेश स्यादस्तीत्यादि प्रमाणनिबन्धनत्वात् स्याच्छब्देन सूचितशेषप्रधानीभूतधर्मत्वात्। विकलादेश अस्तीत्यादि नयोत्पन्नत्वात्।

घ. ६/४, १ ४४/१६३/७ स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादवक्तव्यम्, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादस्ति चावक्तव्य च, स्यान्नास्ति चावक्तव्य च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्य च इति एतानि सप्त सुनयवाक्यानि प्रधानीकृतकधर्मत्वात्। = १, 'कथंचित् है' इत्यादि सात भगोंका नाम सकलादेश है, क्योंकि प्रमाण निमित्तक होनेके कारण इसके द्वारा 'स्यात्' शब्दसे समस्त अप्रधानभूत धर्मोंकी सूचना की जाती है। 'अस्ति' अर्थात् है इत्यादि सात वाक्योंका नाम विकलादेश है, क्योंकि वे नयोंसे उत्पन्न होते हैं। २ कथंचित् है, कथंचित् नहीं है, कथंचित् अवक्तव्य है, कथंचित् है और नहीं है, कथंचित् है और अवक्तव्य है, कथंचित् नहीं है और अवक्तव्य है, कथंचित् है और नहीं है और अवक्तव्य है, इस प्रकार ये सात सुनय वाक्य हैं, क्योंकि वे एक धर्मको प्रधान करते हैं।

न च श्रुत ६/२/११ प्रमाणवाक्य यथा स्यादस्ति स्यान्नास्ति आदयः। नयवाक्य यथा अस्त्येव स्वद्रव्यादिग्राहकनयेन। नास्त्येव परद्रव्यादिग्राहकनयेन। (इत्यादि) स्वभावानां नये योजनिकामाह। = प्रमाण वाक्य निम्न प्रकार हैं—जैसे कथंचित् है, कथंचित् नहीं है। इत्यादि प्रमाणकी योजना है। नयवाक्य निम्न प्रकार हैं जैसे—स्वद्रव्यादिग्राहक नयकी अपेक्षासे भावरूप ही है। परद्रव्यादिग्राहक नयकी अपेक्षासे अभावरूप ही है (इसी प्रकार अन्य भग भी लगा लेने चाहिए) स्वभावोंकी नयोंमें योजना बतलाते हैं। (वह उपरोक्त प्रकार लगा लेनी चाहिए)। (न च वृ ०५२-२५५)।

प का/ता वृ १/१७/३२/११ सूक्ष्मव्याख्यानविषयार्थं पुनः सवेकनित्यादिधर्मेषु मध्ये एकैकधर्मं निरुद्धे सप्तभङ्गा वक्तव्याः। कथामिति चेत्। स्यादस्ति स्यान्नास्ति। = सूक्ष्म व्याख्यानकी विवक्षामें सत्, एक नित्यादि आदि एक-एक धर्मको लेकर सप्तभग करने चाहिए।

जैसे—स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, (इत्यादि इसी प्रकार अन्य भगोंकी योजना करनी चाहिए)।

प्र सा १/१५/५/५ नयसप्तभङ्गो विस्तारयति स्यादस्त्येन स्यान्नास्त्येव (१६१/१०) पूर्वं पञ्चास्तिकाम्ये स्यादस्तीत्यादिप्रमाणवाक्येन प्रमाणसप्तभङ्गो व्याख्याता, अत्र तु स्यादस्त्येव यदेवकारग्रहणं तन्नयसप्तभङ्गोपनार्थमिति भावार्थः १६२/१६। = नय सप्तभङ्गी कहते हैं—यथा—'स्यादस्त्येव' अर्थात् कथंचित् जीव है ही, कथंचित् जीव नहीं ही है। इत्यादि। पहले पञ्चास्तिकाय ग्रन्थमें 'कथंचित् है' इत्यादि प्रमाण वाक्यसे प्रमाणसप्त भगो व्याख्यान की गयी। और यहाँपर जो 'कथंचित् है ही' इसमें जो एवकारका ग्रहण किया है वह नय सप्तभगोंके ज्ञान करानेके लिए किया गया है।

न्या दी ३/३/२/१२६-१२७ द्रव्यार्थिकनयाभिप्रायेण सुवर्णं स्यादेकमेव, पर्यायाधिकनयाभिप्रायेण स्यादनेकमेव। नैषा नयविनियोगपरिपाटी सप्तभङ्गीत्युच्यते। = द्रव्यार्थिक नयके अभिप्रायमें सोना कथंचित् एकरूप है, पर्यायाधिक नयके अभिप्रायसे कथंचित् अनेक रूप है। इत्यादि नयोंके कथन करनेकी इस शैलीको ही सप्तभगी कहते हैं।

२. प्रमाण सप्तमंगीमे हेतु

रा. वा ४/४२/१५/५ स०/५ स जीव स्यादस्ति स्यान्नास्तीति। अतः द्रव्यार्थिक पर्यायाधिकमात्मसात्कुर्वन् व्याह्रियते, पर्यायाधिकोऽपि द्रव्यार्थिकमिति उभावपि इमी सकलादेशौ (२५७/८)। ताभ्यामेव क्रमेणाभिधिरसायां तथैव वस्तुसकलस्वरूपसग्रहात् चतुर्थोऽपि विकल्पसकलादेश (२५८/२०) ततः स्यादस्ति चावक्तव्यश्च जीवः। अयमपि सकलादेशः। अशाभेदविवक्षायाम् एषांशमुत्तेन मकलसग्रहात् (२५६/२७) यश्च वस्तुत्वेन सन्निति द्रव्यार्थांश यश्च तत्प्रतियोगिनावस्तुत्वेनासन्निति पर्यायांश, ताभ्यां युगपदभेदविवक्षयां अवक्तव्य इति द्वितीयोऽंशः। तस्मान्नास्ति चावक्तव्यश्चात्मा। अयमपि सकलादेशः शेषवाग्गोचरस्वरूपसमूहस्याविनाभावात् तत्रैवान्तर्भूतस्य स्याच्छब्देन द्योतितत्वात् (२६०/१) सप्तमो विकल्प चतुर्भिरात्मभि र्यशः। द्रव्यार्थविशेष क्वचिदाश्रित्यास्तित्व पर्यायविशेष च क्वचिदाश्रित्य नास्तित्वमिति समुचितरूप भवति, द्वयोरपि प्राधान्येन विवक्षितत्वात्। द्रव्यपर्यायविशेषेण च केनचित् द्रव्यपर्यायसामान्येन च केनचित् युगपदवक्तव्य इति तृतीयोऽंशः। ततः स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च आत्मा। अयमपि सकलादेशः। यत् सर्वान् द्रव्यार्थान् द्रव्यमित्यभेदादेकद्रव्यार्थं मन्यते। सर्वान् पर्यायार्थश्च पर्यायजात्यभेदादेकपर्यायार्थम्। अतो विवक्षितवस्तुजात्यभेदात् कृत्स्न वस्तु एकद्रव्यार्थाभिन्नम् एकपर्यायाभेदोपचरितं वा एकमिति सकलसग्रहात् (२६०/५)। = जीव स्यादस्ति और स्यान्नास्तिरूप है। एनमें द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिको तथा पर्यायाधिक द्रव्यार्थिकको अपनेमें अन्तर्भूत करके व्यापार करता है, अतः दोनों ही भग सकलादेशी हैं (२५७/८)। (अवक्तव्य भेद—दे सप्तभगी/६) जब दोनों धर्मोंकी क्रमशः मुख्य रूपसे विवक्षा होती है तब उनके द्वारा समस्त वस्तुका ग्रहण होनेमें चौथा भी भग सकलादेशी होता है (२५८/२०) जीव स्यात् अस्ति और अवक्तव्य है, यह भी विवक्षासे अखण्ड वस्तुको सग्रह करनेके कारण सकलादेश है क्योंकि इनमें एक अंश रूपमें समस्त वस्तुको ग्रहण किया है (२५६/२७) जो 'वस्तुत्वेन मत् है वही तथा जो अवस्तुत्वेन असत् है वही पर्यायांश है। इन दोनोंको युगपत् अभेद विवक्षामें वस्तु अवक्तव्य है यह दूसरा अंश है। इस तरह आत्मा नास्ति अवक्तव्य है यह ती सकलादेश है क्योंकि विवक्षित धर्मरूपमें अखण्ड वस्तुको ग्रहण करता है। (२६०/१) मातृवो भग चास्वरूपोंसे तीन ज्ञानाला है। किन्ती द्रव्यार्थ विशेषकी अपेक्षा अस्तित्व किसी पर्याय विशेषकी अपेक्षा नास्तित्व है। तथाकिन्ती

द्रव्यपर्याय विशेष, और द्रव्य पर्याय सामान्यकी युगपत् त्रिकक्षामें वही अवक्तव्य भी हो जाता है। इस तरह अस्तित्वावक्तव्य भग्न बन जाता है। यह भी संकलादेश है। सर्वद्रव्योंको द्रव्य जातिकी अपेक्षासे एक कहा जाता है, तथा सर्व पर्यायोंको पर्याय जातिकी अपेक्षासे एक कहा जाता है। क्योंकि हमने विवक्षित धर्मरूपसे अखण्ड समस्त वस्तुका ग्रहण किया है।

घ ४/१४/१४४/१ द्रव्यपञ्चद्विष्टयण अणुलघिम ऋणोनाया-भावाद्। यदि एवं, ता पमाणव्यक्तस अभावो पराज्जदे इदि युते, होदु णाम अभावो, गुणपहाणभावमत्तरेण कणोवागाभावाद्। अथवा, पमाणुप्राप्तद वयण पमाणवक्रसुवयारेण युद्धे। —द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयोंके अवलम्बन विधे विना वस्तु रारूपके कथन करनेके उपायका अभाव है। प्रश्न—यदि ऐसा है तो प्रमाण वाक्यका अभाव प्राप्त होता है। उत्तर—भले ही प्रमाण वाक्यका अभाव हो जावे, क्योंकि, गौणता और प्रधानताके विना वस्तु स्वरूपके कथन करनेके उपायका भी अभाव है। अथवा प्रमाणसे उद्गाहित वचनको उपचारसे प्रमाण वाक्य कहते हैं।

३. प्रमाण व नय सप्तमंगीमें अन्तर

स्या म २/२३०८/४ सदिति उल्लेखनात् नय । स हि 'अस्ति घट' इति घटे स्नाभिमत्तमस्तिरवधर्मं प्रसाधयन् शेषधर्मेषु गजनिमित्तिता-मालम्बते । न चास्य दुर्नयत्वम् । धर्मान्तरातिरस्कारात् । न च प्रमाणत्वम् । स्याच्चद्वन्द्वेन अलाञ्छितत्वात् । स्यात्सदिति 'स्यात्कथ-चित् सद्व वस्तु' इति प्रमाणम् । प्रमाणत्वं चास्य दृष्टाष्टाधिस्तरवाद् विपक्षे बाधकसद्भावाच्च । सर्वं हि वस्तु स्वरूपेण सत् पररूपेण चासद् इति असकृदुक्तम् । सदिति दिङ्मात्रदर्शनार्थम् । अनया दिशा असत्त्वनिश्चयान्तरित्यवक्तव्यत्वमामान्यविशेषादि अपि मोक्ष्यम् ।
—१ किसी वस्तुमें अपने दृष्ट धर्मको सिद्ध करते हुए अन्य धर्मोंमें उदासीन होकर वस्तुके विवेचन करनेको नय कहते हैं—जैसे 'यह घट है' । नयमें दुर्नयकी तरह एक धर्मके अतिरिक्त अन्य धर्मोंका निषेध नहीं किया जाता, इसलिए नयको दुर्नय नहीं कहा जा सकता। तथा नयमें स्यात् शब्दका प्रयोग न होनेसे इसे प्रमाण भी नहीं कह सकते।
२ वस्तुके नाना दृष्टियोंकी अपेक्षा कथंचित् स्वरूप विवेचन करनेको प्रमाण कहते हैं जैसे 'घट कथंचित् सद्व है' । प्रत्यक्ष और अनुमानसे अबाधित होनेसे और विपक्षका बाधक होनेसे इसे प्रमाण कहते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभावसे सत् और दूसरे स्वभावसे असत् है, यह पहले कहा जा चुका है। यहाँ वस्तुके एक सत् धर्मको कहा गया है। इसी प्रकार असत्, निरय, अनित्य, वक्तव्य, अवक्तव्य सामान्य, विशेष आदि अनेक धर्म समझने चाहिए।

स्या म २/२३२१/१ स्याच्चप्रस्ताञ्छितानां नयानामेव प्रमाणव्यपदेश-भावत्वात् । —नय वाक्योंमें स्यात् शब्द लगाकर बोलनेवालेको प्रमाण कहते हैं।

घ का /ता वृ /१५/३२/१६ स्यात्सिद्ध द्रव्यमिति पठनेन वचनेन प्रमाण-सप्तमङ्गो ज्ञायते । कथमिति चेत् । स्यादस्त्येति सकलरूपुयाहक स्वात्प्रमाणानयस्य स्यादस्त्येव द्रव्यमिति वस्तुवैक्येद्राष्टाष्टान्मन्य-वाक्यम् । —'द्रव्य कथंचित् है' ऐसा कहनेपर प्रमाण सप्तमंगी जानी जाती है क्योंकि, 'कथंचित् है' यह वाक्य सकल वस्तुका ग्राहक होनेके कारण प्रमाण वाक्य है। 'द्रव्य कथंचित् है ही' ऐसा कहनेपर यह वस्तुका एकदेश ग्राहक होनेसे नय वाक्य है।

दे विकलादेश केवल धर्मों विषयक बोधजनक वाक्य मन्नादेश, तथा केवल धर्म विषयक बोधजनक वाक्य नय है ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि धर्मों और धर्म दोनों स्वस्वत् रूपसे नहीं रहते हैं।

४ सप्तमंगीमें प्रमाण व नयका विभाग युक्त नहीं

स मं त २/१६/६ न च योग्येन नयवाक्यानि चरार्थेन पमाणवाक्यानि

इति उक्तु युक्तं सिद्धान्तविरोधात् । —तीन (प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ भग) ही नय वाक्य हैं और चार (तृतीय, पंचम, षष्ठ, सातम भग) ही प्रमाण वाक्य हैं, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि सिद्धान्तसे विरोध आता है।

५ नय सप्तमंगीमें हंटु

दे सप्तमंगी/२/१ में ध/६ 'ग्याद् अस्ति' आदि ये गाल वाक्य सुनय वाक्य हैं, क्योंकि ये एक धर्मको विषय करते हैं।

घ. ध /घृ /६२,६२६,६२६ यदनेवांश्याहर्त्तमा प्रमाणं न प्रत्ययगतता । प्रत्युत मैत्रीभाववदिति नयभेदगद प्रभिन्न स्यात् । ६२२ न यथास्ति च तास्तीति च क्रमेण युगपत् नानयोर्भाव । अपि या वचन्यमिदं नयो निष्कपानतिरामादेव । ६२३ नञ्कारित च नास्ति मम भङ्गन्या-स्यैतद्धर्मता नियमात् । न पुन, प्रमाणमिव किन् विरुद्धधर्मद्रव्याधि-स्तत्त्वम् । ६२६ —प्रमाण अनेक ज्ञातको ग्रहण करनेवाला परस्पर विरोधीपनेसे नहीं कहा गया है किन्तु मानस भावसे कहा गया है। इसलिए संयोगी भगवत्ता नयोंके भेदमें भिन्न है । ६२७ (नय-विशेषावयवम्) जैसे विशयका उल्लेखन नहीं करनेमें ही क्रमपूर्वक अस्ति और नास्ति, अस्तिनास्तिक्रम पूर्वक एक साथ करना यह भग तथा यह आस्त्यत्ता भी नय है । ६२८ उन भंगोंमेंसे निश्चय करने एक साथ अस्ति और नास्ति मिले हुए एक भगको नियमसे एक धर्मपना है किन्तु प्रमाणकी तरह विरुद्ध दो धर्मोंको विषय करनेवाला नहीं है । ६२९।

३. अनेक प्रकारसे सप्तमंगी प्रयोग

१. एकान्त व अनेकान्तकी अपेक्षा

रा ता १/१६/३५/१०-२२ अनेकान्ते सप्तभावादव्याप्तिरिति चेत्, न, तत्रापि तदुपपत्ते । ६। स्यादेकान्त स्यादनेकान्त इति । तत्त्वथ-मिति चेत् । —प्रश्न—अनेकान्तमें सप्तमंगीका अभाव होनेसे 'सप्त-मंगीकी योजना सर्वत्र होती है' इस नियमका अभाव हो जायेगा। उत्तर—ऐसा नहीं है, अनेकान्तमें भी सप्तमंगीकी योजना होती है। यथा-'स्यादेकान्त', स्यादनेकान्त इत्यादि'। क्योंकि (यदि अनेकान्त अनेकान्त ही होवे तो एकान्तका अभाव होनेसे अनेकान्त-का अभाव हो जावेगा और यदि एकान्त ही होवे तो उसके अविना-भावि शेष धर्मोंका लोभ होनेसे सब लोभ हो जावेगा। (दे, अनेकान्त/२/५)।

स म त ७/५/१ सम्भोगेकान्तसम्भोगेकान्तान्नाश्रिय प्रमाणनयार्पणा-भेदात्, स्यादेकान्त स्यादनेकान्त सप्तमङ्गी योजनम् । तत्र नयार्पणा-देकान्तो भवति, एवधर्मगोचरत्वानयस्य । प्रमाणादनेकान्तो भवति, अशेषधर्मनिरचयारमकरात्प्रमाणस्य । —सम्भोगेकान्त और सम्भोगे-वान्तका आश्रय लेकर प्रमाण तथा नयके भेदकी योजनासे किसी अपेक्षासे एकान्त, किसी अपेक्षासे अनेकान्त (आदि)। इस रीतिसे सप्तमंगीकी योजना करनी चाहिए। उसमें नयकी योजनासे एकान्त पक्ष सिद्ध होता है, क्योंकि नय एक धर्मको विषय करता है। और प्रमाणकी योजनासे अनेकान्त सिद्ध होता है, क्योंकि प्रमाण सम्पूर्ण धर्मोंको विषय करता है।

२. स्व-पर चतुष्टयकी अपेक्षा

घ का /त प्र /१४ तत्र स्वाद्रव्यशेषकालभावैरादिष्टमस्ति द्रव्य, परद्रव्य-क्षेत्रालभावैरादिष्ट नास्ति द्रव्य इति । न चैतदुपपत्तम्, सर्वस्य वस्तुन स्वरूपादिना अशून्यत्वात्, पररूपादिना शून्यत्वात् इति । —द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्र काल-भावसे कथन किया जानेपर 'अस्ति' है। द्रव्य परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे कथन किया जानेपर 'नास्ति' है, .

(आदि)। यह (उपरोक्त वात) अयोग्य नहीं है, क्योंकि सर्व वस्तु स्वरूपादिसे अज्ञान्य हैं, पररूपादिसे ज्ञान्य है (आदि)। (प्र. सा / त प्र / ११६) (ध ६/४, १, ४६/२१३/४) और भी दे नय/१/६/२)

३. सामान्य विशेषकी अपेक्षा

रा. वा. ४/४२/१६/२६-२६६/२ कथमेते निरूप्यन्ते । सर्वसामान्येन तदभावेन च...तत्र आत्मा अस्तीति सर्वप्रकारानाश्रयणादिच्छावशात् कश्चित्तेन सर्वसामान्येन वस्तुत्वेन अस्तीति प्रथम । तत्प्रतिपक्षेणाभावसामान्येनावस्तुत्वेन नास्त्यात्मा इति द्वितीय, । विशिष्टसामान्येन तदभावेन च यथाश्रुतत्वात् श्रुत्युपात्तेन आत्मनैवाभिसम्बन्ध, ततश्चात्मत्वेनैव अस्त्यात्मा इति प्रथम । यथाश्रुतप्रतियोगित्वात् अनात्मत्वेनैव नास्त्यात्मा इति द्वितीय । विशिष्टसामान्येन तदभावसामान्येन च-यथाश्रुतत्वात् आत्मत्वेनैवास्तीति प्रथम । अभ्युपगमविरोधभावात् वस्त्वन्तरात्मना क्षित्युदकज्वलनघटपटगुणकर्मादिना सर्वेण प्रकारेण सामान्यो नास्तीति द्वितीय । विशिष्टसामान्येन तद्विशेषेण च-आत्मसामान्येनास्त्यात्मा । आत्मविशेषेण मनुष्यत्वेन नास्ति । सामान्येन विशिष्टसामान्येन च-अविशेषरूपेण द्रव्यत्वेन अस्त्यात्मा । विशिष्टेन सामान्येन प्रतियोगिना नात्मत्वेन नास्त्यात्मा । द्रव्यसामान्येन गुणसामान्येन च वस्तुनस्तथा तथा सभवात् तां ता विवक्षा-माश्रित्याविशेषरूपेण द्रव्यत्वेनास्त्यात्मा, तत्प्रतियोगिना विशेषरूपेण गुणत्वेन नास्त्यात्मा । धर्मसमुदायेन तद्व्यतिरेकेण च-त्रिकालगोचरानेकशक्तिज्ञानादिधर्मसमुदायरूपेणास्मारित । तद्व्यतिरेकेण नास्त्यनुपलब्धे । धर्मसामान्यसम्बन्धेन तदभावेन च गुणरूपगतसामान्यसंबन्धविवक्षायां यस्य कस्यचित् धर्मस्य आश्रयत्वेन अस्त्यात्मा । न तु कस्यचिदपि धर्मस्याश्रयो न भवतीति धर्मसामान्यानाश्रयत्वेन नास्त्यात्मा । धर्मविशेषसम्बन्धेन तदभावेन च अनेकधर्मणोऽन्यतमधर्मसंबन्धेन तद्विशेषेण वा विवक्षायाम् यथा अस्त्यात्मा नित्यत्वेन निरवयवत्वेन चेतनत्वेन वा, तेषामेवान्यतमधर्मप्रतिपक्षेण नास्त्यात्मा । =सप्त भगीका निरूपण इस प्रकार होता है—१ सर्वसामान्य और तदभावसे 'आत्मा अस्ति' यहाँ सभी प्रकारके अवान्तर भेदोंकी विवक्षा न रहनेपर सर्वविशेष व्यापी सन्मात्रकी दृष्टिसे उसमें 'अस्ति' व्यवहार होता है और उसके प्रतिपक्ष अभाव सामान्यसे 'नास्ति' व्यवहार होता है । २ विशिष्ट सामान्य और तदभावसे—आत्मा आत्मत्वरूप विशिष्ट सामान्यकी दृष्टिसे 'अस्ति' है और अनात्मत्व दृष्टिसे 'नास्ति' है । ३ विशिष्टसामान्य और तदभाव सामान्यसे । आत्मा 'आत्मत्व' रूपसे 'अस्ति' है तथा पृथिवी जल, पट आदि सब प्रकारसे अभाव सामान्य रूपसे 'नास्ति' है । ४. विशिष्ट सामान्य और तद्विशेषसे । आत्मा 'आत्मत्व' रूपसे अस्ति है, और आत्मविशेष 'मनुष्यरूपसे' 'नास्ति' है । ५ सामान्य और विशिष्ट सामान्यसे । सामान्य दृष्टिसे द्रव्यत्व रूपसे आत्मा 'अस्ति' है और विशिष्ट सामान्यके अभावरूप अनात्मत्वसे 'नास्ति' है । ६ द्रव्य सामान्य और गुण सामान्यसे । द्रव्यत्व रूपसे आत्मा 'अस्ति' है तथा प्रतियोगी गुणत्वकी दृष्टिसे 'नास्ति' है । ७ धर्मसमुदाय और तद्व्यतिरेकसे । त्रिकाल गोचर अनेक शक्ति तथा ज्ञानादि धर्म समुदाय रूपसे आत्मा 'अस्ति' है । तथा तदभाव रूपसे नास्ति है । ८—धर्म समुदाय सम्बन्ध से और तदभावसे । ज्ञानादि गुणोंके सामान्य सम्बन्धकी दृष्टिसे आत्मा 'अस्ति' है तथा किसी भी समय धर्म सामान्य सम्बन्धका अभाव नहीं होता अत तदभावकी दृष्टिसे 'नास्ति' है । ९—धर्मविशेष सम्बन्ध और तदभावसे । किसी विवक्षित धर्मके सम्बन्धकी दृष्टिसे आत्मा 'अस्ति' है तथा उसीके अभावरूपसे 'नास्ति' है । जैसे—आत्मा नित्यत्व या चेतनत्व किसी अमुक धर्मके सम्बन्धसे अस्ति' है और विपक्षी धर्मसे नास्ति है । (श्लो वा २/१६/४६/४६६/११) ।

स्या म / २३/२८२/७ यथा हि सदसत्त्वान्याम्, एवं सामान्यविशेषाभ्यामपि सप्तभङ्ग्येव स्यात् तथाहि स्यात्सामान्यम्, स्याद्विशेष इति । न चात्र विधिनिषेधप्रकारो न स्त इति वाच्यम् । सामान्यस्य विधिरूपत्वाद् विशेषस्य च व्यावृत्तिरूपतया निषेधात्मकत्वात् । अथवा प्रतिपक्षशब्दत्वाद् यदा सामान्यस्य प्राधान्यं तदा तस्य विधिरूपता विशेषस्य च निषेधरूपता । यदा विशेषस्य पुरस्कारस्तदा तस्य विधिरूपता इतरस्य च निषेधरूपता । =जिस प्रकार सत्त्व असत्त्वकी दृष्टिसे सप्त भंग होते हैं, उसी तरह सामान्य विशेषकी अपेक्षासे भी स्यात् सामान्य, स्यात् विशेष (आदि) सात भंग होते हैं । प्रश्न—सामान्य विशेषकी सप्तभंगीमें विधि और निषेध धर्मोंकी कल्पना कैसे बन सकती है ? उत्तर—इसमें विधि निषेध धर्मोंकी कल्पना बन सकती है । क्योंकि सामान्य विधि रूप है, और विशेष व्यवच्छेदक होनेसे निषेध रूप है । अथवा सामान्य और विशेष दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, अतएव जब सामान्यकी प्रधानता होती है उस समय सामान्यके विधिरूप होनेसे विशेष निषेध रूप कहा जाता है, और जब विशेषकी प्रधानता होती है, उस समय विशेषके विधिरूप होनेसे सामान्य निषेध रूप कहा जाता है ।

४. नयोंकी अपेक्षा

रा वा. ४/४२/१७/२६१/६ एते त्रयोऽर्थनया एकेकात्मका, सयुक्ताश्च सप्त वाक्प्रकारात् जनयन्ति । तत्राय रूपह एक, द्वितीयो व्यवहार एक, तृतीय सग्रहव्यवहारावविभक्तौ चतुर्थ सग्रहव्यवहारौ समुच्चितौ, पञ्चम सग्रह सग्रहव्यवहारौ चाविभक्तौ । षष्ठो व्यवहार सग्रहव्यवहारौ चाविभक्तौ । सप्तम सग्रहव्यवहारौ प्रचितौ तौ चाविभक्तौ । एष ऋजुसूत्रेऽपि योज्य । =ये तीनों (सग्रह, व्यवहार ऋजुसूत्र) अर्थनय मिलकर तथा एकाकी रहकर सात प्रकारके भगोंको उत्पन्न करते हैं । पहला सग्रह, दूसरा व्यवहार, तीसरा अविभक्त (युगपत् विवक्षित) सग्रह व्यवहार, चौथा समुच्चित (क्रम विवक्षित समुदाय) सग्रह व्यवहार, पाँचवाँ सग्रह और अविभक्त सग्रह व्यवहार, छठा व्यवहार और अविभक्त सग्रह व्यवहार तथा सातवाँ समुचित सग्रह व्यवहार और अविभक्त सग्रह व्यवहार । इसी प्रकार ऋजुसूत्र नय भी लगा लेनी चाहिए ।

५ अनन्तों सप्त मंगियोंकी सम्भावना

स्या म / २३/२८०/६ न च वाच्यमेकत्र वस्तुनि विधीयमाननिषिध्यमानानन्तधर्माभ्युपगमेनानन्तभङ्गीप्रसङ्गाद् असङ्गतैव सप्तभङ्गीति । विधिनिषेधप्रकारापेक्षया प्रतिपर्याय वस्तुनि अनन्तानामपि सप्तभङ्गीनामेव सम्भवात् । =प्रश्न—यदि आप प्रत्येक वस्तुमें अनन्तधर्म मानते हो, तो अनन्त भगोंकी कल्पना न करके वस्तुमें केवल सात ही भगोंकी कल्पना क्यों करते हो ? उत्तर—प्रत्येक वस्तुमें अनन्तधर्म होनेके कारण वस्तुमें अनन्त भग होते हैं । परन्तु ये अनन्त भंग विधि और निषेधकी अपेक्षासे सात ही हो सकते हैं ।

दे सप्तभगी/६/७ [अस्ति नास्तिकी भांति द्रव्यके नित्य-अनित्य, एक-अनेक, वक्तव्य अवक्तव्य आदि धर्मोंमें भी सप्त भगीकी योजना कर लेनी चाहिए ।]

४ अस्ति नास्ति भंग निर्देश

१ वस्तुकी सिद्धिमें इन दोनोंका प्रधान स्थान

रा वा १/६/६/५ स/प स स्वपरात्मोपादानापोहनव्यवस्थापद्य हि वस्तुनो वस्तुत्वम् । यदि स्वस्मिन् पटाचारमन्यावृत्तिविपणिगतिर्न स्यात् सर्वात्मना घट इति व्यपदिश्येत । अथ परात्मना व्यावृत्तावपि स्वपरात्मोपादानविपणिगतिर्न स्यात् स्वविपाणवदवस्त्वेव स्यात् (३३/२१) । यद्यत्तरात्मनापि घट स्यात् विवदि तात्मना वाघट, नामादि-

व्यवहारोच्छेद स्यात् (३३/२६) यदीतरात्मक स्यात् एकघटमात्र-
प्रसङ्ग (३३/३०) यदि हि कृश्यान्तकपालाद्यात्मनि घट स्यात्; घटा-
वस्थायामपि तदुपलब्धिर्भवेत् (३४/१) । यदि हि पृथुवुधनाधारम-
नामपि घटो न स्यात् स एव न स्यात् (३४/११) । यदि वा रसादि-
वद्रूपमपि घट इति न गृह्येत, चक्षुर्विषयस्तारय न स्यात् (३४/२६) ।
यदि वा इतरव्यपेक्षयापि घट स्यात् पटादिप्यपि तत्किमाविरहितेषु
तच्छब्दवृत्ति स्यात् (३४/२१) । इतरोऽसंनिहितोऽपि यदि घट
स्यात्, पटादीनामपि स्याद् घटत्वप्रसङ्ग (३४/२७) । यदि ज्ञेयाका-
रेणाप्यघट स्यात्, तदाश्रयैतिकर्तव्यतानिरास स्यात् । अथ हि
ज्ञानाकारेणापि घट स्यात्, (३४/३४) उच्यते प्रकाशरूपितं घटत्व-
मघटत्वं च परस्परतो न भिन्नम् । यदि भिद्येत, सामानाधिकरन्धेन
तद्गुणव्यभिधानवृत्तिर्न स्यात् घटपटवत् (३४/१) । = १. स्वरूप
ग्रहण और पररूप त्यागके द्वारा हो वस्तुकी वस्तुता स्थिर की जाती
है । यदि पररूपकी व्यावृत्ति न हो तो सभी रूपोंसे घट व्यवहार
होना चाहिए । और यदि स्वरूप ग्रहण न हो तो नि स्वरूपत्वका
प्रसंग होनेसे यह खरविषाणवी तरह असत् हो जायेगा । २ यदि अन्य
रूपसे नष्ट हो जाये तो प्रतिनियत नामादि व्यवहारका उच्छेद हो
जायेगा (३३/२६) ३ यदि इतर घटके आकारसे भी वह घट
'घट' रूप हो जाये तो सभी घड़े एक रूप हो जायेंगे (३३/३०)
४ यदि स्थास, कोस, कुशूल और कपाल आदि अरथाओंमें
घट है तो घट अवस्थामें भी उनकी उपलब्धि होवे । (३४/१)
५ यदि पृथुवुधनोदर आकारसे भी घड़ा न हो तो घटका
अभाव हो जायेगा (३४/११) ६ यदि रसादिकी तरह रूप भी
स्वात्मा न हो तो वह चक्षुके द्वारा दिखाई ही न देगा (३४-१६) ।
७ यदि इतर रूपसे भी घट कहा जाये तो पटादिमें भी घट व्यवहार-
का प्रसंग प्राप्त होगा (३४/२७) ८, यदि ज्ञेयाकारसे घट न माना
जाये तो घट व्यवहार निराधार हो जायेगा (३४/३४) । इस प्रकार
उक्त रीतिसे सूचित घटत्व और अघटत्वं दोनों धर्मोंका आधार घड़ा
ही होता है । यदि दोनोंमें भेद माना जाये तो घटमें ही दोनों धर्मोंके
निमित्तसे होनेवाली बुद्धि और वचन प्रयोग नहीं हो सकेंगे । (स
म/१४/१७६/६, १७७/१७) ।

श्लो वा/२/१/६/२२ पृष्ठ स/पक्ति स सर्वं वस्तु स्वद्रव्येऽस्तित्वा न परद्रव्य
तस्य स्वरूपद्रव्यस्वीकारतिरस्कारव्यवस्थितसाध्यत्वात् । स्वद्रव्यवत्
परद्रव्यस्य स्वीकारे द्रव्याद्वैतप्रसङ्गे स्वपरद्रव्यविभागाभावात् । तच्च
विरुद्धम् । जीवपुद्गल्लादिद्रव्याणां भिन्नलक्षणानां प्रसिद्धे (४२०/
१७) । तथा स्वक्षेत्रेऽस्तित्वा परक्षेत्रे नास्तीत्यपि न विरुध्यते स्वपरक्षेत्र-
प्राप्तिरिहारात्म्यां वस्तुनो वस्तुत्वसिद्धेरन्यथा क्षेत्रसंकरप्रसङ्गात् ।
सर्वस्याक्षेत्रत्वापेक्षेण । न चेतत्साधीय प्रतीतिविरोधात् (४२२/
१४) । तथा स्वकालेऽस्तित्वा परकाले नास्तीत्यपि न विरुद्धं, स्वपरकाल-
ग्रहणपरित्यागात्म्यां वस्तुनस्तत्त्व प्रसिद्धेरन्यथाकालसार्क्यप्रसङ्गात् ।
सर्वदा सर्वस्याभावप्रसङ्गाच्च (४२३/२३) । = सम्पूर्ण वस्तु अपने
द्रव्यमें है पर द्रव्यमें नहीं है क्योंकि वस्तुकी व्यवस्था स्वकीय द्रव्यके
स्वीकार करनेसे और परकीय द्रव्यके तिरस्कार करनेसे साधी जाती
है । यदि वस्तु स्व द्रव्यके समान परद्रव्यकी भी स्वीकार करे तो
ससारमें एक ही द्रव्य होनेका प्रसंग हो जायेगा । स्वद्रव्य व परद्रव्य-
का विभाग न हो सकेगा । किन्तु वस्तु युक्त आदिका विभाग न होने
प्रतीतियोंसे विरुद्ध है क्योंकि जीव, पुद्गल भिन्न लक्षणवाले अनेक
द्रव्य प्रसिद्ध है । ४२०/१७ । वस्तु स्वक्षेत्रमें है पर क्षेत्रमें नहीं है, यह
कहना भी विरुद्ध नहीं है । क्योंकि स्वकीय क्षेत्रकी प्राप्तिसे पर-
कीय क्षेत्रके परिख्यागसे वस्तुका वस्तुपना सिद्ध हो रहा है । अन्यथा
क्षेत्रके संकर होनेका प्रसंग होगा । तथा सम्पूर्ण पदार्थोंको क्षेत्ररहित-
पनेकी आपत्ति हो जायेगी । किन्तु यह क्षेत्ररहितपना प्रशस्त नहीं
है क्योंकि प्रतीतियोंसे विरोध आ रहा है । (४२२/१४) । स्वकीय
कालमें वस्तु है परकीयकालमें नहीं । यह कथन विरुद्ध नहीं है,

क्याकि अपने कालका ग्रहण करनेमें और दूसरे कालकी हानि करनेसे
वस्तुका वस्तुपना सिद्ध हो रहा है । अन्यथा कालमें मकर हो
जानेका प्रसंग आता है । सभी धर्मोंमें सम्पूर्ण वस्तुओंके अभावका
प्रसंग प्राप्त हो जायेगा ।

दे सप्तमंगी/१ [ये दोनों भंगमूल हैं ।]

स्या म/१३/११४/२८ अन्यरूपनिषेधमन्तरं तद्व्यवस्थापिच्छेदस्याप्य-
संपत्तेः ।

स्या म/१/१/१७६/१७ मर्ममस्ति रत्नरूपेण पररूपेण नास्ति च । अन्यथा
सर्वमप्य स्यात् स्वरूपस्याप्यन्यभवः ।

स्या म/२३/२८०/१० रमारब्धचिद्ध नारयेव दृग्भादि' म्बद्रव्यादि-
भिरिव परद्रव्यादिभिरपि वस्तुनोऽन्यत्वानिपी हि प्रतिनियतस्वरूपा-
भावाद् वस्तुत्रतिनियतिसं स्यात् । न चास्तित्वाव्यभिधानादिभिरत्र
नास्तित्वमसिद्धमिति न च सम्भवं । कथंचित्तरय वस्तुनि युक्तिगिद-
त्वात् साधनवत् । = १ मित्ना त्रियो वस्तुका विषेध क्रिये हुए विधि-
रूपज्ञान नहीं हो सकता है । २ प्रत्येक वस्तु स्वरूपमें विद्यमाना है, पर
रूपसे विद्यमान नहीं है । यदि वस्तुका सर्वथा भाधरूप स्वीकार किया
जाये, तो एव वस्तुके सद्भावमें सम्पूर्ण वस्तुत्रािका मद्भाव मानना
चाहिए, और यदि सर्वथा अभाव रूप माना जाये तो वस्तुकी सर्वथा
स्वभावा रहित मानना चाहिए । ३ घट आदि प्रत्येक वस्तु कथंचित्
नास्ति रूप ही है । यदि परार्थको स्व वस्तुत्वकी तरह पर वस्तुत्वमें
भी अस्तित्व माना जाये, तो पदार्थना कोर्ने भी निश्चित स्वरूप
मिद्ध नहीं हो सकता । सर्वथा अस्तित्ववादी भी वस्तुमें नास्तित्व
धर्मका प्रतिषेध नहीं करते, क्योंकि जिस प्रकार एक ही साधनमें
किसी अपेक्षामें अस्तित्व और किसी अपेक्षामें नास्तित्व सिद्ध होता
है, उसी प्रकार अस्तित्व रूप वस्तुमें कथंचित् नास्ति रूप भी युक्तिसे
सिद्ध होता है ।

२. दोनोंमें अविनाभावी सापेक्षता

न च, वृ/३०४ अरिधत्त णो मग्गदि परि्यसहावस्स जे ह्णु सावेक्ख ।
णत्थोविय च्छद्ववे मूढो मूढो दु सव्वथ । = जो अस्तित्वको
नास्तित्वके सापेक्ष तथा नास्तित्वको अस्तित्वके सापेक्ष नहीं मानता
है, तथा द्रव्यमें जो मूढ़ है वह सर्वत्र मूढ़ है । ३०४।

भा, पा/टी/५७/२०४/१० एकस्य निषेधोऽपरस्य विधि । = एकका
निषेध ही दूसरेकी विधि है ।

प ध/५/६५५ न करिचरयो हि निरपेय सति च विधौ प्रतिषेध
प्रतिषेधे सति विधे प्रसिद्धत्वात् । ६५५ । = कोई भी नय निरपेक्ष नहीं है
किन्तु विधिके होनेपर प्रतिषेध और प्रतिषेधके होनेपर विधिवी
प्रसिद्ध है । ६५५ ।

स भं त/७३/६ नास्तित्वं स्वभाव नास्तित्वेनाविनाश्रुतम् । विशेषण-
त्वात् वैधर्म्यवत् । = अस्तित्व स्वभाव नास्तित्वसे व्याप्त है क्योंकि वह
विशेषण है जैसे वैधर्म्य ।

३. दोनोंकी सापेक्षतामें हेतु

रा वा/४/४२/१५/२५४/१४ स्यादेतत्—यदस्ति तत् स्वायत्तद्रव्यक्षेत्रकाल-
भावरूपेण भवति नेतरेण तस्याप्रस्तुतत्वात् । यथा घटो द्रव्यत पार्थि-
वत्वेन, क्षेत्रत इह्यत्यतया कालतो वर्तमानकालसम्बन्धितया, भावतो
रक्तत्वादिना, न परायत्तैर्द्रव्यादिभिस्तेषामप्रसक्तत्वात् इति । = यदि
हि असौ द्रव्यत पार्थिवत्वेन तथोदकादित्वेनापि भवेत् ततोऽसौ घट
एव न स्यात् पृथिव्युदकदहनपवनादिषु वृत्तत्वात् द्रव्यत्ववत् । तथा,
यथा इह्यत्यतया अस्ति तथाविरोधिदिगन्तानिन्यतदेशस्थतयापि यदि
स्यात्तथा चासौ घट एव न स्यात् विरोधिदिगन्तानिन्यतदेशस्थ-
त्वात् आकाशवत् । तथा, यथा वर्तमानघटकालतया अस्ति तथा-
तीतक्षेत्रकालनामप्रकालादिकालतयापि स्यात् तथा चासौ घट एव

न स्यात् सर्वकालसन्निधत्वात् मूहद्रव्यवत् । तथा, यथा नवत्वेन तथा पुराणत्वेन, सर्वरूपरसगन्धस्पर्शसंख्यासंस्थानादित्वेन वा स्यात्, तथा चासौ घट एव न स्यात् सर्वथा भावित्वात् भवनवत् ।—जो अस्ति है वह अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे ही है, इतर द्रव्यादिसे नहीं, क्योंकि वे अप्रस्तुत हैं । जैसे घडा पार्थिव रूपसे, इस क्षेत्रसे इस कालकी दृष्टिसे तथा अपनी वर्तमान पर्यायोसे अस्ति है अन्यसे नहीं, क्योंकि वे अप्रस्तुत हैं । यदि घडा पार्थिवत्वकी तरह जलादि रूपसे भी अस्ति हो जाये तो जलादि रूप भी होनेसे वह एक सामान्य द्रव्य बन जायेगा न कि घडा । यदि इस क्षेत्रकी तरह अन्य समस्त क्षेत्रोंमें भी घडा 'अस्ति' हो जाये तो वह घडा नहीं रह पायेगा किन्तु आकाश बन जायेगा । यदि इस कालकी तरह अतीत अनागत कालसे भी वह 'अस्ति' हो तो भी घडा नहीं रह सकता किन्तु त्रिकालानुयायी होनेसे मूह द्रव्य बन जायेगा । इसी तरह जैसे वह नया है उसी तरह पुराने या सभी रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संस्थान आदिकी दृष्टिसे भी 'अस्ति' हो तो वह घडा नहीं रह जायेगा किन्तु सर्वव्यापी होनेसे महासत्ता बन जायेगा ।

४. नास्तित्व भंगकी सिद्धिमें हेतु

श्लो. वा १/२/६/१२/४१/१७ क्वचिदस्तित्वसिद्धिसामर्थ्यात्तस्यान्यत्र नास्तित्वस्य सिद्धेर्न रूपान्तरत्पमिति चेत् व्याहृतमेतत् । सिद्धौ सामर्थ्यसिद्ध च न रूपान्तर चेति कथमवधेय कस्यचिद् क्वचिन्नास्तित्वसामर्थ्याच्चचास्तित्वस्य सिद्धेस्ततो रूपान्तरत्वाभावप्रसगात् ।—प्रश्न—अस्तित्वके सामर्थ्यसे उसका दूसरा रथलोपर नास्तित्व अपने आप सिद्ध हो जाता है, अत अस्तित्व और नास्तित्व ये दो भिन्न स्वरूप नहीं हैं ।—उत्तर—यह व्याघात दोष है कि एककी सिद्धिपर अन्यतरको सामर्थ्यसे सिद्ध कहना और फिर उनको भिन्न स्वरूप न मानना । (स्या म १/१६/१००/१२) ।

प. ध. पू. श्लोक स अस्तीति च वक्तव्य यदि वा नास्तीति तत्त्वसिद्धयै । नोपादान पृथगिह युक्तं तदनर्थकादिति चेत् १२६० । तत्र यत् सर्वस्वं तदुभयभावाध्यवसितमेवेति । अन्यतरस्य विलोपे तदितरभावस्य निह्वापत्ते १२६१ । न पटाभावो हि घटो न पटाभावे घटस्य निष्पत्ति । न घटाभावो हि पट पटसर्गो वा घटव्ययादिति च १२६० । तर्हि व्यतिरेकस्य भावेन विनाशयोऽपि नास्तीति १२६१ । तत्र यत् सदिति स्यादद्वैत द्वैतभावभागपि च । तत्र विधौ विधिमात्रं तद्विह निषेधे निषेधमात्रं स्यात् १२६१ ।—प्रश्न—तत्त्व सिद्धिके अर्थ केवल अस्ति अथवा केवल नास्ति ही कहना चाहिए, क्योंकि दोनोंका मानना अनर्थक है अत दोनोंका ग्रहण करना युक्त नहीं है १२६० । उत्तर—यह ठीक नहीं है, क्योंकि द्रव्यका स्वरूप अस्ति नास्तिरूप भावसे युक्त है, इसलिए एकको माननेपर उससे भिन्नके लोपका प्रसंग प्राप्त होता है १२६१ । प्रश्न—निश्चयसे न पटका अभाव घट है और न पटके अभावमें घटकी उत्पत्ति होती है । तथा न घटका अभाव पट है और न घटके नाशसे पटकी उत्पत्ति होती है १२६० । तो फिर व्यतिरेकके सद्भाव बिना अन्यकी सिद्धि नहीं होती, यह कैसे १२६१ । उत्तर—यह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँपर सत् द्वैत भावका धारण करनेवाला है तो भी अद्वैत ही है क्योंकि उस सत्में विधि विवक्षित होनेपर वह सत् केवल विधिरूप और निषेधमें केवल निषेध रूप प्रतीत होता है १२६१ ।

५ नास्तित्व वस्तुका धर्म है तथा तद्गत शंका

पा वा १/४/१४/२६/१६ कथमभावो निरूपाख्यो वस्तुनो लक्षणं भवति । अभासोऽपि वस्तुधर्मो हेत्वङ्गत्वादे भाववत् । अतोऽसौ लक्षणं युज्यते । स हि वस्तुनो लक्षणं न स्यात् सर्वसकरं स्यात् ।—प्रश्न—अभाव भी वस्तुका लक्षण कैसे होता है । उत्तर—अभाव भी वस्तुका धर्म होता है जैसे कि विषयाभाव हेतुका स्वरूप है । यदि अभावकी वस्तुका

स्वरूप न माना जाये तो सर्व सांख्य हो जायेगा क्योंकि प्रत्येक वस्तुमें स्वभिन्न पदार्थोंका अभाव होता ही है । (रा वा ४/४२/१६/२६/४) ।

स भ त ४/५/५. स, ननु पररूपेणासत्त्वं नाम पररूपासत्त्वमेव । न हि घटे पटस्वरूपाभावघटे नास्तीति वक्तुं शक्यम् । भूतले घटाभावे भूतले घटो नास्तीति वाक्यप्रवृत्तित्वत् घटे पटस्वरूपाभावे पटो नास्तीत्येव वक्तुमुचितत्वात् । इति चेन्न—विचारासहेत्वात् । घटादिषु पररूपासत्त्वं पटादिधर्मो घटधर्मो वा । नाद्य, व्याघातात् । न हि पटरूपासत्त्वं पटोऽस्ति । पटस्य शून्यत्वापत्ते । न च स्वधर्मस्वस्मिन्नास्तीति वाच्यम् । तस्य स्वधर्मत्वविरोधात् । पटधर्मस्य घटाद्याधारकत्वायोगाच्च । अन्यथा वितानविवितानाकारस्यापि तदाधारकत्वप्रसगात् । अन्यपक्षस्वीकारे तु विवादो विश्रान्त । (२३/७) घटे पटरूपासत्त्वं नाम घटनिष्ठाभावप्रतियोगित्वम् । तच्च पटधर्म । यथा भूतले घटो नास्तीत्यत्र भूतलनिष्ठाभावप्रतियोगित्वमेव भूतले नास्तित्वम् तच्च घटधर्म । इति चेन्न, तथापि पटरूपाभावस्य घटधर्मत्वाविरोधात्, घटाभावस्य भूतलधर्मत्ववत् । तथा च घटस्य भावाभावात्मकत्वं सिद्धम् । कथञ्चित्तादात्म्यलक्षणसम्बन्धेन सन्नधिग्न एव स्वधर्मत्वात् (२४/३), नन्वेव रीत्या घटस्य भावाभावात्मकत्वे सिद्धेऽपि घटोऽस्ति पटो नास्तीत्येव वक्तव्यम् (८४/१), घटस्य भावाभावात्मकत्वे सिद्धेऽस्माक विवादो विश्रान्त समीहितसिद्धे । शब्दप्रयोगस्तु पूर्वपूर्वप्रयोगानुसारेण भविष्यति । न हि पदार्थसत्ताधीनशब्दप्रयोग (२५/७), घटादौ वर्तमान पटरूपाभावो घटाद्भिन्नोऽभिन्नो वा । यदि भिन्नस्तस्यापि परत्वात्तदभावस्तत्र कषणनीय (८६/१) यथाभिन्नस्तहि सिद्ध स्वस्मादिभन्नेन भावधर्मेण घटादौ सत्त्ववदभावधर्मेण तादृशोनासत्त्वमपि स्वीकरणीयमिति (२६/४),—प्रश्न—पररूपसे असत्त्वनाम परकीय रूपका असत्त्व अर्थात् दूमरे पट आदिका रूप घटमें नहीं है । क्योंकि घटमें पट स्वरूपका अभाव होनेसे घट नहीं है ऐसा नहीं कह सकते किन्तु भूतलमें घटका अभाव होनेपर भूतलमें घट नहीं है, इस वाक्यकी प्रवृत्तिके समान घटमें पटके स्वरूपका अभाव होनेसे घटमें पट नहीं है यह कथन उचित है । उत्तर—नहीं, क्योंकि घट आदि पदार्थोंमें जो पट आदि रूपका असत्त्व है वह पट आदिका धर्म है अथवा घटका है, प्रथम पक्ष माननेपर पट रूपका ही व्याघात होगा, क्योंकि पटरूपका असत्त्वरूप पट नहीं है । और स्वकीय धर्म अपनेमें ही नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि तत्र तो स्वधर्मत्व इस कथनका ही विरोध हो जायेगा । और पटके धर्मका आधार घट आदि पदार्थ हो नहीं सकते, क्योंकि ऐसा माननेसे तन्तुवाय भी ताना-वानाका आधार हो जायेगा । पटरूपका असत्त्व भी घटका धर्म है ऐसा माननेपर तो विवादका ही विश्राम हो जायेगा (२३/७) । प्रश्न—घटमें पटरूपके असत्त्वका अर्थ यह है कि घटमें रहनेवाला जो अन्य पदार्थोंका अभाव, उस अभावका प्रतियोगी रूप और यह घटधर्म रूप होगा । जैसे भूतलमें घट नहीं है यहाँपर भूतलमें रहनेवाला जो अभाव उस अभावकी प्रतियोगिता ही भूतलमें नास्तित्ता रूप पडती है और प्रतियोगिता वा नास्तित्ता घटका धर्म है । उत्तर—नहीं, क्योंकि, पटरूपका जो अभाव उसके घट धर्म होनेसे कोई भी विरोध नहीं है । जैसे कि भूतलमें घटाभाव भूतलका धर्म है । इस रीतिसे घटके भाव अभाव उभयरूप सिद्ध हो गये । क्योंकि किसी अपेक्षासे तादात्म्य अर्थात्—अभेद सम्बन्धसे सम्बन्धी हीको स्वधर्मरूपता हो जाती है (२४/३), प्रश्न—पूर्वोक्त रीतिसे घटकी भाव-अभाव उभयरूपता सिद्ध होनेपर भी घट है पट नहीं है ऐसा ही प्रयोग करना चाहिए, न कि घट नहीं है ऐसा प्रयोग (२५/१) । उत्तर—घटके भाव-अभाव उभय स्वरूप सिद्ध होनेसे हमारे विवादकी समाप्ति है, क्योंकि उभयरूपता माननेसे ही हमारे अभीष्टकी सिद्धि है । और शब्द प्रयोग तो पूर्व-पूर्व प्रयोगके अनुसार होगा । क्योंकि शब्द प्रयोग पदार्थको मत्ताके वशीभूत नहीं है । (८१/७) और भी घट आदिमें

पररूपका जो अभाव है वह घटसे भिन्न है अथवा अभिन्न है। यदि घटसे भिन्न है तब तो उसके भी पट होनेसे वहाँ उसके अभाव हीकी कल्पना करनी चाहिए (८६/१), यदि पटरूपाभाव घटसे अभिन्न है तो हमारा अभीष्ट सिद्ध हो गया, क्योंकि अपनेसे अभिन्न भाव धर्मसे घट आदिमें जैसे सत्त्वरूपता है ऐसे ही अपनेसे अभिन्न अभाव धर्मसे असत्त्व रूपता भी घट आदिमें स्वीकार करनी चाहिए।

६. उभयात्मक तृतीय मंगकी सिद्धिमें हेतु

रा वा /४/४२/१५/२५६-२५६/६ इतरश्च स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्वपरसत्ता भावाभावोभयाधीनत्वात् जीवस्य। यदि परसत्तया अभाव स जीव स्वात्मनि नापेक्षते, अतः स जीव एव न स्यात् सन्मात्रं स्यात् नासौ जीव सत्त्वे सति विशेषरूपेण अनवस्थितत्वात् सामान्यवत्। तथा परसत्ताभावापेक्षायामपि जीवस्त्वे यदि स्वसत्तापरिणति नापेक्षते तथापि तथापि तस्य वस्तुत्वमेव न स्यात् जीवत्वं वा, सद्भावापरिणत्वे परभावमात्रत्वात् खपुष्पवत्। अतः पराभावोऽपि स्वसत्तापरिणत्यपेक्ष एव अस्तित्वस्वात्मवत्। किं हि वस्तुसर्ववैत्मक सर्वभाव-रूप वा दृष्टमिति। अभावः स्वसद्भाव भावाभाव च अपेक्षमाण सिध्यति। भावोऽपि स्वसद्भावम् अभावाभावं चापेक्ष्य सिद्धिसुप-याति। यदि तु अभाव एकान्तेनास्ति इत्यभ्युपगम्येत ततः सर्वात्मना-स्तित्वात् स्वरूपवद्भावात्मनापि स्यात्, तथा च भावाभावरूपसकरा-दस्थितरूपवद्भावात्मनापि स्यात्, अथ एकान्तेन नास्ति इत्यभ्युपगम्येत ततो यथा भावात्मना नास्ति तथा तथाभावात्मनापि न स्यात्, ततश्च अभावस्याभावात् भावस्याप्रतिपक्षत्वात् भावमात्रमेव स्यात्। तथा खपुष्पादयोऽपि भावा एव अभावभावरूपत्वात् घटवत् इति सर्वभाव-प्रसङ्गः। एव स्वात्मनि घटादिवस्तुसिद्धौ च भावाभावयोः परस्पर-पेयत्वात् यदुच्यते "अर्थत्वं प्रकरणाद्वा घटे अप्रसक्त्या पटादिसत्ताया किमिति निषेध क्रियते"। इति; तदयुक्तम्। किंच घटे अर्थत्वात् अर्थसामान्यात् पटादिसर्वार्थप्रसंग संभवत्येव। तत्र विशिष्ट घटार्थत्वम् अभ्युपगम्यमान पटादिसत्तारूपस्थार्थसामर्थ्यापितस्य अर्थतत्त्वस्य निरासेनेव आत्मानः शक्नोति लब्धुम्, इतरथा हि असौ घटार्थ एव न स्यात् पटाद्यर्थरूपेणानिवृत्तरवात् पटाद्यर्थस्वरूपवत्, विपरीतो वा। =१ स्वसद्भाव और परअभावके आधीन जीवका स्वरूप होनेसे वह उभयात्मक है। यदि जीव परसत्ताके अभावकी अपेक्षा न करे तो वह जीव न होकर सन्निहित हो जायेगा। इसी तरह परसत्ताके अभावकी अपेक्षा होनेपर भी स्वसत्ताका सत्त्वन न हो तो वह वस्तु ही नहीं हो सकेगा, जीव होनेकी यात तो दूर ही रही। अतः परका अभाव भी स्वसत्ता सद्भावसे ही वस्तुका स्वरूप बन सकता है। क्या कभी वस्तु सर्वाभावत्मक या सर्व-सत्तात्मक देखी गयी है। इस तरह भावरूपता और अभावरूपता दोनों परस्पर सापेक्ष है अभाव अपने सद्भाव तथा भावके अभावकी अपेक्षा सिद्ध होता है तथा भाव स्वसद्भाव और अभावके अभावकी अपेक्षासे सिद्ध होता है। २, यदि अभावको एकान्तसे अस्ति स्वीकार किया जाये तो जैसे वह अभावरूपसे अस्ति है उसी तरह भावरूपसे भी 'अस्ति' हो जानेके कारण भाव और अभावमें स्वरूप साकर्म्य ही जायेगा। यदि अभावको सर्वथा 'नास्ति' माना जाये तो जैसे वह भावरूपसे नास्ति है उसी तरह अभावरूपसे भी नास्ति होनेसे अभावका सर्वथा लोप हो जानेके कारण भावमात्र ही जगद् रह जायेगा। और इस तरह खपुष्प आदि भी भानात्मक हो जायेगे। अतः घटादिक भाव स्यादस्ति और स्याद्नास्ति हैं। इस तरह घटादि वस्तुआर्त्तमें भाव और अभाव-को परस्पर सापेक्ष होनेसे प्रतिवादीका कथन यह है कि 'अर्थ या प्रकरणसे जब घटमें पटादिकी सत्ताका प्रसंग ही नहीं है, तब उसका निषेध क्यों करते हो?' अयुक्त हो जाता है। किंच, अर्थ होनेके कारण सामान्य रूपसे घटमें पटादि अर्थोंकी सत्ताका प्रसंग प्राप्त है

ही, यदि उसमें हम विशिष्ट घटरूपता स्वीकार करना चाहते हैं तो वह पटादिकी सत्ताका निषेध नरके ही आ सकती है। अन्यथा वह घट नहीं कहा जा सकता क्योंकि पटादि रूपोंकी व्यावृत्ति न होनेसे उसमें पटादिरूपता भी उसी तरह मौजूद है। (स्या म./१३/२०/१०), (स भ. त./८३/५)।

५. अनेक प्रकारसे अस्तित्व नास्तित्व प्रयोग

१. स्वपर द्रव्य गुण पर्यायकी अपेक्षा

रा, वा /१/६/५/५/५, स तत्र स्वात्मना स्याद्घट, परात्मना स्याद-घट। को वा घटस्य स्वात्मा को वा परात्मा। घटदुष्टयभिधानप्रवृत्ति-लिङ्ग स्वात्मा, यत्र तयोरप्रवृत्ति स परात्मा पटादि। नामस्था-पनाद्द्रव्यभावेपु यो विवक्षित स स्वात्मा, इतर परात्मा। तत्र विवक्षितात्मना घट, नेतरात्मना ३३।२०। घटशब्दप्रयोगानन्तर-मुपपद्यमान उपयोगकार स्वात्मा ब्राह्मो घटाकार परात्मा स घट उपयोगकारेणास्ति नान्येन। तत्र ज्ञेयाकार स्वात्मा ज्ञानाकार परात्मा ३४।२४। =स्वात्मासे कथंचिच घडा है, और परात्मासे कथ-ंचिच अघट है। प्रश्न—घड़ेके स्वात्मा और परात्मा क्या है। उत्तर—जिसमें घट बुद्धि और घट शब्दका व्यवहार है वह स्वात्मा तथा उससे भिन्न पटादि परात्मा है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भावनिर्सेषोंका जो आधार होता है वह स्वात्मा तथा अन्य परात्मा है ३३।२०। घट शब्द प्रयोगके बाद उत्पन्न घट ज्ञानाकार स्वात्मा है बाह्य घटाकार परात्मा है। अतः घडा उपयोगकारसे है अन्यसे नहीं है। ज्ञेयाकार स्वात्मा है और ज्ञानाकार परात्मा है।

घ ६/४.१.४५/५/५ स स्वरूपादिचतुष्टयेन नास्ति घट, पररूपादिचतुष्टयेन नास्ति घट, मृद्वघटो मृद्वघटरूपे नास्ति, न कण्याणादि घटरूपेण। (२१३।४) तत्परिणतरूपे-णास्ति घट, न नामादिघटरूपेण (२१४।६) अथवापयोग-रूपेणास्ति घट, नाथार्थाभिधानाम्याम्। अथवोपयोगघटोऽपि वर्तमानरूपतयास्ति, नातीतानागतोपयोगघटः। अथवा घटोप-योगघट स्वरूपेणास्ति न पटोपयोगादिरूपेण। इत्यादिप्रकारेण सकलार्थानामस्तिरन-नास्तिरावक्तव्यभङ्गा योज्या। (२१६।६) =स्वरूपादि चतुष्टयके द्वारा घट है पररूपादि चतुष्टयसे 'घट नहीं है' स्वचतुष्टय और परचतुष्टयकी अपेक्षा एक साथ कहनेपर 'घट अवक्तव्य है' (२१३।४) अथवा घटरूप पर्यायसे परिणत स्वरूपसे घट है, नामादि रूपसे वह घट नहीं है (२१४।६) उपयोग रूपसे घट है और अर्थव अभिधानकी अपेक्षा वह नहीं है। अथवा उपयोग घट भी वर्तमान रूपसे है, अतीत व अनागत उपयोग घटोंकी अपेक्षा वह नहीं है अथवा घटोपयोग स्वरूपसे घट है, पटोपयोगादि स्वरूपसे नहीं है। इत्यादि प्रकारसे सब पदार्थोंके अस्तित्व, नास्तित्व व अवक्तव्य भगोंको कहना चाहिए।

स, सा /आ./परि./क २५२-२५३ स्वद्रव्यास्तित्तया निरूप्य निपुण सद्य समुपमज्जता स्याद्वादी १२५। स्याद्वादी तु समस्तवस्तुपु परद्रव्या-त्मना नास्तित्ताम् १२५। =स्याद्वादी तो, आत्माको स्वद्रव्यरूपसे अस्तित्वनेसे निपुणतया देखता है १२५। और स्याद्वादी तो, समस्त वस्तुओंमें परद्रव्य स्वरूपसे नास्तिरवज्ञो जानता है १२५।

स्या म /२३/२७/३० कुम्भो द्रव्यत पार्थिवत्वेनास्ति। नाप्यादिरूप-त्वेन। =घडा द्रव्यकी अपेक्षा पार्थिव रूपसे विद्यमान है जलरूपसे नहीं।

२ स्व-पर क्षेत्रकी अपेक्षा

रा, वा /१/६/५/५/५ किं अथवा, तत्र विवक्षितघटशब्दाच्चसादृश्य-सामान्यसबन्धिपु कस्मिंश्चिद् घटविशेषे परिगृहीते प्रतिनियतो य

सस्थानादि स स्वात्मा, इतर परात्मा। तत्र प्रतिनियतेन रूपेण घट नेतरेण (३३।२८)। परस्परोपकारवर्तिनि पृथुबुधनाद्याकार स्वात्मा, इतर परात्मा। तेन पृथुबुधनाद्याकारेण स घटोऽस्ति नेतरेण। (३४।६)। =घट शब्दके वाच्य अनेक घटोंमें-से विवक्षित अमुक घटका जो आकार आदि है वह स्वात्मा, अन्य परात्मा है। सो प्रतिनियत रूपसे घट है, अन्य रूपसे नहीं (३३।२८)। (प्रत्युत्पन्न घट क्षणमें रूप, रस, गन्ध) पृथुबुधनोदराकार आदि अनेक गुण और पर्यायें हे। अत घटा पृथुबुधनोदराकारसे 'है' क्योंकि घट व्यवहार इसी आकारसे होता है अन्यसे नहीं।

घ ६/४.१.४५/२१४/५ अर्पितसस्थानघट अस्तित्वरूपेण, नार्पितसस्थान-घटरूपेण। अथवापितक्षेत्रवृत्तिर्धटोऽस्ति स्वरूपेण नानार्पितक्षेत्र-वृत्तिर्धटै। =विवक्षितआकारयुक्त घट स्वरूपसे है, अविवक्षित आकार रूप घट स्वरूपसे नहीं है। अथवा विवक्षित क्षेत्रमें रहनेवाला घट अपने स्वरूपसे है, अविवक्षित क्षेत्रमें रहनेवाले घटोंकी अपेक्षा वह नहीं है।

स सा/आ/२५४-२६५ स्वक्षेत्रास्तितया निरुद्धरभस स्याद्वादेवेदी पुनस्तित्वत्वात्मनिवातबोधनियतव्यापारशक्तिर्भवत् १२५४। स्याद्वादी तु वसन् स्वधामनि परक्षेत्रे विद्वान्नास्तितया १२५५। =स्याद्वादी तो स्वक्षेत्रसे अस्तित्वके कारण जिसका वेग रुका हुआ है, ऐसा होता हुआ, आत्मामें ही ज्ञेयोंमें निश्चित व्यापारकी शक्तिवाला होकर, टिकता है १२५४। स्याद्वादी तो स्वक्षेत्रमें रहता हुआ, परक्षेत्रमें अपना नास्तित्व जानता (है) १२५५।

स्या म/२३/२७६/१ क्षेत्रत पाटलिपुत्रकत्वेन। न कान्यकुब्जादित्वेन। = (घट) क्षेत्रकी अपेक्षा पटना नगरकी अपेक्षा मौजूद है, कनौजकी अपेक्षा नहीं।

प ध/पू/१४८ अपि यश्चैको देशो यावदभिव्याप्य वर्तते क्षेत्रम्। तत्क्षेत्रं नान्यद्भवति तदन्यश्च क्षेत्रव्यतिरेकः। =जो एक देश जितने क्षेत्रको रोककर रहता है वह उस देश (द्रव्य) का स्वक्षेत्र है। अन्य असका नहीं है, किन्तु दूसरा दूररा ही है, पहला पहला ही।

३ स्व-पर कालकी अपेक्षा

रा वा/१/६/५/३३/३२ तस्मिन्नेव घटविशेषे कालान्तरावस्थायिनि पूर्वोत्तरकुश्लान्तकपालाद्यवस्थाकलाप परात्मा, तदन्तरालवर्ती स्वात्मा। स तेनैव घट तत्कर्मगुणव्यपदेशदर्शनात् नेतरात्मना।

अथवा ऋजुमुत्रनयापेक्षया प्रत्युत्पन्नघटस्वभाव स्वात्मा, घटपर्याय एवातीतोऽनागतश्च परात्मा। तेन प्रत्युत्पन्नस्वभावेन सता स घट नेतरेणासता। =अमुक घट भी द्रव्यदृष्टिसे अनेक क्षणस्थायी होता है। अत अन्ययी मूढ़द्रव्यकी अपेक्षा स्थास कोश कुश्ल घट कपाल आदि पूर्वोत्तर अवस्थाओंमें भी घट व्यवहार हो सकता है। इनमें स्थास, कोश, कुश्ल और कपाल आदि पूर्व और उत्तर अवस्थाएँ परात्मा है तथा मध्य क्षणवर्ती घट अवस्था स्वात्मा है। अथवा ऋजुमुत्र नयकी दृष्टिसे एक क्षणवर्ती घट ही स्वात्मा है, और अतीत अनागत कालीन उस घटकी पर्यायें परात्मा है। क्योंकि प्रत्युत्पन्न स्वभावसे घट है, अन्यसे नहीं।

घ ६/४.१.४५/२१४/६ तत्परिणतरूपेणास्ति घट, न पिण्ड-कपालादिप्राक् प्र-साभावे विरोधात्। वर्तमानो घटो वर्तमानघटरूपेणास्ति, नातीतानागतघटै। =घट पर्यायसे घट है, प्राग्भावरूप पिण्ड और प्रथ्वसाभावरूप कपाल पर्यायसे वह नहीं है, क्योंकि वैसे माननेमें विरोध है। वर्तमान घट वर्तमान रूपसे है, अतीत व अनागत घटोंको अपेक्षा वह नहीं है।

स मा/आ/परि/क. २५६-२६७ अस्तित्व निजकालतोऽस्य गलयन् स्याद्वादेवेदी पुन. १२५६। नास्तित्व परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादे-

वेदी पुन १२५७। =स्याद्वादेका ज्ञाता तो आत्माका निज कालसे अस्तित्व जानता हुआ १२५६। स्याद्वादेका ज्ञाता तो परकालसे आत्माका नास्तित्व जानता (है) १२५८।

स्या म/२३/२७६/१ (घट) कालत शैशिरत्वेन। न वागन्तिकादि-त्वेन। = (घट) कालकी अपेक्षा शीत ऋतुकी दृष्टिसे है, वसन्त ऋतुकी दृष्टिसे नहीं।

प. घ/पू/१४६ अपि चैकस्मिन् समये यत्काप्यवस्था भवेन्न साप्यन्या। भवति च सापि तदन्या द्वितीयसमयोऽपि कालव्यतिरेकः १४६। =एक समयमें जो अवस्था होती है वह वह ही है अन्य नहीं। और दूसरे समयमें भी जो अवस्था होती है वह भी उससे अन्य ही होती है पहली नहीं १४६। (प. घ/पू/१७२/४६७)।

४ स्व-पर भावकी अपेक्षा

रा. वा/१/६/५/३४/१४ स्वमुखेन घटो गृह्यत इति रूप स्वात्मा, रसादि परात्मा। स घटो रूपेणास्ति नेतरेण रसादिना। तत्र घटनक्रिया विषयकत्वं भाव स्वात्मा, इतर परात्मा। तत्राद्येन घट नेतरेण। =घटके रूपको आँखसे देखकर ही घटके अस्तित्वका व्यवहार होता है अत रूप स्वात्मा है तथा रसादि परात्मा। क्योंकि घटा रूपसे है अन्य रसादि रूपसे नहीं। घटका घटनक्रियामें कर्ता रूपसे उपयुक्त होने वाला स्वरूप स्वात्मा है और अन्य परात्मा।

घ ६/४.१.४५/२१४/१ रूपघटो रूपघटरूपेणास्ति, न रसादिघटरूपेण। रक्तघटो रक्तघटरूपेणास्ति, न कृष्णादिघटरूपेण। अथवा नव-घटो नवघटरूपेणास्ति, न पुराणादिघटरूपेण। =रूपघट रूपघट रूपसे है, रसादि घट रूपसे नहीं, रक्तघट रक्तघट रूपसे कृष्णादि घट रूपसे नहीं है। अथवा नवीन घट नवीन घट स्वरूपसे है, पुराने आदि घट स्वरूपसे नहीं।

स सा/आ/परि/क. २५८-२५९ सर्वस्मान्नियतस्वभावभवनज्ञानाद्वि-भक्तो भवन् स्याद्वादी १२५८। स्याद्वादी तु त्रिशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वभाव भरादारूढ परभावभावविरहव्यालोकनिष्पत्ति-पत् १२५९। =स्याद्वादी तो अपने नियत स्वभावके भवन स्वरूप ज्ञानके कारण सन (परभावों) से भिन्न वर्तता हुआ १२५८। स्याद्वादी तो अपने स्वभावमें अत्यन्त आरूढ होता हुआ, परभाव रूप भवनके अभावकी दृष्टिके कारण निष्पत्ति वर्तता हुआ १२५९।

स्या. म/२३/२७६/२ (घट) भावत श्यामत्वेन। न रक्तादित्वेन। =घट भावकी अपेक्षा काले रूपसे मौजूद है, लाल रूपसे नहीं।

प ध/पू/१५० भवति गुणाश्च कश्चित् स भवति नान्यो भवति न चाप्यन्य। सोऽपि न भवति तदन्यो भवति तदन्योऽपि भावव्यति-रेकः १५०। =जो कोई एक गुणका अविभागी प्रतिच्छेद है वह वह ही होता है, अन्य नहीं हो सकता। और दूसरा भी पहला नहीं हो सकता है। किन्तु उससे भिन्न है वह उससे भिन्न ही रहता है १५०।

५ वस्तुके सामान्य विशेष धर्मोंकी अपेक्षा

न्या वि/मू/३/६६/३७० द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषप्रविभागतः। स्या-द्विधित्तिपेधाम्नां सप्तभङ्गी प्रवर्तते। =द्रव्य अर्थात् सामान्य और पर्याय अर्थात् विशेष, द्रव्य सामान्य व द्रव्य विशेषमें तथा पर्याय सामान्य व पर्याय विशेषमें कथंचित् विधि प्रतिषेधके द्वारा तीन सप्तभङ्गी प्रवर्तती है।

घ. ६/४.१.४५/२१४/७ पर्यायघट पर्यायघटरूपेणास्ति, न द्रव्यघट-रूपेण (२१४/७) अथवा व्यञ्जनपर्यायिणास्ति घट नार्थपर्यायिण (२१४/७)। =पर्यायघट पर्यायघट रूपसे है, द्रव्य घट रूपसे नहीं (२१४/७) अथवा व्यञ्जन पर्यायसे घट है, अर्थ पर्यायसे नहीं है (२१४/७)।

पं. का/त प्र/२२/६ महासत्तावान्तरसत्तारूपेणासत्तावान्तर-सत्ता च महासत्तारूपेणासत्तेत्यसत्ता सत्ताया । -महासत्ता अवान्तरसत्ता रूपसे असत्ता है और अवान्तर सत्ता महासत्ता रूपसे असत्ता है इसलिए सत्ता असत्ता है । (जो सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता होनेसे 'सत्ता' है वही अवान्तर सत्ता रूप भी होनेसे असत्ता भी है) ।

प घ/पू/१लो सं अयमर्था वस्तु यदा सदिति मह.सत्तायाधर्मोत् । स्यात्तदवान्तरसत्तारूपेणाभाव एव न तु मूलात् (२६७) अपि चावान्तरसत्तारूपेण यदावधार्यते वस्तु । अपरेण महासत्तारूपेणाभाव एव भवति तदा (२६८) अथ केवल प्रदेशात् प्रदेशमात्र यदेष्यते वस्तु । अस्ति स्वक्षेत्रया तदशामागविवक्षितत्वान्न १२७१ । अथ केवल तदशात्तावन्मात्रादेष्यते वस्तु । अत्यशयविक्षितया नास्ति च देशाविवक्षितत्वाच्च १२७२ । सामान्यं विधिरूप प्रतिषेधारमा भवति विशेषश्च । उभयोरन्यतरस्योन्मग्नत्वादस्ति नास्तीति (२७७) सामान्य विधिरेव हि शुद्ध प्रतिषेधकश्च निरपेक्ष । प्रतिषेधो हि विशेष प्रतिषेध्य सांशकश्च सापेक्ष १२८१ । तस्माद्विदमनवच सर्व सामान्यतो यदाप्यस्ति । शेषविशेषविनक्षाभावादिह तदैव तन्नास्ति १२८३ । यदि वा सर्वमिदं यद्विवक्षितरवाविशेषतोऽस्ति यदा । अविवक्षितसामान्यात्तदैव तन्नास्ति नययोगात् (२८४) अपि चैवं प्रक्रियया नेतव्या पञ्चविधमङ्गलश्च । वर्ण-वदुक्तव्यमिहापटवच्छेषास्तु तद्योगात् (२८७) नास्ति च तदिह विशेषै सामान्यस्य विवक्षितार्था वा । सामान्येरितरस्य च गौणत्वे सति भवति नास्ति नय १७५७ । -१ (द्रव्य) जिस समय वस्तु सत् इत्याकारक महा सत्ताके द्वारा अवधारित की जाती है उस समय उस उसकी अवान्तर सत्ता रूपसे उसका अभाव ही है किन्तु मूलसे नहीं है । २६७ । जिस समय वस्तु अवान्तर सत्ता रूपसे अवधारित की जाती है, उस समय दूसरी महामत्ता रूपसे उस वस्तुका अभाव ही विवक्षित होता है । २६८ । २. (क्षेत्र) जिस समय वस्तु केवल प्रदेशसे प्रदेशमात्र मानी जाती है, उस समय अपने क्षेत्रसे अस्तित्व रूप है, और उन-उन वस्तुओंके उन-उन अंशोंकी अविवक्षा होनेसे नास्ति रूप है । २७१ । और जिस समय वस्तु केवल अमुक द्रव्यके इतने प्रदेश है इत्यादि विशेष क्षेत्रकी विवक्षासे मानी जाती है उस समय विशेष अंशोंकी अपेक्षासे अस्तित्व रूप है, सामान्य प्रदेशकी विवक्षा न होनेसे नास्ति रूप भी है । २७२ । ३ (काल) विधि रूप वर्तन सामान्य काल है और निषेध स्वरूप विशेष काल है । इन दोनोंमेंसे एककी मुख्यता होनेसे अस्तित्व-नास्ति रूप विकल्प होते हैं । २७५ । ४ (भाव) सामान्य भाव विधि रूप शुद्ध विरूपमात्रका प्रतिषेधक है तथा निरपेक्ष ही होता है तथा निश्चयसे विशेष रूप भाव निषेध रूप निषेध करने योग्य अशक्यपना सहित और सापेक्ष होता है । २८१ । ५ (साराश) इसलिए सब कथन निर्दोष है कि जिस समय भी सामान्य रूपसे अस्तित्व होता है उसी समय यहाँ पर विशेषों की विवक्षाके अभावसे वह सत् नास्तिरूप भी रहता है । २८३ । अथवा जिस समय जो यह सब विशेष रूपसे विवक्षित होनेसे अस्तित्व रूप होता है उसी समय नय योगसे सामान्य अविवक्षित होनेसे वह नास्ति रूप भी होता है । २८४ । विशेष यह है कि यहाँ पर इसी शैलीसे पदको तरह अनुलोम क्रमसे तथा पटगत वर्णादि को तरह प्रतिलोम क्रमसे दो भग कहे हैं और शेष पाँच भग तो इनके मिलानेसे लगा लेने चाहिए । (२८७)

वस्तु सामान्यकी विवक्षामें विशेष धर्मकी गौणता होने पर विशेष धर्मके द्वारा नास्ति रूप है अथवा विशेषकी विवक्षामें सामान्य धर्मके द्वारा नहीं है । जो यह कथन है वह नास्तिनय है । ७५७ ।

६ नयोंकी अपेक्षा

घ. ६/४, १, ४५/२१५/४ ऋजुसूत्रनयविषयीकृतपर्यायैरिति घट, न

शुद्धादिनयविषयीकृतपर्यायैः । अथवा द्वादनयविषयीकृतपर्यायै-रिति घट, न शेषनयविषयीकृतपर्यायैः । अथवा समभिरुद्यम-विषयीकृतपर्यायैरिति घट, न शेषनयविषयीकृतपर्यायैः । -ऋजुसूत्र नयमें विषय की गयी पर्यायोंमें घट है, शब्दाभिप्रायोंमें विषय की गयी पर्यायोंमें घट नहीं है । अथवा द्वादनयमें विषय की गयी पर्यायोंमें घट है शेष नयोंमें विषय की गयी पर्यायोंमें घट नहीं है । -समभिरुद्यममें विषय की गयी पर्यायोंमें घट है, शेष नयोंमें विषय की गयी पर्यायोंमें घट नहीं है ।

७ विरोधी धर्मोंमें

न च, शुत/६४ ६७ २७७रूपेण नित्य स्यात्तिति निश्चय इति पर्याय-रूपेणैव सामान्यरूपेणैव नित्य स्यात्तिति इति विशेषणैर्नैव शुद्ध-भूतव्यवहारेण भेद स्यात्तिति इति द्रव्याधिरेणैव स्यात्तित्वव्यव-हारीयस्वरूपेण भवतादिति-स्यात्तित्वव्य इति परस्परैर्नैव स्यात्त-चेतन चेतनस्यभावात्प्रधानत्वेति स्यात्तित्वव्य इति व्यवहारेणैव स्यात्तित्वव्य अगदभूतव्यवहारेण स्यात्तित्वव्य इति परमभावेनैव स्यात्तित्वव्य भेदकणनानिश्चयेति स्यात्तित्वव्य इति व्यवहारेणैव स्यात्तित्वव्य केयनस्यभावात्प्रधानत्वेति स्यात्तित्वव्य इति मिश्रभावे स्यात्तित्वव्य मिश्रभावात्प्रधानत्वेति स्यात्तित्वव्य इति मिश्रभावे स्यात्तित्वव्य इति निश्चयादेव । -द्रव्यरूप अभिप्रायसे नित्य है कथंचिद् अनित्य है, यह पर्याय रूपसे ही समझना चाहिए । सामान्यरूप अभिप्रायसे एकरूपता है कथंचिद् अनेकरूप है, यह विशेष रूपसे ही जानना चाहिए । शुद्धभूत व्यवहारेण भेद है द्रव्याधि-क नयसे भेद है । कथंचिद् स्वकीय स्वरूपसे ही मन्नेसे भव्य स्वरूप है पररूपसे नहीं होनेसे अव्यव्य है चेतन स्वभावकी प्रधानतासे कथंचिद् चेतन है व्यवहारनयमें अचेतन है अतद्भूत व्यवहार नयमें मूर्त है परमभाव अमूर्त है भेदकणनानिश्चये-नयसे एक प्रदेशों है व्यवहार नयसे अनेक प्रदेशों है कवन स्वभावकी प्रधानतासे कथंचिद् शुद्ध है मिश्र भावसे कथंचिद् अशुद्ध है स्वभावके भी अन्यत् उपचारसे कथंचिद् उपचरित है निश्चयसे अनुपचरित है । (स भं. त/७५/८, ७६/१०, ७६/३)

ग सा/आ/क २४८-२४९ चाद्यर्थ परिषीतसुसिद्धतनिज-प्रव्यक्ति-रिक्तोभनद्-विश्रान्त पररूप एव परिवो शां पक्षा सीदति । यत्त-त्तत्तदिह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुन दूरीन्मग्नयनस्वभावभरत पूर्ण समुग्मज्जति । २४८ । विश्व ज्ञानमिति प्रतर्क्य सकल दृष्टवा स्वतत्त्वाशया-भूत्वा विश्वमय पशु पशुरिव स्वच्छन्दमाचेतते । यत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाद्दर्शो पुन-विश्रान्तनिजमविश्व-विश्वचरित तस्य स्वतत्त्व स्वरूपे १२४९ । -चाद्य पदार्थोंके द्वारा सम्पूर्णतया पिया गया, अपनी भक्ति छोड़ देनेसे रिक्त हुआ, सम्पूर्ण-तया पररूपमें ही विश्रान्त, ऐसे पशुका ज्ञान नाशकी प्राप्त होता है, और स्याद्वादीका ज्ञान तो, जो सत् है वह स्वरूपसे तत् है, ऐसी मान्यताके कारण अत्यन्त प्रवृत्त हुए ज्ञानधन रूप स्वभावके आरसे सम्पूर्ण उदित होता है । २४९ । पशु (सर्वथा एकात्मतादी) अज्ञानी 'विश्व ज्ञान है' ऐसा विचार कर सबको निजतत्त्वकी आशासे देखकर विश्वमय होकर, पशुकी भाँति स्वच्छन्दतया चेष्टा करता है । और स्याद्वादी तो, यह मानता है कि 'जो तत् है वह पररूपसे तत् नहीं है, इसलिए विश्वसे भिन्न ऐसे तथा विश्वसे रचित होनेपर भी विश्व रूप न होनेवाले ऐसे अपने तत्त्वका अनुभव करता है । २४९ । (प घ/पू/३३२)

न्या दी/३/९८-१२६/६ द्रव्याधिकनयाभिप्रायेण सुवर्ण स्यादेकमेव, पदार्थाधिकनयाभिप्रायेण स्यादनेकमेव । -द्रव्याधिक नयके अभिप्रायसे सोना कथंचिद् एकरूप ही है, पर्यायाधिक नयके अभि-प्रायसे कथंचिद् अनेक स्वरूप ही है । (न्या दी/३/९८/१२६/११)

८. कालादिकी अपेक्षा वस्तुमें भेदाभेद

श्लो. वा २/१/६/५४/४५२/१४ के पुन कालादय । काल आत्मरूप, अर्थ, सन्ध, उपकारो, गुणिदेश, ससर्ग' शब्द इति । तत्र स्याज्जीवादि वस्तु अस्त्येव इत्यत्र यत्कालमस्तित्व तत्काला' शेषानन्तधर्मा वस्तुन्येकत्रेति, तेषा कालेनाभेदवृत्ति । यदेव चास्तित्वस्य तद्गुणत्वमात्मरूप तदेवान्यानन्तगुणानामपीत्यात्मरूपेणाभेदवृत्ति । य एव चाधारोऽर्थो द्रव्याख्योऽस्तित्वस्य स एवान्यपर्यायाणामित्यर्थेनाभेदवृत्ति । य एवाविश्वभाव कथंचित्तादात्म्यलक्षण, सन्धोऽस्तित्वस्य स एवाशेषविशेषाणामिति सन्धेनाभेदवृत्ति । य एव चोपकारोऽस्तित्वेन स्वानुरक्तकरण स एव शेषैरपि गुणैरित्युपकारेणाभेदवृत्ति । य एव च गुणिदेशोऽस्तित्वस्य स एवान्यगुणानामिति गुणिदेशेनाभेदवृत्ति । य एव चैकवस्त्वात्मनास्तित्वस्य ससर्ग' स एव शेषधर्माणामिति ससर्गेणाभेदवृत्ति । य एव वास्तोतिशब्दोऽस्तित्वधर्मात्मकस्य वस्तुनो वाचक' स एव शेषानन्तधर्मात्मकस्यापीति शब्देनाभेदवृत्ति । पर्यायार्थे गुणभावे द्रव्यार्थिकत्वप्राधान्यादुपपद्यते ।

श्लो वा २/१/६/५४/४५३/२७ द्रव्यार्थिकगुणभावेन पर्यायार्थिकप्राधान्येन तु न गुणाना कालादिभिरेदवृत्ति अष्टधा सभवति । प्रतिक्षणमन्यतोपपत्तेभिन्नकालत्वात् । सकृदेकत्र नानागुणानामसभवात् सभवे वा तदाश्रयस्य तावद्वा भेदप्रसगात् तेषामात्मरूपस्य च भिन्नत्वात् तदभेदे तद्भेदविरोधात् । स्वाश्रयस्यार्थस्यापि नानात्वात् अन्यथा नानागुणाश्रयत्वविरोधात् । सन्धस्य च सन्धिभेदेन भेददर्शनात् नानासन्धिभिरैकत्रैकसन्धघटनात् तै क्रियमाणस्योपकारस्य च प्रतिनियतरूपस्यानेकत्वात् । गुणिदेशस्य च प्रतिगुण भेदात् तदभेदे भिन्नार्थगुणानामपि गुणिदेशाभेदप्रसगात् । संसर्गस्य च प्रतिनिसर्गभेदात् । तदभेदे ससर्गभेदविरोधात् । शब्दस्य च प्रतिविषय-नानात्वात् गुणानामेकशब्दवाच्यताया सर्वार्थानामेकशब्दवाच्यतापत्ते शब्दान्तरवैफल्यात् । = वे कालादिक-काल, आत्मरूप, अर्थ, सन्ध, उपकार, गुणिदेश, ससर्ग और शब्द इस प्रकार आठ हैं । १ तहो जीवादिक वस्तु कथंचित है ही । इस प्रकार इस पहले भगमें ही जो अस्तित्वका काल है, वस्तुमें शेष बचे हुए अनन्त धर्मोंका भी वही काल है । इस प्रकार उन अस्तित्व, नास्तित्व आदि धर्मोंके कालकी अपेक्षासे अभेद वृत्ति हो रही है । २ जो ही उस वस्तुके गुण हो जाना अस्तित्वका अपना स्वरूप है, वही उस वस्तुके गुण हो जानापना अन्य अनन्तगुणोंका भी आत्मीय रूप है । इस प्रकार आत्मीय स्वरूप करके अनन्तधर्मोंकी परस्परमें अभेद वृत्ति है । ३ तथा जो ही आधार द्रव्य नामक अर्थ 'अस्तित्व'का है वही द्रव्य अन्य पर्यायोंका भी आश्रय है, इस प्रकार एक आधाररूप अर्थपनेसे सम्पूर्ण धर्मोंके आश्रयपनेकी वृत्ति हो रही है । ४ एवं जो ही पृथक्-पृथक् नहीं किया जा सकना रूप कथंचित तादात्म्य स्वरूप सन्ध अस्तित्वका है वही धर्मोंका वस्तुके साथ अभेद वर्त रहा है । ५ और जो ही अपने अस्तित्वसे वस्तुको अपने अनुरूप रंग युक्त कर देना रूप उपकार अस्तित्व धर्म करके होता है, वे ही उपकार बचे हुए अन्य गुणों करके भी किया जाता है । इस प्रकार उपकार करके सम्पूर्ण धर्मोंका परस्परमें अभेद वर्त रहा है । ६ तथा जो ही गुणी द्रव्यका देश अस्तित्व गुणने घेर लिया है, वही गुणीका देश अन्य गुणोंका भी निवास स्थान है । इस प्रकार गुणिदेश करके एक वस्तुके अनेक धर्मोंकी अभेदवृत्ति है । ७ जो ही एक वस्तु स्वरूप करके अस्तित्व धर्मका ससर्ग है, वही शेष धर्मोंका भी ससर्ग है । इस रीतिसे ससर्ग करके अभेद वृत्ति हो रही है । ८. तथा जो ही अस्ति यह शब्द अस्तित्व धर्म स्वरूप वस्तुका वाचक है वही शब्द बचे हुए अनन्त अनन्त धर्मोंके साथ तादात्म्य रखनेवाली वस्तुका

भी वाचक है । इस प्रकार शब्दके द्वारा सम्पूर्ण धर्मोंकी एक वस्तुमें अभेद प्रवृत्ति हो रही है ।

यह अभेद व्यवस्था पर्यायस्वरूप अर्थको गौण करनेपर और गुणोंके पिण्डरूप द्रव्य पदार्थको प्रधान करनेपर प्रमाण द्वारा बन जाती है । १. किन्तु द्रव्यार्थिकके गौण करनेपर और पर्यायार्थिककी प्रधानता हो जानेपर तो गुणोंको काल आदि करके आठ प्रकारकी अभेदवृत्ति नहीं सम्भवती है क्योंकि प्रत्येक क्षणमें गुण भिन्न-भिन्न रूपसे परिणत हो जाते हैं अतः भिन्न-भिन्न धर्मोंका काल भिन्न-भिन्न है । अथवा एक समय एक वस्तुमें अनेक गुण नहीं पाये जा सकते हैं । यदि बलात्कारसे अनेक गुणोंका सम्भव मानोगे तो उन गुणोंके आश्रय वस्तुका उतने प्रकारसे भेद हो जानेका प्रसंग होगा । अतः कालकी अपेक्षा अभेद वृत्ति न हुई । २ पर्यायदृष्टिसे उन गुणोंका आत्मरूप भी भिन्न है अन्यथा उन गुणोंके भेद होनेका विरोध है । ३ नाना धर्मोंका अपना-अपना आश्रय अर्थ भी नाना है अन्यथा एकको नाना गुणोंके आश्रयपनका विरोध हो जाता है । ४ एव सन्धधर्मोंके भेदसे सन्धका भी भेद देखा जाता है । अनेक सन्धधर्मोंके एक वस्तुमें एक सन्ध होना नहीं घटता है । ५. उन धर्मों करके किया गया उपकार भी वस्तुमें न्यारा-न्यारा नियत होकर अनेक स्वरूप है । ६ प्रत्येक गुणकी अपेक्षासे गुणीका देश भी भिन्न-भिन्न है । यदि गुणके भेदसे गुणवाले देशका भेद न माना जायेगा तो सर्वथा भिन्न दूसरे अर्थके गुणोंका भी गुणीदेश भिन्न हो जायेगा तो सर्वथा भिन्न दूसरे अर्थके गुणोंका भी गुणीदेश अभिन्न हो जायेगा । ७ ससर्ग तो प्रत्येक ससर्गवालेके भेदसे भिन्न ही माना जाता है । यदि अभेद माना जायेगा तो ससर्गियोंके भेद होनेका विरोध है । ८ प्रत्येक विषयकी अपेक्षासे वाचक शब्द नाना होते हैं, यदि सम्पूर्ण गुणोंका एक शब्द द्वारा ही वाच्य माना जायेगा, तब तो सम्पूर्ण अर्थोंको भी एक शब्द द्वारा निरूपण किया जानेका प्रसंग होगा । ऐसी दशामें भिन्न-भिन्न पदार्थोंके लिए न्यारे-न्यारे शब्दोंका बोलना व्यर्थ पड़ेगा । (स्या म /२३/२८४/१८, (स भ त /३३/६)

९. मोक्षमार्गकी अपेक्षा

पं का /त प्र /१०६ मोक्षमार्ग सम्यक्त्वज्ञानयुक्तमेव नासम्यक्त्वज्ञानयुक्त चारित्रमेव नाचारित्र, रागद्वेषपरिहीणमेव न रागद्वेषपरिहीणम्, मोक्षस्वैव न भावतो बन्धस्य, मार्ग एव नामार्ग, भव्यानामेव नाभव्याना, लब्धबुद्धीनामेव नालब्धबुद्धीनां, क्षीणकपायत्वे भवत्येव न कपायसहितत्वे भवतीत्यष्टधा नियमोऽत्र द्रष्टव्य । = मोक्षमार्ग सम्यक्त्व और ज्ञानसे ही युक्त न कि असम्यक्त्व और अज्ञानसे युक्त चारित्र ही है न कि अचारित्र, राग-द्वेष रहित हो ऐसा ही न कि राग-द्वेष सहित हो ऐसा, मोक्षका ही—भावत न कि बन्धना, मार्ग ही—न कि अमार्ग, भव्योंको ही—न कि अभव्योंको, लब्धबुद्धियोंको ही न कि अलब्ध बुद्धियोंका, क्षीणकपायनेमें ही होता है—न कि कपाय सहितपनेमें होता है इस प्रकार आठ प्रकारसे नियम यहाँ देखना ।

६. अवक्तव्य भंग निर्देश

१. युगपत् अनेक अर्थ कहने की असमर्थता

रा वा /४/४२/१५/२५८/१३ अथवा वस्तुनि मुख्यप्रवृत्त्या तुल्यवत्यो परस्परभिधानप्रतिबन्धे सति इष्टविपरीतनिगुणत्वापत्ते विवक्षितो-भयगुणत्वेनाऽनभिधानात् अवक्तव्य । = शब्दमें बरतुके तुल्य बल वाले दो धर्मोंका मुख्य रूपसे युगपत् बंधन करनेकी शक्यता न होनेसे या परस्पर शब्द प्रतिबन्ध होनेसे निगुणत्वका प्रसंग होनेसे तथा विवक्षित उभय धर्मोंका प्रतिपादन न होनेसे वस्तु अवक्तव्य है । (श्लो वा २/१/६/५६/४८२/१३)

प घ /३/३६६ ततो वक्तुमशक्यत्वात् निर्विकल्पस्य वस्तुन । तदुल्लेखं
समालेख्यज्ञानद्वारा निरूप्यते । ३६६ । = निर्विकल्प वस्तुके कथनको
अनिर्वचनीय होनेके कारण ज्ञानके द्वारा उन सामान्यात्मक गुणोंका
उल्लेख करके उनका निरूपण किया जाता है ।

२. वह सर्वथा अवक्तव्य नहीं

आश्रमो /४६-५० अवक्तव्यचतुष्कोटिविकल्पोऽपि न कथ्यताम् ।
असर्वान्तमवस्तु स्यादविशेष्यविशेषणम् । ४६ । अवस्त्वनभिलाष्य
स्यात् सर्वान्तै परिवर्जितम् । वस्त्वैवावस्तुतां याति प्रक्रियाया
विपर्ययात् । ४८ । सर्वान्ताश्चैदवक्तव्यास्तेषां किं वचन पुन ।
सवृत्तिश्चेन्मृषैवेया परमार्थविपर्ययात् । ४९ । अशक्यत्वाद्वाच्य किम-
भावात्किमशोधत । आद्यन्तोक्तिद्वय न स्यात् किं व्याजेनोच्यतां-
रफुटम् । ५० । = 'चार प्रकारका विकल्प अवक्तव्य है' ऐसा कहना
युक्त नहीं, क्योंकि सर्वथा अवक्तव्य होनेसे विशेषण-विशेष्य भावका
अभाव होगा । इस प्रकार सर्व वस्तुओंको अवस्तुपनेका प्रसंग आवेगा
। ४६ । प्रश्न—यदि सर्व धर्मोंसे रहित वह अवस्तु अवक्तव्य है तो
उसको आप अवस्तु भी कैसे कह सकते हैं ? उत्तर—हमारे हों अवस्तु
सर्वथा धर्मोंसे रहित नहीं है, बल्कि वस्तुके धर्मोंसे विपरीत धर्मोंका
कथन करनेपर अवस्तु स्वीकार की जाती है । ४८ । जिनके मतमें सर्व
धर्म सर्वथा अवक्तव्य है उनके हों तो स्वपक्ष साधन और पर पक्ष
दूषणका वचन भी नहीं बनता है, तब उन्हें तो मौन ही रहना
चाहिए । 'वचन तो व्यवहार प्रवृत्ति मात्रके लिए होता है,' ऐसा कहना
भी युक्त नहीं है क्योंकि परमार्थसे विपरीत तथा उपचार मात्र कथन
विपरीत होता है । ४९ । हम तुमसे पूछते हैं कि वस्तु इसलिये अवक्तव्य
है कि तुममें उसके कहनेकी सामर्थ्य नहीं है या इसलिये अवक्तव्य है
कि उसका अभाव है, या इसलिये अवक्तव्य है कि तुम उसे जानते
नहीं । तहाँ आदि और अन्त वाले दो पक्ष तो आप बौद्धोंके हों
सम्भव नहीं है क्योंकि आप बुद्धको सर्वज्ञ मानते हैं । मध्यका पक्ष
अर्थात् वस्तुका अभाव मानते हो तो छल पूर्वक घुमा-फिरा कर क्यों
कहते हो स्पष्ट कहिए ।

रा वा /४/४२/१५/२५/१७ स च अवक्तव्यशब्देन अन्यैश्च पडभिर्बचनै
पर्यायान्तरविवक्षया च वक्तव्यत्वात् स्यादवक्तव्य' । यदि सर्वथा
अवक्तव्य स्यात् अवक्तव्य इत्यपि चावक्तव्य स्यात् कुतो वन्ध-
मोक्षादिप्रक्रियाप्ररूपणविधि । = यह (वस्तु) अवक्तव्य शब्दके द्वारा
अन्य छह भगोंके द्वारा वक्तव्य होनेसे 'स्यात्' अवक्तव्य है सर्वथा
नहीं । यदि सर्वथा अवक्तव्य हो जाये तो 'अवक्तव्य शब्दके द्वारा भी
उसका कथन नहीं हो सकता । ऐसी दशामें बन्ध मोक्षादिकी प्रक्रिया-
का निरूपण निरर्थक हो जायेगा । (रा वा, १/१/१०/४५/२६)

श्लो वा, २/१/६/६५ प /५ सकलवाचकरहितत्वादवक्तव्यं वस्तु युग-
पत्सदसत्त्वाया प्रधानभावापिताभ्यामाक्रान्त व्यवतिष्ठते, तच्च न
सर्वथेवावक्तव्यमेवावक्तव्यशब्देनास्य वक्तव्यत्वादित्येके (४८०/२१)
कथमिदानीं "अवाच्यैकान्तोऽप्युक्तिर्वाच्यमिति युज्यते" इत्युक्तं
घटते । सकृद्धर्मद्वयान्क्रान्तत्वेनेव सत्त्वाद्यैकैरुधर्मसमाक्रान्तत्वेनाप्य-
वाच्यत्वे वस्तुनो वाच्यत्वाभावधर्मेणाक्रान्तस्यावाच्यपदेनाभिधान
न युज्यते इति व्याख्यानात् (४८१/२६) । = एक ही समयमें प्रधान-
पनसे विवक्षित किये गये सत्त्व और असत्त्व धर्मों करके चारों ओरसे
घिरी हुई वस्तु व्यवस्थित हो रही है । वह सम्पूर्ण वाचक शब्दोंसे
रहित है । अत अवक्तव्य है और वह सभी प्रकारोंसे अवक्तव्य ही हो
यह नहीं समझना, क्योंकि अवक्तव्य शब्द करके ही इसका वाचन हो
रहा है । श्री समन्तभद्र स्वामीका कहना कैसे घटित होगा कि
"अवाच्यता ही यदि एकान्त माना जायेगा तो अवाच्य इस प्रकारका
कथन भी युक्त नहीं होता है" (आ मी /६५) एक समयमें ही रहे
धर्मोंसे आक्रान्तपने करके जैसे वस्तु अवाच्य है, उसी प्रकार सत्त्व,

असत्त्व आदिमेंसे एक-एक धर्मसे आरूढपने करके भी वस्तुको यदि
अवाच्य माना जायेगा तो वाच्यत्वाभाव नामके एक धर्म करके घिरी
हुई वस्तुका अवाच्य पद करके कथन करना नहीं युक्त हो सकता है ।
(स्या म /२३/२८/१३), (स भ, त /६६/१०)

स. भ. त /७३/३ एवमवक्तव्यमेव वस्तुत्त्वमित्यवक्तव्यैकान्तोऽपि
स्ववचनपराहत', सदामीनव्रतिकोऽहमितिबद । = जो यह कहते हैं
कि सर्वथा अवक्तव्य रूप ही वस्तु स्वरूप है, उनका कथन स्ववचन
विरोध है जैसे—मे सदा मीनव्रत धारण करता हूँ ।

३. कालादिकी अपेक्षा वस्तु धर्म अवक्तव्य है

रा, वा, /४/४२/१५/२५/१९ द्वाभ्यां प्रतियोगिभ्या गुणान्मामवधारणा-
त्ताभ्यां युगपदेकस्मिन् काले ऐकेन शब्देन एकस्यार्थस्य कृत्स्नस्यै-
वाभेदरूपेणाभिधित्वा तदा अवाच्य' तद्विधार्थस्य वृत्ति, न च तैर-
भेदोऽत्र सभवति । के पुनस्ते कालादय । काल आरमरूपमर्थ संबन्ध
उपकारो गुणिदेश ससर्ग शब्द इति । तत्र येन कारणेन विरुद्धा
भवन्ति गुणास्तेषामेकस्मिन् काले ऋचिदेकवस्तुनि वृत्तिर्न दृष्टा
अतस्तयोर्निरिति वाचकशब्द तथावृत्त्यभावात् । अत एकस्मिन्नारमनि
तदसत्त्वे प्रविभवते अससर्गात्मारूपे अनेकान्तरूपे न स्त' । एककाले
येनात्मा तथोच्येत ताभ्यां विविक्त च परस्परत आरमरूप गुणाना
नान्योन्यात्मनि वर्तते, यत् उभाभ्यां युगपदभेदेनोच्येत । न च विरु-
द्धत्वात् सदसत्त्वादीनाम् एकान्तपक्षे गुणानामेकद्रव्याधारा वृत्तिरस्ति
यत् अभिज्ञाधारत्वेनाभेदो युगपद्भाव स्यात्, येन केनचित् शब्देन
वा सदसत्त्व उच्येयाताम् । न च सन्नन्धतोऽभिज्ञता गुणानां संभवति
भिन्नत्वात् सन्नन्धस्य । यथा छत्रदेवदत्तसंबन्धोऽन्य दण्डदेवदत्त-
सबन्धात् । न च गुणा उपकारेणाभिन्ना, यतो द्रव्यस्य गुणाधीन
उपकारो नीलरक्ताद्युपजनम्, ते च स्वरूपतो भिन्ना' । न चैकान्त-
पक्षे गुणानां ससृष्टमनेकात्मक रूपमस्ति अवधृतेकान्तरूपत्वात् सत्त्वा-
सत्त्वादेगुणस्य । यदा शबलरूपव्यतिरिक्तो शुक्लकृष्णौ गुणौ
असृष्टौ नैकस्मिन्नर्थे सह वर्तितुं समर्थौ अवधृतरूपत्वात्, अत
ताभ्या ससर्गाभावात् एकान्तपक्षे न युगपदभिधानमस्ति अर्थस्य तथा
वर्तितुं शक्यत्वात् न चैक शब्दो द्वयोर्गुणयो सहवाचकोऽ-
स्ति । यदि स्यात् सच्चन्द्र स्वार्थवदसदपि सत्कुर्वात् असच्चन्द्रो
ऽपि स्वार्थवत् सदपि असत्कुर्वात्, न च तथा लोके संप्रत्ययोऽस्ति
तयाविशेषशब्दत्वात् । एवमुक्त्वात् कालादियुगपद्भावासभवात् ।
शब्दस्य च एकस्य उभयार्थवाचिनोऽनुपलब्धे अवक्तव्य आत्मा । =
जब दो प्रतियोगी गुणोंके द्वारा अवधारण रूपसे युगपत् एक कालमें
एक शब्दसे समस्त वस्तुके कहने की इच्छा होती है तो वस्तु अवक्तव्य
हो जाती है क्योंकि वैसे शब्द और अर्थ नहीं है । गुणोंके युगपद्भाव-
का अर्थ है कालादिकी दृष्टिसे अभेद वृत्ति । वे कालादि आठ हैं—
काल, आरमरूप, अर्थ, सम्बन्ध, उपकार, गुणिदेश, ससर्ग और शब्द ।
जिस कारण गुण परस्पर विरुद्ध हैं अत उनकी एक कालमें किसी
एक वस्तुमें वृत्ति नहीं हो सकती अत सत्त्व और असत्त्वका वाचक
एक शब्द नहीं है एक वस्तुमें सत्त्व और असत्त्व परस्पर भिन्न
(आत्म) रूपमें है उनका एक स्वरूप नहीं है जिससे वे एक शब्दके
द्वारा युगपत् कहे जा सकें । परस्पर विरोधी सत्त्व और असत्त्वकी
एक अर्थमें वृत्ति भी नहीं हो सकती जिससे अभिन्न आधार मानकर
अभेद और युगपद्भाव कहा जाये तथा किसी एक शब्दसे उनका
प्रतिपादन हो सके । सम्बन्धसे भी गुणोंमें अभिन्नताकी सम्भावना
नहीं है, क्योंकि सम्बन्ध भिन्न होता है । देवदत्त और दण्डका
सम्बन्ध यज्ञदत्त और छत्रके सम्बन्धसे जुदा है ही । उपकार दृष्टिसे
भी गुण अभिन्न नहीं है, क्योंकि द्रव्यमें अपना प्रत्यय या विशिष्ट
व्यवहार कराना रूप उपकार प्रत्येक गुणका जुदा-जुदा है । जब शुक्ल
और कृष्ण वर्ण परस्पर भिन्न हैं तब उनका ससृष्ट रूप एक नहीं हो

सक्ता जिससे एक शब्दसे कथन हो सके। कोई एक शब्द या पद दो गुणोंको युगपद् नहीं हो सकता। यदि कहे तो 'सत्' शब्द सत्त्वकी तरह असत्त्वका भी कथन करेगा। तथा 'असत्' शब्द सत्का। पर ऐसी लोक प्रतीति नहीं है, क्योंकि प्रत्येकके वाचक शब्द जुदा-जुदा है। इस तरह कालादि दृष्टिसे युगपत् भावकी सम्भावना नहीं है तथा उभय वाची कोई एक शब्द है नहीं अतः वस्तु अवक्तव्य है। श्लो. वा २/१६/४६/४७/६)

स. भं. त. /पृष्ठ /प ननु कथमवक्तव्यो घट, इति ब्रूम। सर्वोऽपि शब्द प्रधानतया न सत्त्वासत्त्वे युगपत्प्रतिपादयति, तथा प्रतिपादने शब्दस्य शक्त्यभावात्, सर्वस्य पदस्यैकपदार्थविपत्त्वसिद्धे (६०६) सर्वेषां पदानामेकार्थत्वनियमे नानार्थकपदच्छेदापत्ति इति चेन्न, सादृश्योपचारादेव तस्यैकत्वेन व्यवहरणात्. समभिरूढनयापेक्षया शब्दभेदाद्बोधोऽर्थभेद।...अन्यथा वाच्यवाचकनियमव्यवहार-विलोपात् (६१/१) सेनावनयुद्धपङ्क्तिमालापालकग्रामनगरादिशब्दानामनेकार्थप्रतिपादकत्वं दृष्टमिति चेन्न। किरित्तरगरथपदात्तिसमूह-स्यैवेकस्य सेनाशब्देनाभिधानात् (६४/१) वृषावितिपद वृक्षद्वय-बोवक वृक्षा इति च बहुवृक्षबोधकम् लुप्तवाशिष्टशब्दयो साम्याद् वृक्षरूपार्थस्य समानत्वाच्चेकत्रोपचारात्तत्रैकशब्दप्रयोगोपपत्ति। (६४/४) वृक्षपदेन वृक्षरूपैकधर्मावच्छिन्नस्यैव बोधो नान्यधर्मा-वच्छिन्नस्य (६६/२) द्वन्द्वस्यापि क्रमेणैवार्थद्वयप्रत्यायनसमर्थत्वेन युगप्रधानभावस्य तत्रापि सत्त्वात् (६८/३)। = प्रश्न—घट अवक्तव्य कैसे है। उत्तर—सर्व ही शब्द एक कालमें ही प्रधानतासे सत्त्व और असत्त्व दोनोंका युगपत् प्रतिपादन नहीं कर सकते, क्योंकि उस प्रकारसे प्रतिपादन करनेकी शक्ति नहीं है क्योंकि सर्वही शब्दोंमें एक ही पदार्थको विषय करना सिद्ध है। प्रश्न—सर्व ही शब्दोंको एकार्थवाची माना जाये तो अनेकार्थवाची शब्दोंका अभाव हो जायेगा। उत्तर—नहीं, क्योंकि ऐसे शब्द वास्तवमें अनेक ही होते हैं परन्तु केवल सादृश्यके ही उपचारही उनमें एकपनेका व्यवहार होता है। समभिरूढ नयको अपेक्षा शब्द भेद होनेपर अवश्य ही अर्थ का भेद हो जाता है अन्यथा वाच्य-वाचकपनेके नियमका व्यवहार नहीं हो सकता। प्रश्न—सेना, वन, युद्ध, पक्ति, माला, तथा पालक इत्यादि शब्दोंकी अनेकार्थवाचकता इष्ट है। उत्तर—नहीं, क्योंकि हस्ति, अश्व, रथ व पयादोंके समूह रूप एक ही पदार्थ सेना शब्दसे कहा जाता है। प्रश्न—'वृक्षी' कहनेसे दो वृक्षोंका तथा वृक्षा कहनेसे बहुतासे वृक्षोंका ज्ञान कैसे हो सकेगा। उत्तर—नहीं, क्योंकि वहाँ भी अनेक शब्दोंके द्वारा ही अनेक वृक्षोंका अभिधान होता है। किसी एक शब्दसे अनेकार्थका बोध नहीं होता। व्याकरणके नियमानुसार शेष शब्दोंका लोप करके केवल एक ही शब्द शेष रहता है। लुप्त शब्दोंकी अवशिष्ट शब्दके साथ समानता होनेसे उनमें एकत्वका उपचार मानकर एक ही शब्दका प्रयोग कर दिया जाता है। तथा बहुवचनान्त वृक्ष पदसे भी वृक्षत्व रूप एक धर्मसे अवच्छिन्न एक-एक वृक्षका ही भाव होता है, किसी, अन्य धर्मसे अवच्छिन्न पदार्थका नहीं। प्रश्न—बहुवचनान्त पद बहुत्व और वृक्षत्व ऐसे अनेक धर्मोंसे अवच्छिन्न वृक्षका ज्ञान होनेके कारण उपरोक्त भग हो जाता है। उत्तर—यद्यपि आपका कहना ठीक है परन्तु यहाँ प्रथम वृक्ष शब्द एक वृक्षत्व रूप धर्मसे अवच्छिन्न अर्थका ज्ञान कराता है और तद् पश्चात् लिंग और सख्याका। इस प्रकार शब्द जन्य ज्ञान क्रमसे ही होता है। और इसलिए 'वृक्षा' इत्यादि पदसे वृक्षत्व धर्मसे अवच्छिन्न पदार्थका बोध तो प्रधानतासे होता है, परन्तु लिंग तथा बहुत्व सख्याका गौणतासे। और इस प्रकार मुख्यता और गौणता द्वन्द्व समासमें भी विवक्षित है क्योंकि वह भी क्रमसे दो या अधिक पदार्थोंको बोध करानेमें समर्थ है।

४. सर्वथा अवक्तव्य कहना मिथ्या है

स्व रतो/१०० ते त स्वधातिर्न दोष शमीकर्तुमनीश्वरा। त्वद्द्विप

स्वहनी यालास्तस्त्वावतव्यता श्रिता'। = वे एकान्तवादी जन उस स्वधाती दोषको दूर करनेके लिए असमर्थ हैं, आपसे द्वेष रखते हैं, आत्म धाती हैं और उन्होंने तत्त्वकी अवक्तव्यताको आश्रित किया है। १००।

५ वक्तव्य व अवक्तव्यका समन्वय

स, भ त /७०/७ अय खलु तदर्थ सत्त्वाचेकेधर्ममुखेन वाच्यमेव वस्तु युगपत्प्रधानभूतसत्त्वासत्त्वोभयधर्मावच्छिन्नत्वेनावाच्यम्। = सत्त्वा-दिधर्मोंमेंसे किसी एक धर्मके द्वारा पदार्थ वाच्य है, वही सत्त्व, असत्त्व उभय धर्मसे अवाच्य है।

प घ /उ/६६३-६६४ तदभिज्ञान हि यथा वक्तुमशक्यत्वात् सम नयस्य यत्। अपि तुर्यो नयमभङ्गस्तत्त्वावक्तव्यता श्रितस्तरमात्। ६६३। न पुनर्व-क्तुमशक्यं युगपद्धर्मद्वय प्रमाणस्य क्रमवर्ती। केवलमिह नय प्रमाण न तद्वदिह यस्मात्। ६६४। यत्किंल पुन प्रमाणं वक्तुमल वस्तुजातमिह यावत्। सदसदनेकेकमथो नित्यानित्यादिक च युगपदिति। ६६५। = जिस कारणसे दो धर्मोंको नय कहनेमें असमर्थ है, जिस कारण तत्त्व-की अवक्तव्यताको आश्रित करने वाला चौथा भी नय भग है। ६६३। किन्तु प्रमाणको एक साथ दो धर्मोंका प्रतिपादन करना अशक्य नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल नय क्रमवर्ती है किन्तु प्रमाण नहीं। और निश्चयसे प्रमाण सत्-असत्, एक-अनेक और नित्य-अनित्य वर्ग-गृह सम्पूर्ण वस्तुके धर्मोंको एक साथ कहनेके लिए समर्थ है। ६६४-६६५। प घ /सु/३६६ ततो वक्तुमशक्यत्वात् निर्विकल्पस्य वस्तुन। तदुल्लेख समालेख्य ज्ञान द्वारा निरूप्यते। ३६६। = इसलिए निर्विकल्पक वस्तुके कथनको अनिर्वचनीय होनेके कारण ज्ञानके द्वारा उन सामान्यात्मक गुणोंका उल्लेख करके उनका निरूपण किया जाता है।

सप्तभंगी तरंगिनी—विमलदास (श्रावक) (प्लवग भवत !)

कृत संस्कृत भाषाका न्याय विषयक ग्रन्थ।

सप्त व्यसन—दे व्यसन।

सप्त व्यसन चारित्र—प मनरग लाल (ई १७६३-१८४३) द्वारा रचित भाषा छन्द बद्ध कथा।

सप्तांक—असरव्यात गुणवृद्धिकी सप्तांक सज्ञा है।

—दे श्रुतज्ञान II/२/३।

सप्रतिपक्षी—सत् सदा अपने प्रतिपक्षीकी अपेक्षा रखता है।

—दे अनेकान्त १४।

सप्रतिपक्षी प्रकृतियाँ—दे प्रकृतिग्रन्थ/२।

सप्रतिपक्षी हेत्वाभास—जिस हेतुका प्रतिपक्षी साधन मौजूद हो।

समंतभद्र—१, मूल सघ विभाजनके अनुसार आप उमास्वामीके शिष्य या उनके विलकुल समीप पूर्ववर्ती आचार्य हैं। आपको शिव-कोटिके गुरु रूपसे माना जाता है परन्तु भ आ /प्र ७ प्रेमीजीके अनुसार यह बात स्वीकरणीय नहीं। आप क्षत्रिय वशोद्भव राजपुत्र थे। इनके पिता उरगपुरके राजा थे। आपका जन्मका नाम शान्ति-वर्मा था। आप महावादि थे तथा आपका दश विशेषण प्राप्त थे— १ आचार्य, २ कवि, ३ मादिराट्, ४ पण्डित (गमत्), ५ दैवज्ञ (ज्योतिर्विद्), ६ भिषक् (वैद्य), ७ मान्त्रिक (मन्त्र विशेषज्ञ), ८ तान्त्रिक (तन्त्र विशेषज्ञ), ९ आज्ञासिद्ध, १०, सिद्ध सारस्वत। आचार्य प्रभाचन्द्र व यत्र नैमिदत्तके कथाकोशके अनुसार इन्हें भस्मक व्याधि हो गयी थी, जिसके कारण आपको मुनिलिंग छोड़कर राजा शिवकोटिके शिवालयमें पुजारीके रूपमें रहना पडा था। स्वयंभू स्तोत्रकी रचना करके अपने तपके प्रभावसे शिवाकी पिण्डीको फाड़कर उसमें-से भगवाद् चन्द्रप्रभुकी प्रतिमा प्रगट की थी। इससे प्रभावित

प ध /३/३६६ ततो वक्तुमशक्यत्वात् निर्विकल्पस्य वस्तुन । तदुपलेशं
समालेख्यज्ञानद्वारा निरूप्यते । ३६६ । = निर्विकल्प वस्तुके कथनको
अनिर्वचनीय होनेके कारण ज्ञानके द्वारा उन सामान्यात्मक गुणोंका
उल्लेख करके उनका निरूपण किया जाता है ।

२. वह सर्वथा अवक्तव्य नहीं

आप्त मो /४६-१० अवक्तव्यवस्तुकोटिर्विकल्पोऽपि न कथ्यताम् ।
असर्वान्तमवस्तु स्यादविशेष्यविशेषणम् । ४६ । अवस्वनभिलाष्य
स्यात् सर्वान्ते परिवर्जितम् । वस्त्वेवावस्तुतां याति प्रक्रियाया
विपर्ययात् । ४८ । सर्वान्ताश्चेदवक्तव्यास्तेषां किं वचन पुन ।
सवृत्तिश्चेन्मवैषा परमार्थविपर्ययात् ४९ । अशक्यत्वादावाच्य किम-
भावात्किमथाथ । आवाच्योक्तिद्वय न स्यात् किं व्याजेनोच्यतां-
रफुटम् । ५० । = 'चार प्रकारका विकल्प अवक्तव्य है' ऐसा कहना
युक्त नहीं, क्योंकि सर्वथा अवक्तव्य होनेसे विशेषण-विशेष्य भावका
अभाव होगा । इस प्रकार सर्व वस्तुओंको अवस्तुपनेका प्रसंग आवेगा
। ४६ । प्रश्न—यदि सर्व धर्मोंसे रहित वह अवस्तु अवक्तव्य है तो
उसको आप अवस्तु भी कैसे कह सकते हैं ? उत्तर—हमारे हैं अवस्तु
सर्वथा धर्मोंसे रहित नहीं है, बल्कि वस्तुके धर्मोंसे विपरीत धर्मोंका
कथन करनेपर अवस्तु स्वीकार की जाती है । ४८ । जिनके मतमें सर्व
धर्म सर्वथा अवक्तव्य है उनके हैं तो स्वपक्ष साधन और पर पक्ष
दूषणका वचन भी नहीं बनता है, तब उन्हें तो मौन ही रहना
चाहिए । 'वचन तो व्यवहार प्रवृत्ति मात्रके लिए होता है,' ऐसा कहना
भी युक्त नहीं है क्योंकि परमार्थसे विपरीत तथा उपचार मात्र कथन
विपरीत होता है । ४९ । हम तुमसे पूछते हैं कि वस्तु इसलिये अवक्तव्य
है कि तुममें उसके कहनेकी सामर्थ्य नहीं है या इसलिये अवक्तव्य है
कि उसका अभाव है, या इसलिये अवक्तव्य है कि तुम उसे जानते
नहीं । तहाँ आदि और अन्त वाले दो पक्ष तो आप बौद्धोंके हैं
सम्भव नहीं है क्योंकि आप बुद्धको सर्वज्ञ मानते हैं । मध्यका पक्ष
अर्थात् वस्तुका अभाव मानते हो तो छल पूर्वक घुमा-फिरा कर क्यों
कहते हो स्पष्ट कहिए ।

रा वा /४/४२/१५/२५८/१७ स च अवक्तव्यशब्देन अन्यैश्च पटुभिर्वचनै
पर्यायान्तरविवक्षया च वक्तव्यत्वात् स्यादवक्तव्य । यदि सर्वथा
अवक्तव्य स्यात् अवक्तव्य इत्यपि चावक्तव्य स्यात् कुतो बन्ध-
मोक्षादिप्रक्रियाप्ररूपणविधि । = यह (वस्तु) अवक्तव्य शब्दके द्वारा
अन्य छह भगोंके द्वारा वक्तव्य होनेसे 'स्यात्' अवक्तव्य है सर्वथा
नहीं । यदि सर्वथा अवक्तव्य हो जाये तो 'अवक्तव्य शब्दके द्वारा भी
उसका कथन नहीं हो सकता । ऐसी दशामें बन्ध मोक्षादिकी प्रक्रिया-
का निरूपण निरर्थक हो जायेगा । (रा वा /१/१/१०/४५/२६)

श्लो वा. २/१/६/५६ पृ १/५. सकलवाचकरहितत्वादवक्तव्यं वस्तु युग-
पत्सदसत्त्वान्या प्रधानभावापिताभ्यामाक्रान्त व्यवतिष्ठते, तच्च न
सर्वथेवावक्तव्यमेवावक्तव्यशब्देनास्य वक्तव्यत्वादिस्थिके (४८०/२१)
कथमिदानीं "अवाच्यैः क्रान्तेऽयुक्तिर्निवाच्यमिति युज्यते" इत्युक्त
घटते । सकृद्धर्मद्वयाक्रान्तत्वेनैव सत्त्वाद्यैकेकधर्मसमाक्रान्तत्वेनाप्य-
वाच्यत्वे वस्तुनो वाच्यत्वाभावधर्मोणाक्रान्तस्यावाच्यपदेनाभिधान
न युज्यते इति व्याख्यानात् (४८१/२६) । = एक ही समयमें प्रधान-
पक्षसे विवक्षित किये गये सत्त्व और असत्त्व धर्मों करके चारों ओरसे
घिरी हुई वस्तु व्यवस्थित हो रही है । वह सम्पूर्ण वाचक शब्दोंसे
रहित है । अत अवक्तव्य है और वह सभी प्रकारोंसे अवक्तव्य ही हो
यह नहीं समझना, क्योंकि अवक्तव्य शब्द करके ही इसका वाचन हो
रहा है । श्री समन्तभद्र स्वामीका कहना कैसे घटित होगा कि
"अवाच्यता ही यदि एवान्त माना जायेगा तो अवाच्य इस प्रकारका
कथन भी युक्त नहीं होता है" (आ मी /५/) एक समयमें ही रहे
धर्मोंसे आक्रान्तपने करके जैसे वस्तु अवाच्य है, उसी प्रकार सत्त्व,

असत्त्व आदिमेंसे एक-एक धर्मसे आरूढपने करके भी वस्तुको यदि
अवाच्य माना जायेगा तो वाच्यत्वाभाव नामके एक धर्म करके घिरी
हुई वस्तुका अवाच्य पद करके कथन करना नहीं युक्त हो सकता है ।
(स्या म /२३/२५१/३), (स भ, त /६६/१०)

स भ, त /७३/३ एवमवक्तव्यमेव वस्तुतत्त्वमित्यवक्तव्यत्वैकान्तोऽपि
स्ववचनपराहृत, सदा मौनवतिकोऽहमित्तिवत् । = जो यह कहते हैं
कि सर्वथा अवक्तव्य रूप ही वस्तु स्वरूप है, उनका कथन स्ववचन
विरोध है जैसे—मैं सदा मौनव्रत धारण करता हूँ ।

३. कालादिकी अपेक्षा वस्तु धर्म अवक्तव्य है

रा वा. /४/४२/१५/२५८/११ द्वाभ्या प्रतियोगिभ्यां गुणाभ्यामवधारणा-
त्ताभ्यां युगपदेकस्मिन् काले ऐकेन शब्देन एकस्यार्थस्य कृत्स्नस्यै-
वाभेदरूपेणाभिधित्वा तदा अवाच्य तद्विधार्थस्य वृत्तिः, न च तैर-
भेदोऽत्र सभवति । के पुनस्ते कालादय । काल आत्मरूपमर्थ सम्बन्ध
उपकारो गुणिवेश ससर्ग शब्द इति । तत्र येन कारणेन विरुद्धा
भवन्ति गुणास्तेषामेकस्मिन् काले क्वचिदेकवस्तुनि वृत्तिर्न दृष्टा
अतस्तयोर्नास्ति वाचकशब्द तथावृत्त्यभावात् । अत एकस्मिन्नात्मनि
तदसत्त्वे प्रविभवते असर्गात्मा रूपे अनेकान्तरूपे न स्त । एककाले
येनात्मा तथोच्यते ताभ्यां विविक्त च परस्परत आत्मरूप गुणाना
नान्योन्यात्मनि वर्तते, यत उभाभ्यां युगपदभेदेनोच्यते । न च विरु-
द्धत्वात् सदसत्त्वादीनाम् एकान्तपक्षे गुणानामेकद्रव्याधारा वृत्तिरस्ति
यत अभिन्नाधारत्वेनाभेदो युगपद्भाव स्यात्, येन केनचित् शब्देन
वा सदसत्त्व उच्येयाताम् । न च सम्बन्धतोऽभिन्नता गुणानां सभक्ति
भिन्नत्वात् सम्बन्धस्य । यथा छत्रदेवदत्तसम्बन्धोऽन्य दण्डदेवदत्त-
सम्बन्धात् । न च गुणा उपकारेणाभिन्ना, यतो द्रव्यस्य गुणाधीन
उपकारो नीलरक्ताद्युपलक्षणम्, ते च स्वरूपतो भिन्ना । न चैकान्त-
पक्षे गुणानां ससृष्टमनेकारमक रूपमस्ति अवधृतेकान्तरूपत्वात् सत्त्वा-
सत्त्वादेर्गुणस्य । यदा शबलरूपस्यतिरिक्तौ शुक्लकृष्णौ गुणौ
असृष्टौ नैकस्मिन्नर्थे सह वर्तितु समर्थौ अवधृतरूपत्वात्, अत
ताभ्या ससर्गाभावात् एकान्तपक्षे न युगपदभिधानमस्ति अर्थस्य तथा
वर्तितु शक्यत्वात् न चैक शब्दो द्वयोर्गुणयो सहवाचकोऽ-
स्ति । यदि स्यात् सत्त्वद्रव्य स्वार्थवदसदपि सत्त्वकुर्यात् असत्त्वद्रव्यो
ऽपि स्वार्थवत् सदपि असत्त्वकुर्यात्, न च तथा लोके सप्रत्ययोऽस्ति
तयोर्विशेषशब्दत्वात् । एवमुक्त्वात् कालादियुगपद्भावसम्भवात् ।
शब्दस्य च एकस्य उभयार्थवाचिनोऽनुपपत्त्ये अवक्तव्य आत्मा । =
जब दो प्रतियोगी गुणोंके द्वारा अवधारण रूपसे युगपत् एक कालमें
एक शब्दसे समस्त वस्तुके कहने की इच्छा होती है तो वस्तु अवक्तव्य
हो जाती है क्योंकि वैसा शब्द और अर्थ नहीं है । गुणोंके युगपद्भाव-
का अर्थ है कालादिकी दृष्टिसे अभेद वृत्ति । वे कालादि आठ हैं—
काल, आत्मरूप, अर्थ, सम्बन्ध, उपकार, गुणिवेश, ससर्ग और शब्द ।
जिस कारण गुण परस्पर विरुद्ध है अत उनकी एक कालमें किसी
एक वस्तुमें वृत्ति नहीं हो सकती अत सत्त्व और असत्त्वका वाचक
एक शब्द नहीं है एक वस्तुमें सत्त्व और असत्त्व परस्पर भिन्न
(आत्म) रूपमें है उनका एक स्वरूप नहीं है जिससे वे एक शब्दके
द्वारा युगपत् कहे जा सकें । परस्पर विरोधी सत्त्व और असत्त्वकी
एक अर्थमें वृत्ति भी नहीं हो सकती जिससे अभिन्न आधार मानकर
अभेद और युगपद्भाव कहा जाये तथा किसी एक शब्दसे उनका
प्रतिपादन हो सके । सम्बन्धसे भी गुणोंमें अभिन्नताकी सम्भावना
नहीं है, क्योंकि सम्बन्ध भिन्न होता है । देवदत्त और दण्डका
सम्बन्ध यज्ञदत्त और छत्रके सम्बन्धसे जुदा है ही । उपकार दृष्टिसे
भी गुण अभिन्न नहीं हैं, क्योंकि द्रव्यमें अपना प्रत्यय या विशिष्ट
व्यवहार कराना रूप उपकार प्रत्येक गुणका जुदा-जुदा है । जब शुक्ल
और कृष्ण वर्ण परस्पर भिन्न हैं तब उनका सृष्ट रूप एक नहीं हो

सकता जिससे एक शब्दसे कथन हो सके। कोई एक शब्द या पद दो गुणोंको युगपद् नहीं हो सकता। यदि कहे तो 'सत्' शब्द सत्त्वकी तरह असत्त्वका भी कथन करेगा। तथा 'असत्' शब्द सत्का। पर ऐसी लोक प्रतीति नहीं है, क्योंकि प्रत्येकके वाचक शब्द जुदा-जुदा है। इस तरह कालादि दृष्टिसे युगपत् भावकी सम्भावना नहीं है तथा उभय वाची कोई एक शब्द है नहीं अतः वस्तु अवक्तव्य है। श्लो. वा २/१/६/६/४७/६)

सं. भ. त. पुष्ट / प. ननु कथमवक्तव्यो घट, इति ब्रूम। सर्वोऽपि शब्द प्रधानतया न सत्त्वासत्त्वे युगपत्प्रतिपादयति, तथा प्रतिपादने शब्दस्य शक्यभावात्, सर्वस्य पदस्यैकपदार्थविपत्त्वसिद्धे (६०/६) सर्वेषां पदानामेकार्थत्वनियमे नानार्थकपदोच्छेदापत्ति इति चेन्न. सादृश्योपचारादेव तस्यैकत्वेन व्यवहरणात् समभिरूढनयापेक्षया शब्दभेदाद्बोधुर्थाभेदः। अन्यथा वाच्यवाचकनियमव्यवहार-विलोपात् (६१/१) सेनावनयुद्धपङ्क्तिमालापालकग्रामनगरादिशब्दानामनेकार्थप्रतिपादकत्वं दृष्टमिति चेन्न। करितुरगरथपदात्तिसमूह-स्यैकस्य सेनाशब्देनाभिधानात् (६४/१) वृथावितिपद वृक्षद्वय-बोधक वृक्षा इति च बहुवृक्षबोधकम् लुप्तवशिष्टशब्दयो साम्याद् वृक्षरूपार्थस्य समानत्वाच्चेकत्वोपचारात्तन्त्रैकशब्दप्रयोगोपपत्ति। (६४/६) वृक्षपदेन वृक्षरूपैकधर्मावच्छिन्नस्यैव बोधो नान्यधर्मा-वच्छिन्नस्य (६६/२) द्वन्द्वस्यापि क्रमेणैवार्थद्वयप्रत्यायनसमर्थत्वेन गुणप्रधानभावस्य तत्रापि सत्त्वात् (६८/३)। = प्रश्न—घट अवक्तव्य कैसे है। उत्तर—सर्व ही शब्द एक कालमें ही प्रधानतासे सत्त्व और असत्त्व दोनोंका युगपत् प्रतिपादन नहीं कर सकते, क्योंकि उस प्रकारसे प्रतिपादन करनेकी शक्ति नहीं है क्योंकि सर्वही शब्दोंमें एक ही पदार्थको विषय करना सिद्ध है। प्रश्न—सर्व ही शब्दोंको एकार्थवाची माना जाये तो अनेकार्थवाची शब्दोंका अभाव हो जायेगा। उत्तर—नहीं, क्योंकि ऐसे शब्द वास्तवमें अनेक ही होते हैं परन्तु केवल सादृश्यके ही उपचारही उनमें एकपनेका व्यवहार होता है। समभिरूढ नयकी अपेक्षा शब्द भेद होनेपर अवश्य ही अर्थ का भेद हो जाता है अन्यथा वाच्य-वाचकपनेके नियमका व्यवहार नहीं हो सकता। प्रश्न—सेना, वन, युद्ध, पक्ति, माला, तथा पालक इत्यादि शब्दोंकी अनेकार्थवाचकता इष्ट है। उत्तर—नहीं, क्योंकि हस्ति, अश्व, रथ व पयादोंके समूह रूप एक ही पदार्थ सेना शब्दसे कहा जाता है। प्रश्न—'वृक्षी' कहनेसे दो वृक्षोंका तथा वृक्षा कहनेसे बहुतसे वृक्षोंका ज्ञान कैसे हो सकेगा। उत्तर—नहीं, क्योंकि वहाँ भी अनेक शब्दोंके द्वारा ही अनेक वृक्षोंका अभिधान होता है। किसी एक शब्दसे अनेकार्थका बोध नहीं होता। व्याकरणके नियमानुसार शेष शब्दोंका लोप करके केवल एक ही शब्द शेष रहता है। लुप्त शब्दोंकी अवशिष्ट शब्दके साथ समानता होनेसे उनमें एकत्वका उपचार मानकर एक ही शब्दका प्रयोग कर दिया जाता है। तथा बहुवचनान्त वृक्ष पदसे भी वृक्षत्व रूप एक धर्मसे अवच्छिन्न एक-एक वृक्षका ही भाव होता है, किसी, अन्य धर्मसे अवच्छिन्न पदार्थका नहीं। प्रश्न—बहुवचनान्त पद बहुत्व और वृक्षत्व ऐसे अनेक धर्मोंसे अवच्छिन्न वृक्षका ज्ञान होनेके कारण उपरोक्त भग हो जाता है। उत्तर—यद्यपि आपका कहना ठीक है परन्तु यहाँ प्रथम वृक्ष शब्द एक वृक्षत्व रूप धर्मसे अवच्छिन्न अर्थका ज्ञान कराता है और तत् पश्चात् लिंग और सरूपाका। इस प्रकार शब्द जन्म ज्ञान क्रमसे ही होता है। और इसलिये 'वृक्षा' इत्यादि पदसे वृक्षत्व धर्मसे अवच्छिन्न पदार्थका बोध तो प्रधानतासे होता है, परन्तु लिंग तथा बहुत्व सरूपाका गौणतासे। और इस प्रकार मुख्यता और गौणता द्वन्द्व समासमें भी विवक्षित है क्योंकि वह भी क्रमसे दो या अधिक पदार्थोंको बोध करानेमें समर्थ है।

४. सर्वथा अवक्तव्य कहना मिथ्या है

स्व स्तो/१०० ते तं स्वघातिनं दोष शमीकर्तुमनीश्वरा। त्वद्द्विप

स्वहनी बालास्तत्त्वावपत्तव्यतां श्रिता। = वे एकान्तवादी जन उस स्वघाती दोषको दूर करनेके लिए असमर्थ है, आपसे द्वेष रखते हैं, आत्म घाती है और उन्होंने तत्त्वकी अवक्तव्यताको आश्रित किया है। १००।

५ वक्तव्य व अवक्तव्यका समन्वय

स. भ. त. ७०/७ अयं खलु तदर्थं सत्त्वाद्ये कैकधर्ममुखेन वाच्यमेव वस्तु युगपत्प्रधानभूतसत्त्वासत्त्वोभयधर्मावच्छिन्नत्वेनावाच्यम्। = सत्त्वा-दिधर्मोंमेंसे किसी एक धर्मके द्वारा पदार्थ वाच्य है, वही सत्त्व, असत्त्व उभय धर्मसे अवाच्य है।

प घ / उ / ६६३-६६६ तदभिज्ञानं हि यथा वक्तुमशक्यत्वात् सम नयस्य यत्। अपि तुर्यो नयगभङ्गस्तत्त्वावक्तव्यता श्रितस्तरमात्। ६६३। न पुनर्ध-क्तुमशक्यं युगपद्गर्भं प्रमाणस्य क्रमवर्ती। केवलमिह नय प्रमाण न तद्वदिह यस्मात्। ६६४। यत्किं पुन प्रमाणं वस्तुमल वस्तुजातमिह यावत्। सदसदनेकैकमथो नित्यानित्यादिक च युगपदिति। ६६५। = जिस कारणसे दो धर्मोंको नय कहनेमें असमर्थ है, जिस कारण तत्त्वकी अवक्तव्यताको आश्रित करने वाला चौथा भी नय भग है। ६६३। किन्तु प्रमाणको एक साथ दो धर्मोंका प्रतिपादन करना अशक्य नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल नय क्रमवर्ती है किन्तु प्रमाण नहीं। और निश्चयसे प्रमाण सत्-असत्, एक-अनेक और नित्य-अनित्य वर्ग रह सम्पूर्ण वस्तुके धर्मोंको एक साथ कहनेके लिए समर्थ है। ६६४-६६५। प घ / मु / ३६६ ततो वक्तुमशक्यत्वात् निर्विकल्पस्य वस्तुन। तदुल्लेख समालेख्य ज्ञान द्वारा निरूप्यते। ३६६। = इसलिये निर्विकल्पक वस्तुके कथनको अनिर्वचनीय होनेके कारण ज्ञानके द्वारा उन सामान्यात्मक गुणोंका उल्लेख करके उनका निरूपण किया जाता है।

सप्तमंगी तरंगिनी—विमलदास (श्रावक) (प्लवग सवतः।)

कृत संस्कृत भाषाका न्याय विषयक ग्रन्थ।

सप्त व्यसन—दे व्यसन।

सप्त व्यसन चारित्र—प मनरग लाल (ई १७६३-१८४३) द्वारा रचित भाषा छन्द वद्व कथा।

सप्तांक—असख्यात गुणवृद्धिकी सप्तांक सज्ञा है।

—दे श्रुतज्ञान। II/२/३।

सप्रतिपक्षी—सत् सदा अपने प्रतिपक्षीकी अपेक्षा रखता है।

—दे अनेकान्त। ४।

सप्रतिपक्षी प्रकृतियाँ—दे प्रकृतिग्रन्थ/२।

सप्रतिपक्षी हेत्वाभास—जिस हेतुका प्रतिपक्षी साधन मौजूद हो।

समंतभद्र—१. मूल सप्त विभाजनके अनुसार आप उमास्वामीके शिष्य या उनके मिलकुल समीप पूर्ववर्ती आचार्य है। आपको शिव-कोटिके गुरु रूपसे माना जाता है परन्तु भ आ/प्र ७ प्रेमीजीके अनुसार यह बात स्वीकरणीय नहीं। आप क्षत्रिय वशोद्भव राजपुत्र थे। इनके पिता उरगपुरके राजा थे। आपका जन्मका नाम शान्ति-वर्मा था। आप महावादि थे तथा आपको दश विशेषण प्राप्त थे— १ आचार्य, २ कवि, ३ नादिराट्, ४ पण्डित (गमक), ५ दैवज्ञ (ज्योतिर्विद्), ६ भिषक् (वैद्य), ७. मान्त्रिक (मन्त्र विशेषज्ञ), ८ तान्त्रिक (तन्त्र विशेषज्ञ), ९ आज्ञासिद्ध, १० मिद्ध सारस्वत। आचार्य प्रभाचन्द्र व व. नैमिदत्तके कथाकोशके अनुसार इन्हें भम्मक व्याधि हो गयी थी, जिसके कारण आपको मुनिलिंग छोडकर राजा शिवकोटिके शिवालयमें पुजारीके रूपमें रहना पडा था। स्वयंभू स्तोत्रकी रचना करके अपने तपके प्रभावसे शिवकी पिण्डीकी फाडकर उसमें-से भगवात् चन्द्रप्रभुकी प्रतिमा प्रगट की थी। इससे प्रभावित

हो राजा शिवकोटि जो शैव था, वह जैन ही नहीं हो गया था बल्कि उसने दिगम्बरी दीक्षा भी धारण कर ली थी। यही राजा शिवकोटि इनके शिष्य बताया जाते हैं। परन्तु भ आ/प्र, ४-७ में प्रेमीजीके अनुसार यह बात प्रामाणिक नहीं मानी जाती है। कृतियाँ—१ पट्ट खण्डगमके प्रथम पाँचों खण्डों पर टीका, २ कर्म-प्राभृत टीका, ३ गन्वहस्ति महाभाष्य, ४ आप्त मीमांसा, ५, युक्त्य-नुशासन, ६ जीवसिद्धि, ७ तत्त्वानुशासन, ८, स्वयम्भू-स्तोत्र, ९, जिनस्तुतिशतक (स्तुतिविद्या या जिनशतक)। समय—वि श २-३ (ई श २ का अन्तिम चरण) कुछ विद्वानोंके अनुसार इनका समय वि १२५ (ई ६८), व ई श १ भी कहा है, परन्तु वि श २-३ वाली मान्यता ही अधिक सम्मत है।

क पा १/प्र, ६३ प महेन्द्रके अनुसार इन्द्रनन्दिको यह बात कि इनको यतिवृषभ कृत कषाय पाहुडकी चूर्ण सूत्रिकाएँ प्राप्त थीं, प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती क्योंकि समन्तभद्र द्वारा रचित किसी ऐसे ग्रन्थकी उपलब्धि नहीं हो रही है जो कषाय प्राभृतके चूर्ण सूत्रोंके आधारपर लिखा गया सिद्ध होता है। इसलिए उपरोक्त मान्यताके आधारपर इनका समय पीछे फेंकना युक्त नहीं है। न ही इनका शामकुण्ड व तुम्बुलूराचार्यसे पीछे मानना योग्य है। (भ आ/प्र ४ प्रेमी), (सभाष्य तत्त्वार्थाधिगम/प्र/२ टिप्पण प्रेमी), (यु. अनु./प्र ४४ प जुगलकिशोर), (ध, १/प्र ५० H L Jain), (प, प्र/प्र १२२ A. N Up), (क पा, १/प्र ६३ प, महेन्द्र), (सि वि/प्र १७ प महेन्द्र), (ह पु/प्र ६ प पञ्जालाल), (ग्या, दी/प्र, पृ ६ रामप्रसाद जेन बम्भई); (भद्रबाहुचरित्र/प्र, २३ उदयलाल)। २ इनको लघु समन्तभद्र कहते थे। इन्होंने अष्टसहस्री-पर विषय तात्पर्य टीका लिखी है।

समय—सतीशचन्द्र विद्याभूषणके अनुसार ई १०००। प दरबारी लालके अनुसार वि श १३/(भ आ/प्र ६), (अष्टसहस्री/प्र १३ प दरबारीलाल)।

समंतानुपात क्रिया—दे क्रिया/३।

सम—स सा/आ/२ समयत एकत्वेन ।—समयत अर्थात् एकत्वरूपसे। (स सा/आ/३)।

गो, क/जी प्र/४७/७९३/५ सम एकीभावेन ।—सम अर्थात् एकीभावसे।

दे सामायिक/१/२ घी सगत है अर्थात् धीके साथ एकीभूत है।

समकित चौबोसो व्रत—एक वर्ष पर्यन्त प्रत्येक चतुर्दशीको उपवास करे। तथा 'ओ हीं वृषभादि चतुर्विंशतिजिनाय नमः' इस मन्त्रका त्रिकाल जाप। कुल ४८ उपवास करे।

समकेंद्रिय—Concentric (ध/५/प्र २८)।

समचतुरस्र संस्थान—दे संस्थान।

समच्छिन्नक—Frustrum (ज/प्र/१०८)।

समच्छेद—गणितकी भिन्न परिकर्माष्टक विधिमें अंशों और हट्टोंको यथायाग्य गुणा करके सब राशियोंके हर समान करना। विशेष—दे, गणित/II/६/१०।

समता—१ दे सामायिक। २ समताके अपर नाम—दे मोक्ष-मार्ग/२/५।

समतोया—भरतसेन आर्य खण्डकी एक नदी—दे मनुष्य/४।

समदत्ति—दे दान/१।

समद्विबाहु—Squaloidal (ज, प/प्र, १०८)

समधारा—दे गणित/II/५।

समन्वय—भिन्न-भिन्न विषयोंके अनेकों विकरपोंका परस्पर समन्वय—दे वह-वह विषय।

समभिरूढ नय—दे नय/III/७।

समय—१ समय सामान्यके लक्षण

१ कालके अर्थमें

ति प/४/२५ परमाणुसत णियद्विदगयणपदेसस्स दिक्कमणमेत्तो। जो कालो अविभागी होदि पुढ समयणामा सो १२८। =पुद्गल परमाणुका निकटमें स्थित आकाश प्रदेशके अतिक्रमण प्रमाण जो अविभागी काल है वही समय नामसे प्रसिद्ध है। (ध ४/१,५,९/३१८/२), (न च वृ/१४०), (गो जी/मू व जी प्र/७७३), (पं का/

१

ता वृ/२५), (प, का/ता, वृ/२५/२/५) रा वा/३/३८/७/२०८/३४ सर्वजघन्यपरिणतस्य परमाणो स्वावगाढा-ववाशप्रदेशन्यतिक्रमकाल परमनिषिद्धो निर्विभाग समय। =जघन्यगतिसे एक परमाणु सटे हुए द्वितीय परमाणु तक जितने काल जाता है उसे समय कहते हैं।

दे काल/१ काल समय और अद्वा ये एकार्थवाची है।

ध १३/५,६,६६/२६८/११ दोण परमाणुण तप्पाआगवेणेण उद्दमधो च गच्छताण सरीरेहि अणोणफोसणकालो समओ णाम । =तत्रायोग वेगसे एकके ऊपरकी ओर और दूसरेके नीचेकी ओर जानेवाले दों परमाणुओंका उनके शरीर द्वारा स्पर्शन होनेमें लगनेवाला काल समय कहलाता है। (गो जी/धृ/५७३)।

गो जो, मू/५,७३ अवरा पजायद्विदो खणमेत्तं होदि तं च समओत्ति । =सम्पूर्ण द्रव्योंको जघन्य पययि स्थिति एक समयमात्र होती है, इसीको समय भी कहते हैं।

२. आत्माके अर्थमें

स सा/आ/२ जीवनाम पदार्थ स समय, समयत एकत्वेन युगपज्जा-नाति गच्छति चेति निरुक्ते । =जीव नामक पदार्थ समय है। जो एकत्वरूपसे एक ही समयमें जानता तथा परिणमता हुआ वह समय है।

स सा/आ/३ समयशब्देनात्र सामान्येन सर्व एवार्थोऽभिधीयते। समयत एकीभावेन स्वगुणपर्यायात् गच्छतीति निरुक्ते । =समय शब्दसे सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्तिके अनुसार 'समयते' अर्थात् एकीभावसे अपने गुणपर्यायोंको प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय है। (स सा, ता वृ/१५१/२१४/१३)

स, सा/ता वृ/१५१/२१४/१३ समयगय सशयादिरहितो बोधो ज्ञानं यस्य भवति स समय अथवा समित्येकत्वेन परमसमरसीभावेन स्वकीयशुद्धस्वरूपे अयन गमन परिणमन समय । = 'सम्यगय' अर्थात् सशय आदि रहित ज्ञान जिसका होता है ऐसा जीव समय है। अथवा एकीभावरूपसे परमसमरसी भाव स्वरूप अपने शुद्ध स्वरूपमें गमन करना, परिणमन करना सो समय है।

स सा/प जयचन्द्र/२ 'सम उपसर्ग है, जिसका अर्थ 'एक साथ' है और 'अय गतौ' धातु है, जिसका अर्थ गमन और ज्ञान भी है, इसलिए एक साथ ही जानना और परिणमन करना, यह दोनों क्रियाएँ जिसमें हों वह समय है। यह जीव नामक पदार्थ एक ही समयमें परिणमन भी करता है और जानता भी है इसलिए वह समय है।

३ पदार्थसमूहके अर्थमें

प का, मू/३ समवाओ पचण्ह समउ त्ति जिणुत्तमेहि पणत्तं । =पाँच अस्तिकायका समभावपूर्वक निरूपण अथवा उनका समवाय वह समय है।

दे, समय/१/२ समय शब्दसे सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं।

४. सिद्धान्तके अर्थमें

स्या, म, ३०/३३५/१२ सम्यक् एति गच्छति शब्दोऽर्थमनेन इति "पुत्राम्नि च" समयसकेत । यद्वा सम्यग् अवैपरीत्येन ईयन्ते ज्ञायन्ते जीवाजीवाद्योऽथवा अनेन इति समय सिद्धान्त । अथवा सम्यग् अयन्ते गच्छन्ति जीवाद्य पदार्था स्वरूपे प्रतिष्ठा प्राप्नुवन्ति अस्मिन् इति समय आगम । उत्पादव्ययधौव्यप्रपञ्च समय । = जिससे शब्दका अर्थ ठीक-ठीक माखूम हो सो समय है अर्थात् संकेत । यहाँ सम-इ धातुसे 'पुत्राम्नि च.' इस सूत्रसे समय शब्द बनता है । अथवा जिससे जीव, अजीव आदि पदार्थोंका भले प्रकारसे ज्ञान हो ऐसा सिद्धान्त समय है । अथवा जिसमें जीव आदिक पदार्थोंका ठीक-ठीक वर्णन हो ऐसा आगम समय है । अथवा उत्पाद व्यय और धौव्यके सिद्धान्तको समय कहते हैं ।

५ सामायिकके अर्थमें

दे. सामायिक/३/१/२ ज्ञानी पुरुष सुटो वा वस्त्र बाँधनेको, पलाठी मारने आदिको अथवा सामायिक करने योग्य समयको जानते हैं ।

२ शब्द अर्थ व ज्ञान समय

प का/त प्र/३ तत्र च पञ्चानामस्तिकायाना समो मध्यस्थो रागद्वेषाभ्यनुपहतो वर्णपदवाक्यसनिवेशविशिष्ट पाठो वाद शब्दसमय शब्दागम इति यावत् । तेषामेव मिथ्यादर्शनोदयोच्छेदे सति सम्यग्वाय परिच्छेदो ज्ञानसमयो ज्ञानागम इति यावत् । तेषामेवाभिधानप्रत्ययपरिच्छिन्नज्ञानां वस्तुरूपेण समवाय सघातोऽर्थसमय सर्वपदार्थार्थ इति यावत् । = सम अर्थात् मध्यस्थ यानी जो रागद्वेषसे विकृत नहीं हुआ, वाद अर्थात् वर्ण पद और वाक्यके समूहवाला पाठ । पाँच अस्तिकायका 'समवाय' अर्थात् मध्यस्थ पाठ वह शब्दसमय है अर्थात् शब्दागम वह शब्द समय है । मिथ्यादर्शनके उदयका नाश होनेपर, उस पचास्तिकायका ही सम्यग् अवाय अर्थात् सम्प्रज्ञान वह ज्ञान समय है अर्थात् ज्ञानागम वह ज्ञान समय है । कथनके निमित्तसे ज्ञात हुए उस पचास्तिकायका ही वस्तु रूपसे समवाय अर्थात् समूह वह अर्थसमय है ।

३ स्व व परसमय

र सा./सू/१४७ बहिरतरप्पभेय परसमय भण्णए जिणिदेहि । परम्पो सगसमय तव्भेय जाण गुणठाणे । १४७। = जिनेन्द्र देवने बहिरात्मा, अन्तरात्माको परसमय बतलाया है । तथा परमात्माको स्वसमय बतलाया है । इनके विशेष भेद गुणस्थानकी अपेक्षा समझने चाहिए ।

दे मिथ्यादृष्टि/१/१ मिथ्यादृष्टि परसमय रत है ।
स सा./सू/२ जीवो चरित्तदंसणणाण्डित्त त हि ससमय जाण । पुगलकम्मपदेसद्विय च त जाण परसमय । २। = हे भव्य, जो जीव दर्शन ज्ञान, चारित्र्यमें स्थित हो रहा है वह निश्चयसे स्वसमय जानो और जीव पुद्गल कर्मके प्रवेशोंमें स्थित है उसे परसमय जानो ।

प्र सा./सू/६४ जे पञ्जयेष्ठ गिरदा जीवा परसमयिग त्ति णिहिदुठा । आदसहावन्मि ठिदा ते सगसमया मुणेदव्वा । = जो जीव पर्यायोंमें लीन है उन्हें परसमय कहा गया है (प्र सा./सू/६३) जो आत्मस्वभावमें लीन है वे स्वसमय जानने ।

प. का./सू/१५५ जीवो सहावणियदो अणियदगुणपज्जओघपरसमओ । जदि कुणदि मग् समय पव्वस्सदि कम्मवधादो । = जीव (द्रव्य अपेक्षासे) स्वभाव नियत होनेपर भी, यदि अनियत गुणपर्यायवाला हो तो परसमय है । यदि वह (नियत गुणपर्यायसे परिणत होकर) स्वसमयको करता है तो कर्मबन्ध करता है ।

प. का./सू व ता. वृ/१६५ उत्थानिका—सूक्ष्मपरसमयरूपपाग्व्यान-मेतत् । = अण्णाणवो णाणी जदि मण्णदि सुद्धसपआगादो । हजदि त्ति हुक्कमोक्कय परसमयरदो हवदि जीवो । १६५। कश्चित्पुरुषो निर्विकारशुद्धात्मभावनालक्षणे परमोपेक्षा समयसे स्थातुभीहते तत्रा-शक्त सद् कामक्राधाद्यशुद्धपरिणामरञ्जनार्थं गसारास्थित्तिछेदनार्थं वा यदा पञ्चपरमेष्ठिषु गुणस्तवनभक्तिं करोति तदा सूक्ष्मपरसमय-परिणत सद् सरागमस्यगृष्टिर्भवतीति, यदि पुन शुद्धारमभावना-समथोऽपि तां त्यज्जवा शुभोपयोगादेव मोक्षो भवतीत्येवन्तेन मन्यते तदा स्थूलपरसमयपरिणामेनाज्ञानी मिथ्यादृष्टिर्भवति । तत स्थित अज्ञानेन जीवो नश्यतीति । = यह सूक्ष्म परसमयके स्वरूपका कथन है । शुद्धप्रयोगसे दुख मोक्ष होता है ऐसा यदि अज्ञानके कारण ज्ञानी माने ता वह परसमयरत जीव है । १६५। कोई पुरुष निर्विकार शुद्धात्म भावना है लक्षण जिसका ऐसे परमोपेक्षा समयमें स्थित होनेकी इच्छा करता है परन्तु अशक्त होता हुआ, जब काम-क्राधादि अशुद्ध परिणामोंसे बचनेके लिए तथा ससार स्थितिके विनाशके लिए पंचपरमेष्ठिके गुणस्तवन आदि रूप भक्ति करता है, तब सूक्ष्म परसमयसे परिणत होता हुआ सराग सम्यगृष्टि होता है । और यदि शुद्धात्म भावनामें समर्थ होनेपर भी उमको छाड कर, शुभोपयोगसे ही मोक्ष होता है ऐसा मानता है, तब वह स्थूल परसमय रूप परिणामसे अज्ञानी व मिथ्यादृष्टि होता है । तब अज्ञानसे जीवका नाश होता है ।

* परसमय निर्देश

समयप्रवद्ध—१ समयप्रवद्ध सामान्य

ध. १२/८.२.१४.२/४७०/७ समये प्रवध्यत इति समयप्रवद्ध । = एक समयमें जो बाँधा जाता है वह समय-प्रवद्ध है ।

गो जी/जी प्र/२४५/५०६/४ समये समयेन वा प्रवध्यतेस्म कर्म-नोक्मरूपतया आत्मना सवध्यते स्म य पुद्गलस्वन्ध स समय-प्रवद्ध । = जो समय-समयमें कर्म-नोक्मरूप पुद्गल स्वन्धोंका आत्मसे सम्बन्ध किया जाता है वह समय प्रवद्ध है ।

२. समयप्रवद्ध विशेष

कर्म-नोक्मरूप समयप्रवद्ध

गो जी/जी प्र/२४५/५०६/४ सिद्धान्तैकभागामव्यारारयनन्तप्रमितानन्तप्रमितानन्तवर्णणाभिर्नियमेनैकसमयप्रवद्धो भवति ।

गो जी/जी प्र/२४६/५१०/११ सर्वत स्तोक् औदारिकसमयप्रवद्ध । तत श्रेण्यसत्त्वैयभागगुणितपरमाणुप्रमितो वैक्रियकशरीर-समयप्रवद्ध । तत मरुथेयभागगुणितपरमाणुप्रमित आहारकशरीर-समयप्रवद्ध । अग्ने तेजसशरीरसमयप्रवद्धोऽनन्तगुणपरमाणु-प्रमित । = १ सिद्धोके अनन्तवे भाग तथा जम्बुयोसे अनन्तगुणे ऐसे मध्य अनन्तानन्त प्रमाण वर्णणाओसे नियमसे एक समयप्रवद्ध होता है । २. औदारिक शरीरका समयप्रवद्ध सबसे कम है । इससे श्रेणीके असत्त्वात्तवे भाग गुणित परमाणु प्रमाण समयप्रवद्ध वैक्रियक शरीरका है । और उससे भी श्रेणीके असत्त्वात्तवे भागसे गुणित परमाणु प्रमाण समय-प्रवद्ध आहारक शरीरका है । इन्ने जागे तैजस व कामण शरीरका समयप्रवद्ध क्रमज अनन्तगुणा अनन्तगुणा है ।

२ नवक समयप्रवद्ध

गो क/भाधा/५१४/६०३/१ जिनका बन्ध भये थोडा काल भया, नक्रमणादि कने योग्य जे निषेक न भये ऐसे नूतन समयप्रवद्धके निषेक तिनका नाम नवकसमय प्रादे है ।

समयभूषण—आ इन्द्रनन्दि (ई श. १०-११) की रचना ।

समय सत्य—वे सत्य/१।

समयसार—१ समयसार सामान्यका लक्षण

न च वृ/३५५ सामर्ण्य परिणामो जीवसहाव च परमसम्भाव । उभेयं
गुणं परम तद्देव तच्च समयसार ।३५५। —सामान्य, परिणामो,
जीवस्वभाव, परमस्वभाव, ध्येय, गुण, परम तथा तत्त्व ये सब समय-
सारके अपर नाम है ।३५५।

२ कारण-कार्य समयसार निर्देश

न च वृ/३६०-३६२ कारणकज्जसहाव समय काऊण हीह उक्तायव्य ।
कज्ज सुद्धसरुव कारणभूद तु साहण तस्स ।३६०। सुद्धो कम्मखयादो
कारणसमओ हु जीव सन्भावो । खय पुणु सहावभाणे तहया त कार्ण
केय ।३६१। किरियातीदो सत्थो अणतणाणाइस जुतो अप्पा । तह
मज्जत्थो सुद्धो कज्जमहावो हवे समओ ।३६२। —कारण व कार्य
समयसारको जानकर ध्यान करना चाहिए । कार्य समयसार
शुद्धस्वरूप है तथा कारण समयसार उसका साधन है ।३६०। शुद्ध
तथा कर्मके क्षयसे कार्य समयसार होता है । कारणसमयसार
जीवका स्वभाव है, स्वभावके ध्यान करनेसे कर्मका क्षय होता है ।
इसलिए कारणसमयसारका ध्यान करना चाहिए ।३६१। क्रियातीत,
प्रशस्त, अनन्त ज्ञानादिसे सयुक्त मध्यस्थ तथा शुद्ध आत्मा, कार्य-
समयसार है । वही स्वभाव तथा समय है ।

प्र सा/ता वृ/६५/१२४/१६ शुद्धात्मरूपपरिच्छिन्ननिश्चलानुभूति-
रूपकारणसमयसारपर्यायस्य विनाशे सति शुद्धात्मोपलम्भव्याप्ति-
रूपकार्यसमयसारस्योत्पाद । —शुद्धात्मा रूप परिच्छिन्न, उस ही
को निश्चल अनुभूति रूप जो कार्य समयसार पर्याय, उसका विनाश
होनेपर, शुद्धात्मोपलब्धि की व्यक्तिकरूप कार्यसमयसारका उत्पाद है ।
प्र स/टी/१२/६४/५ केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपेण कार्यसमयसारस्योत्पादो
निर्विकल्पसमाधिरूपकारणसमयसारस्य विनाश । —केवलज्ञानादि-
की प्रगटता रूप कार्यसमयसारका उत्पाद होता है उसी समय निर्वि-
कल्प ध्यान रूप जो कारणसमयसार है उसका विनाश होता है ।

द्र स/टी/३७/१५४/६ निश्चयस्वरूपकारणसमयसाररूपो •
आत्मन परिणाम चतुष्टयकर्मणो य क्षयरेतुरिति । —निश्चय
स्वरूपकारणसमयसाररूप आत्म परिणाम चारवातिया-
कर्मके नाशका कारण है ।

३ कारण-कार्य समयसारके उदाहरण

न च वृ/३६८ चूलिका—सकलसमयसारार्थ परिगृह्य पराश्रितोपादेय-
वाच्यवाचकरूप पञ्चपदाश्रित श्रुत कारणसमयसार । भावनमस्कार
रूप कार्यसमयसार । तदाधारेण चतुर्विधधर्मध्यान कारणसमयसार ।
तदनन्तर प्रथमशुक्लध्यान द्विचरवारिशभेदरूप पराश्रित कार्य-
समयसार । तदाश्रितभेदज्ञान कारणसमयसार । तदाधारीभूत
परान्मुखाकारस्ववेदनभेदरूप कार्यसमयसार । स्वाश्रितस्वरूप-
निरूपक भावनिराकाररूप सम्यग्द्रव्यश्रुत कारणसमयसार । तदेक-
देशसमर्थो भावश्रुत कार्यसमयसार । तत स्वाश्रितोपादेयभेदस्वरूप
कारणसमयसार । तपामेकत्वावस्था कार्यसमयसार तत रवाश्रित-
धर्मध्यान कारणसमयसार । तत प्रथमशुक्लध्यान कार्यसमयसार ।
ततो द्वितीयशुक्लध्यानाभिधानक क्षीणकषायस्य द्विचरमसमयपर्यन्तं
कार्यपरम्परा कारणसमयसार । एवमप्रमत्तादि क्षीणकषायपर्यन्तं समय
समय प्रति कारणकार्यरूप ज्ञातव्यम् । —आगमके आधारपर सकल
समयसारके अर्थको ग्रहण करके, पराश्रितरूपसे उपादेयभूत तथा
वाच्यवाचक रूपसे भेदको प्राप्त पञ्चपरमेष्ठिके वाचक शब्दोंके आश्रित

जो श्रुतज्ञान होता है वह कारणसमयसार है और भाव नमस्कार कार्य-
समयसार है । उसके आधारसे होनेवाला चार प्रकारका धर्मध्यान
कारणसमयसार है, तथा तदनन्तर उत्पन्न होनेवाला भयानीस भेद-
रूप (व्यतीस व्यंजनोंमें समाहित करनेवाला), पराश्रित प्रथम
शुक्लध्यान कार्यसमयसार है । स्वाश्रित स्वरूपका निरूपक, निगकार
तथा भावात्मक, सम्यग् द्रव्यश्रुत कारणसमयसार है, तथा उसके
उत्पन्न एकदेशसमर्थ भावश्रुत कार्यसमयसार है । उसके आगे स्वाश्रित-
रूपसे उपादेय भेदस्वरूप कारणसमयसार है और उस स्वरूपमें
एतात्मक अवस्था कार्यसमयसार है । उसके आगे स्वाश्रित धर्मध्यान
कारणसमयसार है और उसमें होनेवाला भावात्मक प्रथम शुक्लध्यान
कार्यसमयसार है । उसके आगे द्वितीय शुक्लध्यान मज्ञाको प्राप्त जो
क्षीणकषाय गुणस्थानका द्विचरम समय, तहाँ पर्यन्त कार्य-परम्परागत
कारणसमयसार है । इस प्रकार अग्रमत्त गुणस्थानकी आदि नेत्र क्षीण
कषाय गुणस्था पर्यन्त समय समय प्रति कारणकार्य रूप जानना
चाहिए । (अर्थात् पूर्वपूर्वके भाव कारण समयसार है और उत्तर
उत्तरके भाव कार्यसमयसार ।)

समयसार—आ कुन्दमुद्र (ई १००-१०६) कृत महात्र आध्यात्मिक
कृति । इसमें ४१५ प्राकृत गाथाएँ निम्न हैं । इस पर निम्न टीकाएँ
उपलब्ध हैं—१ आ जम्बूतन्त्र (ई १६२-१०५५) कृत आत्म-
ख्याति । २ आ जयनेन (ई १२२-१३२३) कृत सारपर्यम्पत्ति ।
३ पं जगच्चन्द्र टाडडा (ई १८००) कृत भाषावचनिका जो उन्होंने
आत्मव्याप्तिके आधारपर लिखी है ।

समयसार नाटक—प बनारसीदास (ई १६२६) की अद्वितीय
आध्यात्मिक रचना है । इसमें १५ अधिकांश और ६१६ पद हैं । यह
ग्रन्थ समयसारकी आत्मख्याति टीकाके बनशोक आधारपर लिखा
गया है । इसपर प. सदासुरदास (ई. १७६३-१८६३) ने एक टीका
भी लिखी है ।

समवदान—३ कर्म/१।

समवसरण—अष्टत भगवान्के उपदेश देनेकी सभाका नाम समव-
सरण है, जहाँ बैठ कर त्रियैक मनुष्य व देव—पुरुष व त्रियाँ सब
उनकी अमृतवाणीसे कर्ण गुप्त करते हैं । इसकी रचना विशेष प्रकारसे
देव लोग करते हैं । इसकी प्रथम मात भूमियोंमें यज्ञी आकर्षक रचनाएँ,
नाट्यशालाएँ, पुष्प वाटिकाएँ, वाणियाँ, चैत्य वृक्ष आदि होते हैं ।
मिथ्यादृष्टि अव्ययजन अधिकतर इसीके देखनेमें ललभ जाते हैं ।
अत्यन्त भावुक व श्रद्धालु व्यक्ति ही अष्टमभूमिमें प्रवेशकर साक्षात्
भगवान्के दर्शनोत्ते तथा उनकी अमृतवाणीसे नेत्र, कान व जीवन
सफल करते हैं ।

१. समवसरण का लक्षण

म प्र/३३/७३ ममेर्यावसरारवेक्षास्तिष्ठन्त्यस्मिन् सुरासुरा । इति तज्जै-
निरुपत तरसरण समवादिक् ७३। —इसमें समस्त सुर और असुर
आकर दिव्यध्वनिके अवसरकी प्रतीक्षा करते हुए बैठते हैं, इसलिए
जानकार गणधरादि देवोंने इसका समवसरण ऐसा सार्थक नाम
बना है ।७३।

**२ समवसरणमें अन्य केवली आदिके उपदेश देनेका
स्थान**

ह प्र/५७/६-६६ तत स्तम्भसहस्रस्थो मण्डपोऽस्ति महोदय । नाम्ना
मूर्तिमतिर्यत्र वर्तते श्रुतदेवता ।६६। तां वृत्वा दत्ते भागे धीरैर्बहु-

श्रुते च त । श्रुत व्याकुण्ठे यत्र प्रापस श्रुतकेवनी । ८७ । तदर्धमाना-
श्चत्वारस्तत्परीवारमण्डपा । आक्षेपण्यादयो येषु कथ्यन्ते कथकै
कथा । ८८ । तत्प्रकीर्णकवासेषु चित्रेष्वाचक्षते स्फुटम् । ऋषय स्वष्ट्र-
मर्थिम्य केवहादिमहर्ष्य य । ८९ । = [भवनभूमि नामनी सप्तम
भूमिमें स्तूपोंसे आगे एक पताका लगी हुई है] उसके आगे १०००
खम्भोपर खडा हुआ महोदय नामका मण्डप है, जिसमें मूर्तिमती
श्रुतदेवता विद्यमान रहती है । ८६ । उस श्रुतदेवताको दाहिने भागमें
करके बहुश्रुतके धारक अनेक धीर वीर मुनियोंसे घिरे श्रुतकेवली
कल्याणकारी श्रुतका व्याख्यान करते हैं । ८७ । महोदय मण्डपसे आगे
विस्तारवाले चार परिवार मण्डप और हैं, जिनमें कथा कहनेवाले
पुरुष आक्षेपिणी आदि कथाएँ कहते रहते हैं । ८८ । इन मण्डपोंके
समीपमें नाना प्रकारके फुटकर स्थान भी बने रहते हैं, जिनमें बैठकर
केवलज्ञान आदि महाश्रुद्धियोंके धारक ऋषि इच्छुकजनोंके लिए
उनकी इष्ट वस्तुओंका निरूपण करते हैं । ८९ । (हरियेण कृत कथा-
कोष । कथा न ६०/श्लो १५५-१६०)

३. मिथ्यादृष्टि अभव्य जन श्रीमण्डपके भीतर नहीं जाते

ति प ४/१३२ मिच्छादृष्टिअभव्वा तेसुमसण्णी ण होंति कइआइ । तह
य अणज्जभवसाया सद्विद्धा विविहविबरीदा । १३३ । = इन (वारह)
कोठोंमें मिथ्यादृष्टि, अभव्य और असह्यो जीव कदापि नहीं होते
तथा अनध्यवसायसे युक्त, सन्देशसे सयुक्त और विविध प्रकारकी
विपरीतताओंसे सहित जीव भी नहीं होते हैं । १३२ ।

ह पु. १७/१०४ भव्यकूटाव्यया स्तूपा भास्वकूटास्ततोऽपरे । यानभव्या
न पश्यन्ति प्रभावान्धीकृतेक्षणा । १०४ । = [सप्तभूमिमें अनेक स्तूप
हैं । उनमें सर्वार्थसिद्धि नामके अनेकों स्तूप हैं ।] उनके आगे देदी-
प्यमान शिखरोंसे युक्त भव्यकूट नामके स्तूप रहते हैं, जिन्हें अभव्य
जीव नहीं देख पाते । क्योंकि उनके प्रभावसे उनके नेत्र अन्धे हो
जाते हैं । १०४ ।

४ समवसरणका माहात्म्य

ति प ४/१२६-१३३ जिणवदणापयहा पव्वासाखेज्जभागपरिमाणा ।
चेट्ठंति विविहजीवा एकेकेके समवसरणेसु । १२६ । कोट्टाण खेत्तादो
जीवखेत फल असखणुण । होट्टण अपुट्टंति हु जिणमाहप्पेण
गच्छति । १२७ । सखेज्जजोयणाणि बालप्पहुदी पव्वेसणिग्गमणे ।
अतोयुहुत्तंहाले जिणमाहप्पेण गच्छति । १२८ । आतकरोगमरणु-
प्पत्तीओ वेरकामवाधाओ । तण्हा छहपोडाओ जिणमाहप्पेण ण हवति
। १२९ । = एक-एक समवसरणमें पश्यके असख्यातवें भागप्रमाण
विविध प्रकारके जीव जिनदेवकी वन्दनामें प्रवृत्त होते हुए स्थित
रहते हैं । १२६ । कोठोंके क्षेत्रसे यद्यपि जीवोंका क्षेत्रफल असख्यातगुणा
है, तथापि वे सब जीव जिनदेवके माहात्म्यसे एक दूसरेसे अपृष्ट रहते
हैं । १२७ । जिनभगवात्के माहात्म्यसे बालकप्रभृति जीव प्रवेश करने
अथवा निकलनेमें अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर सख्यातयोजन चले जाते
हैं । १२८ । इसके अतिरिक्त वर्षोंपर जिनभगवात्के माहात्म्यके आतक,
रोग, मरण, उत्पत्ति, वैर, कामबाधा तथा तृष्णा (पिपासा) और
क्षुपाकी पीड़ाएँ नहीं होती हैं । १२९ ।

५. समवसरण देव कृत होता है

ति प ४/७१० ताहे सक्काणाए जिणाण सयलाण समवसरणाणि ।
विक्रियाए धणदो विरएदि विचित्तस्सेहिं । ७१० । = सौधर्म इन्द्र-
की आज्ञासे कुचेर विक्रियाके द्वारा सम्पूर्ण तीर्थकरोंके समवसरणको
विचित्र रूपसे रचता है । ७१० ।

६. समवसरणका स्वरूप

ति. प ४/गा का भावार्थ—१ समवसरणके स्वरूपमें ३१ अधिकार हैं—
सामान्य भूमि, सोपान, विन्धास, वीथी, धूलिशाल, (प्रथमकोट)
चैत्यप्रासाद भूमियाँ, नृत्यशाला, मानस्तम्भ, वेदी, खातिकाभूमि,
वेदी, लताभूमि, साल (द्वि कोट), उपवनभूमि, नृत्यशाला, वेदी,
ध्वजभूमि, साल (तृतीय-कोट), कल्पभूमि, नृत्यशाला, वेदी, भवन-
भूमि, स्तूप, साल (चतु कोट), श्रीमण्डप, ऋषि आदि गण, वेदी,
पीठ, द्वि-पीठ, तृतीय पीठ, और गन्धकुटी १७१२-७१५ । २ समव-
सरणकी सामान्य भूमि गोल होती है । ७१६ । ३ उसकी प्रत्येक
दिशामें आकाशमें स्थित बीस-बीस हजार सोपान (सोढियाँ) हैं
। ७२० । ४, इसमें चार कोट, पाँच वेदियाँ, इनके बीचमें आठ भूमियाँ,
और सर्वत्र अन्तर भागमें तीन-तीन पीठ होते हैं । यह उसका
विन्धास (कोटों आदिका सामान्य निर्देश) है । ७२३ ।
(दे, चित्र स १ पृष्ठ ३३४) ५ प्रत्येक दिशामें सोपानोंसे लेकर
अष्ट भूमिके भीतर गन्धकुटीकी प्रथम पीठ तक, एक-एक वीथी
(सडक) होती है । ७२४ । वीथियोंके दोनों याजुओमें वीथियों
जितनी ही लम्बी दो वेदियाँ होती हैं । ७२५ । आठो भूमियोंके
मूलमें बहुतसे तोरणद्वार होते हैं । ७३१ । ६ सर्वप्रथम धूलिशाल
नामक प्रथम कोट है । ७३३ । इसकी चारों दिशाओंमें चार तोरण
द्वार हैं । (७३४) । (दे, चित्र स २ पृष्ठ ३३४) प्रत्येक गोपुर
(द्वार)के बाहर मगल द्रव्य नवनिधिव धूप घट आदि युक्त पुतलियाँ
स्थित हैं । ७३७ । प्रत्येक द्वारके मध्य दोनों याजुओमें एक-एक
नाट्यशाला है । ७४३ । (दे चित्र स ३ पृष्ठ ३३४) ज्यातिपदेव इन
द्वारोंकी रक्षा करते हैं । ७४४ । ७ धूलिसाल कोटके भीतर चैत्य
प्रासाद भूमियाँ हैं (विशेष दे वृक्ष) । ७५१ । जहाँ पाँच-पाँच प्रासादो-
के अन्तरालसे एक एक चैत्यालय स्थित हैं । ७५२ । इस भूमिके
भीतर पूर्वोक्त चार वीथियोंके पार्वभागोंमें नाट्यशालाएँ हैं । ७५६ ।
जिनमें ३२ रगभूमियाँ हैं । प्रत्येक रगभूमिमें ३२ भवनवासी
कन्याएँ नृत्य करती हैं । ७५८-७५९ । ८ प्रथम (चैत्यप्रासाद)
भूमिके बहुमध्य भागमें चारों वीथियोंके बीचोबीच गोल
मानस्तम्भ भूमि है । ७६१ । (विशेष दे मानस्तम्भ । चित्र स ४
पृष्ठ ३३४) ९, इस प्रथम चैत्यप्रासादभूमिसे आगे, प्रथम वेदी है,
जिसका सम्पूर्ण कथन धूलिशालकोट वत् जानना । ७६२-७६३ । १०
इस वेदीसे आगे खातिका भूमि है । ७६५ । जिसमें जलसे पूर्ण
खातिकाएँ हैं । ७६६ । ११ इससे आगे पूर्व वेदिका सदृश ही
द्वितीय वेदिका है । ७६९ । १२ इसके आगे लताभूमि है, जो
अनेका क्रोडा पर्वतों व वापिकाओं आदिसे शोभित है । ८००-८०१ ।
१३ इसके आगे दूसरा कोट है, जिसका वर्णन धूलिसालवत् है,
परन्तु यह यक्षदेवोंसे रक्षित है । ८०२ । १४, इसके आगे उपवन
नामकी चौथी भूमि है । ८०३ । जो अनेक प्रकारके वनों, वापिकाओं
व चैत्य वृक्षोंसे शोभित है । ८०४-८०५ । १५ सब वनाके आश्रित
सब वीथियोंके दोनों पार्श्व भागोंमें दो दो (कुल १६) नाट्यशालाएँ
होती हैं । आदिवाली आठमें भवनवामी देवकन्याएँ और आगे
की आठमें कल्पवासी देवकन्याएँ नृत्य करती हैं । ८१५-८१६ ।
१६ इसके पूर्वसदृश ही तीसरी वेदी है जो यक्षदेवोंसे रक्षित
है । ८१७ । १७ इसके आगे ध्वज-भूमि है, जिसकी प्रत्येक दिशामें
सिंह, गज आदि दस चिहोंसे चिह्नित ध्वजाएँ हैं । प्रत्येक चिह्न-
वाली ध्वजाएँ १०८ हैं । और प्रत्येक ध्वजा अन्य १०८ क्षुद्रध्वजाओं-
से युक्त है । कुल ध्वजाएँ = (१० × १०० × ४) + (१० × १०० × १०० ×
४) = ४७००००/८२० । १८ इसके आगे तृतीय कोट है जिसका
समस्त वर्णन धूलिसाल कोटके सदृश है । ८२७ । १९ इनके आगे
छठी कल्पभूमि है । ८२८ । जो दस प्रकारके कल्पवृक्षोंमें तथा जनेरों
वापिकाओं, प्रासादों, सिद्धार्थ वृक्षों (चैत्यवृक्षों) से शोभित है । ८२९-

२३३। २० कल्पभूमिके दोनों पार्श्वभागोंमें प्रत्येक वीथीके आश्रित चार-चार (कुन १६) नाट्यशालाएँ हैं। १८३८। यहाँ ज्योतिष कन्याएँ नृत्य करती हैं। १८३६। २१. इसके आगे चौथी वेदी है, जो भवनवासी देवों द्वारा रक्षित है। १८७०। २२ इसके आगे भवनभूमियाँ हैं, जिनमें ध्वजा-पताकायुक्त अनेकों भवन हैं। १८४१। २३ इस भवाभूमिके पार्श्वभागोंमें प्रत्येक वीथीके मध्यमें जिनप्रतिमाओयुक्त नौ-नौ स्तूप (कुल ७२ स्तूप) हैं। १८४४। २४ इसके आगे चतुर्थ कोट है जो कल्पवासी देवों द्वारा रक्षित है। १८४८-८४६। २५ इसके आगे अन्तिम श्रीमण्डप भूमि है। १८४२। इसमें कुल १६ वीथियाँ व उनके बीच १२ कोठे हैं। १८५३। २६ पूर्व-दिशाको आदि वरके इन १२ कोठोंमें क्रमसे गणधर आदि मुनि-जन, कल्पवासी देवियाँ, आर्यिकाएँ व श्राविकाएँ, ज्योतिषी देवियाँ, व्यन्तर देवियाँ, भवनवासी देवियाँ, भवनवासीदेव, व्यन्तरदेव, ज्योतिषीदेव, कल्पवासीदेव, मनुष्य व तिर्यच बैठते हैं। १८५७-८६३। २७, इसके आगे पचम वेदी है, जिमका वर्णन चौथे कोटके सट्टा है। १८६४। २८ इसके आगे प्रथम पीठ है, जिस-पर चारह कोठे व चारों वीथियोंके सम्मुख सोलह सोलह भीड़ियाँ हैं। १८६५-८६६। इस पीठपर चारों दिशाओंमें सरपर धर्मचक्र रखे चार यक्षेन्द्र स्थित हैं। १८७०। पूर्वोक्त चारहके वारह गण इस पीठ-पर चढ़कर प्रदक्षिणा देते हैं। १८७३। २९ प्रथम पीठके ऊपर द्वितीय पीठ होता है। १८७५। जिसके चारों दिशाओंमें सोपान है। १८७६। इस पीठपर सिंहा, बैन आदि चिह्नोंवाली ध्वजाएँ हे व अष्टमगल द्रव्य, नवनिधि, धूपघट आदि शोभित हे। १८८०-८८२। ३०, द्वितीय

पीठके ऊपर तीसरी पीठ है। १८८४। जिसके चारों दिशाओंमें आठ-आठ सोपान है। १८८६। ३१ तीसरी पीठके ऊपर एक गन्धकुटी है, जो अनेक ध्वजाओंसे शोभित है। १८८७-८८८। गन्धकुटीके मध्यमें पादपीठ सहित सिंहासन है। १८९३। जिसपर भगवान् चार अगुणके अन्तरासे आकाशमें स्थित है। १८९४। (४, पु ७/१-१६१), (ध०६ /४, १, ५४/१०६-११३), (ग पु /२२/७७-३१२) ।

* मानस्तम्भका स्वरूप व विस्तार—दे मानस्तम्भ ।

* चैत्य वृक्षका स्वरूप व विस्तार—दे वृक्ष ।

(चित्र स, ६, पृष्ठ ३३५)

७ समवसरणका विस्तार

ति प ४/७-१८ अवसर्पिणिए एद भणिद उस्सर्पिणोए विवरोद । धारस जोयणमेत्ता सा सयलविदेहक्काण । ७१८ । = यट जो सामान्य भूमिना प्रमाण कतलाया है (दे आगे सारणी) वह अवसर्पिणी-कालका है । उरसर्पिणी कालमें इससे विपरीत है । विदेह क्षेत्रके सम्पूर्ण तीर्थकरोंके समवसरणकी भूमि धारह योजन प्रमाण ही रहती है। ७१८ । [अवसर्पिणी कालमें जिस प्रकार प्रथम तीर्थसे अन्तिम तीर्थ तप भूमि आदिके विस्तार उत्तरोत्तर कम होते गये हैं उसी प्रकार उरसर्पिणीकालमें वे उत्तरोत्तर बढ़ते होंगे । विदेह क्षेत्रके सभी समवसरणोंमें ये विस्तार प्रथम तीर्थकरके समान जानने ।]

प्रमाण—ति प ४/गाथा स ।

नोट—तीर्थकरोंको ऊँचाईके लिए । दे तीर्थकर/४/३/२ ।


सकेत—यो = योजन, को. = कोश, ध = धनुष, अं. = अगुल ।

नाम	गाथा स	लम्बाई चौडाई या ऊँचाई	प्रथम ऋषभदेवके समवसरणमें	२२ वें नेमिनाथ तक क्रमिक हानि	२३ वें पारवनाथके समवसरणमें	२४ वें वर्धमानके समवसरणमें
सामान्य भूमि	८१६	विस्तार	१२ यो.	२ को.	६/४ यो.	१ यो.
सोपान	७२१	लम्बाई चौडाई व ऊँचाई	२४×२४ यो	२४ यो.	४ टें को	४ टें को
वीथी	७२२		१ हाथ	×	१ हाथ	१ हाथ
	७२४	चौडाई	→	सोपानवत्	←	
	७२५	लम्बाई	५५२ को	२३ को.	४ टें को	४ टें को
वीथीके दोनों बाजुओंमें वेदी	७२६	ऊँचाई	६०० ध	२५० ध	६३५ ध.	१३५ ध
प्रथम कोट	७४६	ऊँचाई	स्व स्व तीर्थकरसे चौगुनी			
तोरण व गोपुर द्वार	७४८	मूलमें विस्तार	२४ टें को	४ टें को	४ टें को	४ टें को
चेर्य व प्रासाद	७४७	ऊँचाई	कोटसे तोरण और उससे गोपुर अधिक-अधिक ऊँचे हैं ।			
	७४३	ऊँचाई	स्व-स्व तीर्थकरसे १२ गुनी			
चेर्यप्रासाद भूमि	७४४	विस्तार	२४ टें यो. ४ टें यो		४ टें यो.	४ टें यो
नाट्यशाला	७४७	ऊँचाई	स्व स्व तीर्थकरसे १२ गुनी			
प्रथम वेदी	७६४	ऊँचाई व विस्तार	→ प्रथम कोटवत्		←	
खासिका भूमि	७६७	विस्तार	→ प्रथम कोटसे दूना ←		←	
द्वि वेदी	७६६	ऊँचाई	→ प्रथम कोटवत् ←		←	
	"	ऊँचाई	→ चैत्यप्रासाद भूमिसे दूना ←		←	
सत्ताभूमि	८०१	विस्तार	प्रथम कोटवत्			
द्वि कोट	८०२	ऊँचाई व विस्तार	प्रथम कोटसे दूना			


नाम	गाथा स	लम्बाई चौड़ाई या ऊँचाई	प्रथम ऋषभदेवके समवसरणमें	२२ वें नेमिनाथ तक क्रमिक हानि	२३ वें पारसनाथके समवतरणमें	२४ वें वर्षमानके समवसरणमें
उपवन भूमि	८१४	ऊँचाई	चैत्यप्रासाद भूमिसे दूना			
उपवनभूमिके भवन	८१३	विस्तार व ऊँचाई	स्व स्व तीर्थकरसे १२ गुनी			
तृतीय वेदी	८१७	विस्तार व ऊँचाई	द्वितीय वेदीवत्			
ध्वज भूमि	८२६	विस्तार	लता भूमिवत्			
ध्वजस्तम्भ	८२१	ऊँचाई	स्व स्व तीर्थकरसे १२ गुना			
	८२२	विस्तार	२६४ अ १९ अ		६५ अ	४६ अ.
तृतीय कोट	८२७	विस्तार व ऊँचाई	द्वितीय कोटवत्			
कल्प भूमि	८२८	विस्तार	ध्वज भूमिवत्			
चतुर्थ वेदी	८४०	विरतार व ऊँचाई	प्रथम वेदीवत्			
भवन भूमि		विस्तार	(कल्पभूमिग्न १)			
भवनभूमिकी भवन पक्तियाँ	८४३	विस्तार	प्रथम वेदीसे ११ गुणा			
स्तूप	८४६	ऊँचाई	चैत्य वृक्षवत् अर्थात्			
			स्व-स्व तीर्थकरसे १२ गुणा			
			(दे वृक्ष)			
चतुर्थ कोट	८५०	विस्तार	३२४ को ३२८ को		६२५ ध	१२७ ध.
श्रीमण्डपके कोठे	८५३	ऊँचाई	स्व स्व तीर्थकरसे १२ गुणी			
	८५४	विस्तार	१२४ को २४४ को		३२४ को	१२५० ध.
पचम वेदी	८६४	विस्तार	चतुर्थ कोट सदृश			
प्रथम पीठ	८६५	ऊँचाई	मानस्तम्भके पीठवत्			
			२४ ध. ३ ध		६ ध.	३ ध
			(दे, मानस्तम्भ)			
	८६७	विस्तार	३४ को. १२ को		३४ को	६ को
	८७१	मेखला	६०० ध २५० ध		६२५ ध	१२५ ध
द्वि पीठ	८७५	ऊँचाई	४ ध ६ ध		६ ध.	३ ध
	८८२	विस्तार	१२० को २६ को		२२४ को	४८ को
	८७७	मेखला	प्रथम पीठवत्			
तृतीय पीठ	८८४	ऊँचाई	द्वितीय पीठवत्			
	८८५	विस्तार	प्रथम पीठसे चौड़ाई			
गन्धकुटी	८८६	विस्तार	६०० ध २५ ध.		१२५ ध.	५० ध
	८६६	ऊँचाई	६०० ध १०० ध		३७५ ध	७५ ध.
सिंहासन	८६४	ऊँचाई	स्व स्व तीर्थकरके योग्य			

८ समवशरणके नकशे- चित्र सं० १

१ सामान्य भूमि-
(दे० समवशरण ६)




३ धूलिसाल कोट व उसजा तोरण द्वार चित्र सं० ३




**२ एक दिशात्मक सामान्य भूमि
(दे० समवशरण | ६)**

चित्र सं० २



४ मानस्तम्भ भूमि:- (ति.प. १४।७६१-७७८)

चित्र सं० ४





६-गन्धकुटी

(ति प १४१८०-८७२)

चित्र सं० ५

धैत्यवृक्ष मूर्ति.- ति प १४१८०५-८१०



समवसरण व्रत—एक वर्ष पर्यन्त प्रत्येक चतुर्दशीको एक उपवास करे। इस प्रकार २४ उपवास करे। तथा “ओ ह्रीं जगदापद्विनाशाय सकलगुणकरण्डाय श्री सर्वज्ञाय अर्हत्परमेष्ठिने नम” इस मन्त्रका विकास जाप करे। (व्रत विधान स / ५५)

समवाय—१. सववाय सम्बन्धका लक्षण

प का /मू./५० समवत्तो समवाओ अपुधव्भूदो य अजुदसिद्धो य। तम्हा दव्वगुणाण अजुदा सिद्धि त्ति णिद्धिदा। =समवर्तीपन वह समवाय है। वही अपृथक्पना और अयुतसिद्धपना है इसलिए द्रव्य और गुणोंकी अयुक्तसिद्धि कही है। (रा. वा./१/१०/२२/५१/३१)

ध. १/१.१.१/१८/१ समवाय-दव्व णाम ज दव्वम्मि समवेद। समवाय-णिमित्त णाम गल-गडा काणो कुडो इच्चवेवमाइ। =जो द्रव्यमें समवेत हो अर्थात् कथंचित तादात्म्य सम्बन्ध रखता हो उसे समवाय द्रव्य कहते हैं। गलगण्ड, काना, कुबडा इत्यादि समवाय निमित्तक नाम हैं।

ध १५/२४/२ को समवाओ। एगत्तेण अनुवसिद्धाण मेलण। =अयुतसिद्ध पदार्थोंका एक रूपसे मिलनेका नाम समवाय है।

स्या म/७/५६/२६ अयुतसिद्धानामाधायधारभूतानामिह प्रत्ययहेतु सम्बन्ध समवाय। =अयुतसिद्ध (एक दूसरेके बिना न रहनेवाले)

आधार्य (पट) और आधार (तंतु) पदार्थोंका इह प्रत्यय हेतु (इन तन्तुओंमें पट है) सबध (वैशेषिक मान्य) समवाय सम्बन्ध है।

* द्रव्यगुण पर्यायके समवाय सम्बन्धका निषेध—

—दे द्रव्य/४।

— २. समवाय पदार्थके अस्तित्व सम्बन्धी तर्क-वितर्क

रा वा /१/१/२३ १६/६/८ स्यान्मतम्—समवायो नामायुतसिद्धलक्षण सम्बन्ध इहेद बुद्धयभिधानप्रवृत्तिहेतु तेनैकत्वमिष नीताना व्यपदेशो भवति। नास्ति तत्परिकल्पित समवाय। कुत। वृत्त्यन्तराभावात्। यथा गुणादीनां पदार्थानां द्रव्ये समवायसम्बन्धाद्भवतिरिष्टा तथा समवाय पदार्थान्तर भूत्वा केन सम्बन्धेन द्रव्यादिषु वर्त्स्यति समवायान्तराभावात्। एक एव हि समवाय। न च सयोगेन वृत्ति युतसिद्धयभावात् युतसिद्धानामप्राप्तिपूर्विका प्राप्तिसयोग। न चान्य सम्बन्धसयोगसमवायविलक्षणोऽस्ति येन समवायस्य द्रव्यादिषु वृत्ति स्यात्। अत समवायिभिरनभिसम्बन्धात् नास्ति। द्रव्यादीनि प्राप्तिमन्ति अतस्तेषा यथा कथाचित प्राप्त्या भवितव्यम्, समवायस्तु प्राप्तिर्न प्राप्तिमाद्, अत प्राप्त्यन्तराभावेऽपि स्वत एव प्राप्नोतीति, तच्च न, कस्मात्। व्यभिचारात्। यथा सयोग प्राप्तिरपि न च प्राप्त्यन्तरेण समवाये वर्तते तथा समवायस्यापि

स्यादिति । यथा प्रदीप प्रदीपान्तरमनपेक्षमाण आत्मान प्रजाश-
यति घटादींश्च, तथा समवाय सम्बन्धान्तरापेक्षमाणान्तरमनश्च
द्रव्यादिषु वृत्तिहेतुद्रव्यादीनां च परस्परत इति, तत्र, कृत । तत्परि-
णामादनन्यत्वसिद्धे । यथा प्रदीप स्वन्क्षणप्रसिद्धो घटादिभ्योऽ-
न्यो नैव समवाय स्वन्क्षणप्रसिद्ध द्रव्यादिभ्योऽस्ति । = प्रश्न—
वैशेषिक समवाय नामका पृथक् पदार्थ मानते है, इससे अपृथक्
सिद्ध पदार्थोंमें 'इह इदम्' यह प्रत्यय हाता है और इसीसे गुण-गुणीमें
अपेक्षकी तरह मान होने लगता है । उत्तर—समवाय नामका पृथक्
पदार्थ भी सिद्ध नहीं होता । क्योंकि—१. जिस प्रकार गुणगुणीमें
समवाय सम्बन्धमें वृत्ति मानी जाती है उसी तरह समवायकी गुण
और गुणीमें किस सम्बन्धसे वृत्ति होगी । समवायान्तरमें ती नहीं,
क्योंकि समवाय पदार्थ एक ही स्वीकार किया गया है । नयोगसे भी
नहीं, क्योंकि वृत्ति पृथक् सिद्ध द्रव्योंमें ही संयोग होता है । यदि
कहा जाय कि—'वृत्ति' कि समवाय 'सम्बन्ध' है अतः उसे स्वसम्ब-
न्धियोंमें रहनेके लिए अन्य सम्बन्धकी आवश्यकता नहीं है गो भी
ठीक नहीं है, क्योंकि संयोगमें व्यभिचार दूषण आता है । संयोग भी
सम्बन्ध है पर उसे स्वसम्बन्धियोंमें समवायसे रहना पड़ता है ।
२ जिस प्रकार दीपक स्व-परप्रकाशी दोनों है उसी प्रकार समवाय
भी अन्य सम्बन्धकी अपेक्षा किये बिना स्वतः ही द्रव्यादिकी परस्पर
वृत्ति करा देगा तथा स्वयं भी उनमें रह जायेगा यह तर्क उचित
नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे समवायको द्रव्यादिकी पर्याय ही
माननी पड़ेगी । दीपकका दृष्टान्त भी उचित नहीं है क्योंकि जैसे
दीपक घटादि प्रकारय पदार्थोंसे भिन्न अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता है
उसी तरह समवायकी द्रव्यादिसे भिन्न अपनी स्वतन्त्रसत्ता नहीं है ।
क पा १/१,१/३३२-३३/४०/१ विसयीकयसमवायपमाणभावाद् । ण
पञ्चस्य अमुत्ते गिरवयवे अहवे इदियसणिकरिसाभावाद् । ण
च 'इहेद' पञ्चपरेज्जसमवायो, तहाविहपञ्चओवलभाभावाद्, आ-
हाराहेयभावेण द्विदकुडवदरेसु चैन तदुजलभाद् । 'इह क्वालसु घडो
इह तत्तुसु पडो' त्ति पञ्चओ वि उच्चज्जमाणो दोसइ त्ति चे, ण,
घडावस्थाए खप्पराण' पडावस्थाए तत्तुण च अणुजलभाद् । णाणु-
माणमपि तग्गाहय, तदविणाभाविलिणाणुवलभाद् । ण च अस्था-
वत्तिगमो समवाओ अणुमाणपुधभूदत्थावत्तीए अभावाद् । ण चागम-
गम्भो, वादि-पडिनादीपसिद्धे गागमाभावाद् । = ३. समवायको विषय
करनेवाला प्रमाण नहीं पाया जाता है । प्रत्यक्ष प्रमाण तो समवाय-
को विषय कर नहीं सकता है, क्योंकि समवाय स्वयं अमूर्त है
निरवयव है और द्रव्य रूप नहीं है, इसलिए उसमें इन्द्रिय सन्निरूप
नहीं हो सकता है । 'इहेदम्' प्रत्ययसे समवायका ग्रहण ही जाता
है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकारका प्रत्यय नहीं
पाया जाता है, यदि पाया भी जाता है तो आधार-आधेय भावसे
स्थित कुण्ड और घेरोंमें ही 'इस कुण्डमें ये घेर है' इस प्रकारका
'इहेदम्' प्रत्यय पाया जाता है, अन्यत्र नहीं । प्रश्न—'इन कपालोंमें
घट है, इन तन्तुओंमें घट है' इस प्रकार भी 'इहेदम्' प्रत्यय उत्पन्न
होता हुआ देखा जाता है । उत्तर—नहीं, क्योंकि घट रूप अवस्थामें
कपालोंकी और पदरूप अवस्थामें तन्तुओंकी उपलब्धि नहीं होती ।
(प्र सा / त प्र / १८८) यदि कहा जाय कि अनुमान प्रमाण समवाय-
का ग्राहक है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि समवायका अधिनाभावी
कोई लिंग नहीं पाया जाता है । यदि कहा जाय कि अर्थापत्ति
प्रमाणसे समवायका ज्ञान हो जाता है, सो भी कहना ठीक नहीं है,
क्योंकि अर्थापत्ति अनुमान प्रमाणसे पृथक्भूत कोई स्वतन्त्र प्रमाण
नहीं है । यदि कहा जाय कि आगम प्रमाणसे समवायका ज्ञान
होता है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिसे वादी और प्रति-
वादी दोनों मानते हैं, ऐसा कोई आगम भी नहीं है ।
क पा १/१,२०/३३२४/४४ तत्र निरये क्रम-यौगपथाभ्यामर्थक्रियावि-
रोधात् । न स क्षणिकोऽपि, तत्र भावाभावाभ्यामर्थक्रियाविरोधात् ।

नान्यद् आगच्छति, तत्परिरत्यक्तादोषकार्याणामगमप्रसङ्गात् । नापरि-
रत्यज्य आगच्छति, निरयवस्यापरिरत्यक्तपूर्वकार्यस्यागमनविरोधात् ।
न समवाय भावयव, अनिरत्यतापत्ते । न गोऽनिरत्य, जनन्या-
भावाम्यां तद्यनुत्पत्तिप्रसङ्गात् । न निरत्य सर्वगतो वा, निष्क्रियस्य
व्याप्तादोषदेशस्यागमनविरोधात् । नासर्वगत समवायव्यवहृतप्रसङ्गात् ।
नान्येनानीयते अनवस्थापत्ते । न कार्योत्पत्तिप्रदेशे प्राप्ति,
संबन्धिभ्यां विना सम्बन्धस्य सत्त्वविरोधात् । न च तत्रोत्पत्ते
निरयवरोत्पत्तिविरोधात् । = ४ [यदि कहा कि वह निरत्य है सो
वह निरत्य भी नहीं है, क्योंकि निरत्य माननेमें] उसमें क्रमसे पथवा
एव साथ अर्थक्रियाके माननेमें विरोध आता है । ५ उर्मा प्रकार
समवाय क्षणिक भी नहीं है, क्योंकि क्षणिक पदार्थमें भाव और
अभाव रूपसे अर्थ क्रियाके माननेमें विरोध आता है । ६ अन्य
क्रियाको छोड़कर उत्पन्न होनेवाले पदार्थमें समवाय आता है, ऐसा
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर समवायके द्वारा
छोड़े गये समस्त कार्योको असत्त्वका प्रसंग प्राप्त होता है ।

क, पा १/१,१/३३/४८/८ ण च अणत्थ मतो आगच्छदि, विरियाए
विरहियस्स आगमणाणुवत्तीटो । ण च समवाओ विरियावत्ता,
अणत्तद्वत्तत्तप्सगादो । = ७ अन्य पदार्थकी नहीं छोड़कर
समवाय आता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो
निरवयव है और जिसने पहलेके कार्यको नहीं छोड़ा है ऐसे समवाय
का आगमन नहीं बन सकता है । = समवायको मायव मानना
भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर उसे अनिरत्यपत्तेकी
प्राप्ति होती है । ८ यदि कहा जाय कि समवाय अनिरत्य होता
है तो हो जाओ सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि समवाय
वादीयोंके मतमें उत्पत्तिका अर्थ स्व कारणमत्ता समवाय माना है ।
अतः समवायनी भी उत्पत्ति दूसरे समवायकी अपेक्षासे होगी और
ऐसा माननेपर अनवस्था दोषका प्रसंग प्राप्त होता है । १० उसकी
उत्पत्ति, स्वतः अर्थात् समवायान्तर् निरपेक्ष मानी जायेगी तो
समवायका अभाव हो जानेसे उसकी उत्पत्ति नहीं बन सकती है ।
११- समवायको निरत्य और सर्वगत कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि
जो क्रिया रहित है और जो समस्त देशमें व्याप्त है उसका आगमन
माननेमें विरोध आता है । १२- यदि असर्वगत माना जाय सो भी
कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर समवायको बहुत्वका
प्रसंग प्राप्त होता है । समवाय अन्यके द्वारा कार्य देशमें लाया जाता
है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर अनवस्था
दोषकी आपत्ति प्राप्त होती है । (क पा १/१,१/३३३/४६/१)
१३ कार्यके उत्पत्ति देशमें समवाय पहलेसे रहता है, ऐसा कहना
भी ठीक नहीं है क्योंकि सम्बन्धियोंके विना सम्बन्धका सत्त्व
माननेमें विरोध आता है । (क. पा १/१,१/३३३/४८/७) १४ कार्यके
उत्पत्ति देशमें समवाय उत्पन्न होता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है,
क्योंकि समवाय अवयव रहित है अर्थात् निरत्य है इसलिए उसकी
उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है । १५ यदि कहा जाय कि समवाय
कार्योत्पत्तिके पहले अन्यत्र रहता है और कार्योत्पत्तिके कालमें वहाँ
आ जाता है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि समवाय स्वयं
क्रिया रहित है । क्रियावाद् माननेपर उसे अनिरत्य द्रव्यत्वका प्रसंग
प्राप्त होता है ।

समवाय द्रव्य—दे द्रव्य/१ ।

समवायि—१ समवाय व असमवायका लक्षण
वैशेषिक द/भापा/१०/२/३०६/७ द्रव्य हीमें गुण और कर्म समवाय
सम्बन्धसे रह सकते है द्रव्यमें ही समवायि कारण होता है ।
वैशेषिक/भापा/१०/२/३/३०६ ही कारण और कार्यके सम्बन्धको एक
हीमें मिला दे वह असमवायी कारण है ।

समवायिनी क्रिया—दे क्रिया/३ ।



समवृत्तस्तूप—Circular Pyramid, (ज. प/प्र १०८)

समवृत्ति—प का /त, प्र /५० द्रव्यगुणानामेकास्तिवनिवृत्तित्वादानादिरनिधना सहवृत्तिहि समवर्तित्वम् । =द्रव्य और गुण एक अस्तित्वसे रचित है, इसलिए उनकी जो अनादि-अनंत सहवृत्ति (एक साथ रहना) वह वास्तवमें समवर्तीपणा है ।

प का /ता वृ /५०/६६/५ समवृत्ति सहवृत्तिगुणगुणिनो, कथंचिदेकत्वेनादितादात्म्यसम्बन्ध इत्यर्थः । =समवृत्तिका अर्थ सहवृत्ति है, अर्थात् गुण-गुणिका एकत्व रूपसे अनादि तादात्म्य सम्बन्ध समवृत्ति है ।

समान्तर श्रेणि—Arithematical Progression

(ज. प./प्र १०८)

समान्तरानीक—Parallelepiped (ज. प./प्र १०८)

समान्तरी गुणोत्तर श्रेणि—Arithematico-geometrical Progression (ज. प./प्र. १०८)

समाचार—१. समाचार सामान्यका लक्षण

मू आ /१२३ समदा समाचारो सम्माचारो समो व आचारो । सर्वेसि हि समाण समाचारो दु आचारो ।१२३। =समता भाव समाचार है, अथवा सम्यक् अर्थात् अतिचार रहित जो मूलगुणोंका आचरण, अथवा समस्त मुनियोंका समान अहिंसादि रूप जो आचरण, अथवा सर्व क्षेत्रोंमें हानिवृद्धि रहित कार्योंसर्गादिकर सदृश परिणामरूप आचरण वह समाचार है ।

न, च वृ /३३८ लोनिगसद्वारहिओ चरणविहूणो तहेव अववादी । विवरीओ खलु तच्चे ब्रज्जेव्वाते समायारे । =जो भ्रमण लौकिक है, भ्रष्टाविहीन है, चारित्र रहित है, अपवादशील है और तत्त्वमें विपरीत है उनके साथ समाचार (ससर्ग) नहीं करना चाहिए । समान आचारवाले साधुके साथ ही साधुको ससर्ग रखना चाहिए ।

२. समाचारके भेद

मू आ /१२४-१२५, १३६, १४४ दुविहो समाचारो ओघो विय पदविभागिओ चैव । दसहा ओघो भणिओ अणेगहा पदविभागी य ।१२४। इच्छामिच्छाकारो तथाकारो य आसिखा णिसिही । आपुच्छा पडिपुच्छा छदण सणिमतणा य उपसपा ।१२५। उवसंपया य जेया पंचविहा जिणवरहे हि णिद्धिटा । विणए खेत्ते मग्गे सुहदुक्खे चैय मुत्ते य ।१३६। उपसपया य मुत्ते तिविहा मुत्तरथतदुभया चैव । एक्केवका वि य तिविहा लोइय वेदे तथा समये ।१४४। =समाचार दो प्रकारका है—औधिक व पदविभागी । औधिकके दश भेद हैं और पदविभागीके अनेक भेद हैं ।१२४। औधिक समाचारके दश भेद हैं—इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार, आसिका, निषेधिका, आपुच्छा, प्रतिपुच्छा, छेदन, सनिमन्त्रणा और उपसयत ।१२५। गुरुजनोंके लिए आत्म-समर्पण करने वाला उपसयत पाँच प्रकारका है—विनयमें, क्षेत्रमें, मार्गमें, मूल-दुखमें, और सूत्रमें कहना चाहिए ।१३६। सूत्रोपसयत तीन प्रकारका है—सूत्र अर्थ व तदुभय । यह एक-एक भी तीन तरहके हैं—लौकिक, वैदिक, व सामायिक ।

३ औधिक व पदविभागी निर्देश

मू, आ /१३०, १४५-१४७ उग्गमसूरुपहुदी समणाहोरत्तमडले कसिणे । ज अच्चरति सदद एसो भणिदो पदविभागी ।१३०। कोइ सव्वसमरथो सगुरुमुद सव्व आगमित्ताण । विणएणुवक्कमित्ता पुच्छइ सगुरु पयत्तेण ।१४५। तुक्क पादपसाएण अण्णमिच्छामि गत्तुमायदण । तिण्णि व पच व छ वा पुच्छाओ एरथ सो कुणइ ।१४६। एव आपुच्छत्ता

सगवरगुरुणा विसज्जिओ संतो । अप्पचउरथो तदिओ विदिओ वासो तदो णोदी ।१४७। =[औधिक समाचारके इच्छाकारादि दश भेद हैं । उनके लक्षण देखो अगला शीर्षक] जिस समय सूर्य उदय होता है, वहाँसे लेकर समस्त दिन रातकी परिपाटीमें मुनि लोग नियमादिकोंको निरन्तर आचरण करें सो यह प्रत्यक्ष रूप पदविभागी समाचार कहा है ।१३०। बौर्य आदिसे समर्थ कोई मुनि अपने गुरुसे सर्व शार्तोंको जानकर विनय सहित प्रणाम करके प्रमाद रहित हुआ गुरुसे पूछे ।१४५। हे गुरु ! मैं तुम्हारे चरण प्रसादसे अन्य आचार्यके पास जाना चाहता हूँ । इस अवसरपर तीन वा पाँच वा छह बार तक पूछना चाहिए, करनेसे उत्साह व विनय माख्म होता है ।१४६। इस प्रकार अपने श्रेष्ठ गुरुसे पूछ कर उनसे आज्ञा लेता हुआ अपने साथ तीन, दो वा एक मुनिको साथ लेकर जावे अकेला न जावे ।१४७। [एकाकी विहारकी विधि व निषेध सम्बन्धी—दे सकल विहारी, विहार]

४. इच्छाकार आदिका विषय

मू आ /१२६-१२८ इट्ठे इच्छाकारो मिच्छाकारो, तहेव अवराधे । पुडि-मुणणहि तहत्ति य णिग्गमणे आसिया भणिया ।१२६। पविसत्ते अ णिसीही आपुच्छणिया सकज्जाआरभे । साधम्मिणा य गुरुणा पुव्व-णिसिट्ठहि पडिपुच्छा ।१२७। छदण गहिदे दव्वे अगिहदव्वे णिम-तणा भणिदा । तुहामहत्ति गुरुकुले आदिणिसग्गे दु उवसपा ।१२८। =शुभ परिणामोंमें हर्ष होना इच्छाकार है । अतिचार होनेरूप अशुभ परिणामोंमें मिथ्या शब्द कहना मिथ्याकार है । सूत्रके अर्थ मुननेमें 'तथेति' कहना तथाकार है । रहनेकी जगहसे पूछकर निकलना आसिका है । स्थान प्रवेशमें पूछकर प्रवेश करना निषेधिका है । पठनादि कार्यमें गुरु आदिकोंसे प्रश्न करना आपुच्छा है । साधर्म अथवा गुरु आदिसे पहले दिये हुए उपकरणोंको पूछकर ग्रहण करना प्रतिपुच्छा है । उपकरणोंको देने वालेके अभिप्रायके अनुकूल रखना सो छन्दन है । तथा अगृहीत द्रव्यकी याचना करना निमन्त्रणा है । और गुरुकुलमें 'मै आपका हूँ' ऐसा कहकर आचरण करना वह उपसयत है ।

५. इच्छाकार आदिका स्वरूप

मू, आ /१३१-१३८ सजमणाणुवकरणे अणुवकरणे च जायणे अण्णे । जोगगहणादीसु अ इच्छाकारो दु कादव्वो ।१३१। जं दुक्कड तु मिच्छा त जेच्छदि दुक्कड पुणो कादु । भावेण य पडिक्कतो तस्स भवे दुक्कडे मिच्छा ।१३२। वायण पडिच्छणाए उवदेसे मुत्तअरथ-कहणाए । अवित्तहेमदत्ति पुणो पडिच्छणाए तथाकारो ।१३३। कदरपुल्लिणगुहादिसु पवेसकाले णिसिद्धिअ कुज्जा । तेहितो णिग्गमणे तथासिया होदि कायव्वा ।१३४। आदावणादिगहणे सण्णा उवभामगा-दिगमणे वा । विणये णायरियादिसु आपुच्छा होदि कायव्वा ।१३५। ज किंचि महाकज्ज करणीय पुच्छिज्जण गुरुआदि । पुणरवि पुच्छदि साधु त जाणसु होदि पडिपुच्छा ।१३६। गहिदुक्ककरणे विणए बंदण-मुत्तत्थपुच्छणादीसु । गणधरवसभादीण अणुत्तिसि छदणिच्छाए ।१३७। गुरुसाहम्मियदव्व पोत्थयमण्णं च गेणिहुदुं इच्छे । तेसि विणयेण पुणो णिमतणा होइ कायव्वा ।१३८। =१ समयके पीछी आदि उपकरणोंमें, ज्ञानके उपकरणोंमें अथवा अन्य भी तपादिके उपकरणोंमें तथा आतापनादि योगोंमें इच्छाकार अर्थात् मनको प्रवर्तना ।१३१। २. जो व्रतादिमें मेरे अतिचार लगा हो वह मिथ्या होवे, ऐसे मिथ्या किये पापोंको फिर करनेको इच्छा न करे, और अन्तरंग भावसे प्रतिक्रमण करता है उसीके दुष्टतमें मिथ्याकार होता है ।१२२। ३. जीवादिकके व्याख्यानका सुनना, सिद्धान्त श्रवण, परम्परासे चला आया उपदेश और सूत्रादिका अर्थ—इनमें जो अहंतने कहा वह सत्य है, ऐसा समझना तथाकार है । ४ & कदर, जलके मध्य प्रदेश

रूप प्रसिद्ध, गुफा, इत्यादि निर्जन्तु स्थानोंमें प्रवेश करनेके समय निषेधिका करे और निकलनेके समय आसिका करे । १३२। ६. आतापनादि ग्रहणमें, आहारादिको इच्छाएँ तथा अन्य ग्रामादिको जानेमें नमस्कार पूर्वक पूछकर उनके अनुसार करना वह आपुच्छा है । १३४-१३६। ७ जो कुछ महान् कार्य करना हो वह गुरु प्रवर्तक स्थिरादिकसे पूछकर करना चाहिए फिर अन्य साधर्मों साधुओंसे पूछना वह प्रतिपुच्छा है । ८ ग्रहण किये हुए पुस्तकादि उपकरणोंमें, विनयके कालमें, बन्दना-सूत्रके अर्थको पूछना इत्यादिकमें आचार्य आदिको इच्छाके अनुकूल वर्तना छन्दन है । १३७। ६ गुरु अथवा साधर्मिके पुस्तक व कण्डल आदिको लेना चाहे तो उनसे नम्रीभूत होकर याचना करे । उसे निमन्त्रणा कहते हैं । १३८। १०. उपसयतका स्वरूप—दे. अगला शीर्षक]

६ उपसंयत सामान्य व विशेषका स्वरूप

श्रु आ / १४०-१४३ पाहुणविणउवचाराो तेसि चावासभूमि सपुच्छा । दाणाणुवत्तगादी विणये उवसपया गेया । १४०। सजमतवगुणसीला जमणियमादी य जल्लि खेतल्लि । बड्हत्ति तल्लि वासो खेत उवसपया गेया । १४१। पाहुणवत्थव्वाण अण्णोण्णामणमणसुहपुच्छा । उवसपदा य मग्गे सजमतवणाणजोगजुत्ताणं । १४२। सुहदुक्खे उवयारो वसहीआहारभेसजादीहिं । तुल्लं अहत्ति वयणं सुहदुक्खुत्तसपया गेया । १४३। —अन्य सघसे आये हुए मुनियोंका अग मर्दन प्रिय वचनरूप विनय करना, आसनादिपर बैठाना, इत्यादि उपचार करना, गुरुके विराजनेका स्थान पूछना, आगमनका रास्ता पूछना, संस्तर, पुस्तकादि उपकरणोंका देना, और उनके अनुकूल आचरण-दिक करना वह विनयोपसयत है । १४०। समय तप व उपशमादि गुण व व्रत रक्षारूप शील तथा यम, नियम, इत्यादिक जिस स्थानमें रहनेसे बढें, उस क्षेत्रमें रहना वह क्षेत्रोपसंयत है । १४१। अपने सघसे आये मुनि, तथा अपने स्थानमें रहने वाले मुनियोंसे आपसमें आने-जानेके विषयमें कृशलाका पूछना वह समय, तप, ज्ञान, योग—गुणोंकर सहित मुनिराजोंके मार्गोपसयत है । १४२। सुख-दुःख युक्त पुरुषोंको वसतिका, आहार, औषध आदिकर उपकार करना, तथा मैं और मेरी वस्तुएं आपकी हैं, ऐसा वचन कहना वह सुखदुःखोपसंयत है । १४३। (सूत्रोपसयतके तीन भेद हैं—सूत्र, अर्थ, तदुभय। इन तीनोंके लौकिक, वैदिक व सामाजिक ये तीन-तीन भेद हैं।—दे. समाचार/२।)

समाचार काल—दे काल/१/४।

समादान क्रिया—दे क्रिया/३।

समादेश—उद्दिष्ट आहारका एक भेद—दे उद्दिष्ट।

समाधान—उत्तम परिणामोंमें चित्तका स्थिर रखना समाधान है।—दे समाधि/१।

समाधि—१. समाधि सामान्यका लक्षण

नि सा./धु/१२२-१२३ वयणोच्चारणक्रिये परिचत्त वीयरायभावेण । जो भायदि अप्पाण परमसमाही हवे तत्स । १२२। सजमणियमतवेण दु धम्मज्जाणेण सुक्कमाणेण । जो भायइ अप्पाण परमसमाही हवे तत्स । १२३। —वचनोच्चारणकी क्रिया परित्याग कर बोधराग भावसे जो आत्माको ध्याता है, उसे समाधि है । १२२। सयम, नियम और तपसे तथा धर्मध्यान और शुक्ल ध्यानसे जो आत्माको ध्याता है, उसे परम समाधि है । १२३।

प प्र/सु/२/१६० सयल-वियप्यह जो विलउ परम-समाहि भणति । तेण सुहासुह-भात्रणा मुणि सयलवि मेव्लति । १६०। —जो समस्त

विकर्षणोंका नाश होना, उसको परमसमाधि कहते हैं, इसीसे मुनिराज समस्त शुभाशुभ विकर्षणोंको छोड़ देते हैं । १६०।

रा. वा/६/१/२२/५०४/२७ युजे समाधिचचनस्य योग समाधि ध्यान-मित्यनर्थान्तरम् । —योगका अर्थ समाधि और ध्यान भी होता है ।

भ. आ/वि./६/७/१६४/८ (समाधि)—समेकीभावे वर्तते तथा च प्रयोग—सगतं तैल सगत घृतमित्यर्थ एकीभूत तैल एकीभूत घृतमित्यर्थ । समाधानं मनस एकाग्रताकरणं शुभोपयोगे शुद्धं वा । —मनको एकाग्र करना, सम शब्दका अर्थ एकरूप करना ऐसा है जैसे घृत सगत हुआ, तैल सगत हुआ इत्यादि । मनको शुभोपयोगमें अथवा शुद्धोपयोगमें एकाग्र करना यह समाधि शब्दका अर्थ समझना ।

म. पु/२१/२२६ यत्सम्यक् परिणामेषु चित्तस्याधानमज्ञसा । स समाधिरिति ह्येय स्मृतिर्वा परमैष्ठिनाम् । २२६। —उत्तम परिणामोंमें जो चित्तका स्थिर रखना है वही यथार्थमें समाधि या समाधान है अथवा पंच परमैष्ठियोंके स्मरणको समाधि कहते हैं ।

दे. उपयोग/II/२/१ साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योगनिरोध, और शुद्धोपयोग ये समाधिके एकार्थवाची नाम हैं ।

दे ध्यान/४/२ ध्येय और ध्याताका एकीकरण रूप समरसी भाव ही समाधि है ।

स स्तो./टी./१६/२६ धर्मं शुक्ल च ध्यानं समाधि । —धर्म और शुक्ल ध्यानको समाधि कहते हैं ।

स्या. म/टी/१७/२२६/१६ बहिरन्तर्ज्वर्यागलक्षण योग स्वरूपे चित्तनिरोधलक्षण समाधि । —बहिर और अन्तर्ज्वरके त्याग स्वरूप योग है । और स्वरूपमें चित्तका निरोध करना समाधि है ।

दे अनुप्रेक्षा/१/११ सम्यग्दर्शनादिको निर्विघ्न अन्य भवमें साथ ले जाना समाधि है ।

२. साधु समाधि भावनाका लक्षण

स. सि/६/२४/३३६/१ यथा भाण्डागारे दहने समुत्थिते तत्प्रशमनमनु-ष्ठोयते बहूपकाररत्नवात्तयानेकमतशीलसमृद्धस्य मुनेस्तपस कृतचित्तस्थे सपुसिधते तत्सधारणं समाधि । —जैसे भाण्डागारमें आग लग जानेपर बहुत उपकारी हीनेसे आगको शान्त किया जाता है, उसी प्रकार अनेक प्रकारके व्रत और शीलोंने समृद्ध मुनिके तप करते हुए किसी कारणसे विघ्नके उत्पन्न होनेपर उसका सधारण करना शान्त करना समाधि है । (रा वा/६/२४/८/५३०/१. (चा. सा./१४/४)।

ध ८/३.४१/८/१ साहूण समाहिसधारणदाए-दसण-णाण-चरित्तेशु-सम्मवद्धान समाही णाम । सम्म साहूण धारण सधारण । समाहीए सधारण समाहिसधारण, तत्स भावो समाहिसधारणदा । ताए तिरथयरणामक्कम्मं वज्जदि त्ति । केण वि कारणेण पदत्ति समाहिं दट्ठुण सम्मादिट्ठी पवयणवच्छलो पवयणप्यहावओ विणयसण्णो सीलवदादिधारवज्जिओ अरहतादिस्सु भत्तो सत्तो जदि धारेदि त समाहिसधारणं । स सहपउ जणादो । —साधुओंकी समाधिसधारणसे तीर्थकर नामकर्म बौध्धता है—दर्शन, ज्ञान व चारित्र्यमें सम्यक् अवस्थानका नाम समाधि है । सम्यक् प्रकारसे धारण या समाधिका नाम सधारण है । समाधिका सधारण समाधिसधारण और उसके भावका नाम समाधिसधारणता है । उससे तीर्थकर नाम-कर्म बौध्धता है । किसी भी कारणसे गिरती हुई समाधिकी देखकर सम्यग्दृष्टि, प्रवचनवत्सल, प्रवचन प्रभावक, विनय सम्पन्न, शील-व्रतादिचार बज्जित और अर्थन्तादिकोंमें भक्तिमाद् होकर वूँ कि उसे धारण करता है इसलिये वह समाधि सधारण है । यह सधारण शब्दमें दिये गये 'स' शब्दसे जाना जाता है ।

भा. पा/टी/७/७/२२१/१ मुनिगणतप सधारण साधुसमाधि । —मुनिगण तपको सम्यक् प्रकारसे धारण करते हैं वह साधु समाधि है ।

३. एक साधु समाधि भावनामें शेष १५ भावनाओंका अन्तर्भाव

घ. ८/३,४१/८/६ ण च एत्थ सेसकारणाभावो, तदस्थितस्स दरिसिद-
त्तादो। एवमेदं नवम कारण । =इस (साधु समाधि सधारणता) में
शेष कारणोंका अभाव नहीं है, क्योंकि उनका अस्तित्व (किसी भी
कारणसे गिरती हुई समाधिको देखकर सम्यग्दृष्टि, प्रवचनवत्सल,
प्रवचन प्रभावक, विनयसम्पन्न, आदि होकर उसे धारण करता है
इसलिए वह समाधिसधारण है—दे, ऊपरवाला शीर्षक। वहाँ
दिलेला ही चुके हैं। इस प्रकार वह तीर्थकार नामकर्म बंधनेका नवम
कारण है।

* अन्य सम्बन्धित विषय

१. निर्विकल्प समाधि व शुक्लध्यानकी एकार्यता । —दे पद्धति ।
२. परम समाधिके अपरनाम । —दे, मोक्षमार्ग/२/५ ।
३. अन्य मत मान्य समाधि ध्यान नहीं है । —दे, प्राणायाम ।
४. एक ही भावनासे तीर्थकार प्रकृतिका बन्ध सम्भव ।
—दे भावना/२ ।

समाधिगुप्त—यह भाविकालीन अठारहवें तीर्थकार है।—दे,
तीर्थकार/५ ।

समाधितन्त्र—इसका दूसरा नाम समाधिशतक भी है। यह ग्रन्थ
आचार्य पूज्यपाद (ई. श. ५) कृत अध्यात्म विषयक १०५ संस्कृत
श्लोकोंमें लिखे हैं। इसपर आ प्रभाचन्द्र (ई १९५६-१९४३) ने
एक संस्कृत टीका लिखी है।

समाधिमरण—दे सल्लेखना ।

समान खंड—जैसे $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{2}{4}$ ।

समानगोल—Sphere, (ज प/प्र. १०८) ।

सामानाधिकरण्य—१ भिन्नप्रवृत्तिनिमित्ताना शब्दानामे-
कस्मिन्नर्थे वृत्ति सामान्याधिकरण्यम् । =भिन्न प्रवृत्तिमें जो निमित्त
है ऐसे विभिन्न शब्दोंकी एक ही अर्थमें वृत्ति होना सामान्याधिकरण्य
है । २. लक्ष्य लक्षणमें सामानाधिकरण्य—दे लक्षण ।

समानुपात सिद्धान्त—Theory of Proportion, (ज, प/
प्र. १०८) ।

समारम्भ—स सि /६/८/३२५/३ साधनसमभ्यासीकरण समा-
रम्भ । =साधनोंका जुटाना समारम्भ है। (रा वा./६/८/३/
५१३/३२)

रा वा /६/८/३/५१३/३२ साध्याया क्रियाया साधनानां समभ्यासी-
करण समाहार समारम्भ इत्याख्यायते । =साध्यके साधनोंका
इकट्ठा करना समारम्भ है। (चा सा./८७/४)

समास—जीव समास—दे जीव समास ।

समाहार—१ रुचकपर्वतनिवासिनी दिवकुमारी देवी ।—दे,
लोक/७ । २ स भ त /१/१० समाहार समूह । =समाहार अर्थात्
समूह ।

समिति—चलने-फिरनेमें, बोलने चालनेमें, आहार ग्रहण करनेमें,
वस्तुओंको उठाने-धरनेमें और मलमूत्र निक्षेपण करनेमें विवेक पूर्वक
संस्कारने प्रवृत्ति करते हुए जीवोंकी रक्षा करना समिति है ।

१	समिति निर्देश
१	समिति सामान्यका लक्षण ।
२	समितिके भेद ।
*	समिति व सामायिक चारित्रमें अन्तर । —दे, सामायिक/४ ।
*	समिति व सूक्ष्म साम्प्रदायमें अन्तर । —दे सूक्ष्मसाम्प्रदाय ।
*	समिति, गुप्ति, व दशधर्ममें अन्तर । —दे गुप्ति/२ ।
*	सयम व समितिमें अन्तर । —दे, सयम/२ ।
*	सयम और विरतिमें समिति सम्बन्धी विशेषता । —दे सयम/२/१ ।
३	ईर्या समिति निर्देश १ ईर्या समितिका लक्षण, २ ईर्यापथ शुद्धिका लक्षण, ३ ईर्या समितिकी विशेषताएँ, ४ ईर्या समितिके अतिचार ।
४	भाषा समिति निर्देश १ भाषा समितिका लक्षण, २ वाक् शुद्धिका लक्षण, ३ भाषा समितिके अतिचार ।
*	भाषा समिति व सत्यधर्ममें अन्तर । —दे सत्य/२/८ ।
*	धर्म हानिके अवसरपर विना बुलाये बोले । —दे वाद ।
५	एषणा समिति निर्देश १. एषणा समितिका लक्षण, २. एषणासमितिके अतिचार ।
६	आदान निक्षेपण समिति निर्देश १ आदान निक्षेपण, समितिका लक्षण, २, आदान निक्षेपण समितिके अतिचार ।
७	प्रतिष्ठापन समिति निर्देश १. प्रतिष्ठापन समितिका लक्षण, २ प्रतिष्ठापन शुद्धिका लक्षण, ३ प्रतिष्ठापन समितिके अतिचार ।
२	निश्चय व्यवहार समिति समन्वय
१	समितिमें सम्यग् विशेषणकी आवश्यकता ।
२	प्रमाद न होना ही सच्ची समिति है ।
३	समितिका उपदेश अन्मर्त्य जनोंके लिए है ।
४	समितिका प्रयोजन अहिंसा व्रतकी रक्षा ।
*	श्रावकको भी समितिके पालन सम्बन्धी । —दे व्रत/७/४ ।
५	समिति पालनेका फल ।
*	समितिमें युगपत् आलस्य व सवर्गपना । —दे, मंत्र/२ ।

१. समिति निर्देश

१ समिति सामान्यका लक्षण

१ निश्चय समिति

रा वा /६/५/२/५६३/३४ सम्यगिति समितिरिति । = सम्यग् प्रकारसे प्रवृत्तिका नाम समिति है ।

नि. सा /ता वृ./६१ अभेदानुपचाररनत्रयमार्गेण परमधर्मिणमात्मानं सम्यग् इति परिणति समिति । अथवा निजपरमतत्त्वनिरतसहज-परमबोधोपादिपरमधर्माणां सहति समिति । = अभेद-अनुपचार-रनत्रयरूपी मार्गपर परमधर्मो ऐसे (अपने) आत्माके प्रति सम्यग् इति (गति) अर्थात् परिणति वह समिति है, अथवा निज परम तत्त्वमें लीन सहज परम ज्ञानादिक परमधर्मोंको सहति (मिलान, समगन) वह समिति है ।

प्र सा /ता, वृ./२४०/३३२/२१ निश्चयेन तु स्वस्वरूपे सम्यगितो गत परिणत समिति । = निश्चयसे तो अपने स्वरूपमें सम्यग् प्रकारसे गमन अर्थात् परिणमन समिति है ।

द्र सं /टी/३५/१०१/३ निश्चयेनानन्तज्ञानादिस्वभावे निज्जामनि सम-सम्यक् समस्तरागादिविभावपरित्यागेन तृष्णीनतच्चिन्तनतन्मयत्वेन अयन गमनं परिणमन समिति । = निश्चय नयकी अपेक्षा अनन्त-ज्ञानादि स्वभावधारक निज आत्मा है, उसमें 'सम' भले प्रकार अर्थात् समस्त रागादि भावोंके त्याग द्वारा आत्मामें लीन होना, आत्माका चिन्तन करना, तन्मय होना आदि रूपसे जो अयन (गमन) अर्थात् परिणमन सो समिति है ।

२. व्यवहार समिति

स सि /६/२/४०६/७ प्राणिपीडापरिहारार्थं सम्यगयन समिति । = प्राणि पीडाका परिहारके लिए सम्यक् प्रकारसे प्रवृत्ति करना समिति है ।

(रा वा./६/२/२/५६१/३१)

भ आ /वि /१६/६१/१६ समिदीष्टुय सम्यगयनादिषु अयन समिति । सम्यक्श्रुतज्ञाननिरूपितक्रमेण गमनादिषु वृत्ति समिति ।

भ आ /वि /११५/२६७/१ प्राणिपीडापरिहारदरवत सम्यगयनं समिति । = गमनादि कार्योंमें जैसे प्रवृत्ति आगममें कही है वैसी प्रवृत्ति करना समिति है । प्राणियोंको पीडा न होवे ऐसा विचार कर दया भावसे अपनी सर्व प्रवृत्ति जो करना है, वह समिति है ।

प्र. सा./ता, वृ./२४०/३३२/२१ व्यवहारेण पञ्चसमितिभि समित सवृत्त पञ्चसमिति । = व्यवहारसे ईर्यासमिति आदि पाँच समितियोंके द्वारा सम्यक् प्रकार 'इत' अर्थात् प्रवृत्ति करना सो पञ्चसमिति है ।

द्र स /टी/३५/१०१/४ व्यवहारेण तद्भवहिरङ्गसहकारिकारणभूताचारादि-चरणग्रन्थोक्ता समिति । = व्यवहारसे उस निश्चय समिति आचार चारित्र विषयक ग्रन्थोंमें कही हुई समिति है ।

२. समितिके भेद

चा. पा /मू /३७ इरिया भासा एसण जा सा आदान चेव णिषखेडो । संजमसोहिणिमित्ते खति जिणा पंच समिदीओ । = ईर्या, भापा, एपणा, आदाननिक्षेपण और प्रतिष्ठापण ये पाँच समिति संयम शुद्धिके कारण कही गयी हैं । (मू आ /१०, ३०१), (त सू /६/५), (स. सि /६/५/४११/६), (द्र स /टी./३५/१०१/५)

३. ईर्यासमिति निर्देश

१ ईर्यासमितिका लक्षण

मू आ /११, ३०२, ३०३ फामुयमग्गेण दिवा जुव तरप्पेहेणा सकज्जेण । जंतुण परिहरति इरियासमिदी ह्वे गमण १११ । मग्गुज्जीनुपओगालयण-सुद्धीहि इरियादो मुणिणो । सुत्ताणुओचि भणिया इरियासमिदी

पवयणम्मि १३०२ । इरियावहपडिवण्णेणवलो गतेण होदि गतव्वं । पुरदो जुगप्पमाण सयाप्पमत्तेण सत्तेण १३०२ । = १ प्राणिक मार्गसे (दे. विहार/१/७) दिनमें चार हाथ प्रमाण देखकर अपने कार्यके लिए प्राणियोंको पीडा नहीं देते हुए सयमीका जो गमन है वह ईर्या-समिति है । (नि सा /६१) । २ मार्ग नेत्र, सूर्यका प्रकाश, ज्ञानादिमें यत्न, देवता आदि आलम्बन—इन्की शुद्धतासे तथा प्रायश्चित्तादि सूत्रोंके अनुसारसे गमन करते मुनिके ईर्यासमिति होती है ऐसा आगममें कहा है १३०२ । (भ आ /मू./५./११६१) ३, कैलास गिरनार आदि यात्राके कारण गमन करना ही तो ईर्यापथसे आगेकी चार हाथ प्रमाण भूमिको सूर्यके प्रकाशसे देखता मुनि सावधानीसे हमेशा करे । १३०३ (त सा./६/७)

रा. वा /६/५/३/५६४/१ विदित्तजोवस्थानादिविधेर्मुनेर्धर्मार्थं प्रयत्न-मानस्य सवितर्युदिते चक्षुषो विषयग्रहणसामर्थ्ये उपजाते मनुष्यादि-चरणपातोपहतविशयाय-प्रायमार्गे अनन्यमनस शनैर्न्यस्तपादस्य सकृ-चित्तावयवस्य युगमात्रपूर्वनिरीक्षणविहितदृष्टे पृथिव्याचारम्भाभावाद् ईर्यासमितिरित्याख्यायते । = जीवस्थान आदिकी विधिको जानने-वाले, धर्मार्थ प्रयत्नशील साधुका सूर्योदय होनेपर चक्षुरिन्द्रियके द्वारा दिखने योग्य मनुष्य आदिके आवागमनके द्वारा कुर्रा क्षुद्र जन्तु आदिसे रहित मार्गमें सावधान चित्त हो शरीर सकोच करके धीरे-धीरे चार हाथ जमीन आगे देखकर पृथिवी आदिके आरम्भसे रहित गमन करना ईर्यासमिति है । (चा. सा./६/६/२), (झा./१८/६-७), (अन. घ /४/२६४/४६२)

२. ईर्यापथ शुद्धिका लक्षण

रा वा /६/६/१६/५६७/१३ ईर्यापथशुद्धि नानाविधजीवस्थानयोन्या-श्रयावबोधजनितप्रयत्नपरित्तजन्तुपीडाज्ञानादित्यस्वेन्द्रियप्रकाशानि-रीक्षितदेशगामिनी द्रुतविलम्बितसभ्रान्तविस्मितलीलाविकार-दिगन्तरावलोकेनादिदोषविरहितगमना । तस्यां सत्या सयम प्रति-ष्ठितो भवति विभव इव मुनीतौ । = अनेक प्रकारके जीवस्थान योनिस्थान जीवाश्रय आदिके विशिष्ट ज्ञानपूर्वक प्रयत्नके द्वारा जिसमें जन्तु पीडाका बचाव किया जाता है, जिसमें ज्ञान, सूर्य प्रकाश, और इन्द्रिय प्रकाशसे अच्छी तरह देखकर गमन किया जाता है तथा जो शीघ्र, विलम्बित, सम्भ्रान्त, विस्मित, लीला विकार अन्य दिशाओंकी ओर देखना आदि गमनके दोषोंसे रहित गतिवाली है वह ईर्यापथ शुद्धि है । (चा सा/७/६/७)

३ ईर्यासमितिकी विशेषताएँ

भ आ /वि /१५०/३४४/६ स्ववासदेशान्निर्गन्तुमिच्छता शीतलादुष्णाद्वा देशाच्छरीरप्रमार्जनं कार्यं, तथा विशतापि । किमर्थं । शीतोष्णजत्तु-नामावाधापरिहारार्थं अथवा श्वेतरक्तगुणासु भूमिषु अन्यस्या नि क्रमेण अन्यस्यापि प्रवेशने प्रमार्जनं कटिप्रदेशादध कार्यं । अन्यथा विरुद्धयोनिस्क्रमेण पृथिवीकायिकाना तद्भूमिमागोत्प-न्नानां व्रसानां चावाधा स्यात् । तथा जल प्रविशता सचित्ताचित्त-रजसो' पदादिषु लग्नयोनिरास । यावच्च पादौ शुष्यतस्तावन्न गच्छेज्जलान्तिक एव तिष्ठेत् । महतीना नदीना उत्तरणे आराद्भागे कृतसिद्धवन्दन यावत्परङ्गलप्राप्तिस्तावन्मया सर्वं शरीरभोजनसुप-करण च परित्यक्तमिति गृहीतप्रत्याख्यान समाहितचित्तो द्रोण्या-दिकमारोहेत्, परङ्गले च कार्यासर्गेण तिष्ठेत् । तदतिचारव्यप्योहार्यं । एवमिव महत् कान्तारस्य प्रवेशनि क्रमणयो । = शीत और उष्ण जन्तुओंको बाधा न हो इसलिए शरीर प्रमार्जन करना चाहिए । तथा सफेद भूमि या लाल रंगकी भूमिमें प्रवेश करना ही अथवा एक भूमि-से निकलकर दूसरी भूमिमें प्रवेश करना ही तो कटिप्रदेशसे नीचेतक सर्व अवयव पिच्छिकासे प्रमार्जित करना चाहिए । ऐसी क्रिया न करनेसे विरुद्ध योनि स्क्रमसे पृथ्वीकायिक जीव और व्रस कायिक

जीवोंको बाधा होगी। जलमें प्रवेश करनेके पूर्व साधु हाथ-पाँव वगैरह अवयवोंमें लगे हुए सच्चित्त और अचित्त धूलिको पीछीसे दूर करे। अनन्तर जलमें प्रवेश करे। जलसे बाहर आनेपर जब तक पाँव न सूख जायें, तब तक जलके समीप ही खड़ा रहे। पाँव सूखनेपर विहार करे। बड़ी नदियोंको उल्लाघनेका कभी अवसर आवे तो नदीके प्रथम तटपर सिद्ध वन्दना कर, समस्त वस्तुओं आदिका प्रत्याख्यान करे। मनमें एकाग्रता धारण कर नौका वगैरहपर आरूढ होवे। दूसरे तटपर पहुँचनेके अनन्तर उसके अतिचार नाशार्थ कायोत्सर्ग करे। प्रवेश करनेपर अथवा वहाँसे बाहर निकलनेपर यही आचार करना चाहिए।

दे. भिक्षा/२/६ जो गीलो है, हरे तुण आदिसे व्याप्त है, ऐसी पृथ्वीपर गमन नहीं करना चाहिए।

भ आ./वि./१२०६/१२०४/४ खराद्, करभाद्, बलीवर्हाद्, गजास्तर-रगान्महिषान्सारमेयान्कलहकारिणो वा मनुष्यान्दूरत परिहरेत्। मृदुना प्रतिलेखनेन कृतप्रमार्जनो गच्छेद्यदि निरन्तरमुसमाहितफला-दिकं वाग्रतो भवेत् मार्गान्तरमस्ति। भिण्णवर्णा वा भूमि प्रविशस्त-द्वर्णभूभाग एव अङ्गप्रमार्जनं कुर्यात्। =मार्गमें गदहा, ऊँट, बैल, हाथी, घोडा, भैंसा, कुत्ता और कलह करनेवाले लोगोंको दूरसे ही त्याग करे। रास्तेमें जमीनसे समान्तर फलक पत्थर वगैरह चीज होगी, अथवा दूसरे मार्गमें प्रवेश करना पड़े अथवा भिन्न वर्णकी जमीन हो तो जहाँसे भिन्नवर्ण प्रारम्भ हुआ है वहाँ खड़े होकर प्रथम अपने सर्व अंगपरसे पिच्छी फिरानी चाहिए। (और भी—दे संयम/१/७)

२. ईर्यासमितिके अतिचार

भ आ./वि./१६/६२/४ ईर्यासमितेरतिचार मन्दालोकगमनं पद-विन्यासदेशस्य सम्यगनालोचनम्, अन्यगतचित्तादिक्म्। =सूर्यके मन्द प्रकाशमें गमन करना, जहाँ पाँव रखना हो वह जगह नेत्रसे अच्छी तरहसे न देखना, इतर कार्यमें मन लगाना इत्यादि।

४. भाषासमिति निर्देश

१ भाषासमितिका लक्षण

मू. आ./१२,३०७ पेमुण्णहासकक्कसपरणिदाप्पससविकहादी। वज्जिता सपरहिद भासासमिदी हवे कहण। १२। सच्च असच्चमोसं अलियादी-दोसवज्जमणवज्ज। वदमाणस्सणुवीची भासासमिदी हवे मुद्धा। ३०७। =१. झूठ दोष लगाने रूप पैशुन्य, व्यर्थ हँसना, कठोर वचन, परिनिदा, अपनी प्रशंसा, और विकथा इत्यादि वचनोंको छोड़कर स्व-पर हितकारक वचन बोलना भाषा समिति है। (नि सा/मू ६२) २. द्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा सत्य वचन (दे सत्य), सामान्य वचन, मृपावादादि दोष रहित, पापोंसे रहित आगमके अनुसार बोलनेवालेके शुद्ध भाषासमिति होती है। (भ आ/मू/११६२), (स. सा/६/८)

रा. वा/१६/६/६६४/१७ मोक्षपदप्रापणप्रधानफल हितम्। तद्द्विधम्-स्वहित परहित चेति। मितमनर्थकप्रलपनरहितम्। स्फुटार्थ व्यक्ताक्षरं चासदिग्धम्। एवविधमभिधान भाषासमिति। तत्प्रपञ्च-मिध्याभिधानासुयाप्रियसभेदात्पसारशङ्कितसंभ्रान्तकपायपरिहासा-युक्तासभ्यनिष्ठुरधर्मविरोध्यदेशकालालक्षणात्तिसस्तवादिवादीपवि-रहिताभिधानम्। =स्व और परको भीक्षकी ओर ले जानेवाले स्व-पर हितकारक, निरर्थक बकवाद रहित मित स्फुटार्थ व्यक्ताक्षर और असन्दिग्ध वचन बोलना भाषासमिति है। मिध्याभिधान, असूया प्रियभेदक, अवपसार शक्ति सभ्रान्त, कपाय युक्त, परिहास युक्त, अयुक्त, असभ्य, निष्ठुर, अधर्म विधायक, देशकाल विरोधी, और चापलूसी आदि वचन दोषोंसे रहित भाषण करना चाहिए।

ज्ञा/१८/८-६ धूर्तकामुकक्रव्यादचौरचार्याकसेविता। शङ्कासंकेतपापाख्या त्याज्या भाषा मनीषिभि। १८। दशदोषविनिर्मुक्ता सूत्रोक्ता साधुसम-ताम्। गदतोऽस्य मुनेर्भाषां स्याद्भाषासमिति परा। १६। =धूर्त (मायावी), कामी, मांसभक्षी, चौर, नास्तिकमति,—चार्याक आदिसे व्यवहारमें लायी हुई भाषा तथा सदेह उपजानेवाली, व पाप-सयुक्त हो ऐसी भाषा बुद्धिमानोंको त्यागनी चाहिए। १८। तथा वचनों-के दश दोष (दे भाषा) रहित सूत्रानुसार साधुपुरुषोंको मान्य हों ऐसी भाषाको कहनेवाले मुनिके उत्कृष्ट भाषा समिति होती है। १६।

०. वाक् शुद्धिका लक्षण

मू आ/८५३-८६१ भास विणयविहूण धम्मविरोही विवज्जये वयण। पुच्छिदमपुच्छिद वा णवि ते भासति सप्पुरिसा। ८५३। अच्छीहि य पेच्छता कण्णेहि य बहुविहा य मुणमाणा। अथ ति भूयभूया ण ते कर ति हु लोइयकहाओ। ८५४। विकहाविसोत्तियाणं खणमवि हिद-एण ते ण चितति। धम्मे लद्धमदीया विकहा ति विहेण वज्जति। ८५७। कुक्कुयकंदप्पाइय हास उल्लावण च खेडं च। मद्दपहत्थवर्ति ण करेति मुणी ण कारेति। ८५८। ते होति णिचियारा थिमिदमदी पदिहिदा जहा उदधी। णियमेसु दढव्वदिणो पारत्तविमग्गया समणा। ८५९। जिणवयणभासिदत्थं पत्थं च हिदं च धम्मसजुत्त। समओव-यारजुत्त पारत्तहिद कथं करेति। ८६०। सत्ताधिया सप्पुरिसा मग्ग मण्णति वीदरागाणं। अणयारभावणाए भावेति य णिच्चमप्पाणं। ८६१। =सत्पुरुष वे मुनि विनय रहित कठोर भाषाको तथा धर्मसे विरुद्ध वचनोंको छोड़ देते हैं। और अन्य भी विरोध जनक वाक्योंको नहीं बोलते। ८५३। वे नेत्रोंसे सब योग्य-अयोग्य देखते हैं और कानों-से सब तरहके शब्द सुनते हैं परन्तु वे गंगेके समान तिष्ठते हैं, लौकिक कथा नहीं करते। ८५४। स्त्रीकथा आदि विकथा (दे कथा) और मिथ्या शास्त्र, इनको वे मुनि मनसे भी चिन्तन नहीं करते। धर्ममें प्राप्त बुद्धिवाले मुनि विकथाको मन वचन कायसे छोड़ देते हैं। ८५७। हृदय कठसे अप्रगट शब्द करना, कामोत्पादक हास्य मिले वचन, हास्य वचन, चतुराई युक्त मीठे वचन, परको उगने रूप वचन, मदके गर्वसे हाथका ताडना, इनको वे न स्वयं करते हैं, न कराते हैं। ८५८। वे निर्विकार उद्धत चेष्टा रहित, विचारवाले, समुद्रके समान निश्चल, गम्भीर छह आवश्यकतादि नियमोंमें दृढ प्रतिज्ञावाले और परलोकके लिए उद्यमवाले होते हैं। ८५९। वीतरागके आगम द्वारा कथित अर्थवाली पध्यकारी धर्मकर सहित आगमके विनयकर सहित परलोकमें हित करनेवाली कथाको करते हैं। ८६०। उपसर्ग सहनेसे अकपपरिणामवाले ऐसे साधुजन वीतरागोंके सम्यग्दर्शनादि रूप मार्गको मानते हैं और अनगर भावनासे सदा आत्माका ही चिन्तन करते हैं। ८६१।

रा वा/१६/६/१६/६६८/१ वाक्यशुद्धि पृथिवीकायिकारम्भादिप्रेरण-रहिता (ता) परुपनिष्ठुरादिपरपीडाकरप्रयोगनिरुत्सुका व्रतशील-देशनादिप्रधानफला हितमितमधुरमनोहरा सयतस्य योग्या। तद-धिष्ठाना हि सर्वसपद। =पृथिवीकायिक आदि सम्बन्धी आर-म्भादिकी प्रेरणा जिसमें न हो तथा जो परुप, निष्ठुर और पर पीडाकारी प्रयोगोंसे रहित हो व्रतशील आदिका उपदेश देनेवाली हो, वह सर्वत योग्य हित, मित, मधुर और मनोहर वाक्यशुद्धि है। वाक्यशुद्धि सभी सम्पदाओंका आश्रय है। (चा, सा/८१/४), (वसु ब्रा./२३०)

२ भाषा समितिके अतिचार

भ आ./वि./१६/६२/४ इद वचन मम गदितु युक्तं न वेति जनानोच्य भाषण उज्ञात्वा वा। अत एवोक्त 'अपुट्टो दु ण भासेज्ज भासमाणस्स अतरे' इति अपुष्टुत्तुत्तमया मुनि अपुष्ट इत्युच्यते। भाषासमितिक्रमानभिज्ञो मौन गृहोयात् इत्यर्थः। एवमादिको भाषासमितिरिति

चार, । — यह वचन बोलना योग्य है अथवा नहीं, इसका विचार न कर बोलना, वस्तुका स्वरूप ज्ञान न होनेपर भी बोलना, ग्रन्थांतरमें भी 'अपुष्टो दुःख भासेज्ज भासमाणस्स अतरे' कोई पुरुष बोल रहा है और अपने प्रकरणको, विषय माझूम नहीं है तो बीचमें बोलना अयोग्य है, जिसने धर्मका स्वरूप सुना नहीं अपना धर्मके स्वरूपका ज्ञान नहीं ऐसे मुनिको अपुष्ट करते हैं। भाषासमितिका काम जो जानता नहीं वह मौन धारण करे ऐसा अभिप्राय है, इस तरह भाषा समितिके अतिचार हैं।

५. एषणासमिति निर्देश

१. एषणासमितिका लक्षण

मू. आ /१३.३१८ छादालदोसमुद्ध' कारणशुच विमुद्धणवकोडी। सीदादी समभुत्ती परिमुद्धा एषणासमिदी। १३। उग्गमउप्पादणएसणेहि पिंड च उवधि सज्ज च। सोधंतस्स य मुणिणो परिमुद्धकह एषणासमिदी। ३१८। — १ उद्दगमादि ४६ दोषों (दे, आहार/११/४) कर रहित, भूख आदि मेंटना व धर्म साधन आदि कर युक्त, कृत कारित आदि नौ विकल्पों कर विशुद्ध (रहित) ठडा गरम आदि भोजनमें राग-द्वेष रहित, समभाव कर भोजन करना, ऐसे आचरण करनेवालेके एषणासमिति है। १३। २. उद्दगम, उत्पाद, अज्ञान दोषोंसे आहार, पुस्तक, उपधि वसतिको ज्ञाधनेवाले मुनिके शुद्ध एषणासमिति है। ३१८। (भ आ /मू/११६७), (त, सा /६/६)

रा वा /६/६/६/६४/२१ अनगरस्य गुणरत्नसचयसवाहिशरीरदाकटि-समाधिपत्तनं निनीपतीऽक्षरक्षणमिव शरीरधारणमौषधमिव जाठरान्निनदाहोपशमनिमित्तमज्ञाथनास्वादयो देशकालसामर्थ्यादिविशिष्टमगहितमभ्यवहरत उद्दगमोत्पादनैपणास योजनप्रमाणकारणात्पर-धूमप्रत्ययनकोटिपरिवर्जनमेपणासमितिरिति समारम्भायते। — गुण-रत्नोंको होनेवाली शरीररूपी भाड़ीको समाधि नगरकी और ले जानेकी इच्छा रखनेवाले साधुका जाठरान्तिके दाहको शमन करनेके लिए औषधिकी तरह या गाड़ीमें अंगन देनेकी तरह अज्ञादि आहारको बिना स्वादके ग्रहण करना एषणासमिति है। देश, काल और प्रत्यय इन नव कोटियोंसे रहित आहार ग्रहण किया जाता है। (चा, सा /६/३), (ज्ञा, /१८/१०-११), (अन, ध, /४/१६७) ।

२. एषणासमितिके अतिचार

भ आ /वि /१६/६२/७ उद्दगमादिदोषे गृहीत भोजनमनुमनन वचसा, कायेन वा प्रशसा, तै सह वास, क्रियासु प्रवर्तनं वा एषणासमिते-रतीचार । — उद्दगमादि दोषोंसे सहित आहार लेना, मनसे, वचनसे, ऐसे आहारको सम्मति देना, उसकी प्रशसा करना, ऐसे आहारकी प्रशसा करनेवालोंके साथ रहना, प्रशसादि कार्यमें दूसरोंको प्रवृत्त करना। एषणासमितिके अतिचार है।

६. आदान निक्षेपण समिति निर्देश

१. आदान निक्षेपण समितिका लक्षण

मू. आ /१४.३१६.३२० णाणुअहिं सज्जमुवहिं सौजुअहिं अणमप्यमुवहिं वा। पयद गहणणिकखेरो समिदी आदानणिकखेवा। १४। आदाणे णिकखेवे पडिलेहिय चक्खुणा पमउजेज्जो। दव्वं च दउठ्ठाण सज्जम-लद्धीए सो भिक्खू। ३१६। सहसाणा भोहददुप्पमज्जिजदअपच्चु-वेक्खणा दोसा। परिहरमाणस्स हवे समिदी आदानणिकखेवा। ३२०। — १ ज्ञानके उपकरण, समयके उपकरण तथा शौचके उपकरण, व अन्य साधने आदिके निमित्त उपकरण, इनका यत्नपूर्वक उठाना, रखना वह आदान निक्षेपण समिति है। (नि सा /६/४) । २. ग्रहण और रखनेमें पीओ, कमण्डलू आदि वस्तुको तथा वस्तुके स्थानको अच्छी तरह देखकर पीओसे जो शोधन करता है वह

भिदु कहताता है, यानी आदान निक्षेपण समिति है। ३२१। (भ, आ /मू/११६८), (त सा /६/१०) शीघ्रतासे बिना देते, जनापरते, बहुत कालसे रगे उपकरणोंका उठाना रखना स्वरूप दोषोंका जो त्याग करता है उसके आदाननिक्षेपण समिति दानी है। ३२०।

रा वा /६/६/७/४६४/२४ धर्मातिरोधिनां पणुपणोधिनां इव्याणां ज्ञानादिसाधनाणां ग्रहणे विगर्जने च निरीत्य प्रमृज्य प्रवर्गनमादान-निक्षेपणा समिति । — धर्मातिरोधी और पणुपणोधी ज्ञान और संयमके माधक उपकरणोंका देखकर और शोधकर रखना और उठाना आदाननिक्षेपण समिति है। (चा, सा, /७/२), (ए, /१८/१२-१३), (अन ध /४/१६८/४६६) ।

२. आदान निक्षेपण समितिके अतिचार

भ. आ /वि /१६/६०/८ आदाताव्यय्य, स्थाप्यरय्य वा ज्ञानोचनं, किमत्र जन्तव सन्ति न सन्ति वेत्ति दु प्रमार्जनं च आदाननिक्षेपणसमित्य-त्तिचार । — जो वस्तु लेता है, अथवा रखता है यह लेते समय अथवा रखते समय, हममें जीव है या नहीं हमारा ध्यान नहीं करना तथा अच्छी तरह जमीन वा वस्तु स्पष्ट न करना आदान-निक्षेपण समितिके अतिचार है।

७. प्रतिष्ठापन समिति निर्देश

१. प्रतिष्ठापन समितिका लक्षण

मू. आ /१६.३२१-३२६ एगते अचिचो दूरे मूदे विसात्तमविराहे। उच्चा-रादिच्चाओ पदिटावणिया एये समिदी। १४। वणदाएत्तिस्समिक्खे-दधिल्लेणुपरोधे विरियणे । अणदज्जु विवित्त उच्चारदी विसज्जेज्जो। ३२१। उच्चार पस्सवणं ऐल मिघाणयादियं दव्वं । अचिचत्तभूमिदेशे पटिनेहिया विसज्जेज्जो। ३२२। गदो दु पमज्जिता पणसमणपेक्खिदम्मि ओगासे । आसराविसुट्टीए अणहृत्थणकासणं कुच्चा। ३२३। जदि तं हवे अमुद्ध विदियं तदियं अणुपणवे साहू । लघुए अणिछायारे ण देज्ज साधम्मिए गुक्यो। ३२४। पदिटवणा-समिदीवि य तेणव कमेण वण्णिदा होदि । मोसरणिज्ज दव्वं कुधिल्ले मोसरत्तस्स। ३२५। — १ एकान्तस्थान, अचिचत्तस्थान, दूर, छिपा हुआ, मिल तथा छेदरहित चौड़ा, और जिसकी निन्दा व विरोध न करे ऐसे स्थानमें मूत्र, विद्या आदि देहके मलका क्षेपण करना प्रतिष्ठापना समिति कही गयी है। १६। (नि सा /६/६), (ज्ञा /१८/१४) । २. दायाग्निते दग्धप्रदेश, हलकर जुता हुआ प्रदेश, मसान भूमिका प्रदेश, खर सहित भूमि, लोग जहाँ रोकें नहीं, ऐसा स्थान, विशाल स्थान, प्रस जीवोंकर रहित स्थान, जनरहित स्थान—ऐसी जगह मूत्रादिका त्याग करे। ३२१। (भ आ /मू/११६६), (त सा /६/११), (अन, ध /४/१६६/४६७) । ३. विद्या, मूत्र, कफ, नाकका मैन, आदिको हरे तृण आदिते रहित प्रासक भूमिमें अच्छी तरह देखकर निक्षेपण करे। ३२२। रात्रिमें आचार्यके द्वारा देते हुए स्थानको आप भी देखकर मूत्रादिका क्षेपण करे। यदि यहाँ सूक्ष्म जीवोंकी आशका हो तो आशकाकी विशुद्धिके लिए कोमल पीओकी लेकर हथेलीसे उस जगहको देते। ३२३। यदि पहला स्थान अशुद्ध हो तो दूसरा, तीसरा आदि स्थान देखे। किसी समय रोग पीडित होके अथवा शीघ्रतासे अशुद्ध प्रदेशमें मल छूट जाये तो उस धर्मात्मा साधुको प्रायश्चित्त न दे। ३२४। (अन ध, /४/१६६) उसी कहे हुए क्रमसे प्रतिष्ठापना समिति भी वर्णन की गयी है उसी क्रमसे त्यागने योग्य मल-मूत्रादिको उक्त स्थण्डिल स्थानमें निक्षेपण करे। उसीके प्रतिष्ठापना समिति शुद्ध है। ३२५।

ग वा /६/६/८/४६४/२८ स्थावराणां जज्ञमाना च जीवादीनाम् अविरोधेनाङ्गमलनिर्हरणं शरीरस्य च स्थापनम् उत्सर्गसमिति-

रवगन्तव्या । =जहाँ स्थावर या जगम जीवोंको विराधना न हो ऐसे निर्जन्तु स्थानमें मल-मूत्र आदिका विसर्जन करना और शरीरका रखना उत्सर्ग समिति है । (चा सा /७४/३) ।

२. प्रतिष्ठापना शुद्धिका लक्षण

रा, वा, /६/६/१६/६/६/३२ प्रतिष्ठापनशुद्धिपर सयत' नखरोमसिद्धाण-कनिष्ठीवनशुक्रोच्चारप्रसवणशोधने देहपरित्यागे च विदितदेशकालो जन्तुपरोधमन्तरेण प्रयतते । =प्रतिष्ठापन शुद्धिमें तत्पर सयत देश और कालको जानकर नख, रोम, नाक, धूक, वीर्य, मल, मूत्र या देह परित्यागमें जन्तु बाधाका परिहार करके प्रवृत्ति करता है । (चा. सा. /८०/१) ।

३. प्रतिष्ठापना समितिके अतिचार

भ, आ, /वि /१६/६२/६ कायभूम्यशोधन, मलसंपातदेशानिरूपणादि, पवनस निवेशदिनकरादिपुष्कमेण वृत्तिश्च प्रतिष्ठापनसमित्यतिचार । =शरीर व जमीन पिच्छिकासे न पौखना, मल-मूत्रादिक जहाँ क्षेपण करना है वह स्थान न देखना इत्यादि प्रतिष्ठापना समितिके अतिचार है ।

२. निश्चय व्यवहार समिति समन्वय

१. समितिमें सम्यग् विशेषणकी आवश्यकता

स सि /६/६/४११/६ सम्यग् इत्यनुवर्तते । तेनेर्यादयो विशेष्यन्ते । सम्यगीर्या सद्रयग्भाषा इति । =यहाँ 'सम्यक्' इस पदकी अनुवृत्ति होती है । उससे ईर्यादिक विशेष्यपनेको प्राप्त होते हैं—सम्यगीर्या सम्यग्भाषा इत्यादि । (रा वा /६/६/१/६६३/३२) ।

भ आ, /वि /११६/२६७/१ सम्यग्विशेषणाज्जीवनिकायस्वरूपज्ञान-प्रदानपुरस्सरा प्रवृत्तिर्गृहीता । =इस (समितिके) लक्षणमें जो समितिका सम्यक् यह विशेषण है उसका भाव ऐसा है—जीवोंके भेद और उनके स्वरूपके ज्ञानके साथ अज्ञान गुण सहित जो पदार्थ उठाना, रखना, गमन करना, बोलना इत्यादि प्रवृत्ति की जाती है वही सम्यक् है ।

पु सि उ /२०३ सम्यगगमनागमन सम्यग्भाषा तथैषणा सम्यक् । सम्यग्रहणनिक्षेपो व्युत्सर्ग' सम्यगिति समिति । २०३। =भले प्रकार गमन-आगमन, उत्तम हितमित रूप वचन, योग्य आहार-का ग्रहण, पदार्थोंका यत्नपूर्वक ग्रहण-विसर्जन, भूमि देखकर मूत्रादिका मोचन, नामका सम्यग्व्युत्सर्ग, ये पाँच समिति है ।

२. प्रमाद न होना ही सच्ची समिति है

मो, मा, प्र, /७/३३६/१० बहुरि परजीवनिकी रक्षाके अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति ताकी समिति माने है । सो हिंसाके परिणामनिते तो पाप हो है, अर रक्षाके परिणामनिते सबर कहोगे, तो पुण्यबन्धका कारण कौन ठहरैगा । बहुरि एषणासमिति विषे दोष टाले है । तहाँ रक्षाका प्रयोजन है नाहीं । ताते रक्षा ही के अर्थ समिति नाहीं है । तो समिति कैसे हो है—मुनिनके किंचिद् राग भए गमनादि क्रिया हो है । तहाँ तिन क्रियानिविषे अति आसक्तताके अभावतें प्रमादरूप प्रवृत्ति न हो है । बहुरि और जीवनिकी दुखी करि अपना गमनादि प्रयोजन न साथै है । ताते स्वयमेव ही दगा पले है । ऐसे सौचो समिति है ।

३. समितिका उपदेश असमर्थजनोंके लिए है

स सि /६/६/४११/७ की उरथानिका—तत्राशक्तस्य मुनेनिरवचप्रवृत्ति-रव्यापनार्थमाह—। =गुप्तिके पालन करनेमें अशक्त मुनिके निर्दोष प्रवृत्तिकी प्रसिद्धिके लिए आगेका सूत्र कहते हैं । (रा, वा /६/६/१/६६४/१६) । (त, सा /६/६) ।

४. समितिका प्रयोजन अहिंसाव्रतकी रक्षा

स सि /६/६/४११/१० ता एता पव्च समितयो विदितजीवस्थानादि-विधेरुने प्राणिपीडापरिहाराभ्युपाया वेदितव्या । =इस प्रकार कही गयी ये पाँच समितियाँ जीव स्थानादि विधिको जाननेवाले मुनिके प्राणियोंकी पीडाको दूर करनेके उपाय जानने चाहिए ।

ला स, /६/६/१५६ यथा समितय पञ्च सन्ति.. । अहिंसाव्रतरक्षार्थं कर्तव्या देशतोऽपि तै' १८६। =अहिंसा व्रतकी रक्षा करनेके लिए श्रावकोंको पाँच समितियोंका पालन अवश्य करना चाहिए ।

५. समिति पालनेका फल

भ. आ /मू /१२०१ पञ्चमिपत्त व जहा उदयेण ण लिप्पदि सिणेहगुण-जुत्त । तह समिदीहि ण लिप्पइ साधू काएसु इरियतो । १२०१। =स्नेहगुणसे युक्त कमलका पत्र जलसे लिप्त होता नहीं है तद्वद् प्राणियोंके शरीरमें विहार करनेवाला यतिराज समितियोंसे युक्त होनेसे पापसे लिप्त होता नहीं ।

स सि /६/६/४११/११ प्रवर्तमानस्यासंयमपरिणामनिमित्तकर्मास्रवास्-वरो भवति । =इस प्रकारसे (समितिपूर्वक) प्रवृत्ति करनेवालेके असंयम रूप परिणामोंके निमित्तसे जो कर्मोंका आस्रव होता है उसका सबर होता है ।

समीकरण—Equation.

समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति शुक्लध्यान— दे. शुक्लध्यान ।

समुत्पत्तिक बन्धस्थान—दे अनुभाग/१ ।

समुद्घात—१. समुद्घात सामान्यका लक्षण

रा वा /१/२०/१२/७७/१२ हन्तेर्गमिक्रियात्वात् सभूयात्मप्रदेशानां च बहिरुद्ग्रहननं समुद्घात । =वेदना आदि निमित्तसे कुछ आत्म-प्रदेशोंका शरीरसे बाहर निकलना समुद्घात है । (गो जी /जी, प्र /६४३/६३६/३)

घ. १/१,१.६०/३००/६ घातन घात स्थित्यनुभवयोर्विनाश इति यावत् । उपरि घात उद्घात', समीचीन उद्घात समुद्घात । = (केवल समुद्घातके प्रकरणमें) घातने रूप धर्मको घात कहते हैं, जिसका प्रकृतमें अर्थ कर्मोंकी स्थिति और अनुभागका विनाश होता है । • उत्तरोत्तर होनेवाले घातको उद्घात कहते हैं, और समीचीन उद्घातको समुद्घात कहते हैं ।

गो जी, /मू /६६८ मूलसरीरमच्छ्रिय उत्तरदेहस जीवपिडस । निगम-मण देहादी हीदि समुग्घादणाम तु । ६६८। =मूल शरीरको न छोड़कर तैजस कार्मण रूप उत्तर देहके साथ-साथ जीव प्रदेशोंके शरीरसे बाहर निकलनेको समुद्घात कहते हैं । (द्र स /टी /१०/२६ में उद्धृत)

२. समुद्घातके भेद

प स/प्रा/१/१९६ वेद्यण कसाय वेउच्चिय मारणत्तिओ समुद्घाओ । तेजाहारो छट्टो सत्तमओ केवलीण च १९६६। --वेदना, कपाय, वेक्रियिक, मारणान्तिक, तैजस, आहारक और केवलि समुद्घात, ये सात प्रकारके समुद्घात होते है । (रा वा /१/२०/१२/७७/१२), (घ ४/१.३.२/गा ११/२६), (घ ४/१.३.२/२६/६), (गो. जी /घ./-६६७/१११२), (वृ. द. स /१०/२४/), (गो जी./जी प्र./६४३/-६३६/१३), (प. स /१/३३७)

* समुद्घात विशेष—दे वह वह नाम ।

३. गमनकी दिशा सम्बन्धी नियम

दे. मरण/६/७ [मारणान्तिक समुद्घात निश्चयसे आगे जहाँ उरपज होना है, ऐसे क्षेत्रकी दिशाके अभिमुख होता है, शेष समुद्घात दशों दिशाओंमें प्रतिबद्ध होते हैं ।]

रा वा./१/२०/१२/७७/२९ आहारकमारणान्तिकसमुद्घातावेकदिकी । यत आहारकशरीरमात्मा निर्वर्तयद् श्रेणिगतित्वाच्च एकदिकानात्म-देशानसख्यातात्त्रिगमय्य आहारकशरीरमरत्तिमात्र निर्वर्तयति । अन्यक्षेत्रसमुद्घातकारणाभावात् यत्रानेन नरकादापुत्पत्तय्य तत्रैव मारणान्तिकसमुद्घातेन आत्मप्रवेशा एकदिका समुद्घन्थन्ते. अत-स्तावेकदिकी । शेषा पञ्च समुद्घाता पङ्किका । यतो वेदनादि-

समुद्घातवशाद् बहिर्नि मृतानामात्मप्रवेशानां पूर्वपङ्कदक्षिणोत्तमे-र्थाधोदिक्षु गमनमिष्ट श्रेणिगतित्वाद्वात्मप्रवेशानाम्। --आहारक और मारणान्तिक समुद्घात एक ही दिशामें होते है । (गो. जी /घ./-६६६) क्योंकि आहारक शरीरकी रचनाके समग्र श्रेणि गति होनेके कारण एक ही दिशामें असंख्य आत्मप्रवेश निकलकर आहारक शरीरको बनाते हैं । मारणान्तिकमें जहाँ नरक आदिमें जीवको मरकर उरपज होना है वहाँकी ही दिशामें आत्मप्रवेश निश्चित है । शेष पाँच समुद्घात छहों दिशाओंमें होते है । क्योंकि वेदना आदिके वशासे चार निम्ने हुए आत्मप्रवेश श्रेणीके अनुसार ऊपर, नीचे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन छहों दिशाओंमें होते है ।

४. अचरथान काल सम्बन्धी नियम

रा वा /१/२०/१२/७७/३६ वेदना-कपाय-मारणान्तिकतेजो-वे क्रियिका-हारकसमुद्घाता पङ्कमल्येयसमयिका । केवलिसमुद्घात अष्ट-समयिक । --वेदनादि छह समुद्घातोंका काल असंख्यात समय है । और केवलिसमुद्घातका काल आठ समय है । [विशेष- दे केवली/७/८]

५. समुद्घातोंके स्वामित्व विषयक ओघ आदेश प्ररूपणा (घ ४/१.२.३ २/३८-४७)

क्र.	गुणस्थान	घ/४/पु	वेदना	घ/४/पु	कपाय	घ ४/पु	मारणान्तिक	घ ४/पु	वेक्रियिक	घ ४/पु	तैजस	घ ४/पु	आहारक	घ ४/पु	केवली
१	मिथ्यादृष्टि	४३	हाँ	४३	हाँ	४३	हाँ	३८	हाँ	३८	नहीं	३८	नहीं	३८	नहीं
२	सासादन	४१	"	४१	"	"	"	४१	"	"	"	"	"	"	"
३	मिथ्र	"	"	"	"	४१	नहीं	"	"	"	"	"	"	"	"
४	असंयत	"	"	"	"	४३	हाँ	"	"	"	"	"	"	"	"
५	सयतासयत	४४	"	४४	"	४४	"	४४	"	"	"	"	"	"	"
६	प्रमत्त	४६	"	४६	"	४६	"	४६	"	४६	हाँ	४७	हाँ	"	"
७	अप्रमत्त	४७	नहीं	४७	नहीं	४७	"	४७	नहीं	४७	नहीं	"	नहीं	"	"
८	अपूर्व क उप	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
९	" " क्षपक	"	"	"	"	"	नहीं	"	"	"	"	"	"	"	"
१०	६-११ उप	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
११	६-११ क्षपक	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
१२	क्षीणकपाय	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
१३	सयोगी	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	४८	हाँ
१४	अयोगी	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	४७	नहीं

समुद्दिष्ट—अक्ष सचार गणितमें अक्ष या भगके नामके आधारपर सख्या बताना समुद्दिष्ट है। विशेष—दे, गणित/II/३।

समुद्देश—उद्दिष्ट आहारका एक भेद—दे, उद्दिष्ट।

समुद्र—१ दे सागर, २ मध्य लोकमें स्थित समुद्र—दे, लोक/१/३ समुद्रके नकशे—दे लोक/७।

समुद्रगुप्त—मगधदेशकी राज्य वंशावलीके अनुसार यह गुप्तवंशी राजाओंका दूसरा राजा था। समय—बी. नि ८५६-६०९ (ई ३३०-३७५)—दे इतिहास/३/३।

समुद्रविजय—ह पु/सर्प/श्लोक अन्धकवृष्णिका पुत्र था। तथा कृष्णके ताऊ थे। (१८/१२-१४) आदिनाथ भगवात्के पिता थे (३८/६, ४८/४३-४४) अन्तमें दीक्षा धारण कर (६१/६) गिरनार पर्वतपर-से मोक्ष प्राप्त किया (६४/१६)।

सम्मेदाचल माहात्म्य—प. मनरगलाल (ई, १७६३-१८४३) द्वारा विरचित भाषा छन्द बद्ध कृति।

सम्यक्—स सि/१/१/३३ सम्यगित्यव्युत्पन्न शब्दो व्युत्पन्नो वा। अञ्जते क्वौ समञ्जतीति सम्यगिति। अस्यार्थ प्रशसा। = 'सम्यक्' शब्द अव्युत्पन्न अर्थात् रौढिक और व्युत्पन्न अर्थात् व्याकरण सिद्ध है। 'सम्' उपसर्ग पूर्वक अञ्ज धातुसे क्विप् प्रत्यय करनेपर 'सम्यक्' शब्द बनता है। संस्कृतमें इसकी व्युत्पत्ति 'समञ्जति इति सम्यक्' इस प्रकार होती है। इसका अर्थ प्रशसा है।

रा वा./१/२/१/१६/४ सम्यगित्यय निपात प्रशसार्थो, वेदितव्य सर्वेषां प्रशस्तस्वरूपतिजातिक्रानायुर्विज्ञानादीनाम् आभ्युदयिकानां मोक्षस्य च प्रधानकारणत्वात्। "सम्यगिष्टार्थतत्त्वयो" इति वचनात् प्रशसार्थाभाव इति, तन्न, अनेकार्थत्वात्निपातानाम्। अथवा, सम्यगिति तत्त्वार्थो निपात, अविपरीतार्थविषय तत्त्वमित्युच्यते। अथवा क्वन्तोऽय शब्द समञ्जतीति सम्यक्। यथा अर्थोऽस्वस्थितस्तथैवावगच्छतीत्यर्थः। = सम्यक् यह प्रशसार्थक शब्द (निपात) है। यह प्रशस्त रूप, गति, जाति, आयु विज्ञानादि अभ्युदय और निःश्रेयसका प्रधान कारण होता है। 'सम्यगिष्टार्थतत्त्वयो' इस प्रमाणके अनुसार सम्यक् शब्दका प्रयोग इष्टार्थ और तत्त्व अर्थमें होता है अत इसका प्रशसार्थ उचित नहीं है, इस शकाका समाधान यह है कि निपात शब्दोंके अनेक अर्थ होते हैं। अथवा 'सम्यक्'का अर्थ तत्त्व भी किया जा सकता है। अथवा यह क्विप् प्रत्ययान्त शब्द है। इसका अर्थ है जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही जाननेवाला।

सम्यक् नय—दे, नय/II।

सम्यक् प्रकृति—दे मोहनीय/२।

सम्यक् मिथ्यात्व गुणस्थान—दे, मिथ।

सम्यक्त्व—दे सम्यग्दर्शन।

सम्यक्त्व क्रिया—दे क्रिया/३।

सम्यक्त्व कौमुदी—आ शुभचन्द्र (ई ११६६-१५६६) द्वारा रचित एक आध्यात्मिक ग्रन्थ।

सम्यक्त्ववाद—दे ब्रह्मानवाद।

सम्यक्त्वाचरणचारित्र—दे, स्वरूपाचरणचारित्र।

सम्यक्चारित्र—दे, चारित्र।

सम्यक्त्वप्रकृति—दे मोहनीय/२।

सम्यक्त्व लब्धि—दे लब्धि/१/३।

सम्यग्ज्ञान—दे ज्ञान/III।

सम्यग्दर्शन—दुरभिवेश रहित पदार्थोंका ब्रह्मान अथवा स्वात्म प्रत्यक्षपूर्वक स्व-पर भेदका या कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक सम्यग्दर्शन कहा जाता है। किन्हींको यह स्वभावसे ही होता है और किन्हींको उपदेशपूर्वक। आज्ञा आदिकी अपेक्षा यह दश प्रकारका तथा कर्मोंके उपशम, क्षय, क्षयोपशमकी अपेक्षा तीन प्रकारका होता है। इनमें-से पहले दो अत्यन्त निर्मल व निश्चल होते हैं, पर तीसरेमें समल होनेके कारण कदाचित् कुछ अतिचार लगने सम्भव है। रागके सद्भाव व अभावकी अपेक्षा भी इसके सराग व वीतराग दो भेद हैं। तहाँ सराग तो प्रशम, सवेग आदि गुणोंके द्वारा अनुमानगम्य है और वीतराग केवल स्वानुभवगम्य है। सभी भेद निःशक्ति आदि आठ गुणोंसे भूषित होते हैं। सम्यक्त्व व ज्ञानमें महात् अन्तर होता है जो सूक्ष्म विचारके बिना पकड़में नहीं आता। जितनी भी विकल्पात्मक उपलब्धियाँ, श्रद्धा, अनुभव आदि हैं वे सब ज्ञानरूप हैं, सम्यग्दर्शन तो निर्विकल्प होनेके कारण अन्तरमें अभिप्राय या लक्ष्यरूप अवस्थित मात्र रहा करता है। मोक्षमार्गमें इसका सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि इसके बिनाका आगम ज्ञान, चारित्र, व्रत, तप आदि मय ब्रूया है। सम्यग्दर्शनके लक्षणोंमें भी स्वात्म सवेदन सर्वप्रधान है, क्योंकि बिना इसके तत्त्वोंकी श्रद्धा आदि अकिञ्चित्कर है। ये सम्यग्दर्शन स्वतः या किसीके उपदेशसे, या जातिस्मरण, जिनबिम्बदर्शन आदिके निमित्तसे काल पाकर भव्य जीवोंको उत्पन्न होता है। इसकी प्राप्त करनेकी योग्यता केवल सच्ची पर्याप्त जीवोंमें चारों ही गतियोंमें होती है। अनादि मिथ्यादृष्टिको सर्वप्रथम प्रथमोदम सम्यक्त्व होता है। वहाँमें नियमसे गिरकर वह पुन मिथ्यात्वकी प्राप्त हो जाता है। पीछे कदाचित् वेदक-सम्यक्त्वको और तत्पूर्वक यथायोग्य गुणस्थानोंमें द्वितीयोपशम व क्षायिक हो जाता है। क्षायिक सम्यग्दर्शन अत्यन्त अचल व अप्रतिपाती है, तथा केवलीके पादभूलमें मनुष्योंको ही होना प्रारम्भ होता है। पीछे यदि मरण हो जाये तो चारो गतियोंमें पूर्ण होता है।

I सम्यग्दर्शन सामान्य निर्देश

१. सामान्य सम्यग्दर्शन निर्देश
- * सम्यग्दर्शन सामान्यका लक्षण। —दे सम्य /II/१।
- १ सम्यग्दर्शनके भेद।
- * सम्यक्त्वमार्गणाके भेद। —दे, सम्यग्दर्शन/IV/१।
- * निसर्गज व अधिगमजके लक्षण। —दे अधिगम।
- * निश्चय व्यवहार व सराग वीतराग भेद। —दे सम्य /II।
- * उपशमादि सम्यक्त्व। —दे सम्य /IV।
- २ आशा आदि १० भेदोंके लक्षण।
- ३ आशा सम्यक्त्वकी विशेषताएँ।
- ४ सम्यग्दर्शनमें 'सम्यक्' शब्दका महत्त्व।
- ५ सम्यग्दर्शनमें दर्शन शब्दका अर्थ।
 - १ सत्तामात्र अवलोकन इष्ट नहीं है।
 - २ कथंचित् सत्तामात्र अवलोकन इष्ट है।
 ३. व्यवहार लक्षणमें 'दर्शन' शब्दका अर्थ श्रद्धा है।
 ४. उपर्युक्त दोनों अर्थोंका समन्वय।
- * ब्रह्मान व अन्धब्रह्मान सम्बन्धी। —दे ब्रह्मान।

*	मार्गणाओं व पर्याप्त अपर्याप्तमें सम्यग्दर्शनका स्वामित्व व तद्गत शकार्ण । —दे वह वह नाम ।
*	सम्यक्त्वके स्वामित्वमें मार्गणा गुणस्थान आदि २० प्ररूपणाएँ । —दे सत् ।
*	सम्यक्त्व सम्बन्धी सत्, सख्या, क्षेत्र, स्थान, काल, अन्तर, भाव व अल्पबहुत्वरूप ८ प्ररूपणाएँ । —दे वह वह नाम ।
*	समी मार्गणाओंमें आयके अनुसार ही व्यय होनेका नियम । —दे मार्गणा ।
*	प्रथम सम्यग्दर्शनके प्रारम्भ सम्बन्धी । —दे मध्य /IV/२ ।
६	सम्यग्दर्शनके अपर नाम ।
७	सम्यक्त्वकी पुन-पुन प्राप्ति व विराधना सम्बन्धी नियम ।
*	सम्यग्दर्शनमें कर्मोंके बन्ध, उदय, सत्त्व सम्बन्धी । —दे वह वह नाम ।
२	सम्यग्दर्शनके अग व अतिचार आदि
१	सम्यग्दर्शनके आठ अगोंके नाम ।
०	आठों अगोंकी प्रधानता ।
*	निश्चय व्यवहार अगोंकी मुख्यता गौणता । —दे सम्य /III ।
३	सम्यग्दर्शनके अनेकों गुण ।
४	सम्यग्दर्शनके अतिचार ।
*	शक्ता अतिचार व सशय मिथ्यात्वमें अन्तर । —दे सशय/१ ।
५	सम्यग्दर्शनके ०५ दोष ।
६	कारणवशा सम्यक्त्वमें अतिचार लगनेकी सम्भावना ।
३	सम्यग्दर्शनकी प्रत्यक्षता-परोक्षता
१	छद्मर्थोंका सम्यक्त्व भी सिद्धोंके समान है ।
२	सम्यग्दर्शनमें कथंचित् स्व-पर गम्यता ।
*	सम्यग्दर्शनको अपने सम्यक्त्वके लिए किसीसे पुछनेकी आवश्यकता नहीं । —दे अनुभव/४/३ ।
३	वास्तवमें सम्यग्दर्शन गुण नहीं बल्कि प्रशमादि गुण ही प्रत्यक्ष होते हैं ।
४	सम्यक्त्व वास्तवमें प्रत्यक्षज्ञान गम्य है ।
५	सम्यक्त्वको सर्वथा क्षेत्रलक्षणगम्य कहना युक्त नहीं ।
४	सम्यक्त्वका ज्ञान व चारित्रिके साथ भेद
१	श्रद्धान आदि व आत्मानुभूति वस्तुतः सम्यक्त्व नहीं ज्ञानकी पर्याय हैं ।
०	प्रशम आदि ज्ञानरूप नहीं बल्कि सम्यक्त्वके कार्य हैं ।
३	प्रशमादि कथंचित् सम्यग्ज्ञानके भी घापक हैं ।

४	स्वात्मानुभूतिके ज्ञान व सम्यक्त्वरूप होने सम्बन्धी समन्वय ।
५	अनुभूति उपयोगरूप होती है और सम्यक्त्व लक्ष्यरूप ।
*	सम्यग्दर्शनमें कथंचित् विकल्प व निर्विकल्पता । —दे विकल्प/३ ।
६	सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञानमें अन्तर ।
*	सम्यग्दर्शन कथंचित् सम्यग्ज्ञानसे पूर्ववर्ती है । —दे ज्ञान/III/०/४ ।
*	सम्यग्दर्शनमें नय निक्षेपादिका स्थान । —दे न्याय/१/३ ।
*	सम्यग्दर्शनके साथ ज्ञान व वैराग्यका अविनामावी-पना । —दे. सम्यग्दर्शन/२ ।
७	सम्यक्त्वके साथ चारित्रिका कथंचित् भेद-अभेद ।
*	सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें-कथंचित् एकत्व अनेकत्व । —दे मोक्षमार्ग/२,३ ।
५	मोक्षमार्गमें सम्यग्दर्शनकी प्रधानता
१	सम्यग्दर्शनकी प्रधानताका निर्देश ।
२	सम्यग्दर्शन ही सार, सुउपनिधान, व मोक्षकी प्रथम सीढ़ी है इत्यादि महिमा ।
*	सम्यग्दर्शन नीचकुल आदिमें नहीं जन्मता । —दे जन्म/३/१ ।
३	सम्यग्दर्शनकी प्रधानतामें हेतु ।
४	सम्यग्दर्शन के पश्चात् भव धारणकी सीमा ।
II	निश्चय व्यवहार सम्यग्दर्शन
१	निश्चय व्यवहार सम्यक्त्व लक्षण निर्देश
१	सम्यग्दर्शनके दो भेद—निश्चय व्यवहार ।
२	व्यवहार सम्यग्दर्शनके लक्षण ।
१	देव आस्त्र व गुरु धर्मकी श्रद्धा ।
२	आप्त आगम व तत्त्वोंकी श्रद्धा ।
३	तत्त्वार्थ या पदार्थों आदिका श्रद्धान ।
४	पदार्थोंका विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान ।
५	यथावस्थित पदार्थोंका श्रद्धान ।
६	तत्त्वोंमें हेय व उपादेय बुद्धि ।
७	तत्त्व रुचि ।
*	प्रशमादि गुणोंकी अभिव्यक्ति । —दे सम्य /II/४/१ ।
३	निश्चय सम्यग्दर्शनके लक्षण
१	उपरोक्त पदार्थोंका शुद्धात्मासे भिन्न दर्शन ।
२	शुद्धात्माकी रुचि ।
३	अतीन्द्रिय सुखकी रुचि ।
४	वीतराग सुखस्वभाव ही 'मैं हूँ' ऐसा निश्चय ।
५	शुद्धात्मकी उपलब्धि आदि ।
*	स्वसत्वेदन ज्ञान निर्देश । —दे अनुभव ।
*	सम्यग्दर्शन व आत्माके कथंचित् एकत्व । —दे मोक्षमार्ग/२/६ ।

- * निश्चय व व्यवहार सम्यग्दर्शन ही वीतराग व सराग सम्यग्दर्शन है। —दे सम्यग्दर्शन/1/४/२।
- ४ लक्षणमें तत्त्व व अर्थ दोनों शब्द क्यों।
- ५ व्यवहार लक्षणोंका समन्वय।
- ६ निश्चय लक्षणोंका समन्वय।
- * आत्मानुभूतिको सम्यग्दर्शन कहनेका कारण। —दे सम्यग्दर्शन/1/४।
- ७ व्यवहार व निश्चय लक्षणोंका समन्वय।
- २ निश्चय व्यवहार सम्यग्दर्शनोंकी कथचित् मुख्यता गौणता
- १ स्वभाव भान बिना सम्यक्त्व नहीं।
- * निश्चय नयके आश्रयसे ही सम्यक्त्व होता है। —दे नय/V/३/३।
- * आत्माका जानना ही सर्व जिनशासनका जानना है। —दे श्रुतकेवली/२/६।
- * आत्मदर्शन रहित श्रद्धान सम्यग्दर्शन नहीं। —दे अनुभव/३।
- २ आत्मानुभवीको ही आठों अंग होते हैं।
- ३ आठों अंगोंमें निश्चय अंग ही प्रधान है।
- ४ श्रद्धान आदि सब आत्माके परिणाम हैं।
- ५ निश्चय सम्यक्त्वकी महिमा।
- ६ श्रद्धानमात्र सम्यग्दर्शन नहीं है।
- * सम्यग्दृष्टिको अन्धश्रद्धानका विधि-निषेध। —दे श्रद्धान/३।
- ७ मिथ्यादृष्टिकी श्रद्धा आदि यथार्थ नहीं।
- ३ निश्चय व्यवहार सम्यक्त्व समन्वय
- १ नमस्त्वोंकी श्रद्धाका अर्थ शुद्धात्मतत्त्वकी श्रद्धा ही है।
- * व्यवहार व निश्चय सम्यक्त्वमें केवल भापाका भेद है। —दे पद्धति/२।
- २ व्यवहार सम्यक्त्व निश्चयका साधक है।
- ३ तत्त्वार्थश्रद्धानको सम्यक्त्व कहनेका कारण व प्रयोजन।
- ४ सम्यक्त्वके अंगोंको सम्यक्त्व कहनेका कारण।
- ४ सराग वीतराग सम्यक्त्व निर्देश
- १ सराग-वीतरागरूप भेद व लक्षण।
- * वीतराग व सराग सम्यक्त्वकी स्व-परगम्यता। —दे सम्यग्-/1/३।
- ७ व्यवहार व निश्चय सम्यक्त्वके साथ इन दोनोंकी एकार्थता।
- ३ सराग व वीतराग सम्यक्त्वका स्वामित्व।

- ४ इन दोनों सम्यक्त्वों सम्बन्धी २५ दोषोंके लक्षणोंमें विशेषता।
- ५ दोनोंमें कथचित् एकत्व।
- ६ इन दोनोंमें तात्त्विक भेद मानना भूल है।
- ७ सराग सम्यग्दृष्टि भी कथचित् वीतराग है।
- ८ सराग व वीतराग कहनेका कारण प्रयोजन।
- III सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके निमित्त
- १ सम्यक्त्वके अन्तरंग व बाह्य निमित्तोंका निर्देश
- १ निसर्ग व अधिगम आदि।
- २ दर्शनमोहके उपशम आदि।
- ३ लब्धि आदि।
- ४ द्रव्य क्षेत्र-काल भाव रूप निमित्त।
- ५ जाति स्मरण आदि।
- ६ उपर्युक्त निमित्तोंमें अन्तरंग व बाह्य विभाग।
- २ कारणोंमें कथंचित् मुख्यता-गौणता व भेद-अभेद
- १ कारणोंकी कथंचित् मुख्यता।
- २ कारणोंकी कथंचित् गौणता।
- ३ कारणोंका परस्परमें अन्तर्भाव।
- ४ कारणोंमें परस्पर अन्तर।
- ३ कारणोंका स्वामित्व व शंकार्प
- १ चार्ण गतियोंमें यथासम्भव कारण।
- २ जिनविम्बदर्शन सम्यक्त्वका कारण कैसे ?
- ३ ऋषियों व तीर्थक्षेत्रोंके दर्शनोंका निर्देश क्यों नहीं।
- ४ नरकोंमें जातिस्मरण व वेदना सम्बन्धी।
- ५ नरकोंमें धर्मश्रवण सम्बन्धी।
- ६ मनुष्योंमें जिनमहिमा दर्शनके अभाव सम्बन्धी।
- ७ देवोंमें जिनविष दर्शन क्यों नहीं।
- ८ आनत आठिमें देवद्विदर्शन क्यों नहीं।
- ९ नवग्रहैवेयकोंमें जिनमहिमा व देवद्विदर्शन क्या नहीं ?
- १० नवग्रहैवेयकोंमें धर्मश्रवण क्यों नहीं।
- IV उपशमादि सम्यग्दर्शन
- १ उपशमादि सामान्य निर्देश
- १ सम्यक्त्व मार्गणाके उपशमादि भेद।
- * मिथ्यात्वादिका सम्यक्त्व मार्गणमें ग्रहण क्यों। —दे मार्गणा ७।
- २ तीनों सम्यक्त्वोंमें कथंचित् एकत्व।
- * तीनोंमें कथंचित् अधिगमत्र व निसर्गजपना। —दे सम्य /III/१/१।

- गुणधर्म व गुणध्याना आदिमें तीनोंके स्वामित्व व शक्ति । —दे वर वर नाम ।
 - तीनोंके स्वामित्वमें मागणान्याय व गुणन्याय आदि रूप २० प्ररूपणार्थे । —दे सत् ।
 - तीनों सम्बन्धी सत्, सत्त्वा, क्षेम, स्पर्शन, काल, अन्तर, मात्र व अन्यवस्तुरूप अष्ट प्ररूपणार्थे । —दे वर वर नाम ।
 - तीनोंके स्वामित्वको कर्मोंका बन्ध, उदय, सत्त्व । —दे वर वर नाम ।
 - तीनों सम्बन्धी त्रिमं ययामभव मरण सत्त्व । —दे मरण/३ ।
 - तीनों सम्बन्धी त्रिमं ययासभव जन्म सत्त्व । —दे जन्म/३ ।
 - तीनों सम्बन्धी त्रिमं पश्चात् भव धारणको सीमा । —दे सम्म 1/1/४ ।
 - उपशम व वेदककी पुन पुन प्राप्तिकी सीमा । —दे सम्म 1/१/७ ।
- २ प्रथमोपशम सम्यक्त्व निर्देश
- १ उपशम सामान्यका लक्षण ।
 - उपशम समयसम्बन्धी अत्यन्त निर्मलता । —दे सम्यग्दर्शन/IV/२/१ ।
 - उपशम समयसम्बन्धी स्वामित्व ।
 - ३ उपशम समयसम्बन्धी भेद व प्रथमोपशमका लक्षण ।
 - ४ प्रथमोपशमका प्रतिष्ठापक ।
 - १ गति व जीव ममामोंकी अपेक्षा ।
 - २ पुनस्थानोंकी अपेक्षा ।
 - ३ उपयुक्त योग व विशुद्धि आदिकी अपेक्षा ।
 - ४ कर्मोंके स्थितिवन्ध व सत्त्वकी अपेक्षा ।
 - प्रथमोपशमका निष्ठापक । —दे सम्यग्दर्शन/IV/२/२ ।
 - ५ तन्मके पश्चात् प्राप्ति योग्य सर्व लक्ष्य काल ।
 - ६ अनादि व मादि मिथ्यादृष्टिमें सम्यक्त्वप्राप्ति सम्बन्धी सुष्ट विशेषता ।
 - ७ प्रथमोपशममें व्युत्पन्न सम्बन्धी नियम ।
 - ८ मित्र व विम गुणन्यायमें अन्तर ।
 - प्रथमोपशममें सामान्यका प्राप्ति सम्बन्धी । —दे सामादन ।
 - प्रथमोपशममें अन्तर्गतकी विमयोपशमका कर्म-विशेष । —दे उपशम/२ ।
 - ९ अन्तर्गतकी विशेषता ।
 - प्रथमोपशममें उपशम विधि । —दे उपशम/२ ।
 - गति व गुणन्यायोंके स्वामित्व, सत्, सत्त्वा आदि प्ररूपणार्थे, कर्मोंके बन्ध आदि, मरण व जन्म तथा अन्तर्गतकी पुन पुन प्राप्तिकी सीमा सम्बन्धी विशेषता । —दे सम्यग्दर्शन/IV/१ ।

- प्रथमोपशमका मन पर्यय आदिके साथ विरोध । —दे परिहार विशुद्धि ।
- १० प्रारम्भ करनेके पश्चात् अवश्य प्राप्त करता है ।
- ३ द्वितीयोपशम सम्यक्त्व निर्देश
- १ द्वितीयोपशमका लक्षण ।
- २ द्वितीयोपशमका स्वामित्व ।
- द्वितीयोपशम आरोहण क्रम । —दे उपशम/३ ।
- ३ द्वितीयोपशमका अवरोहण क्रम ।
- द्वितीयोपशमसे सासादनकी प्राप्ति सत्त्व । —दे सासादन ।
- ४ श्रेणीसे नीचे आकर भी कुछ देर द्वितीयोपशमके साथ ही रहता है ।
- गति व गुणन्यायोंका स्वामित्व, सत्, सत्त्वा आदि प्ररूपणार्थे, कर्मोंके बन्ध आदि, मरण व जन्म, सत्त्व-स्थिति व पुन पुन प्राप्तिकी सीमा सम्बन्धी नियम । —दे सम्यग्दर्शन/IV/१ ।
- ४ वेदक सम्यक्त्व निर्देश
- १ वेदक सम्यक्त्व सामान्यका लक्षण ।
 - १ क्षयोपशमकी अपेक्षा ।
 - २ वेदककी अपेक्षा ।
 - दोनों लक्षणोंका समन्वय । —दे क्षयोपशम/२ ।
- २ कृतकृत्यवेदकका लक्षण ।
- ३ वेदक सम्यक्त्वके बाह्य चिह्न ।
- ४ वेदक सम्यक्त्वकी मलिनताका निर्देश ।
- ५ वेदक सम्यक्त्वका स्वामित्व ।
 - १ गति व पर्याप्तिकी अपेक्षा ।
 - २ गुणस्थानोंकी अपेक्षा ।
 - ३ उपशम सम्यग्दृष्टि व सादि मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा ।
- ६ अनादि मिथ्यादृष्टिकी सीमा प्राप्त नहीं होता ।
- वेदक सम्यक्त्व आरोहण विधि । —दे क्षयोपशम/३ ।
- ७ सम्यक्त्वसे व्युत्पन्न होनेवाले बहुत कम है ।
- ८ व्युत्पन्न होनेके पश्चात् अन्तर्गुह्यसे पहले सम्यक्त्व पुन प्राप्त नहीं होता ।
- ९ ऊपरके गुणन्यायोंमें दसका अभाव क्यों ?
- १० कृतकृत्यवेदक सम्बन्धी कुछ नियम ।
- गतियों व गुणन्यायोंमें दसका स्वामित्व, सत्, सत्त्वा आदि प्ररूपणार्थे, कर्मोंके बन्ध आदि, मरण व जन्म, तथा ममारस्थिति व पुन पुन प्राप्तिकी सीमा सम्बन्धी नियम । —दे सम्यग्दर्शन/IV/१ ।
- ५ क्षायिक सम्यक्त्व निर्देश
- १ क्षायिक सम्यग्दर्शनका लक्षण ।
- क्षायिक सम्यक्त्वकी निर्मलता । —दे सम्यग्दर्शन/IV/१ ।

२	<p>क्षायिक सम्यक्त्वका स्वामित्व ।</p> <p>१ गति व पर्याप्तिकी अपेक्षा ।</p> <p>२ प्रस्थापक व निष्ठापककी अपेक्षा ।</p> <p>३ गुणस्थानोंकी अपेक्षा ।</p>
३	तीर्थकर आदिके सद्भाव युक्त क्षेत्र व कालमें ही सम्भव है ।
*	तीर्थकर सत्कर्मिकको इसकी प्रतिष्ठापनाके लिए केवलीके पादमूल दरकार नहीं।—दे तीर्थकर/३/१३ ।
*	इसकी प्रतिष्ठापना अढाई द्वीपसे बाहर सभव नहीं । तथा तद्गत शकाएँ । —दे तिर्यक/३/११ ।
४	वेदक सम्यक्त्व पूर्वक ही होता है ।
*	दर्शनमोह क्षयण विधि । —दे क्षय/२ ।
५	क्षायिक सम्यग्दृष्टि सयतासयत होते हैं पर अत्यत अल्प ।
*	तीनो वेदोंमें क्षायिक सम्यक्त्वका कयचित् विधि-निषेध । —दे वेद/६ ।
*	एकैन्द्रिय या निगोदसे आकर सीधे क्षायिक सम्यक्त्व-को प्राप्ति सम्बन्धी । —दे जन्म/५ ।
*	गतियों व गुणस्थानोंमें इसका स्वामित्व, सत्, सख्या आदि प्ररूपणाएँ, कर्माके बन्ध आदि, मरण व जन्म व संसारस्थिति सम्बन्धी नियम । —दे सम्यग्दर्शन/IV/१ ।

२. आज्ञा आदि १० भेदोंके लक्षण

रा. वा /३/३६/२/२०१/१३ तत्र भगवदहर्त्सर्वज्ञप्रणीताज्ञामात्रनिमित्त-श्रद्धाना आज्ञारुचय' । नि.सगमोक्षमार्गश्रवणमात्रजनितरुचयो मार्ग-रुचय । तीर्थकरदलदेवादिशुभचरितोपदेशहेतुकश्रद्धाना उपदेश-रुचय । प्रव्रज्यामयादिप्ररूपणाचारसूत्रश्रवणमात्रसमुद्भूतसम्यग्दर्शना सूत्ररुचय । बीजपदग्रहणपूर्वकसूक्ष्मार्थतत्त्वार्थश्रद्धाना बीजरुचय । जीवादिपदार्थसमासबोधनसमुद्भूतश्रद्धाना सक्षेपरुचय । अट्पूर्व-विषयजीवाद्यर्थविस्तारप्रमाणनयादिनिरूपणोपलब्धश्रद्धाना विस्तार-रुचय । वचनविस्तारविरहितार्थग्रहणजनितप्रसादा अर्थरुचय । आचारादिद्वादशाङ्गाभिनिविष्टश्रद्धाना अवगाढरुचय । परमावधि-केवलज्ञानदर्शनप्रकाशितजीवाद्यर्थविषयात्मप्रसादा परमावगाढ-रुचय । =भगवत् अर्हत सर्वज्ञकी आज्ञामात्रको मानकर सम्यग्दर्शनको प्राप्त हुए जीव आज्ञारुचि हैं । अपरिग्रही मोक्षमार्गके श्रवण-मात्रसे सम्यग्दर्शनको प्राप्त हुए जीव भार्गुरुचि हैं । तीर्थकर बलदेव आदि शुभचारित्रके उपदेशको सुनकर सम्यग्दर्शनको धारण करने-वाले उपदेशरुचि हैं । दीक्षा आदिके निरूपक आचारागादिसूत्रोंके सुननेमात्रसे जिन्हें सम्यग्दर्शन हुआ है, वे सूत्ररुचि हैं । बीजपदोंके ग्रहणपूर्वक सूक्ष्मार्थ तत्त्वार्थ श्रद्धानको प्राप्त करनेवाले बीजरुचि हैं । जीवादि पदार्थोंके सक्षेप कथनसे ही सम्यग्दर्शनको प्राप्त होनेवाले संक्षेपरुचि हैं । अगपूर्वके विषय, प्रमाण नय आदिके विस्तार कथनसे जिन्हें सम्यग्दर्शन हुआ है वे विस्ताररुचि हैं । वचन विस्तारके बिना केवल अर्थग्रहणसे जिन्हें सम्यग्दर्शन हुआ है वे अर्थरुचि हैं । आचाराग द्वादशागमें जिनका श्रद्धान अतिदृढ है वे अवगाढरुचि हैं । परमावधि या केवलज्ञान दर्शनसे प्रकाशित जीवादि पदार्थविषयक प्रकाशसे जिनकी आत्मा विशुद्ध है वे परमावगाढरुचि हैं ।

आ. अनु /१२-१४ आज्ञासम्यक्त्वयुक्त यदुत विरुचितं वीतरागाज्ज्यैव, रयक्तग्रन्थप्रपञ्च शिवममृतपथ श्रद्धधन्मोहशान्ते । मार्गश्रद्धानमाहु पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता, या सज्ञानागमान्धिप्रसृतिभिरुपदेशादि-रादेशि दृष्टि । १२। आकर्ण्यचारसूत्र मुनिचरणविधे सूचन श्रद्धधान, सूक्तासी सूत्रदृष्टिर्दुरधिजमगतेर्यसार्थस्य बीजे । कैश्चिज्जातोप-लब्धैरसमशमवशाद्बीजदृष्टि पदार्थान्, सक्षेपैव बुद्ध्वा रुचिसुप-गतवाच्चासाधु सक्षेपदृष्टि । १३। य श्रुत्वा द्वादशाङ्गी कृतरुचिरथ तं विद्धि विस्तारदृष्टि, सजातार्थस्क्रुतश्चित्तवचनवचनान्यन्तरेणार्थ-दृष्टि । दृष्टि. साङ्गाङ्गाहाप्रवचनमवगाहोत्थिता यावगाढा, केवल्या-लोकिताथै रुचिरिह परमावदिगाढेति रूढा । १४। =दर्शनमोहके उपशान्त होनेसे ग्रन्थश्रवणके बिना केवल वीतराग भगवात्की आज्ञासे ही जो तत्त्वश्रद्धान उत्पन्न होता है वह आज्ञासम्यक्त्व है । दर्शन-मोहका उपशम होनेसे ग्रन्थश्रवणके बिना जो कस्याणकागी मोक्षमार्ग-का श्रद्धान होता है उसे मार्ग सम्यग्दर्शन कहते हैं । तिरसठ शलाका-पुरुषोंके पुराण (वृत्तान्त) के उपदेशसे जो तत्त्वश्रद्धान उत्पन्न होता है उसे उपदेश सम्यग्दर्शन कहा है । १२। मुनिके चारित्रानुष्ठानको सूचित करनेवाले आचारसूत्रको सुनकर जो तत्त्वार्थश्रद्धान होता है उसे सूत्रसम्यग्दर्शन कहा गया है । जिन जीवादिपदार्थोंके समूहका अथवा गणितादि विषयोंका ज्ञान दुर्लभ है उनका किन्हीं बीजपदोंके द्वारा ज्ञान प्राप्त करनेवाले भव्यजीवके जो दर्शनमोहनीयके असाधारण उपशमवशा तत्त्वश्रद्धान होता है उसे बीजसम्यग्दर्शन कहते हैं । जो भव्यजीव पदार्थोंके स्वरूपको सक्षेपसे ही जान करके तत्त्वश्रद्धानको प्राप्त हुआ है उसके उस सम्यग्दर्शनको सक्षेप सम्यग्दर्शन कहा जाता है । १३। जो भव्यजीव १२ अर्गोंको सुनकर तत्त्वश्रद्धानी हो जाता है उसे विस्तार सम्यग्दर्शनसे युक्त जाना । अग बाह्य आगमोंके पढनेके बिना भी उनमें प्रतिपादित किसी पदार्थके निमित्तसे जो अर्थश्रद्धान होता है वह अर्थसम्यग्दर्शन कहलाता है । अर्गोंके साथ अगबाह्य श्रुतका अवगाहन करके जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसे अवगाढ-सम्यग्दर्शन कहते हैं । केवलज्ञानके द्वारा देवे गये पदार्थोंमें देते गये

I सम्यग्दर्शन सामान्य निर्देश

१. सामान्य सम्यग्दर्शन निर्देश

१. सम्यग्दर्शनके भेद

स सि. १/७/२८/४ विधान सामान्यादेक सम्यग्दर्शनम् । द्वितयं निसर्गजाधिगमभेदात् । त्रितय औपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिक-भेदात् । एवं सख्येया विकल्पत शब्दत । असख्येया अनन्ताश्च-भवन्ति श्रद्धातुश्रद्धातन्व्यभेदात् (अध्वयसाग्रभेदात्—रा वा) । =भेदकी अपेक्षा सम्यग्दर्शन सामान्यसे एक है । निसर्गज और अधिगमजके भेदसे दो प्रकारका है (त सू /१/३) । औपशमिक, क्षायिक व क्षायोपशमिकके भेदसे तीन प्रकारका है । (और भी दे सम्यग्दर्शन/IV/१) । शब्दोंकी अपेक्षा सख्यात प्रकारका है, तथा श्रद्धान करनेवालेकी अपेक्षा असख्यात प्रकारका है, और श्रद्धान करने योग्य पदार्थों व अध्यवसायोंकी अपेक्षा अनन्त प्रकारका है । (रा वा. १/७/१४/४०/२८) (द. पा /टी /१२/१२/१२) ।

रा वा. ३/३६/२/२०१/१२ दर्शनार्थ दशधा—आज्ञामार्गोपदेशसूत्रबीज-सक्षेपविस्ताराथविगाढपरमावगाढरुचिभेदात् । =आज्ञा, मार्ग, उप-देश, सूत्र, बीज, सक्षेप विस्तार, अर्थ, अवगाढ और परमावगाढ रुचिके भेदसे दर्शनार्थ दश प्रकार है । (आ अनु /११) । (अन ध /२/६२/१८)

पदार्थोंके विषयमें रुचि होती है वह यहाँ परमावगाढ सम्यग्दर्शन इस नामसे प्रसिद्ध है। १४। (द पा/टी/१२/१२/२०)।

३. आज्ञा सम्यग्दर्शनकी विशेषताएँ

गो जो/जी, प्र/२७/५६/१२ य अर्हदाद्युपदिष्ट प्रवचन आध्यात्म-पदार्थत्रयं श्रद्धाति रोचते, तेषु असद्भाव अतत्त्वमपि स्वस्य विशेष-ज्ञानशून्यत्वेन केवलगुरुनियोगात् अर्हदाद्याज्ञात श्रद्धाति सोऽपि सम्यग्दृष्टिरेव भवति तदाज्ञाया अनतिक्रमात्। = जो, व्यक्ति अर्हत् आदिके उपदिष्ट प्रवचनकी या आस आगम व पदार्थ इन तीनोंकी श्रद्धा करता है और विशेष ज्ञान शून्य होनेके कारण केवल गुरु-नियोगसे या अर्हत्की आज्ञासे अतत्त्वोंका भी श्रद्धान कर लेता है वह भी सम्यग्दृष्टि है, क्योंकि, उसने उनकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं किया है। (विशेष दे, श्रद्धान/३)

अन घ/२/६३/१८६ देवोऽहंत्वेन तस्यैव वचस्तथ्य शिवप्रद । धर्मस्तदुक्त एवेति निर्बन्ध साधयेद् दृश्यम् । ६३। = एक अहंत् ही देव है और उसका वचन ही सत्य है। उसका कहा गया धर्म ही मोक्षप्रद है। इस प्रकारका अभिनिवेश ही आज्ञासम्यक्त्वको सिद्ध करता है। ६३।

घ १/१, १, १४४/गा २२२/३६५ छपचणवविहाण अस्थान जिणवरोव-इहाण । आणाए अहिगमेण व सद्दहण ह्येइ सम्मत । २२२। = जिनेन्द्र-देवके द्वारा उपदिष्ट छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, और, नव पदार्थोंकी आज्ञा अथवा अधिगमसे श्रद्धान करनेको सम्यक्त्व कहते हैं। २२२। (घ ४/१, ५ १/गा ६/३२६)

४ सम्यग्दर्शनमें 'सम्यक्' शब्दका महत्त्व

स सि/१/१/५/३ः सम्यगित्यव्युत्पन्न शब्दो व्युत्पन्नो वा । अञ्जते वनौ समञ्जतीति सम्यगिति । अस्यार्थ प्रशसा । स प्रत्येक परिसमा-प्यते । सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रमिति । भावानां याथात्म्यप्रतिपत्तिविषयश्रद्धानसग्रहात् दर्शनस्य सम्यग्विशेषणम् । = 'सम्यक्' शब्द अव्युत्पन्न अर्थात् रौद्रिक और व्युत्पन्न अर्थात् व्याकरण सिद्ध है। जब यह व्याकरणसे सिद्ध किया जाता है तब 'सम्' उपसर्ग पूर्वक 'अञ्च्' धातुसे त्रिवृत् प्रत्यय करनेपर 'सम्यक्' शब्द बनता है। सस्कृतमें इसकी व्युत्पत्ति समञ्जति इति सम्यक् इस प्रकार होती है। प्रकृतमें इसका अर्थ प्रशसा है। सूत्रमें आगे हुए इस शब्दको दर्शन, ज्ञान और चारित्र इनमें-से प्रत्येक शब्दके साथ जोड़ लेना चाहिए। यथा—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र। पदार्थोंके यथार्थ ज्ञान मूलके श्रद्धानका संग्रह करनेके लिए दर्शनके पहले सम्यक् विशेषण दिया है। (रा वा/१/१/३५/१०/६)

प घ-उ/४१७ सम्यग्दर्शनमिथ्याविशेषणम् विना श्रद्धाविमात्रका । सपक्षवद्विपक्षेऽपि वृत्तिरनाह्वयभिराचारिण ४१७। = सम्यक् और मिथ्या विशेषणोंके विना केवल श्रद्धा आदिकी सपक्षके समान विपक्षमें भी वृत्ति रहनेके कारण वे व्यभिचार दोषसे युक्त हैं।

५ सम्यग्दर्शनमें दर्शन शब्दका अर्थ

१. सत्ता मात्र अवलोकन इष्ट नहीं है

द्र स/टी/४३/१८६/६ नेदमेव तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षण सम्यग्दर्शनं वक्तव्यम् । तन्मादिति चेत्—तत्र श्रद्धान विकल्परूपमिदं तु निर्विकल्पं मत । = इस दर्शनको अर्थात् सत्तावलोकनमात्र दर्शनोपयोगको 'तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यग्दर्शन है' इस सूत्रमें जो तत्त्वार्थ श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन कहा गया है, सो न कहना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि उपरोक्त श्रद्धान तो विकल्परूप है और यह (दर्शनोपयोग) निर्विकल्प है। (विशेष दे सम्यग्दर्शन/II)।

२ कथंचित् सत्तामात्रवलोकन भी इष्ट है

रा, वा/२/७/६/११०/६ मिथ्यादर्शने अदर्शनस्यावरोधो भवति । निद्रा-निद्रादीनामपि दर्शनसामान्यावरणत्वात्तत्रैवान्तर्भाव । ननु च तत्त्वार्थश्रद्धान मिथ्यादर्शनमित्युक्तम्, सत्यमुक्तम्, सामान्यनिर्देशे विशेषान्तर्भावात्, सोऽप्येके विशेष । अयमपरो विशेष — अदर्शन-मप्रतिपत्तिमिथ्यादर्शनमिति । = मिथ्यादर्शनमें दर्शनावरणके उदय-से होनेवाले अदर्शनका अन्तर्भाव हो जाता है। और दर्शनसामान्यको आवरण करनेवाले होनेके कारण (दे दर्शन/४/६), चिद्रानिद्रा आदिका भी यहाँ ही अन्तर्भाव होता है। प्रश्न—तत्त्वार्थके अश्रद्धानको मिथ्यादर्शन कहा गया है। उत्तर—वह ठीक ही कहा गया है, क्योंकि, सामान्य निर्देशमें विशेषका अन्तर्भाव हो जाता है। तथा दूसरी बात यह है कि अदर्शन नाम अप्रतिपत्तिका है और वही मिथ्यादर्शन है। [अर्थात् स्वपर स्वरूपका यथार्थ अवलोकन न होना ही मिथ्या-दर्शन है।]

दे दर्शन/१/३ अन्तरग चित्प्रकाशका नाम अथवा जाननेके प्रति आत्म-प्रयत्नका नाम दर्शनोपयोग है। अथवा स्वरूप सचेदनका नाम दर्शनोपयोग है।

दे मोक्षमार्ग/३/६ दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये तीनों ही दर्शन व ज्ञानरूप सामान्य व विशेष परिणति है।

दे आगे इसी शीर्षकका समन्वय—[लौकिक जीवोंको दर्शनोपयोगसे बहिर्विषयोंका सत्तावलोकन होता है और सम्यग्दृष्टियोंको उसी दर्शनोपयोगसे आत्माका सत्तावलोकन होता है। दर्शन, श्रद्धा, रुचि ये सब एकार्थवाचक शब्द हैं।]

३ व्यवहार लक्षणमें दर्शनका अर्थ श्रद्धा इष्ट है

स सि/१/२/६/३ दृष्टेरालोकार्थत्वात् श्रद्धार्थगतिर्नोपपद्यते । धातूनाम-नेकार्थत्वाददोषः । प्रसिद्धार्थत्यागं कुत इति चेन्मोक्षमार्गप्रकरणत् । तत्त्वार्थश्रद्धान ह्यात्मपरिणामो मोक्षसाधनं युज्यते, भव्यजीव-विषयत्वात् । आलोकस्तु चक्षुरादिनिमित्तं सर्वसंसारिजीवसाधारण-त्वात्त मोक्षमार्गो युक्तः । = प्रश्न—दर्शन शब्द 'दृशि' धातुसे बना है जिसका अर्थ आलोक है अतः इससे श्रद्धानरूप अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता। उत्तर—धातुओंके अनेक अर्थ होते हैं, अतः 'दृशि' धातुका श्रद्धानरूप अर्थ करनेमें कोई दोष नहीं है। प्रश्न—यहाँ (अर्थात् 'तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यग्' है)—दे सम्यग्दर्शन/II/१, इस प्रकरणमें) दृशि धातुका प्रसिद्ध अर्थ क्यों छोड़ दिया। उत्तर—मोक्षमार्गका प्रकरण होनेसे।—तत्त्वार्थोंका श्रद्धानरूप जो आत्माका परिणाम होता है वह तो मोक्षका साधन बन जाता है क्योंकि वह भव्योंके ही पाया जाता है, किन्तु आलोक, चक्षु आदिके निमित्तसे होता है जो साधारणरूपसे सब संसारी जीवोंके पाया जाता है, अतः उसे मोक्षमार्ग मानना युक्त नहीं। (रा वा/१/२/२-४/१६/१०), (श्लो. वा/२/२/२/४)

नि. सा/ता वृ/३ दर्शनमपि जीवास्तिकायसमुज्जितपरमश्रद्धानमेव भवति ।

नि सा/ता वृ/१३ कारणदृष्टि सहजपरमपारिणामिकभावस्वभावस्य कारणसमयसारस्वरूपस्य स्वरूपश्रद्धानमात्रमेव । = १ शुद्ध जीवा-रितकायसे उत्पन्न होनेवाला जो परम श्रद्धान वही दर्शन है। २ कारण दृष्टि परमपारिणामिकभावरूप जिसका स्वभाव है, ऐसे कारणसमय-सारस्वरूप आत्माके यथार्थ स्वरूपश्रद्धानमात्र है।

प्र सा/ता वृ/८२/१०४/१६ तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणेन दर्शनेन शुद्धा दर्शनशुद्धा ।

प्र सा/ता वृ/२४०/३३३/१५ दर्शनशब्देन निजशुद्धात्मश्रद्धानरूप सम्यग्दर्शनं ग्राह्यम् । = १ तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणरूप दर्शनसे शुद्ध

हुआ दर्शनशुद्ध कहलाता है। २ दर्शन शब्दसे निजशुद्धात्म श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन ग्रहण करना चाहिए।

४ उपरोक्त दोनों अर्थोंका समन्वय

चा. पा/मू./१८ सम्महसण पस्सदि जाणदि णाणेण दब्बपजाया। सम्मेण य सहहदि परिहरदि चरित्तजे दोसे। १८। = यह आत्मा सम्यग्दर्शनसे सत्तामात्र वस्तुको देखता है और सम्यग्ज्ञानसे द्रव्य व पर्यायको जानता है। सम्यक्त्वके द्वारा द्रव्य पर्यायस्वरूप वस्तुका श्रद्धान करता हुआ चारित्रजनित दोषोको दूर करता है।

दे मोहनीय/२/१/ में घ/६—१ दर्शन, रुचि, प्रत्यय, श्रद्धा और स्पर्शन ये सब एकार्थवाचक नाम हैं। (दे. मिश्र/१/१ में घ./१/१६६)—
२. आस या आत्मामें, आगम और पदार्थोंमें रुचि या श्रद्धाको दर्शन कहते हैं।

घ १/१.१.१३३/३८४/४ अस्वसविद्वपो न कदाचिदप्यात्मोपलभ्यत इति चेन्न, तस्य बहिरङ्गोपयोगवस्थायामन्तरङ्गोपयोगानुपलम्भात्। = प्रश्न—अपने आपके सवेदनसे रहित आत्माकी तो कभी भी उपलब्धि नहीं होती। उत्तर—नहीं, क्योंकि, बहिरंगपदार्थोंकी उपयोगरूप अस्थामें अन्तरंग पदार्थका उपयोग नहीं पया जाता है।

प. प्र/टी./२/१३/१२७/६ तत्त्वार्थश्रद्धानरुचिरूप सम्यग्दर्शन मोक्षमार्गो भवति नास्ति दोष, पर्ययति निर्विकल्परूपेणवलोकयति इत्येव यदुक्त तत्सत्तावलोकदर्शन कथ मोक्षमार्गो भवति, यदि भवति चेत्तर्हि तत्सत्तावलोकदर्शनमभव्यानामपि विद्यते, तेषामपि मोक्षो भवति स चागमविरोध इति। परिहारमाह—तेषा निर्विकल्पसत्तावलोकदर्शनं बहिरविये विद्यते न चाभ्यन्तरशुद्धात्मतत्त्वविषये।

प प्र/टी./२/३४/१६४/१५ निजात्मा तस्य दर्शनमवलोकन दर्शनमिति व्याख्यात भवद्भिर्दिदं तु सत्तावलोकदर्शन मिथ्यादृष्टीनामप्यस्ति तेषामपि मोक्षो भवतु। परिहारमाह। चक्षुरचक्षुरवधिकेवलभेदेन चतुर्था दर्शनम्। अत्र चतुष्टयमध्ये मानसमचक्षुदर्शनमात्मग्राहक भवति, तच्च मिथ्यात्वादिसप्रकृत्युपशमक्षयोपक्षयजनिततत्त्वार्थ-श्रद्धानलक्षणसम्यक्त्वाभावात् शुद्धात्मतत्त्वमेवोपादेयमिति श्रद्धाना भावे सति तेषा मिथ्यादृष्टीर्ना न भवत्येवेति भावार्थ। = १ प्रश्न—‘तत्त्वार्थ श्रद्धा या तत्त्वार्थरुचिरूप सम्यग्दर्शन (दे सम्यग्दर्शन/II/१) मोक्षमार्ग होता है’ ऐसा कहनेमें दोष नहीं, परन्तु ‘जो देखता है या निर्विकल्परूपसे अवलोकन करता है’ ऐसा सत्तावलोकनरूप दर्शन जो आपने कहा है, वह मोक्षमार्ग कैसे हो सकता है। यदि हो तो है’ ऐसा मानो ता वह सत्तावलोकनरूप दर्शन तो अव्ययोंके भी होता है, उनको भी मोक्ष होना चाहिए और इस प्रकार आगमके साथ विरोध आता है। उत्तर—उनके निर्विकल्प सत्तावलोकनरूप दर्शन बाह्य विषयोंमें ही होता है, अत्यन्त शुद्धात्म तत्त्वके विषयमें नहीं। २ प्रश्न—निजात्माके दर्शन या अवलोकनको आपने दर्शन कहा है, और वह सत्तावलोकनरूप दर्शन मिथ्यादृष्टियोंके भी होता है। उनको भी मोक्ष होना चाहिए। उत्तर—चक्षु अचक्षु, अधि और केवलके भेदसे दर्शन चार प्रकारका है। इन चारोंमेंसे यहाँ मानस अचक्षु दर्शन आत्मग्राहक होता है। और वह मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियोंके उपशम, क्षय और क्षयोपशम जनित तत्त्वार्थ-श्रद्धान लक्षणवाने सम्यग्दर्शनका अभाव होनेके कारण, ‘शुद्धात्मतत्त्व ही उपादेय है’ ऐसे श्रद्धानका अभाव है। इसलिए वह मोक्ष उन मिथ्यादृष्टियोंके नहीं होता है।

दे सम्यग्दर्शन/II/३ (सत्त्वा तत्त्वार्थ श्रद्धान वास्तवमें आत्मानुभव सापेक्ष हो होता है।)

६. सम्यग्दर्शनके अपर नाम

म पु/६/१२३ श्रद्धारुचिस्पर्शप्रत्ययाश्चेति पर्याया। १२३। = श्रद्धा, रुचि, स्पर्श और प्रत्यय या प्रतीति ये सम्यग्दर्शनके पर्याय हैं। (प. घ./उ/४११),

७. सम्यक्त्वकी विराधना व पुनः पुनः प्राप्ति सम्यन्धी नियम

दे सम्यग्दर्शन/IV/२/६—[मनुष्योंमें जन्म लेनेके आठ वर्ष पश्चात् देव नारकियोंमें अन्तर्मुहूर्त पश्चात् और तिर्यन्चको दिवस पृथक्त्वके पश्चात् प्रथम सम्यक्त्व होना सम्भव है, इससे पहला नहीं।]

दे सम्यग्दर्शन/IV/२/७ [उपशम सम्यक्त्व अन्तर्मुहूर्त काल पश्चात् अवश्य छूट जाता है।]

दे सम्यग्दर्शन/IV/४/७ [वेदकसम्यग्दृष्टि सम्यक्त्वसे च्युत है पर अत्यन्त अल्प।]

दे सम्यग्दर्शन/IV/६/१ [क्षायिक सम्यग्दर्शन अप्रतिपाती है।]

दे सम्यग्दर्शन/IV/४/८ [एक बार गिरनेके पश्चात् अन्तर्मुहूर्त कालसे पहले सम्यक्त्व पुन प्राप्त नहीं होता।]

दे आयु/६/८ [वर्द्धमान देवायुवालेका सम्यक्त्व विराधित नहीं होता।]

दे तीर्थकर/३/८ [तीर्थकर प्रकृति सत्कमिकका सम्यक्त्व विराधित नहीं होता।]

दे, लेख्या/६/१ [शुभ लेख्याओंमें सम्यक्त्व विराधित नहीं होता।]

दे समय/२/१० [श्रीपशमिक व वेदक सम्यक्त्व व अनन्तानुग्रहीकी विसयोजना पर्यके असख्यातवर्ण भाग बार विराधित हो सकते हैं, इससे आगे वे नियमसे मुक्त होते हैं।]

दे श्रेणी/३ उपसमश्रेणीके साथ द्वितीयोपशम सम्यक्त्व अधिकसे अधिक चार बार विराधित होता है।]

दे सम्यग्दर्शन/II/६/४ [क्षायिक सम्यग्दृष्टि जघन्यसे ३ भव और उत्कर्षसे ७-८ भवोंमें अवश्य मुक्ति प्राप्त करता है।]

२. सम्यग्दर्शनके अग अतिचार आदि

१ सम्यग्दर्शनके आठ अंगोंका नाम

मू आ/२०१ णिस्स किद णिक्कखिद णिन्निदगिच्छा अमूढदिट्ठी य। उवगूहण ठिदिकरण वच्छवल पहावणा य ते अट्ट। २०१। = नि शक्ति, निष्कांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना ये आठ सम्यक्त्वके अग या गुण जानने चाहिए। २०१। (स मि/६/२४/३३-६), (रा वा/६/२४/१/६२६-६), (वसु आ/४८), (प घ/उ/४०२-४८०)

२. आठों अंगोंकी प्रधानता

र क आ/२१ नाद्गहीनमल छेत्तु दर्शन जन्मतत्तिसु। न हि मन्त्रोऽक्षरन्यूनो निहन्ति विपवेदना। २१। = जैसे एक दो अक्षररहित अशुद्ध मन्त्र विपकी वेदनाको नष्ट नहीं करता है, वैसे ही अक्षररहित सम्यग्दर्शन भी ससारकी स्थिति छेदनेको नमर्थ नहीं है। (चा मा/६/१)

का अ/मू/४२५ णिस्सका-पहुडि गुणा जह धम्मसे तह य देव गुरु तच्चे। जाणेहि जणमयादो मम्मत्तविमोहया एदे। ४२५। = ये नि शक्तिदि आठ गुण जैसे धर्मके विषयमें करें वैसे ही देव गुरु और तत्त्वके विषयमें भी जैनागमसे जानने चाहिए। ये आठों अंग सम्यग्दर्शनको विशुद्ध करते हैं। (वसु आ/४०)।

३. सम्यग्दर्शनके अनेकों गुण

(स सा / प्रक्षेपक गा / १७७) — सवेओ णिवेओ णिदा गरहा य उवसमो भत्तो । वच्छरत्त अणुक्का पुण्डु सम्मत्तजुत्तस्स । = सवेग, निर्वेद, निन्द्या, गर्हा, उपशम, भक्ति, अनुकम्पा, वात्सल्य ये आठ गुण सम्यक्त्व युक्त जीवके होते हैं । (चा सा / ६/२), (वसु, प्रा / ४६), (घ / उ, ४६६ में उद्धृत) ।

ज्ञा / ६/७ में उद्धृत श्लो, स ४ एक प्रशमसवेगदयास्तिवयादिलक्षणम् । आत्मन शुद्धिमात्र स्यादितरच्च समन्तत ४१ = एक (सराग) सम्यक्त्व तो प्रशम सवेग अनुकम्पा व आस्तिक्यसे चिह्नित है और दूमरा (वीतराग) समस्त प्रकारसे आत्माकी शुद्धिमात्र है । (प घ / उ/४२४-२५), (और भी दे सम्यग्दर्शन/II/४/१) ।

म पु / २१/९७ सवेग प्रशम-थेर्यम् असमूहत्वमस्मय । आस्तिक्यमनुकम्पेति ज्ञेया सम्यक्त्वभावना । ९७ = सवेग, प्रशम, स्थिरता, अमूढता, गर्व न करना, आस्तिक्य और अनुकम्पा ये सात सम्यग्दर्शनकी भावनाएँ जाननेके योग्य हैं । ९७ (म, पु / ६/१२३) ।

का अ / घ / ३१६ उत्तमगुणगहणरओ उत्तमसाहूण विणयसजुत्तो । साहम्मिय अणुराई सो सिद्धी हवे परमो । ३१६ = जो उत्तम गुणोंको ग्रहण करनेमें तत्पर रहता है, उत्तम साधुओंकी निनय करता है तथा साधर्मि जनोसे अनुराग करता है वह उत्कृष्ट सम्यग्दर्शि है ।

दे मय्यग्दर्शि/२/ (सम्यक्त्वके साथ ज्ञान, वैराग्य व चारित्र अवश्यम्भावी हैं) ।

दे मय्यग्दर्शन/II/२ (आत्मानुभव सम्यग्दर्शनका प्रधान चिह्न है) ।

दे सम्यग्दर्शन/III/१/१ (देव गुरु शास्त्र धर्म आदिके प्रति भक्ति तत्त्वोंके प्रति श्रद्धा सम्यग्दर्शनके लक्षण हैं) ।

दे सम्यग्दर्शि/४ (सम्यग्दर्शिमैं अपने दोषोंके प्रति निन्दन गर्हण अवश्य होता है) ।

४ सम्यग्दर्शनके अतिचार

त सू / ७/२३ शङ्काहक्षाविचिकिरसाऽन्यदृष्टिप्रशसासस्तवा सम्यग्दर्शन्तेरतिचारा । २३ = शका, कांक्षा, विचिकिरसा, अन्यदृष्टिप्रशसा और अन्यदृष्टिमस्तव ये सम्यग्दर्शिके ५ अतिचार हैं । (भ आ / नि / १६/६०/१०, तथा ४७७/७०७/१) ।

५- सम्यग्दर्शनके २५ दोष

ज्ञा / ६/८ में उद्धृत — मूढत्रय महाश्चाष्टी तथानायतनानि पट् । अष्टौ शङ्कादयश्चेति हृदोषा पञ्चविंशति । = तीन मूढता, आठ मद, छह अनायतन और शकादि आठ दोष अथवा आठ अंगोंसे उलटे आठ दोष ये २५ दोष सम्यग्दर्शनके कहे गये हैं । (द्र स / टी ४१/१६६/१०) ।

६. कारणवश सम्यक्त्वमें अतिचार लगानेकी संभावना सम्बन्धी

स मि / ७/२०/३६४/८ तत्सम्यग्दर्शन कि सापवाद निरपवादमिति । उच्यते — नव्याचिन्मोहनीयावस्थाविशेषात्कदाचिदिने भवन्त्यपवादाः । = प्रश्न — सम्यग्दर्शन सापवाद होता है या निरपवाद । उत्तर — किसी जीवके मोहनीयकी अवस्था विशेषके कारण ये (अगले मूत्रमें गताये गये शका कांक्षा आदि) अपवाद या अतिचार होते हैं । दे सम्यग्दर्शन / IV/४ (सम्यक्प्रकृतिके उदयसे चलमल आदि दोष होते हैं, पर हमसे मन्मथरमें क्षति नहीं होती) ।

३. सम्यग्दर्शनकी प्रत्यक्षता व परोक्षता

१. छद्मस्थोंका सम्यक्त्व भी सिद्धोंके समान है

दे. देव / I/१/६ (आचार्य, उपाध्याय व साधु इन तीनोंके रत्नत्रय भी सिद्धोंके समान हैं) ।

दे सम्यग्दर्शन/IV/१ (उपशम, क्षायिक व क्षायोपशमिक इन तीनों सम्यक्त्वोंमें यथार्थ श्रद्धानके प्रति कोई भेद नहीं है) ।

प का / ता वृ / १६०/२३१/१२ वीतरागसर्वज्ञप्रणीतजीवादिपदार्थविषये सम्यक् श्रद्धान ज्ञान चेत्युभय गृहस्थतपोधनयो समान चारित्र । = वीतराग सर्वज्ञप्रणीत जीवादि पदार्थोंके विषयमें सम्यक् श्रद्धान व ज्ञान ये दोनों गृहस्थ व तपोधन साधुओंके समान ही होते हैं । परन्तु इनके चारित्रमें भेद है ।

मो मा प्र / ६/४७५/११ जेसे छद्मस्थके श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति पाए है जैसा सप्ततत्त्वनिका श्रद्धान छद्मस्थके भया था, तैसा ही केवली सिद्ध भगवान्के पाए है । ताते ज्ञानादिकको हीनता अधिकता हीतें भी तिर्यचादिक वा केवली सिद्ध भगवान्के सम्यक्त्व गुण समान है ।

२ सम्यग्दर्शनमें कथंचित् स्व-परगम्यता

श्लो वा / २/१/२/श्लो १२/२६ सरागे वीतरागे च तस्य सभवतोऽञ्जसा । प्रशमादेरभिव्यक्ति शुद्धिमात्रा च चेतस १२ ।

श्लो वा २/१/२/२/२४/५/५ — एतानि प्रत्येक समुदितानि वा स्वस्मिन् स्वसविदितानि, परत्र कायवागव्यवहारविशेषासङ्गानुमितानि सरागसम्यग्दर्शन ज्ञापयन्ति, तद्भावे मिथ्यादृष्टिस्वस भवित्वात् सभवे वा मिथ्यात्वायोगात् । (३४/१७) । मिथ्यादृष्टामपि केपाचि-रुद्धोपायपुत्रेकदर्शनात् प्रशमोऽनैकान्तिक इति चेन्न तेषामपि सर्व-थैकान्तेऽनन्तानुबन्धिनो मानस्योदयात् । स्वाम्नि चानैकान्तात्मनि द्वेषोदयस्यावश्यभावात् पृथिवीकायिकादिषु प्राणिषु हननदर्शनात् । (३५/५) । नन्वेव यथा सरागेषु तत्त्वार्थश्रद्धान प्रशमादिभिरनुमीयते यथा वीतरागेष्वपि तत्ते किं नानुमीयते । इति चेन्न, तस्य स्वस्मि-शरामविशुद्धिमात्रत्वात् सकलमोहाभावे समारोपानवतारात् स्वसवेदना-देव निश्चयोपपत्तेरनुमेयत्वाभावात् । परत्र तु प्रशमादीनां तल्लिङ्गानां सतामपि निश्चयोपपत्तेरनुमेयत्वाभावात् कायादिव्यवहारविशेषाणामपि तदुपायानामभावात् । (४४/१०) । कथमिदानीमप्रमत्तादिषु सूक्ष्मसाम्प्रतया-न्तेषु सदृशन प्रशमादेरनुमातुं शक्यम् । तन्निर्णयोपायानां कायादिव्य-वहारविशेषाणामभावादेव । सोऽप्यभिहितानभिज्ञ, सर्वेषु सरागेषु सदृशनप्रशमादिभिरनुमीयत इत्यनभिधानात् । यथासंभवं सरागेषु वीतरागेषु च सदृशनस्य तदनुमेयत्वमात्मविशुद्धिमात्रत्वं चेत्यभिहित-त्वात् । (४५/३) । = १ सराग व वीतराग दोनोंमें ही सम्यग्दर्शन सम्भव है । तहाँ सरागमें तो प्रशमादि लक्षणोंके द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है और वीतरागमें वह केवल चित्तविशुद्धि द्वारा लक्षित होता है । श्लो १२ । (अन घ / २/५१/१७८) । २ प्रशमादि गुण एक एक करके या समुदित रूपसे अपनी आत्मामें तो स्वदेवद-गम्य है और दूसरोंमें काय व वचन व्यवहाररूप विशेष ज्ञापक लिंगों द्वारा अनुमानगम्य हैं । इन प्रशमादि गुणों परसे सम्यग्दर्शन जान लिया जाता है । (३४/१७) — (पं घ / उ / ३८८), (और भी दे अनुमान २/५), (चा, पा / प जयचन्द/१२/८५), (रा, वा / हि/१२/२४) । ३ सम्यग्दर्शनके अभावमें वे प्रशमादि गुण मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सम्भव नहीं है यदि वहाँ इनका होना माना जायेगा तो वहाँ मिथ्यादृष्टिपना सम्भव न हो सकेगा । (२७/१८) । प्रश्न — किन्हीं किन्हीं मिथ्यादृष्टियोंमें भी क्रोधादिका तीव्र उदय नहीं पाया जाता है इसलिए सम्यग्दर्शनकी सिद्धिमें दिया गया उपरोक्त प्रशमादि गुणों वाला ऐंठ व्यभिचारी है । उत्तर — नहीं है, क्योंकि, उनके स्वमान्य एकान्त मतोंमें अनन्तानुबन्धीजन्य तीव्र भाव पाया जाता है ।

आत्मस्वरूप व अनेकान्तमतमें उन्हें द्वेषका होना अवश्यभावी है। तथा पृथिवीकायिक आदिकोंकी हिमा करना भी उनमें पाया जाता है। (३५/५) [जैसे सम्यग्दृष्टिमें होते है वैसे प्रशमादि गुण मिथ्या-दृष्टि में नहीं पाये जाते—द पा /प, जयचन्द] (द पा /प, जयचन्द/२/पृष्ठ ७ व १५) । = प्रश्न—४ जिस प्रकार सराग सम्यग्दृष्टिमें उसकी अभिव्यक्ति प्रशमादि गुणोंद्वारा अनुमानगम्य है उसी प्रकार वीतराग सम्यग्दृष्टियोंमें भी उन्हींके द्वारा अनुमानगम्य क्यों नहीं ? उत्तर—नहीं, क्योंकि वीतरागोंका तत्त्वार्थश्रद्धान अपनैमें आत्म-विशुद्धिरूप होता है। सकल मोहके अभावमें तहाँ समारोपको अर्थात् संशय आदिको अकाश न होनेसे, उमका स्वमवेदनसे ही निश्चय होता है, क्योंकि, वह विशुद्ध अनुमानका विषय नहीं है। ५ दूमरी बात यह भी है कि वीतराग जनोमें, सम्यग्दर्शनके ज्ञापक प्रशमादि गुणोंका तथा वचन व काय व्यवहाररूप विशेष ज्ञापक लिंगोंका मन्त्राव होतै हुए भी, वे अति मूढ़न होनेके कारण वे छद्मस्थोंके गोचर नहीं हो पाते, क्योंकि, छद्मस्थोंके पास उनको जाननेका कोई साधन नहीं है। इसलिए वे गुण व लिंग वीतराग सम्यग्दर्शनके अनुमानके उपाय नहीं है। (४४/१०) । प्रश्न—६ सातवेंसे लेकर दसवें पर्यंतके अप्रमत्त सराग गुणस्थानोंमें सम्यग्दर्शनका अनुमान कैसे किया जा सकता है, क्योंकि, उनमें उसके निर्णयके उपाय भूत, काय व वचन व्यवहाररूप विशेष ज्ञापक लिंगोंका अभाव है। उत्तर—तुम हमारे अभिप्रायको नहीं समझे। सर्व ही सराग जीवोंके सम्यग्दर्शनका अनुमान केवल इन गुणों व लिंगोंपरसे ही होता हो, ऐसा नियम नहीं किया गया है। बल्कि यथा सम्भव वीतराग व सराग दोनोंमें ही सम्यग्दर्शनकी अनुमेयता आत्मविशुद्धि होती है, ऐसा हमारा अभिप्राय है [अर्थात् ४-६ वाले सराग प्रमत्त गुणस्थानोंमें तो प्रशमादि गुणोंसे तथा ७-१० तकके सराग अप्रमत्त गुणस्थानोंमें आत्म-विशुद्धिसे उसकी अभिव्यक्ति होती है]। (४५/३) (अ न ध /२/ ५३/१७६) ।

दे अनुभव/४ (आत्मानुभव स्वमवेदन प्रत्यक्ष होता है) ।
मो मा /प्र /७/३५७/८ ब्रह्म लिंगोंके स्थूल ती अन्यथापना है नाहीं, सूक्ष्म अन्यथापनी है, सी सम्यग्दृष्टिकी भासे है ।
दे प्रायश्चित्त/३/१ (सहजासमें रहकर दूमरोंके परिणामोंका अनुमान किया जा सकता है ।)

३. वास्तवमें सम्यग्दर्शन नहीं बल्कि प्रशमादि गुण ही प्रत्यक्ष होते हैं

श्लो वा /२/१/२/३/५/१ ननु प्रशमादयो यदि स्वस्मिन् स्वसवेद्या श्रद्धानमपि तत्त्वार्थानां किं स्वसवेद्यम् यतस्तेऽनुमीयते । स्वसवेद्यत्वाविशेषेऽपि तैस्तदनुमीयते न पुनस्ते तस्मादिति क श्रद्धधीतान्यत्रापरीक्षादिति चेत्, नैतत्सारम्, दर्शनमोहोपशमादिविशिष्टात्मस्वरूपस्य तत्त्वार्थश्रद्धानस्य स्वसवेद्यत्वानिश्चयात् । स्वसवेद्यपुनरास्तित्वय तदभिव्यञ्जक प्रशमसवेद्यानुकम्पावत् कथंचित्ततो भिन्न तत्फलत्वात् । तत् एव फलतद्वतोरभेदविषयायामास्तित्वमेव तत्त्वार्थश्रद्धानमिति, तस्य तद्वत्प्रत्यक्षसिद्धत्वात्तदनुमेयत्वमपि न विरुध्यते । = प्रश्न—यदि प्रशमादि गुण अपनी आत्मामें स्वसवेदनगम्य है तो तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन ही स्वसवेदनगम्य क्यों न हो जाय। क्यों उसे प्रशमादिके द्वारा अनुमान करनेकी आवश्यकता पड़े। क्योंकि, आत्माके परिणामपनेरूपसे दोनोंमें कोई भेद नहीं है। पहिले स्वसवेदनसे प्रशमादि को जानें और फिर उनपरसे सम्यग्दर्शन का अनुमान करें, ऐसा व्यर्थका परस्परप्रय क्यों कराया जाय। उत्तर—यह कहना सार रहित है, क्योंकि दर्शनमोहके उपशमादि विशिष्ट आत्मस्वरूप तत्त्वार्थश्रद्धानका स्वसवेदनसे निश्चय नहीं हो सकता। परन्तु प्रशम सवेग आदि गुणोंकी भाँति आस्तिक्य गुण स्वसवेद्य होता हुआ उसका अभिव्यञ्जक हो जाता है। श्रद्धानके

फलरूप होनेके कारण ये चारों प्रशमादि गुण उस श्रद्धानसे कथंचित् भिन्न हैं। फल और फलवात्की अभेद विवक्षा करने पर वह आस्तिक्य गुण ही तत्त्वार्थश्रद्धान है। इस प्रकार उस आस्तिक्यकी भाँति उस तत्त्वार्थ श्रद्धानकी भी स्वसवेदन प्रत्यक्षसे सिद्धि हो जाती है।

४ सम्यक्त्व वस्तुतः प्रत्यक्षज्ञान गम्य हैं

पं, ध /उ /श्लो स सम्यक्त्व वस्तुतः सूक्ष्म केवलज्ञानगाचरम् । गोचर स्वावधिस्थान्त पर्ययज्ञानयोर्द्वयो १३५५। न गोचर मतिज्ञानदुत्त-ज्ञानद्वयोर्मनाक् । नापि देशावधेस्तत्र विषयोऽनुपलब्धित १३५६। सम्यक्त्व वस्तुतः सूक्ष्ममस्ति वाचामगोचरम् । तस्मात् वस्तु च श्रोतु च नाधिकारी विधिक्रमात् १४००। = सम्यक्त्व वास्तवमें सूक्ष्म है और केवल ज्ञानके गोचर है, तथा अविधि और मन पर्यय ज्ञानके भी गोचर है। [क्योंकि अविधि ज्ञान भी जीवके औपशमिक आदि कर्म सयोगी भावोंको प्रत्यक्ष जाननेमें समर्थ है (दे अविधिज्ञान/८)] १३७५। परन्तु मति और श्रुत ज्ञान और देशावधि इनके द्वारा उसकी उपलब्धि सम्भव नहीं है १३७६। वास्तवमें सम्यक्त्व सूक्ष्म है और वचनोके अत्यन्त अगोचर है, इसलिए कोई भी जीव उसके विधि पूर्वक कहने और सुननेका अधिकारी नहीं है १४००।
दे सम्यग्दर्शन/१/४ [प्रशमादि गुण तथा आत्मानुभूति भी सम्यग्दर्शन नहीं ज्ञानकी पर्याय हैं। अतः स्वसवेद्य श्रुतज्ञान द्वारा भी वह प्रत्यक्ष नहीं है ।]

५ सम्यक्त्वको सर्वथा केवलज्ञानगम्य कहना युक्त नहीं है।

द पा /प. जयचन्द/२/पृ. ८ = प्रश्न—कैसे कहे है जो सम्यक्त्व तो केवलीगम्य है याते आपके सम्यक्त्व भयेका निश्चय नहीं होय, ताते आपके सम्यग्दृष्टि नहीं मानना ? उत्तर—सी ऐसे सर्वथा एकान्त करि कहना तो मिथ्यादृष्टि है, सर्वथा ऐसे कहे व्यवहारका लोप होय, सर्व सुनि श्रावककी प्रवृत्ति मिथ्यात्वसहित ठहरै। तब सर्व ही मिथ्यादृष्टि आपके मानै, तब व्यवहार नाहै न रह्या, ताते परीक्षा भये पीछे (दे, शीर्षक स २) यह श्रद्धान नाही राखणा जो मैं मिथ्यादृष्टि ही हूँ।

४ सम्यग्दर्शनका ज्ञान व चारित्रिके साथ भेद

१. श्रद्धान आदि व आत्मानुभूति वस्तुतः सम्यक्त्व नहीं ज्ञानकी पर्याय हैं

प ध /उ /श्लो स श्रद्धानादिगुणा बाह्य लक्ष्म सम्यग्दृष्टात्मन । न सम्यक्त्व तदेवेति सन्ति ज्ञानस्य पर्याया १३८६। अपि चात्मानुभूतिश्च ज्ञान ज्ञानस्य पर्यायात् । अर्थात् ज्ञान न सम्यक्त्वमस्ति चेद्बाह्यलक्षणम् १३८७। तत्त्वार्थाभिमुखी बुद्धि श्रद्धा सात्म्य रुचिरतया । प्रती-तिस्तु तथेति स्यात्स्वीकारश्चण क्रिया १४१२। अर्थादाश्रित्य ज्ञानं ज्ञानस्यैवात्र पर्यायात् । चरण वाक्कायचेतोभिर्व्यापार शुभकर्मसु १४१३। = सम्यग्दृष्टि जीवके श्रद्धान आदि गुण (लक्षण) बाह्य लक्षण है, इसलिए केवल उन श्रद्धानादिको ही सम्यक्त्व नहीं कह सकते हैं क्योंकि वे वास्तवमें ज्ञान की पर्याय हैं १३८६। तथा आत्मानुभूति भी ज्ञान ही है, क्योंकि वह ज्ञानकी पर्याय है। इसलिए इसको भी ज्ञान ही कहना चाहिए सम्यक्त्व नहीं। यदि इसे सम्यक्त्वका लक्षण भी उन्हें तो बाह्य लक्षण ही कहें अन्तरग नहीं १३८७। (ला स/३/४१-४२) तत्त्वार्थोंके विषयमें उन्मुख बुद्धि श्रद्धा करताती है तथा उनके विषयमें तन्मयता रुचि कहलाती है, और 'यह ऐसा ही है' इस प्रकारका स्वीकार प्रतीति कहलाती है, तथा उसके अनुसार

आचरण करना चरण कहलाता है। १४१२। इन चारोंमें वास्तवमें आदि वाले भ्रद्वादि तीन ज्ञानकी ही पर्याय होनेसे ज्ञानरूप है तथा वचन, काय व मन से शुभ कार्योंमें प्रवृत्ति करना चरण कहलाता है। १४१३। वे अनुभव/४ (आत्मानुभव-स्वस्ववेदन रूप ज्ञान है)

२ प्रशमादिक ज्ञानरूप नहीं वरिक्त सम्यक्त्वके कार्य है

श्लो वा /२/१/२/१२/३६-४१ सम्यग्ज्ञानमेव हि सम्यग्दर्शनमिति केचिद्विप्रवदन्ते, तात् प्रतिज्ञानात् भेदेन दर्शन प्रशमादिभि कार्यविशेषै प्रकाशयते । (३६।६)। ज्ञानकार्यत्वात्तेषां न तत्प्रकाशकत्वमिति चेन्न अज्ञाननिवृत्तिफलत्वात् ज्ञानस्य । साध्याज्ञाननिवृत्तिर्ज्ञानरय फल, परम्परया प्रशमादयो हानादिबुद्धिवदिति चेत्, तर्हि हानादिबुद्धिवदेव ज्ञानादुत्तरकाल प्रशमादायानुभूयेरन्, न चैव ज्ञानसमकाल प्रशमाद्यनुभवनात् । (३६।२५) । सम्यग्दर्शनसमसमयमनुभूयमानत्वात् प्रशमादेरत्फलत्वमपि माभूत् इति चेन्न, तस्य तदभिन्नफलत्वोपगमात्तरसमसमयवृत्तित्वाविरोधात्, ततो दर्शनकार्यत्वादर्शनस्य ज्ञापका प्रशमादय । = प्रश्न—सम्यग्ज्ञान ही वास्तवमें सम्यग्दर्शन है । उत्तर—प्रश्न आदिक विशेष कार्योंसे दर्शन व ज्ञानमें भेद है । प्रश्न—प्रशमादि क्रिया विशेष तो सम्यग्ज्ञानके कार्य है, अत वे सम्यग्ज्ञानके ही ज्ञापक होंगे । (३६।६) उत्तर— नहीं, क्योंकि ज्ञानका फल तो अज्ञान निवृत्ति है । प्रश्न—ज्ञानका अव्यवहित फल तो अज्ञान निवृत्ति है, किन्तु उसका परम्परा फल प्रश्न आदि है जैसे कि हेय पदार्थमें त्याग बुद्धि होना उसका परम्परा फल है । उत्तर— यदि ऐसा है तो उस त्याग बुद्धिके समान ये प्रशमादि भी ज्ञानके उत्तर कालमें ही अनुभवमें आने चाहिए । परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि ज्ञानके समकालमें ही उनका अनुभव देखा जाता है । (३६।२५) प्रश्न—तब तो सम्यग्दर्शनके समकालमें ही अनुभव गोचर होनेके कारण वे सम्यग्दर्शनके भी फल न हो सकेंगे ? उत्तर—नहीं, सम्यक्त्वके अभिन्न फलस्वरूप होनेके कारण प्रशमादिकी समकाल वृत्तिमें कोई विरोध नहीं है । इसलिए दर्शनके कार्य होनेसे वे प्रशमादि सम्यग्दर्शनके ज्ञापक हेतु है ।

३ प्रशमादि कथंचित सम्यग्ज्ञानके भी ज्ञापक है

श्लो वा /२/१/२/१२/४१/६ प्रशमादय सहचरकार्यत्वात् ज्ञानस्येत्यनवयम् । = सम्यग्ज्ञानरूप साध्यके साथ रहनेवाले सम्यग्दर्शनके कार्य हो जानेसे वे प्रशमादिक सम्यग्ज्ञानके भी ज्ञापक हेतु हो जाते हैं ।

४ स्वानुभूतिके ज्ञान व सम्यक्स्वरूप होने सम्बन्धी समन्वय

प ध/उ/श्लो स नन्वात्मानुभव साक्षात् सम्यक्त्व वस्तुत स्वयम् । सर्वत सर्वकालेऽस्य मित्याष्टपरेषु भवात् । ३८६। नैव यतोऽनभिज्ञोऽसि सत्सामान्यविशेषयो । अयनाकारसाकारलिङ्गयोस्तद्यथोच्यते । ३९०। ततो वस्तुमशक्यत्वात् निर्विकल्पस्य वस्तुन । तदुपलेश समालेश्य ज्ञानद्वारा निरूप्यते । ३९६। तत्राप्यात्मानुभूति सा विशिष्ट ज्ञानमात्मन । सम्यक्त्वेनाविनाभूतमन्वयाद्भव्यतिरेकत । ४०२। ततोऽस्ति योग्यता वस्तु व्याप्ते सद्भावतस्तयो । सम्यक्त्व स्वानुभूति स्यात्सा चेच्छ्रुतन्यात्मिका । ४०३। = प्रश्न—साक्षात् आत्माका अनुभव वास्तवमें स्वयं सम्यक्स्वरूप है, क्योंकि, किसी भी क्षेत्र या कालमें वह मित्याष्टपट्टिके प्राप्त नहीं हो सकता है । ३८६। उत्तर—ऐसा नहीं है, क्योंकि, सामान्य और विशेषके लक्षणभूत अनाकार और साकारके विषयमें भी तुम अनभिज्ञ हो । ३९०। [ज्ञानके अतिरिक्त सर्वगुण निर्विकल्प व निराकार हैं (वे गुण/२/१०)] और निर्विकल्प वस्तुके वचनकी, आर्यचनीय होनेके कारण, ज्ञानके द्वारा उन सामान्यात्मक गुणों का उल्लेख करके उनका निरूपण किया

गया है । ३९६। उस सम्यग्दर्शनके लक्षणमें भी जो आत्माका अनुभव है वह आत्माका विशेष ज्ञान है जो सम्यक्त्वके साथ अन्य व्यक्तिके अविनाभावो है । ४०२। इसलिए इन दोनोंमें व्याप्ति होनेके कारण वचनके अगोचर भी सम्यक्त्व वचन गोचर हो जाता है, इसलिए यदि शुद्धन्यात्मिका हो तो वह स्वानुभूति सम्यक्त्व कहलाती है । ४०३।

५. अनुभूति उपयोगरूप होती है और सम्यक्त्व लब्ध रूप

प ध/उ/श्लोक स किंचास्ति विषमव्याप्ति सम्यक्त्वानुभवद्वयो । नोपयोगे समव्याप्तिरस्ति लब्धिबिधौ तु सा । ४०४। तत्पथा स्वानुभूतौ वा तत्काले वा तदात्मनि । अस्त्यवश्य हि सम्यक्त्व यस्मात्सा न विनापि तत् । ४०५। यदि वा सति सम्यक्त्वे स स्याद्वा नोपयोगवात् । शुद्धानुभवस्तत्र लब्धिरूपोऽस्ति वस्तुन । ४०६। हेतुस्तत्रास्ति सधीची सम्यक्त्वेनान्वयादिह । ज्ञानसचेतनानलब्धिर्नित्या स्वावरणव्ययात् । ५२२। साधं तेनोपयोगेन न स्याद्भव्यासिद्धयोरपि । विना तेनापि सम्यक्त्व तदास्ते सति स्याद्यत् । ५७६। आत्मनोऽन्यत्र कुत्रापि स्थिते ज्ञाने परात्मसु । ज्ञानसचेतनाया स्यात्क्षति साधोयसी तदा । ६००। सत्य चापि क्षतेरस्या क्षति साध्यस्य न क्वचिद् । इयानात्मोपयोगस्य तस्यास्तत्राप्यहेतुत् । ६०१। साध्य यदर्शनाच्छेतीर्निर्जरा चाष्टकर्मणात् । स्वतो हेतुवशाच्छेतेर्न तद्वत् स्वचेतना । ६०२। अनिधनत्रिह सम्यक्त्व रागोऽय बुद्धिपूर्वक । नून हन्तु क्षमो न स्याज्ज्ञानसचेतनामिमाम् । ६१५। = सम्यग्दर्शन और स्वानुभव इन दोनोंमें विषमव्याप्ति है क्योंकि (अनुभूति उपयोग रूप है और सम्यक्त्व लब्धरूप) उपयोगरूप स्वानुभूतिके साथ सम्यक्त्वकी समव्याप्ति नहीं है किन्तु लब्धिरूप स्वानुभूतिके साथ ही उसकी समव्याप्ति है । ४०४। वह इस प्रकार कि स्वानुभवके होनेपर अथवा स्वानुभूतिके कालमें भी उस आत्मामें अवश्य ही ज्ञात होता है, क्योंकि उस सम्यग्दर्शनरूप कारणके बिना वह स्वानुभूतिरूप कार्य नहीं होता है । ४०५। अथवा यों कहिए कि सम्यग्दर्शनके होनेपर वह आत्मा स्वानुभूतिके उपयोगसे सहित ही ऐसा कोई नियम नहीं, परन्तु स्वानुभूति यदि होती है तो सम्यक्त्वके रहनेपर ही होती है । ४०६। इसमें भी हेतु यह है कि सम्यक्त्वके अविनाभूत स्वानुभूति मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे समीचीन ज्ञानचेतनाकी लब्धि उसके सदैव पायी जाती है । ५२२। परन्तु आत्मोपयोगके साथ सम्यक्त्वकी व्याप्ति नहीं है, क्योंकि आत्माके उपयोगके न रहते हुए भी वह सम्यक्त्व रहता है और उपयोगके रहते हुए भी । ५७६। प्रश्न—शुद्धात्माके सिवा किन्हीं अन्य पदार्थोंमें जब ज्ञानका उपयोग होता है तब ज्ञान चेतनाकी हानि अवश्य होती है । ६००। उत्तर— ठीक है कि तब ज्ञानचेतनाकी क्षति तो हो जाती है परन्तु उसकी साध्यभूत संवर निर्जराकी हानि नहीं होती है, क्योंकि, वह उपयोगरूप ज्ञानचेतना संवर निर्जराके हेतु नहीं है । ६०१। स्वात्माको विषय करना ही उसका कार्य है, क्योंकि, सम्यग्दर्शनके निमित्तसे आठों कर्मोंकी निर्जरा होना जो साध्य है, वह स्वयं सम्यक्त्वकी शक्तिके कारण होता है, अत ज्ञान चेतना उसमें कारण नहीं है । ६०२। यहाँपर यह बुद्धिपूर्वक औदयिक भाव-रूप राग सम्प्रसरकका घात नहीं करता है इसलिए वह इस लक्षरूप ज्ञानचेतनाका घात करनेको समर्थ नहीं है । ६१५।

६ सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञानमें अन्तर

रा वा /१/१/६०/१६/४ ज्ञानदर्शनयोर्गुणपदप्रवृत्तेरेकत्वमिति चेत्, न, तत्त्वावायश्रद्धानभेदात् ताप्रकाशवत् । = प्रश्न—ज्ञान व दर्शनकी युगपत् प्रवृत्ति होनेके कारण वे दोनों एक हैं ? उत्तर—नहीं, क्योंकि, जिस प्रकार युगपत् हाते हुए भी अग्निका ताप व प्रकार (अथवा दीपक व उसका प्रकाश—पु सि उ) अपने-अपने लक्षणोंसे भेदको

प्राप्त है, उसी प्रकार युगपद होते हुए भी ये दोनों अपने-अपने लक्षणोंसे भिन्न हैं। सम्यग्ज्ञानका लक्षण तत्त्वोंका यथार्थ निर्णय करना है और सम्यग्दर्शनका लक्षण उनपर श्रद्धान करना है। (पु. सि ७/३२-३४), (छहठाला/४/१)।

दे सम्यग्दर्शन/1/१/५/३ (निर्विकल्प रूपसे देखना सम्यग्दर्शन है और विशेष रूपसे जानना सम्यग्ज्ञान है)।

द्र स टी/४४/१६३/१ यत्तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन वस्तुविचाररूप सम्यग्ज्ञान तयोर्विशेषो न ज्ञायते। कस्मादिति चेत्। सम्यग्दर्शने पदार्थनिश्चयोऽस्ति, तथैव सम्यग्ज्ञाने च, को विशेष इति। अत्र परिहार। अर्थग्रहणपरिच्छिन्नरूप क्षयोपशमविशेषो ज्ञान भण्यते, तत्रैव भेदनयेन वीतरागसर्वज्ञप्रणीतशुद्धात्मादितत्त्वैष्विदमेवेत्यमेवेति निश्चयसम्यक्त्वमिति। अविस्मरूपेणभेदनयेन पुनर्यदेव सम्यग्ज्ञान तदेव सम्यक्त्वमिति। कस्मादिति चेत्—अतत्त्वे तत्त्व-बुद्धिरदेवे देवबुद्धिर्वै धर्मबुद्धिरित्यादिविपरीताभिनिवेशग्रहितस्य ज्ञानस्यैव सम्यग्त्वोपणवाच्योऽवस्थाविशेषो सम्यक्त्व भण्यते यत् कारणात्। यदि भेदो नास्ति तर्हि कथमावरणद्वयमिति चेत्—तत्रोत्तरम्। भेदनयेनावरणभेद। निश्चयनयेन पुनरभेदविवक्षाया कर्मत्व प्रत्यावरणद्वयमप्येकमेव विज्ञातव्यम्।

द्र स/टी/५२/२१८/१० स्वशुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिरूपसम्यग्दर्शन। तस्यैव शुद्धात्मनो मिथ्यात्तरागादिवरभावेभ्य पृथक्-परिच्छेदन सम्यग्ज्ञानम्। = प्रश्न-१ "तत्त्वार्थका श्रद्धान करनेरूप सम्यग्दर्शन और पदार्थका विचार करने स्वरूप सम्यग्ज्ञान है" इन दोनोंमें भेद नहीं जाना जाता, क्योंकि जो पदार्थका निश्चय सम्यग्दर्शनमें है वही सम्यग्ज्ञानमें है। इसलिए इन दोनोंमें क्या भेद है। उत्तर—पदार्थके ग्रहण करनेमें जाननेरूप जो क्षयोपशम विशेष है, वह 'ज्ञान' कहलाता है। और ज्ञानमें ही भेदनयसे जो वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्रदेव द्वारा कहे हुए शुद्धात्मा आदि तत्त्व हे उनमें, 'यह ही तत्त्व है, ऐसा ही तत्त्व है' इम प्रकारका जो निश्चय हे वह सम्यक्त्व हे। २ और अभेद नयसे तो जो सम्यग्ज्ञान है वही सम्यग्दर्शन है। कारण कि अतत्त्वमें तत्त्वकी बुद्धि, अदेवमें देवकी बुद्धि और अधर्ममें धर्मकी बुद्धि, इत्यादिरूप जो विपरीत अभिनिवेश हे, उस विपरीताभिनिवेशसे रहित जो ज्ञान हे, उसके 'सम्यक्' विशेषणसे कहे जानेवाली अत्रस्थाविशेषो सम्यक्त्व कहलाता है। प्रश्न-३ जो सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञानमें भेद नहीं हे, तो उन दोनों गुणोंके घातक ज्ञानावरणोय व मिथ्यात्व ये दो कर्म कैसे कहे गये। उत्तर—भेदनयसे आवरणका भेद है और अभेदकी विवक्षामें कर्मत्वके प्रति जो दो आवरण हे, उन दोनोंको एक ही जानना चाहिए। ४ 'शुद्धात्मा ही उपादेय हे', ऐसी रुचि होने रूप सम्यग्दर्शन है और उसी शुद्धात्माको रागादि परभावोंसे भिन्न जानना सम्यग्ज्ञान है। (दे उन-उनके लक्षण)

७. सम्यक्त्वके साथ चारित्रिका कथंचित् भेद व अभेद

द पा/प जयचन्द्र/२९ जो कोऊ कहे सम्यक्त्वभए पीछे ती सर्व परद्रव्य संसारकू हेय जानिये है, ताकू छोडे मुनि होय चारित्रिआचरै तव सम्यक्त्व भया जानिये, ताका समाधान रूप यह गाथा है, जो सर्व परद्रव्यकू हेय जानि निज स्वरूपकू उपादेय जान्या श्रद्धान किया तव मिथ्या भाव तो मिथ्या परन्तु चारित्रमोह कर्मका उदय प्रथल होय जातै चारित्र अगीकार करनेकी सामर्थ्य नहीं होय तैतै जैती सामर्थ्य होय तैता ती परे तिस मिवायका श्रद्धान करे। (दे श्रद्धान/१/३)

दे चारित्र/३/६ [यद्यपि चारित्रसम्यग्दर्शन पूर्वक ही होता हे, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि सम्यक्त्व होते ही चारित्र प्रगट हो जाय। हाँ, सम्यक्त्व हो जानेके पश्चात् कर्मश धीरे-धीरे वह तथाकान प्रगट अवश्य हो जाता हे।]

५. मोक्षमार्गमें सम्यग्दर्शनकी प्रधानता

१. सम्यग्दर्शनकी प्रधानताका निर्देश

भ आ/मू/७२६-७२६ णगरस्म जह दुवार मुहस्स चवमू तरुस्स जह मूल। तह जाण सुसम्मत्तं णाणचरणवीरियतवाण ७३६। दसणभट्टो भट्टो दसणभट्टस्म णत्थि णिव्वाण। निज्झत्ति चरियभट्टा दसणभट्टा ण सिज्झत्ति ७३८। दसण भट्टो भट्टो ण हु भट्टो होइ चरणभट्टो हु। दसणममुयत्तस्स हु परिवडण णत्थि ससारै ७३९। = १ नगरमें जिस प्रकार द्वार प्रधान है, मुखमें जिस प्रकार चक्षु प्रधान है तथा वृ में जिस प्रकार मूल प्रधान है, उसी प्रकार ज्ञान, चारित्र, वीर्य व तप इन चार आराधनाओंमें एक सम्यक्त्व ही प्रधान है ७२६। २ दर्शनभट्ट ही वास्तवमें भट्ट है क्योंकि दर्शनभट्टको निर्वाण नहीं होता। चारित्र भट्टको मोक्ष ही जाती है, पर दर्शनभट्टको नहीं होती ७३८। (द पा/मू/३) (वा अ/१६) ३ दर्शनभट्ट ही भट्ट है, चारित्रभट्ट वास्तवमें भट्ट नहीं होता, क्योंकि, जिसका सम्यक्त्व नहीं छूटा है ऐसा चारित्रभट्ट ससारमें पतन नहीं करता ७३९।

मो पा/मू/३६ दसणसुद्धो सुद्धो दसणसुद्धो लरेइ णिव्वाण। दंसण-विहीणपुरिसो न लहइ त इच्छिय लाह १२६। = दर्शन शुद्ध ही वास्तवमें शुद्ध है, क्योंकि दर्शनशुद्ध ही निर्वाणको प्राप्त करते है। दर्शन विहीन पुरुष इष्टलाभ अर्थात् मोक्षको प्राप्त नहीं करते। (ग सा/६०)

मो पा/मू/८८ किं बहुणा भणिण्ण जे सिद्धा णरवरा गए काले। सिज्झत्तिहि जे वि भविंया जातणइ सम्ममाहए ८८। = बहुत कहनेसे क्या, जो प्रधान पुरुष अतीतकालमें सिद्ध हुए हे या आगे सिद्ध होंगे वह सब सम्यक्त्वका माहात्म्य जानो। (ना अ/६०)

वो पा/मू/१२१ जह ण वि लहदि हु लख रहिओ वडस्स वेड्ढय विहीणो। तह ण वि लखदि लख अण्णाणो मोवलमगस्स १२१। = जैसे बाण रहिन वेधक धनुषके अम्याससे रहित होता हुआ निशानेको प्राप्त नहीं करता हे, वैसे ही अज्ञानी मिथ्यादृष्टि मोक्षमार्गके लक्ष्य-भूत परमात्म तत्त्वको प्राप्त नहीं करता है।

भा पा/मू/१४४ जह तारयाण चदो मयराओ मयउलाण स्ववाण। अहिओ तह सम्मत्तो रिसिसावय दुविहधम्ममाण १४४। = जिस प्रकार ताराओंमें चन्द्र और पशुओंमें सिंह प्रधान हे, उसी प्रकार मुनि व श्रावक दोनों प्रकारके धर्मोंमें सम्यक्त्व प्रधान है १४४।

र सा/४७ सम्मविणा सण्णाण सञ्चारित्त ण होइ णियमेण। तो रयणत्त-यमज्जे मम्मगुणविकट्टमिदि जिणुद्धि ४७। = सम्यक्त्वके बिना नियमसे सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्र नहीं होते है। रत्नत्रयमें एक यह सम्यक्त्व गुण ही प्रशंसनीय है ४७। (ग, क धा/३१-२७)

'स सि/१/१/७/२ अरुपात्तगदभ्यर्हित पूर्वं निपत्तति। कथमभ्यर्हितत्त ज्ञानस्य सम्यग्व्यपदेशहेतुत्वात्। = अरुपाक्षरवाले शब्दसे पूज्य शब्द पहले रखा जाता है, इसलिए सूत्रमें पहले ज्ञान शब्दको न रख कर दर्शन शब्दको रखा है। प्रश्न—सम्यग्दर्शन पूज्य क्यों है। उत्तर—क्योंकि सम्यग्दर्शनसे ज्ञानमें समीचीनता आती है। (रा वा/१/१/१८/२७) (और भी दे ज्ञान/III/२)

प्र सा/त प्र/२३८-२३८ आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसगतत्वयौगपचो-ऽऽयात्मज्ञानमेव मोक्षमार्गनाधकतममुमन्तव्यम् २३८। अत आत्म-ज्ञानशून्यमागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसयत्तत्त्वयोगपद्यमप्यत्रिचरिदमेव। = आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान और मयत्तत्त्वकी युगपत्ता होनेपर भी आत्मज्ञानको ही मोक्षमार्गका साधकतम सम्मत करना २३८। आत्मज्ञानशून्य आगमज्ञान तत्त्वार्थश्रद्धान हेतत्त्वकी युगपत्ता भी अकिंचित्तर ही है २३८।

शा/1/४४ चरणज्ञानयोगीजं यमत्रयमर्जदितम्। तप धृताद्यधिधानं सद्भि मदर्शन मतम् १५४। = मत्पुण्याने सम्यग्दर्शनकी चारित्र व

ज्ञानका नीज, यम व प्रशमका जीवन तथा तप व स्वाध्यायका आश्रय माना है ।

नोट —[सम्यग्दर्शन विहीन धर्म, चारित्र, ज्ञान, तप आदि सब निरर्थक व अकिञ्चिद्वर हैं । और सम्यग्भव सहित ही वे सब यथार्थताको प्राप्त होते हैं ।] (दे धर्म/२), (दे, चारित्र/३), (दे ज्ञान/III/२ तथा IV/१), (दे तप/३) ।

२ सम्यग्दर्शन ही सार, सुखनिधान व मोक्षकी प्रथम सीढी है इत्यादि महिमा

भ, आ./मू/७३५ मा कान्ति त प्रमाद सम्मत्ते सव्यदु खणासयरे । —यह सम्यग्दर्शन सर्व दुखोंका नाश करनेवाला है, अत इसमें प्रमादी मत मनो ।

चा पा /मू/२० सखिज्जमसखिज्जगुण च ससारिनेरुमत्ताण । सम्मत्त-मणुचरता करति दुखखनखय धीरा ।२०। —सम्यग्दर्शनो आचरण करनेवाले धीर पुरुष संख्यात व असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा करते हैं तथा ससारी जीवोंकी मर्यादा रूप जो सर्व दुख उनका नाश करते है ।

द पा /मू/२१ एवं जिणपणत्त दसणरयण धरेह भावेण । सारं गुणरय-णत्तय सोवाण पढममोखस्सम् ।२१। —जिनप्रणीत सम्यग्दर्शनको अन्तरंग भावोंसे धारण करो, क्योंकि, यह सर्व गुणोंमें और रत्नत्रयमें सार है तथा मोक्षमन्दिरकी प्रथम सीढी है ।२१।

र सा /१४,१५८ कामदुहिं कपत्तर चित्तरयण रसायणं य सम । लद्धो भज्जह सीखल जह्चिच्छयं जाण तह सम्म ।५८। सम्मद्गणसुद्धं भावद लभदे हि ताव सुही । सम्मद्दणसुद्धं जाय ण लभते हि ताव सुही ।१५८। —जिस प्रकार भाग्यशाली मनुष्य कामधेनु कण्वृक्ष, चिन्तामणिरत्न और रसायनको प्राप्त कर मनोवाञ्छित उत्तम सुखको प्राप्त होता है उसी प्रकार सम्यग्दर्शनसे भव्य जीवोंको सर्व प्रकारके सर्वोत्कृष्ट सुख व समस्त प्रकारके भोगोपभोग स्वयमेव प्राप्त होते हैं ।५४। सम्यग्दर्शनको यह जीव जब प्राप्त हो जाता है तब परम सुखी हो जाता है और जब तक उसे प्राप्त नहीं करता तब तक दुखी बना रहता है ।१५८।

र, क आ /३४,३६ न सम्यग्भवसम किञ्चित् त्रैकाय्ये त्रिजगत्स्यपि । श्रेयोऽभेयश्च मिथ्यात्वसम नान्यत्तनुभूताम् ।३४। ओजस्तेजोविद्या-वीर्ययशोवृद्धिजिज्ययिभिवसनाया । महाकुलामहार्थि, मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूता ।३६। —तीन काल और तीन जगत्तमें जीवोंका सम्यग्दर्शनके समान कुछ भी कल्याणकारी नहीं है, मिथ्यात्वके समान अकल्याणकारी नहीं है ।३४। शुद्ध सम्यग्दर्ष्टि जीव कान्ति, प्रताप, विद्या, वीर्य, यशोवृद्धि, जिज्य, विभववान, उच्चकुली, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके साधक तथा मनुष्यार्थि शिरोमणि होते हैं ।३६।

र क अ /२८ सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातङ्गदेहजम् । देवा देव विदुर्भ-स्मयूढाङ्गारान्तरौजमम् ।२८। —गणधरादि देव सम्यग्दर्शन सहित चाण्डालको भी भस्मसे ढकी हुई चिनगारीके समान देव कहते हैं ।२८।

प वि /१/७७ जयति सुखनिधान मोक्षयुक्तेकनीज, सरुलमलत्रिमुक्त दर्शनं यद्विना स्यात् । मत्तिरपि कुमत्तिरुं दुरचरित्र चरित्रम् भवति मनुजजन्म प्राप्तमप्राप्तमेव ।७७। —जिस सम्यग्दर्शनके बिना ज्ञान तो मिथ्याज्ञान और चारित्र मिथ्याचारित्र हुआ करता है, वह सुखका स्थानभूत, मोक्षरूपी वृक्षका अद्वितीय बीजस्वरूप तथा समस्त दोषोंसे रहित सम्यग्दर्शन जयवन्त होता है । उसके बिना प्राप्त हुआ भी मनुष्य जन्म अप्राप्त हुएके समान है ।

ज्ञा /६/६६ अतुलसुखनिधान सर्वकल्याणबीज, जननजलधिपोतं भव्य-सत्त्वे कपात्रम् । दुरिततरुकुठार पुण्यतीर्थप्रधान, पित्रत जितविपक्षं दर्शनान्ध्र सुधात्मम् ।६६। —है भव्यो । तुम सम्यग्दर्शनरूपी अमृतका पान करो, क्योंकि, यह अतुल सुखनिधान है, समस्त कल्याणोका बीज है ससारसागर तरनेको जहाज है, भव्यजीव ही इसका पात्र है,

पापवृक्षको काटनेके लिए कुठार है, पुण्यतीर्थोंमें प्रधान है, तथा विपक्षी जो मिथ्यादर्शन उमको जीतने वाला है ।

ज्ञा /६/७३ महर्षीनमहारत्न विश्वलोके वभूषणम् । सुत्तिपर्यन्तकल्याण-दानदक्ष प्रकीर्तितम् ।७३। —यह सम्यग्दर्शन महारत्न ममस्त नीरत्न आभूषण है और माक्ष होने पर्यन्त आत्मारो रक्षणाण देनेमें चतुर है ।६३।

आ मा /२/६८ मान्य सद्दर्शनी ज्ञानी हीनोऽपि अपरगद्गुणं । व-रत्नमनिष्पन्नं, शोभ कि नाधर्ममर्दति ।६८। —अन्य गुणोंमें हीन भी सम्यग्दर्ष्टि सर्वमान्य है । क्या बिना ज्ञानपर चढ़ा रत्न शोभाको प्राप्त नहीं होता है ।

का अ /मू/२२५-३२६ रयणाण महारग्यण गढ्य जोगाण उत्तम जेय । रिद्धीण महारिद्धी सम्मत्त यच्चमिद्धिपरं ।२५। सम्मत्तगुणपहाणो देविद-णदिद-वदिओ होदि । चत्त वया वि य पावदि सग्गमुह उत्तम विविह ।३२६। —सम्यग्दर्शन सब रत्नोंमें महारत्न है, सब योगोंमें उत्तम योग है, सब ऋत्तियोंमें महारिद्धि है । अधिक क्या, सम्यक्त्व सब मिद्धियाका करनेवाला है ।३२५। सम्यक्त्वगुणसे जीव देवोंके इन्द्रोंसे तथा चक्रवर्ती आदिसे बन्दनीय होता है, और व्रत रहित होता हुआ भी नाना प्रकारके उत्तम स्वर्गसुखको पाता है ।३२६।

अ ग आ /२/८३ अपारंसारसमुद्रतारण, वशीकृतं येन सुदर्शन परम् । वशीकृतारतेन जनेन सपद, पररत्नभया विपदानान्पदम् ।८३। —अपार ससारसमुद्र तारनेवाला और जिनमें विपदाओंको स्थान नहीं, ऐसा यह सम्यग्दर्शन जिसने अपने वश किया है उस पुण्यके कोई अलभ्य सम्पदा ही वश करी है ।

सा ध /१/४ नरत्वेऽपि पशुयन्ते मिथ्यात्प्रस्तचेतस । पशुत्वेऽपि नरायन्ते सम्यक्प्रव्यक्तचेतस ।४। —मिथ्यात्वसे प्ररत चिन्तना मनुष्य भी पशुके समान है । और सम्यक्त्वसे व्यक्त चिन्तना पशु भी मनुष्यके समान है ।

३. सम्यग्दर्शनकी प्रधानतामें हेतु

द, पा /मू/१५-१६ मम्मत्तादो णाण णाणादो मव्वभावउवलद्धो । उवलद्धपरयत्थे पुण सेयासेथ वियाणेदि ।१५। सेयासेयविदग्ध उट्टु-ददुत्सली सीलवतो वि । सीलफलेणभ्युद्य तत्तो पुण तहह णिग्वाण ।१६। —सम्यक्दर्शन तो ज्ञान सम्यक् होता है । (और भी दे शीर्षक नं १ में स, मि./१/१०/०) । उन दोनोंसे सर्व पदार्थों या तत्त्वोंकी उपलब्धि होती है । पदार्थोंकी उपलब्धि होनेपर श्रेय व अश्रेयका ज्ञान होता है ।१५। श्रेय व अश्रेयको जानकर वह पुरुष मिथ्यात्वको उडाकर तथा सम्यक् स्वभावयुक्त होकर अम्युदय व तीर्थकर आदि पदोंको प्राप्त होता हुआ पीछे निर्वाण प्राप्त करता है ।१६।

दे. शीर्षक स १ (सम्यग्दर्शन, ज्ञान व चारित्रका बीज है) ।

४. सम्यग्दर्शनके पश्चात् भव धारणकी सीमा

भ आ /मू/गा लद्धध्रण य सम्मत्त मुहुत्तकालमवि जे परिवर्दति । तेसिमणत्ताणता ण भवदि ससारवासद्धा ।३१। —जो जीव सुदुर्तकाल पर्यन्त भी प्राप्त करके अनन्तर छोड़ देते हैं, वे भी इस ससारमें अनन्तानन्त कालपर्यन्त नहीं रहते । [अर्थात् उनको अधिकसे अधिक अक्षुद्गन परिवर्तन कालमात्र ही ससार शेष रहता है इससे अधिक नहीं—दे काल/६ तथा अन्तर/४]

क पा /सुत्त/११/गा, १११/६४१ खवणाए पट्टवगो जम्मि भवे णियमदो तदो अण्णे । णाधिच्छदि तिण्णि भवे दसणमोहम्मि खीणम्मि ।२०३। —जो मनुष्य जिस भवमें दर्शनमोहकी क्षणमात्र प्रस्थापन करता है, वह दर्शनमोहके क्षीण होनेपर तीनभवमें नियमसे मुक्त हो जाता है ।२०३। (प, स /प्रा/१/२०३) ।

रा. वा १४/२४/३/२४४/११ अप्रतिपतितसम्यग्दर्शनानां परोतविषय समाप्तानि भग्नहणानि उत्कर्षेण वर्तन्ते, जवन्येन द्वित्रीणि अनूबन्धोच्छ्रयन्ते। प्रतिपतितसम्यक्त्वानां तु भाज्यम्। = जो सम्यग्दर्शनसे पतित नहीं होते उनको उत्कृष्टत सात या आठ भवोंका ग्रहण होता है और जवन्यसे दो-तीन भवोंका। इतने भवोंके पश्चात् उनके सप्तराका उच्छेद हो जाता है। जो सम्यक्त्वसे च्युत हो गये है उनके लिए कोई नियम नहीं है। (प पु १४/२२४)

क्ष. सा १५/१६५/२१८ दसणमोहे खविदे सिज्फदि तत्थेव तदियत्तुरिय-भवे। णादियकति तुरियभवे ण विणस्सति सेसम्ममे वा। = दर्शन-मोहका क्षय हो जानेपर उस ही भवमें या तीसरे भवमें अथवा मनुष्य तिर्यचकी पूर्वमें आयु बाँध ली हो तो भोगभूमिकी अपेक्षा चौथे भवमें सिद्धि प्राप्त करते हैं। चौथे भवको उल्लंघन नहीं करते। औपशमिक व क्षायोपशमिक सम्यक्त्वकी भाँति यह नाशको प्राप्त नहीं होता। १६६। (गो जी/जी प्र ६४६/१०९७/२ पर उद्धृत)

वसु आ १२/६६ अण्णे उ सुदेवत्त सुमानुसत्त पुणो पुणो लह्ज्जण। सत्तद्ध-भवेहि तओ कर्त्ति कम्मवत्थय णियमा। २६६। = कितने ही जीव सुदेवत्व और सुमानुषत्वको पुनः पुनः प्राप्त करके सात-आठ भवोंके पश्चात् नियमसे कर्मक्षय करते हैं। २६६।

II निश्चय व्यवहार सम्यग्दर्शन

१. निश्चय व्यवहार सम्यक्त्व लक्षण निर्देश

१. सम्यग्दर्शनके दो भेद

रा सा १४ सम्मत्तरयणसार मोक्खमहारुक्खमूलमिदि भणिय। त जाणिज्ज णिच्छयववहारसरुवदो भेद। १४। = सम्यग्दर्शन समस्त रत्नोंमें सारभूत रत्न है और मोक्षरूपी वृक्षका मूल है, इसके निश्चय व व्यवहार ऐसे दो भेद जानने चाहिए।

२. व्यवहार सम्यग्दर्शनके लक्षण

१. देव शास्त्र गुरु व धर्मकी श्रद्धा

मो पा १५/१० हिसारहिए धम्मे अट्टारहदोसवज्जिए देवे। णिग्गथे पव्वयणे सद्दहणं होइ सम्मत्त। १०। = हिसादि रहित धर्म, अठारह दोष रहित देव, निर्ग्रन्थ प्रवचन अर्थात् मोक्षमार्ग व गुरु इनमें श्रद्धा होना सम्यग्दर्शन है। १०।

रा क आ १४ श्रद्धान परमार्थानामाप्तागमतपोभूताम्। त्रिमूढापोढमष्टाङ्ग सम्यग्दर्शनमदमयम्। १४। = सत्यार्थ देव, शास्त्र और गुरु इन तीनोंका आठ अंग सहित, तीन मूढता और आठ मदरहित श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन कहा जाता है।

का अ १५/३१७ णिज्जियदोस देव सब्बजिणाण दयावर धम्म। वज्जियगथ च गुरु जो मण्णदि सो हु सद्दिट्ठी। ३१७। = जो वीतराग अहंरन्तको देव, दयाको उत्कृष्ट धर्म और निर्ग्रन्थको गुरु मानता है वही सम्यग्दर्ष्टि है।

२. आप्त आगम व तत्त्वोंकी श्रद्धा

नि सा १५ अत्तागमतत्त्वाणं सद्दहणादो हवेड सम्मत्त। = आप्त आगम और तत्त्वोंकी श्रद्धासे सम्यक्त्व होता है। [इनका सम्यक् श्रद्धान व्यवहार सम्यक्त्व है-- (इसी गाथाकी ता वृ टीका), (घ १/१.१४/१६१/४), (वसु आ ६)।

३. तत्त्वार्थ या पदार्थों आदिका श्रद्धान

त मू १/२.३ तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनम्। २। जीवाजीवात्सवन्धसवर-निर्जरा मोक्षात्तत्त्वम्। २। = अपने-अपने स्वभावमें स्थित तत्त्वार्थके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं। जीव-अजीव आसन्न वन्ध संवर

निर्जरा व मोक्ष ये मात तत्त्व है। (द. पा १५/२०), (मू आ २००), (घ १/१.१४/१६१/२), (वसु आ १०)

प का १५/१०७ सम्मत्त सद्दहण भावार्ण [भावा खलु कालकलित-पञ्चास्तिकायविकल्परूपा नम पदार्था। (त प्र, टीका)] = काल सहित पचास्तिकायके भेदरूप नव पदार्थ वास्तवमें भाव है। उन भावोंका श्रद्धान सो सम्यक्त्व है।

द पा १५/१६ छह टव्व णव पयत्था पचत्थो सत्त तच्च णिद्धिटा। सद्दहण ताण ख्व मो सद्दिट्ठी मुणेयव्वो। १६। = छह द्रव्य, नव पदार्थ, पाँच अस्तिकाय, सप्त तत्त्व ये जिनवचनमें कहे गये हैं। इनके स्वरूपका जो श्रद्धान करता है वह सम्यग्दर्ष्टि है।

प स प्रा १/१५६ छप्पचणवविहाण अत्थाण जिणवररोवइट्ठण। आणाप अहिग्गमेण य सद्दहण होइ सम्मत्त। = जिनवरोंके द्वारा उपदिष्ट छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, और नौ पदार्थोंका आज्ञा या अधिगमसे श्रद्धान करना सम्यक्त्व है। (घ १/१.१४/गा ६६/१६); (घ १/१.१.१४/गा २१२/३६६), (गो. जी १५/६६१/१००६)

४. पदार्थोंका विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान

प का/ता वृ १०७/१६६/२४ मिथ्यात्वोदयजनितविपरीताभिनिवेश-रहित श्रद्धानम्। केवा सबन्धि। पञ्चास्तिकायपञ्चद्रव्यविकल्परूप जीवाजीवद्रव्य जीवपुद्गलसयोगपरिणामोत्पन्नासवादिपदार्थसमूह चेत्युक्तलक्षणानां भावाना जीवादिनवपदार्थानाम्। इदं तु नवपदार्थ-विषयभूत व्यवहारसम्यक्त्वम्। = मिथ्यात्वोदयजनितविपरीत अभिनिवेश रहित, पचास्तिकाय, पदद्रव्य, जीवादि सात पदार्थ अथवा जीवादि नव पदार्थ, इनका जो श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त्व है। (पु सि उ २२), (स. सा १५/१६६/२२०/६)

५. यथावस्थित पदार्थोंका श्रद्धान

प प्र १५/२/१५ दव्वेँ जाणइ जह ठियेँ तह जणि मण्णइ जो जि। अप्पह केरउ भावडउ अविचल्लु दसणु सो जि। १५। = जो द्रव्योंको जैसा उनका स्वरूप है वैसा जाने और उसी तरह इस जगत्में निर्दोष करे, वही आत्माका चक्षुमन्तिनअवगाढ दोष रहित निश्चल भाव है। वही आत्मभाव सम्यग्दर्शन है। (और भी दे सम्यग्दर्शन/१/१/४), (दे तत्त्व/१/१)।

६. तत्त्वोंमें हेय व उपादेय बुद्धि

सू पा १५/५ सुत्तथ जिणभणिय जीवाजीवादिबहुविह अत्थ। हेयाहेय च तहा जो जाणइ सो हु सद्दिट्ठी। ५। = सूत्रमें जिनेन्द्र भगवान्ने जीव अजीव आदि बहुत प्रकारके पदार्थ कहे हैं। उनको जो हेय और अहेयरूपसे जानता है (अर्थात् जीव सवर निर्जरा व मोक्ष अहेय है और शेष तीन हेय। इम प्रकार जो जानता है) वह सम्यग्दर्ष्टि है।

७. तत्त्व सच्चि

मो पा १५/२८ तच्चरुई सम्मत्त। = तत्त्वरुचि सम्यग्दर्शन है। (घ, १/१.१.४/१६१/६)

३. निश्चय सम्यग्दर्शनके लक्षण

१. उपरोक्त पदार्थोंका शुद्धात्मासे भिन्न दर्शन

प्र सा/त प्र २/४२ ज्ञेयज्ञातृत्वतथाप्रतीतिलक्षणेन सम्यग्दर्शनपर्यायेण = ज्ञेय और ज्ञाता इन दोनोंकी यथारूप प्रतीति सम्यग्दर्शन का लक्षण है।

स. सा. आ ३/१४-३१५ स्वपरयोर्विभागदर्शनेन दर्शको भवति। = त्व व परके विभाग दर्शनसे दर्शक होता है।

स ना/ता वृ १/५५/२२०/११ अथवा तेषामेव भूतार्थेनाधिगतानां पदार्थानां शुद्धात्मन सकाशात् भिन्नत्वेन सम्यगवलोचन निश्चय-

सम्यक्त्वम् । = अथवा उन भूतार्थरूपसे जाने गये जीवादि नौ पदार्थोंका शुद्धात्मामे भिन्न करके सम्यक् अस्वाकन करना निश्चय सम्यक्त्व है ।

० शुद्धात्माकी रुचि

स सा ता वृ/२८/७२/६ शुद्धात्ममेवोपादेय इति श्रद्धधानं सम्यक्त्वम् । = 'शुद्धात्मा ही उपादेय है', ऐसा श्रद्धवान सम्यक्त्व है ।

(द्र स/टी/१४/४२/४)

स सा/ता वृ/२८/८/१० विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावे निजपरमात्मनि यद्गुचिरूप सम्यग्दर्शनम् । = विशुद्धज्ञानदर्शन स्वभावरूप निज परमात्मामें रुचिरूप सम्यग्दर्शन है ।

पं का/ता/३/१०७/१७०/६ शुद्धजीवास्तिकायरुचिरूपस्य निश्चय-सम्यक्त्वस्य । = शुद्ध जीवास्तिकायकी रुचि निश्चयसम्यक्त्व है ।
दे मोहनीय/२/१ में घ/६ (आप्त या आत्मामें रुचि या श्रद्धा दर्शन है ।

३. अतीन्द्रिय सुखकी रुचि

प्र सा/ता वृ/४/६/१६ रागादिभ्यो भिन्नोऽय स्वात्मोत्थसुखस्वभाव परमात्मैति भेदज्ञान, तथा स एव सर्वप्रकारोपादेय इति रुचिरूप सम्यक्त्वम् । = रागादिसे भिन्न यह जो स्वात्मामें उत्पन्न सुखरूप स्वभाव है वही परमात्मतत्त्व है । वही परमात्म तत्त्व सर्व प्रकार उपादेय है, ऐसी रुचि सम्यक्त्व है ।

द्र स/टी/४१/१७०/२ शुद्धोपयोगलक्षणनिश्चयस्वरूपभावनोत्पन्नपरमा-
ह्लादं फलरूपमुत्तरसास्वादानमेवोपादेयमिन्द्रियसुखादिके च हेय-
मिति रुचिरूप वीतरागचारित्राविनाभूत वीतरागसम्यक्त्वाभिधान
निश्चयसम्यक्त्व च ज्ञातव्यमिति । = शुद्धोपयोगरूप निश्चय
स्वरूपभावनासे उत्पन्न परम आह्लादरूप सुखामृत रसका
आस्वादन ही उपादेय है, इन्द्रियजन्य सुख आदिक हेय है, ऐसी
रुचि तथा जो वीतराग चारित्रिके त्रिना नहीं होता ऐसा जो वीतराग
सम्यक्त्व वह ही निश्चय सम्यक्त्व है । (द्र स/टी/१२/६७/१),
(द्र स/टी/४४/१६४/१०), (प प्र/२/१७/१३२/७) ।

४ वीतराग सुखस्वभाव ही में हूँ, ऐसा निश्चय

द्र स/टी/४०/१६३/१० रागादिविकल्पोपाधिरहितचित्चमत्कारभावो-
त्पन्नमधुरसास्वादसुखमिति निश्चयरूप सम्यग्दर्शनम् । = 'रागादि
विकल्प रहित चित् चमत्कार भावनासे उत्पन्न मधुर रसके आस्वाद-
रूप सुखका धारक मैं हूँ', इस प्रकार निश्चय रूप सम्यग्दर्शन है ।

५. शुद्धात्मा की उपलब्धि आदि

स, सा/मू/१४४ सम्महदसणाण एसो लहदिचि णवरि ववदेस । सव-
णयपक्खरहिदो भण्णो जो सो समयसारो । १४४। = जो सर्व नय
पक्षोंसे रहित कहा गया है वह समयसार है । इसी समयसारकी
सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान संज्ञा है । १४४। (और भी दे
मोक्षमार्ग/३) ।

प घ/उ/२/१५ न स्यादात्मोपलधिर्वा सम्यग्दर्शनलक्षणम् । शुद्धा
चेदरित सम्यक्त्व न चेच्छुद्धा न सा सुखम् । = केवल आत्मकी
उपलब्धि सम्यग्दर्शनका लक्षण नहीं है । यदि वह शुद्ध है तो उसका
लक्षण हो सकता है और यदि अशुद्ध है तो नहीं ।

४. लक्षणमें तत्त्व व अर्थ दोनों शब्द कथों

स मि/२/६/७ अर्थश्रद्धानमिति चेत्सर्वार्थप्रसङ्गा । तत्त्वश्रद्धानमिति
चेद्भ्रामात्रप्रसङ्गे 'सत्ताद्रवणरगुणस्वकर्मस्वादि तत्त्वम्' इति
केचिद्वरुण्यत इति । तत्त्वमेकरमिति वा सर्वकग्रहणप्रसङ्ग ।
'पुरुष एवेद सर्वम्' इत्यादि केचिद्वरुण्यत इति । एव सति दृष्टे-
विरोध । तस्मादव्यभिचारार्थमुपयोगरूपादानम् । = प्रश्न—सुत्रमें

'तत्त्वार्थश्रद्धान' के स्थानमें 'अर्थश्रद्धानम्' इतना कहना पर्याप्त है ।
उत्तर—इससे अर्थ शब्दके धन प्रयोजन अभिधेय आदि जितने भी
अर्थ हैं उन सबके ग्रहणका प्रसंग आता है । प्रश्न—तब 'तत्त्वश्रद्धानम्'
केवल इतना ही कहना चाहिए । उत्तर—इससे केवल भाव मात्रके
ग्रहणका प्रसंग प्राप्त होता है । कितने ही लोग (वशेषिक) तत्त्व पदसे
सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व इत्यादिका ग्रहण करते हैं । केवल
'तत्त्वश्रद्धानम्' ऐसा कहनेपर इन सबका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन
प्राप्त होता है । अथवा तत्त्व शब्द एकत्ववाची है, इगनिए केवल
'तत्त्व' शब्दका ग्रहण करनेसे 'सय एक है' इस प्रकारके स्वीकारका
प्रसंग आता है । 'यह सब दृश्य व अदृश्य जग पुरुषस्वरूप ही है' ऐसा
विश्वासे माना है । इसलिए भी केवल 'तत्त्वश्रद्धान' रहना युक्त
नहीं । क्योंकि ऐसा माननेपर प्रत्यक्ष व अनुमान दोनोंसे विरोध आता
है । अतः इन सत्र दोषोंके दूर करनेके लिए सूत्रमें 'तत्त्व' और 'अर्थ'
इन दोनों पदोंका ग्रहण किया है । (ग वा/१/२/१७-२४/७०-२१),
(श्लो. वा/२/१/२-४/१६/४) ।

५ व्यवहार लक्षणोका समन्वय

घ १/१.१.४/१६१/२ प्रशमसवेगानुकम्पास्तिवयाभित्यक्तिसंशय सम्य-
क्त्वम् । सत्येन सयतसम्यग्दृष्टिगुणस्वभावात् स्यादिति चेत्सत्यमेतत्
शुद्धतये समाश्रयमाणे । अथवा तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनम् । अय्य
गमनिकोच्यते, आप्तगमपदार्थस्तत्त्वार्थस्तेषु श्रद्धानमनुरक्तता सम्य-
ग्दर्शनमिति लक्षणनिर्देश । कथं पीरसत्येन लक्षणेनास्य न विरोध-
श्चेन्नोप दोष, शुद्धाशुद्धसमाश्रयणात् । अथवा तत्त्वरुचि सम्यक्त्वम्
अशुद्धतग्नयसमाश्रयणात् । = १ प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और
आस्तित्वकी प्रकटा ही जिसका लक्षण है उसको सम्यक्त्व कहते
हैं । (दे सराग सम्यग्दर्शनका लक्षण) । प्रश्न—इस प्रकार सम्यक्त्व-
का लक्षण मान लेनेपर असत्य सम्यग्दृष्टि गुणस्थानका अभाव हो
जायेगा । उत्तर—यह कहना शुद्धनिश्चयनगके आश्रय करनेपर ही
सत्य रहा जा सकता है । २ अथवा, तत्त्वार्थके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन
कहते हैं । इसका अर्थ यह है कि आप्त आगम और पदार्थको तत्त्वार्थ
कहते हैं । और इनके विषयमें श्रद्धान अर्थात् अनुरक्ति करनेको
सम्यग्दर्शन कहते हैं । यहाँ पर सम्यग्दर्शन लक्ष्य है, तथा आप्त आगम
और पदार्थका श्रद्धान लक्षण है । प्रश्न—पहिले कहे हुए (प्रसमादि-
की अभिव्यक्तिरूप) सम्यक्त्व के लक्षण के साथ इस लक्षण का
विरोध क्यों न माना जाय । उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि
शुद्ध और अशुद्ध नय की अपेक्षा से ये दोनों लक्षण कहे गये हैं ।
अर्थात् पूर्वोक्त लक्षण शुद्ध नय की अपेक्षा से है और यह तत्त्वार्थ
श्रद्धानरूप लक्षण अशुद्ध नय की अपेक्षा से है । ३—अथवा तत्त्व-
रुचि को सम्यक्त्व कहते हैं । यह लक्षण अशुद्धतर नय की अपेक्षा
जानना चाहिए ।

६. निश्चय लक्षणोका समन्वय

प प्र/टी/२/१७/१३२/२ अत्रह प्रमाकरभट्ट । निजशुद्धात्ममेवोपादेय
इति रुचिरूप निश्चयसम्यक्त्व भवतीति बहुधा व्याख्यात पूर्व
भगवद्भि, उदानो पुन वीतरागचारित्राविनाभूतं निश्चयसम्यक्त्व
व्याख्यानमिति पुनपरिविरोध कस्मादिति चेत् निजशुद्धात्ममेवो-
पादेय इति रुचिरूपम् निश्चयसम्यक्त्व गृहस्थावस्थाया तीर्थकर-
परमदेवभरतसंगममपाण्डनादीना विद्यते, न च तेषां वीतरागचारि-
त्रमस्तोति पदपरिविरोध अस्ति चेत्तद्धि तेषामसत्यतत्त्व कथमिति
पूर्वपक्ष । तत्र परिहारमाह । तेषां शुद्धात्मोपादेयभावनारूपम्
निश्चयसम्यक्त्व विद्यते पर किंतु चारित्रमोहोदयेन स्थिरता नारित
वतप्रतिज्ञाभङ्गा भवतीति तैः कारणेनासयता वा भण्यन्ते । शुद्धा-
त्मभावनाच्युता सन्त भरतादयो शुभरागयोगात् सरागसम्यग्दृष्ट्या

भ्रमन्ति । या पुनस्तैषा सम्यक्त्वस्य निश्चयसम्यक्त्वसङ्गा नीतराग-
चारित्राविनाभूतस्य निश्चयसम्यक्त्वस्य परपरया साधकत्वादिति ।
वस्तुवृत्त्या तु तत्सम्यक्त्वस्य सरागमम्यक्त्वत्वात् व्यवहारसम्यक्त्वमेवेति
भावात् । = प्रश्न—'निज शुद्धात्मा ही उपादेय है' ऐसी रुचिरूप
निश्चय सम्यक्त्व होता है, ऐसा पहिले कई बार आपने कहा है,
और अब 'नीतराग चाग्रिक्रमा अविनाभूत निश्चय सम्यक्त्व है' ऐसा
कह रहे हैं । दोनोंमें पूर्वापर विरोध है । वह ऐसे कि 'निज शुद्धात्म-
तत्त्व ही उपादेय है' ऐसी रुचिरूप निश्चयसम्यक्त्व गृहस्थावस्थामे
तीर्थ कर परमदेव तथा भरत, स्मर, राम, पाण्डव आदिको रहता है
परन्तु उनको नीतराग चाग्रिक्रम नहीं होता, इसलिए परस्पर विरोध
है । यदि 'होता है' ऐसा मानें तो उनके असयतपना कैसे हो सकता
है ? उत्तर—उनके शुद्धात्माकी उपादेयताकी भावनारूप निश्चय
सम्यक्त्व रहता है, किन्तु चाग्रिक्रमोहेके उदयके कारण स्थिरता नहीं
है, वतकी प्रतिज्ञा भंग हो जाती है, इस कारण उनकी असयत कहा
जाता है । शुद्धात्मभावनासे च्युत होकर शुभरागके योगसे वे सराग
सम्यग्दृष्टि होते हैं । उनके सम्यक्त्वको जो सम्यक्त्व कहा गया है,
उसका कारण यह है कि वह नीतराग चाग्रिक्रमे अविनाभूत निश्चय-
सम्यक्त्वका परस्पर साधक है । वस्तुतः तो वह सम्यक्त्व भी
सरागमम्यक्त्व नामवाला व्यवहार सम्यक्त्व ही है ।

७. व्यवहार व निश्चय लक्षणोका समन्वय

मो मा प्र /१५/पृष्ठ/पंक्ति = प्रश्न—सात तत्त्वोंके श्रद्धानका नियम कहे
हो सो बने नाही । जाते कहीं परतें भिन्न आपका श्रद्धान ही को
सम्यक्त्व कहै हैं कहीं एक आत्माके निश्चय ही को सम्यक्त्व कहै
है । तातें जीव अजीव ही का वा केवल जीव ही का श्रद्धान भए
सम्यक्त्व हो है । ७७७/१८। उत्तर—१ परतें भिन्न आपका श्रद्धान ही
है सो आत्मवादिका श्रद्धानकरि रहित हो है कि सहित हो है । जो
रहित हो है, तो मोक्षका श्रद्धान बिना किस प्रयोजनके अर्थ ऐसा
उपाय करे है । ताते आत्मवादिका श्रद्धान रहित आपापरका
श्रद्धान करना सम्भवै नाही । बहुरि जो आत्मवादिका श्रद्धान
सहित हो है तो स्वयमेव सातो तत्त्वनिके श्रद्धानका नियम भया ।
(४७८/८) । २ बहुरि केवल आत्माका निश्चय है, मो परका पररूप
श्रद्धान भए बिना आत्माका श्रद्धान न होय तातें अजीवका श्रद्धान
भए ही जीवका श्रद्धान होय । तातें यहाँ भी सातो तत्त्वनिके ही
श्रद्धानका नियम जानना । बहुरि आत्मवादिका श्रद्धान बिना
आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धान साँचा होता नाहीं ।
जाते आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय लिये है । सो
शुद्ध अशुद्ध अवस्थाकी पहिचान आत्मवादिककी पहिचानतें हो
है । (४७५/१५) । = प्रश्न—३ जो ऐसे है, तो शास्त्रनिविष-- नव
तत्त्वकी मन्तति छोडि हमारे एक आत्मा ही होहु, ऐसी कह्या । सा
कैसे कया ? (स सा /आ/१२/५ ६) उत्तर—जाको साचा आपापर-
का श्रद्धान होय, ताको सातो तत्त्वनिका श्रद्धान हाय ही होय,
बहुरि जाके साँचा सात तत्त्वनिका श्रद्धान होय, ताके आपापरका
वा आत्माका श्रद्धान होय ही होय । ऐसा परस्पर अविनाभावीपन
जानि आपापरका श्रद्धानको या आत्मश्रद्धान होनेको सम्यक्त्व
कहा है । (४७६/१५) । प्रश्न—४ जो कहीं शास्त्रनिविषे अर्हत देव
निर्ग्रन्थ गुरु हिसाररहित धर्मका श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है, सो
कैसे है (४८०/२२) । उत्तर—१ अर्ह त देवादिका श्रद्धान होनेतें
वा बुदेवादिका श्रद्धान दूर होने करि गृहीत मिथ्यात्वका प्रभाव
हो है, तिस अपेक्षा जाको सम्यक्त्वो कहा है । नवथा सम्यक्त्वका
लक्षण नाहीं । (४८१/२) । २ अर्ह तदेवादिका श्रद्धान होतें तो
सम्यक्त्व होय वा न होय, परन्तु अर्ह तादिका श्रद्धान भए बिना
तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यक्त्व कदाचित् न होय । ताते अर्हतादिके
श्रद्धानको अन्यरूपकारण जानि कारणविष कारिका उपचाग्रिक्रमि इस

श्रद्धानकी सम्यक्त्व कहा है । याही तें याका नाम व्यवहार सम्यक्त्व
है । ३ अथवा जाके तत्त्वार्थश्रद्धान हाय, ताके साँचा अर्हतादिके
स्वरूपका श्रद्धान हाय ही होय । (४८२/१०) जाके साँचा
अर्हतादिके स्वरूपका श्रद्धान होय ताके तत्त्वार्थ श्रद्धान होय ही
हाय । जातें अर्हतादिका स्वरूप पहिचाने जीव अजीव प्राप्त
आदिककी पहिचानि हो है । ऐसे इनकी परस्पर अविनाभावी
जानि, कहीं अर्हतादिके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है ।
(४८१/१५) । प्रश्न—५ जो कई जोय अर्हतादिका श्रद्धान करे
है तिनिके गुण पहिचाने हे अर उनके तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यक्त्व न
हो है । (४८२/१७) । उत्तर—जातें जीव अजीवकी जाति पहिचाने
बिना अर्हतादिके आत्माश्रित गुणनिकी वा शरीरश्रित गुणनिकी
भिन्न-भिन्न न जानें । जा जान तो अपने आत्माको परद्रव्यतें भिन्न
कैसे न मानें ? (४८३/२) प्रश्न—६ अन्य-अन्य प्रकार लक्षण करने-
का प्रयोजन कया (४८३/२१) । उत्तर—साँची दृष्टिकरि एक लक्षण
ग्रहण किये चाग्रिक्रम लक्षणका ग्रहण हो है । तथापि मुख्य प्रयोजन
जुदा-जुदा विचारि अन्य-अन्य प्रकार लक्षण करे है । १ जहाँ
तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा है, तहाँ तो यह प्रयोजन है, जो
इन तत्त्वनिनी पहिचाने, तो यथार्थ वस्तुके स्वरूप वा अपने हित
अहितका श्रद्धान करौ तब मोक्षमार्गविष प्रवर्त्ते । (४८४/१) । २
आपापरका भिन्न श्रद्धान भए परद्रव्यविषे रागादि न करनेका श्रद्धान
हो है । ऐसे तत्त्वार्थश्रद्धानका प्रयोजन आपापरका भिन्न श्रद्धानतें
सिद्ध होता जानि इस लक्षणकी कहा है । (४८४/२०) । ३. बहुरि
जहाँ आत्मश्रद्धान लक्षण कया है तहाँ आपापरका भिन्न श्रद्धानका
प्रयोजन इतना ही है—आपकी आप जानना । आपकी आप जानें
परका भी विकल्प कार्यकारी नाहीं । ऐसा मूलभूत प्रयोजनकी
प्रधानता जानि आत्मश्रद्धानको मुख्य लक्षण कहा है । (४८४/१३)
४ बहुरि जहाँ देवगुरुधर्मका श्रद्धान लक्षण कया है, तहाँ ब्राह्म
साधनकी प्रधानता करी है । जातें अर्हतादिकका श्रद्धान साँचा
तत्त्वार्थश्रद्धानकी कारण है । ऐसे जुदे-जुदे प्रयोजनकी मुख्यता करि
जुदे-जुदे लक्षण कहे है । (४८४/१७) ।

२ निश्चय व्यवहार सम्यग्दर्शनकी कथञ्चित् मुख्यता गीणता

१ स्वभाव मान बिना सम्यक्त्व नहीं

न च वृ /१८२ जे णयदिद्विविहीणा ताण वत्थमहाउवलन्ठी । वत्थु-
सहावविहणा सम्माद्वी क्क हँति । १८२।—जो नयटिप्टिविहीन है
उन्के वस्तुस्वभावकी उल्लिखि नहीं होती है । जो वस्तुस्वभावसे
विहीन सम्यग्दृष्टि कैसे हो सके है ।

मो मा प्र /७/३२६/१२ वस्तुके भावका नाम तत्त्व कहा । मो भाव
भासे बिना तत्त्वार्थ श्रद्धान कैसे होय ।

२ आत्मानुभवीको ही आठो अंग होते है

का अ /मू /४२४ जो ण कुणदि परत्तंति पुणु पुणु मायेदि मुठमपवाण ।
ददियमुहणिरवेववो णिस्सकडं गुणा तम्म । =जा पुण्य परामी
निन्दा नहीं करता जोर वाग्भ्यार शुद्धात्माको भाता है, तमा इन्द्रिय
सुग्यकी इच्छा नहीं करता, उसके नि शक्ति आदि गुण होते हैं ।

३ आठो अंगोंमें निश्चय अंग ही प्रधान है ।

प ध /उ/२१० न तद् द्विधाथ वात्मक्य भेदास्वपगोचरात् । प्रधात
स्वात्मसांघिगुणो यावत्परात्मनि । २०६। पूर्वार्त्तमेंद्विगि विविध
स्वात्मभेदतः पुन । तत्रागो वरमादेय समादेय परोऽप्यत
। २१। =वत् वात्मक्य जग भा म्स्व और परक विषयके भेदके दो

प्रकार का है, उनमेंसे स्वारसम्यग्दर्शी प्रधान है तथा परारसम्यग्दर्शी गौण है। १८०६। वह प्रभावना अंग भी वास्तविकी तत्त्व स्वयं परके भेदते दो प्रकारका है। उनमेंसे पहला प्रधान रीतिमें आदेश है तथा दूसरी जो परप्रभावना है वह गौणरूपसे उपादेश है। १८१४।

४ पा/५ जयचन्द्र/७/२४ 'ते चिद्र कौन, सो लिखिए—तहाँ मुख्य चिन्ह तो यह है जो उपाधि रहित शुद्ध ज्ञानचेतनास्वरूप आत्माकी अनुभूति है, सो यद्यपि यह अनुभूति ज्ञानका विधेय है (दे सम्यग्दर्शन/१/४/१) तथापि सम्भवतः भये यह होय है, ताते याज्ञु बाह्य चिह्न कहिए है।'

४. श्रद्धान् आदि सब आत्माके परिणाम है

रा वा/१/७/१६/३० स्यादेतत्-वह्यमाणनिर्देशादिशून्यविवरणाय पुद्गलक्षयस्य सप्रत्यय प्राप्नोति, तन्न, किं कारणम्। आरमपरिणामेऽपि तद्व्यपत्तेः। किं तत्त्वार्थश्रद्धानम्। आरमपरिणामम्। नम्य। आरमन इत्येवमादि। = मोहनीय कर्मकी प्रकृतियोंमें भी सम्यक्त्व नामकी कर्मप्रकृति है और 'निर्देश स्वामित्व आदि सूत्रके विवरणसे भी ज्ञात होता है कि यहाँ सम्यक्त्व कर्मप्रकृति का सम्यग्दर्शनसे ग्रहण है अतः सम्यक्त्वको कर्म पुद्गलरूप मानना चाहिए। उत्तर— यहाँ मोक्षके कारणोंका प्रकरण है, अतः उपादानभूत आरमपरिणाम ही विवक्षित है। (प्र म/मू/४१)

दे भाव/२/३ औपशमिकादि सम्यग्दर्शन भी सीधे आरमपरिणाम स्वरूप है कर्मोंकी पर्यायरूप नहीं।]

५. निश्चय सम्यक्त्वकी महिमा

पं वि/४/२३ तस्मिन् प्रतिचित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता। निश्चितं न भवेत्प्रथमो भाविनिर्वाणभाजनम्। १२३। = उस आरमतीजके प्रति मनमें प्रेमको धारण करके जिसने उसकी बात भी सुनी है वह निश्चयसे भव्य है, न भविष्यमें प्राप्त होनेवाली सुक्ति का पात्र है।

६. श्रद्धान मात्र सम्यग्दर्शन नहीं हैं

रा वा/१/२/२६-२८/२१/२६ इच्छाश्रद्धानमिरयपरे १२६। तदयुक्तम् मिथ्यादृष्टेरपि प्रसङ्गात् १२७। केवलमिन् सम्यक्त्वाभावात्प्रसगात् १२८। = कोई वादी इच्छापूर्वक श्रद्धानको सम्यग्दर्शन नहीं है। १२६। उनका यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि मिथ्यादृष्टि (जैन शारंगको पड़कर) वैसा श्रद्धान तो कर लेते हैं। १२७। दूसरी बात यह है कि ऐसा माननेसे केवली भगवान्में सम्यक्त्व का अभाव प्राप्त होता है, क्योंकि, उनमें इच्छाका अभाव है। १२८।

रत्तो वा २/२/२/३३ इश्वरेशालोचने स्थिति प्रसिद्धा, इति प्रेक्षणे इति वचनात्। तत्र सम्यक् परमरयनेत्यादि-करणसाधनत्वादित्य-वरथायां दर्शनशब्दनिस्फुरितलक्षण सम्यग्दर्शन न लभ्यत एव तत् प्रशस्तालोचनमात्रस्य लब्धे। न च तदेवेमतिव्यापित्वादभव्यस्य मिथ्यादृष्टेः प्रशस्तालोचनस्य सम्यग्दर्शनप्रसगात्। = प्रश्न—इष्ट धातुकी 'सामान्यसे देखना' ऐसी व्युत्पत्ति जगत प्रसिद्ध है। वहाँ 'सम्यक् देखता है जिसके द्वारा' ऐसा करण प्रत्यय करनेपर जो इष्ट लक्षण प्राप्त होता है वह आप स्याद्वादियोंके यहाँ प्राप्त नहीं होता है। भले प्रकार देखना ऐसा भाव साधनरूप अर्थ भी नहीं मिलता है। उत्तर—ऐसा अर्थ हम इष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अतिव्याप्ति दीप होगा। मिथ्यादृष्टि अव्ययके प्रशस्त देखना होनेके कारण सम्यग्दर्शन ही जानैका प्रसंग ही जायेगा।

पं घ/४/१४ व्यस्तारचैते समस्ता वा सदृष्टेर्लक्षण न वा। सपक्षे वा विपक्षे वा सन्ति यत्रा न सन्ति वा १४१। = श्रद्धा, रुचि, प्रतीति और चरण, ये चारों पृथक्-पृथक् अथवा समस्तरूपसे भी सम्यग्दर्शनके वास्तविक लक्षण नहीं हैं। सक्ते हैं, क्योंकि, सपक्ष और विपक्ष दोनों ही अवस्थाओंमें होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। रहस्यपूर्ण

चिट्ठी प टोडर मन्/मो गा, प्र/१०६/६ जो आपापरता गार्थ श्रद्धा नार्थ है, अर्जुनमत विषयें रहे जे देख, मुझ, धर्म तिमि हीं प्र मानें है, अन्य मत विषयें करे रेवादि वा तत्त्वादि निमित्त नार्थ माने है, ता ऐसे केवल व्यवहार सम्यक्त्व वरि सम्यक्कारी नाम पायें नार्थ।

७. मिथ्यादृष्टिकी श्रद्धा आदि यथार्थ नहीं

दे श्रद्धा/३/६ [प्र वाग्ना ग्रहण त्रिया रूआ पक्ष, मिथ्यादृष्टि जीव, सम्यक् उपादेश मितनेपर भी नहीं छाड़ना। उन्गीरी एठ पकटे ररता है।]

प घ/३ १२८ अर्थाच्छ्रद्धाया सम्यग्दर्ष्टिश्रद्धाया यत्। मिथ्या श्रद्धाया मिथ्या नागाच्छ्रद्धाया यत्। = वाकि, सम्यग्दर्ष्टि जीवसे श्रद्धादिपर वास्तवमें श्रद्धा आदि है त्रीर मिथ्यादृष्टिके श्रद्धा आदि मिथ्या है, इसलिए मिथ्यादृष्टिके श्रद्धा आदि वास्तविक नहीं हैं। १२८।

दे मिथ्यादृष्टि/१/२ व १/१ [मिथ्यादृष्टि व्यक्ति मर्त्य प्रथम, संवेग, अनुकम्पा, दाम्पित्य आदि सभी उर्णोंका पानन करता है परन्तु उनके वे मय ही मिथ्या हैं, काकि, वे मय अंगके निमित्त ही होते हैं मोक्षके निमित्त नहीं।] मोमा प्र/१/३३/१२ व्यवहारमूलम्बी-की तत्रश्रद्धा ऐसी होती है, कि] शारंगके अनुमानि जानितो ने है। परन्तु आपाँ जाप जानि परता उद्य भी न मिताना अर व्यापका अक्ष भी पर विपै न मिताना, रेमा नाँका श्रद्धा नार्थी करे है।

३. निश्चय व्यवहार सम्यक्त्व समन्वय

१ नव तत्त्वोंका श्रद्धाका अर्थ श्रद्धात्मकी श्रद्धा ही है

स सा/मू व जा/१३ भुवरथेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णपाव च। आरममवगणित्तरमधो मोक्त्वो य सम्मत् १३। नवतत्त्वेष्वेकव्यथा-तिना भूतार्थनयेनेकव्यमुपानीय श्रद्धधनयत्वेन व्यवस्थापितम्मार-नोऽनुभूतेरारमस्यातिलक्षणया मपथमानत्वात्। = भूतार्थनयसे ज्ञात जीव, अजीव और पुण्य, पाप तथा आरम, संहर, निर्जरा, शून्य और मोक्ष ये नव तत्त्व सम्यक्त्व है। १३। वाकि, नव तत्त्वोंमें एकत्व प्रकट करनेवाले भूतार्थनयसे एकत्व प्राप्त करके, श्रद्धधनरूपसे स्थापित आत्माकी अनुभूति—जिमका लक्षण आरमत्वात्ति है, वह प्राप्त होती है। (पं घ/३/१८६)

स सा/आ/१३/८ चिरमिति नवतत्त्वच्छ्रद्धानुनीयमान, कनकमिव निमग्न वर्णमालान्तापे। जय सततविविक्त इत्यतामैकरूप, प्रतिपद-मिदमारमज्यातितिरुच्योतमानम् १८। = इस प्रकार नवतत्त्वोंमें (अनेक पर्यायोंमें) बहुत समयसे छिपी हुई यह आरमज्योति श्रद्धधनयसे बाहर निकालकर प्रकट की गयी है, जैसे वर्णोंके मयूरमें छिपे हुए एकाकार स्वर्णको बाहर निकालते हैं। इसलिए अब है भव्यो। इसे सदा अन्य द्रव्योंसे तथा उनसे होनेवाले (राग आदिक) निमित्तिक भावोंसे भिन्न, एकरूप देखो। यह (ज्योति), पद-पदपर अर्थात् प्रत्येक पर्यायमें एकरूप विद्यमानरामात्र उच्योतमान है।

स सा/ता वृ/१३/३१/१२ नवपदार्था भूतार्थेन ज्ञाता सन्त सम्य-क्त्व भवन्तीत्युक्त भवद्भिस्तरुकीश्रद्धा भूतार्थपरिज्ञानमिति पृष्टे प्रत्युत्तरमाह। यद्यपि नवपदार्था तीर्थवर्तनानिमित्त प्राथमिक-शिक्ष्यापेक्षया भूतार्था भग्यन्ते तथाप्यभेदग्रन्त्रयलक्षणनिर्विकल्प-समाधिकाले अभूतार्था अमलार्था श्रद्धात्मस्वरूप न भवन्ति। तस्मिन् परमसमाधिकाले नवपदार्थमध्ये श्रद्धधनरचनयेनेक एव श्रद्धात्मा प्रद्योतते प्रकाशते प्रतीयते अनुभूयत इति। = प्रश्न—नव पदार्थ यदि भूतार्थरूपसे जाने गये हों तो सम्यग्दर्शन रूप होते हैं ऐसा आपने कहा है। वह भूतार्थ परिज्ञान कैसा है। उत्तर—यद्यपि तीर्थवृत्तिके निमित्त प्राथमिक शिक्ष्यकी अपेक्षा ये नवपदार्थ, तथा वहे जाते हैं,

(दे नय/व/४) तथापि अभेद रत्नत्रयरूप निर्विकल्प समाधिकाल-
में वे अग्रतार्थ है, असत्यार्थ है, क्योंकि वे शुद्धात्मस्वरूप नहीं हैं।
उस परम समाधिके कालमें इन नवपदार्थोंमेंसे शुद्धनिश्चयनयसे एक
शुद्धात्मा ही अर्थात् नित्य निरजन चित्स्यभाव ही चोत्तित होता
है, प्रकाशित होता है, प्रतीतिमें आता है, अनुभव किया जाता है।
(और भी दे. तत्त्व/३/४); (स सा/ता वृ/१६६/१४४/६)

दे. अनुभव/३/३ [आत्मानुभव सहित ही तत्त्वोंकी श्रद्धा या प्रतीति
सम्यग्दर्शनका लक्षण है, बिना आत्मानुभवके नहीं।]

२. व्यवहार सम्यक्त्व निश्चयका साधक है

द्र. स/टो/४१/१७८/४ अत्र व्यवहारसम्यक्त्वमध्ये निश्चयसम्यक्त्व
किमर्थं व्याख्यातमिति चेद् व्यवहारसम्यक्त्वेन निश्चयसम्यक्त्व
साध्यत इति साध्यसाधकभावज्ञापनार्थमिति। = प्रश्न—यहाँ इस
व्यवहार सम्यक्त्वके व्याख्यानमें निश्चय सम्यक्त्वका वर्णन क्यों
किया। उत्तर—व्यवहार सम्यक्त्वसे निश्चय सम्यक्त्व सिद्ध किया
जाता है, इस साध्य-साधक भावको बतलानेके लिए किया गया है।

प का/ता वृ/१०७/१७०/८ इदं तु नवपदार्थविषयभूत व्यवहारसम्य-
क्त्वं किं विशिष्यम्। शुद्धजीवास्तिकायारुचिरूपस्य निश्चयसम्य-
क्त्वस्य छत्रस्थावस्थामात्मविषयस्ववेदनज्ञानस्य परम्परया बीजम्।
= यह जो नवपदार्थका विषयभूत व्यवहार सम्यक्त्व है, वह शुद्ध
जीवास्तिकायकी रुचिरूप जो निश्चय सम्यक्त्व है उसका तथा
छत्रस्थ अवस्थामें आत्मविषयक स्वमवेदन ज्ञानका परम्परारसे बीज है।

३ तत्त्वार्थ श्रद्धानको सम्यक्त्व कहनेका कारण व प्रयोजन

यो सा/अ./१/२-४ जीवाजीवद्वयं त्यक्त्वा नापर विद्यते यत्। तल्लक्षण
ततो ज्ञेय स्वस्वभावबुधुत्सया। २। यो जीवाजीवयोर्वैति स्वरूप
परमार्थत। सोऽजीवपरिहारेण जीवतत्त्वे निलीयते। ३। जीवतत्त्व-
विलीनस्य रागद्वेषपरिक्षयः। ततः कर्मश्रयच्छेदस्ततो निर्वाणसं-
गमः। ४। = ससारमें जीव व अजीव इन दोनोंके अतिरिक्त और
कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने स्वरूपज्ञानकी अभिलाषासे इन
दोनोंके लक्षण जानने चाहिए। २। जो परमार्थसे इनके स्वरूपको जान
जाता है वह अजीवको छोड़कर जीव तत्त्वमें लय हो जाता है। उससे
रागद्वेषका क्षय और इससे मोक्षकी प्राप्ति होती है। २-४।

स सा/ता वृ/१७६/३५५/८ जीवादिनवपदार्थः श्रद्धानविषय सम्य-
क्त्वाश्रयत्वाग्निमित्त्वाद् व्यवहारेण सम्यक्त्व भवति। = जीवादि
नव पदार्थ श्रद्धानके विषय है। वे सम्यक्त्वके आश्रय या निमित्त
होनेके कारण व्यवहारसे सम्यक्त्व कहे जाते हैं। (मो. मा प्र/१/४८
६/१६)

प प्र/टो/२/१३/१२७/२ तत्त्वार्थश्रद्धानापेक्षया चनमलिनावगाढ-
परिहारेण शुद्धात्मवोपादेय इति रुचिरूपेण निश्चिनोति। = तत्त्वार्थ
श्रद्धानकी अपेक्षा चलमलिन अज्ञात इन दोषोंके परिहार द्वारा
'शुद्धात्मा ही उपादेय है' ऐसी रुचिरूपसे निश्चय करता है।

४. सम्यक्त्वके अंगोंको सम्यक्त्व कहनेका कारण

मो मा प्र/८/४०१/१६ निश्चय सम्यक्त्वका तो व्यवहारविषे उपचार
किया, बहुतेक व्यवहार सम्यक्त्वके कोई एक अंगविषे सम्पूर्ण व्यवहार
सम्यक्त्वका उपचार किया, ऐसे उपचारकरि सम्यक्त्व भया कहिए।

रा वा./हि/१/२/२४ यह (प्रश्न सवेगादि) चार चिह्न सम्यग्दर्शनको
जनावे हैं, तातै सम्यग्दर्शनके कार्य हैं। तातै कार्य करि कारणका
अनुमान हो है।

४. सराग वीतराग सम्यग्दर्शन निर्देश

१. सराग वीतराग रूप भेद व लक्षण

स सि/१/२/१०/२ तद् द्विविध, सरागवीतरागविषयभेदात्।" प्रश्न-
सवेगानुक्म्पास्तिक्याचिभ्यक्तिलक्षण प्रथमम्। आत्मविशुद्धिमात्र-
मितरत्। = सम्यग्दर्शन दो प्रकारका है—सराग सम्यग्दर्शन और
वीतराग सम्यग्दर्शन। प्रश्न, सवेग, अनुक्म्पा और आस्तिक्य
आदिकी अभिव्यक्ति लक्षणवाला सराग सम्यग्दर्शन है और आत्मा-
की विशुद्धि मात्र वीतराग सम्यग्दर्शन है। (रा. वा/१/२/२६-३१/
२२/६), (श्लो वा, २/१/२/श्लो. १२/२६), (अन घ/२/४१/१७८),
(गो जी/जी प्र/४६१/१००६/१६ पर उद्धृत), (और भी दे. आगे
शीर्षक नं २)।

रा वा/१/२/३१/२२/११ सद्गानां कर्मप्रकृतीनाम् आत्यन्तिकेऽपगमे
सत्प्रात्मविशुद्धिमात्रमितरद् वीतरागसम्यक्त्वमित्युच्यते। = (दर्शन-
मोहनोयकी) सातो प्रकृतियोंका आत्यन्तिक क्षय हो जानेपर जो
आत्म विशुद्धिमात्र प्रकट होती है वह वीतराग सम्यक्त्व है।

भ आ/वि/६१/१७६/१८, २१ इह द्विविध सम्यक्त्व सरागसम्यक्त्व
वीतरागसम्यक्त्व चेति। तत्र प्रशस्तारागसहितानां श्रद्धानं सराग-
सम्यग्दर्शनम्। रागद्वयरहिताना क्षीणमोहावरणाना वीतराग-
सम्यग्दर्शनम्। = सम्यक्त्व दो प्रकारका है—सरागसम्यक्त्व और
वीतराग सम्यक्त्व। तहाँ प्रशस्ताराग सहित जीवोंका सम्यक्त्व सराग
सम्यक्त्व है, और प्रशस्त व अप्रशस्त दोनों प्रकारके रागसे रहित
क्षीणमोह वीतरागियोंका सम्यक्त्व वीतराग सम्यक्त्व है।

अ ग. प्रा/२/६६-६६ वीतराग सराग च सम्यक्त्व कथितं द्विधा।
विराग क्षायिक तत्र सरागमपरद्वयम्। ६६. सवेगप्रशमास्तिक्यकारुण्य-
व्यक्तनक्षणम्। सराग पटुभिर्ज्ञेयमुपेक्षालक्षण परम्। ६६। = वीतराग
और सरागके भेदसे सम्यग्दर्शन दो प्रकारका है। तहाँ क्षायिक
सम्यक्त्व वीतराग है और शेष दो अर्थात् औपशमिक व क्षायोप-
शमिक सराग है। ६६। प्रश्न, सवेग, आस्तिक और अनुक्म्पा इन
प्रकट लक्षणोंवाला सराग सम्यक्त्व जानना चाहिए। उपेक्षा अर्थात्
वीतरागता लक्षणवाला वीतराग सम्यक्त्व है। ६६।

स सा/ता वृ/१७७/१२५/१३ सरागसम्यग्दृष्टि सन्नभुभकर्मकर्तृत्वं
मुञ्चति। निश्चयचारित्राविनाभाविवीतरागसम्यग्दृष्टिर्भूत्वा शुभाशुभ-
सर्वकर्मकर्तृत्वं च मुञ्चति। = सरागसम्यग्दृष्टि केवल अशुभ कर्मके
कर्तापनेको छोड़ता है (शुभकर्मके कर्तापनेको नहीं), जब कि
निश्चय चारित्रके अविनाभूत वीतराग सम्यग्दृष्टि होकर वह शुभ
और सर्व प्रकारके कर्मोंके कर्तापनेको छोड़ देता है।

द्र. स/टो/४१/१६८/२ त्रिगुणावस्थालक्षणवीतरागसम्यक्त्वप्रस्तावे।
= त्रिगुणिरूप अवस्था ही वीतरागसम्यक्त्वका लक्षण है।

२. व्यवहार व निश्चय सम्यक्त्वके साथ इन दोनोंकी एकाग्रता

द्र. स/टो/४१/१७७/१२ शुद्धजीवादितत्त्वार्थश्रद्धानलक्षण सरागसम्य-
क्त्वाभिधान व्यवहारसम्यक्त्व विज्ञेयम्। वीतरागचारित्राविनाभूतं
वीतरागसम्यक्त्वाभिधान निश्चयसम्यक्त्व च ज्ञातव्यमिति। = शुद्ध
जीव आदि तत्त्वार्थोंका श्रद्धानरूप सरागसम्यक्त्व व्यवहार जानना
चाहिए और वीतराग चारित्रके बिना नहीं होनेवाला वीतराग
सम्यक्त्व नामक निश्चयसम्यक्त्व जानना चाहिए।

प प्र/टो/२/१७/१३२/६ प्रश्नसवेगानुक्म्पास्तिक्याचिभ्यक्तिलक्षणं
सरागसम्यक्त्व भण्यते। तदेव व्यवहारसम्यक्त्वमिति। वीतराग-
सम्यक्त्व निजशुद्धात्मानुत्तिनक्षण वीतरागचारित्राविनाऽत्यम्।

तदेव निश्चयसम्यक्त्वमिति ।=प्रशय, सवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य आदिको अभिव्यक्ति सराग सम्यक्त्वका लक्षण है (दे, शीर्षक नं १) । वह ही व्यवहारसम्यक्त्व है । वीतराग सम्यक्त्व निजशुद्धधारामाश्रुति लभणवाला है और वीतराग चारित्रिके अविनाभावी है । वह ही निश्चय सम्यक्त्व है ।

पं. का/ता वृ/१५०-१५१/२१७/१६ सप्तप्रकृतानामुपशमने क्षयोपशमन च सरागसम्यग्दृष्टिर्भूत्वा पञ्चपरमेष्ठिभक्त्यादिरूपेण ।=सात प्रकृतियोंके उपशमन या क्षयोपशमनसे सरागसम्यग्दृष्टि होकर पंचपरमेष्ठिको भक्ति आदिरूपसे (परिणमित होता है) ।

दे समय- [पंचपरमेष्ठिको आदिको भक्ति रूप परिणत होनेके कारण सराग सम्यग्दृष्टि सूक्ष्म परसमय है] ।

३. सराग व वीतराग सम्यक्त्वका स्वामित्व

भ. आ/वि/१६/६२/३ वीतरागसम्यक्त्व नेह गृहीतम् । मोहप्रलय-मन्तरेण वीतरागता नास्ति । =यहाँ वीतराग सम्यक्त्वका ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोहका क्षय हुए बिना वीतरागता नहीं होती । (दे. सम्यग्दर्शन/II/४/१) ।

दे. सम्यग्दर्शन/II/४/१ (क्षायािक सम्यग्दृष्टि वीतराग सम्यग्दृष्टि है और औपशमिक व क्षयोपशमिक सराग सम्यग्दृष्टि है) दे. सम्यग्दर्शन/II/४/२-—पं का) ।

दे. सम्यग्दर्शन/II/४/२ (भक्ति आदि शुभ रागसे परिणत सराग सम्यग्दृष्टि है और वीतरागचारित्रिका अविनाभावी वीतराग सम्यग्दृष्टि है) ।

दे सम्यग्दर्शन/II/३/२/६ (चौथेसे छठे गुणस्थानतक स्थूल सराग सम्यग्दृष्टि है, क्योंकि, उनकी पहिचान उनके काय आदिके व्यापार-परसे हो जाती है और सातवेंसे दसवें गुणस्थानतक सूक्ष्म सराग सम्यग्दृष्टि है, क्योंकि, उसकी पहिचान काय आदिके व्यापारपरसे या प्रशम आदि गुणोंपरसे नहीं होती है । यहाँ अर्थापत्तिसे बात जान ली जाती है कि वीतराग सम्यग्दृष्टि ११ वें से १४ वें गुणस्थान तक होते हैं । सकल मोहका अभाव हो जानेसे वे ही वास्तवमें वीतराग है या वीतराग चारित्रिके धारक है) ।

४. इन दोनों सम्यक्त्वों सम्यन्धी २५ दोषोंके लक्षणोंकी विशेषता

द्र स/टी/४१/१६६-१६६ का भावार्थ—[वीतराग सर्वज्ञको देव न मान कर क्षेत्रपाल आदिको देव मानना देवमूढता है । गङ्गादि तीर्थोंमें नान करना पुण्य है, ऐसा मानना लोकमूढता है । वीतराग निर्ग्रन्थ गुरुको न मानकर लौकिक चमत्कार दिखानेवाले कुर्लिंगियोंको गुरु मानना गुरुमूढता है । विज्ञान ऐश्वर्य आदिका मद करना सो आठ मद है । क्रुदेव, क्रुगुरु, क्रुधर्म तथा इसके उपासक ये छह अनायतन है । व्यवहार नि शक्तिादिक आठ अणोसे विपरीत आठ दोष हैं । ये २५ दोष है (विशेष दे वह वट नाम)] ।

द्र.स/टी/४१/पृष्ठ/पक्ति-एवमुक्तलक्षणं मूढत्रय सरागसम्यग्दृष्टवस्थायां परिहरणीयमिति । त्रिगुणावस्थालक्षणवीतरागसम्यक्त्वप्रस्तावे पुनर्नि-जनिरञ्जननिर्दोषपरमात्मैव देव इति निश्चयबुद्धिर्देवमूढरहितत्व विज्ञेयम् । तथैव च मिथ्यास्वरागादिरूपमूढभावस्वायेगेन स्वशुद्धारम-न्येवावस्थान लोकमूढरहितत्व विज्ञेयम् । तथैव च परमसमरसी-भवेन तस्मिन्नेव सम्यक्पणायन गमन परिणमनं समयमूढरहितत्वं बोद्धव्यम् । (२६८/१) । मद, अक सरागसम्यग्दृष्टिभिरत्याज्यमिति । वीतरागसम्यग्दृष्टीनां पुनर्मानकपायादुत्पन्नमदमात्सर्ग्यादिसमस्त-विकल्पजालपरिहारेण ममकाराहंकाररहिते शुद्धारमनि भावनैव मदाद्यत्याग इति । (१६६/६) । चेत्युक्तलक्षणमनायतनपट्क सरागसम्यग्दृष्टीनां त्याज्य भवतीति । वीतरागसम्यग्दृष्टीना पुन

समस्तदोषायतनभूतानां मिथ्यास्वविषयकपायरूपायतनानां परिहारेण केवलज्ञानायनन्तगुणायतनभूते स्वशुद्धारमनि निवास प्वानायतन-सेवापरिहार इति ।=इन उपरोक्त लक्षणवाली तीन मूढताओंको मराग सम्यग्दृष्टि अवस्थामें त्यागना चाहिए, और मन, वचन तथा कायकी गुप्तिरूप अवस्थावाले वीतराग सम्यक्त्वके प्रस्तावमें 'अपना निरजन तथा निर्दोष परमारमा ही देव है' ऐसी जो निश्चय बुद्धि है वही देवमूढतासे रहितता जानना चाहिए । तथा मिथ्यास्व राग आदि रूप जो मूढ भाव है, इनका त्याग करनेसे निजशुद्ध आत्मामें स्थितिका करना वही लोकमूढतासे रहितता है । तथा परगममता भावसे उसी निज शुद्धारमामें ही जो सम्यक् प्रकारसे अयन यानी गमन अथवा परिणमन है, उसको समयमूढताका त्याग समझना चाहिए । उपरोक्त आठ मदोंका सराग सम्यग्दृष्टियोंको त्याग करना चाहिए । मान ऋषयसे उत्पन्न जो मद, मासर्ग्य (ईर्ष्या) आदि समस्त विकल्पोंके त्यागपूर्वक जो ममकार जहकारसे रहित शुद्ध आत्मामें भावनाका करना है वही वीतराग सम्यग्दृष्टियोंके आठ मदों का त्याग है । ये उपरोक्त छह अनायतन मराग सम्यग्दृष्टियोंको त्यागने चाहिए । और जो वीतराग सम्यग्दृष्टि जीव है उनके सम्पूर्ण दोषोंके स्थानभूत मिथ्यास्व, विषय तथा कपायरूप आयतनोंके त्यागपूर्वक केवलज्ञान आदि अनन्त गुणोंके स्थानभूत निजशुद्ध आत्मामें जो निवास करना है, वही अनायतनोंकी सेवाका त्याग है ।

५. दोनोंमें कथंचित् एकत्व

श्लो वा./पु २/१/२/३-४/१६/२८ तत्त्वविशेषणे रथेयं श्रद्धानस्य न किंचिद-वय दशनमोहरहितस्य पुरुषस्वरूपस्य वा 'तत्त्वार्थश्रद्धानम्' शब्देना-भिधानात् सरागवीतरागसम्यग्दर्शनयोस्तस्य सद्भावादव्याप्यते स्फुटं विध्वजनात् ।=तत्त्व विशेषण लगानेसे तत्त्व करके निर्णीत अर्थका श्रद्धान करना रूप लक्षण अनवय है । क्योंकि, दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे रहित हो रहे आत्मके 'तत्त्वार्थोंका श्रद्धान करना' इस शब्द-से कहा गया यह लक्षण, सराग और वीतराग दोनों ही सम्यग्दर्शनों में घटित हो जाता है । अत अव्याप्ति दोषका सर्वथा नाश हो जाता है ।

६. इन दोनोंमें तात्त्विक भेद मानना भूल है

प ध/उ/श्लो न, तत्रास्ति वीतरागस्य कस्यचिज्ज्ञानचेतना । सदृष्टे-निर्विकल्पस्य नेतरस्य कदाचन ।८२८। व्यावहारिकसदृष्टे स्रवि-कल्पस्य रागिण । प्रतीतिमात्रमेवास्ति वृत् स्यात् ज्ञानचेतना ।८२९। इति प्रज्ञापरार्थेन ये वदन्ति दुराशया । तेषां यावत् श्रुताभ्याम-कायवलेशा य केवलम् । ८३०। बहू रौप्यमिवात्मज्ञ पृथक्कत्तु त्वम-हंसि । मा विभ्रमस्वदृष्ट्वापि चक्षुपाऽचक्षुपाशयो । ८३१। हेतो पर प्रसिद्धयै स्थूललक्ष्यैरिति स्मृतम् । आप्रमत्त च सम्यक्त्व ज्ञानं वा सविकल्पकम् । ८३२। तस्तत्त्वत्वं तु सम्यक्त्व ज्ञानं वा निर्विकल्पकम् । शुबलक्ष्यान तदेवास्ति तत्रास्ति ज्ञानचेतना । ८३३। प्रमत्तानां विकल्प-त्वात् स्यात्सा शुद्धचेतना । अस्तीति वासनोन्मेष केर्पाचिरस न सन्नित् । ८३४। यत् पराश्रितो दोषो गुणो वा नाश्रयेत्परम् । परो वा नाश्रयेदोष गुणं चापि पराश्रितम् । ८३५।=१ उन दोनोंमें-से एक वीतराग निर्विकल्प सम्यग्दृष्टिके ही ज्ञानचेतना होती है और दूसरे अर्थात् सविकल्प व सराग सम्यग्दृष्टिके वह नहीं होती है । ८२८। किन्तु उस सविकल्प सरागी व्यवहार सम्यग्दृष्टिके केवल प्रतीति मात्र श्रद्धा होती है, इसलिए उसके ज्ञानचेतना कैसे हो सकती है ! ८२९। बुद्धिके दोषसे जो दुराशय लोग ऐसा कहते हैं, उनका जितना भी शास्त्राध्ययन है वह सब केवल शरीरकलेशके लिए ही समझना चाहिए । ८३०। भी आप्रमत्त । अगिनकी उष्णताके समान तुम्हें अपने स्वभाव-को पृथक् करके देखना योग्य है । (स्वस्वदेन द्वारा उस वीतराग

तत्त्वको) प्रत्यक्ष देख कर भी सराग रूप अदृष्टकी आशासे भ्रममें मत पड़ो । ८३३। २ केवल रागरूप हेतुसे ही, प्रसिद्ध जिन स्थूल दृष्टिवाले आचार्योंने सम्यक्त्व और ज्ञानको छठे गुणस्थानतक सविकल्प और इससे ऊपरके गुणस्थानोंमें निविकल्प कहकर उसे शुक्ल ध्यान माना है, तथा वहाँ ही शुद्ध ज्ञान चेतना मानते हुए नीचेके छठे गुणस्थान तक विकल्पका सद्भाव होनेसे ज्ञान चेतनाका न होना माना है, ऐसे किन्हीं-किन्हींके वासनाका पक्ष होनेके कारण वह ठीक नहीं है । १६१३-१६१५। क्योंकि जैसे अन्यके गुण-दोष अन्यके नहीं कहलाते उसी प्रकार अन्यके गुण दोष अन्यके गुण-दोषोंका आश्रय भी नहीं करते । (अर्थात् चारित्र्य सम्बन्धी रागका दोष सम्यक्त्वमें लगाना योग्य नहीं) । १६१६।

७. सराग सम्यग्दृष्टि भी कथञ्चित् वीतराग है

- दे, मिथ्यादृष्टि/४/१ (सम्यग्दृष्टि सदा अपना काल वैराग्य भावसे गमाता है ।)
- दे राग/६/४ (सम्यग्दृष्टिको ज्ञान व वैराग्यकी शक्ति अवश्य होती है)
- दे जिन/३ (मिथ्यात्व तथा रागादिको जीत लेनेके कारण असन्त सम्यग्दृष्टि भी एक देश जिन कहलाता है ।)
- दे, सवर/२ [सम्यग्दृष्टि जीवको प्रवृत्तिके साथ निवृत्तिका अश भी अवश्य रहता है ।]
- दे उपयोग/II/३३ [तहाँ उसे जितने अशमें राग वर्तता है उतने अशमें बन्ध है और जितने अशमें राग नहीं है उतने अशमें सवर निर्जरा है]

८. सराग व वीतराग कहनेका कारण प्रयोजन

- प ध/७/११२ विमृश्यैतत्परं कैश्चिदसद्भूतोपचारत । रागवज्ज्ञान-मत्रास्ति सम्यक्त्वं तद्वदोरितम् । १६१२। = (७-१० गुणस्थानतक अबुद्धिपूर्वकका सूक्ष्म राग होता है, जो इससे ऊपरके गुणस्थानोंमें नहीं होता—दे राग/३) केवल यही विचार करके किन्हीं आचार्योंने असद्भूत उपचारनयसे जिसप्रकार छठे गुणस्थान तकके ज्ञानको राग युक्त कहा है उसी प्रकार सम्यक्त्वको भी रागयुक्त कहा है । १६१२। (दे सम्यग्दर्शन/II/१/६।)
- दे सम्यग्दर्शन/II/३/१ [विकल्पात्मक निचली भूमिकाओंमें यद्यपि विषय कषाय व चकार्थ नव पदार्थ भूतार्थ है पर समाधि कालमें एक-मात्र शुद्धात्म तत्त्व ही भूतार्थ है । ऐसा अभिप्राय है ।] (और भी दे, नय/II/३/१०)

III सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके निमित्त

१ सम्यक्त्वके अन्तरग व बाह्य निमित्तोका निर्देश

१ निसर्ग व अधिगम आदि

- नि सा/मू/५३/ सम्मत्तस्स णिमत्त जिणसुत्त तस्स जाणया पुरिसा । = सम्यग्दर्शनका निमित्त जिन सूत्र है, अथवा जिनसूत्रके जाननेवाले पुरुष हैं ।
- त सू/१/३ तन्निसर्गाधिगमाद्वा । ३। = वह सम्यग्दर्शन निसर्गसे अर्थात् परिणाममात्रसे और अधिगमसे अर्थात् उपवेशके निमित्तसे उत्पन्न होता है । (अन ध/२/४७/७७१)

रलो वा २/१/३ यथा ह्यौपशमिक दर्शन निसर्गाधिगमाच्चोत्पद्यते तथा क्षायोपशमिक क्षायिक चेत सुप्रतीतम् । = जिस प्रकार औपशमिक सम्यग्दर्शन निसर्ग व अधिगम दोनोंसे होता है, उसी प्रकार क्षायोपशमिक व क्षायिक भी सम्यक्त्व दोनों प्रकारसे होते हुए भले प्रकार प्रतीत हो रहे हैं ।

न च वृ/२/४८ सामण्य अह विसेम दब्बे णाण ह्वेह अविरोही । साहृ त सम्मत णहु पुण त तस्स विवरीय । २४८। = द्रव्यका अविरोध सामान्य व विशेष ज्ञान सम्यग्दर्शनको सिद्ध करता है क्योंकि वह उसमें विपरीत नहीं होता ।

दे स्वाध्याय/१/१० (आगम ज्ञानके बिना स्व व परका ज्ञान नहीं होता तब सम्यक्त्व पूर्वक कर्मोंका क्षय कैसे हो सकता है ।

दे लब्धि/३ (सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके उपदेशके निमित्त मन्मन्धी)

२. दर्शनमोहके उपशम आदि

नि सा./मू/४३ अतरहेज भणिदा दसणमोहस्स खयपहुदी । ४३। = सम्यग्दर्शनके अन्तरगहेतु दर्शनमोहके क्षय उपशम व क्षयोपशम है ।

स सि/१/७/२६/१ अभन्तर दर्शनमोहस्योपशम क्षय' क्षयोपशमो वा । = दर्शनमोहनीयका उपशम, क्षय या क्षयोपशम अम्यन्तर साधन है । (रा वा./७/१४/४०/२६), (म पु/६/११८), (अन, ध/२/४६/१७१)

३. लब्धि आदि

म पु/६/११६ देशनाकाललब्ध्यादिवाह्यारणसपदि । अत करणसामग्र्या भव्यात्मा स्याद् विशुद्धदृक् । ११६। = जब देशनालब्धि और काल-लब्धि आदि बहिरगकारण तथा करणलब्धिरूप अन्तरग कारण रूप सामग्रीकी प्राप्ति होती है, तभी यह भव्य प्राणी विशुद्ध सम्यग्दर्शनका धारक हो सकता है ।

न च, वृ/३/१५ काज्जण करणलब्धी सम्यग्भावस्य कुण्ह ज गहण । उवसमखयमिस्सादो पयडीण तं पि णियहेउ । ३१५। = जिस करण-लब्धिको करके सम्यक्भावको तथा प्रकृतियोंके उपशम क्षय व क्षयोपशमको ग्रहण करता है, वह करण लब्धि भी सम्यक्त्वमें निजरेतु है ।

दे सम्यग्दर्शन/II/२/६ (पच लब्धिको प्राप्त करके ही प्रथमोपशम सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है ।)

दे, क्षय/२/३ (क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्तिके लिए भी करण लब्धि निमित्त है ।)

प ध/७/३७८ दैवारकालादिसत्त्वो प्रत्यासन्ने भवार्णवे । भव्यभाव-विपाकाद्वा जीव सम्यक्त्वमश्नुते । ३७८। = दैवयोगसे अथवा कालादि लब्धिकी प्राप्ति होनेपर अथवा ससर-सागरके निवट होनेपर अथवा भव्यभावका विपाक होनेपर जीव सम्यक्त्वको प्राप्त करता है । ३७८। (विशेष दे नियति/२/१,३)

४. द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप निमित्त

रलो वा ३/१/३/११/८२/२२ दर्शनमोहस्यापि सपन्नो जिनेन्द्रविम्बादि द्रव्य, समवसरणादि क्षेत्र, कालरचार्यपुद्गलपरिवर्तनविशेषादिभाव-रवाध्याप्रवृत्तिकरणादिरिति निश्चीयते । तदभावे तदुपशमादिप्रति-पत्ते, अन्यथा तदभावत् । = (विप आदिके नाशकी भाँति) दर्शन-मोहके नाशमें भी द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव हेतु होते हैं । तहाँ जिनेन्द्र विम्ब आदि तो द्रव्य हैं, समवसरण आदि क्षेत्र हैं, अर्ध-पुद्गलपरिवर्तन विशेष काल है, अत्र प्रवृत्तिकरण आदि भाव हैं । उस मोहनीय कर्मका अभाव होनेपर ही उपशमादिकी प्रतिपत्ति होती है । दूसरे प्रयोगसे उन उपशम आदिके होनेका अभाव है ।

ध ६/१.६-८, ४/२१४/५ 'सर्वविशुद्धो' त्ति एहस्स पदस अरयो उच्चदे । त जथा—एत्थ पदमममत्तपडिबज्जतरस अधापवत्तकरण-अपुब्ब-करण-अणियट्टीकरणभेदेण त्तिविहाओ विसोहीओ हँति । = अम सूत्रमें (दे सम्यग्दर्शन/II/२/ उपशम मन्मन्धिका स्वामित्व 'सर्व-विशुद्ध' इस पदका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है—यहाँपर

प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होने वाले जीवके अध प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति करणके भेदसे तीन प्रकारकी विशुद्धियाँ होती हैं। (विशेष दे करण/३-६)

स सा/जी प्र/२/४२/११ विशुद्ध इत्यनेन शुभलेख्यत्वं सगृहीत उदयप्रस्तावे स्थानगृह्यादित्रयोदयाभावस्य वक्ष्यमाणत्वात् जागरत्वमप्युक्तमेव । = गायामि प्रयुक्त 'विशुद्ध' इम शब्दसे यहाँ शुभलेख्याका संग्रह किया गया है। तथा आगे स्थानगृह्यादि आदि तीन निद्राओंका अभाव कहेगे जिससे 'जागृत अवस्थामें हाता है' ऐसा भी कह दिया गया समझना चाहिए।

५. जाति स्मरण आदि

स सि/२/३/१३/६ 'आदि' शब्देन जातिस्मरणादि परिगृह्यते ।
स सि/१/७/२६/२ बाह्य केषाचिज्जातिस्मरण । = 'आदि' शब्दसे जाति स्मरण आदिका अर्थात् जातिस्मरण, जिनबिम्बदर्शन, धर्म-श्रवण, जिनमहिमादर्शन, देवद्विधदर्शन व वेदना आदिका ग्रहण होता है। ये जातिस्मरण आदि बाह्यनिमित्त है। (रा वा/२/३/२/१०५/४) (और भी दे शीर्षक न ४)

न. च वृ/३/१६ तित्थयस्केवलिसमणभवसुमरणसत्थदेवमहिमादी । इच्छेवमाह बहुधा बाहिरहेउ मुण्येव्वा । ३१६। = तीर्थतर, केवली, श्रमण, भवस्मरण, शास्त्र, देवमहिमा आदि बहुत प्रकारके बाह्य हेतु मानने चाहिए।

दे क्रिया/३ में सम्यक्त्ववर्धिनी क्रिया— (जिन पूजा आदिते सम्यक्त्वमें वृद्धि होती है।)

दे सम्यग्दर्शन/III/३/१ (चारों गतियोंमें पृथक्-पृथक् जातिस्मरण आदि कारणोंकी यथा योग्य सम्भावना)

६ उपरोक्त निमित्तोंमें अन्तरग च बाह्य विभाग

रा वा/१/७/१४/४०/२६ बाह्य चोपदेशादि । = सम्यग्दर्शनके बाह्य-कारण उपदेश आदि है।

दे शीर्षक/न १,२ (नि सा.०/गा ५३ के अपरार्धमें दर्शनमोहके उपशमादिको अन्तरग कारण कहा है। अत पूर्वार्धमें कहे गये जिन सूत्र व उसके ज्ञायक पुरुष अर्थात्तिसे ही बाह्य निमित्त कहे गये सिद्ध होते हैं।)

दे शीर्षक/२ (दर्शनमोहनीय कर्मके उपशमादि अन्तरग कारण है।)
दे शीर्षक/३ (देशना लब्धि व काल लब्धि बाह्य कारण है तथा करण लब्धि अन्तरग कारण है।)

दे शीर्षक/४ (भावात्मक होनेके कारण करण लब्धि व शुभ लेख्या आदि अन्तरग कारण है।)

२ कारणोंमें कथंचित् मुख्यता गौणता व भेदाभेद

१ कारणोंकी कथंचित् मुख्यता

रा वा/१/३/१०/२४/६ यदि हि सर्वस्य कालो हेतुरिष्ट स्यात् बाह्याभ्यन्तरकारणनियमस्य दृष्टेष्टस्य वा विरोध स्यात् = यदि सबका काल ही कारण मान लिया जाय (अर्थात् केवल काललब्धिसे मुक्ति होना मान लिया जाये) तो बाह्य और आभ्यन्तर कारण सामग्रीका ही लोप हो जायेगा।

ध ६/१/६ ६ ३०/४३/०६ णइसगिगयमवि पढमसम्मत्त तच्चट्टे उच्च त्ति एत्थेव इट्टव्व, जाडस्सरण-जिणत्रियदसणेहि विणा उप्पज्जमाणणइ-सगिगयपढमसम्मत्तस्स अमभवादो । = तत्त्वार्थ सूत्रोंमें नैसर्गिक प्रथम सम्यक्त्वका भी कथन किया गया है उसका भी पूर्वोक्त-कारणोंसे उत्पन्न हुए सम्यक्त्वमें ही अन्तर्भाव कर लेना चाहिए, क्योंकि जातिस्मरण और जिनबिम्बदर्शनके बिना उत्पन्न होनेवाला नैसर्गिक प्रथम सम्यक्त्व असम्भव है।

२. कारणोंकी कथंचित् गौणता

दे सम्यग्दर्शन/III/३/४ [नारकी जीवोंमें केवल जाति स्मरण सम्यक्त्वका निमित्त नहीं है, बल्कि पूर्वभववृत्त अनुष्ठानोंकी विफलताके दर्शन रूप उपयोग सहित जातिस्मरण कारण है। १। इसी प्रकार तहाँ केवल वेदना सामान्य कारण नहीं है, बल्कि 'यह वेदना प्रयुक्त मिथ्यात्व व असयमका फल है' इस प्रकारके उपयोग सहित ही वह कारण है। २।]

दे, सम्यग्दर्शन/III/३/६ [अनधिज्ञान द्वारा जिनमहिमा आदि देखते हुए भी अपनी भीतरागताके कारण प्रवेयक वासी देवोंको बिम्बय उत्पन्न करानेमें असमर्थ वे उन्हें सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें कारण नहीं होते।]

दे सम्यग्दर्शन/III/२/४ [मात्र देव ऋद्धि दर्शन सम्यक्त्वोत्पत्तिके कारण नहीं है बल्कि 'ये अमुक समयके फल हैं अथवा बालतप आदि-के कारण हम ऋद्धि हीन नीच देव रह गये' इत्यादि उपयोग सहित ही वे कारण हैं।]

३ कारणोंका परस्परमें अन्तर्भाव

दे सम्यग्दर्शन/III/०/१ [नैसर्गिक सम्यक्त्वका भी इन्हीं कारणोंसे उत्पन्न सम्यक्त्वमें अन्तर्भाव हो जाता है।]

दे सम्यग्दर्शन/III/३/३ [ऋषियों व तीर्थक्षेत्रोंके दर्शनका जिनबिम्बदर्शनमें अन्तर्भाव हो जाता है।]

दे, सम्यग्दर्शन/III/३/६,७ [जिनबिम्बदर्शन व जिन महिमादर्शनका एक दूसरेमें अन्तर्भाव हो जाता है।]

दे सम्यग्दर्शन/III/३/५/४ [धर्मोपदेश व देवद्विसे उत्पन्न जातिस्मरणका धर्मोपदेश व देवद्विमें अन्तर्भाव हो जाता है।]

४ कारणोंमें परस्पर अन्तर

ध ६/१,६ ६,३७/४३/२६ देविद्धिदसण जाइसरणम्मि क्खिण पविसदि । ण पविसदि, अपणो अणिमादिरिद्धीओ दट्टण एदाओ रिद्धीओ जिणपणत्तधम्माणट्टाणादो जादाओ त्ति पढमसम्मत्तपडिवज्जण जाडस्सरणिमित्त । सोहम्मिदादिदेवाण महिद्धीओ दट्टण एदाओ सम्मदसणसज्जसजमफलेण जादाओ, अह पुण सम्मत्तविरहिददव्व-सजमफलेण बाह्यादिणीचदेवेसु उप्पण्णो त्ति णादूण पढमसम्मत्त-गहण देविद्धिदसणणिवधण । तेण ण दोण्हमेयत्तमिदि । कि च जाइस्सरणमुप्पणपढमसमयप्पट्टि अतोमुहुत्तकालभत्तरे चैव होदि । देविद्धिदसणं पुण कालत्तरे चैव होदि, तेण ण दोण्हमेयत्त । एसो अत्थो णेरइयाण जाइस्सरणवेयाणाभिभवणाण पि वत्तव्वो । = प्रश्न— देवद्विदर्शनका जातिस्मरणमें समावेश क्यों नहीं होता ? उत्तर— १ नहीं होता, क्योंकि, अपनी अणिमादिक ऋद्धियोंको देखकर जब (देवोंको) ये विचार उत्पन्न होता है कि ये ऋद्धियाँ जिनभगवान् द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुष्ठानसे उत्पन्न हुई हैं, तब प्रथम सम्यक्त्वकी प्राप्ति जातिस्मरणनिमित्तक होती है। किन्तु जब सौधर्मैन्द्रादिक देवोंकी महा ऋद्धियोंको देखकर यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि ये ऋद्धियाँ सम्यग्दर्शनसे सयुक्त समयके फलसे प्राप्त हुई हैं, किन्तु मैं सम्यक्त्वसे रहित अव्यसयमके फलसे बाहनादिक नीच देवोंमें उत्पन्न हुआ हूँ, तब प्रथमसम्यक्त्वका ग्रहण देवद्विदर्शननिमित्तक होता है। इससे ये दोनों कारण एक नहीं हो सकते। २ तथा जातिस्मरण उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लगाकर अन्तर्भूतकालके भीतर ही होता है। किन्तु देवद्विदर्शन, उत्पन्न होनेके समयसे अन्तर्भूतकालके पश्चात् ही होता है। इसलिए भी उन दोनों कारणोंमें एकत्व नहीं है।— ३, यही अर्थ नारकियोंके जातिस्मरण और वेदनाभिभवरूप कारणोंमें विवेकके लिए भी कहना चाहिए।

दे सम्यग्दर्शन/III/३/५/४ [धर्मोपदेशसे हुआ जातिस्मरण और देवद्विको देखकर हुआ जाति स्मरण ये दोनों जातिस्मरण रूपसे एक होते हुए भी भिन्न-भिन्न माने गये हैं।]

३. कारणोका स्वामित्व व गकारण

१. चारों गतियोंमें यथासम्भव कारण

(प ख/६/१/१,६-६/सूत्र न /४१६-४३६), (ति. प /अधि /गा न.), (स. सि./१/७/२६/२), (रा. वा /२/३/२/१०/३)—

प ख/सूत्र न.	मार्गणा	जिनविम्व द	धर्मव्यवस्था	जातिस्मरण	वेदना	प ख /सूत्र न	मार्गणा	जिनमहिमा द	धर्मव्यवस्था	जातिस्मरण	वेदना
१	नरक गति—					४	देवगति—				
६-६	१-३ पृथिवी.	×	"	"	"	३७-३८	भवनवासी	"	"	"	"
			ति. प./२/३६६-३६०						ति प/३/२३६-२४०		
१०-१२	४-७ पृथि.	×	×	"	"	"	व्यतर	"	"	"	"
			ति प/२/३६१						ति प/६/१०१		
२.	तिर्यच गति —					"	ज्योतिषी	"	"	"	"
२१-२२	पचे सज्ञी गर्भज	"	"	"	×	"	सौधर्म—सहस्यार	"	"	"	"
			ति प/५/३०६						ति.प./८/६७७-७८		
×	[कर्मभूमिज]	"	"	"	"	३६-४०	आनत आदि चार	"	"	"	×
			ति. प/५/३०८								
३.	मनुष्यगति—					४२	नवग्रैवेयक	×	"	"	"
२६-३०	मनु. गर्भज,	"	"	"	×				ति प/८/६७६		
			ति प/५/२६६६								
×	(कर्मभूमिज)	"	"	"	"	४३	अनुदिश व अनुत्तर	×	×	×	×
			ति प/५/२६५५								
									(पहिलेसे ही सम्यग्दृष्टि होते हैं)		
									ति प/८/६७६		

२. जिनविम्व दर्शन सम्यक्त्वका कारण कैसे

घ. ६/१,६-६,२२/४२०/६ कथ जिगविम्वदसण पढमसम्मत्तुप्पत्तीए कारण । जिगविम्वदसणेण णिधत्तणिक्काचिदरस वि मिच्छत्तादिकम्मकनावस्य खयदसगादो । = प्रश्न—जिनविम्वदर्शन प्रथमसम्यक्त्वकी उत्पत्तिके कारण किस कारणसे है ? उत्तर—जिनविम्वके दर्शनसे निधत्त और निक्काचित रूप भी मिथ्यात्वादि कर्मकलापका क्षय देखा जाता है । (निघोप—दे पूजा/२/४) ।

३. ऋषियों व तीर्थक्षेत्रोंके दर्शनोका निर्देश क्यों नहीं

घ ६/१,६-६,३०/४३०/६ लद्धिसपणरिसिदसाण पि पढमसम्मत्तुप्पत्तीए कारण होदि, त्तमेरथ पुध विण्ण भण्णदे । ण, एदस्स वि जिणविज्जदसणो अतम्भावादो । उज्जत-चपा-पावाणयरादिदसण पि एदेण घेत्तव्वं । कुदो । तत्थतणजिणविम्वदसण जिणविम्वदसणकहणेहि विणा पढमसम्मत्तगहणा-नामा । = प्रश्न—लद्धिसम्पन्न ऋषियोंका दर्शन भी तो प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके कारण होता है, अतएव इस कारणको यहाँ पृथक् रूपसे क्यों नहीं कहा ? उत्तर—नहीं कहा,

क्योंकि, लद्धिसम्पन्न ऋषियोंके दर्शनका भी जिनविम्व दर्शनमें ही अन्तर्भाव हो जाता है ।—ऊर्जयन्त पर्वत तथा चम्पापुर व पावापुर आदिके दर्शनका भी जिनविम्वदर्शनके भीतर ही ग्रहण वर लेना चाहिए, क्योंकि, उक्त प्रदेशवर्ती जिनविम्वोंके दर्शन तथा जिन-भगवात्के कथनके बिना प्रथम सम्यक्त्वका ग्रहण नहीं हो सकता ।

४. नरकमें जातिस्मरण व वेदना सम्बन्धी

घ ६/१,६-६, ८/४२२/२ सव्वे णेग्गया विगणाणेण एवन्-दो-त्तिणिण-आदिभवग्गहणाणि जेण जाणति तेण मव्वेनि जाइभरत्तमरिथ त्ति सव्वणेरइण्हि सम्मादिट्ठोहि होदव्वमिदि । ण एस दोसो, भवसाम-णसरणेण सम्मत्तुप्पत्तीए जणभुवगमादो । कि घममुत्तीए पुच्च-भवम्हि कयाणुट्ठाणाण विहवत्तदसणत्तं पढमसम्मत्तुप्पत्तीए काग्ग-त्तमिच्छिज्जदे, तेण ण पुच्चुनदोमो ट्ठवदि त्ति । ण च एवविटा बुद्धो सव्वणेरइयाण होदि, तिव्वमिच्छत्तादएण ओट्ठणेरइयाण जाण-ताण पि एव विहववजोगाभावादो, तम्हा जाइसरण पढमसम्मत्तु-प्पत्तीए कारण । येयणपुहवण मम्मत्तुप्पत्तीए कारणं ण होदि, मव्वणेरइयाण साहारणत्तादो । जइ टोए तो सव्वे णेग्गया सम्माट्ठिणो

होती। ण चेव, अणुवत्तभा। परिहारो युच्चदे—ण वेयणासामण्ण सम्मत्तुप्पत्तीए कारण। किंतु जेसिमेसा वेयणा एदग्हादो मिच्छत्तादो ह्मादो असज्जादो (वा) उप्पण्णेत्ति उवज्जो, जादो तेसिं चैव वेयणा सम्मत्तुप्पत्तीए कारण, णावरजीवाणं वेयणा, तत्थ एव विहउवज्जोगा-भावा। = प्रश्न—१ खूँ कि सभी नारकी जीव विभगज्ञानके द्वारा एक, दो, या तीन आदि भवग्रहण जानते है (दे नरक), इसलिए सभीके जातिस्मरण होता है। अतएव सारे नारकीय जीव सम्यग्दृष्टि होने चाहिए। उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, सामान्य रूपसे भवस्मरणके द्वारा सम्यक्त्वकी उत्पत्ति नहीं होती। किन्तु धर्मयुद्धिसे पूर्वभ्रममें किये गये अनुष्ठानोंकी विफलताके दर्शनसे ही प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारणत्व दृष्ट है, जिससे पूर्वोक्त दोष प्राप्त नहीं होता। और इस प्रकारकी युद्धि सब नारकी जीवोंके होती नहीं है, क्योंकि तीव्र मिथ्यात्वके उदयके वशीभूत नारकी जीवोंके पूर्व भ्रमोंका स्मरण हाते हुए भी उक्त प्रकारके उपयोगका अभाव है। इस प्रकार जातिस्मरण प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण है। प्रश्न—वेदनाका अनुभव सम्यक्त्वोत्पत्तिका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि, यह अनुभव तो सब नारकीयोंके साधारण होता है। यदि वह अनुभव सम्यक्त्वोत्पत्तिका कारण हो तो सब नारकी जीव सम्यग्दृष्टि होंगे। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि वैया पाया नहीं जाता। उत्तर—पूर्वोक्त शकाका परिहार कहते हैं। वेदना सामान्य सम्यक्त्वोत्पत्तिका कारण नहीं है, किन्तु जिन जीवोंके ऐसा उपयोग होता है, कि अमुक वेदना अमुक मिथ्यात्वके कारण या अमुक असं-यमसे उत्पन्न हुई, उन्हीं जीवोंकी वेदना सम्यक्त्वोत्पत्तिका कारण होती है। अन्य जीवोंकी वेदना नरकोंमें सम्यक्त्वोत्पत्तिका कारण नहीं होती, क्योंकि उसमें उक्त प्रकारके उपयोगका अभाव होता है।

५. नरकोंमें धर्म श्रवण सम्यग्धी

घ ६/१,६-६,५/४२२/६ कथ तेसिं धम्मसुण्ण सभवदि, तत्थ रितीण गमणाभावा। ण सम्माद्विदेवाण पुञ्जभवसज्जधीण धम्मपदुप्पायणे वाग्गदाण सयलवाधाविरहियाण तत्थ गमणदसणादो।

घ ६/१,६-६,१२/४२४/६ धम्मसवणादो पढमसम्मत्तस्स तत्थ उप्पत्ती णत्थि, देवाण तत्थ गमणाभावा। तत्थत्तणसग्गाद्विधम्मसवणादो पढमसम्मत्तस्स उप्पत्ती किण्ण होदि त्ति जुत्ते ण होदि, तेसिं भव-सज्जधेण पुञ्जवेरसज्जधेण वा परोप्परविरुद्धाण अणुणेज्जणुगाहय-भावाणमसज्जधादो। = प्रश्न—१. नारकी जीवोंके धर्म श्रवण किस प्रकार सम्भव है, क्योंकि, वहाँ तो श्रुतियोंके गमनका अभाव है। उत्तर—नहीं, क्योंकि, अपने पूर्वभ्रमके सम्बन्धी जीवोंके धर्म उत्पन्न करानेमें प्रवृत्त और समस्त बाधाओंसे रहित सम्यग्दृष्टि देवोंका नरकोंमें गमन देखा जाता है। २. नीचेकी चार पृथिवियोंमें धर्म-श्रवणके द्वारा प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वहाँ देवोंके गमनका अभाव है। प्रश्न—वहाँ ही विद्यमान सम्यग्दृष्टियोंसे धर्मश्रवणके द्वारा प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति क्यों नहीं होती। उत्तर—ऐसा पृथ्वीपर उत्तर देते हैं कि नहीं होती, क्योंकि, भव सम्यग्धसे या पूर्व वैरके सम्बन्धसे परस्पर विरोधी हुए नारकी जीवोंके अनुगृह्य अनुग्राहक भाव उत्पन्न होना असम्भव है।

६. मनुष्योंमें जिनमहिमा दर्शनके अभाव सम्यग्धी

घ ६/१,६-६,२०/४३०/१ जिनमहिम दट्टुण वि केह पढमसम्मत्त पडिवज्जता अरिथ तेण चटुहि कारणेहि पढमसम्मत्त पडिवज्जत्ति त्ति वत्तव्वं। ण एस दोसो, एदस्स जिनविमदसणे अतन्नावादो। अपवा मणुसमिच्छाद्विणी गयणगमणविरहियाण चउज्जिह्वदेवणि-काएहि ण दीसर-जिणवर-पडिमाण कीरमाणमहामहिमावलोयणे सभवाभावा। मेरुजिणवरमहिमाओ विज्जाधरमिच्छादिट्ठिणो

पेच्छत्ति त्ति एस अत्थो ण वत्तव्वओ त्ति वेद् भण ति। तेण पुट्टुवो चैव अत्थो घेत्तन्तो। = प्रश्न—जिनमहिमाको देखकर भी कितने ही मनुष्य प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त करते हैं, इसलिए (तीनरी यजाय) चार कारणोंसे मनुष्य प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त करते हैं, ऐसा कहना चाहिए। उत्तर—१ यह कांई दोष नहीं क्योंकि, जिनमहिमादर्शनका जिनविमद दर्शनमें अन्तर्भाव हो जाता है। २. अथवा मिथ्यादृष्टि मनुष्योंके आकाशमें गमन करनेकी शक्ति न होनेसे उनके चतुर्विध देवनिवायोंके द्वारा किये जानेवाले नन्दोश्वरद्वीपवर्ती जिनन्द्र प्रतिमाओंके महामहोत्सवका देहना सम्भव नहीं है, इसलिए उनके जिनमहिमादर्शनरूप कारणका अभाव है। ३. किन्तु मेरुपर्वतपर किये जानेवाले जिनन्द्र महोत्सवको विधाधर मिथ्यादृष्टि देखते हैं, इसलिए उपर्युक्त अर्थ नहीं कहना चाहिए, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, अतएव पूर्वोक्त अर्थ ही ग्रहण करना योग्य है।

७. देवोंमें जिनविमद दर्शन क्यों नहीं

घ ६/१,६-६,३७/४३२/१० जिणविमदसण पढमसम्मत्तस्स कारणत्तेण एथ किण्ण उत्त। ण एस दोसो, जिनमहिमादसणम्मि तस्स अतन्नावादा, जिणविमदसण जिणमहिमाए अणुववत्तीदो। मग्गोयण-जम्माहिसेय-परिणिवत्तमणजिणमहिमाओ जिणविमदसण विणा कीर-माणीओ दिस्सति त्ति जिणविमदसणम्म अविणाभावा णरिथ त्ति णासंकाणज्ज, तत्थ वि भाविजिणविमदस्स दमणुवत्तभा। अथवा एदासु महिमासु उप्पज्जमाणपढमसम्मत्त ण जिणविमदसणनिमित्त, किंतु जिणगुणसवणनिमित्तमिदि। = प्रश्न—यहाँ (देवोंमें) जिन विमद-दर्शनकी प्रथम सम्यक्त्वके कारणरूपसे क्यों नहीं कहा। उत्तर—१ यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जिन विमददर्शनका जिनमहिमा-दर्शनमें ही अन्तर्भाव हो जाता है, कारण जिनविमदके बिना जिन-महिमाकी उत्पत्ति बनती नहीं है। प्रश्न—स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक और परिनिष्क्रमणरूप जिनमहिमाएँ जिनविमदके बिना ही की गयी देखी जाती है, इसलिए जिनमहिमा दर्शनमें जिनविमददर्शनका अविनाभावीपना नहीं है। उत्तर—ऐसी आशका नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक और परिनिष्क्रमण रूप जिन-महिमाओंमें भी भावी जिनविमदका दर्शन पाया जाता है। २. अथवा इन महिमाओंमें उत्पन्न होनेवाला प्रथम सम्यक्त्व जिनविमद-दर्शननिमित्तक नहीं है, किन्तु जिनगुण श्रवण निमित्तक है।

८. आनतादिमें देवशुद्धि दर्शन क्यों नहीं

घ ६/१,६-६,२०/४३६/१ देविद्विदसणेणं चत्तारि कारणणि किण्ण वुत्ताणि। तत्थ महिद्विदसणुत्तुवरिमदेवाणमागमाभावा। ण तत्थद्विद-देवाण महिद्विदसण पढमसम्मत्तुप्पत्तीए निमित्त, भूयो दंसणेण तत्थ विमहयाभावा, सुक्कलेस्साए महिद्विदसणेण सक्त्तिेसाभावादो वा। सोऊण ज जाइसरण, देविद्विद दट्टुण ज च जाइस्सरण, एदाणि दो वि जदि वि पढमसम्मत्तुप्पत्तीए निमित्त होत्ति, तो वि त सम्मत्त जाइस्सरणनिमित्तमिदि एथ ण घेत्पदि, देविद्विदसणसुणणपच्छा-यदजाइस्सरणनिमित्तत्तादो। किंतु सुणदेविद्विदसणनिमित्तमिदि घेत्तव्वं। = प्रश्न—यहाँपर (आनतादि चार स्वर्गोंमें) देवशुद्धि-दर्शन सहित चार कारण क्यों नहीं कहे। उत्तर—१ आनत आदि चार कर्षणोंमें महर्षिसे सुयुक्त ऊपरके जागमन नहीं होता, इसलिए वहाँ महर्षिदर्शनपररूप प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण नहीं पाया जाता। २ और उन्हीं कर्षणोंमें स्थित देवोंके महर्षिका दर्शन प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका निमित्त हो नहीं सकता, क्योंकि उसी शुद्धिकी धार-धार देखनेसे विस्मय नहीं होता। ३ अथवा उक्त कर्षणोंमें शुक्कलेश्याके सद्भावके कारण महर्षिके दर्शनसे उन्हें कोई

सकलेशभावात् उत्पन्न नहीं होते। ४. धर्मोपदेश सुन कर जो जातिस्मरण होता है और देवद्विको देखकर जो जातिस्मरण होता है, ये दोनों ही जातिस्मरण यद्यपि प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके निमित्त होते हैं, तथापि उनसे उत्पन्न सम्यक्त्व वहाँ (आगत आदिमें) जातिस्मरण निमित्तक नहीं माना गया है, क्योंकि यहाँ देवद्विके दर्शन व धर्मोपदेशके श्रवणके पश्चात् ही उत्पन्न हुए जातिस्मरणका निमित्त प्राप्त हुआ है। अतएव यहाँ धर्मोपदेश श्रवण और देवद्विके दर्शनको ही निमित्त मानना चाहिए।

९. नवग्रैवेयकोंमें जिनमहिमा च देवद्विके दर्शन क्यों नहीं

घ ६/१, ६-६, ४२/४३६/३ एत्थ महिद्धिदसण णत्थि, उवरिमदेवाणमागमाभावा। जिणमहिमदसण पि णत्थि, णदीसरादिमहिमाणं तेमिमागमणाभावा। ओहिणाणेण तत्थिद्विया चैव जिणमहिमाओ पेच्छति त्ति जिणमहिमादसणं वि तेसि सम्मत्तुप्पत्तीए णिमित्तमिदि किण्ण उच्चदे। ण तेसि वीयरायाण जिणमहिमादसणेण विभयाभावा। = प्रश्न—नवग्रैवेयकोंमें महिद्धिदर्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ ऊपरके देवोंके आगमनका अभाव है। यहाँ जिनमहिमादर्शन भी नहीं है, क्योंकि ग्रैवेयकविमानवासी देव नन्दीश्वर आदिके महोत्सव देखने नहीं आते। प्रश्न—ग्रैवेयक देव अपने विमानोंमें रहते हुए ही अवधिज्ञानसे जिनमहिमाओंको देखते तो हैं, अतएव जिनमहिमाका दर्शन भी उनके सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें निमित्त होता है ऐसा क्यों नहीं कहा। उत्तर—नहीं, क्योंकि, ग्रैवेयक विमानवासी देव वीतराग होते हैं अतएव जिनमहिमाके दर्शनसे उन्हें विस्मय उत्पन्न नहीं होता।

१०. नवग्रैवेयकमें धर्मश्रवण क्यों नहीं

घ ६/१, ६-६, ४२/४३६/६ क्ख तेसि धम्मसुणणसभवो। ण, तेसि अण्णो-णसत्त्वावे सते अहमिदत्तस्स विरोहाभावा। = प्रश्न—ग्रैवेयक विमानवासी देवोंके धर्म श्रवण किस प्रकार सम्भव होता है। उत्तर—नहीं, क्योंकि उनमें परस्पर सत्ताप होनेपर अहमिन्द्रत्वसे विरोध नहीं होता।

IV उपशमादि सम्यग्दर्शन

१. उपशमादि सम्यग्दर्शन सामान्य

१. सम्यक्त्व मार्गणाके उपशमादि भेद

प ख १/१, १/सूत्र १४४/३६६ सम्मत्ताणुवादेण अत्थि सम्माइट्ठी खय-सम्माइट्ठी वेदगसम्माइट्ठी उवसमसम्माइट्ठी सासणसम्माइट्ठी सम्मा-मिच्छाइट्ठी मिच्छाइट्ठी चेदि १४४। = सम्यक्त्व मार्गणाके अणुवादसे सामान्यकी अपेक्षा सम्यग्दृष्टि सामान्य और विशेषकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादन-सम्यग्दृष्टि सम्यग्मिध्यादृष्टि और मिध्यादृष्टि जीव होते हैं। १४४। (द्र स/टो १३४/०/१), (गो जी/जी प्र ७०४/११४२/१)।

ज्ञा/६/७ क्षीणप्रशान्तमिश्रामोहमकृतिपु क्रमात्। तत् स्याद्द्वयस्या-दिसामग्र्या पु सां सदृशं त्रिषा। ७। = दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंके क्षय उपशम और क्षयोपशमरूप होनेसे क्रमश तीन प्रकारका सम्यक्त्व है—क्षायिक, औपशमिक व क्षायोपशमिक।

२. तीनों सम्यक्त्वोंमें कथंचित् एकत्व

घ १/१, १, १४४/३६६/८ किं तरसम्यक्त्वगतसामान्यमिति चैत् त्रिष्वपि सम्यग्दर्शनेषु य साधारणोऽशस्तत्सामान्यम्। क्षायिकक्षायोपशमिकौपशमिकेषु परस्परतो भिन्नेषु किं सादृश्यमिति चेन्न, तत्र यथार्थ-श्रद्धान प्रति साम्योपनम्भात्। क्षयक्षयोपशमविशिष्टानां यथार्थ-

श्रद्धानानां कथं समानतेति चेद्भवतु विशेषणानां भेदो न विशेष्यस्य यथार्थश्रद्धानस्य। = प्रश्न—सम्यक्त्वमें रहने वाला वह सामान्य क्या वस्तु है (जिससे कि इन भेदोंसे पृथक् एक सामान्य सम्यग्दृष्टि सज्ञक भेद ग्रहण कर लिया गया। उत्तर—तीनों ही सम्यग्दर्शनोंमें जो साधारण धर्म है, वह सामान्य शब्दसे यहाँपर विवक्षित है। प्रश्न—क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक सम्यग्दर्शनोंके परस्पर भिन्न भिन्न होनेपर सदृशता क्या वस्तु हो सकती है। उत्तर—नहीं, क्योंकि उन तीनों सम्यग्दर्शनोंमें यथार्थ श्रद्धानके प्रति समानता पायी जाती है। प्रश्न—क्षय, क्षयोपशम और उपशम विशेषणसे युक्त यथार्थ श्रद्धानोंमें समानता कैसे हो सकती है। उत्तर—विशेषणोंमें भेद भले ही रहा आवे, परन्तु इससे यथार्थ श्रद्धानरूप विशेष्यमें भेद नहीं पड़ता है।

२. प्रथमोपशम सम्यक्त्व निर्देश

१. उपशम सम्यक्त्व सामान्यका लक्षण

पं स/प्रा १/१६६-१६६ देवे अण्णभावो विसयविरागो य तच्चसद्दहणं। दिट्ठीसु असम्मोहो सम्मत्तमणूय जाणे १६६। दसणमोहस्सुदए उवसंते सच्चभावसद्दहणं। उवसमसम्मत्तमिणं पसण्णकल्लस जहा तोय १६६। = उपशम सम्यक्त्वके होनेपर जीवके सत्यार्थ देवमें अनन्य भक्तिभाव, विषयोंसे विराग, तत्त्वोंका श्रद्धान और विविध मिथ्या-दृष्टियों (मतों) में असम्मोह प्रगट होता है। इसे क्षायिक सम्यक्त्व से कुछ भी कम नहीं जानना चाहिए १६६। जिस प्रकार पकादि जनित कालुष्यके प्रशान्त होनेपर जल निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार दर्शन मोहके उदयके उपशान्त होनेपर जो सत्यार्थ श्रद्धान उत्पन्न होता है, उसे उपशम सम्यग्दर्शन कहते हैं १६६।

घ १/१, १, १४४/गा २६६/३६६ दसणमोहवसमदो उत्पज्जइ ज पयत्थ सद्दहणं। उवसमसम्मत्तमिणं पसण्णमलपकतोयसम। = दर्शनमोह-नीयके उपशमसे, कोचडके नीचे बैठ जानेसे निर्मल जलके समान, पदार्थोंका जो निर्मल श्रद्धान होता है, वह उपशम सम्यग्दर्शन है १२१६। (गो.जी/पू ६४०/१०६६)

स सि २/३/१६२/६ आसां सघानां प्रकृतीनामुवशमादौपशमिक सम्यक्त्वम्। = (अनन्तानुबन्धी चार और दर्शनमोहकी तीन) इन सात प्रकृतियोंके उपशमसे औपशमिक सम्यक्त्व होता है। (रा वा २/३/११०४/१७)।

घ १/१, १, १४४/१/७ एदासि सत्तह पयडोणमुवसमेण उवसमसम्माइट्ठी होइ। एरिसो चैय उवसमसम्माइट्ठी। = पूर्वोक्त दर्शनमोहकी सात प्रकृतियोंके उपशमसे उपशम सम्यग्दृष्टि होता है। यह भी क्षायिक जैसा ही निर्मल व सन्देह रहित होता है।

२. उपशम सम्यक्त्वका स्वामित्व

प, ख १/१, १/सू, १४४/३६६ उवसमसम्माइट्ठी असज्जसम्माइटिटप्प-हुडि जाव उवसतत्तसायवीयरायछट्टुमस्थात्ति। = उपशम सम्यग्दृष्टि जीव असयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर उपशान्तकषाय वीतराग छद्मस्थ गुणस्थान तक हाते हैं। (विशेष दे वह वह मार्गणा तथा 'सत्')।

३. उपशम सम्यक्त्वके २ भेद व प्रथमोपशमका लक्षण

गो क/जी प्र ६६०/७४२/३ तत्राद्यं प्रथमद्वितीयभेदाद्द्रेधा। = उनमें-से आदिका अर्थात् उपशम सम्यक्त्व दो प्रकारका है—प्रथम व द्वितीय।

ल मा/भापा/०/४१/१८ मिध्यादृष्टि गुणस्थानतं दृष्टि उपशम सम्यक्त्व होइ ताका नाम (प्रथम) उपशम सम्यक्त्व है। (विशेष दे, नम्य-दर्शन/IV/२/४/२)

४. प्रथमोपशमका प्रतिष्ठापक

१. गति व जीव समासोक्ती अपेक्षा

प ख. ६/१.६-८/१/२३८ उवसामेतो कम्हि उवसामेदि, चवुसु विगदीसु उवसामेदि । चवुसु वि गदीसु उवसामेतो पंचिदिपसु उवसामेतो पंचिदिपसु उवसामेदिणो एहंदिपविगलिदिपेसु । पंचिदिपसु उवसामेतो सण्णीसु उवसामेदि, णो असण्णीसु । सण्णीसु उवसामेतो गम्भोवक तिपसु उवसामेदि, णो सम्मुच्चिपेसु । गम्भोवकर्त्तिपसु उवसामेतो पज्जत्तपसु उवसामेदि, णो अपज्जत्तपसु । पज्जत्तपसु उवसामेतो सखेज्जवत्साउगैसु नि उवसामेदि, अमंखेज्ज वत्साउगैसु वि । ६।

प ख. ६/१.६-८/१/२३८ उवसामेतो कम्हि उवसामेदि, चवुसु विगदीसु उवसामेदि, णो अपज्जत्तपसु १-३। एव जाव सत्तसु पुटवीसु जेरट्टया । ति रिवक पंचिदिपसु सण्णीसु । गम्भोवकर्त्तिपसु पज्जत्तपसु उप्पादेति १३-१८। एव जाव सव्वदीवसमुद्देसु १२०। मणुत्सा गम्भोवकर्त्तिपसु पज्जत्तपसु उप्पादेति १२३-२५। एव जाव अट्टा-हज्जदीवसमुद्देसु १२८। देवा पज्जत्तसु उप्पादेति । एवं जाव उवरिम-उवरिमगोवज्जविमाणवासियदेवा त्ति १३१-३५। = १, दर्शनमोहनीय कर्मको उपशमाता हुआ यह जीव वहाँ उपशमाता है । चारों ही गतियोंमें उपशमाता है । चारों ही गतियोंमें पंचेन्द्रियोंमें उपशमाता है, एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंमें नहीं । पंचेन्द्रियोंमें उपशमाता हुआ सक्षियोंमें उपशमाता है, असक्षियोंमें नहीं । सक्षियोंमें उपशमाता हुआ गर्भोपकान्तिकोंमें उपशमाता है गर्भोपकान्तिकोंमें उपशमाता हुआ पर्याप्तिकोंमें उपशमाता है अपर्याप्तिकोंमें नहीं । पर्याप्तिकोंमें उपशमाता हुआ सख्याततर्पको आयुवाले जीवोंमें भी उपशमाता है और अमख्यात वर्षकी आयुवाले जीवोंमें भी उपशमाता है । ६। २ (विशेष रूपसे व्याख्यान करनेपर) नरक गतिमें सातों ही पृथिवियोंमें पर्याप्तिक ही उपशमाता है १-६। तिर्यचगतिकमें सर्व ही द्वीप समुद्रादिसे पञ्चेन्द्रिय सक्षी गर्भज पर्याप्तिक ही उपशमाते हैं १३-२०। मनुष्यगतिकमें अर्द्ध द्वीप समुद्रोंमें गर्भज पर्याप्तिक ही उपशमाते हैं १२३-२८। देवगतिकमें भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रवेयक पर्यंत पर्याप्तिक ही उपशमाते हैं १३१-३५। [इनसे विपरीतमें अर्थात् अपर्याप्तिक आदिमें नहीं उपशमाता है ।] (रा वा १/३/२/१०५/१)

क पा सुत्त/१०/गा ६६-६६/६३० वसणमोहरसुवसामगो वु चवुसु वि गदीसु बोद्धव्वो । पंचिदिओ य सण्णी गियमा सो होरं पज्जत्तो । ६६। सव्वणिरय-भवणेषु [दीवसमुद्दे गृह जोदिसि-विमाणे] अभिजोग-अणभिजाग उवसामो होइ बोद्धव्वो । ६६। = १ दर्शनमोहनीय कर्मका उपशम करनेवाला जीव चारों ही गतियोंमें जानना चाहिए । वह जीव नियमसे पंचेन्द्रिय, सक्षी और पर्याप्तिक होता है । ६६। (प स/प्रा १/२/०४), (ध ६/१.६-८/१/२३८) (और भी वे उप-शोर्षक नं. २) । २ इन्द्र श्रेणीमद्द आदि सर्व नरकोंमें, सर्व प्रकारके भवनवासी देवोंमें, (तिर्यचोकी अपेक्षा) सर्व द्वीपसमुद्रोंमें, (और मनुष्योंकी अपेक्षा अर्द्ध द्वीप समुद्रोंमें), सर्व अन्यतर देवोंमें, समस्त ज्योतिष देवोंमें, सोधर्मसे लेकर सर्व अभियोग्य अर्थात् बाहनादि रूप नीच देवोंमें, उनसे भिन्न किञ्चिप आदि अनुत्तम तथा पारिपद आदि उत्तम देवोंमें दर्शनमोहनीय कर्मका उपशम होता है । ६६। (ध. ६/१.६-८/१/२३८)

घ. ६/१.६-८/१/२०६/८ तस्य वि असण्णी ण होदि, तेसु मणेण विणा विसिट्ठणाणाणुपत्तीदो । तदो सो सण्णी चैव । = पंचेन्द्रियोंमें भी वे असक्षी नहीं होते, क्योंकि, असक्षी जीवोंमें मनके बिना विशिष्ट ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती है ।

२. गुणरयानत्रो अपेक्षा

प खं ६/१.६-८/१/२०६ गो पुण पंचिदिआ मण्णीमिच्छाइट्ठी पज्जत्तओ सव्वविमुद्धो । ७।

प खं ६/१.६-८/१/२१८-जेरट्टयामिच्छाइट्ठी ०। १। तिरिक्क मिच्छाइट्ठी १३। मणुत्सा मिच्छाइट्ठी, ०। २। देवा मिच्छा-इट्ठी पढमगम्मत्तमुप्पादेति १३। = १, यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय, सक्षी, मिथ्यादि पर्याप्त और सर्व विद्युत् होता है । ७। (रा. वा १/३/२/१०५/०६), (ल. सा १/५/४१), (गो १/जो. प्र १/५०/४४३/६ में उद्धृत गया) ७ नागकी, तिर्यक्, मनुष्य व देव ये चारों ही मिथ्यादि प्रथम गम्यापदका उत्पन्न करते हैं ११-३५।

घ. ६/१.६-८/१/२०६/६ सागणमग्माइट्ठी मग्गामिच्छाइट्ठी वेदग-सग्गाइट्ठी वा पढमगम्मत्त ण पट्टिपज्जति, एवेमि तेण पज्जाएम परिणमनन्तीए अभावादो । उवममगिं चट्टमाणवेदगग्गमाइट्ठीणो उवममसम्मत्त पट्टिवज्जता अरिय, त्ति तु ण तस्म पढममग्गत्तव-एगो । ७। २। मग्गत्ता तम्मुपत्तीए । तदो तेण मिच्छाइट्ठीणो चैव होइव । = सासादमसम्यग्दि, सम्यग्मिथ्यादि, अथवा वेदक-सम्यग्दि जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्वको नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि, इन जीवोंके उस प्रथमोपशम सम्यक्त्वस्वरूप पर्याप्तिके द्वारा परिणमन होनेकी शक्तिका अभाव है । उपशम श्रेणी पर चढ़नेवाले वेदकसम्यग्दि जीव यद्यपि उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाले होते हैं, किन्तु उन सम्यक्त्वका 'प्रथमोपशम सम्यक्त्व' यह नाम नहीं है, क्योंकि उन उपशम श्रेणीवालेके उपशम सम्यक्त्वको उत्पत्ति सम्यक्त्वमे होती है । इन्द्रिय प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाला जीव मिथ्यादि ही होना चाहिए ।

३. उपयोग, योग व विद्युद्धि आदिकी अपेक्षा

वे उपशोर्षक न. २- (यह सर्व विद्युद्धि होना चाहिए) ।
क पा. सुत्त/१०/गा/६८/६३२ सागारे पट्टववो मज्जिमो य भजियव्वो । जोगे अण्णदरंमिह य जण्णणो तेउलेस्साए १८। = नावारोपयोगमें वर्तमान जीव ही दर्शनमोहनीयकर्मके उपशमनका प्रथापक होता है । किन्तु निष्ठापक और मध्यस्थानवर्ती जीव भजितव्य है । तीनों योगोंमें-से किसी एक योगमें वर्तमान और तेजालेशयके जवन्य अक्षको प्राप्त जीव दर्शनमोहना उपशमन करता है । १८। (ध ६/१.६-८/१/२३८), (ल. सा १/५/१०५/१८)

रा वा. ६/१/१३/४८/२५ गृहोत्तमारभमाण शुभपरिणामाभिमुख अन्तर्गुहूर्तमनन्तगुणद्वया वर्द्धमानविशुद्धि अन्यतमेन मनोयो-गेन अन्यतमेन वाग्योगेन अन्यतरेण काययोगेन वा समाविष्ट होयमानान्यतमकपाय साकारोपयोग, त्रिप्वन्यतमेन वेदेन, सव्वलेश-विरहित । = प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाला जीव शुभपरि-णामके अभिमुख होता है, अन्तर्गुहूर्तमें अनन्तगुण वृद्धिके द्वारा वर्द्धमान विशुद्धि वाला होता है । (तीनों योगोंके सर्व उत्तर भेदोंमें-से) अन्यतम मनोयोगवाला या अन्यतम वचनयोगवाला या अन्यतम काययोगवाला होता है । हीनमान अन्यतम कपायवाला होता है । साकारोपयोगी होता है । तीनों वेदोंमें अन्यतम वेदवाला होता है । और सव्वलेशसे रहित होता है । (ध ६/१.६-८/१/२०७/४)

घ ६/१.६-८/१/२०७/६ असज्जदो । मदिस्सुदसागरुवज्जुत्तो । तस्य अणागरुवजो गो पत्थि, तस्स वज्जकत्थे पत्ततीए अभावादो । छण्ण लेस्साणमण्णदरलेस्सो किंत्तु हीयमाणअमुद्धलेस्सो यट्टमाणसुह-लेस्सो । = (वह प्रथमोपशम सम्यक्त्वके अभिमुख जीव) असयत् होता है, मति व श्रुतज्ञान रूप साकारोपयोगी होता है, अनाकारो-पयोगी नहीं होता, क्योंकि, अनाकार उपयोगकी बाह्य अर्थकी

प्रवृत्तिका अनात्र है। कृष्णादि छहों लेश्याओंमेंसे किसी एक लेश्या वाला हो, किन्तु यदि अशुभ लेश्या वाला हो तो हीयमान होना चाहिए, और यदि शुभ लेश्या हो तो वर्धमान होना चाहिए।

घ. ६/१.६-८/२१४/६ 'सर्वविशुद्धो' त्ति एदस्स पदस्स अत्थो उच्चदे । त जघा—एत्थ पढमसम्मत्त पडिवज्जंतस्स अधापवत्तकरण—अपुव्वकरण—अणियट्टीकरणभेदेण तिविहाओ विसोहीओ होति । —अब सूत्रके 'सर्वविशुद्ध' (दे इसी शीर्षकमें) इस पदका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है—यहाँपर प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवके अथ प्रवृत्तकरण, अपूर्णकरण और अनिवृत्तिकरणके भेदसे तीन प्रकारकी विशुद्धियाँ होती हैं ।

गो जो /मू/६६२/१९०० चटुगदिभव्वो सण्णी पज्जत्तो य सागारो । जागारो सव्वेस्सो सल्लिगो सम्ममुवगमई । —चारोंमें से किसी भी गतिवाला, भव्य, सैनी, पर्याप्त, साकारोपयोगी, जागृत, शुभ-लेश्या वाला, तथा करण लक्ष्मिरूप परिणमा जीव यथासम्भव सम्यक्त्वको प्राप्त होता है ।

ल.सा/जी प्र/२/४१/१२ विशुद्ध इत्यनेनंशुभलेश्यत्व सगृहीत उदय-प्रस्तावे स्त्यानगृद्ध्यादित्रयादयाभावस्य बक्ष्यमाणत्वात् जागरत्वमप्युक्तमेव । —गाथामें प्रयुक्त 'विशुद्ध' इस शब्दसे शुभ लेश्याका ग्रहण हो जाता है और स्त्यानगृद्धि आदि तीनों प्रकृतियोंके उदयका अभाव आगे कहा जायेगा (दे. उदय/६), इसलिए जागृतपना भी कह ही दिया गया ।

४ कर्मोंके स्थिति बन्ध व स्थिति सत्त्वकी अपेक्षा

प ख ६/१.६-८ सूत्र ३.६/२०३,२२२ एदेसि चैव सव्वकम्मणं जावे अतोकोडाकोडिट्ठदि बध्धि तावे पढमसम्मत्तं लभदि । १३। एदेसि चैव सव्वकम्मण जाधे अतोकोडाकोडिट्ठदि ठवेदि सखेज्जेहि सागरोवमसहस्सेहि ऊणिय ताधे पढमसम्मत्तमुप्पादेदि । १४। —इन ही सर्व कर्मोंकी अर्थात् आठों कर्मोंकी जब अन्त कोडाकोडी स्थितिको बाँधता है, तब यह जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करता है । १३। जिस समय इन ही सर्व कर्मोंकी सत्यात हज़ार सागरोपमोंसे हीन अन्त कोडाकोडी सागरोपमप्रमाण स्थितिको स्थापित करता है उस समय यह जीव प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है । १४। (ल.सा /मू/६/४७)

ल.सा /मू/८/४६ जेट्ठवरट्ठदिबध्धे जेट्ठवरट्ठदितियाण सत्ते य । ण य पडिवज्जदि पढमुवमसम्मं मिच्छजोवो हु । ८। —सङ्गी पचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें सम्भव ऐसे उत्कृष्ट स्थिति बन्ध और उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग व प्रदेश सत्त्व—तथा विशुद्ध क्षपक श्रेणी वालेके सम्भव ऐसे जघन्य स्थिति बन्ध और जघन्य स्थिति, अनुभाव व प्रदेश सत्त्व, इनके होते हुए जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त नहीं करता । नोट—[सम्यक्त्व व सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंके स्थिति सत्त्व सम्बन्धी विशेषता (दे सम्यग्दर्शन/IV/२/६)]

५ जन्मके पश्चात् प्राप्ति योग्य सर्वलघु काल

प ख ६/१.६-८/सूत्र न/४१६-४३१ गेरइया मिच्छाइट्टी/ १/ पज्जत्तएमु उप्पादेत्ता अतोमुहुत्तप्पहुडि जाव तत्पाओगतोमुहुत्त उवरिमुप्पादेत्ति, णो हेट्ठा । १४। एव जाव सत्तमु पुड्ढीमु गेरइया । १५। तिरिखलमिच्छाइट्टी । १६। पज्जत्तएमु उप्पादेत्ता दिवमपुधत्तप्पहुडि जाव सुवरिमुप्पादेत्ति णो हेट्ठा । १६। एव जाव सव्वदीवसपुहेसु । १७। मणुप्पा मिच्छादिट्टी । १७। पज्जत्तएमु उप्पादेत्ता अट्टारत्तप्पहुडि जाव उवरिमुप्पादेत्ति, णो हेट्ठा । १७। एव जाव अट्टाइट्टी । १८। देवा मिच्छाइट्टी । १८। पज्जत्तएमु उप्पादेत्ता अतोमुहुत्तप्पहुडि जाव उवरि उप्पादेत्ति, णो हेट्ठो । १९। एव जाव उवरिम उवरिमोवज्जविमाणजासिगदेवा त्ति । २०। —नारकी मिथ्या-

दृष्टि पर्याप्तकोंमें सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले अन्तर्मुहूर्तसे लगाकर अपने योग्य अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् उत्पन्न करते हैं, उनसे नीचे नहीं । इस प्रकार सातो पृथिवियोंमें जानना चाहिए । १६-१७। तिर्यन्मिथ्या-दृष्टि पर्याप्तकोंमें सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले जीव दिवसपूव्वरत्से लगाकर उपरिम कालमें उत्पन्न करते हैं, नीचेके कालमें नहीं । इस प्रकार सर्व द्वीपसमुद्रोंमें जानना चाहिए । १७-२०। मनुष्य मिथ्यादृष्टि पर्याप्तकोंमें सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले जीव आठ वर्षसे लेकर ऊपर किसी समय भी उत्पन्न करते हैं, उससे नीचेके कालमें नहीं । इस प्रकार अट्टाई द्वीपसमुद्रोंमें जानना चाहिए । २१-२२। देव मिथ्यादृष्टि पर्याप्तकोंमें प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले जीव अन्तर्मुहूर्त व लसे लेकर ऊपर उत्पन्न करते हैं, उससे नीचेके कालमें नहीं । इस प्रकार भवनवासीसे लेकर उपरिम उपरिम ग्रैव्यक विमानवासी देवांतक जानना चाहिए । २३-२४। (रा. वा /२/१/२०४/२.६.८, २२)

घ १३/४.४.३१/१११/१० छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदम्मि एक्को, विस्समणे विदियो, विसोहिआवरणे तदियो मुहुत्तो । विमट्ठमेदे अवणिज्जते । ण, एदेसु सम्मत्तगहणाभावादा । —छह पर्याप्तियोंसे प्राप्त होनेका प्रथम अन्तर्मुहूर्त है, विश्राम करनेका दूसरा अन्तर्मुहूर्त है और विशुद्धिको पूरा करनेका तीसरा अन्तर्मुहूर्त है । प्रश्न—ये अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितियोंमेंसे क्यों घटाये जाते हैं । उत्तर—नहीं, क्योंकि, (जन्म होनेके पश्चात्) इन अन्तर्मुहूर्तोंके भीतर सम्यक्त्वका ग्रहण नहीं होता है । (अर्थात् ये तीन अन्तर्मुहूर्त भीत जानेके पश्चात् चौथे अन्तर्मुहूर्तमें ही सम्यक्त्वका ग्रहण सम्भव है, उससे पहले नहीं । पर ये चारों अन्तर्मुहूर्त मिलकर भी एक अन्तर्मुहूर्तके कालको उल्लघन नहीं कर पाते । ऐसे अन्तर्मुहूर्त द्वारा नारकी व देव प्रथम सम्यक्त्वको ग्रहण करते हैं ।)

६ अनादि व सादि मिथ्यादृष्टिमें सम्यक्त्व प्राप्ति सम्बन्धी कुछ विशेषता

क. पा सु /१०/गा. १०४/४३३ सम्मत्तपढमलभो सव्वोवसमेण तह विदट्ठेण । भजियव्वो य अभिखल सव्वोवसमेण देणेण । १०४। — जो सर्व प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त करता है, अर्थात् अनादि मिथ्यादृष्टि जीव, उसके सम्यक्त्वका सर्वप्रथम लाभ सर्वोपशमनासे होता है । इसी प्रकार विकृत जीवके, [अर्थात् जिमने पहले कभी सम्यक्त्वको प्राप्त किया था किन्तु पश्चात् मिथ्यात्वको प्राप्त होकर और वहाँ सम्यक्त्व-प्रकृति एवं सम्यक्त्वमिथ्यात्वकर्मकी उद्वेगना कर बहुतकाल तक मिथ्यात्व सहित परिभ्रमण कर पुन सम्यक्त्वको प्राप्त किया है, अर्थात् अनादि तुल्य सादि मिथ्यादृष्टिके (दे आगे IV/४/३) प्रथमोपशम सम्यक्त्वका लाभ भी सर्वोपशमसे होता है । किन्तु जो जीव सम्यक्त्वमे गिरकर जव्दी ही पुन पुन सम्यक्त्वको ग्रहण करता है, अर्थात् सादि मिथ्यादृष्टि जीव सर्वोपशम और देशोपशमसे भजनिय है । (तीनों प्रकृतियोंके उदयाभावको सर्वोपशम कहते हैं । तथा सम्यक्त्वप्रकृति सम्बन्धी देशघातीके उदयको देशोपशमना कहते हैं ।) (प. स. प्र /१/१७१), (घ. ६/१.६-८ /गा ११/२४१), (रा. वा /६/१/१३/५८८/२३), (गो. क. जी. प्र /४६०/०४२/१६)

घ १.६.३८/३३/१० तसेमु अच्चिदूण जेण सम्मत्त-नम्मामिच्छत्ताणि उव्वेल्लिदाणि सो सागरोवमपुधत्तेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तद्विदिस-तकम्मणेण उवसमसम्मत्त पडिवज्जदि एदम्हादो उवरिमासु द्विदीसु जदि सम्मत्त गेण्हदि, तो णिच्छएण वेदगसम्मत्तमेव गेण्हदि । अध एदिएसु जेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उव्वेल्लिदाणि, सो पत्तिदो-वमस्स अमत्तेज्जदिभागेपुणसागरोवममेत्ते समत्त-सम्मामिच्छत्ताणि ट्ठदिसतकम्मसे सेसे तसेसुववज्जिय उवसमसम्मत्त पडिवज्जदि । एदाहि द्विदीहि ऊणसेस कम्मद्विदिउव्वेनगकालो जेण पनिदोवमस्स जमत्ते ज्जदिभागे तेण सासणेणजीवज्जएणत्तर पि पत्तिदोवमस्स असत्तेज-

जैनेन्द्र सिद्धांत कोश

दिभागमेत होदि । = १ त्रसजीवोंमें रहकर जिसने सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व, इन दो प्रकृतियोंका उद्वेलन किया है, वह जीव सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी स्थितिके सचस्वरूप सागरोपम पृथक्त्वके पश्चात् उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होता है। यदि, इससे ऊपरकी स्थिति रहनेपर सम्यक्त्वको ग्रहण करता है, तो निश्चयसे वेदक सम्यक्त्वको ही प्राप्त होता है। २ और एकेन्द्रियोंमें जाकरके जिसने सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना की है, वह पश्यों-पमके असंख्यातवें भागसे कम सागरोपमकालमात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका स्थितिसत्त्व अवशेष रहनेपर त्रस जीवोंमें उपपन्न होकर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होता है इन स्थितियोंसे कम श्रेय कर्मस्थिति, उद्वेलनकाल चूंकि पश्योंपमके असंख्यातवें भाग है (दे सक्रमण) इसलिये सासादन गुणस्थानका एक जीव सम्बन्धी जघन्य अन्तर भी (प्रथमोपशमकी भाँति) पश्योंपमके अमर्यादात्त भागमात्र ही होता है। (विशेष दे अन्तर/२/६)

गो क/मू/६११/८२० उदधिपुधर्त्तं तु तसे पश्लासखूणमेगमेयक्वे । जाव य सम्म मिस्र वेदगजोगो व उवसमरस्तदो । = सम्यक्त्वमोहनीय और मिश्रमोहनीय, इनकी पूर्वबद्ध सत्त्वरूप स्थिति, उसके तो सागरोपम प्रमाण अवशेष रहनेपर और एकेन्द्रियोंके पश्याका असंख्यातवें भाग हीन एक सागरोपम प्रमाण अवशेष रहने पर, तावत्काल वेदक योग्य काल माना गया है। और उससे भी हीन स्थितिसत्त्व हो जानेपर उपशम योग्य काल माना गया है।

गो, क/जी प्र/१५०/७४२/१२ सादिर्यदि सम्यक्त्वमिश्रप्रकृतिसत्त्वस्तदा सप्तप्रकृती सदसत्त्वस्तदा सोऽप्यनादिरपि मिध्यात्वानुबन्धिन प्रशस्तोपशमविधानेन युगपदेवोपशम्यान्तर्मुहूर्त्तकालं प्रथमोपशमसम्यक्त्व स्वीकुर्वन् । = सादि मिध्यादृष्टिके यदि सम्यक्त्वमोहनीय और मिश्रमोहनीय, इन दो प्रकृतियोंका सत्त्व हो तो उसके सात प्रकृतियों है और यदि इन दोनोंका सत्त्व नहीं है अर्थात् इनकी उद्वेलना कर दी है तो उसके दर्शनमोहकी पाँच प्रकृतियों है। ऐसा जीव भी अनादि मिध्यादृष्टि ही है। वह भी मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्क इन पाँच प्रकृतियोंको प्रशस्त उपशम या सर्वोपशम विधानके द्वारा युगपत् उपशमाकर, अन्तर्मुहूर्त्त कालपर्यन्त उपशम सम्यक्त्वको अगीकार करता है। (विशेष दे, अन्तर/२/)

७. प्रथमोपशमसे च्युति सम्बन्धी नियम

क पा सु/१०/गा न/६३२ मिच्छत्तवेदणीय कम्म उवसामगस्स बोद्धन्व । उवसते आसाणे तेण परं होह भजियव्णो । १६१ । सव्वेहिं द्विदिविसेसेहिं उवसता होंति तिण्णि कम्मसा । एवमिह य अणुभागे णियमा सव्वे द्विदिविसेसा । १०० । अतोमुहुत्तमद्ध सव्वोवसमेण होह उवसतो । ततो परमुदयो खलु तिण्णेहदरस्स कम्मस्स । १०३ । सम्मत्तपढमलभस्स पच्छदो य पच्छदो य मिच्छत्त । लभस्स अपढमस्स दु भजियव्वो पच्छिदो होदि । १०५ । = उपशमकके मिध्यात्व वेदनीयकर्मका उदय जानना चाहिए । किन्तु उपशान्त अवस्थाके विनाश होनेपर तदनन्तर उसका उदय भजितव्य है । १६१ (ध ६/१,६-८,६/गा ६/२४०) । २ दर्शनमोहनीयके मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति, ये तीनों कर्मांश, दर्शनमोहकी उपशान्त अवस्थामें सर्वस्थितिविशेषोंके साथ उपशान्त रहते हैं, अर्थात् उस समय तीनों प्रकृतियोंमेंसे किसी एककी भी किसी स्थितिका उदय नहीं रहता है। तथा एक ही अनुभागमें उन तीनों कर्मांशोंके सभी स्थितिविशेष नियममें अवस्थित रहते हैं । १०० (ध ६/१,६-८,६/गा ७/२४०) । ३ उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके दर्शनमोहनीय कर्म अन्तर्मुहूर्त्त काल तक सर्वोपशमसे उपशान्त रहता है। इसके पश्चात् नियमसे उसके मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति, इन तीन कर्मोंमेंसे किसी एक कर्मका उदय हो जाता है । १०३ (ध ६/१,६-८,६/गा

६/२४०) ; (न, सा /मू/१०२/१३६) । ४ सम्यक्त्वकी प्रथम बार प्राप्तिके अनन्तर और पश्चात् मिध्यात्वका उदय होता है। किन्तु अप्रथम बार सम्यक्त्वकी प्राप्तिके पश्चात् वह भजितव्य है । १०१ (पं स/भा/२/१७२), (ध. ६/१,६-८,६/गा १२/२४२), (अथ ध / २/१/१२० पर उद्धृत एक श्लोक)

८ गिरकर किस गुणस्थानमें जावे

ध १/१,१,१२/१७१/६ एरिसो चैव उवसमसम्माइरुड्डी, किंतु परिणामपचरण मिच्छत्त गच्छद्द, सासणगुणं वि पधिवत्त, सम्मामिच्छत्तगुणं वि द्दक्क, वेदगसम्मत्तं पि समिस्सियद्द । = उपशम सम्यग्दृष्टि जीव यद्यपि क्षाधिकत्त निर्मल होता है, परन्तु परिणामोंके निमित्तसे उपशम सम्यक्त्वको छोड़कर मिध्यात्वको जाता है, कभी सासादन गुणस्थानको भी प्राप्त करता है, कभी सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानको भी पहुँच जाता है और कभी वेदक सम्यक्त्वसे भेन कर लेता है।

गो, जी, /जी प्र/७०४/११११/१५ ते अप्रमत्तसयत्त मिना प्रय एव तरसम्यक्त्वकालान्तर्मुहूर्त्ते जघन्येन एकसमये उरकृत्तेन च पडावलिमात्रेऽवशिष्टे अनन्तानुबन्धयतामोदये सासादना भवन्ति । अथवा ते चत्वारोऽपि यदि भव्यतागुणविशेषेण सम्यक्त्वविराधया न स्सु तदा तत्काले संपूर्णे जाते सम्यक्त्वप्रकृत्युदये वेदकसम्यग्दृष्टय वा मिश्रप्रकृत्युदये सम्यग्मिध्यादृष्टय वा मिध्यात्वोदये मिध्यादृष्टयो भवन्ति । = [प्रथमोपशम सम्यक्त्व २-७ तकके चार गुणस्थानोंमें होना सम्भव है (दे सत्त्व)] तहाँ अप्रमत्तके मिना तीन गुणस्थानवर्ती जीव उस प्रथमोपशमके अन्तर्मुहूर्त्तमात्र कालमें जघन्य एक समय और उरकृष्ट हो आवली शेष रह जानेपर, अनन्तानुबन्धी चतुष्कमें से किसी एकके उदयसे सासादन होते हैं। अथवा वे चारों ही गुणस्थानवर्ती यदि भव्यतागुणकी विशेषतासे सम्यक्त्वकी विराधना नहीं करते हैं, तो सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे वेदक सम्यग्दृष्टि हो जाते हैं। अथवा मिश्र प्रकृतिके उदयसे सम्यग्मिध्यादृष्टि या मिध्यात्वके उदयसे मिध्यादृष्टि हो जाते हैं। (और भी दे सम्यग्दर्शन/IV/४/५/१) ।

९. पंच लक्षि पर्वक होता है

ध ६/१,६ ८,३/२०४/२ तिकरणचरिमसमए सम्मत्तुप्पतीदो । एदेण खओवसमलद्धी विसोहिलद्धी देमणलद्धो पाओगलद्धधी त्ति चत्तारि लद्धधीओ परुब्बिदो । = तीनों कर्णोंके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वकी उपलब्धि होती है। इस सूत्रके द्वारा क्षयोपशम लब्धि, विद्युद्भिध लब्धि, देशना लब्धि, और प्रायोग्य लब्धि ये चारों लब्धियाँ प्ररूपण की गर्थी—(और भी दे लब्धि/२/५ तथा उपशम/२/१) ; (स सा / ४/४१/६) ।

१०. प्रारम्भ किये पश्चात् अवश्य प्राप्त करता है

क पा सु/१०/१७/६३१ उवसामगो च सव्वो णिव्वाधादो त्था गिरासाओ । १७१ = दर्शनमोहका उपशमन करनेवाला जीव उपद्रव व उपसर्ग आनेपर भी उसका उपशम किये बिना नहीं रहता। (ध, ६/१,६-८,६/गा ४/२३६), (स सा /मू/६६/१३६), (और भी दे अपूर्वकरण/४) ।

३. द्वितीयोपशम सम्यक्त्व निर्देश

१. द्वितीयोपशमका लक्षण

स सा /भावा/२/४२/१ उपशमभ्रेणी चढता क्षयोपशम सम्यक्त्वत्तं जो उपशम सम्यक्त्व (होता है) ताका नाम द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है। (और भी दे सम्यग्दर्शन/IV/२/४/२) ।

२. द्वितीयोपशम सम्यक्त्वका स्वामित्व

ध ६/१.६-८, १४/३३१/८ हृदि तिस्र आउएस्र एकेण वि यद्दधेण ण सक्को कसाए उवसामेदु, तेण कारणेण गिरय-तिरिक्क-मणुसगदीओ ण गच्छदि । = निश्चयत नरकायु, तिर्यगायु, और मनुष्यायु, इन तीनों आयुमेंसे पूर्वमें बाँधी गयी एक भी आयुमें कर्मायोंको उपशमानेके लिए समर्थ नहीं होता । इसी कारणसे वह नरक तिर्यच व (मरकर) मनुष्यगतिको प्राप्त नहीं होता । (विशेष दे मरण/३/७) । गो. जी / जो प्र / ६६६/११३२, १३२५ विदियुवसमसम्मत्तं अवि-रदसम्मादि सतमोहोत्ति ६६६। विदियुवसमसम्मत्तं सेट्ठोदिणिण अविरदादि ७३१। = १, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व ४ मेंसे ११ वें गुण स्थान तक होता है ६६६। (विशेष दे. उपशम/२/४) । २, श्रेणीसे उतरते हुए अविरतादि गुणस्थान होते हैं । (विशेष दे, शीर्षक न ३, ४) ।

गो. जी / जो, प्र / ५५०/७४२/७ द्वितीय पर्याप्तमनुष्यनिवृत्त्यपर्याप्तवै-मानिकयोरिव । = द्वितीयोपशम सम्यक्त्व पर्याप्त मनुष्य व निवृत्त्य-पर्याप्त वैमानिक देवोंमें ही होता है । (दे. द्र. स./टी./४१/१७६/६), (और भी दे. मरण/३/७),

३. द्वितीयोपशमका अवरोहण क्रम

ध. ६/१.६-८, १४/३३१/४ एदिस्से उवसम्मत्ताए अम्भतरादो असज्जं पि गच्छेज्ज, सज्जमासज्जं पि गच्छेज्ज, छसु आवलियासु सेसासु आसाण पि गच्छेज्ज । = इस द्वितीयोपशम सम्यक्त्वके कालके भीतर असयमको भी प्राप्त हो सकता है, संयमासंयमको भी प्राप्त हो सकता है और छह आवलियोंके शेष रहनेपर सासादनको भी प्राप्त हो सकता है । [सामादनको प्राप्त करने व न करनेके सम्बन्धमें दो मत हैं । (दे सासादन)] (ल सा / मू. / ३४८/४३७) ।

गो जी / मू / ७३१/१३२५ विदियुवसारसम्मत्तं सेट्ठोदिणिण अविर-दादि ७३१। सगसगलेस्सा मरिदे देवअपज्जत्तगेव हवे ७३१।

गो जी / जो प्र / ७०४/११४१/१६ द्वितीयोपशमसम्यग्दृष्टिर्भूत्वा उपशम-श्रेणिमारुह्य उपशान्तकपाय गत्वा अन्तर्भूतं स्थित्वा क्रमेण अवतीर्य अप्रमत्तगुणस्थानं प्राप्य प्रमत्ताप्रमत्तपरावृत्तिसहस्राणि करोति । वा अथ देशसंयमो भूत्वा आस्ते वा असयतो भूत्वा आस्ते वा मरणे देवासंयत स्यात् वा मिश्रप्रकृत्युदये मिश्र स्यात् । अनन्तानुबन्ध-न्यतमोदये द्वितीयोपशमसम्यक्त्व विराधयतीत्याचार्यपक्षे सासादन स्यात् वा मिथ्याशब्दये मिथ्यादृष्टि स्यात् इति । = द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि होकर, उपशमश्रेणीपर आरोहण करके, उपशान्तकपाय गुणस्थानमें जाकर और वहाँ तब योग्य अन्तर्भूत काल तक स्थित रहकर क्रमसे नीचे गिरता हुआ अर्थात् क्रमपूर्वक १०, ६, ८ गुणस्थानों-मेंसे होता हुआ अप्रमत्तसयत गुणस्थानको प्राप्त करता है । वहाँ प्रमत्त व अप्रमत्तमें हजारों बार उतरना गिरना करता है । अथवा नीचे देशसयत होकर रहता है, अथवा असयत होकर रहता है, या मरण करके असयत देव (निवृत्त्यपर्याप्त) होता है, अथवा मिश्र प्रकृतिके उदयसे मिश्रगुणस्थानपर्यन्त होता है । अनन्तानुबन्धी चतुष्क-मेंसे किसी एकका उदय आनेपर द्वितीयोपशमकी विराधना करके किन्हीं आचार्योंके मतसे सासादन भी हो जाता है (विशेष दे सासादन), अथवा मिथ्याशब्दके उदयसे मिथ्यादृष्टि हो जाता है । (और भी, दे. श्रेणी/३/३) ।

४ श्रेणीसे नीचे आकर भी कुछ देर द्वितीयोपशमके साथ ही रहता है

ध ६/१.६-८, १४/३३१/१ उवसामगस्स पढमसमयअपुव्वकरणेण प्पहुडि जाव पडिणमाणयस्स चरिमसमयअपुव्वकरणेण ततो एत्तो सत्थेज्ज-युग काल पडिणियत्ता अथावत्तकरणेण उवसमसम्मत्तद्धमणुपत्तेदि ।

= उपशमकके श्रेणी चढ़ते समय अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर उतरते हुए अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक जो काल है, उससे सख्यातगुणे कालतक कर्मायोपशमनासे सौदृता हुआ जीव जय प्रवृत्ति-करण (७ वें गुणस्थान) के साथ द्वितीयोपशम सम्यक्त्वको पालता है । (ल सा / मू / ३४७/४३७), (और भी दे मरण/३/७) । गो जी / जो प्र / ६६६/११३२/१२ द्वितीयोपशमसम्यक्त्व असयताद्यु-प-शान्तकपायान्त भवति । अप्रमत्ते उत्पद्य उपरि उपशान्तकपायान्त गत्वा अधोवतरणे अमयतान्तमपि तत्स भवात् । = द्वितीयोपशम-सम्यक्त्व असयतादि उपशान्तकपाय गुणस्थान पर्यन्त होता है । अप्रमत्त गुणस्थानमें उरपन्न करके, ऊपर उपशान्तकपाय गुणस्थान तक जाकर, फिर नीचे उतरते हुए असयत गुणस्थान तक भी सम्भव है । (गो. जी / जो, प्र / ७३१/१३२५/१३)

४. वेदक सम्यक्त्व निर्देश

१ वेदक सामान्यका लक्षण

१. क्षयोपशमकी अपेक्षा

स सि / २/५/१५७/६ अनन्तानुबन्धिकपायचतुष्टयस्य मिथ्यात्तसम्यग्-मिथ्यात्वयोश्चोदयभयात्सदुपशमाच्च सम्यक्त्वस्य देशघातिसर्ध-कस्योदये तत्त्वार्थश्रद्धानं क्षायोपशमिक सम्यक्त्वम् । = चार अनन्ता-नुबन्धी कपाय, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन् छह प्रकृतियोंके उदयाभावो क्षय और इन्हीके सदवस्थारूप उपशमसे, देशघातो स्पर्धकवाली सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयमें जो तत्त्वार्थश्रद्धान होता है वह क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है । (रा वा / २/४/१०८/१), (विशेष दे क्षयोपशम/१/१), (गो. जी / जो प्र / २५५/१०८) ।

२ वेदक सम्यक्त्वकी अपेक्षा

ध १/१.१, ११४/गा २१४/३६६ दसणमोहदयादो उप्पज्जेई ज पयथ सदहणं । चलमलिनमगाढ तं वेदगसम्मत्तमिह गुणसु । = सम्यक्त्व-मोहनीय प्रकृतिके उदयसे पदार्थोंका जो चल, मलिन और अगाढरूप श्रद्धान होता है उसको वेदक सम्यग्दर्शन कहते हैं । (गो जी / मू / ६४६/१०६६), (गो जी / मू. / २५/५०) ।

ध १/१.१, १२/१७२/६ सम्मत्त-सण्णद-दसणमोहणीयभेय-कम्मस्स उदएण वेदयसम्माद्वृत्ती णाम ।

ध. १/१.१, १२/१७२/३ सम्मत्तदेसवाइ-वेदयसम्मत्तं एणुप्पणवेदय-सम्मत्तं खओवसमिय । = १ जिमकी सम्यक्त्व सज्ञा है ऐसी दर्शन-मोहनीय कर्मकी भेदरूप प्रकृतिके उदयसे यह जीव वेदक सम्यग्दृष्टि कहलाता है । (प स / प्रा / १/१६४) । २ सम्यक्त्वका एक देशरूपसे वेदन करानेवाली सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होनेवाला वेदक सम्यक्त्व क्षायोपशमिक है । (विशेष दे क्षयोपशम/१/१) ।

२. कृतकृत्य वेदकका लक्षण

ध ६/१.६-८, १२/२६२/१० चमिमे ट्ठिठ्ठडए णिट्ठिठ्ठे त्ठदकरणिज्जो त्ति भण्णदि । = दर्शन मोहनीयता क्षय करने वाला कोई जीव ७ वें गुणस्थानके अन्तिम सातिशय भागमें कर्मोंकी स्थितिका काण्डक घात करता है—दे क्षय) तहाँ अन्तिम स्थितिकाण्डकके समान होनेपर वह 'वृत्तकृत्यवेदक' कहलाता है । (ल.सा / मू / १४५) (विशेष दे क्षय/२/५)

३. वेदक सम्यक्त्वके वारु चिह्न

प.स / प्रा / १/१६३-२६४ बुद्धो सुहाणुयमी सुहकम्मरओ सुए य म्भेगो । तच्चत्थे सदहणं पियधम्मि तिब्बणिच्चेदो १६३। इच्चेवमाइया जे वेदयम, णस्स हँति ते य गुणा । वेदयसम्मत्तमिण

सम्मत्तुदयग जीवस्स १६४। = वेदक सम्यक्त्वके उत्पन्न होनेपर जीवको बुद्धि शुमानुबन्धी या सुखानुबन्धी हो जाती है। शुचिकर्ममें रति उत्पन्न होती है। श्रुतमें सबेग अर्थात् प्रीति पैदा होती है। तत्त्वार्थमें श्रद्धान, मिय धर्ममें अनुराग एव ससारे तीव्र निर्वेद अर्थात् वैराग्य जागृत हो जाता है। १६३। इन गुणोंको आदि लेकर इस प्रकारके जितने गुण हैं, वे सब वेदक सम्यक्त्वकी जीवके प्रकट हो जाते हैं। सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयका वेदन करनेवाले जीवको वेदक-सम्यग्दृष्टि जानना चाहिए। १६४।

४ वेदक सम्यक्त्वकी मलिनताका निर्देश

ध १/१.१ १२/१०१/१० जो पुण वेरयसम्माइट्ठी सो सिथिलसहणो थेरस्स लट्ठिगहणं व सिथिलगाहो कुहेउ-कुदिट्ठतेहिं भिडिदि त्तिराहओ। = वेदक सम्यग्दृष्टि जीव शिथिलश्रद्धानी होता है, इसलिए वृद्धपुरुष जिस प्रकार अपने हाथमें लकड़ीको शिथिलतापूर्वक पकड़ता है, उसी प्रकार वह भी तत्त्वार्थके श्रद्धानमें शिथिल-ग्राही होता है। अतः कुहेतु और कुदृष्टान्तसे उसे सम्यक्त्वकी विराधना करनेमें देर नहीं लगती है। (और भी दे. अगाढ)

ध ६/१.६-१.२१/४०/१ अत्तागमपरयस्यसद्भाए सिथिलत्तं सद्भाहाणी वि सम्मत्तलिंगं। = आप्त आगम और पदार्थोंकी श्रद्धानमें शिथिलता और श्रद्धानको हीनता होना सम्यक्त्वप्रकृतिका चिह्न है। (दे मोहनीय/२/४)
दे सम्य/१/२/६ [दर्शनमोहके उदयसे (अर्थात् सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे) सम्यग्दर्शनमें शक्रा कीक्षा आदि अतिचार लगते हैं।

दे अनुभाग/४/६/३ [सम्यक्त्व प्रकृति सम्यक्त्वके स्थिरता और निष्कांक्षता गुणोंका वात करती है।]

गो जी/मू/२५/६० सम्मत्तदेसत्वादिस्सुदयादो वेदग हवे सम्मं। चलमलिनमगाढ त णिच्च कम्मफलवणहेतु १२४। = सम्यक्त्व नामकी देशवात्तो प्रकृतिके उदयसे मन्मक्त्व चल मलिन व अगाढ दोषसे युक्त हो जाता है, परन्तु नित्य ही वह कर्मक्षयका हेतु बना रहता है। (और भी दे सम्यग्दर्शन/IV/४/१/२), (अन ध/२/५६/१८२)

दे चल- (अपने व अन्यके द्वारा स्थापित जिनबिम्बोंमें मेरे तैरेकी बुद्धि करता है तथा कुछ मात्र काल स्थिर रह कर चलायमान हो जाता है।)

दे मल- [शक्रा आदि दोषोंसे दूषित हो जाना मल है।]

५ वेदक सम्यक्त्वका स्वामित्व

१. गति व पर्याप्त आदिकी अपेक्षा

स सि/१/७/२२/६ गत्यनुवादेन नरकगतौ सर्वास्तु पृथिवीषु नारकाणां पर्याप्तकानामौपशमिक क्षायोपशमिक चास्ति। प्रथमायां पृथिव्यां पर्याप्तपर्याप्तकाना क्षायिक क्षायोपशमिक चास्ति। तिर्यग्गतौ तिर्यचा क्षायिक क्षायोपशमिक च पर्याप्तपर्याप्तकानामस्ति। तिर्यचीनां क्षायिक नास्ति। क्षायोपशमिक च पर्याप्तकानामेव नापर्याप्तकानाम्। मनुष्यगतौ मनुष्याणां पर्याप्तपर्याप्तकानां क्षायिक क्षायोपशमिक चारित। मानुषीणां त्रितयमप्यस्ति पर्याप्तकानामेव नापर्याप्तकानाम्। देवगतौ देवानां पर्याप्तपर्याप्तकानां त्रितयमप्यस्ति त्रिशेषेण भवनवासिष्यन्तरज्योतिष्काणां देवानां देवीनां च सौधर्मज्ञानकल्पवासिनीनां च क्षायिक नास्ति। तेषां पर्याप्तकानामौपशमिक क्षायोपशमिक चास्ति। = गतिमार्गणके अनुवादासे नरकगतिमें सब पृथिवियोंमें पर्याप्त नारकियोंके औपशमिक व क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन होता है। पहली पृथिवीमें पर्याप्त और अपर्याप्त नारकियोंमें क्षायिक व क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन होता है। तिर्यचगतिमें क्षायिक और क्षायोपशमिक पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकारके तिर्यचके होता है। तिर्यचिनीके क्षायिक नहीं होता क्षायोपशमिक पर्याप्तके ही होता है, अपर्याप्त तिर्यचिनीके नहीं।

मनुष्यगतिमें क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकारके मनुष्योंके हाता है। मनुष्यणियोंके तीनों ही सम्यग्दर्शन होते हैं, किन्तु पर्याप्त मनुष्यनीके ही होते हैं, अपर्याप्त मनुष्यणीके नहीं। देवगतिमें पर्याप्त, अपर्याप्त दोनों प्रकारके देवोंके तीनों ही सम्यग्दर्शन होते हैं। विशेषरूपसे भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके, इन तीनोंकी देवांगनाओंके तथा सौधर्म और ऐशान कल्पमें उत्पन्न हुई देवांगनाओंके क्षायिक सम्यग्दर्शन नहीं होता शेष दो होते हैं, मो वे भी पर्याप्त अवस्थामें ही होते हैं। (विशेष दे वह-वह गति तथा सत्)

गो जी/मू/१२८/३३६ ऐट्ठिमच्छप्पुणवीण जोइसियणभवणसठ्ठइत्थीण। पुण्णिदरे णहि सम्मो ण सासणो णारयापुण्णे १२८। = नरक गतिमें प्रथम पृथिवीके अतिरिक्त नीचकी छह पृथिवीमें, देव गतिमें ज्योतिषी व्यन्तर व भवनवासी देव, सर्व ही प्रकारकी रित्र्यां, इन सबको पर्याप्त अवस्थामें ही सम्यक्त्व होता है अपर्याप्त अवस्थामें नहीं। इसके अतिरिक्त नारकियोंको अपर्याप्त अवस्थामें सासादन भी नहीं होता है।

गो, जी/५५०/७४२/७ वेदक चातुर्गतिपर्याप्तनिर्वृत्त्यपर्याप्तपु ७। = वेदक सम्यग्दर्शन चारों ही गतियोंमें पर्याप्त व निर्वृत्त्यपर्याप्त दोनों दशाओंमें होता है।

२. गुणस्थानोंकी अपेक्षा

प ख १/१.१/पू १४६/३६७ वेदगसम्माइट्ठी असजदसम्माइट्ठी प्पहुडि जाव अप्पमत्तसजदा त्ति १४६। = वेदक सम्यग्दृष्टि जीव असयत्त-सम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत्त गुणस्थान तक होते हैं। (विशेष दे. सत्)

३ उपशम सम्यग्दृष्टि व सादि मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा

गो, क/जी प्र/५५०/७४४/१६ कर्मभूमिमनुष्यप्रथमोपशमसम्यग्दृष्टयश्च स्वस्वान्तमूर्तकाले गते सम्यारनप्रकृत्युदयाद्देवसम्यग्दृष्टयो जायन्ते। कर्मभूमिमनुष्यसादिमिथ्यादृष्टय सम्यक्त्वप्रकृत्युदयेन मिथ्यात्वोदयनिषेकानुरूप्यास यत्तादिचतुर्गुणस्थानवेदकसम्यग्दृष्टयो भूत्वा। नरकगतौ प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टय स्वकालानन्तरसमयं प्राप्य सम्यग्मिथ्यादृष्टिसादिमिथ्यादृष्टय मिश्रमिथ्यात्वप्रकृत्युदय निषेकानुरूप्य च सम्यक्त्वप्रकृत्युदयाद्देवसम्यग्दृष्टयो भूत्वा। कर्मभूमिमिथ्योच भोगभूमिमनुष्याश्च प्रथमोपशमसम्यक्त्व त्यक्त्वा सादिमिथ्यादृष्टितिर्यचो मिथ्यात्वोदयनिषेकानुरूप्य च सम्यक्त्वप्रकृत्युदयाद्देवसम्यग्दृष्टयो जायन्ते। भवनत्रयाहस्युपरिम-ग्रैवेयकान्तसादिमिथ्यादृष्टय करणत्रयमकृत्वा वा यथासम्भव सम्यक्त्वप्रकृत्यान्मिथ्यात्व त्यक्त्वा वेदकसम्यग्दृष्टयो भूत्वा तदेव धनन्ति। = कर्मभूमिज मनुष्य प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि अपने-अपने योग्य अन्तमूर्तकालके बीत जानेपर सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयसे वेदक सम्यग्दृष्टि हो जाते हैं। कर्मभूमिज मनुष्य सादि मिथ्यादृष्टि सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे उदयगत मिथ्यात्वके निषेकोंका अभाव करके असयत्तादि चार गुणस्थानवर्ती वेदक सम्य दृष्टि होकर। नरक गतिमें प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टि जीव अपने कालके अनन्तर समयको प्राप्त करके, मिश्रगुणस्थानवर्ती या सादि मिथ्यादृष्टि हो, मिश्र व मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयगत निषेकोंको हटाकर सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे वेदक सम्यग्दृष्टि हो जाता है। कर्मभूमिज तिर्यच और भोगभूमिज मनुष्य प्रथमोपशमको छोड़ और सादि मिथ्यादृष्टि तिर्यच मिथ्यात्वके उदयगत निषेकोंका अभाव करके सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयसे वेदक-सम्यग्दृष्टि हो जाते हैं। भवनत्रिकसे लेकर उपरिम ग्रैवेयक पर्यन्तके सादि मिथ्यादृष्टि देव करणत्रयको करके अथवा यथासम्भव सम्यक्त्व प्रकृतिके द्वारा मिथ्यात्वको छोड़कर वेदक सम्यग्दृष्टि हो जाता है। [इस प्रकार ये सभी जीव वेदक सम्यग्दृष्टि

होकर तीर्थंकर प्रकृतिको बाँधनेके योग्य हो जाते हैं, ऐसा यहाँ प्रकरण है। (और भी दे सम्यग्दर्शन/IV/२/८)

६. अनादि मिथ्यादृष्टिको मीधा प्राप्त नहीं होता

घ ६/१,६,१२१/७३/६ एइदिएस दीहद्रमवद्विदस्स उव्वेखिलदसम्मत्त-सम्मामिच्छत्तस्स तदुप्पायणे सभवाभावा । = एकेन्द्रियोंमें दीर्घकाल तक रहनेवाले और उद्वेलना को है सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी जिसने ऐसे जीवके वेदक सम्यक्त्वका उत्पन्न कराना सम्भव नहीं है। (घ. ६/१,६,२८/१३६/६)

दे सम्यग्दर्शन/IV/२/६ में अन्तिम सन्दर्भ—[उपरोक्त प्रकारका जीव अनादिमिथ्यादृष्टि ही होता है।]

७. सम्यक्त्वसे च्युत होनेवाले बहुत कम है

घ ३/१,२,१४/१२०/४ वेदगममाइट्ठीणमसखेज्जदिभागो मिच्छत्त गच्छदि । तस्स वि असखेज्जदिभागो सम्मामिच्छत्त गच्छदि । = वेदक सम्यग्दृष्टियोंका असख्यातवाँ भाग मिथ्यात्वको प्राप्त होता है और उसका भी असख्यातवाँ भाग सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होता है।

८. च्युत होनेके पश्चात् अन्तर्मुहूर्तसे पहले सम्यक्त्व पुन प्राप्त नहीं होता

क. पा. ३/३-२२/३६२/१६६/४ सकलिसादो ओयरिय विसोहीए अतोमुहुत्तावट्ठाणिण विणा सम्मत्तस्स गहणाणुववत्तीदो । = मिथ्यात्वमें आकर और उत्कृष्ट स्थितिवन्धके कारणभूत सकलेशसे च्युत होकर, विशुद्धिको प्राप्त करके, जब तक उस विशुद्धिके साथ जीव मिथ्यात्वमें अन्तर्मुहूर्त कालतक नहीं ठहरता, तबतक उसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। (विशेष दे अन्तर/४)।

९. ऊपरके गुणस्थानोंमें न होनेमे हेतु

घ १/१,१,१४६/३६७/७ उपरितनगुणेषु किमिति वेदकसम्यक्त्व नास्तीति चेन्न, अगाढसमलभ्रद्धानेन सह क्षपकोपशमश्रेण्यारोहणानु-पपत्ते । = प्रश्न—ऊपरके आठवें आदि गुणस्थानोंमें वेदकसम्यग्दर्शन क्यों नहीं होता है? उत्तर—नहीं होता, क्योंकि, अगाढ आदि मलसहित श्रद्धानके साथ क्षपक और उपशम श्रेणिका चढना नहीं बनता है।

१०. कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्वो कुछ नियम

घ ६/१,६-८,१२/२६३/९ कदकरणिज्जकालम्भतरे मरण पि होज्ज, काउ-तैउ-पम्म सुअक-लेस्साणमण्णदराए लेस्साए वि परिणामेज्ज, सकलित्सदु वा विमुत्तम्भु वा, तो वि असखेज्जगुणाए सेडीए जाव समययाहियावलिआ सेसा ताव असखेज्जाण समयपवद्धानमुदीरणा, उवरुस्सिया वि उदीरणा उदयस्स असखेज्जदिभागो । = कृतकृत्य-वेदककालके भीतर उसका मरण भी हो (विशेष दे, मरण/३/८), कापोत तेज पन्न और शुक्ल इन लेश्याओंमेंसे किसी एक लेश्याके द्वारा भी परिणमित हो, सकलेशको प्राप्त हो; अथवा विशुद्धिको प्राप्त हो, तो भी असख्यातगुणित श्रेणिके द्वारा जब तक एक समय अधिक आमलीकाल शेष रहता है, तबतक असख्यात समय प्रबद्धोकी उदीरणा होती रहती है। उत्कृष्ट भी उदीरणा उदयके असख्यातवें भाग होती है।

५ क्षायिक सम्यक्त्व निर्देश

१ क्षायिक सम्यग्दर्शनका लक्षण

प स / पा / १/१६०-१६२ खीणे दसणमोहे ज सहहणं मुणिम्मल होइ । त खायसम्मत्त णिच्च कम्मरत्तणहेउ । १६०। वयणेहि वि हेऊहि

य इदियभय जणणेहिं रूवेहि । वीभच्छ-वुगुछेहि य णे तेग्लोक्केण 'चालिज्जा १६१। एव विउला बुद्धो ण य विभयमेदि किंचि दट्ठण । पट्ठविए सम्मत्ते खइए जीवस्स लद्धीए १६२। = दर्शनमोहनीय कर्मके सर्वथा क्षय हो जानेपर जो निर्मल श्रद्धान होता है, उसे क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। वह सम्यक्त्व नित्य है और कर्मोंके क्षय करनेका कारण है। १६०। श्रद्धानको भ्रष्ट करनेवाले वचनोंसे, तर्कोंसे, इन्द्रियोंको भय उत्पन्न करनेवाले रूपोंसे तथा वीभत्स और जुगुप्सित पदार्थोंसे भी चलायमान नहीं होता। अधिक क्या कहा जाय वह त्रैलोक्यके द्वारा भी चल-विचल नहीं होता। १६१। क्षायिक सम्यक्त्वके प्रारम्भ होनेपर अथवा प्राप्ति या निष्ठापन होनेपर, क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवके ऐसी विशाल, गम्भीर एव दृढ बुद्धि उत्पन्न हो जाती है कि वह कुछ (असम्भव या अनहोनी घटनाएँ) देखकर भी विस्मय या क्षोभको प्राप्त नहीं हाता। १६२। (घ १/१,१४४/गा २३३-२३४), गो जी. / मू. / ६४६-६४७/१०६६)।

स. सि / २/४/१६४/११ पूर्वोक्ताना सप्ताना कृतीनामत्यन्तक्षयात्क्षायिकं सम्यक्त्वम् । = पूर्वोक्त (दर्शनमोहनीयको) सात प्रकृतियोंके जल्यन्त विनाशसे क्षायिक सम्यक्त्व होता है। (रा वा / २/४/७/१०६/११) । ल. सा. / मू. / १६४/२१७ सत्तण पयडीण खयादु खइय तु होदि सम्मत्त । मेरु व णिप्पकप मुणिम्मल अक्खयमणत्त १६४। = सात प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्व होता है। वह मेरुकी भौंति निष्प्रकम्प, निर्मल व अक्षय अनन्त है।

प्र प / टो / १/६१/६१/६ शुद्धात्मादिपदार्थविषये विपरीताभिनिवेशरहित परिणाम क्षायिकसम्यक्त्वमिति भण्यते । = शुद्ध आरामा आदि पदार्थोंके विषयमें विपरीत अभिनिवेश रहित परिणाम क्षायिक सम्यक्त्व कहा जाता है। (द्र स / टो. / १/४/४२/६)

घ १/१,१,१२/१७१/४ एदासि सत्तण्ण णिरवसेसखएण खइयसम्माइट्ठी उच्चइ । खइयसम्माइट्ठी ण कयाइ वि मिच्छत्त गच्छइ, ण कुण्ड सदेह पि मिच्छत्तुम्भव । दट्ठण णो विम्हयं जायदि । = सात प्रकृतियोंके सर्वथा विनाशसे जीव क्षायिक सम्यग्दृष्टि कटा जाता है। क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव कभी भी मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं होता, किसी प्रकारके सन्देहको भी नहीं करता, और मिथ्यात्वजन्य अतिशयोंको देखकर विस्मयको भी प्राप्त नहीं होता है।

२. क्षायिक सम्यक्त्वका स्वामित्व

१. गति व पर्याप्तिकी अपेक्षा

दे सम्यग्दर्शन/IV/४/२/१—[नरक गतिमें केवल प्रथम पृथिवीमें होता अन्य पृथिवियोंमें नहीं। वहाँ पर्याप्तिक व अपर्याप्तिक दोनोंके होता है। तिर्यक गतिमें तिर्यचोको पर्याप्तिक व अपर्याप्तिक दोनोंको होता है, पर तिर्यचिनियोंको सर्वथा नहीं। मनुष्य गतिमें मनुष्योंको पर्याप्तिक व अपर्याप्तिक दोनोंको होता है, मनुष्यनीके केवल पर्याप्तिको होता है। देवोंमें पर्याप्तिक व अपर्याप्तिक दोनोंको होता है, पर भवनत्रिक व सर्व ही देवियोंके सर्वथा नहीं होता है।] विशेष दे वह-वह गति) । गो क / जो / प्र / ५५०/७२२/६ क्षायिक घर्मानारत्तभोगभूमितिर्यग्भोगकर्म-भूमिमनुष्यवैमानिव्धेव पर्याप्तपर्मपित्तेपु । = क्षायिक सम्यग्दर्शन घर्मानरक अर्थात् प्रथम पृथिवीमें, भोगभूमिज तिर्यचोंमें, कर्म व भूमिज मनुष्योंमें तथा वैमानिक देवोंमें पर्याप्तिक व अपर्याप्तिक दोनों अवस्थाओंमें होते हैं (विशेष दे वह-वह गति) ।

२. प्रस्थापक व निष्ठापककी अपेक्षा

प ख ६/१,६ ८/सूत्र १२/२४७ णिट्ठवओ पुण चत्तुसु वि गदीसु णिट्ठवेदि १२। = दर्शनमोहकी क्षपणाका निष्ठापक तो चारों ही गतियोंमें उसका निष्ठापन करता है। [पर इसका प्रस्थापन मनुष्य-गतिमें ही सम्भव है] ।

क. पा सुत/११/गा ११०-१११/६३६ दसणमोहवखणपाटठवगो कम्म-
भूमिजादो दु । गियमा मणुसगदीए णिटठवगो चावि सव्वत्थ ११९०।
मिच्छत्तवेदणीयकम्ममे आबद्धिदम्मि सम्मत्ते । खवणाए पटठवगो
जहण्णगो तेउत्तेस्साए ११९१। = १ नियमसे कर्मभूमिमें उत्पन्न हुआ
और मनुष्यगतिमें वर्तमान जीव ही दर्शनमोहकी क्षणका प्रस्थापक
(प्रारम्भ करनेवाला) होता है । किन्तु उसका निष्ठापक (पूर्ण करने-
वाला) चारों गतियोंमें होता है ११९० (प स/प्रा/१/२०२),
(ध ६/१,६-८, ११/गा १७/२४५), (गो जी/मू ६४८/१०६८),
(दे तिर्यच/२/५ में स ति) २ मिथ्यात्ववेदनीयकर्मके सम्यक्त्व
प्रकृतिमें अवर्तित अर्थात् सक्रमित कर देनेपर जीव दर्शनमोहकी
क्षणाका प्रस्थापक कहलाता है । दर्शनमोहकी क्षणाके प्रस्थापकको
जघन्य तेजोलेश्यामें वर्तमान होना चाहिए ११९१।

ख सा०/मू/११०-१११/१४६ दसणमोहवखणपाटठवगो कम्मभूमिजो
मणुसो । ११९०। णिटठवगो तट्ठाणे विमाणभोगावणोसु घम्मये य ।
किदकरणिज्जो चतुसु वि गदीसु उप्पज्जे दे जम्हा ११९१। = दर्शनमोहकी
क्षणाका प्रस्थापक कर्मभूमिज मनुष्य ही होता है ११९०। परन्तु उसका
निष्ठापक तो (अबद्धायुष्ककी अपेक्षा) उसी स्थानमें अर्थात् जहाँ
प्रारम्भ किया था ऐसी उस मनुष्यगतिमें (और अबद्धायुष्ककी अपेक्षा)
विमानवासी देवोंमें, भोगभूमिज मनुष्यों व तिर्यचोंमें और घर्मा
नामक प्रथम नरक पृथिवीमें भी होता है, क्योंकि अबद्धायुष्क
कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि मरकर चारों ही गतियोंमें उत्पन्न होता
है ११९१। (गो क/ जो/५५०/७४४/११)

३. गुणस्थानोंकी अपेक्षा

प. ग/१/१,१/सू १४५/३६३ सम्माइट्ठी खइयसम्माइट्ठी असंजदसम्मा-
इट्ठीप्पहुडि जाव अजोगिकेवलि त्ति ११४५। = सामान्यसे
सम्यग्दृष्टि और विशेषसे क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव असयत्त सम्यग्दृष्टि
गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक होते है ११४५।

गो क/जो. प्र/५५०/७४४/११ प्रस्थापकोऽयमसंयतादिचतुर्ष्वन्यतमो
मनुष्य ए१। = प्रस्थापक तो असयत्तसे अप्रमत्त पर्यन्तके चार गुण-
स्थानवर्ती मनुष्य ही होते है ।

गो जी/जी प्र/७०४/११४/१२२ क्षायिकसम्यक्त्व तु असयत्तादि चतुर्गुण-
स्थानमनुष्याणां असयत्तदेशसयत्तोपचारमहाव्रतमानुषीणां च कर्म-
भूमिवेदकसम्यग्दृष्टीनामेव, सप्तप्रकृतिनिरवशेषक्षये भवति । =
क्षायिक सम्यक्त्व तो असयत्तादि अप्रमत्त पर्यन्तके चार गुणस्थान-
वर्ती मनुष्योंके, तथा असयत्त, देशसयत्त और उपचारसे महाव्रती
मनुष्यनियोंके, कर्मभूमिज वेदक सम्यग्दृष्टियोंके ही सात प्रकृतियों-
का निरवशेष क्षय हो जानेपर होता है ।

दे तिर्यच/२/४ [क्षायिक सम्यग्दृष्टि तिर्यच सयत्तासयत्त नहीं होते]

३. तीर्थंकर आदिके सद्भाव युक्त क्षेत्र व कालमें ही
प्रतिष्ठापना सम्भव है

प ख ६/१,६-८/सूत्र ११/२४३ दसणमोहणीय कम्म खवेदुम द्वेवो तो
कन्हि आठवेदि, अट्ठाइज्जेसु दीवसमुद्देशे पण्णासकम्मभूमिसु
जन्हि जिणा केवली तिरथयरा तन्हि आठवेदि १११। = दर्शनमोहनीय
कर्मका क्षपण करनेके लिए आरम्भ करता हुआ यह जीव कहाँपर
आरम्भ करता है । अट्ठाई द्वीप समुद्रोंमें स्थित पन्द्रह कर्मभूमियोंमें
जहाँ जिस कालमें जिन केवली और तीर्थंकर होते है उस कालमें
आरम्भ करता है १११।

ध ६/१,६-८, ११/२४६/१ दुस्सम (दुस्समदुरसम) - सुस्समासुस्समा-
सुसमा - सुसमादुस्समाकालुप्पणमणुसाण खवणणिवारणटठ 'जन्हि
जिणा' त्ति वयण । जन्हि काले जिणा सभवति तन्हि चैव
खवणाए पटठवओ होदि, ण अण्णकालेसु । • जन्हि केवलिणाणिगो

अथि तिरथयरपादमूले अधवा चोइसपुव्वहरा एदाण तिण्ट
पि पादमूले दसणमोहवखण पटठवेति त्ति । = दु पमा, (दु पमा-
दु पमा), सुपमासुपमा, सुपमा, और सुपमादु पमा कालमें उत्पन्न हुए
मनुष्योंके दर्शनमोहका क्षपण निषेध करनेके लिए (उपरोक्त सूत्रमें)
'जहाँ जिन होते है' यह वचन कहा गया है । जिस कालमें जिन
सम्भव है उस ही कालमें दर्शनमोहकी क्षणाका प्रस्थापक होता है,
अन्य कालमें नहीं । अर्थात् जिस कालमें केवलज्ञान होते है, या
तीर्थंकरके पादमूलमें, अथवा चतुर्दश पूर्वधर होते है, इन तीनोंके
पादमूलमें कर्मभूमिज मनुष्यदर्शनमोहकी क्षणाका प्रारम्भक
होता है ।

ख. सा. मू/११०/१४६ तिरथयरपायमूले केवलिसूदकेवलीमूले ११९०। =
तीर्थंकरके पादमूलमें अथवा केवली या श्रुतकेवलीके पादमूलमें ही
(कर्मभूमिज मनुष्य दर्शनमोहकी क्षणाका प्रस्थापक होता है ।)

गो जी/जी. प्र./७०४/११४/२३ केवलिसूदकेवलिसूदयश्रीपादोपान्ते
सप्तप्रकृतिनिरवशेषक्षये भवति । = केवली और श्रुतकेवली इन दोनोंमें-
से किसीके श्रीपादमूलके निकट सात प्रकृतियोंका निरवशेषक्षय
होनेपर होता है ।

४. वेदक सम्यक्त्व पूर्वक ही होता है

रा. वा/२/१/८/१००/३१ सम्यग्दर्शनस्य हि आदिरीपशमिको भावरत्त
क्षायोपशमिकस्तत्त क्षायिक इति । = सम्यग्दर्शनमें निश्चयसे
पहले औपशमिक भाव होता है, फिर क्षायोपशमिक होता है और
तत्पश्चात् क्षायिक होता है ।

गो जी/जी प्र/७०४/११४/२३ वेदकसम्यग्दृष्टीनामेव । = वेदक
सम्यग्दृष्टियोंकी ही होता है ।

५. क्षायिक सम्यग्दृष्टि संयत्तासंयत होते हैं पर अल्प

प ख ५/१,८/सूत्र १८/२५६ सजदासजदट्ठाणे सव्वत्थोवा खइयसम्मा-
दिट्ठी ११८।

ध ५/१,८/२५६/६ कुदो । अणुव्वयसहिदखइयसम्मादिट्ठीणमइदुल्ल-
भत्तादो । ण च तिरिवल्लेसु खइयसम्मत्तेण सह सजमासजमो
लम्भदि, तत्थ दसणमोहणीयखवणाभावा । = सयत्तासंयत
गुणस्थानमें क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम है । १८। क्योंकि
१ अणुव्रत सहित क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंका होना अत्यन्त दुर्लभ
है । तथा २ तिर्यचोंमें क्षायिक सम्यक्त्वके साथ सयत्तासंयत
पाया नहीं जाता, क्योंकि, तिर्यचोंमें दर्शनमोहकी क्षणाका अभाव
है । (विशेष दे तिर्यच/२) ।

म पु. २४/१६३-१६५ तत्त सम्यक्त्वशुद्धि च व्रतशुद्धि च पुप्फलाम् ।
निष्कलाञ्जरतो भेजे परमानन्दसुहृद् १६३। स लेभे गुरुमाराध्य
सम्यग्दर्शननायकाम् । व्रतशीलावलीं मुक्ते कण्ठकामिव निर्मलाम्
१६५। = परम आनन्दको धारण करते हुए भरतने शरीरानुरागसे
रहित भगवान् वृषभदेवसे सम्यग्दर्शनकी शुद्धि और अणुव्रतोंकी
परम विशुद्धिको प्राप्त किया । १६३। भरतने गुरुदेवकी आराधना करके,
जिसमें सम्यग्दर्शनरूपी प्रधान मणि लगा हुआ है और जो मुक्तिरूपी
लक्ष्मीके निर्मल कण्ठहारके समान जान पड़ती थी ऐसी व्रत और
शीलोंकी (५ अणुव्रत और सात शीलव्रत, इस प्रकार श्रावकके १२
व्रतोंकी) निर्मल माला धारण की । १६५।

सम्यग्दर्शन क्रिया—दे क्रिया/३।

सम्यग्दृष्टि—सम्यग्दर्शन युक्त जीवको सम्यग्दृष्टि कहते है जो
चारों गतियोंमें होने सम्भव है । दृष्टिकी विचित्रताके कारण इनका
विचारण व चिन्तवन सांसारिक लोगोंसे कुछ विभिन्न प्रकारका
होता है, जिसे साधारण जन नहीं समझ सकते । सांसारिक लोग

बाह्य जगत्की ओर दौड़ते हैं और वह अन्तरंग जगत्की ओर । बाह्यपदार्थोंके सयोग आदिको भी कुछ विचित्र ही प्रकारसे ग्रहण करता है । इसी कारण बाहरमें रागी व भोगी रहता हुआ भी वह अन्तरंगमें विरागी व योगी बना रहता है । यद्यपि कपायोद्भेदक वश कपाय आदि भी करता है पर विवेक ज्योति खली रहनेके कारण निरय उसके प्रति निन्दन गर्हण वर्तता है । इसीसे उसके कपाय युक्त भाव भी ज्ञानमयी व निरास्रव नहे जाते हैं ।

५ सम्यग्दृष्टि सामान्य निर्देश

- १ सम्यग्दृष्टिका लक्षण ।
- * अन्य अनेकों लक्षण वैराग्य, गुण, नि शंकितादि
- * अग आदिका निर्देश —दे, सम्यग्दृष्टि/५/४ ।
- * भय व सशय आदिके अभाव सम्बन्धी
—दे, नि शंक्ति ।
- * आकांक्षा व रागके अभाव सम्बन्धी —दे राग/६ ।
- * सम्यग्दृष्टिका सुख —दे सुख/२/७ ।
- * अन्धश्रद्धानका विधि निषेध —दे, श्रद्धान/३ ।
- * एक पारिणामिक भावका आश्रय
—दे, मोक्षमार्ग/२/४ ।
- * सम्यग्दृष्टि दो तीन ही होते हैं —दे संख्या/२/७ ।
- * सम्यग्दृष्टिको शानी कहनेकी विवक्षा —दे ज्ञानी ।
- २ सिद्धान्त या आगमको भी कथचित् ।
- २ सम्यग्दृष्टिकी महिमाका निर्देश
- * सम्यग्दृष्टि एकदेशजिन कहलाते हैं —दे, जिन/३ ।
- १ उसके सब भाव ज्ञानमयी हैं ।
- * वह रागी भी विरागी है —दे, राग/६/३,४ ।
- २ वह सदा निरास्रव व अबन्ध है ।
- ३ कर्म करता हुआ भी वह बंधता नहीं ।
- * विषय सेवता हुआ भी वह असेवक है —दे राग/६ ।
- ४ उसके सब कार्य निर्जराके निमित्त हैं ।
- ५ अनुपयुक्त दशामें भी उसे निर्जरा होती है ।
- ६ उसकी कर्म चेतना भी ज्ञान चेतना है ।
- * कर्म करता हुआ भी वह अकर्ता है —दे, चेतना/३ ।
- ७ उसके कुध्यान भी कुगतिके कारण नहीं ।
- ८ वह वर्तमानमें ही मुक्त है ।
- * सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टिके पुण्य व धर्ममें अन्तर
—दे, मिथ्यादृष्टि/४ ।
- * सम्यग्दृष्टिको ही सच्ची भक्ति होती है
—दे भक्ति/१ ।
- * सम्यग्दृष्टिका ही ज्ञान प्रमाण है —दे प्रमाण/२/२,४ ।
- * सम्यग्दृष्टिका आत्मानुभव व उसकी प्रत्यक्षता ।
—दे अनुभव/४,५ ।
- * उसका कुशास्र ज्ञान भी सम्यक् है
—दे ज्ञान/III/२/१० ।
- * मरकार उच्चकुल आदिकमें ही जन्मता है
—दे जन्म/३ ।

- * उसकी भवधारणाकी सीमा —दे, सम्यग्दर्शन/II/६ ।
- ३ उपरोक्त महिमा सम्बन्धी समन्वय
- १ भावोंमें ज्ञानमयीपने सम्बन्धी ।
- * शुद्धाशुद्धोपयोग दोनों युगपत् होते हैं ।
—दे उपयोग/II/३ ।
- * राग व विराग सम्बन्धी —दे, राग/६ ।
- २ सदा निरास्रव व अबन्ध होने सम्बन्धी
- ३ सर्व कार्योंमें निर्जरा सम्बन्धी ।
- ४ ज्ञान चेतना सम्बन्धी ।
- * कर्तापने व अकर्तापने सम्बन्धी —दे चेतना/३ ।
- ५ अशुभ ध्यानों सम्बन्धी ।
- ४ सम्यग्दृष्टिकी विशेषताएँ
- १ सम्यग्दृष्टि ही सम्यक्त्व व मिथ्यात्वके भेदको यथार्थ जानता है
- * सम्यग्दृष्टि स्व व पर दोनोंके सम्यक्त्वको जानता है
—दे सम्यग्दर्शन/II/३ ।
- २ सम्यग्दृष्टिको पक्षपात नहीं होता है ।
- * वह नयको जानता है पर उसका पक्ष नहीं करता
—दे नय/II/३/५ ।
- * सम्यग्दृष्टि वाद नहीं करता —दे, वाद ।
- ३ जहाँ जगत् जागता है वहाँ शानी सोता है ।
- * वह पुण्यको हेय जानता है पर विषय वचनार्थ उसका सेवन करता है —दे पुण्य/३,५ ।
- * सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टिकी क्रियाओं व कर्म क्षपणामें अन्तर —दे मिथ्यादृष्टि/४ ।
- ५ अविरत सम्यग्दृष्टि
- १ अविरत सम्यग्दृष्टिका सामान्य लक्षण
- * उसके परिणाम अधः प्रवृत्तिकरणरूप होते हैं
—दे, करण/४ ।
- २ वह सर्वथा अत्रती नहीं ।
- * उस गुणस्थानमें सम्भव भाव —दे भाव/२/६ ।
- * वेदक सम्यग्दृष्टिके क्षायोपशमिक भाव सम्बन्धी शक्ता —दे, क्षयोपशम/२ ।
- ३ अपने दोषोंके प्रति निन्दन गर्हण करना उसका स्वाभाविक व्रत है ।
- ४ अविरत सम्यग्दृष्टिके अन्य बाह्य चिह्न ।
- * इस गुणस्थानमें मार्गणा जीवसमाप्त आदि रूप २० प्ररूपणाएँ —दे सत्त्व
- * इस गुणस्थानमें सत्, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव व अल्पबहुत्व रूप आठ प्ररूपणाएँ
—दे बह बह नाम ।

*	समी गुणस्थानोंमें आयके अनुसार व्यय होनेका नियम	—दे मार्गणा ।
*	इस गुणस्थानमें कर्मोंका बन्ध उदय सत्त्व	—दे वह वह नाम ।
*	अविरत सम्यग्दृष्टि व दर्शन प्रतिमामें अन्तर	—दे दर्शन प्रतिमा ।
*	अविरत सम्यग्दृष्टि और पाक्षिक श्रावकमें कथंचित् समानता	—दे श्रावक/३ ।
*	पुन पुन यह गुणस्थान प्रासिकी सीमा	—दे, सम्यग्दर्शन/1/१/७ ।
७	असयत सम्यग्दृष्टि बन्ध नहीं	—दे विनय/४ ।
*	अविरत भी वह भोक्षमार्गी है	—दे सम्यग्दर्शन/1/१/५ ।

१. सम्यग्दृष्टि सामान्य निर्देश

१. सम्यग्दृष्टिका लक्षण

मो. पा /५/१४ सद्व्यवहारो सवणो सम्माइट्टो हवेइ सो साहू । सम्मत्त-परिणदो उण खवेइ दुट्ठदुट्ठकम्ममाइ । १४। = जो साधु अपनी आत्मामें रत है अर्थात् रुचि सहित है वे सम्यग्दृष्टि है । सम्यक्त्व भावसे युक्त होते हुए वे दुष्ट अष्ट कर्मोंका क्षय करते हैं । (भा वा./५/३१)

प प्र /५/१/७६ अपि अप्पु मुण तु जिउ सम्मादिट्ठि हवेइ । सम्माइट्ठउ जीवउ लहु कम्मइ सुच्चइ । ७६। = अपनेको अपनेसे जानता हुआ यह जीव सम्यग्दृष्टि होता है और सम्यग्दृष्टि होता हुआ शीघ्र ही कर्मोंसे छूट जाता है ।

दे सम्यग्दर्शन/11/१/१/६ [सुत्र प्रगीत जीव अजीव आदि पदार्थोंको हेय व उपादेय युद्धिसे जो जानता है वह सम्यग्दृष्टि है ।]

दे नियति/१/२ [जो जय जहाँ जैसे होना होता है वह तय तहाँ तेसे ही होता है, इस प्रकार जो मानता है वह सम्यग्दृष्टि है ।

दे सम्यग्दृष्टि/६ (वैराग्य भक्ति आत्मनिन्दन युक्त होता)

२. सिद्धान्त या आगमको भी कथंचित् सम्यग्दृष्टि व्यपदेश

घ. १३/५.५.५०/११ सम्यग्दृश्यन्ते परिच्छिद्यन्ते जीवादय पदार्था अनया इति सम्यग्दृष्टि श्रुति सम्यग्दृश्यन्ते अनया जीवादय पदार्था इति सम्यग्दृष्टि सम्यग्दृष्टयविनाभाववद्वा सम्यग्दृष्टि । = इसके द्वारा जीवादि पदार्थ सम्यक् प्रकारसे देखे जाते हैं अर्थात् जाने जाते हैं, इसलिए इस (सिद्धान्त) का नाम सम्यग्दृष्टि या श्रुति है । इसके द्वारा जीवादि पदार्थ सम्यक् प्रकारसे देखे जाते हैं अर्थात् श्रद्धान किमे जाते हैं इसलिए इसका नाम सम्यग्दृष्टि है । अथवा सम्यग्दृष्टिके साथ श्रुतिकी अविनाभान होनेसे उसका नाम सम्यग्दृष्टि है

२. सम्यग्दृष्टिकी महिमाका निर्देश

१ उसके मव भाव ज्ञानमयी है

स. सा /५/१२८ गाणमया भावाओ गाणमजो चैव जायए भावो । जम्हा तम्हा गाणित्स सव्वे भावा टु गाणमया । = क्योंकि ज्ञानमय भावोंमेंसे ज्ञानमय ही भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए ज्ञानियोंके समस्त भाव वास्तवमें ज्ञानमय ही होते हैं । १२८। (म सा /आ/१२८/क. ६७),

प. घ /उ/२३१ यस्माज्ज्ञानमया भावा ज्ञानिनां ज्ञाननिवृत्ता । अज्ञानमयभावानां नावकाशं यदृष्टियु २३१। = क्योंकि ज्ञानियोंके सर्व-भाव ज्ञानमयी होते हैं, इसलिए सम्यग्दृष्टियोंमें अज्ञानमयी भाव अवकाश नहीं पाते ।

२. वह सदा निरास्त्र व अयन्ध है

स सा /५/१०७ चउविह अण्यमेहं वधते गाणर सणगुणेहि । ममए ममए जम्हा तेण अयधोत्ति णाणो दु । = क्योंकि चार प्रकारके द्रव्यास्त्र ज्ञानदर्शन गुणोंके द्वारा समय-समयपर अनेक प्रकारका कर्म बाँधते हैं, इसलिए ज्ञानी तो अयन्ध है । (विशेष दे, सम्यग्दृष्टि/३/२)

३. कर्म करता हुआ भी वह बंधता नहीं

स. सा /५/१६६, २१८ जह मज्ज पिचमाणो अरदिभावेण मज्जदि ण पुरिसो । दव्वुवभोगे अरदो णाणो वि ण मज्जदि तरेव । १६६। णाणी रागपजहो सव्वदव्वेसु कम्ममज्जगदो । णे लिप्पदि रज्जएण दु वहममज्जे जहा कणय । २१८। = १ जैसे कोई पुरुष मदिगको अरति भावसे पीता हुआ मतवाला नहीं होता, इसी प्रकार ज्ञानी भी द्रव्यके उपभोगके प्रति अरत वर्तता हुआ बन्धको प्राप्त नहीं होता । १६६। २ ज्ञानी जो कि सर्व द्रव्योंके प्रति रागको छोड़नेवाला है, वह कर्मोंके मध्यमें रहा हुआ हो तो भी कर्म रूपी रजसे लिप्त नहीं होता—जैसे सोना कीचडके बीच पडा हुआ हो तो भी लिप्त नहीं होता । २१८।

भा पा /५/१५४ जह सल्लिण ण लिप्पइ कमलिणित्तं सहावपयडीए । तह भावेण ण लिप्पइ कसायविसएहि मप्पुरिसो । १५४। = जिस प्रकार जलमें रहता हुआ भी कमलिनीपत्र अपने स्वभावसे ही जलसे लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि पुरुष क्रोधादि वधाय और इन्द्रियोंके विषयोंमें सलग्न भी अपने भावोंसे उनके बाध लिप्त नहीं होता ।

यो सा /अ/४/१६ ज्ञानी विषयसणेऽपि विषयैर्नैव लिप्यते । कनक मलमयेऽपि न मलैरुपलिप्यते । १६। = जिस प्रकार स्वर्ण कीचडके बीच रहता हुआ भी कीचडसे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार ज्ञानी विषय भोग करता हुआ भी विषयोंमें लिप्त नहीं होता । १६।

भा पा /टी/१५२/२६६ पर उद्वृत्त—धानी मालाऽमतोनाथपथिनीदल-वारिवत् । दग्धरज्जुवदाभास भुज्जत् राज्य न पापभाक् । ६। = जिस प्रकार पतिव्रता नहीं है ऐसी युवती धाय अपने पतिके साथ दिखावटी सम्बन्ध रखती है, जिस प्रकार कमलका पत्ता पानीके साथ दिखावटी सम्बन्ध रखता है, और जिस प्रकार जली हुई रज्जू मात्र देखनेमें ही रज्जू है, उसी प्रकार ज्ञानी राज्यको भोगता हुआ भी पापका भागी नहीं होता ।

द पा /टी/७/७/८ सम्यग्दृष्टेर्लग्नमपि पाप बन्ध न याति वीरघटस्थित रज इव न बन्ध याति । = जिस प्रकार कारे घडेपर पडी हुई रज उसके साथ बन्धको प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार पापके साथ लग्न भी सम्यग्दृष्टि बन्धको प्राप्त नहीं होता ।

४. उसके सर्व कार्य निर्जराके निमित्त है

स सा /५/१६३ उवभोगमिदियेहि दव्वाणमचेदणागमिदराण । ज कुणदि सम्मदिट्ठी त सवण णिज्जरणिमित्त । १६३। = सम्यग्दृष्टि

जीव जो इन्द्रियोंके द्वारा अचेतन तथा चेतन द्रव्योंका उपभोग करता है वह सर्व उसके लिए निर्जराका निमित्त है।

ज्ञा/३२/३० अलौकिकमहो वृत्त ज्ञानिन वेन वर्ण्यते। अज्ञानी वध्यते यत्र ज्ञानी तत्रैव मुच्यते। ३२। =अहो, देखो ज्ञानी पुरुषोंके इस अलौकिक चारित्रका कौन वर्णन कर सकता है। जहाँ अज्ञानी बन्धको प्राप्त होता है, उसी आचरणसे ज्ञानी कर्मोंसे छूट जाता है। ३८। (यो, सा/अ/६/१८)

पं ध/उ/२३० आस्तां न बन्धहेतुः स्याज्ज्ञानिनां कर्मजा क्रिया। चित्र यत्पूर्वबद्धानां निर्जरायै च कर्मणाम्। २३०। =ज्ञानियोंकी कर्मसे उत्पन्न होनेवाली क्रिया बन्धका कारण नहीं होती है, यह बात तो दूर रहो, परन्तु आश्चर्य तो यह है कि उनकी जो भी क्रिया है वह सब पूर्वबद्ध कर्मोंकी निर्जराके लिए ही कारण होती है। २३०।

५. अनुपयुक्त दशामें भी उसे निर्जरा होती है

प ध/उ/२७० आत्मन्येवोपयोग्यस्तु ज्ञान वा स्यात् परात्मनि। ससृष्ट सम्यक्त्वभावेषु सन्ति ते निर्जरायः। =ज्ञान चाहे आत्मामें उपयुक्त हो अथवा कदाचित् परपदार्थोंमें उपयुक्त हो परन्तु सम्यक्त्व भावके होनेपर वे निर्जरादिक अवश्य होते हैं। २७०।

६. उसकी कर्म चेतना भी ज्ञान चेतना है

प ध/उ/२७५ अस्ति तस्यापि सद्दृष्टे कस्यचिर्कर्मचेतना। अपि कर्मफले सा स्यादर्थतो ज्ञानचेतना। २७५। =यद्यपि जघन्य भूमिकामें किसी-किसी सम्यग्दृष्टिके कर्मचेतना और कर्मफलचेतना भी होती है, पर वास्तवमें वह ज्ञानचेतना ही है।

७. उसके कुध्यान भी कुगतिके कारण नहीं

द्र, स/टी/४८/२०१/३ चतुर्विधमार्तध्यानम्। यद्यपि मिथ्यादृष्टीनां तिर्यगगतिकारण भवति तथापि बद्धधायुष्क विहाय सम्यग्दृष्टीनां न भवति। रौद्रध्यानं तच्च मिथ्यादृष्टीनां नरकगतिकारणमपि बद्धधायुष्क विहाय सम्यग्दृष्टीनां तत्कारण न भवति। =चार प्रकारका आर्तध्यान यद्यपि मिथ्यादृष्टि जीवोंको तिर्यगगतिका कारण होता है तथापि बद्धधायुष्कको छोड़कर अन्य सम्यग्दृष्टियोंको वह तिर्यगगतिका कारण नहीं होता है। (इसी प्रकार) रौद्रध्यान भी मिथ्यादृष्टियोंको नरकगतिका कारण होता है, परन्तु बद्धधायुष्कको छोड़कर अन्य सम्यग्दृष्टियोंको वह नरकका कारण नहीं होता है।

८. वह वर्तमानमें ही मुक्त है

स, सा/आ/३१८/क १६८ ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म, जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम्। जानन्पर करणवेदनयोरभावाच्छुद्धस्वभावनियतं स हि मुक्त एव। १६८। =ज्ञानी कर्मको न तो करता है और न भोगता है, वह कर्मके स्वभावको मात्र जानता ही है। इसप्रकार मात्र जानता हुआ करने और भोगनेके अभावके कारण, शुद्ध स्वभावमें निश्चल ऐसा वह वास्तवमें मुक्त है।

ज्ञा/६/६७ मन्थे मुक्तं स पुण्यात्मा विशुद्ध यस्य दर्शनम्। यतस्तदेव मुक्त्यङ्गमग्रिमं परिकीर्तितम्। ६७। =जिसको विशुद्ध सम्यग्दर्शन प्राप्त हुआ है वह पुण्यात्मा मुक्त है ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि, सम्यग्दर्शन ही मोक्षका मुख्य अंग कहा गया है।

नि सा/ता वृ/६१/क, ८१ इत्थं बुद्ध्या परमसमितिं मुक्तिकान्तासखीं यो, मुक्त्वा सङ्गं भुभयकर हेमरामात्मकं च। स्थित्वाऽपूर्वं सहजविससच्चिन्मत्कारमाने, भेदाभावे समयति च य स्रवदा मुक्त एव। ८१। =इस प्रकार मुक्तिकान्ताकी सखी परम समितिको जानकर जो जीव भवभयके करनेवाले कचनकामिनीके सगको छोड़कर, अपूर्व सहज विससते अभेद चैतन्य चमरराम मात्र स्थित रहकर सम्यक् 'इति' करते हैं अर्थात् सम्यक् रूपसे परिणमित होते हैं वे सर्वदा मुक्त ही हैं।

प ध/उ/२३२ वैराग्यं परमोपेक्षाज्ञानं स्वानुभवं रवयम्। तद्दृश्यं ज्ञानिनो लक्ष्म जीवन्मुक्तं स एव च। २३२। =परमोपेक्षास्व वैराग्य और आत्मप्रत्यक्ष रूप स्वस्वदेद ज्ञान ही ज्ञानीके लक्षण है। जिसके ये दोनों होते हैं, वह ज्ञानी जीवन्मुक्त है।

३. उपरोक्त महिमा सम्बन्धी समन्वय

—१. भावोंमें ज्ञानमयीपने सम्बन्धी

स सा/प जयचन्द/१२८ ज्ञानीके सर्वभाव ज्ञान जातिका उल्लंघन न करनेसे ज्ञानमयी है।

२. सदा निरास्रव व अवन्ध होने सम्बन्धी

स सा/वृ/१७७-१७८ रागो दोसो मोहो य आसवा णत्थि सम्मदिट्ठस्स। तम्हा आसवभावेण विणा हेवू ण पच्चया होति। १७७। हेवू चतुर्विध्यपपो अट्ठविद्यपस्स कारण भण्णिद। तेसिं पिय रागादी तेसिमभावे ण वज्झति। १७८। =राग, द्वेष और मोह ये आस्रव सम्यग्दृष्टिके नहीं होते, इसलिए आस्रवभावके बिना द्रव्यप्रत्यय कर्म-बन्धके कारण नहीं होते। १७७। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद और कपाय ये चार प्रकारके हेतु, आठ प्रकारके कर्मोंके कारण कहे गये हैं, और उनके भी कारण रागादि भाव हैं। इसलिए उनके जभावमें ज्ञानीको कर्म नहीं बँधते। १७८।

इ उ/४४ अगच्छस्तद्विशेषाणाभनभिज्ञश्च जायते। अज्ञाततद्विशेषस्तु बद्धयते न विमुच्यते। ४४। =स्वारमतत्त्वमें निश्च योगीकी जय पर पदार्थोंसे निवृत्ति होती है, तब उनके अच्छे घुरे आदि विकल्पोंका उसे अनुभव नहीं होता। तब वह योगी कर्मोंसे भी नहीं बँधता, किन्तु कर्मोंसे छूटा ही है।

स सा/आ/१७०-१७१ ज्ञानी हि तावदास्रव-भावभावनाभिप्रायाभावाच्चिरास्रव एव। यत्तु तस्यापि द्रव्यप्रत्यया प्रतिसमयमनेकप्रकारं पृष्ठगल-कर्म बध्नन्ति तत्र ज्ञानगुणपरिणाम एव हेतुः। १७०। तस्यान्तर्मुहूर्त-विपरिणामित्वात् पुन पुनरन्यतमोऽस्ति परिणाम। स तु यथाख्यात-चारित्र्यावस्थाया अधस्तादवश्यं भाविरागसद्भावात् बन्धहेतुरेव स्यात्। १७१। =ज्ञानी तो आस्रवभावकी भावनाके अभिप्रायके अभावके कारण निरास्रव ही है परन्तु जो उसे भी द्रव्यप्रत्यय प्रति समय अनेक प्रकारका पृष्ठगलकर्म बँधते हैं, वहाँ क्षायोपशमिक ज्ञानका परिणाम ही कारण है। १७०। क्योंकि वह अन्तर्मुहूर्त-परिणामी है। इसलिए यथाख्यात चारित्र्यअवस्थासे पहले उसे अवश्य ही रागभावका सद्भाव होनेसे, वह ज्ञान बन्धका कारण ही है।

स सा/आ/१७२/क/११६ सम्यसन्नजबुद्धिपूर्वमनिश राग समग्र स्वय, नार बारमबुद्धिपूर्वमपि ते जेतु स्वशक्ति स्पृशन्। उच्छिन्दन्परवृत्तिमेव सकलो ज्ञानस्य पूर्णोभवन्नात्मा नित्यनिरास्रवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा। ११६। =आत्मा जब ज्ञानी होता है, तब स्वय अपने समस्त बुद्धिपूर्वक रागको निरन्तर छोड़ता हुआ अर्थात् न करता हुआ, और जो अबुद्धिपूर्वक राग है उसे भी जीतनेके लिए बारम्बार (ज्ञानानुभव रूप) स्वशक्तिको स्पर्श करता हुआ, और (इस प्रकार) समस्त प्रवृत्तिको—परपरिणतिको उखाड़ता हुआ, ज्ञानके पूर्ण भावरूप होता हुआ, वास्तवमें सदा निरास्रव है।

स सा/आ/१७३-१७६ ज्ञानिनो यदि द्रव्यप्रत्यया पूर्वबद्धा सन्ति, सन्तु, तथापि स तु निरास्रव एव, कर्मोदयकार्यस्य रागद्वेषमोहरूप-स्यास्रवभावस्याभावे द्रव्यप्रत्ययानामबन्धहेतुत्वात्। =ज्ञानीके यदि पूर्वबद्ध द्रव्यप्रत्यय विद्यमान हैं, तो भले रहें, तथापि वह तो निरास्रव ही है, क्योंकि, कर्मोदयका कार्य जो रागद्वेषमोहरूप आस्रवभाव है उसके अभावमें द्रव्य प्रत्यय बन्धका कारण नहीं है।

स सा/ता वृ/१७२/२३६/६ यथाग्यातचारित्र्यावस्तादन्तर्मुहूर्तानन्तर निविकल्पसमाधौ स्थातु न शक्यत इति भणितं पूर्वं। एव सति कथ

ज्ञानी निरासन्न इति चेत्, ज्ञानी तावदीहापूर्वरागादिविकल्पकरणा-
भावात्निरासन्न एव । किं तु सोऽपि यावत्काल परमसमाधेरनुष्ठाना-
भावे सति शुद्धात्मस्वरूप द्रष्टुं ज्ञातुमनुचरितुं वासमर्थं तावत्काल
तस्यापि सन्नधि यद्दर्शनं ज्ञान चारित्र्य तज्जघन्यभावेन सकपायभावेन
अनोहितवृत्त्या परिणमति, तेन कारणेन स तु भेदज्ञानी विविध-
पुण्यकर्मणा बधयते । = प्रश्न—यथाख्यात चारित्र्ये पहले अन्तर्मुहूर्तके
अन्तर निविकल्प समाधिमें स्थित रहना शक्य नहीं है, ऐसा पहले
कहा गया है । ऐसा होनेपर ज्ञानी निरासन्न कैसे हो सकता है ?
उत्तर—१. ज्ञानी क्योंकि ईहा पूर्वक अर्थात् अभिप्रायपूर्वक रागादि
विकल्प नहीं करता है, इसलिए वह निरासन्न ही है । (अन ध / ८/
४/७३३) २ किन्तु जबतक परमसमाधिके अनुष्ठानके अभावमें वह
भी शुद्धात्मस्वरूपको देखने-जानने व आचरण करनेमें असमर्थ रहता
है, तब तक उसके भी तत्सम्बन्धी जो दर्शन ज्ञान चारित्र्य है वे
जघन्यभावसे अर्थात् कपायभावसे अनोहितवृत्तिसे स्वयं परिणमते हैं ।
उसके कारण वह भेदज्ञानी भी विविध प्रकारके पुण्यकर्मसे बंधता है ।
३. उपयोग/३ [जितने अशमें उसे राग है उतने अशमें आसन्न व बन्ध
है और जितने अशमें रागका अभाव है, उतने अशमें निरासन्न व
अबन्ध है ।]

३. सर्व कार्योंमें निर्जरा सम्बन्धी

स सा / धृ / ११४ दबे उवभुजते गियमा जायदि सुहं च दुखल वा । तं
सुहदुखलमुद्दिणं वेदि अह गिज्जर जादि ११४४ = वस्तु भोगनेमें
आनेपर सुख अथवा दुख नियमसे उत्पन्न होता है । उदयको प्राप्त
उस सुखदुखका अनुभव करता है तत्परचाव वह (सुख-दुखरूपभाव)
निर्जराको प्राप्त होता है । (इस प्रकार भाव निर्जराकी अपेक्षा
समाधान है) ११४४।

स सा / आ / ११६-११६ रागादिभावानां सद्भावेन मिथ्यादृष्टेरचेतनान्य-
द्रव्योपभोगो बन्धनिमित्तमेव स्यात् । स एव रागादिभावानामभावेन
सम्यग्दृष्टेर्निर्जरा निमित्तमेव स्यात् । एतेन द्रव्यनिर्जरास्वरूपमा-
वेदयति ११६३। अथ भावनिर्जरास्वरूपमावेदयति । स तु यदा वेद्यते
तदा मिथ्यादृष्टे रागादिभावानां सद्भावेन बन्धनिमित्तं भूयते
निर्जीर्यमाणोपजीर्णं सत् बन्ध एव स्यात् । सम्यग्दृष्टेस्तु रागादि-
भावानामभावेन बन्धनिमित्तमभूत्वा केवलमेव निर्जीर्यमाणो निर्जीर्णं
सन्निर्यदेव स्यात् ११६४ = गगादि भावोंके सद्भावेसे मिथ्यादृष्टि
जो अचेतन तथा चेतन द्रव्योंका उपभोग बन्धका निमित्त होता है,
वही रागादिभावोंके अभावके कारण सम्यग्दृष्टिके लिए निर्जराका
निमित्त होता है । इस प्रकार द्रव्य निर्जराका स्वरूप कहा ११६३। अथ
भाव निर्जराका स्वरूप कहते हैं—जब उस (कर्मोदयजन्य सुखरूप
अथवा दुखरूप) भावका वेदन होता है तब मिथ्यादृष्टिको, रागा-
दिभावोंके सद्भावेसे (नवीन) बन्धका निमित्त होकर निर्जराको प्राप्त
होता हुआ भी, निर्जरित न होता हुआ बन्ध ही होता है, किन्तु
सम्यग्दृष्टिके रागादिभावोंके अभावसे बन्धका निमित्त हुए बिना
केवल मात्र निर्जरित होनेसे, निर्जरित होता हुआ, निर्जरा ही
होती है ११६४।

स सा / ता वृ / ११३/२६/१४ अत्राह शिष्य — रागद्वेषमोहाभावे सति
निर्जराकारण भणित सम्यग्दृष्टेस्तु रागादय सन्ति, तत कथं
निर्जराकारणं भवतीति । अस्मिन्पूर्वपक्षे परिहार — अत्र ग्रन्थे
वस्तुवृत्त्या वीतरागसम्यग्दृष्टेर्ग्रहणं, यस्तु चतुर्गुणस्थानवर्तिसाराग-
सम्यग्दृष्टयस्तस्य गौणवृत्त्या ग्रहण, तत्र तु परिहार पूर्वमेव भणित ।
कथमिति चेत् । मिथ्यादृष्टे सकाशादस्य तत्सम्यग्दृष्टे' अनन्तानु-
बन्धिको धमानमायालोभमिथ्यात्वादयजनिता, श्रावकस्य च प्रत्या-
ख्यानक्रोधमानमायालोभोदयजनिता रागादयो न सन्तीत्यादि ।
किंच सम्यग्दृष्टे संवरपूर्विका निर्जरा भवति, मिथ्यादृष्टेस्तु गज-
स्नानवत् बन्धपूर्विका भवति । तेन कारणेन मिथ्यादृष्ट्यपेक्षया

सम्यग्दृष्टिरयन्धक इति । एवं द्रव्यनिर्जराव्याख्यानरूपेण गाथा
गता । = प्रश्न—राग-द्वेष व मोहका अभाव होनेपर भोग जादि
निर्जराके कारण कहे गये हैं, परन्तु सम्यग्दृष्टिके तो रागादि होते हैं,
इसलिए उसे वे निर्जराके कारण कैसे हो सकते हैं ? उत्तर—१. इस
ग्रन्थमें वस्तु वृत्तिसे वीतराग सम्यग्दृष्टिका ग्रहण किया गया है, जो
चौथे गुणस्थानवर्ती सरागसम्यग्दृष्टि है उसका गौण वृत्तिसे ग्रहण
किया गया है । २ सराग सम्यग्दृष्टि सम्बन्धी समाधान पहले ही दे
दिया गया है । वह ऐसे कि मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा अस्यत सम्यग्दृष्टि-
को अनन्तानुबन्धी चतुष्प और मिथ्यात्वादयजन्य गगादिक तथा
श्रावकको अप्रत्याख्यान चतुष्प जनित रागादि नहीं होते हैं । ३
सम्यग्दृष्टिकी निर्जरा मवरपूर्वक होती है और मिथ्यादृष्टिकी गज-
स्नानवत् बन्धपूर्वक होती है । इस कारण मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा
सम्यग्दृष्टि अयन्धक है । इस प्रकार द्रव्यनिर्जराके व्याख्यानरूप
गाथा कही । ४ [सम्यग्दृष्टि चारित्र्यमोहोदयके वशीभूत होकर
अरुचि पूर्वक सुख-दुख आदिक अनुभव करता है और मिथ्यादृष्टि
उपादेय बुद्धिसे करता है । इसलिए सम्यग्दृष्टिकी भोगोंका भोगना
निर्जराका निमित्त है । इस प्रकार भाव निर्जराकी अपेक्षा व्याख्यान
जानना । (दे. राग / ६/६)]

४. ज्ञान चेतना-सम्बन्धी

प. ध. / उ २७६ चेतनाया फल बन्धस्तत्फले वाऽथ कर्मणि । रागा-
भावान्न बन्धाऽस्य तस्मात्सा ज्ञानचेतना । २७६। = कर्म व कर्मफलरूप
चेतनाका फल कर्म बन्ध है, पर सम्यग्दृष्टिको रागका अभाव होनेसे
बन्ध नहीं होता है, इसलिए उसकी वह कर्म व कर्मफल चेतना
ज्ञानचेतना है २७६।

५. अशुभ ध्यानो सम्बन्धी

प्र स / टी. / ४८/२०१/१ कस्मादिति चेत्—स्वशुद्धात्मैवोपादेय इति
विशिष्टाभावनाबलेन तत्कारणभूतसव्लेशाभावादिति । ४। = प्रश्न—
आतं ध्यान सम्यग्दृष्टिको मिथ्यादृष्टिकी भौति तिर्यक गतिका कारण
क्यों नहीं होता ? उत्तर—सम्यग्दृष्टि जीवोंके 'निज शुद्ध आत्मा ही
उपादेय है' ऐसी भावनाके कारण तिर्यचगतिका कारण रूप
सन्नेश नहीं होता । [यही उत्तर रौद्रध्यानके लिए भी दिया
गया है]

४. सम्यग्दृष्टिकी विशेषताएँ

१. सम्यग्दृष्टि ही सम्यक्त्व व मिथ्यात्वके भेदको
यथार्थतः जानता है

स. सा / पं. जयचन्द्र / २००/क १३७ सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्व सहित राग
नहीं होता और जिसके मिथ्यात्व सहित राग हो वह सम्यग्दृष्टि नहीं
होता । ऐसे अन्तरको सम्यग्दृष्टि ही जानता है । पहले तो मिथ्यादृष्टि-
का आत्म शास्त्रमें प्रवेश ही नहीं है, और यदि वह प्रवेश करता है तो
विपरीत समझता है—शुभभावको सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट होता है
अथवा अशुभभावोंमें प्रवर्तता है, अथवा निश्चयको भली भौति जाने
बिना व्यवहारसे ही (शुभभावसे ही) मोक्ष मानता है, परमार्थ
तत्त्वमें मूढ रहता है । यदि कोई बिरला जीव स्याद्वाद न्यायसे
सपर्यायको समझते तो उसे अवश्य ही सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है,
वह अवश्य सम्यग्दृष्टि हो जाता है ।

२. सम्यग्दृष्टिको पक्षपात नहीं होता

स्या म / धृ २६०, ३०/३३४ अन्योऽन्यपक्षप्रतिपक्षभावात् यथा परे
मस्सरिण प्रवादा । नयानशेषानविशेषमिच्छत् न पक्षपाती
समयस्तथा ते । ३०। = आत्मवादी लोग परस्पर पक्ष और प्रतिपक्ष

भाव रखनेके कारण एक दूसरेसे ईर्ष्या करते है, परन्तु सम्पूर्ण नयोंको एक समान देखने वाले (दे. अनेकान्त/२) आपके शास्त्रोंमें पक्षपात नहीं है।

३. जहाँ जगत् जागता है वहाँ ज्ञानी सोता है

स. सा. मू. ३१ जो सुतो ववहारे सो जोइ जगए सकज्जम्मि । जो जगदि ववहारे सो सुतो अप्पणो कज्जे । ३१। = जो योगी व्यवहारमें सोता है वह अपने स्वरूपके कार्यमें जागता है। और व्यवहारमें जागता है, वह अपने कार्यमें सोता है । ३१। (स. श. ७८)

प. प्र. मू. २/४६ जा णिसि सयलहँ देहियँ जोगिउ तहिँ जगेइ । जहिँ पुणु जगइ समइ जगु सा णिसि मणिवि सुवेइ । ४६। = जा सब ससारी जीवोंको रात है उसमें परम तपस्वी जागता है, और जिसमें सब समारी जीव जाग रहे है, उस दशको योगी रात मानकर योग निद्रामें सोता है। (ज्ञा. १८/३७)

५. अविरत सम्यग्दृष्टि निर्देश

१. अविरत सम्यग्दृष्टिका सामान्य लक्षण

प. सं. प्रा. ११ णो इदिसेसु विरदो णो जीवे थावरे तसे चावि । जो सहइह जिणुत्त सम्माइट्ठी अविरदो सो । ११। = जो पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंसे विरत नहीं है और न त्रस तथा स्थावर जीवोंके घातसे ही विरक्त है, किन्तु केवल जिनोक्त तत्त्वका श्रद्धान करता है, वह चतुर्थ-गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यग्दृष्टि है । ११। (घ. १/१.१.१२/गा १११/१७३), (गो जी. मू. २/२६/५८), (ओर भी दे. असयम)

रा. वा. १/१/१५/५६/२६ औपशमिकेन क्षायोपशमिकेन क्षायिकेण वा सम्यक्त्वेन समन्वित चारित्रमोहोदयात् अत्यन्तमविरतिपरिणाम-प्रवणोऽसयत्सम्यग्दृष्टिरिति व्यपदिश्यते । = औपशमिक, क्षायो-पशमिक और क्षायिक इन तीनोंमेंसे किसी भी सम्यक्त्वसे समन्वित तथा चारित्रमोहके उदयसे जिसके परिणाम अत्यन्त अविरतिरूप रहते है, उसको 'असयत् सम्यग्दृष्टि' ऐसा कहा जाता है।

घ. १/१.१.१२/१७१/१ समीचीनदृष्टि श्रद्धा यस्यासौ सम्यग्दृष्टि, असयत्तश्चासौ सम्यग्दृष्टिश्च, असयत्सम्यग्दृष्टि । सो वि सम्मा-इट्ठी तिविहो, खड्ग्यसम्माइट्ठी वेदयसम्माइट्ठी उवसमसम्मा-इट्ठी चेदि । = जिसकी दृष्टि अर्थात् श्रद्धा समीचीन होती है, उसे सम्यग्दृष्टि कहते है, और सयम रहित [अर्थात् इन्द्रिय भोग व जीव हिंसासे विरक्त न होना (दे. असयम)] सम्यग्दृष्टिको असयत् सम्यग्दृष्टि कहते है। वे सम्यग्दृष्टि जीव तीन प्रकारके है— १। यिक सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और औपशमिक सम्यग्दृष्टि।

२. अव्रत सम्यग्दृष्टि सर्वथा अव्रती नहीं

दे. श्रावक/३/४ [यद्यपि व्रतरूपसे कुछ भी अगीकार नहीं करता, पर कुलाचाररूपसे अष्टमूलगुण धारण, स्थूल अणुवत पालन, स्थूल रूपेण रात्रि भोजन व सप्तव्यसन त्याग अवश्य करता है। क्योंकि ये सब क्रियाएँ व्रत न कहलाकर केवल कुलक्रिया कहलाती है, इसलिए वह अव्रती या असयत् कहलाता है। ये क्रियाएँ व्रती व अव्रती दोनोंको होती है। व्रतीको नियम व्रत रूपसे और अव्रतीको कुलाचार रूपसे।]

दे. सम्यग्दर्शन/१/१/६ [निश्चय सम्यक्त्वं युक्त होनेपर भी चारित्र मोहोदयवशा उसे आरमभ्यानमें स्थिरता नहीं है तथा व्रत व प्रतिज्ञाएँ भग भी हो जाती हैं, इसलिए असयत् कहा जाता है।]

मो. मा. प्र. १/६/४६६/२२ क्पायनिके असख्यात लोकप्रमाण स्थान हैं। तिनविधै सवत्र पूर्वस्थानतै उत्तरस्थानविधै मन्दा पाइए है। • आदिके बहुत स्थान ती असयमरूप कहे, पीछे केतेक देश सयमरूप कहे। तिनविधै प्रथमगुणस्थानतै लगाय चतुर्थ गुणस्थान पर्यन्त जे क्पायके स्थान हो है, ते सर्व असयम ही के हो है। परमार्थतै

कपायका घटना चारित्रका अश हे सर्वत्र असयमकी समानता न जानना।

३. अपने दोषोंके प्रति निन्दन गर्हण करना उसका स्वामाविक व्रत है

का. अ. मू. ४ विरलो अज्जदि पुण्ण सम्मादिट्ठी वएहि सजुत्तो । उवसमभावे सहिदो णिंदण-गरहाहिसजुत्तो । = सम्यग्दृष्टि, व्रती, उपशम भावसे युक्त, तथा अपनी निन्दा और गर्ह करनेवाले विरले जन ही पुण्य कर्मका उपार्जन करते है।

द. स. टी. १/३/३३/६ निजपरमात्मद्रव्यमुपादेयम्, इन्द्रियसुखादिपरद्रव्य हि हेयमित्यर्थस्सर्वज्ञप्रणीतनिश्चयव्यवहारनयसाध्यसाधकभावेन मन्यते पर किन्तु भूमिरेखादिसदृशक्रोधादिद्वितीयकपायोद्येन मारणनिमित्त तलवरगृहीततत्स्वरदात्मनिन्दासहित सच्चिन्द्रिय-सुखमनुभवतीत्यविरतसम्यग्दृष्टेर्लक्षणम् । = निज परमारम द्रव्य उपादेय है तथा इन्द्रिय सुख आदि परद्रव्य त्याज्य हैं, इसप्रकार सर्वज्ञ प्रणीत निश्चय, व्यवहारको साध्य साधक भावसे मानता है, परन्तु भूमिकी रेखाके समान क्रोध आदि अप्रत्याख्यानकपायके उदयसे, मारनेके लिए कोतवालसे पकड़े हुए चोरको भौंति आत्म-निन्दादि सहित होकर इन्द्रिय सुखका अनुभव करता है, वह अविरत सम्यग्दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती है। (सा. घ. १/१३)

प. घ. उ/४२७ दृढमोहस्योदयाभावात् प्रसिद्ध प्रशमो गुण । तत्राभिव्यञ्जक बाह्याङ्गिन्दन चापि गर्हणम् । ४२७। = दर्शनमोहनीयके उदयके अभावसे प्रशम गुण उत्पन्न होता है और प्रशमके बाह्यरूप अभिव्यञ्जक निन्दा तथा गर्हा ये दोनों होते है । ४२७।

का. अ. प. जयचन्द/३६१ इसके असि, मसि, कृपि, वाणिज्य आदि कार्योंमें हिंसा होती है। तो भी मारनेका अभिमत नहीं है, कार्यका अभिप्राय है। वहाँ घात होता है, उसके लिए अपनी निन्दा गर्हा करता है। इसके त्रस हिंसा न करनेके पक्ष मात्रसे पाक्षिक कहलाता है। यह अप्रत्याख्यानवरण कपायके मन्द परिणाम है, इसलिए अव्रती ही है।

४. अविरत सम्यग्दृष्टिके अन्य आद्य चिह्न

का. अ. मू. ३/३३-३२४ जो ण या कुब्बदि गव्व पुत्तकलताइसव्वअत्थेसु । उवसमभावे भावदि अप्पणं मुणदि तिणमेत्त । ३३३। उत्तमगुण-गहणरओ उत्तमसाहूण विणयसजुत्तो । साहम्मिय अणुराई सो सहिदुट्ठी हवे परमो । ३३४। एव जो निश्चयदो जाणदि दव्वाणि सव्व-पज्जाए । सो सहिदुट्ठी सुट्ठो जो सकदि सो हू कुदिट्ठी । ३३३। जो ण विजाणदि तच्च सो जिणवयणे करेदि सहहण । ज जिणवरेहि भणिय त सव्वमट्ठ समिच्चामि । ३३४। = वह सम्यग्दृष्टि पुत्र, स्त्री आदि समस्त पदार्थोंमें गर्व नहीं करता, उपशमभावको भाता है और अपनेको तृणसमान मानता है । ३३३। जो उत्तम गुणोंको ग्रहण करनेमें तत्पर रहता है, उत्तम साधुओंकी विनय करता है, तथा साधुओं जनोंसे अनुराग करता है, वह उत्कृष्ट सम्यग्दृष्टि है । ३३४। इस प्रकार जो निश्चयसे सब द्रव्योंको और सब पर्यायोंको जानता है, वह सम्यग्दृष्टि है और जो उनके अस्तित्वमें शका करता है, वह मिथ्या-दृष्टि है । ३३३। जो तत्त्वोंको नहीं जानता किन्तु जिनवचनमें श्रद्धान करता है [दे. सम्यग्दर्शन/१/१/२.३] कि जिनवर भगवान्ने जो वृद्ध कहा है, वह सब मुझे पसन्द है । वह भी श्रद्धावान् है । ३३४।

दे. सम्यग्दर्शन/१/१ (देव, गुरु, धर्म, तत्त्व व पदार्थों आदिकी श्रद्धा करता है, आत्मस्वभावकी रुचि रखता है।)

दे. सम्यग्दर्शन/१/२ (निश्चिततादि आठ व प्रशम सवेग अनुत्पन्ना आस्तिक्य आदि गुणोंको धारण करता है।)

दे. सम्यग्दृष्टि/२. [सम्यग्दृष्टिको राग द्वेष व मोहका अभाव है।]

सम्यग्नेकात

द्र स /टी/४५/१६४/१० शुद्धात्मभावनेत्पन्ननिर्विकारवास्तवमुखामृत-
सुपादेय कृत्वा ससारशरीरभागेपु योऽसौ हेयबुद्धि सम्यग्दर्शनशुद्ध
स चतुष्टयगुणस्थानवर्ती व्रतरहितो दर्शनिको भण्यते। = शुद्धात्म
भावनासे उत्पन्न निर्विकार यथार्थ सुखरूपी अमृतको उपादेय करके
ससार शरीर और भोगोंमें जो हेय बुद्धि है वह सम्यग्दर्शनसे शुद्ध
चतुष्टयगुणस्थानवाला व्रतरहित दर्शनिक है। (दे, सम्यग्दृष्टि/५/३),
(और भी दे राग/६)।

प घ /उ/२६१,२७१ उपेक्षा सर्वभोगेषु सद्दृष्टेष्टेष्टरोगवत् । अवश्य
तदप्रस्थायान्स्थानाभावो निसर्गज १२६१। इत्येव ज्ञाततत्त्वोऽसौ
सम्यग्दृष्टिर्निजात्मदृक् । वेपथिके मुखे ज्ञाने राग द्वेषौ परित्यजेत् १३७१।
= सम्यग्दृष्टिको सर्वप्रकारके भोगोंमें प्रत्यक्ष रोगकी तरह अरुचि
होती है, क्योंकि, उस सम्यक्स्वरूप अवस्थाका, विषयोंमें अवश्य
अरुचिका होना स्वतः सिद्ध स्वभाव है १२६१। इसप्रकार तत्त्वोंको
जाननेवाला स्वार्थदर्शी यह सम्यग्दृष्टि जीव इन्द्रियजन्य सुख और
ज्ञानमें राग तथा द्वेषका परित्याग करे १३७१।—दे, राग/६।

सम्यग्नेकात—दे अनेकान्त/१।

सम्यग्नेकांत—दे, एकान्त/१

सयोग केवली—दे केवली/१।

सर शोष कर्म—दे सावय/५।

सरल समीकरण—Simple equation.

सरस्वती पूजा—दे पूजा।

सरस्वती यन्त्र—दे यन्त्र।

सरह—महायान सम्प्रदायके एक गूढवादी बौद्ध विद्वाद् । समय—
१००० (प प्र /प्र/१०३/A, N Up)

सरहपा—बौद्धोंके ८४ सिद्धोंमेंसे एक थे। इन्होंने हिन्दी दीहाबद्ध
ग्रन्थोंकी रचना की है। समय—७६६-८०६ (हिन्दी जैन साहित्यका
इतिहास। पृ २५। कामता प्रसाद)।

सराग संयम—दे चारित्र/१/१४।

सराग सम्यग्दर्शन—दे सम्यग्दर्शन/II/४।

सरित—अपर विदेहका एक क्षेत्र तथा मुखावह वक्षारका एक
कूट।—दे लोक/७।

सर्पिःस्त्रावो—दे ऋद्धि/८।

सर्व—रा वा /२/७/२५३/१६ सरति गच्छति अशेषानवयवानिति
सर्व इत्युच्यते। = अशेष अवयवोंको प्राप्त हो उसे सर्व कहते हैं।

घ, ६/४ १.४/४७ सर्वं विश्वं कृत्स्नम् । ६। सरति गच्छति आकुञ्चन-
विसर्पणादीनीति पुद्गलद्रव्यं सर्वं । = विश्व, कृत्स्न ये 'सर्व' शब्दके
समानार्थक हैं। अत्रा जा आकुञ्चन और विसर्पण आदिको प्राप्त हो
वह पुद्गलद्रव्य सर्व है।

घ १/५.५.५/३२३/८ सर्वं केवलगाणं । = सर्वका अर्थ केवलज्ञान है।

सर्वगंध—उत्तर अरुणाभास द्वीप और अरुणसागरका रक्षक व्यन्तर
देव—दे व्यन्तर/४।

सर्वगत—केवलज्ञानसे सर्व लोकानोंको जाननेके कारण जीव
सर्वगत या सर्वव्यापी है।

सर्वगतत्व—रा वा /२/७/२३/११२/२४ असर्वगतत्वमपि साधारण
परमाण्वादीनामविभुत्वात्, धर्मादीनां च परिमितासख्यात्प्रदेश-
त्वात् । कर्मोदयाद्यपेक्षाभावात्तदपि पारिणामिकम् । यदस्य कर्मोपात्त-
शरीरप्रमाणानुविधायित्वं तदसाधारणमपि सन्न पारिणामिकम्,
कर्मनिमित्तत्वात् । = 'असर्वगतत्व' यह साधारण धर्म है, क्योंकि,
परमाणु आदि द्रव्य अव्यापी हैं और धर्म आदि द्रव्य परिमित
असख्यात् प्रदेशी है। कर्मोदय आदिको अपेक्षाका अभाव होनेसे यह
धर्म पारिणामिक भी कहा जा सकता है। जीवके कर्मोंके निमित्तसे
जो शरीरप्रमाणपना पाया जाता है वह असाधारण धर्म होते हुए भी
पारिणामिक नहीं है, क्योंकि, वह कर्मोंके निमित्तसे होता है।

सर्वगत नय—दे नय/1/५/४।

सर्वगुप्त—भगवती आराधनाके रचयिता आ शिवकोटिके गुरु थे।
तदनुसार इनका समय—ई, श, १ का पूर्वपाद। (भ आ /प्र, २-३/
प्रेमी जी)।

सर्वज्ञ—दे केवलज्ञान।

सर्वज्ञत्व शक्ति—स, सा /आ /परि/शक्ति न, १० विश्वविश्व-
विशेषभावपरिणामात्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्वशक्ति । = समस्त विश्वके
विशेष भावोंको जाननेरूपसे परिणमित ऐसे आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व
शक्ति।

सर्वज्ञात्म मुनि—शकराचार्यके शिष्य सुरेश्वरके शिष्य। समय—
ई, ६००—दे, वेदान्त/१/१२।

सर्वघाती प्रकृति—दे अनुभाग/४।

सर्वघाती स्पर्धक—दे स्पर्धक।

सर्वचन्द्र—नन्दिसचके देशीयगणकी गुर्वावलीके अनुसार आप
वसुनन्दिके शिष्य तथा दामनन्दिके गुरु थे। समय—वि ६७५-१००५
(ई ६१८-६४८), (दे इतिहास/५/१४)।

सर्वतंत्र—दे, सिद्धान्त।

सर्वतोभद्रपूजा—दे, पूजा/१।

सर्वतोभद्र यन्त्र—दे यंत्र।

सर्वतोभद्र व्रत—१. लघु विधि

पंक्ति	१	२	३	४	५	जोड़
१	१	२	३	४	५	= १५
२	४	५	१	२	३	= १५
३	२	३	४	५	१	= १५
४	५	१	२	३	४	= १५
५	३	४	५	१	२	= १५
	१५	१५	१५	१५	१५	= ७५

दिखाये गये प्रस्तारमें १ से ५ तकके अंक ५ पंक्तियोंमें इस प्रकार लिखे गये हैं कि ऊपर नीचे आडे टेढ़े किसी भी प्रकार पक्तिद्रव्यसे जोड़नेपर १५ लब्ध आते हैं। पक्ति नं. १ फिर पक्ति न २ आदिमें जितने-जितने अंक लिखे हैं उतने-उतने उपवास क्रमपूर्वक कुल

७५ करे। बीचके स्थानोंमें सर्वत्र एक-एक पारणा करे। त्रिकाल नमस्कार मन्त्रका जाप्य करे। (ह पु /३४/५१-५५), (व्रत विधान संग्रह/पृ ६०)।

२. बृहत् विधि

प्रस्तारमें १ से ७ तकके अंक सात पंक्तियोंमें इस क्रमसे लिखे गये हैं कि ऊपर नीचे आड़े टेढ़े किसी प्रकार भी जोड़ने पर २८ लब्ध आता है। प्रथम द्वितीय आदि पंक्तिमें लिखे क्रमसे कुल १६६ उपवास करे।

पंक्ति									जोड़
१	१	२	३	४	५	६	७		=२८
२	३	४	५	६	७	१	२		=२८
३	५	६	७	१	२	३	४		=२८
४	७	१	२	३	४	५	६		=२८
५	२	३	४	५	६	७	१		=२८
६	४	५	६	७	१	२	३		=२८
७	६	७	१	२	३	४	५		=२८
	२८	२८	२८	२८	२८	२८	२८		१६६

बीचके सब स्थानोंमें एक-एक पारणा करे। त्रिकाल नमस्कार मन्त्रका जाप्य करे। (ह. पु २४/५७-५८), (व्रत विधान सग्रह/पृ ६१)

सर्वतोभद्रा—नन्दीश्वर द्वीपकी उत्तर दिशामें स्थित एक वापी— (दे लोक/७)

सर्वथा—'सर्वथा' शब्दका सम्यक् व मिथ्या प्रयोग। —दे एकान्त/१/४

सर्वदर्शित्व शक्ति—स सा /आ /परि/शक्ति न ६—विश्वविश्व-सामान्यभावपरिणामात्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्वशक्ति । ६। = समस्त विश्वके सामान्य भावको देखने रूपसे (अर्थात् लोकालोकको सत्तामात्र ग्रहण करनेरूपसे) परिणमित ऐसे आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति है।

सर्वधन—दे, गणित/II/५

सर्वधारा—दे गणित/II/५

सर्वनन्दि—काशी नरेश सिंहवर्माके समकालीन तथा प्राकृत गाथावद्ध लोक विभाग नामक ग्रन्थके रचयिता। इस ग्रन्थका संस्कृत रूपान्तर पीछे श्री सिद्धनन्दि द्वारा ई श ११ में किया गया है। समय — ई. ४५८ (श ३८०), (ति प /प्र. ६ A N, Up)

सर्वप्रभ—भावीकालीन १५वें तीर्थकर। अपर नाम सर्वात्मभूति व सर्वयुध। —दे तीर्थकर/५

सर्वभद्र—यक्ष जातिके व्यतरदेवोंका एक भेद। —दे, यक्ष।

सर्वरक्षित—एक लौकान्तिक देव —दे, लौकान्तिक।

सर्वरत्न—मानुषोत्तर व रुचक पर्वतपर स्थित एक-एक कूट —दे, लोक/७

सर्वविद्याप्रकर्षिणी—दे विद्या।

सर्वविद्याविराजिता—दे विद्या।

सर्वव्यापी—दे सर्वगत।

सर्वज्ञान्य—दे ज्ञान्य।

सर्वसंक्रमण—दे, संक्रमण/६।

सर्वसुन्दर—सप्त ऋषियोंमेंसे एक —दे सप्त ऋषि।

सर्वस्थिति—दे स्थिति/१/३।

सर्वस्पर्श—दे स्पर्श/१/५।

सर्वातिचार—दे अतिचार/३।

सर्वानशन—दे अनशन।

सर्वानुकम्पा—दे अनुकम्पा।

सर्वार्थपुर—विजयार्थकी उत्तर श्रेणीका एक नगर —दे विद्याधर।

सर्वार्थसिद्धा—दे, विद्या।

सर्वार्थसिद्धि विमान—२ सर्वार्थसिद्धि विमानका स्वर्गलोकमें निर्देश व अवस्थान —दे, स्वर्ग/५। २ ये देव केवल एक भवावतारी होते हैं —दे, स्वर्ग/२/१।

रा वा /४/१६/२/२२४/२२ सर्वार्थाना सिद्धेश्च ।
रा वा /४/२६/१/२४४/११ सर्वार्थसिद्ध इत्यन्वर्थनिर्देशात् । = ३ सर्व अर्थोंकी अर्थात् सर्व प्रयोजनोंकी सिद्धि हो जानेसे उनकी 'सर्वार्थ-सिद्धि' यह अन्वर्थ सज्ञा है।

सर्वार्थसिद्धि व्रत—सप्तमीको धारणाके दिन एकाशना करे। ८—१५ तक ८ उपवास करे और पड़िमाको पारणा करे। नमस्कार-मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। (व्रत विधान सग्रह/पृ ८६)

सर्वार्थसिद्धि शास्त्र—आ, पूज्यपाद (ई, श /७) द्वारा विरचित तत्त्वार्थ सूत्रकी विशद वृत्ति है। संस्कृतभाषामें लिखा गया है। इस पर निम्न टीकाएँ उपलब्ध हैं—(१) आ अकलक भट्ट (ई ६४०-६८०) कृत तत्त्वार्थ राजवार्तिक भी इसी ग्रन्थकी विस्तृत टीका है। (२) आ, प्रभाचन्द्र (ई ६२५-१०२३) कृत एक वृत्ति। (३) प, जयचन्द छावडा (ई १८०६) कृत भाषा वचनिका।

सर्वाविधि ज्ञान—दे, अवधिज्ञान/१।

सर्वासंख्यात—दे असंख्यात।

सर्वोपध ऋद्धि—दे, ऋद्धि/७।

सर्वप फल—तोलका एक प्रमाण —दे गणित/II/१।

सल्लेखना—अतिबृद्ध या असाध्य रोगग्रस्त हो जानेपर, अथवा अप्रतिकार्य उपसर्ग आ पडनेपर अथवा दुर्भिक्ष आदिके होने पर साधक साम्य भाव पूर्वक अन्तर ग कर्पायोंवा सम्यक् प्रकार दमन करते हुए, भोजन आदिका त्याग करके, धीरे-धीरे शरीरको कृश करते हुए, इसका त्याग कर देते हैं। इसे ही सन्निवना या समाधि-मरण कहते हैं। सम्यग्दृष्टि जनोको यथार्थत' सम्भव होनेमें इमे पण्डित-मरण कहते हैं। शरीरके प्रति जो स्वभावसे ही उपेक्षित हैं, ऐसे श्रावक व साधुको ऐसे अपसरो पर अथवा ज्ञान पूर्ण होनेपर इस ही प्रकारकी वीरतासे शरीरका त्याग योग्य है। इसे ज्ञान हत्या कहना अनभिज्ञताका सूचक है। सल्लेखनागत साधुको क्षपक कहते हैं। पीडाओंके प्रकर्षकी सम्भावना होनेके कारण सल्लेखना विधिमें नियमोंकी, परिचारकों, वैयावृत्ति उपदेश आदिका प्रधान स्थान है।

१	सल्लेखना सामान्य निर्देश
१	सल्लेखना सामान्यका लक्षण ।
*	दोषी सल्लेखना आदिकाल —दे, काल/१ ।
२	वाह्य अभ्यन्तर सल्लेखना निर्देश ।
३	शरीर कृश करनेका उपाय ।
४	सल्लेखना आत्महत्या नहीं है ।
५	सल्लेखना जबरदस्ती नहीं करायी जाती ।
*	सयम रक्षार्थ या उपसर्ग आनेपर आत्महत्या तक करना न्याय है । —दे, मरण १/५ में विप्रणस मरण ।
६	पर सयम रक्षार्थ भी मरना सल्लेखना नहीं है ।
७	अभ्यन्तर सल्लेखनाकी प्रधानता ।
८	सल्लेखना धारनेकी क्या आवश्यकता ।
९	सल्लेखनाके अतिचार ।
१०	सल्लेखनाका महत्त्व व फल ।
११	क्षपककी भवधारण सीमा ।
१२	सल्लेखनामें सम्भव लेश्याएँ ।
१३	सस्तर धारण व मरण कालमें परस्पर सम्बन्ध ।
१४	सल्लेखनाका स्वामित्व ।
१५	सभी व्रतियोंकी सल्लेखना आवश्यक नहीं ।
१६	सल्लेखनाके लिए हेमन्त ऋतु उपयुक्त है ।
*	सल्लेखनामें तीव्र वेदनाओंकी समावना । —दे सल्लेखना/५/८ ।
२	सल्लेखनाके योग्य अवसर
१	सल्लेखना योग्य शरीर क्षेत्र व काल ।
२	निर्यापककी उपलब्धिकी अपेक्षा ।
३	योग्य कारणोंके अभावमें धारनेका निषेध ।
४	अन्त समय धारनेका निर्देश ।
५	अन्त समयकी प्रधानताका कारण ।
६	परन्तु केवल अन्त समयमें धरना अत्यन्त कठिन है ।
७	अत इसका अभ्यास व भावना जीवन पर्यन्त करना योग्य है ।
८	अन्त समय व जीव पर्यन्तकी आराधनाका समय ।
*	मरणका संशय होने पर अथवा अकस्मात् मरण होने- पर अथवा स्वकाल मरण होने पर क्या करे । —दे सल्लेखना/३/६-१० ।
३	भक्त प्रत्याख्यान आदि विधि निर्देश
१	सल्लेखनामरणके व विधिके भेद ।
२	भक्त प्रत्याख्यान आदि तीनोंके लक्षण ।
*	तीनों आहारका त्याग सामान्य है । —दे सल्लेखना/३/२ ।
*	तीनोंका स्वामित्व । —दे सल्लेखना/१/१४ ।
३	तीनोंके योग्य सहन काल व क्षेत्र ।

४	तीनोंके फल ।
५	भक्तप्रत्याख्यानकी जघन्य व उत्कृष्ट अवधि ।
६	साधुओंके लिए भक्त प्रत्याख्यानकी सामान्य विधि ।
७	समर्थ श्रावकोंके लिए भक्त प्रत्याख्यानकी सामान्य विधि ।
८	असमर्थ श्रावकोंके लिए भक्त प्रत्याख्यानकी सामान्य विधि ।
९	मृत्युका सक्षय या निश्चय होनेकी अपेक्षा भक्त प्रत्याख्यान विधि ।
१०	सविचार व अविचार भक्त प्रत्याख्यानके सामान्य लक्षण व स्वामी ।
११	अविचार भक्त प्रत्याख्यान विधि ।
१२	इगिनीमरण विधि ।
१३	प्रायोपगमन मरण विधि ।
४	सविचार भक्त प्रत्याख्यान विधि
१	इस विषयक ४० अधिकार ।
*	सल्लेखना योग्य लिंग । —दे लिंग/१/४ ।
*	सल्लेखनामें नग्नताका कारण व महत्त्व । —दे अचेसकरव/३१
२	इन अधिकारोंका कथन क्रम ।
३	आचार्य पदत्याग विधि ।
४	सबसे क्षमा ।
५	परगणचर्या व इसका कारण ।
*	परगण द्वारा आगत मुनिका परीक्षा पूर्वक ग्रहण । —दे विनय/५/१ ।
६	उद्यत साधुके उत्साह आदिका विचार ।
७	आलोचना पूर्वक प्रायश्चित्त ग्रहण ।
*	क्षपक योग्य वसतिका व सस्तर । —दे वह वह नाम ।
*	श्रावक को घर या मन्दिर दोनों जगह सस्तर- धारणकी आज्ञा —दे सल्लेखना/३/८ ।
*	निर्यापचार्य व उसका मार्गण —दे सल्लेखना/५ ।
८	क्षपणा, समता व ध्यान ।
९	कुछ विशेष भावनाओंका चिन्तन
१०	मौन वृत्ति
११	क्रम पूर्वक आहार व शरीरका त्याग ।
१२	क्षपकके लिए उपयुक्त आहार ।
५	भक्त प्रत्याख्यानमें निर्यापकका स्थान
१	योग्य निर्यापक व उसकी प्रधानता ।
२	चारित्रहीन निर्यापकका आश्रय हानिकारक है ।
३	योग्य निर्यापकका अन्वेषण
४	एक निर्यापक एक ही क्षपकको ग्रहण करता है ।

५	निर्यापकोंकी सख्याका प्रमाण ।
६	सर्व निर्यापकोंमें कर्तव्य विभाग ।
७	क्षपककी वैयावृत्ति करते हैं ।
८	आहार दिखाकर वैराग्य उत्पन्न कराना ।
९	कदाचित् क्षपकको उग्र वेदनाका उद्रेक ।
१०	उपर्युक्त दशामें भी उसका त्याग नहीं करते ।
११	यथावसर उपदेश देते हैं ।
	१ सामान्य निर्देश ।
	२ वेदनाकी उग्रतामें सारणात्मक उपदेश ।
	३. प्रतिज्ञाको कवच करनेके अर्थ उपदेश ।
६	मृत शरीरका विसर्जन व फल विचार
*	शरीर क्षेपण योग्य निषद्यका ।
	—दे निषीधिका ।
*	सस्तर ग्रहण व मरणकालमें परस्पर सम्बन्ध
	दे. सल्लेखना/१/१३ ।
१	शव विसर्जन विधि ।
२	शरीर विसर्जनके पश्चात् सधका कर्तव्य ।
३	फल विचार—
	१ निषीधिकाकी दिशाओंपर से ।
	२. शवके सस्तरपर से ।
	३. नक्षत्रोंपरसे ।
	४. शरीरके अर्गोंपागोंपरसे ।

१. सल्लेखना सामान्य निर्देश

१. सल्लेखना सामान्यका लक्षण

स.सि/७/२२/३६३/१ सम्यक्कायकपायलेखना सल्लेखना । कायस्य बाह्यस्याभ्यन्तराणा च कपायाणा तत्कारणहापनक्रमेण सम्यग्लेखना सल्लेखना । =अच्छे प्रकारसे काय और कपायका लेखन करना अर्थात् कृश करना सल्लेखना है । अर्थात् बाहरी शरीरका और भीतरी कपायोंका, उत्तरोत्तर काय और कपायको पुष्ट करनेवाले कारणोंको घटाते हुए भले प्रकारसे लेखन करना अर्थात् कृश करना सल्लेखना है । (स.सि /७/२२/३/५५०/२३), (भ.आ /वि /१/५७/३६६/१२) ।

दे सल्लेखना/२/१ [दुर्भिक्ष आदिके उपस्थित होनेपर धर्मके अर्थ शरीरका त्याग करना सल्लेखना है ।]

दे निषेप/५/५/२ [कदलीघातके बिना बहिरग और अन्तरग परिग्रहका त्याग करके जीवन व मरणकी आशासे रहित छूटा हुआ शरीर त्यक्त शरीर कहलाता है, जो भक्तप्रत्याख्यान आदिकी अपेक्षा तीन प्रकारका है ।]

२. बाह्य व अभ्यन्तर सल्लेखना निर्देश

भ.आ /सू/२०६/४२३ सल्लेखना य दुविहा अभतरिया य बाहिरा चैव । अबभतरा कसायेसु बाहिरा होदि हु सरीरे ।२०६। =सल्लेखना दो प्रकारकी है—अभ्यन्तर और बाह्य । तहाँ अभ्यन्तर सल्लेखना तो कपायोंमें होती है और बाह्य सल्लेखना शरीरमें । अर्थात् उपरोक्त

लक्षणमें कपायोंको कृश करना तो अभ्यन्तर सल्लेखना है और शरीरको कृश करना बाह्य सल्लेखना है ।

पं का/ता वृ /१७३/२/३/१७ आत्मसंस्कारानन्तरं तदर्थमेव क्रोधादिकपायरहितानन्तज्ञानादिगुणलक्षणपरमात्मपदार्थे स्थित्वा रागादिविकल्पानां सम्यग्लेखन तनुकरण भावसल्लेखना, तदर्थं कायक्लेशानुष्ठानं द्रव्यसल्लेखना, तदुभयाचरणं स सल्लेखनाकाल । =आत्मसंस्कार (दे, काल/१/६) के अनन्तर उसके लिए ही क्रोधादि कपायरहित अनन्तज्ञानादि गुणलक्षण परमात्मपदार्थमें स्थित होकर रागादि विकल्पोंका कृश करना भाव सल्लेखना है, और उस भाव सल्लेखनाके लिए कायक्लेशरूप अनुष्ठान करना अर्थात् भोजन आदिका त्याग करके शरीरको कृश करना द्रव्य सल्लेखना है । इन दोनों रूप आचरण करना सल्लेखना काल है ।

३. शरीर कृश करनेका उपाय

भ.आ /सू /२४६-२४६ उल्लीणोलीणोहि य अहवा एवकतवद्धमाणेहि । सल्लिहइ मुणी देह आहारविधि पयणुगितो ।२४६। अणुपुञ्जवाहार सवट्ठतो य सल्लिहइ देह । दिवसुग्गहिण तवेण चावि सल्लेहणं कुणइ ।२४७। विविहाहि एसणाहि य अवग्गहेहि विविहेहि उग्गेहि । सजममविराहितो जहावल सल्लिहइ देह ।२४८। सदि आउगे सदि बले जाओ विविधाओ भिखुपडिमाओ । ताओ विण बाधते जहावल सल्लिहतस्स ।२४९। =क्रमसे अनशनादि तपको बढ़ाते हुए यतिराज अपने देहको कृश कर शरीर सल्लेखना करते हैं ।२४६। क्रमसे आहार कम करते करते क्षपक अपना देह कृश करता है । प्रतिदिन लिये गये नियमके अनुसार कभी उपवास और कभी वृत्तिसंख्यान, इस क्रमसे तपश्चरण कर क्षपक शरीर कृश करता है ।२४७। नाना प्रकारके रसवर्जित, अल्प, रूक्ष ऐसे आचाम्ल भोजनोंसे अपने सामर्थ्यके अनुसार क्षपक मुनि देहको कृश करता है । नाना प्रकारके उग्र नियम ले ले कर सयमकी विराधना न करता हुआ स्व शक्ति अनुसार शरीरको कृश करता है ।२४८। यदि आयु व देहकी शक्ति अभी काफी क्षेप ही तो शास्त्रीक बारह भिक्षुप्रतिमाओंको (दे सल्लेखना/४) स्वीकार करके शरीरको कृश करता है । उन प्रतिमाओंसे इस क्षपकको पीडा नहीं होती । (विशेष दे सल्लेखना/३,४) ।

४. सल्लेखना आत्महत्या नहीं है

स.सि /७/२२/३६३/५ स्यान्मतमात्मवध प्राप्नोति, स्वाभिसन्धिपूर्व-कायुरादिनिवृत्ते । नेपदोप, अग्रमत्तत्वाद् । 'प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपण हिंसा' इत्युक्तम् । न चास्य प्रमादयोगोऽस्ति । कुत । रागाद्य-भावात् । रागद्वेषमोहाविष्टस्य हि विपश्चराद्युपकरणप्रयोगवशादात्-रमानं घनत स्वघातो भवति । न सल्लेखना प्रतिपन्नस्य रागादय सन्ति ततो नात्मवधदोष । =प्रश्न—चू कि सल्लेखनामें अपने अभि-प्रायसे आयु आदिका त्याग किया जाता है, इसलिए यह आत्मघात हुआ । उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सल्लेखनामें प्रमादका अभाव है । 'प्रमत्तयोगसे प्राणोका वध करना हिंसा है' यह पहले कहा जा चुका है (दे हिंसा) । परन्तु इसके प्रमाद नहीं है, क्योंकि, इसके रागादिक नहीं पाये जाते । राग, द्वेष और मोहसे युक्त होकर जो विप और शत्रु आदि उपकरणोंका प्रयोग करके उनसे अपना घात करता है उसे आत्मघातका दोष प्राप्त होता है (दे मरण/४/१) । परन्तु सल्लेखनाको प्राप्त हुए जीवके रागादिक तो हैं नहीं, इसलिए इसे आत्मघातका दोष प्राप्त नहीं होता है । [कहा भी है—रागादिक-का न होना ही अहिंसा है (दे अहिंसा/२/१) और उनकी उत्पत्ति ही हिंसा है (दे हिंसा/१/१), (रा वा /७/२२/६-७/५५०/३३) (पृ.मि. उ/१७७ १७८), (सा ध /८/८), (और भी दे शीर्षक स ६) ।

५. सल्लेखना जवरदस्ती नहीं करायी जाती

स.सि./७/२२/३६३/४ न केवलमिह सेवन परिगृह्यते। किं तर्हि प्रीत्यर्थोऽपि। यस्मादसत्यां प्रीती बलात् सल्लेखना कार्यते। सत्यां हि प्रीती स्वयमेव करोति।—यहाँ पर (सूत्रमें प्रयुक्त 'जोपिता' शब्दका) केवल 'सेवन करना' अर्थ नहीं लिया गया है, क्योंकि प्रीतिके न रहनेपर बलपूर्वक सल्लेखना नहीं करायी जाती। किन्तु प्रीतिके रहनेपर स्वयं ही सल्लेखना करता है। (रा.वा./७/२२/४/४५०/२६)।

६ संयम रक्षार्थं मरना भी सल्लेखना नहीं

घ १/२१.१/२५/१ सजम-विनास-भरण उस्सासगिरोहं काऊण मुद-साहु सरीर कथ्य णिवददिगं। ण कथ्य वि तथा-मुदवेहस्स मंगलत्ता-भावादो।—प्रश्न—सयमके विनाशके भयसे श्वासीच्छ्वासका निरोध करके मरे हुए साधुके शरीरका त्यक्तशरीरके तीन भेदों (भक्त प्रत्याख्यान आदि) में से किस भेदमें अन्तर्भाव होता है। उत्तर—ऐसे शरीरका त्यक्तके किसी भी भेदमें अन्तर्भाव नहीं होता है, क्योंकि, इस प्रकारसे मृत शरीरको मंगलपना प्राप्त नहीं होता है।
दे मरण/१/४ [उपरोक्त प्रकारका मरण विप्राणसमरण कहलाता है। वह न अनुज्ञात है और न निषिद्ध।]

७. अभ्यन्तर सल्लेखनाकी प्रधानता

भ आ/सू/ग एव सरीरसल्लेखनाविहिं बहुविहा वि फासेतो। अज्झव-साणविमुद्धि खणमवि खवओ ण मुचेज्ज।२५६। अज्झवसाणविमुद्धी कसायक्खुसोकिदस्स णरिथ ति। अज्झवसाणविमुद्धीणा भणिदा।२५७। अज्झवसाणविमुद्धीए वज्जिदा जे तव विगट्ठं पि। कुब्बति बहिस्सेसा ण होइ सा केवला मुद्धी।२५८। सल्लेखना-विमुद्धा केई तह चैव विविहसगेहिं। सधारे विहरंता वि सकलित्ठा विवज्जति।१६७४।—इस प्रकार अनेकविध शरीर सल्लेखनाविधिको करते हुए भी, क्षणक एक क्षणके लिए भी परिणामोंकी विमुद्धिको न छोड़े।२५६। कपायसे क्लृपित मनमें परिणामोंकी विमुद्धि नहीं होती। और परिणामोंकी विमुद्धि ही कपायसल्लेखना कही गयी है।२५६। परिणामोंकी विमुद्धिके निना उत्कृष्ट भी तप करने वाले साधु ख्याति आदिके कारण ही तप करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए उनके परिणामोंकी मुद्धि नहीं होती।२५७। जो साधु शरीरकी सल्लेखना तो निरतिचार कर रहे हैं, परन्तु उनके अन्तरममें रागद्वेषादिरूप भाव परिग्रह निवास करता है, वे सस्तरारूढ होते हुए भी परिणामोंकी सल्लेखनाके कारण ससारमें भ्रमण करते हैं।१६७४।

सा ध/५/२३ सल्लेखनासच्छिखत्त कपायान्निष्फला तनो। कायोऽ-जडैदंष्टयित्तु कापायानेव दण्ड्यते।२३।—जो साधु कपायोंको कृश न करके केवल शरीरको ही कृश करता है, उसका वह शरीरको कृश करना निष्फल है, क्योंकि कपायोंको कृश करनेके लिए ही शरीरको कृश किया जाता है, केवल शरीरको कृश करनेके लिए नहीं।

८. सल्लेखना धारनेकी क्या आवश्यकता

स.सि./७/२२/३६४/१ किंच, मरणखानिष्टस्वाद्यथा वाणिजो विविध-पण्यदानानासचयपरस्य स्वगृहविनाशोऽनिष्ट। तद्विनाशकारणे च कुतश्चिदुपस्थिते यथाशक्ति परिहरति। दुष्परिहारे च पण्य-विनाशो यथा न भवति तथा यतते। एवं गृहस्थोऽपि व्रतशील-पण्यमचये प्रवर्तमान तदाश्रयस्थ न पातमभिवान्छति। तदुपप्लव-कारणे चोपस्थिते स्वगुणाविरोधेन परिहरति। दुष्परिहारे च यथा स्वगुणविनाशो न भवति तथा प्रयत्न इति कथमात्मवधो भवेत्।—

मरण किसिको भी भी इष्ट नहीं है। जैसे नाना प्रकारकी विव्रेय वस्तुओंके देने, लेने और मंचयमें लगे हुए किमी व्यापारीको अपने घरका नाश होना इष्ट नहीं है, फिर भी परिस्थितिबश उसके विनाशके कारण या उपस्थित हों तो यथाशक्ति वह उनको दूर करता है, दूतनेपर भी यदि वे दूर न हो सके तो, जिससे विव्रेय वस्तुओंका नाश न हो, ऐसा प्रयत्न करता है। उसी प्रकार पण्य स्थानीय व्रत और शीलके सचयमें जुटा हुआ गृहस्थ भी उनके आधारभूत आयु आदिका पतन नहीं चाहता। यदा कदाचित् उनके विनाशके कारण उपस्थित हो जायें तो जिसमें अपने गुणोंमें बाधा नहीं पड़े, इसप्रकार उनको दूर करनेका प्रयत्न करता है। दूतनेपर भी यदि वे दूर न हों तो, जिससे अपने गुणोंका नाश न हो इस प्रकार प्रयत्न करता है, इसलिए इसके आरम्भवात नामका दोष है तो हो सकता है। (रा.वा./७/२२/५/४५१/६), (आ अ/२०५), (सा, ध/८/६)।

९. सल्लेखनाके अतिचार

त सू/७/३७ जीवितमरणाशसामित्रानुरागसुखानुचयनिदानानि।३७।— जीविताशसा, मरणाशसा, मित्रानुराग, सुखानुचय और निदान ये सल्लेखनाके पाँच अतिचार हैं।३७। (र.क.प्रा./१२६), (वा.सा./२६/३), (सा.ध./५/४६)।

१०. सल्लेखनाका महत्त्व व फल

भ आ/सू/१६४२-१६४५ भोगे अनुत्तरे भुजिऊण तत्तो चुदा सुमाणुसे। इडिडमत्तुल चउत्ता चर ति जिणदेसियं धम्म।१६४२। सुवक नेस्समुग्गदा सुवकज्जाणेण खविदससारा। सम्मुग्गवक्कम्मकयया सविंति सिद्धि धुरकिलेसा।१६४५।—स्वर्गमें अनुत्तर भोग भोगकर वे बहाँसे चय उत्तम मनुष्यभवेमें जन्म धारण कर सम्पूर्ण नृद्धियोंको प्राप्त करते हैं। पीछे वे जिनधर्म अर्थात् मुनि धर्म व तप आदिका पालन करते हैं। १६४२। शुक्ल लेशकी प्राप्ति कर वे आराधक शुगलध्यानेसे ससारका नाश करते हैं, और कर्मरूपी कञ्चको फोड़ कर सम्पूर्ण बलेशोंका नाश कर मुक्त होते हैं। १६४५। (विशेष दे सल्लेखना/३/४)।
र.क.प्रा./१३०नि श्रेयसमम्युदय निस्तीर दुस्तर सुखाम्मुनिधिं। निष्प-वति पीतधर्मा सर्वेदु खैरनालीढ।१३०।—पिया है धर्मरूपी अमृत जिसने ऐसा सल्लेखनाधारी जीव समस्त प्रकारके दु खोंसे रहित होता हुआ, अपार दुस्तर और उत्कृष्ट उदयवाले मोक्षरूपी सुतके समुद्रको पान करता है।

प पु/१४/२०३ गृहधर्ममिम कृत्वा समाधिप्राप्तपञ्चत। प्रपद्यते मुदेवस्व च्युत्वा च सुमनुष्यताम्।२०३।—इस गृहस्थ धर्मका पालनकर जो समाधिपूर्वक मरण करता है, वह उत्तम देवपर्यायको प्राप्त होता है, और वहाँसे च्युत होकर उत्तम मनुष्यत्व प्राप्त करता है। २०३। [पीछे आठ भवोंमें मुक्ति प्राप्त करता है—(दे अगला शीर्षक)]
पु सि ७/१७६ नोयन्तेऽत्र कपाया हिसाया हेतवो यतस्तनुताम्। सल्लेखनामपि तत प्राहुरहिसा प्रसिद्धवर्धम्।१७६।—क्योंकि इस सन्ध्यास मरणमें हिसाके हेतुभूत कपाय क्षीणताको प्राप्त होते हैं, तिस कारणसे सन्ध्यासको भी श्रीगुरु अहिसाकी सिद्धिके लिए कहते हैं। १७६।

दे भ आ/अ ग/२२४—२२७६—[सल्लेखनाकी अनेक प्रकारसे स्तुति]

११. क्षयककी भवधारणकी सीमा

भ आ/सू/गा एवकम्मि भवगगणे समाधिमरणेण जो मद्दो जीवो। ण हु सो हिडंदि बहुसो सत्तट्ठभवे पमोचूण।६८२। गियमा सिज्झदि उवकसएण वा सत्तमम्मि भवे।२००६। इय बालपडिय होदि मरण-मरहत्तसासणे दिट्ठं।२००७। एव आराधित्ता उवकत्साराहण

चदुषर्लंधं। कम्मरयविप्पमुक्का तेणेव भवेण सिञ्जति १२६०।
आराधयित्तु धीरा मञ्जिममाराहणं चदुक्कध। कम्मरयविप्पमुक्का
तच्चवेण भवेण सिञ्जति १२६१। आराधयित्तु धीरा जहण्णमाराहणं
चदुषर्लंधं। कम्मरयविप्पमुक्का सत्तमजम्मणे सिञ्जति १२६२। =
१ जो यति एक भवमें समाधिमरणसे मरण करता है वह अनेक भव
धारण कर ससारेमें भ्रमण नहीं करता। उसको सात आठ भव
धारण करनेके पश्चात् अवश्य मोक्षकी प्राप्ति होगी। ६८२। (सू आ/
११८)। २ बालपंडित मरणसे मरण करनेवाला श्रावक (दे. मरण/१/४)
उत्कृष्टतासे सात भवोंमें नियमसे सिद्ध होता है। १२०८६-२०८६।
३. चार प्रकारके इस (दर्शन, ज्ञान, चारित्र व तप) आराधनाको
जो उत्कृष्ट रूपसे आराधता है वह उसी भवमें मुक्त होता है, जो
मध्यमरूपसे आराधता है वह तृतीय भवसे मुक्त होता है, और जो
जघन्य रूपसे आराधता है वह सातवें भवमें सिद्ध होता है
१२१६०-६२।

पु/१४/२०४ भावानामेवमप्टानामन्त कृत्वानुवर्तनम्। रत्नत्रयस्य
निर्ग्रन्थो भूत्वा सिद्धिं समश्नुते १२०४। = [जो गृहस्थधर्मका
पालन कर समाधि पूर्वक मरण करता है—(दे शीर्षक स ६ में प
पु/१४/२०३)] ऐसा जीव अधिकसे अधिक आठ भवोंमें रत्नत्रयका
पालनकर अन्तमें निर्ग्रन्थ हो सिद्धपदको प्राप्त होता है। १२०४।
धर्मपरीक्षा/१६/६६ का भाषार्थ—जो सुधी पुरुष कषाय निदान और
मिथ्यात्व रहित होकर सन्यासविधिके धारणपूर्वक मरण करते हैं,
वे मनुष्य देवलोकमें सुखोंको भागकर २१ भवके भीतर मोक्षपदको
प्राप्त होते हैं।

१२. सल्लेखनामें सम्भव लेइयाँ

भ.आ/सू/१६१८-१६२१ सुक्काए लेस्साए उक्कस्स असय परिणमिन्ता।
जो मरदि सो हु णियमा उक्कस्साराधओ होई १६१८। जे सेसा
सुक्काए दु असया जे य मम्मलेस्साए। तल्लेस्सापरिणामो दु मञ्जिमा-
राधणा मरणे १६२०। तेजाए लेस्साए ये असा तेसु जो परिणमिन्ता।
काल करेइ तस्स हु जहण्णियाराधणा भणदि १६२१। = सुक्कलेश्या-
के उत्कृष्टसे परिणत होकर मरनेवाला क्षपक उत्कृष्ट आराधक है
१६१८। सुक्कलेश्याके शेष मध्यम व जघन्य अश और पद्मलेश्याके
सर्व अशसे परिणमित होकर मरनेवाला मध्यम आराधक है १६२०।
और पीत लेश्याके सर्व अशसे परिणमित होकर मरनेवाला
जघन्य आराधक है।

१३. संस्तर धारण व मरणकालमें परस्पर सम्बन्ध

भ आ/अमितगति कृत प्रशस्ति/पृ १८७५—

न	संस्तरधारण कालका नक्षत्र	मरणकालका नक्षत्र	समय
१	अश्विनी	स्वाति	रात
२	भरणी	रेवती	प्रभात
३	कृत्तिका	उत्तर फ.गुनी	मध्याह्न
४	रोहिणी	श्रवण	अर्धरात्रि
५	मृगशिर	पूर्व फागुनी	१
६	आर्द्रा	उत्तरा या इससे अगला	दिन
७	पुनर्वसु	अश्विनी	अपराह्न
८	पुष्य	मृगशिर	१
९	आश्लेषा	चित्रा	१

न.	संस्तरधारण कालका नक्षत्र	मरणकालका नक्षत्र	समय
१०	मघा	मघा या इससे अगला	दिन
११	पूर्व फागुनी	धनिष्ठा	दिन
१२	उत्तर फागुनी	मूल	साय
१३	हस्त	भरणी	दिन
१४	चित्रा	मृगशिर	अर्धरात्रि
१५	स्वाति	रेवती	प्रभात
१६	विशाखा	आश्लेषा	१
१७	आश्लेषा	पूर्वभाद्रपद	दिन
१८	मूल	ज्येष्ठा	प्रभात
१९	पूर्वाषाढ	मृगशिर	रातका
२०	उत्तराषाढ	उत्तराषाढ अथवा भाद्रपद	प्रारम्भ
२१	श्रवण	उत्तरभाद्रपद	अपराह्न
२२	धनिष्ठा	धनिष्ठा या उससे अगला	दिन
२३	शतभिषज	ज्येष्ठा	सूर्यास्त
२४	पूर्वभाद्रपद	पुनर्वसु	रात
२५	उत्तर भाद्रपद	उत्तरभाद्रपद	दिन या रात
२६	रेवती	मृगशिर	१

१४. सल्लेखनाका स्वामित्व

रा वा/७/२२/१४/५५२/३ अय सल्लेखनाविधि न श्रावकस्यैव दिग्वि-
त्यादि शीलवत। किं तर्हि। सयतस्यापीति अविकोपज्ञापनार्थत्वाद्वा
पृथगुपदेश कृत। = यह सल्लेखनाविधि शीलव्रतधारी गृहस्थको
ही नहीं है, किन्तु महाव्रती साधुके भी होती है। इस सामान्य
नियमकी सूचना पृथक् सूत्र बनानेसे मिल जाती है।

दे. सल्लेखना/२/१ में भ आ/७४—[गृहस्थ व साधु दोनों ही भक्तप्रत्या-
ख्यानके योग्य समझे जाते हैं।]

दे सल्लेखना/१/८ [गृहस्थ भी व्रत और शीलको रक्षा करनेके लिए
सल्लेखना धारण करता है]

दे सल्लेखना/२/४ [श्रावक प्रीति पूर्वक मारणान्तिकी सल्लेखना
धारण करता है।]

दे सल्लेखना/२/७ में पु सि उ/१७६ ['मै मरण कालमें अवश्य समाधि-
मरण करूँगा' श्रावकको ऐसी भावना नित्य मानी चाहिए।]

दे मरण/१/४ [भक्त प्रत्याख्यान आदि पंडित मरण मुनियोंको
होता है।]

१५. सभी व्रतियोंको सल्लेखना आवश्यक नहीं

रा वा/७/२२/१२/५५१/३४ स्यादेतत्-पूर्वसूत्रेण सह एक एव योग
कर्तव्य लक्ष्य इति, तत्र, किं कारणम्। कदाचित् कस्यचित् तां
प्रत्याभिमुख्यज्ञापनार्थत्वात्। सम्यक्शीलवत कदाचित् कस्यचित्
गृह्णित्वा सल्लेखनाभिमुख्य न सर्वस्येति। = प्रश्न—इस सूत्रको पहले
सूत्रके साथ ही मिला देना योग्य था, क्योंकि ऐसा करनेसे सूत्र छोटा
हो जाता। उत्तर— नहीं, क्योंकि, कभी कभी तथा किसी किसीको
ही सल्लेखनाकी अभिमुखता हंती है, यह बात बतानेके लिए पृथक्
सूत्र बनाया गया है। सात शीन व्रतोंको धारनेवाला कोई एक प्राध
गृहस्थ ही कदाचित् सल्लेखनाके अभिमुख होता है, सन नहीं।

दे अथालद-जो साधु बन, वीर्य, धैर्य व स्थिरतामें हीन होनेके कारण परिहार विधि या भक्त प्रत्याख्यान आदि विधियोंको धारण करनेमें समर्थ नहीं है, वे अथालद विधिको धारण करते हैं ।]

१६. सल्लेखनाके लिए हेमन्त ऋतु उपयुक्त है

भ आ /मू /६३१/८३२ एवं वासारत्ते फालेदूण विविध तवोकम् । सथार पड्विज्जदि हेमते सुहविह रग्मि १६३। = इस प्रकारसे वर्षाकालमें नाना प्रकारके तप कर वह क्षपक जिसमें अनशनादि करने पर भी महात् कष्टका अनुभव नहीं आता है, ऐसे हेमन्तकालमें सस्तरका आश्रय करता है । ६३१।

२. सल्लेखनाके योग्य अवसर

१. सल्लेखना योग्य शरीर क्षेत्र व काल

भ आ./मू /७१-७४ वाहिव्व दुपसज्झा जरा य समणजोग्गहाणिकरी । उवसग्गा वा देवियमाणुसत्तेरिच्छया जस्स ७१। अणुलोमा वा सत्त चारित्तविणासया हवे जस्स । दुग्भिक्खे वा गाढे अडवीए विप्पणट्टो वा ७२। चक्ख वा दुग्मलं जस्स होज्ज सोद व दुग्मल जस्स । जघावलपरिहीणो जो ण समत्थो विहरिदु वा ७३। अणम्मि चावि एदारिस्सम्मि आगाढकारणे जादे । अरिहो भत्तपङ्णए होदि विरदो अविरेदो वा ७४। = महाप्रयत्नसे चिकित्सा करने योग्य ऐसा कोई दुरुत्तर होनेपर, श्रामण्यकी हानि करनेवाली अतिशय वृद्धावस्था आनेपर, अथवा नि प्रतिकार देव मनुष्य व तिर्यचकृत उपसर्ग आ पडनेपर ७१। (लोभ आदिके बशीभूत हुए ऐसे) अनुकूल शत्रु जय चारित्रिका नाश करनेको उद्युक्त हो जायें, भयंकर दुष्काल आ पडनेपर, हिंसक पशुओंसे पूर्ण भयानक बनमें दिशा भूल आनेपर ७२। आँख, कान व जघा बल अत्यन्त क्षीण हो जानेपर ७३। तथा इनके अतिरिक्त अन्य भी तत्सदृश कारणोंके होनेपर मुनि या गृहस्थ भक्त प्रत्याख्यान (शरीर त्याग) के योग्य समझे जाते हैं ७४।

र. क था /१२२ उपसर्गं दुग्भिक्षे जरसि रुजाया च निष्प्रतीकारे । धर्माय षण्णुविमोचनमाहु सल्लेखनामार्या १२२। = निष्प्रतिकार उपसर्ग आनेपर, दुग्भिक्ष होनेपर, बुढापा आनेपर, और मृत्युदायक रोग होनेपर धर्मार्थ शरीर छोड़नेको सल्लेखना कहते हैं । १२२। (वा सा/ ४८/१)

रा ना /७/२२/११/६६१/२८/ जरादीनेन्द्रियहानिभिरावश्यकपरिक्षये ११। = जरा, रोग, इन्द्रिय व शरीर बलकी हानि तथा पडावश्यकका नाश होनेपर सल्लेखना होती है ।

सा ध /८/६-१० कालेन बोपसर्गेण निश्चित्यायु क्षयोन्युत्थं । वृत्वा यथाविधि प्राय तास्ता सफलयेधिया १। देहादिवैकृते सम्यग्नि-मित्तेश्च मुनिश्चित्ते । मृत्यावाराधनामग्नयत्तेदूरे न तत्पद १०। = स्वकाल पाकद्वारा अथवा उपसर्ग द्वारा निश्चित रूपसे आयुका क्षय सन्मुख होनेपर यथाविधि रूपसे सन्यासमरण धारकर सकल क्रियाओंको सफल करना चाहिए । १। जिनके होनेपर शरीर ठहर नहीं सकता ऐसे मुनिश्चित देहादि विकारोंके होनेपर अथवा उसके कारण उपस्थित हो जानेपर अथवा आयुका क्षय निश्चित हो जाने पर निश्चयसे आराधनाओंके चिन्तन करनेमें मग्न होता है, उसे मोक्ष पद दूर नहीं । १०।

दे सल्लेखना/३/१० [स्व कालपाकवश आयु क्षय होनेपर सविचार भक्त प्रत्याख्यान धारा जाता है और अक्स्माद् आयुक्षय होने पर अविचार भक्त प्रत्याख्यान धारा जाता है ।]

२. निर्यापककी उपलब्धिकी अपेक्षा

भ.आ /मू /७५/२०४ उत्सरइ जस्स चिरमवि सुहेण सामणमणदिचारं वा । णिज्जावया य सुलहा दुग्भिक्खभयं च जदि पत्थि ७५।
भ आ /वि /७७/२०५/१ इदानीमह यदि न त्याग कुर्यां निर्यापका पुनर्न लप्स्यन्ते सूरयस्तदभावे नाहं पण्डितमरणमाराधयित्त्वं श्वनोमि इति यदि भयमस्ति भक्तप्रत्याख्यानाहं एव । = जिस मुनीश्वरका चारित्रपालन सुखपूर्वक व निरतिचार हो रहा है, तथा जिसका निर्यापक भी सुलभ हो और जिसे दुग्भिक्ष आदिका भी भय न हो, ऐसा मुनीश्वर यथापि भक्त प्रत्याख्यानके अयोग्य है ७५। तो भी 'इस समय यदि मे भक्तप्रत्याख्यान न करूँ और आगे यदि निर्यापकाचार्य कदाचित् न मिले तो मैं पंडितमरण न साध सकूंगा' ऐसा जिसको भय हो तो वह मुनि भक्त प्रत्याख्यानके योग्य ही है ।

३. योग्य कारणोंके अभावमें सल्लेखना धारनेका निषेध

भ आ./मू /७६/२०५ तस्स ण कप्पदि भत्तपङ्णणं अणुवट्ठिदे भये पुरदो । सो मरणं पच्छित्तो होदि हु सामणणिव्विणो ७६। = पूर्वमें कहे गये सर्व भयोंके उपस्थित न होनेपर भी जो मुनि मरणकी इच्छा करेगा, वह मुनि चारित्रसे विरक्त है ऐसा समझना चाहिए ।
दे शीर्षक न २- [जिसका चारित्र निर्बिघ्न चल रहा है और जिसे निर्यापक भी सुलभ है और दुग्भिक्ष आदिका भी भय नहीं है, वह भक्तप्रत्याख्यानके अयोग्य है ।]

४. अन्त समयमें धारनेका निर्देश

त सू /७/२२ मारणान्तिक्के सल्लेखनां जोपिता १२२।
स.सि /७/२२/३६२/१२ 'अन्तग्रहण' तद्भवमरणप्रतिपत्त्यर्थम् । मरण-मन्तो मरणान्त । स प्रयोजनमस्येति मारणान्तिकी । = तथा वह श्रावक मारणान्तिक सल्लेखनाका प्रीति पूर्वक सेवन करनेवाला होता है । उसी भवके मरणका ज्ञान करानेके लिए सूत्रमें मरण शब्दके साथ अन्त पदका ग्रहण किया है । मरण यही अन्त मरणान्त है और जिसका यह मरणान्त ही प्रयोजन है वह मारणान्तिकी कहलाती है । (रा वा /७/२२/२/६६०/२१), (चा सा /४७/६)
दे श्रावक/१/३/ [अन्त समय समाधिमरण धरनेवाला श्रावक साधक कहलाता है ।]

५. अन्त समयकी प्रधानताका कारण

भ आ /मू /गा जो जाए परिणिमत्ता लेसाए सजुदो कुणइ काल । तल्लेस्सो उववज्जइ तल्लेस्से चव सो सग्गे १६२२। जदि दा सुभावि-दप्पा वि चरिमकालम्मि सक्खिलेसेण । परिवड्ढदि वेदणट्ठो खवओ सथारमारुद्धो १६४८। सुचिरमवि गिरदिच र विहारत्ता णाणदसण-चरित्ते । मरणे विराधयित्ता अणत्तससारिओ दिट्ठो १६५। = जो जीव जिस लेशयासे परिणत होकर मरणको प्राप्त होता है, वह उत्तर भयमें उसी लेशयाका धारक होकर स्वर्गमें उत्पन्न होता है १६२२। जिसने अस्माको आराधनाओंसे मुसकृत किया था, तो भी मरण-समय सल्लेखपरिणामोंकी उपपत्ति होनेसे वह संस्तरपर आरुद्ध हुआ श्रमण सन्मार्गसे भ्रष्ट होता है १६४८। पूर्वमें न आराधी गयी रत्नत्रयकी आराधनाकी यदि अन्तकालमें कोई भाये तो वह जीव स्थानुके दृष्टान्तको प्राप्त होता है (अर्थात् जैसे अन्धके स्तम्भसे टकराकर नेत्र खून जानेसे भाग्य वश वहाँसे रत्नप्राप्ति हो जाय ऐसे ही उसे समझना १६४)।

सा ध /८/१६ आराद्धोऽपि चिर धर्मो विराद्धो मरणे मुधा । सत्त्वाराद्ध-स्तक्षणेऽह क्षिपत्यपि चिराजित १६। = चिर कालसे आराधन किया हुआ धर्म भी यदि भरनेके समय छोड़ दिया जाय वा उसकी

विराधना की जाय तो वह निष्फण हो जाता है। और यदि मरनेके समय उस धर्मकी आराधना की जाय तो वह चिर कालके उपाजित पापोंका भी नाश कर देता है।

६. परन्तु केवल अन्त समयमें धरना अत्यन्त कठिन है

भ आ/मू व, वि/२४/५३ चिरमभावितरत्नत्रयाणामन्तर्भुवृत्तकाल-भावनाना सिद्धिरिष्यते तर्कि चिरभावनयेत्यस्योत्तरमाचन्दे— 'पुत्रमभाविदजोगो आराधेज्ज मरणे जदि वि कोई। खण्णुगदिट्ठतो सो त खु पमाण ण सव्वत्थ १२४। = जिन्होंने बहुत काल-पर्यंत रत्नत्रयका आराधन नहीं किया परन्तु केवल अन्तर्भुवृत्त कालपर्यन्त ही आराधन किया है, उनको भी मोक्षलाभ हो गया है। अतः चिरकाल पर्यन्त रत्नत्रयकी भावना आवश्यक नहीं है। उत्तर— पूर्व कालमें जिस जीवने रत्नत्रयका कभी आराधन नहीं किया है, वह मरणसमय उसकी आराधना करले, ऐसा व्यक्ति स्थानुके दृष्टान्तका प्राप्त होता है। अर्थात् बिलकुल उस अन्धे व्यक्तिकी भाँति है जो कि अकस्मात् स्थानुसे सर टकरा जानेके कारण नेत्रवान हो गया है और साथ ही उस स्थानुकी जड़में पड़े रत्नका लाभ भी जिसे हो गया हो १२४।

७. अतः सल्लेखनाकी भावना व अभ्यास जीवन पर्यन्त करना योग्य है

भ आ/मू/१८-२१ जदि पयणस्स सारो मरणे आराहणा हवदि विट्ठा। किं दाइ सेसकाले जदि जइदि तवे चरित्ते य १९। आराहणाए कज्जे परियम्म सव्वदा वि य कायव्व। परियम्मभाविदस्स हु सुहसज्जकाराहणा हीइ ११६। जह गयकुत्तपसूओ जोग णिच्चमवि कुणइ परिकम्म। तो जिदकरणो जुइधे कम्मसमत्थो भविस्सदि हि १२०। इय सामण्ण साधु वि कुणदि णिच्चमवि जोगपरियम्म। तो जिदकरणो मरणे भागसमत्थो भविस्सति १२१। = प्रश्न—आगमकी सारभूत रत्नत्रयपरिणति मरणकालमें यदि होती हुई देखी जाती है तो उससे भिन्न कालमें चारित्र्य व तपश्चरण करने की क्या आवश्यकता है। १८। उत्तर—मरण समयमें रत्नत्रयकी सिद्धिके लिए सम्प्रदर्शनादि कारणकलाप सामग्रीकी अवश्य प्राप्ति कर लेना चाहिए, अर्थात् उसका सर्वदा अभ्यास करना योग्य है, क्योंकि ऐसा करनेवालेको मरण समयमें सुखपूर्वक अर्थात् बिना क्लेशके उस आराधनाकी सिद्धि हो जाती है। ११६। जैसे राजपुत्र शास्त्रविद्याका नित्य अभ्यास करता है और उसीसे वह युद्धमें उस प्रकारका कर्म करनेको समर्थ होता है, १२०। इसी प्रकार साधु भी आराधनाके योग्य नित्य अभ्यास करता है, इसीसे वह जितेन्द्रिय होता हुआ मरण समय ध्यान करनेको समर्थ हो जाता है। १२१।

पु सि उ/१७५-१७६ इयमेकैत्र समर्था धर्मस्व मे मया सम नेतुम्। सततमिति भावनोया पश्चिमसल्लेखना भक्त्वा। १७५। मरणान्तेऽवश्यमह विजिना सल्लेखना करिष्यामि। इति भावनापरिणतो नागतमपि पालयेदिदं शीलम्। १७६। = यह एक ही सल्लेखना मेरे धर्मरूपको धनको मेरे साथ ले चलनेको समर्थ है। इस प्रकार भक्ति करके मरणान्त सल्लेखनाको निरन्तर भावना चाहिए। १७५। मैं मरणकालमें अवश्य ही शास्त्रोक्त विधिसे समाधिमरण करूँगा इस प्रकार भावनारूप परिणति करके मरणकाल प्राप्त होनेके पहले ही यह सल्लेखनामत्त पालना चाहिए। १७६। (सा, ध/७/५७)

सा ध/५/१८-३१ सम्प्रभावितमार्गोऽन्ते स्यादेवाराधको यदि। प्रतिरोधि सुदुर्गिर किंचिन्नेदेति दुष्कृतम्। १८ प्रस्थिता यदि तीर्थाय गिरते वान्तरे तदा। अस्त्येवाराधको यस्माद्भावना भवनाशिनी १३१। = यदि कोई दुर्गिरा प्रतिरोधी कर्म उदयमें न आवे तो सम्यक् प्रकारसे पूर्वमें भावित रत्नत्रयके कारण वह अन्तकालमें अवश्य ही

आराधक होता है। १८। तीर्थ क्षेत्र या निर्यापकके प्रति प्रार्थना कर दिया है गमन जिसने, ऐसा व्यक्ति यदि मार्गमें मरणको प्राप्त हो जाये तो भी उस भावनाके कारण आराधक ही गिना जाता है, क्योंकि भावना भवनाशिनी होती है। ३०।

८. अन्त समय व जीवन पर्यन्तकी आराधनाका समन्वय

भ, आ./वि./१८/६८/६ मरणे या विराधना सा महतीं मसृत्तमानहति। अन्यदा जातायामपि विराधनायां मृतकाले रत्नत्रयोपगतीं समारो-च्छित्तिर्भवत्येव ततो मरणकाले प्रयत्नं कार्य इत्यन्माभिरुप-न्यस्तम्। इतरकालवृत्तं तु रत्नत्रयं सवरनिर्जरयोर्वातिकर्मणा च क्षयकारणनिमित्तं इतोध्यत एव। = मरण समयमें रत्नत्रयकी विराधना करनेसे विराधकको दीर्घकालतक मसारमें भ्रमण करना पड़ता है। परन्तु दीक्षा, शिक्षा आदि काल (दे काल) में विराधना हो गयी हो तो भी मरणकालमें रत्नत्रयकी प्राप्ति हो जानेसे मसारका नाश हो जाता है। अतः मरणकालमें रत्नत्रयमें परिणति करनी चाहिए। ऐसा हमारा अभिप्राय है। परन्तु इतर कालोंमें की गयी आराधना भी विफल नहीं होती, उससे कर्मका सवर व निर्जरा होती है, तथा घाती कर्मोंके क्षय करनेमें वह निमित्त होगी, ऐसा हम समझते हैं।

३. भक्तप्रत्याख्यान आदि विधि निर्देश

१. सल्लेखनामरणके व विधिके भेद

दे. मरण/१/४ [पण्डितमरण तीन प्रकार है—भक्तप्रत्याख्यान, इगिनी व प्रायोपगमन। भक्तप्रत्याख्यान दो प्रकार है—सविचार व अविचार। अविचार तीन प्रकार है—निरुद्धतर व परम निरुद्ध। निरुद्ध दो प्रकार है—प्रकाशरूप और अप्रकाशरूप।]

भ, आ/मू/१५५/३४२ किण्णु अप्पालदविची भत्तपडण्णेगिणी य परिहारो। पादोपगमणजिणकप्पिय च विहगमि पडिवण्णो १५५। = अथालन्द विधि, भक्तप्रतिज्ञा, इगिनीमरण, परिहार विशुद्धि, चारित्र्य, पादोपगमन, मरण और जिनकवपवस्था, इनमेंसे कौन-सी अवस्थाका आश्रय कर मे रत्नत्रयमें विहार करूँ ऐसा विचार करके माधुको धारण करने योग्य अवस्थाको धारण करके समाधिमरण करना चाहिए।

२. भक्त प्रत्याख्यान आदि तीनके लक्षण

ध १/१.१.२/३/४ तत्रात्मपरोपकारनिरपेक्षं प्रायोपगमनम्। आत्मप-कारसव्यपेक्ष परोपकारनिरपेक्ष इगिनीमरणम्। आत्मपरोपकारसव्य-पेक्ष भक्तप्रत्याख्यानमिति। = [भोजनका क्रमिक त्याग करके शरीरको कुश करनेकी अपेक्षा तीनों समान है। अन्तर है शरीरके प्रति उपेक्षा भावमें] तहाँ अपने और परके उपकारकी अपेक्षा रहित समाधिमरणको प्रायोपगमन विधान कहते हैं। जिस संन्यासमें अपने द्वारा किये गये उपकारकी अपेक्षा रहती है किन्तु दूसरेके द्वारा किये गये वेयावृत्त्य आदि उपकारकी अपेक्षा सर्वथा नहीं रहती, उसे इगिनी समाधि कहते हैं। जिस संन्यासमें अपने और दूसरे दोनोंके द्वारा किये गये उपकारकी अपेक्षा रहती है, उसे भक्तप्रत्याख्यान संन्यास कहते हैं। (भ आ/वि/२०६४/१८६१), (गो क/मू/६१/४७), (चा सा/१५४/४), (भा पा/टी/५२/१४६/१४)

भ आ/वि/२६/११३/६ पादा-प्राप्तुपगमन द्वैकन तेन प्रवर्तित मरण पादोपगमनमरणम्। इतरमरणयोरपि पादा-प्राप्तुपगमनमस्तोति त्रैवि-ध्यानुपपत्तिरिति चेन्न, मरणविदेषे वक्ष्यमाणलक्षण रूढिन्पेमायं प्रवर्तते। अथवा पाउगममरण इति पाठ। भवान्तररण-प्रायोग्य महान मन्थान च इह प्रायोग्यशब्देनोच्यते। अस्य गमन प्राप्ति, तेन कारणभूतेन यत्निर्वच्यं करण तदुच्यते पाउगममण-

मरणमिति । अग्रे सेव्यते इति भक्त, तस्य पहण्णा त्यागो भक्त-पहण्णा । इतरयोरपि भक्तप्रत्याख्यानसभवेऽपि रूढिवशान्मरणविशेषे एव शब्दोऽयं प्रवर्तते । इगिनीशब्देन इगितमात्मनो भग्यते स्वाभि-प्रायानुसारेण स्थित्वा प्रवर्तमान मरण इगिनीमरण । = पादोपगमन इसका शब्दार्थ, 'अपने पाँवके द्वारा सपसे निकलकर और योग्य प्रदेशमें जाकर जो मरण किया जाता है वह पादोपगमन मरण है । इतर मरणोंमें भी यद्यपि अपने पाँवसे चलकर मरण करना समान है, परन्तु यहाँ रूढिका आश्रय लेकर मरण विशेषमें ही यह लक्षण घटित किया है, इसलिये मरणके तीन भेदोंकी अनुपपत्ति नहीं बनती है । अथवा गद्यार्थमें 'पाओगगमनमरण' ऐसा भी पाठ है । उसका ऐसा अभिप्राय है कि भवका अन्त करने योग्य ऐसे सस्थान और सहननको प्रायोग्य कहते हैं । इनकी प्राप्ति होना प्रायाग्यगमन है । अर्थात् विशिष्ट सस्थान व विशिष्ट सहनन वाले ही प्रायोग्य अंगीकार करते हैं । भक्त शब्दका अर्थ आहार है और प्रतिज्ञा शब्दका अर्थ त्याग होता है । अर्थात् आहारका त्याग करके मरण करना वह भक्त-प्रत्याख्यान है । यद्यपि आहारका त्याग इतर दोनों मरणोंमें भी होता है, तो भी इस लक्षणका प्रयोग रूढिवश मरण विशेषमें ही कहा गया है । स्व अभिप्रायको इगित कहते हैं । अपने अभिप्रायके अनुसार स्थित होकर प्रवृत्ति करते हुए जो मरण होता है उसी को इगिनीमरण कहते हैं ।

३. तीनोंके योग्य सहनन काल व क्षेत्र

भ आ /वि /६४/११०/८ मरण सा चेव भक्तप्रत्याख्यानमृत्तिरेव । एदहिकाले । सहननविशेषमन्वितानां इतरमरणद्वय । न च सहनन-विशेषा वज्रश्रेयभनाराचादय अथत्वेऽसुप्तिसंक्षेत्रे सन्ति गणानां । यदि ते वर्तयित्तु इदानींतनानामसामर्थ्यं किं तदुपदेशेनेति चेदस्वरूपपरिज्ञानात्सम्यग्ज्ञान ।

भ, आ /वि /२०४/१७७६/१७ आद्येषु त्रिषु सहननेषु अन्यतमसहनन शुभसस्थानोऽथेद्यधृतिवचो जितकरणो जितनिद्रो नितरां शूर । = १. भक्तप्रत्याख्यान मरण ही इस कालमें उपयुक्त है । इतर दो अर्थात् इगिनी व प्रायोपगमनमरण सहनन विशेषे वालोंके ही हाते हैं । वज्रश्रेयभ आदि वे सहनन विशेष इस पंचमकालमें इस भरतक्षेत्रमें मनुष्योंमें हाते नहीं हैं । यद्यपि इगिनी व प्रायोपगमनकी सामर्थ्य इस कालमें नहीं है, फिर भी उनके स्वरूपका परिज्ञान करानेके लिए उनका उपदेश दिया गया है । २ इगिनीमरणके धारक मुनि पहिले तीन (अर्थात् वज्रश्रेयभ नाराच, वज्रनाराच और नाराच) सहननोंमें-से कोई एक सहननके धारक रहते हैं । उनका शुभ सस्थान रहता है । वे निद्राको जीतते हैं । महाबल व शूर रहते हैं ।

४. तीनोंके फल

भ आ /यू /गा, इयमुक्तास्त्रियमाराधनमणुपालेत्तु केवली भविया । लो गगसिहरवासी हवति सिद्धा धुयकिलेसा । १६२६। इयमङ्कममाराधनमणुपालित्ता शरीरय हिच्चा । हुति अणुत्तरवासी देवा सुवि-सुद्धलेस्सा य १६३३। दसणणणचरित्ते उकिद्धा उत्तमोपधाणा य । षरियायहपडिवण्णा हवति लसत्तमा देवा । १६३४। जे वि हु जहणिय तेउलेस्समाराहण उवणमति । ते वि हु सोधम्ममाइसु हवति देवा ण हेट्टणला १६४०। एवमथक्खादविधि साधित्ता इगिणी धुदकिलेसा । सिउकति केइ केई हवति देवा विमाणेसु । २०६१। = इस प्रकार भक्तप्रत्याख्यानकी उत्कृष्ट आराधनाका पालन कर केवलज्ञानको प्राप्त कर लेते हैं । सम्पूर्ण कर्मवशेषसे मुक्त होकर लोकत्रय शिखरवासी सिद्ध परमेष्ठी होते हैं । १६२६। उसी भक्तप्रत्याख्यानकी मध्यम आराधनाका पालन कर शरीरका त्याग करनेवाले मुनिराज विशुद्ध लेश्याको धारण कर अर्थात् उत्कृष्ट शुक्ललेश्याके स्वामी बनकर अनुत्तरवासी देवोंमें उत्पन्न होते हैं । १६३३। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-

चारित्र्य पालनेमें पूर्ण दक्ष, उत्कृष्ट तप ध्यान योगीश्र नियमोंके धारक, ईर्ष्यापथका जिन्होंने प्राप्त किया है अर्थात् तपव्रतवासी देवत्वकी प्राप्ति योग्य शुभास्यको जा प्राप्त हो गये है ऐसे मुनिगण लसत्तम देव होते हैं । अर्थात् मरकर नवग्रहैयक, अनुदिश विमानमें रहनेवाले देव हो जाते हैं । १६३४। तेजोलेश्याके धारक ऐसे क्षणिकी भक्तप्रत्याख्यान आराधनाको जघन्य आराधना कहते हैं । इस आराधनाके आगधक क्षणिकी सीधर्मादिक स्वर्गमें देव होते हैं । इन देवोंसे हीन देवोंमें इनका जन्म नहीं होता । १६४०। यहाँ तक जा इगिनी मरणकी विधि कही है, उसको सिद्ध करके कोई मुनि सम्पूर्ण कर्मवशेषोंको दूर करके मुक्त होते हैं । और कोई वैमानिक देव होते हैं । २०६१।

५. भक्त प्रत्याख्यानकी जघन्य व उत्कृष्ट कालावधि

भ आ /यू २६२/४७४ उत्कृष्टेण भक्तपहण्णाकालो जिणेहि णिहिट्टो । कालम्मि सपहुत्ते पारसवरिसाणि पुण्णाणि २५२। = आयुष्काल अधिक होने पर अर्थात् भक्त प्रतिज्ञाका उत्कृष्ट कालप्रमाण जिनेश्र भगवातुने बारह वर्ष प्रमाण कहा है । २६२।

घ १/१९,१/२४/१ तत्र भक्तप्रत्याख्यान त्रिविधं जघन्यारुष्टमध्यम-भेदात् । जघन्यमन्तर्मुहूर्तप्रमाणम् । उत्कृष्टभक्तप्रत्याख्यान द्वादश-वर्षप्रमाणम् । मध्यमेतवारन्तरालमिति । = भक्तप्रत्याख्यान विधि जघन्य, मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे तीन प्रकारकी है । जघन्यका प्रमाण अन्तर्मुहूर्तमात्र है । उत्कृष्टका बारह वर्ष है । इन दोनोंके अन्तरालवर्ती सर्व कालप्रमाण मध्यम भक्तप्रत्याख्यानका है । (गोक १/६६-६०/४७), (चा सा १/६४/४) ; (अन, घ २/१०१/७२६)

६. साधुओंके लिए भक्त प्रत्याख्यानकी सामान्य विधि

सू आ /१०६-१११ सव्य पाणारभं पञ्चवलाभि जनीयत्रयण च । सव्वम-दत्तादाण मेणुण परिगहं चैत्र १२०६। सम्म मे सव्वभूदेसु वैर मज्जं ण केण वि । आसाए वत्तरित्ताण समाधिं पडिवज्ज १११०। सव्व आहारविहिं सण्णाओ आसाए कसाए य । सव्व चैय ममात्ति जहामि सव्वं खमावेमि ११११। = मक्षेपसे प्रत्याख्यान करनेवाला ऐसी प्रतिज्ञा करता है, कि मे सर्व प्रथम हिंसादि पाँचों पापोंका त्याग करता हूँ । १०६। मेरे सब जीवोंमें समता भाव है, किसीके साथ भी मेरा वैर नहीं है इसलिए मैं सर्व आर्काशाओंको छोड़कर समाधि (शुद्ध) परिणामको प्राप्त होता हूँ । १११० में सब अन्नपान आदि आहारकी अवधिको, आहार सजाको, सम्पूर्ण आशाओंका, कर्पायोंका और सत्र पदार्थोंमें ममत्व भावका त्याग करता हूँ । ११११। (दे सत्कार/२ में ३१वीं क्रिया)

दे. सल्लेखना/३/६ [जीवितका सम्बन्ध होने पर तो 'उगसर्ग टलने पर पारणा कर खूँगा' ऐसा आहारत्याग करता है, और मरण निश्चित होने पर सर्वथा आहारका त्याग करता है ।]

७. समर्थ श्रावकोंके लिए भक्त प्रत्याख्यानकी सामान्य विधि

र क आ /१२४-१२८ स्नेह वैर सग परिग्रहं चापहाय शुद्धमना । स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियवचनं १२४। आलोच्य सर्वमेन कृतकारितमनुमत च निर्वर्जज । आरोपयेन्महात्रतमामरण-स्थायि निश्चोप १२५। शोक भयमवसाद वलेद नालुप्यमरतिमपि हित्वा । सचोस्साहमुदीर्यं च मन प्रसाय श्रुतैरमृते १२६। आहार परिहाप्य क्रमशः स्निग्ध विषद्वं येत्पान । स्निग्ध च ह्यपयित्वा खरपानं पूर्येकमश १२७। खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्यता । पञ्चनमस्कारमनास्तनु त्यजेरसर्वयत्नेन १२८। = [सल्लेखना धारण करनेवाला शीत उष्णमें हर्ष विषादन करे—(चा सा)] स्नेह, वैर, परिग्रहको छोड़कर शुद्ध होता हुआ प्रिय वचनोंसे अपने

कुटुम्बियों और चारोंसे भी क्षमा करावे और आप भी सजको क्षमा करे। १२४। छलकण्ठ रहित और कृत कारित अनुमोदना सहित किये हुए समस्त पापोंकी आलोचना करके मरण पर्यन्त रहनेवाले समस्त महाव्रतोंको धारण करे। १२५। शोक, भय, विपाद, राग क्लृप्तता और अरतिको त्याग करके तथा अपने बल और उत्साहको प्रगट करके ससारके दुःखरूपी सतापको दूर करनेवाले अमृतरूप शास्त्रोंके श्रवणसे मनका प्रसन्न करे। १२६। क्रम क्रमसे आहारको छोड़कर दुग्ध वा छाछको बढावे और पीछे दुग्धादिकको छोड़कर काजी और गरम जलको बढावे। १२७। तदपश्चात् उष्ण जनपानका भी त्याग करके और शत्रुयनुसार उपवास करके पचनमस्कार मन्त्रको मनमें धारण करता हुआ शरीरको छाडे। १२८। (चा सा ४८/२), (सा, ध ५/१७ ६२, ६४, ६७), (विशेष दे सल्लेखना/८)।

८. असमर्थ श्रावकोंके लिए भक्तप्रत्याख्यानकी मामान्य विधि

बसु आ/२७१-२७२ धरिऊण वस्थमेत परिगृह्य छडिऊण जइसेस। सिगिहे जिणालए वा तिबिहाहारस्स बोसरण। २७१। ज कुणइ गुरुमयासम्मि सम्ममालोइऊण तिबिहेण। सल्लेखण चउत्थ मुत्ते सिक्खवावय भणिय। २७२। = [उपरोक्त दोनों शीर्षकोंमें कथित राग द्वेषका त्याग, समता धारण और परिजनों आदिसे क्षमा आदिकी यहाँ भी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए] वस्त्रमात्र परिग्रहको रखकर और अवशिष्ट समस्त परिग्रहको छोड़कर अपने ही घरमें अथवा जिहालयमें रहकर जो श्रावक गुरुके समीपों मन वचन कायसे अपनी भले प्रकार आलोचना करके पानके सिगाय शेष तीन प्रकारके आहारका (खाद्य, स्वाद्य और लेह्य इन तीनका) त्याग करता है, उसे उपासकाध्ययन सूत्रमें सल्लेखना नामका चौथा शिक्षाव्रत कहा गया है। २७१-२७२।

सा, ध ८/६६ = त्राध्याच्योक्षयाम्पो वा समाध्यर्थं विरक्षयेत्। भृश शक्तिभूये जह्यात्तदप्यासत्रमृत्युक ६६। = व्याधि आदिकी अपेक्षासे समाधिमें निश्चल होनेके लिए उस क्षपकको गुरुकी आज्ञानुसार केवल पानी पीनेकी प्रतिज्ञा रख लेनी चाहिए। और मृत्युका समय निकट आनेपर जब शरीरकी शक्ति अत्यन्त क्षीण हो जाय तब उसे जलका भी त्याग कर देना चाहिए। ६६। (और भी दे सल्लेखना/४/६/३)।
दे मरण/१/४ [बिना सल्लेखना धारण किये अपने घरमें ही सस्तरारूढ हो साम्यता पूर्वक शरीरको त्यागना बालपण्डित मरण है]।

९. मृत्युका संशय या निश्चय होनेकी अपेक्षा भक्तप्रत्याख्यान विधि

सू आ/११२-११४ एदम्हि देसयाले उवरकमो जीविदस्स, जदि मज्झ। एद पच्चक्खणणि तिथिण्णे पारणा होज्ज। ११२। सच्च आहारविहि पच्चक्खणामो य पाणय वज्ज। उवहि च बोसरामि य बुविरे तिबिहेण सानज्ज। ११३। जो कोइ मज्झ उवधी सच्चत्तरवाहिरो य हवे। आहार च सरीर जावाजेव य बोसरे। ११४। = जीवितमें सन्देह होनेकी अवस्थामें ऐसा विचार करे कि इस दशमें इस कालमें मेरा जीनेका सद्भाव रहेगा तो ऐसा त्याग है कि जब तब उपसर्ग रहेगा तब तब आहारआदिकका त्याग है। उपसर्ग दूर होनेके पश्चात् यदि जीवित रहा तो फिर पारणा करूंगा। ११२। [पर जहाँ निश्चय हो जाय कि इस उपसर्गादिमें मैं नहीं जो सकूंगा यहाँ ऐसा त्याग करे।] मे जनको छोड़ अन्य तीन प्रकारके आहारका त्याग करता है। बाल्य और अल्पन्तर दानों प्रकारके परिग्रहको तथा मन वचन कायकी पाप क्रियाओंको छोड़ता है। ११३। जो कुत्र मेरे अल्पन्तर बाल्य परिग्रह है उसे तथा चारों प्रकारके आहारोंको और अपने शरीरको यावज्जीवन छोड़ता है। यहाँ उक्तार्थ त्याग है। ११४।

१० सविचार व अविचार भक्त प्रत्याख्यानके सामान्य लक्षण व स्वामी

भ आ/वि/६५/१६२/६ द्विविधमेव भक्तप्रत्याख्यान। सविचारमथ अविचार इति। विचरण नानागमन विचार। विचारेण वर्तते इति सविचार एतदुक्त भवति। वक्ष्यमाणार्हं निडगादिविकल्पेन महित भक्तप्रत्याख्यान इति। अविचार वक्ष्यमाणार्हं दिनानाप्रकाररहित। भवतु द्विविध। सविचारभक्तप्रत्याख्यान कस्य भवति इत्यस्मीत्तर। सविचार भक्तप्रत्याख्यान अणागाढे सहसा अनुपस्थिते मरणे चिरकालभाविनि मरणे इति यावत्। मपरकमस्म सह पराक्रमेण वर्तते इति सपराक्रमस्तस्य भवे भवेत्। पराक्रम उन्माह एतेनैव सहमोपस्थिते मरणे पराक्रमरहितस्य अविचारभक्तप्रत्याख्यान भवतीति लभ्यते यतो विचारभक्तप्रत्याख्यान अस्य उस्मिन्मले इति सूत्रे नोक्त। = भक्तप्रत्याख्यानमरणके सविचार व अविचार ऐसे दो भेद हैं। तहाँ नाना प्रकारसे चारित्र पालना, चारित्रमें विहार करना विचार है। इस विचारके अर्थ, लिंग आदि ४० अधिकांग हैं जिनका विवेचन आगे करेंगे (दे, सल्लेखना/४) उस विचारके साथ जो वर्तता है वह सविचार है और जो उन अर्थ लिंगादि रूप विचारके विकल्पोंके साथ नहीं वर्तता सो अविचार है। तहाँ जो गृहस्थ अथवा मुनि उत्साह व बलयुक्त है और जिसका मरणकाल सहसा उपस्थित नहीं हुआ है अर्थात् जिसका मरण दीर्घकालके अनन्तर प्राप्त होगा ऐसे साधुके मरणको सविचारभक्तप्रत्याख्यान मरण कहते हैं। जिसको सामर्थ्य नहीं है और जिसका मरणकाल सहसा उपस्थित हुआ है ऐसे पराक्रमरहित साधुके मरणको अविचारभक्त प्रत्याख्यान कहते हैं। [तहाँ सविचार विधि तो आगे सल्लेखना/४ के अन्तर्गत पृथक्से सविस्तार दी गयी है और अविचार विधि निम्न प्रकार है।]

११ अविचार भक्तप्रत्याख्यान विधि

भ आ/सू/२०११-२०२४ तस्य अविचारभक्तपट्टणा मरणम्भि होइ आगाढो। अपरकमस्स मुणिणो कालम्मि अस पुहत्तम्मि। २०११। तस्य पढम गिरुद्ध गिरुद्धतरय तथा हवे विदिय। तदिय परमणिर्दुध एव तिबिध अवीचार। २०१२। तस्स गिरुद्ध भणिद रोगादेकेहि जो समभिभूदो। जघाबलपरिहीणो परणणमणम्मि ण समथो। २०१३। इय सणिर्दुधमरण मणिय अणिहारिम अवीचार। सा चेव जघाजोगं पुच्चुत्तविधी हवदि तस्स। २०१४। बुविटं त पि अणीहारिम पगास च अप्पगास च। जणणाद च पगास इदं च जणेण अणणाद। २०१६। खवयस्स चित्तसार खित्त काल पडुच्च मज्जण वा। जणम्मि य तारिसयम्मि कारणे अप्पगास तु। २०१७। बालगिग्घमहिमगयरिद्ध पडिणोय तेण मेच्छेहि। मुच्छाविसुचियादीहि होज्ज सज्जो हु वावत्ती। २०१८। जाव ण वाया खिप्पाद बल च विरिय च जाव कार्यम्मि। तिब्वाए वेदणाए जाव य चित्त ण विक्खत्त। १२१६। णच्चा सवटिज्ज तमाउग सिग्घमेव तो भिवत्तू। गणिगादोण सणिहिदाण आलोचए सम्म। २०२०। एव गिरुद्धतरयं विदिय अणिहारिम अवीचार। सो चेव जघाजोगे पुच्चुत्तविधी हवदि तस्स। २०२१। बालादिहं जइया अगिलत्ता होज्ज भिग्गुणा वाया। तइया परमणिर्दुध भणिद मरणं अवीचार। २०२२। णच्चा मवटिज तमाउग सिग्घमेव तो भिवत्तू। अरहनसिद्धयसाहूण अतिगे सिग्घमालाचे। २०२३। आराधणाविधी जो पुच्च उववणिदो नवित्थारो। सो चेव जुज्जमाणो एत्थ विही टादि णाट्ठो। २०२४। = पराक्रमरहित मुनि को सहसा मरण उपस्थित होनेपर अविचारभक्त प्रत्याख्यान करना योग्य है। २०१२। वह तीन प्रकारका है—निर्द्वन्द्व, निरुद्धतर व परमनिरुद्धतर व परमनिरुद्ध। २०१२। रोगोंमें पीडित होनेके कारण जिसका जघावन क्षीण हो गया है और जो परमणमें जानेको समर्थ नहीं है, वह मुनि निरुद्ध अविचार भक्तप्रत्याख्यान

करते है। १२०१३। यह मुनि परगणमें न जाकर स्वगणमें ही रहता हुआ यथायोग्य पूर्वाक्त अर्थात् सविचार भक्तप्रत्याख्यान बाली विधिका पालन करता है। १२०१५। इसके दो भेद हैं—प्रकाश और अप्रकाश। जो अन्य जनकि द्वारा जाना जाय वह प्रकाशरूप है और जो दूसरोंके द्वारा न जाना जाय वह अप्रकाशरूप है। १२०१६। क्षपकका मनोचन अर्थात् धैर्य, क्षेम, कान, उसके बान्धव आदि कारणाका विचार करके क्षपकके उस निरुद्धाविचार भक्तप्रत्याख्यानको प्रगत करते है अथवा अपगत करते हैं। अर्थात् अनुकूल कारणके होनेपर तो वह मरण प्रगत कर दिया जाता है और प्रतिकूल कारणोंके होनेपर प्रगत नहीं किया जाता। १२०१७। सर्प, अग्नि व्याघ्र भैंसा, हाथी, रीछ, शत्रु, चोर, म्नेच्छ, मूच्छर्ष, तीव्र शूनरोग इत्यादिसे तरकाल मरणका प्रसंग प्राप्त होनेपर। १२०१८। जन तक वचन व कायवल शेष रहता है और जन तक तत्र वेदनामे चित्त आकुलित नहीं होता। १२०१९। तत्र तक आयुष्यको प्रति क्षण क्षीण होता जानकर शीघ्र ही अपने गणके आचार्य आदिके पास अपने पूर्व दोषोंकी आलोचना करनी चाहिए। १२०२०। इस प्रकार निरुद्धतर नामके दूसरे अविचार भक्त प्रत्याख्यानका स्वरूप है। इमें भी यथा योग्य पूर्वाक्त अर्थात् सविचार भक्त प्रत्याख्यानबाली सर्व विधि (दे सल्लेखना/४) होती है। १२०२१। व्याघ्रादि उपरोक्त कारणोंसे पीडित साधुके शरीरका बल और वचन नल यदि क्षीण हो जाय तो परमनिरुद्ध नामका मरण प्राप्त होता है। १२०२२। अपने आयुष्यको शीघ्र ही क्षीण होता जान वह मुनि शीघ्र ही मनमें अर्हन्त व सिद्ध परमेष्ठीको धारण करके उनसे अपने दोषोंकी आलोचना करे। १२०२३। आराधना विधिका जो पूर्वमें सविस्तार वर्णन किया है अर्थात् सविचार भक्तप्रत्याख्यान विधि (दे सल्लेखन/४) उद्योगको ही यहाँ भी यथायोग्य रूपसे योजना करनी चाहिए। १२०२४।

१२ इगिनी मरण विधि

भ आ/मू/१०३०-२०६१/१७७३ जो भक्तपदिण्णाए उवक्कमो वणिण्णो सत्तिथारो। सो चैत्र जघाजोगो उवक्कमो इगिणीए वि। १२०३०। निष्पादित्ता मगण इगिणिविधिसाधणाए परिणमिया। १२०३२। परियाडगमालोचिय अणुजाणित्ता दिसं महजणस्स। तिविधेण खमावित्ता सनलपुट्टुडाउल गच्छ। १२०३३। एवं च शिक्कमित्ता अतो वार्हि च थडिले जोगे। पुट्टुविसिलाए वा अप्पण णिज्जे एको। १२०३४। पुट्टुताणि तणाणिय जाचित्ता थडिलम्मि पुट्टुत्ते। जदणाए सथरित्ता उत्तरसिरमध्न पुट्टुसिर। १२०३६। अग्गादिअतिग तो किच्चा आलोचण सुपरिसुद्ध। दसणणाणचरित परिसारेवुण णिस्सेस। १२०३८। सव्व आहारविधि जावज्जीवाय वोसरित्ताण। वोसरिदुण असेस अम्भतरवाहिरे गये। १२०३९। ठिच्चा णिमिदित्ता वा तुवट्टिदुणव सकायपडिचरणं। मयमेव गिरुवसग्गे कुणदि विहारम्मि सो भयम्। १२०४१। समयेण अप्पणो सो करेदि आउटगादि किरियाओ। उच्चागदीणि तथा समयेव विक्किच्चे विधिणा। १२०४२। मव्वो पोगल्लाअा दुक्खत्ताए जदि तमुवणमेज्ज। तत्रवि य तस्स ण जायदि उक्काणस्स विसोत्तिया को वि। १२०४४। सव्वो पोगगनकाओ सोक्खत्ताए जदि वि तमुवणमेज्ज। तथ वि हू तस्स ण जायदि उक्काणस्स विसोत्तिया को वि। १२०४५। वायणपरियट्टणपुच्छणाओ मोत्तूण तथय वम्मथुदि। सुत्तच्छपोरिसीसु वि सरदि सुत्तरथमेय मणा। १२०४६। एव अट्ठवि जामे अनुट्टो तच्च उक्कादि एयमणी। जदि आत्ता णिहा इविज्ज सो तथ अदिण्णो। १२०४७। मज्जाय-वानपडिनेहगादिआओ ण मति किरियाओ। जग्हा सुगामउक्के तस्स य फाण अपडिसिद्ध। १२०४८। आधामग च कुणदे उवधो-रुत्तम्मि ज जहि कमदि। उवकरण पि पडिसिद्ध उवधोकात्तम्मि जदणाए। १२०४९। चादे कटयमादि अच्चिम्मि रजादिय जदावेज्ज। गच्छदि अवाविधि मो परिणीहरणे य तुसिणीओ। १२०५०। वेउव्वण-

महारयचारणखीरासजादिलदीसु। तवणा उप्पण्णासु वि विरागभा-वेण सेवदि सो। १२०५५। माणाभग्गण्णिदिदो रोगादकादिवेदणाहेदु। ण कुणदि पडिकार सो तहेण तण्हाइहादीण। १२०५६। उवपसा पुण आहरियाण इगिणियदो वि छिण्णवधो। देवेहि मापुणेहि व पुट्टो धम्म कधेदित्ति। १२०६०। =भक्त प्रतिष्ठामें जो प्रयोगविधि कही है (दे सल्लेखना/४) वही यथा सम्भव इस इगिनीमरणमें भी समझनी चाहिए। १२०६०। अपने गणको साधुआचरणके योग्य बनाकर इगिनी मरण साधनेके लिए परिणत होता हुआ, पूर्व दोषोंकी आलोचना करता है, तथा मधका त्याग करनेमें पहिले अपने स्थानमें दूसरे आचार्यकी स्थापना करता है। तत्पश्चात् बाल वृद्ध आदि समी गणसे क्षमाके लिए प्रार्थना करता है। १२०३२-१२०३३। स्वगणसे निकलकर अन्तर बाहरमें समान ऊँचे व ठोम स्थानका प्राश्य लेता है। वह स्थान निर्जन्तुक पृथिवी या शिनामयी होना चाहिए। १२०३४। ग्राम आदिसे याचना करके नाये हुए तृण उम पूर्वाक्त स्थान पर यरनपूर्वक बिछा कर सस्तर तैयार करे जिमका सिराहना पूर्व या उत्तर दिशाकी ओर रहे। १२०३६। तदनन्तर अर्हन्त आदिकोंके समीप सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यमें लगे दोषोंकी आलोचना करके रत्नत्रयको शुद्ध करे। १२०३८। सम्पूर्ण आहारोंके विकल्पोंका तथा बाह्य-भ्रन्तर परिग्रहका यावज्जीवन त्याग करे। १२०३९। कायोत्सर्गसे लडे होकर, अथवा बैठकर अथवा लेट कर एक कर्बटपर पडे हुए वे मुनिराज स्वयं ही अपने शरीरकी क्रिया करते हैं। १२०४१। शीघ्र व प्रतिस्लेखन आदि क्रियाएँ स्वयं ही करते हैं। १२०४२। जगदके सम्पूर्ण पुद्गल दु खरूप या सुख रूप परिणमित होकर उनको दु खी सुखी करनेको उद्यत होंवे तो भी उनका मन ध्यानसे च्युत नहीं होता। १२०४७-२०४८। वे मुनि याचना पृच्छना परिवर्तन और धर्मोपदेश इन सबोंका त्याग करके सूत्रार्थका अनुभूतार्थक स्वाध्याय करते है। १२०५२। इस आठों पहलोंमें निद्राका परित्याग करके वे एकप्रय मनसे तत्त्वोंका विचार करते हैं। यदि बनात निद्रा आ गयी तो निद्रा लेते है। १२०५३। स्वाध्याय नल और शुद्धि वगैरह क्रियाएँ उनको नहीं है। शमशानमें भी उनको ध्यान करना निषिद्ध नहीं है। १२०५४। यथाकाल पढावप्रयक कर्म नियमित रूपसे करते है। सूर्योदय व सूर्यास्तमें प्रयत्न पूर्वक उपकरणोंकी प्रतिस्लेखना करते है। १२०५५। पैरोंमें काँटा चुभने और नेत्रमें रजकण पड जानेपर वे उसे स्वयं नहीं निकालते। दूसरोंके द्वारा निकाला जानेपर मौन धारण करते है। १२०५६। तपके प्रभावसे प्रगटी वैक्रियक आदि ऋद्रियोंका उपयोग नहीं करते। १२०५८। मौन पूर्वक रहते हैं। रोगादिकोंका प्रतिकार नहीं करते। १२०५९। किन्हीं आचार्योंके अनुसार वे कदाचित् उपदेश भी देते है। १२०६०। वे अगला शीर्षक/अन्तिम गाथा- [कोई मुनि कायोत्सर्गसे और कोई दीर्घ उपवाससे शरीरका त्याग करते ?

१३. प्रायोपगमन मरण विधि

भ आ/मू/२०६३-२०७१/१६७० पाओवगमणमरणस्स हादि सो चैत्र बुवक्कमो सव्वो। बुत्तो इगिणीमरणस्युक्कमो जो सवित्थारो। १२०६३। णवरि तरणसथारो पाओवगदस्स होदि पडिसिद्धो। आदपरपओगेण य पडिसिद्ध मव्वपरियम्म। १२०६४। सो सम्त्तेहिददेदो जग्हा पाओ-वगमणसुवजादि। उच्चागदिविक्किचणमवि गत्थि पवोगदो तम्हा। १२०६५। पुट्टवी आउत्तेऊवणक्कदित्तमेसु जदि वि साहरिदो। वोमट्त्तदेहो अथाउग पानए तथ। १२०६६। मज्जणयगधपुक्को-यारपडिचारणे विरते। वोसट्टवत्तदेहो अथाउग पालए तथवि। १२०६७। वोमट्टवत्तदेहो दु णित्तिखवेज्जो जहि जघा उगं। जावज्जीव तु सय तहि तमग ण चालेज्ज। १२०६८। एव णिप्पडियम्म भणत्ति पाओवगमणमरहता। णियमा अणिहार त सया णीहारसुवसणे

१२०६६। उवसगण य साहरिदो सो अण्णत्थ कुणदि ज काल । तम्हा युत्त णीहारमदो अण्ण अणीहार' १२०७०। पडिमापडिवण्णा वि हु करति पाओवगमणमपेगे १२०७१। = इगिनीमरणमें जो सविस्तार विधि कही है वही प्रायोपगमनमें भी समझनी चाहिए १२०६३। इतनी विशेषता है कि यहाँ तृणके सस्तरका निषेध है, क्योंकि यहाँ स्व व पर दोनोंके प्रयोगका अर्थात् शुभ्रूपा आदिका निषेध है १२०६४। ये मुनि अपने मूत्र व विष्टा तकका भी निराकरण न स्वयं करते हैं और न अन्यसे कराते हैं १२०६५। सचित्त, पृथिवी, अग्नि, जल, वनस्पति व त्रस जीवनिकायोंमें यदि किसीने उनको फेंक दिया तो वे शरीरसे ममत्व छोड़ कर अपनी आयु समाप्ति होने तक वहाँ ही निश्चल रहते हैं १२०६६। इसी प्रकार यदि कोई उनका अभिषेक करे या गध पुष्पादिसे उनकी पूजा करे तो वे न उनके ऊपर क्रोध करते हैं, न प्रसन्न होते हैं और न ही उनका निराकरण करते हैं १२०६७। जिसके ऊपर इन मुनिने अपना अंग रख दिया है, उसपरसे यावज्जीव वे उस अंगको बिलकुल हिलाते नहीं हैं १२०६८। इस प्रकार स्व व पर दोनोंके प्रतिकारसे रहित इस मरणको प्रायोपगमनमरण कहते हैं। निश्चयसे यद्यपि यह मरण अनीहार अर्थात् अचल है परन्तु उपसर्गकी अपेक्षा इसको चल भी माना जाता है १२०६९। उपसर्गके वश होनेपर अर्थात् किसी देव आदिके द्वारा उठाकर अन्यत्र ले जाये जानेपर स्वस्थानके अतिरिक्त यदि अन्यस्थानमें मरण होता है तो उसको नीहारप्रायोपगमन मरण कहते हैं और जो उपसर्गके अभावमें स्वस्थानमें ही होता है उसको अनीहार कहते हैं १२०७०। कायोत्सर्गको धारण कर कोई मुनि प्रायोपगमन मरण करते हैं, और कोई दीर्घकालतक उपवास कर इस मरणसे शरीरका त्याग करते हैं। इसी प्रकार इगिनी मरणके भी भेद समझने चाहिए १२०७१।

४. सविचार भक्तप्रत्याख्यान विधि

१ इस विषयके ४० अधिकार

भ आ./धू/६६-७०/१६३ सविचारभक्तपचचत्वाणस्सिणमो उवक्कमो होइ । तत्थ य सुत्तपदाइ चत्ताल होंति गेयाइ १६६। अरिहे लिंगे सिमला विणय समाधो य अणियदविहारे । परिणामोवधिजहणा सिदो य तट भावणाओ य १६७। सल्लेहणा दिसा खामणा य अणुसिट्ठ परगणे चरिया । मग्गण सुट्ठिम उवसपया य पडिद्धा य पडिलेहा १६८। आपुच्छा य पडिच्छणमेगत्सालोयणा य गुणदोसा । सेज्जा मथारो वि य णिज्जवग पयासणा हाणी १६९। पचचत्वाण खामण खमण अणुसिट्ठसारणाक्वचे । समदाज्जाम्णे लेत्सा फल बिजहणा य गेयाइ १७०। = सविचार भक्तप्रत्याख्यानके वर्णन करनेमें चालीस सूत्र या अधिकार जानने चाहिए १६६। [जिनके नाम व मक्षिप्त लक्षण निम्न प्रकार हैं] ।

सं	नाम	लक्षण (भ. आ /वि /६७-७०)
१	अर्ह	अगले अधिकारोंको धारण करनेके योग्य व्यक्ति ।
२	लिंग	शिक्षा विनय आदि रूप साधन सामग्रीके चिह्न ।
३	शिक्षा	ज्ञानोपार्जन
४	विनय	ज्ञानादिके प्रति विनय होना
५	समाधि	मनकी एकाग्रता
६	अनियत विहार	अनियत स्थानोंमें रहना
७	परिणाम	कर्तव्य परायणता
८	उपाधि त्याग	बाह्यान्तर परिग्रहका त्याग
९	श्रिति	शुभ परिणामोंकी उत्तरोत्तर उन्नति ।
१०	भावना	उत्तरोत्तर उत्तम भावनाओंका अभ्यास
११	सल्लेखना	कषाय व शरीरका कृश करना
१२	दिक्षा	अपने स्थानपर स्थापित करने योग्य बालाचार्य ।
१३	क्षमणा	अन्योन्य क्षमाकी याचना करना ।
१४	अनुशिष्टि	आगमानुसार उपदेश करना ।
१५	परगणचर्य	अपना सघ छोड़कर अन्य सघमें जाना ।
१६	मार्गण	समाधिमरण करानेमें समर्थ आचार्यकी खोज ।
१७	सुस्थित	परीपकार तथा आचार्य पद योग्य कार्य करनेमें प्रवीण गुरु ।
१८	उपसंपदा	आचार्यके चरणमूलमें गमन करना ।
१९	परीक्षा	उत्साह, अभिलाषा, परिचारक गण आदिकी परीक्षा करना ।
२०	प्रतिलेखन या निरूपण	राज्य देश आदिका शुभाशुभ अवलोकन ।
२१	पृच्छा	सग्रहसे अनुग्रहकी अनुज्ञा प्राप्त करना ।
२२	एक सग्रह	प्रतिचारक मुनियोंकी स्वीकृति पूर्वक एक आराधकका ग्रहण ।
२३	आलोचना	गुरुके आगे अपने अपराध कहना ।
२४	गुण दोष	आलोचनाके गुण दोषोंका वर्णन ।
२५	शय्या	आराधक योग्य वसतिका ।
२६	सस्तर	आराधक योग्य शय्या ।
२७	निर्यापक	सहायक आचार्य आदि ।
२८	प्रकाशन	अन्तिम आहारको दिखाना ।
२९	हानि	क्रमसे आहारका त्याग ।
३०	प्रत्याख्यान	जलके अतिरिक्त तीन प्रकारके आहारका त्याग ।
३१	क्षमण	आचार्य आदिसे क्षमाकी याचना ।
३२	क्षपणा	प्रतिक्रमण आदि द्वाग कर्मोंका क्षय ।
३३	अनुशिष्टि	आचार्य द्वारा उचित मुनिको उपदेश ।
३४	सारणा	दुःख पीडित मोह ग्रस्त साधुको सचेत करना ।
३५	क्वच	क्षपणको बेराग्योत्पादक उपदेश देना ।
३६	समता	जीवन मरण लाभ अलाभके प्रति उपेक्षा ।
३७	ध्यान	एकाग्रचिन्तानिरोध ।
३८	लेशया	कषायानुरञ्जित योग प्रवृत्ति ।
३९	फल	आराधनासे प्राप्त फल ।
४०	शरीर त्याग	आराधकका शरीर त्याग ।

२ इन अधिकारोंका कथन क्रम

नोट—[उपरोक्त ४० अधिकारोंमें सर्लेखना धारणेकी विधिका क्रमसे व्याख्यान किया गया है। तहाँ न० १—११, १७, १८, २०, २१, व २४ ये अधिकार अन्वर्थक होनेसे सरल है। न० १२, १३ १४, २३, २६, ३०, ३१, ३२, ३६, ३७ इनका कथन सर्लेखना/४ में किया गया है। न० १६, २२, २७, २८, ३४ व ३५ का कथन सर्लेखना/५ में, न० ३८ का सर्लेखना/१ में और न० ३६ व ४० का सर्लेखना/६ में किया गया है।]

३ आचार्य पदव्याग विधि

भ आ/मू/२७२-२७४ सर्लेखन करेते यदि आयरिओ हवेज्ज तो तेण। ताए वि अरथाए चितेदव्व गणस्स हिय १२७३। काल सभा-वित्ता सव्वगमपुद्दिस च वाहरिय। सोमत्तिहिकरणणत्तवत्तलगे मगलोगसे १२७३। गच्छाणुपालणस्थं आहोइय अत्तगुणसम भिक्खू। तो तम्मि गणत्रिसग्ग अण्वकहाए कुणदि धीरो १२७४।—सर्लेखना करनेके लिए उद्द्युक्त हुआ क्षपक यदि आचार्य पदवीका धारक होगा तो उसको क्षपककी अवस्थामें भी अर्थात् जत्रनक आयुका अन्त निकट न आवे तत्रतक अपने गणके हितको चिन्ता करनी चाहिए १२७३। अपनी आयु अभी कितनी रही है इसका विचार कर तदनन्तर अपने शिष्य समुदायको और अपने स्थानमें जिसकी स्थापना की है, ऐसे बालाचार्यको बुलाकर, सौम्य तिथि, करण, नक्षत्र और लगनके समय, शुभप्रदेशमें १२७३। अपने गुणके समान जिनके गुण है—ऐसा वह बालाचार्य गच्छका पालन करनेके लिए योग्य है, ऐसा विचारकर उसपर अपने गणको विसर्जित करते है, और उस समय उसे थोड़ा सा उपदेश भी देते है १२७४। (भ आ/मू/१७७/३६५) (दे. सटकार/२ में २६वीं क्रियाका लक्षण)।

४ स्वसे क्षमा

भ आ/मू/गा आर्मतेज्ज गणि गच्छम्मि तं गणि ठवेद्वण। तिविहेण खमावेदि ह्म स बालउच्छ्वाडल गच्छ १२७६। ज दीहकालसंवासदाए ममकारणेहरागेण। ऋदुणपरस च भणिया तमहं सर्वं खमा-वेमि १२७७। अभहियपादाहासो मस्थम्मि कदजलो कदपणामो। खामेइ सव्वसच्च सवेग संजणेमाणो १७११। मणवयणकायजोगेहिं पुरा कदकारिदे अणुमदे वा। सव्वे अवराधपदे एस खमावेमि णित्सखलो १७१२।—उस नवीन आचार्यको बुलाकर उसको गणके बीचमें स्थापित कर और स्वयं अनग होकर बाल व वृद्ध आदि मुनियोंसे पूर्ण ऐसे गणसे मन वचन कायसे वह आचार्य क्षमा माँगते है। हे मुनिगण। तुम्हारे साथ मेरा दीर्घकाल तक सहवास हुआ है। मैंने ममत्वसे, स्नेहसे, द्वेषसे, आपकी कटु और कठोर वाक्य कहे होंगे। इसलिए आप सत्र मेरे ऊपर क्षमा करेंगे ऐसी आज्ञा है १२७७। (आयुका अन्त निकट आनेपर) वह क्षपक अपने मस्तकपर दो हाथ-रखकर सर्व सधको नमस्कार करता है और साधमिकोंमें अनुराग उत्पन्न करता हुआ क्षमा ग्रहण करता है १७१२। मन, वचन और शरीरके द्वारा जो-जो अपराध मेने किये हैं, उनके लिए आप लोग मुझे क्षमा करें। मे शक्य रहित हुआ हूँ १७१२। (मू आ/५८)।

५ परगणचर्या व इसका कारण

भ, आ/मू./३८४-४०० एव पाउच्छित्ता सगणं अणुज्जद पविहरतो। आराधणाणिमित्त परगणमणे मइ कुणदि ३८४। सगणे आणाकोवो फरुम वनहपरिदावणादो य। णिभयसियेहं ऋत्तुणिगणान्णाणविकथो य अममाधी ३८५। परगणवासी य पुणो अवरावारो गणी हउदि तेसु। णरिय य अममाहाण आणाकोवम्मि वि कदम्मि ३८७। कलहपरि-दानादि दोमे वा अमाउले वरतेसु। गणिणो हवेज्ज सगणे ममत्ति-

दोसेण असमाधी ३८७। तण्हादिपसु सट्ठिज्जेसु वि सगणम्मि णिभयो मत्ता। जाएज्ज व सेणज्ज य अकप्पिद किं पि बोमरथो ३८२। एदे दोसा गणिणो वितेसव्वो होंति मगणवामिस्स। भिवत्तुस्म वि तारिसयस्म होंति पाएण ते दोमा ३८६। एदे म-वे दोसा ण होंति परगणणित्रासिगो गणिणो। तण्हा सगण पय हेय वच्चदि सी परगण समाधीए ३८७। मविग्गवज्जभीरुस्स पादमूलम्मि तस्स त्रिहरतो। जिणत्रयणमन्नसारस्स होदि आराधओ तादी ४००।—इस प्रकार अपने गणमें पुछकर अपने रत्नत्रयमें प्रतिशय प्रयत्नसे प्रवृत्ति करनेवाले वे प्राचार्य आराधनाके निमित्त परगणमें गमन करनेकी इच्छा मनमें धारण करते हैं ३८४। स्वमघमें गृहनेसे आज्ञा-कोप, कठोरवचन, बलह, दुःख, विपाद, खेद वगैरह निर्भयता, स्नेह, कारुण्य, ध्यानविघ्न और अममाधि ये दोष उत्पन्न होते है ३८५। जब आचार्य परगणमें जाकर गृहते है तत्र उस गणस्थ मुनियोंको वे उपदेश आज्ञा करते नहीं, जिसमें उनके द्वारा आज्ञाभंगका प्रसंग आता नहीं। और यदि न्दाचित् आज्ञाभंग हो भी जाय तो भी 'अनपर तो मैंने कोई उपकार किया नहीं है, जो कि ये मेरी आज्ञा मानें' ऐसा विचारकर उनको नहीं अममाधि दोष उत्पन्न नहीं होता है ३८७। अथवा अपने सबमें क्षुलकादि मुनि वनह, शोक, सन्तापादि परस्परमें करते हुए देवकर आचार्यकी अपने गणपर ममता होनेसे चित्तको एकाग्रता नष्ट हो जायेगी ३८७। समाधि-मरणोद्युक्त आचार्यको भूख प्यास वगैरहका दृख सहन करना चाहिए। परन्तु वे अपने सबमें रहकर निर्भय हाकर आहार जल वगैरह पदार्थोंकी याचना करेंगे अथवा स्वयं आहारादिका सेवन करेंगे। और भय व लज्जा रहित होकर छोड़ी हुई अयोग्य वस्तुओं-का भी ग्रहण करेंगे ३८२। स्वगणमें रहनेवाले आचार्योंको ये दोष होंगे तथा जो आचार्यके समान उपाध्याय तथा प्रवर्तक मुनि हैं उन्हें भी स्वगणमें रहनेमें ये दोष होंगे ३८६। संसारभरुह, पापभीरु और आगमके ज्ञाता आचार्यके चरणमूलमें ही वह यति समाधिमरणोद्यमी होकर आराधनाकी सिद्धि करता है ४००।

६. उद्यत साधुके उत्साह आदिका विचार

भ आ/मू/४१५-४१६ तो तस्स उच्चमदुत्ते करपुच्छाह पडिच्छदि विहहू। कोणेदणदच्चुग्गहदुग्गुणए समाधीए ४१५। खवयस्सुवस-पणस्स तस्म आराधणा अविषट्ठेव। विव्वेण णिमित्तेण य पडिले-हदि अण्वमत्तो मा ४१६।—यह क्षपक रत्नत्रयाराधनकी क्रिया करने में उत्साही है या नहीं, इसको परीक्षा करके अथवा मिष्ट आहारोंमें यह अभिलषित है या विरक्त इसकी परीक्षा करके ही आचार्य उसे अनुज्ञा देनेका निर्णय करते है ४१५। हमारे मधका इस क्षपकने समाधिके लिए आश्रय लिया है। इसकी समाधि निर्विघ्न समाप्त होगी या नहीं, इस विषयका भी आचार्य शुभाशुभ निमित्तोंसे निर्णय कर लेते है। यह भी एक परीक्षा है ४१६।

७. आलोचना पूर्वक प्रायश्चित्त ग्रहण

भ आ/मू/गा इय पयविभागियाए व ओवियाए व सल्लमुद्धरिय। सव्वगुणसोधिकखी गुरुवएस ममायरइ ६१४। आलोयण सुणित्ता तिवत्तुत्तो भिवत्तुणो उवायेण। जदि उज्जुगोत्ति णिज्जइ जहाकट पट्टेदेव्व ६१७। पडिसेवणादिचारे जदि आजपदि ज्हाक्कम सब्बे। कुव्वति तहो सोधि आगमववहारिणो तस्स ६२१। सो कदसामाचारी सोज्जक कट्टु विधिणा गुरुसयासे। विहरदि सुविमुद्धप्पा अणुज्जद-चरणगुणकखी ६३०।—विशेषालोचना करके अथवा सामान्यालोचना करके मायाशक्यको हृदयसे निकाल कर दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपश्चरणोंमें शुद्धिकी अभिलाषा रखता हुआ गुरुके द्वारा कहा हुआ प्रायश्चित्त, रोप, दीनता और अश्रद्धानका त्यागकर क्षपक ग्रहण करता है ६१४। सम्पूर्ण आलोचना सुनकर गुरु क्षपकको तीन बार

उपायसहित पूछते हैं। तब यदि यह क्षपक सरल परिणामका है, ऐसा गुरुके अनुभवमें आ जाय तो उसको प्रायश्चित्त देते हैं अन्यथा नहीं। १६१७। यदि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके आश्रयसे हुए सम्पूर्ण दोष क्षपक अनुक्रमसे बहेगा तो प्रायश्चित्त दान कुशल आचार्य उसको प्रायश्चित्त देते हैं। १६२१। जिसका आचार निर्दोष है ऐसा वह क्षपक प्रायश्चित्त लेकर शास्त्रकथित विधि के अनुसार गुरु समीप रहकर अपनेको निर्मल चारित्र्ययुक्त बनाता हुआ रत्नत्रयमें प्रवृत्ति करता है तथा समाधिमरणके लिए जिस विशिष्ट आचरणको स्वीकार किया है, उसमें उन्नतिकी इच्छा करता है। १६३०। (विशेष दे 'आलोचना' व 'प्रायश्चित्त'), (मू. आ/५५-५६)

८. क्षपणा, समता व ध्यान

मं. आ/मू./गा एवं पंडितकमणाए काउसगो य विणयसज्जाए।
अणुपेहासु य जुत्तो संथारगओ धुणदि कम्म ७११। एव अधियासेतो सम्म खवओ परीसहे एवे। सव्वत्थ अपडि उवेदि सव्वत्थ समभाव।
१६८३। मित्तेमुयणादीसु य सिस्से साधमिणए कुले चावि। राग वा दोस वा पुव्व जायपि सो जहइ १६८६। इट्ठेसु अणिट्ठेसु य सहफरिसरसरुवगंधेसु। इहपरलोए जीविदमरणे माणावमाणे च १६८८। सव्वत्थ णिव्विसेसो होदि तदो रागरोसरहिदप्पा। खवयस्स रागदोसा हु उत्तमट्ठं विराधेत्ति १६८९। सेज्जा सथार पाणय च उवधि तहा सरीरं च। विज्जावच्चकरा वि य वोसरइ समत्तमारूढा १६९३। एव सव्वत्थेसु वि समभाव उवगओ विमुद्धप्पा। मित्ती करुण सुदिदमुवेक खवओ पुण उवेदि १६९५। एव कसायजुद्धंमि हवदि खवयस्स आउध भाण। उक्काणविहूणो खवओ जुद्ध व गिरावुधो होदि १६९२। = १ उक्त क्रमसे सस्तरारूढ जो क्षपक प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, विनय, स्वाध्याय, अनुपेक्षा इनमें एकाग्र होकर कर्मका क्षय करता है। ७११। २ इस प्रकार समस्त परीपहोंको अव्याकुलतासे सहन करनेवाला यह क्षपक शरीर, वसतिका, गण और परिचारक मुनि इन सर्व वस्तुओंमें ममत्वरहित होता है। रागद्वेषोंको छोड़कर समताभावमें तत्पर होता है। १६८३। मित्र, बन्धु, माता, पिता, गुरु वगैरह, शिष्य और साधमिक इनके ऊपर दीक्षा ग्रहणके पूर्वमें अथवा कवचसे अनुगृहीत होनेके पूर्व जो राग-द्वेष उत्पन्न हुए थे, क्षपक उनका त्याग करता है। १६८६। इष्ट और अनिष्ट ऐसे शब्द, रस, गन्ध, स्पर्श, रूप विषयोंमें, इहलोक और परलोकमें, जीवित और मरणमें, मान और अपमानमें यह क्षपक समानभाव धारण करता है। ये राग-द्वेष रत्नत्रय, उत्तमध्यान और समाधिमरणका नाश करते हैं, इसलिए क्षपक अपने हृदयसे इनको दूर करता है। १६८८-१६९१। सम्पूर्ण रत्नत्रयपर आरूढ होकर यह क्षपक वसतिका, तृणादिका सस्तर, पानाहार अर्थात् जल पान, पिच्छ, शरीर और वैयावृत्त्य करनेवाले परिचारक मुनि, इनका निर्मोह होकर त्याग करता है। १६९३। इस प्रकार सम्पूर्ण वस्तुओंमें समताभाव धारण कर यह क्षपक अन्त करणको निर्मल बनाता है। उसमें मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य भावनाओंको स्थान देता है। १६९५। ३ कपायोंके साथ युद्ध करते समय ध्यान मुनिको शास्त्रके समान उपयोगी होता है। जैसे शास्त्र रहित वीर पुरुष युद्धमें शत्रुका नाश नहीं कर सकता है, वैसे ही ध्यानके बिना कर्म शत्रुको मुनि नहीं जीत सकता है। १६९२।

(विशेष दे ध्यान/२/६)।

९. कुछ विशेष भावनाओंका चिन्तवन

मं. आ/मू./गा. जावतु केह सगा उदोरया हँति रागदोसाणं। ते वज्जितो जिणदि हु राग दोस च णिस्सगो १७८। एदाओ पच वज्जिय इणमो छट्ठीए विहरदे धोरो। पचसमिदो तिपुत्तो णिस्संगो सव्वसंगेसु १६६। तवभावणा य सुदसत्तभावणेगत्तभावणे चैव। धिदि-बनविभावणाविय असकिलिट्ठावि पचविहा १८७। = जितना कुल

भी परिग्रह है वह सब राग और द्वेषको उत्पन्न करनेवाला है। और नि सग होकर अर्थात् परिग्रहको छोड़नेसे क्षपक राग द्वेषको भी जीत लेता है। १७८। इन कन्दर्पों आदि पाँच वृत्तिसत भावनाओंका (दे. भावना/३) त्यागकर जो धीर मुनि पाँच समिति और तीन गुप्तियोंका पालनकर सम्पूर्ण परिग्रहोसे निस्सुह रहते हैं वे ही छठी भावनाके आश्रयसे रत्नत्रयमें प्रवृत्त होते हैं। १६६। तप, श्रुताभ्यास, भयरहित होना, एकत्व, धृतिबल, ये पाँच प्रकारको असंश्लेष भावनाएँ हैं, जिन्हें क्षपकको भाना चाहिए। १६७।

मू. आ/७५-८२ उद्धमधो तिरियमिह दु कदाणि बालमरणाणि बहुगाणि। दसणणासहगदो पंडियमरण अणुमरिस्से ७५। जइ उप्पज्जइ दुवस्वं तो दट्ठवो सभावदो गिरये। कदम मए ण पत्त ससारे ससर तेण ७८। ससारचक्कवालमि मए सव्वेपि पोगला बहुसो। आहारिदा य परिणादिदा ण य मे गदा तित्तो ७९। आहारणिमिर्त्तं विर मच्छा गच्छंति सत्तमो पुढवि। सच्चित्तो आहारो ण कप्पदि मणसावि पत्थेदु ८२। = ऊर्ध्व अधो व तिर्यक् लोकमें मैने बालमरण बहुत किये हैं, अब दर्शन ज्ञानमयी होकर सन्यासपूर्वक पण्डित मरण करूँगा। ७५। यदि सन्यासके समय क्षुधादिकी वेदना उपजे तो नरकके स्वरूपका चिन्तवन करना चाहिए तथा जन्म, जरा, मरणरूप ससारमें मैने कौनसे दुःख नहीं उठाये ऐसा चिन्तवन करना चाहिए। ७८। चतुर्गतिरूप ससारमें भ्रमण करते हुए मैने सभी पुद्गल बहुत बार भक्षण किये हैं, और खल रस रूपसे परिणमित किये हैं परन्तु आज तक मेरी इनसे तृप्ति नहीं हुई है। ७९। आहारके कारण ही तन्दुल मत्स्य सातवें नरक जाता है। इसलिए जीवघातसे उत्पन्न सच्चित्त आहार मनसे भी याचना करने योग्य नहीं है। ८२।

१०. मौन वृत्ति

मं. आ/मू./१७४/३११ गणिणा सह सलाओ कज्ज पइ सेसएहि साहूहि। मोण से मिच्छजणे भज्ज सणीसु सजणे य १७४। = क्षपकको सधमें आचार्यके साथ तो बोलना चाहिए, पर अन्य साधुओंके साथ अल्प मात्र ही भाषण करना चाहिए अधिक नहीं। मिथ्यादृष्टि जनोके साथ बिलकुल मौनसे रहे तथा विवेकी जनो या स्वजनोके साथ थोड़ा-बहुत बोले अथवा बिलकुल न बोले। १७४।

११. क्रम पूर्वक आहार व शरीरका त्याग

१. १२ वर्षोंका कार्य क्रम

मं. आ/मू./२५३-२५४ जोगेहि विचित्तिहि दु खवेइ सवच्चर्राणि चत्तारि। वियडो णिज्जूहिच्चा चत्तारि पुणो वि मासेदि २५३। आयविलणिक्खियडोहि दोणिण आयविलेण एवक च। अद्ध णादिविगट्ठेहि अदो अद्धं विगट्ठेहि २५४। = [भक्त प्रत्याख्यानका उत्कृष्ट काल १२ वर्ष प्रमाण है--(दे सल्लेखना/२/५)। इन बारह वर्षोंका कार्यक्रम निम्न प्रकार है।] प्रथम चार वर्ष अनेक प्रकारके कायवलेशों द्वारा त्रिताये, आगे के चार वर्षोंमें दूध, दही, घी, गुड आदि रसोंका त्याग करके शरीरको कृश करता है। इस तरह आठ वर्ष व्यतीत होते हैं। २५३। दो वर्ष तक आचाम्ल व निर्विकृति भोजन ग्रहण करके रहता है। (दे वह वह नाम)। एक वर्ष केवल आचाम्ल भोजन ग्रहण करता है। छह महीने तक मध्यम तर्पों द्वारा शरीरको क्षीण करता है और अन्तके छह महीनोंमें उत्कृष्ट तर्पों द्वारा शरीरको क्षीण करता है। २५४। (दे आगे उपशीर्षक न. ४)।

२. आहारत्यागकी १२ प्रतिमाएँ

दे. सल्लेखना/१/३ [यदि आयु व देहकी शक्ति अभी बहुत शेष है शास्त्रोक्त १२ भिक्षु प्रतिमाओंकी ग्रहण करे जिससे कि क्षपकको पीडा न हो।]

भ. आ/सू/प्लाराधना टीका/२४६/४७१/५ ईष्टकामाहारं यदि मासाभ्यन्तरे लभेऽहं तदा भोजनं करोमि नान्यथेति । तस्य मासस्यान्तिमे दिने प्रतिमायोगमास्ते । सा एका भिक्षुप्रतिमा एवं पूर्वोक्ताहाराच्छतगुणे-नोत्कृष्टदुर्लभान्यान्याभ्यन्तरस्यावग्रहं गृह्णाति । यावद्द्वित्रिचतु-पञ्चपट्सप्तमासा सर्वत्रान्तिमदिनकृतप्रतिमायोगे एता । सप्त भिक्षु-प्रतिमा । पुन पूर्वोक्ताहाराच्छतगुणोत्कृष्टस्य दुर्लभस्य अन्यान्याहारस्य सप्त-सप्त दिनानि वारत्रयं व्रतं गृह्णाति । एतास्तिहो भिक्षुप्रतिमा । ततो रात्रिदिन प्रतिमायोगेन स्थित्वा पश्चाद्वात्रिप्रतिमायोगमास्ते । एते द्वे भिक्षुप्रतिमे । पूर्वमवधिमान पर्ययज्ञाने प्राप्य पश्चात्सूर्योदये केवलज्ञानं प्राप्नोति । एव द्वादशभिक्षुप्रतिमा । = १ मुनि स्वयं उदरे ह्युप देशमें उत्कृष्ट और दुर्लभ आहारका व्रत ग्रहण करता है । अर्थात् उत्कृष्ट और दुर्लभ इस प्रकारका आहार यदि एक महीनेके भीतर-भीतर मिल गया तो मे आहार करूँगा अन्यथा नहीं । ऐसी प्रतिज्ञा करके उस महीनेके अन्तिम दिनमें वह प्रतिमा-योग धारण करता है । यह एक भिक्षु प्रतिमा हुई ।—(२-७) पूर्वात्क, आहारसे शतगुणित उत्कृष्ट और दुर्लभ ऐसे भिन्न-भिन्न आहारका व्रत वह क्षपक ग्रहण करता है यह व्रत क्रमसे दो, तीन, चार, पाँच, छह और सात मास तकके लिए ग्रहण करता है । प्रत्येक अवधिके अन्तिम दिनमें प्रतिमायोग धारण करता है । ये कुल मिलकर सात भिक्षु प्रतिमाएँ हुई ।—(८-१०) पुन सात-सात दिनोमें पूर्व आहारकी अपेक्षासे शतगुणित उत्कृष्ट और दुर्लभ ऐसे भिन्न-भिन्न आहार तीन दफा लेनेकी प्रतिज्ञा करता है । आहारकी प्राप्ति होनेपर तीन, दो और एक प्रास लेता है । ये तीन भिक्षु प्रतिमाएँ हैं ।—(११-१२) तदनन्तर रात्रि और दिन भर प्रतिमायोगसे खड़ा रहकर अनन्तर प्रतिमायोगसे ध्यानस्थ रहता है । ये दो भिक्षुप्रतिमाएँ हुई ।—प्रथम अवधिज्ञान और मन पर्यय ज्ञानकी प्राप्ति होती है । अनन्तर सूर्योदय होनेपर वह क्षपक केवलज्ञानको प्राप्ति कर लेता है । इस रीतिसे १२ भिक्षु प्रतिमाएँ होती हैं ।

३. शक्तिकी अपेक्षा तीन प्रकारके अथवा चारों प्रकारके आहार-का त्याग

भ. आ/सू/७०७-७०८ खवय पञ्चवखावेदि तदो सव्व च चदुविधा-हारं । सधममवायमज्जे सागारं गुरुणिओगेण ७०७ अहवासमाधि-हेदुं कायव्यो पाणयस्य आहारो । तो पाणयपि पच्छा वोसरिदव्व जहाकाले ७०८ = तदनन्तर संघके समुदायमें सविकल्पक प्रत्याख्यान अर्थात् चार प्रकारके आहारोंका निर्यापकाचार्य क्षपकको त्याग कराते हैं, और इतर प्रत्याख्यान भी गुरुकी आज्ञासे वह क्षपक करता है ७०७ अथवा क्षपकके चित्तकी एकाग्रताके लिए पानकके अतिरिक्त अशन खाद्य और स्नायु ऐसे तीन प्रकारके आहारोंका त्याग कराना चाहिए । जब क्षपककी शक्ति अतिशय कम होती है तब पानकका भी त्याग करना चाहिए । अर्थात् परीपह सहन करनेमें खूब समर्थ है उसको चार प्रकारके आहारका और असमर्थ साधुको तीन प्रकारके आहारका त्याग कराना चाहिए । (और भी दे सल्लेखना/३/७-९) ।

४ आहार त्यागका सामान्य क्रम

भ. आ/सू/६६८-६६९ अणुसज्जमाणए पुण समाधिकामस्स सव्व-मुहरिय । एक्केमं हावेंतो ठवेदि पोराणमाहारे ६६८ अणुपुञ्जेण य ठविदा सवट्टेद्वण सव्वमाहारं । पाणयपरिवक्केण तु पच्छा भावेदि अप्पाणं ६६९ । सथारथो खवओ जइया खीणो ह्वेज्ज तो तइया । वोसरिदव्वो पुत्र विधिणेत्र सोपाणगाहारो ११६२१ = निर्यापका-चार्यके द्वारा आहारामिलापाके दोष बतानेपर भी क्षपक उस आहारमें यदि प्रेमयुक्त ही रहा तो समाधिपरणकी इच्छा रखनेवाले उस क्षपकके सम्पूर्ण आहारोंमेंसे एक-एक आहारकी घटाते हैं, अर्थात् क्षपकमे एक-एक आहारका क्रमसे त्याग कराते हैं ६६८ आचार्य

उपर्युक्त क्रमसे मिश्राहारका त्याग कराकर क्षपकको सादे भोजनमें स्थिर करते हैं । तब वह क्षपक भात वगैरह अशन और अपूप वगैरह खाद्य पदार्थोंको क्रमसे कम करता हुआ पानकाहार करनेमें अपनेको उद्युक्त करता है । (पानकके अनेकों भेद हैं—दे. पानक) ६६९ । सरतरपर सोया हुआ क्षपक जब क्षीण होगा तब पानकके विकल्पका भी उपरोक्त सूत्रोंके अनुसार त्याग करना चाहिए । ११६२१ (और भी दे सल्लेखना/३/७-९) ।

१२. क्षपकके लिए उपयुक्त आहार

भ. आ/सू/गा सल्लेखणासरीरे तवोगुणविधी अणेगहा भणंदा । आयचित्त मरेसी तत्थ द्दु उक्कत्सय त्ति १२० । छट्टट्टमदसमदुचाल-सेहिं भत्तेहिं अदिविकट्ठेहिं । मिदलहुग आहारं करेदि आयचित्तं बहुसो १२१ । आयचित्तेण सिंभं खीयदि पित्तं च उवसम जादि । वादरस रक्खणट्ठं एत्थ पपत्तं खु कादव्व ७०१ । अक्खुगमत्तित्तयमण विल्लव उक्कसायमलवण मधुर । अविदस मट्टुविगध अच्छमणुणं अणदिसीद ११६० । पाणगमासिभल परिपुय खीणरस तत्स दादव्व । जह वा पच्छ खवयस तत्स तह होइ दायव्वं ११६१ । शरीर सल्लेखनाके लिए जो तपोंके अनेक विकल्प पूर्वोक्त गाथाओंमें करे हैं, उनमें आचाम्ल भोजन करना उत्कृष्ट विकल्प है, ऐसा महर्षि गण कहते हैं १२० दो दिनका उपवास, तीन दिनका उपवास, चार दिनका उपवास, पाँच दिनका उपवास ऐसे उत्कृष्ट उपवास होनेके अनन्तर मित और हलका ऐसा कांजो भोजन ही क्षपक बहुश करता है १२१ आचाम्लसे कफका क्षय होता है, पित्तका उपशम होता है और वातका रक्षण होता है, अर्थात् वातका प्रकोप नहीं होता । इसलिए आचाम्लमें प्रयत्न करना चाहिए ७०१ । जो आहार कटु, तिक्त, आम्ल, कसायला, नमकीन, मधुर, विरस, दुर्गन्ध, अस्वच्छ, उष्ण और शीत नहीं है ऐसा आहार क्षपकको देना चाहिए अर्थात् मध्यम रसोंका आहार देना चाहिए ११६० जो पेय पदार्थ क्षीण क्षपकको दिया जाता है, वह कफको उत्पन्न करनेवाला नहीं होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए । क्षपकको जो देनेसे पथ्य—हितकर होगा ऐसा ही पानक देने योग्य है ११६१ ।

दे भस्याभस्य/१/३ [शरीरकी प्रकृति तथा क्षेत्र कालके अनुसार देना चाहिए] ।

५. भक्तप्रत्याख्यानमें निर्यापकका स्थान

१. योग्य निर्यापक व उसकी प्रधानता

भ. आ/सू/गा पचविधे आचारे समुज्जदो रुव्वसमिदचैट्ठाओ । सो उज्जमेदि खवय पचविधे मुट्ठ आयारे १२३ । आयारथो पुण से दोसे सव्वे वि ते विवज्जेदि । तम्हा आयारथो णिज्जवओ होदि आयरिओ १२७ = [क्षपकको सल्लेखना धारण करानेवाला आचार्य आचारवात्, आधारवात्, व्यवहारवात्, कर्ता, आयापायदर्शनोद्योत और उत्तमोक्त होता है । इनके अतिरिक्त वह अपरिसानी, निर्यापक, प्रसिद्ध, कीर्तिमान, और निर्यापकके गुणोंसे पूर्ण होना चाहिए—(दे आचार्य/१/२)] जो आचार्य स्वयं पञ्चाचारमें तत्पर रहते हैं, अपनी सब चेष्टाएँ जो ममितीयोंके अनुसार ही करते हैं वे ही क्षपकको निर्दोष—तथा पञ्चाचारमें प्रवृत्ति करा सकते हैं १२३ । आचारवत्त्व गुणको धारण करनेवाले आचार्य ऊपर लिखे हुए दोषोंका (दे. अगला शीर्षक) त्याग करते हैं, इसलिए गुणोंमें प्रवृत्त होनेवाले दोषोंसे रहित ऐसे आचार्य निर्यापक समझने चाहिए १२७ (और भी दे आगे शीर्षक नं ३) ।

भ. आ/सू/गा गीदत्थपादमूले होंति गुणा एवमादिया बहुगा । ण य होइ सन्धिलेसो ण चावि उप्पज्जदि विवत्ती १२७ । खवओ किला-

मिद्गो पडिचरय गुणेण णिवुदि लहइ । तम्हा णिविसिदव्व खवएण पकुवयसयासे १४५५। धिदित्रलकरमादहिद महुर कण्णाहुदि जदि ण देइ । सिद्धिमुहमावहती चत्ता साराहणा होइ १५०५। इय णिवयवओ खवयस्स होइ णिज्जाअओ सदायरिओ । होइ य कित्ती पधिदा एवेहि गुणेहि सुत्तस्स १५०६।—जो आचार्य सूत्रार्थज्ञ है उसके पाद-मूलमें जो क्षपक समाध्यर्थ रहेगा, उसको उपर्युक्त अनेक गुणोंकी प्राप्ति होती है, उसके सबलेश परिणाम नहीं होते, न ही रत्नत्रयमें कोई बाधा होती है । इसलिए आधारगुणयुक्त आचार्यका आश्रय लेना ही क्षपकके लिए योग्य है १४४७। रोगसे प्रसित क्षपक आचार्यके द्वारा की गयी शुभ्रपासे सुखी होता है, इसलिए प्रकृती गुणके धारक आचार्यके के पास ही रहना श्रेयस्कर है १४५५। निर्यापकाचार्यकी वाणी धैर्य उत्पन्न करती है, वह आत्माके हितका वर्णन करती है, मधुर और कर्णाद्वादक होती है । यदि ऐसी वाणीका प्रयोग न करें तो क्षपक आराधनाओंका त्याग करेगा १५०५। इस प्रकारसे क्षपकका मन आह्लादित करनेवाले आचार्य निर्यापक हो सकते हे अर्थात् निर्वा-पकत्व गुणधारक आचार्य क्षपकका समाधिमरण करा सकता है । इन आचारवत्त्वादि गुणोंसे परिपूर्ण आचार्यकी जगत्में कीर्ति होती है १५०६।

२. चारित्रहीन निर्यापकका आश्रय हानिकारक है

भ. आ./मू./४२४-४२६ सेज्जोवधिसथार भत्त पाण च चयणकप्पगदो । उवकप्पिज्ज अमुद्द पडिचरए वा असत्रिगे १४२४। सल्लेहण पयासेज्ज गध मल्ल च समणुजाणिज्जा । अप्पाउग्ग व कध करिज्ज सहर व जपिज्ज १४२५। ण करेज्ज सारण वारण च खवयस्स चयणकप्पगदो । उहो/ज्ज वा महल्लं खवयस्स किंचणार भ १४२६। —पचाचारसे भ्रष्ट आचार्य क्षपकको वसतिना, उपकरण, सस्तर, भक्त, पान, उद्गमादि दोष सहित देगा । वह वैराग्य रहित मुनियों-को उसकी शुभ्रपाके लिए नियुक्त करेगा, जिनमें क्षपकका आत्महित होना अशक्य है १४२४। वह क्षपककी सल्लेखनाको लोकमें प्रगट कर देगा, उसके लिए लोगोंको पुष्पादि लानेको कहेगा, उसके सामने परिणामोंको विगाडनेवाली कथाएँ कहेगा, अथवा योग्यायोग्यका विचार किये बिना कुछ भी बकने लगेगा १४२५। वह न तो क्षपकको रत्नत्रयमें करने योग्य उपदेश देगा और न उसे रत्नत्रयसे च्युत होनेसे रोक सकेगा । उसके निमित्त पट्टकाला, पूजा, विमान आदिके अनेक आरम्भ लोगोंसे करायेगा, इसलिए ऐसे आचार्यके सहवासमें क्षपकका हित होना शक्य नहीं १४२६।

भ आ/मू/ (उपोद्धात-क्षपकस्य चतुरङ्ग कथमगृहीतार्थो नाशयती-र्यारेक्यायामित्थमसौ नाशयतीति दर्शयति) —सम् सुदिमलहत्तो दीहद्धं मुत्तिमुत्रगमित्ता वि । परिवडइ मरणकाले अकदाधारस्स पासम्मि १४३३। सक्का वसी छेत्त तत्तो उक्काट्टिओ पुणो दुव्वर । इय सजमस्स वि मणो विसएसुक्कडिद्धु दुवल १४३४। पढमेण व दोवेण व वाहिज्जत्तस्स तस्स खवयरस । ण कुणदि उवदेसादि समाधिकरण अगेदत्थो १४३७।—प्रश्न—चतुरगको न जाननेवाला आचार्य क्षपकका नाश कैसे करता है । उत्तर—[अनादि ससार चक्रमें उत्तम देश, कुल आदि उत्तरोत्तर दुर्लभ है ।—गा ४३०-४३२] योग्य कार्यमें प्रवृत्ति करनेवाली स्मृति प्राप्त होनेपर भी और चिरकाल तक सगम पालन कर लेनेपर भी अल्पज्ञ आचार्यके आश्रयसे मरणकालमें क्षपक समय छोड़ देता है १४३३। जिस प्रकार बौद्धके समूहमेंसे एक छोटे बौद्धको उखाडना बहुत कठिन है उसी प्रकार मन विषयोंसे निकाल-कर समयमें स्थापित करना अत्यन्त कठिन है १४३४। अमीतार्थ आचार्य क्षुधा और तृपासे पीडित क्षपकको उपदेशादिक नहीं करता इसलिए उसके आश्रयमें उसको समाधि मरण लाभ नहीं होता १४३७।

३. योग्य निर्यापकका अन्वेषण

भ. आ/मू/गा, पचच्छसत्तजोयणसदाणि तत्तोऽहियाणि वा गतु । णिज्जावगमणेसदि समाधिकामो अणुण्णाद १४०१। एवक व दो व त्तिण्ण य वारसवरिसाणि वा अपरिदतो । जिणवयणमणुण्णादं गवेसदि समाधिकामो वु १४०२। आयारजोदक्कपगुणदोवणा अत्त-सोधिणिज्जभा । अज्जवमहवलाववत्तुट्ठी पहादण च गुणा १४०६। —जिसको समाधिमरणकी इच्छा है ऐसा मुनि ४००,६००,७०० अथवा इससे भी अधिक योजन तक विहारकर शास्त्रोक्त निर्यापकका शोध करता है । ४०१। वह एक, दो, तीन वर्षसे लेकर चारह वर्ष तक खेदयुक्त न होता हुआ जिनागमसे निर्णीत निर्यापकाचार्यका अन्वेषण करता है १४०२। निर्यापकत्वकी शोध करनेके लिए विहार करनेसे क्षपकको आचारशास्त्र, जीतशास्त्र और कवपशास्त्र इनके गुणोंका प्रकाशन होता है । आत्माकी शुद्धि होती है, मलेश परिणाम नष्ट होते हैं । आर्जव, मार्दव, लाघव (लोभरहितता) सन्तुष्टी, आह्लाद आदि गुण प्रगट होते हैं १४०६।

४. एक निर्यापक एक ही क्षपकको ग्रहण करता है

भ. आ/मू/५१६-५२० एगो सथारगदो जज्ज सरीर जिणोवदेसेण । एगो सविलहदि मुणी उग्गेहि तवोविहाणेहि ५१६। तदिओ णाणु-ण्णादो जजमाणस्स हु ह्वेज्ज वाघादो । पडिदेसु दोस तीसु य समाधिकरणाणि हायन्ति ५२०।

भ आ/वि./५२०/७३६/१६ तृनीयो यतिर्नानुद्वात तीर्थङ्गि एकेन निर्यापकेनानुग्राह्यत्वेन ।—एक क्षपक जिनेश्वरके उपदेशानुसार सस्तरपर चढकर शरीरका त्याग करता है अर्थात् समाधिमरणका साधन करता है और एक मुनि उग्र अनशनादि तपोंके द्वाग शरीर-को शुष्क करता है ५१६। इन दोनोंके अतिरिक्त तृतीय यति निर्यापकाचार्यके द्वारा अनुग्राह्य नहीं होता है । दो या तीन मुनि यदि सस्तरारूढ हो जायेंगे तो उनको धर्ममें स्थित रखनेका कार्य, विनय वैयावृत्त्य आदि कार्य यथायोग्य नहीं हो सकेंगे, जिससे उनके मनको सलेश होगा । अत एक ही क्षपक सस्तरारूढ हो सकता है । ५२०।

५. निर्यापकोंकी संख्याका प्रमाण

भ आ/मू/गा कप्पाकप्पे कुमला समाधिकरणुज्जदा मुदरहस्सा । गोदत्था भयवता अडदालीभं तु णिज्जवया १६४५ । कालम्मि सक्किल्लिट्ठमि जाव चत्तारि सार्धेति १६७२। णिज्जावया य दोणिण वि होंति जहण्णेण कालससयणा । एवको णिज्जानयओ ण होइ कडया वि जिणमुत्ते १६७३। एगो जइ णिज्जवओ अप्पा चत्तो परोय-वयण च । वसणमसमाधिमरण वट्ठाहो दुग्गदो चावि १६७४।—योग्यायोग्य आहारको जाननेमें कुशल, क्षपकके चित्तका समाधान करनेवाले, प्रायश्चित्त ग्रन्थके रहस्यको जाननेवाले, आगमज्ञ, स्व व परका उपकार करनेमें तत्पर निर्यापक या परिचारक उत्पृष्टत ४८ होते हैं १६४५। सबलेश परिणामयुक्त कालमें वे चार तक भी होते हैं १६७२। और अतिशय सक्रिय कालमें दो निर्यापक भी क्षपकके कार्यको साध सकते हैं । परन्तु जिनागममें एक निर्यापकका किसी भी कालमें उल्लेख नहीं है १६७३। यदि एक ही निर्यापक होगा तो उसमें आरमर्याग, क्षपकका त्याग और प्रवचनका भी त्याग हो जाता है । एक निर्यापकमें दु ख उत्पन्न होता है और रत्नत्रयमें एकाग्रताके बिना मरण हो जाता है । धर्मदूषण और दुर्गति भी होती है । (विशेष दे भ आ/मू/१६७५-१६७६) ।

नि सा/ता वृ/६२ इह हि जिनेश्वरमार्गे मुनीनां सल्लेखनासमये हि द्विचचारिंशद्भिराचार्यैर्दत्तोत्तमार्थप्रतिक्रमणाभिधानेन देहरयागो धर्मा व्यवहारण—जिनेश्वरके मार्गमें मुनियोंकी सल्लेखनाके समय

वयालोस आचार्यों द्वारा, जिसका नाम उत्तमार्थ प्रसिद्धिगण है वह दिया जानेके कारण देहत्याग व्यवहारसे धर्म है।

६. सर्व निर्यापकोंमें कर्तव्य विभाग

भ आ/सू/६४६-६७० का भावार्थ [१ चार परिचारक नावधानी पूर्वक क्षपकके हाथ पाँव ढबाना, चलने-फिरनेमें सहारा देना, सुलाना, बैठाना, खडा करना, करवट दिलाना, पाँव पसारना व सिकोडना आदि उपकार करते हैं। १४६६-६६७। २ चार मुनि विकथाओंका त्यागकर क्षपकको असन्दिग्ध, मधुर, दृढस्पर्शा, सुलकर, तथा हितप्रद धर्मोपदेश देते हैं। १४६८-६६९। ३, भिक्षा लब्धि युक्त चार मुनि याचनाके प्रति ग्लानिका त्याग करके क्षपकके लिए उसकी रुचि व प्रकृतिके अनुसार उद्दामादि दोगो रहित आहार माँगकर लाते हैं। १४६९। (दे अपवाद/३/३) ४ चार मुनि उसके लिए पीने योग्य पदार्थ माँगकर लाते हैं। १४६९। (दे अपवाद/३/३)। ५ चार मुनि उस माँगकर लाये हुए आहार व पानके पदार्थोंको चूहों आदिसे रक्षा करते हैं। १४६९। (दे, अपवाद/३/३)। ६ चार मुनि क्षपकको मलमूत्र करानेका तथा उसकी वसति का सस्तर व उपकरणोंको शोधनेका कार्य करते हैं। १४६९। ७ चार मुनि क्षपककी वसतिके द्वारका रक्षण करते हैं ताकि असयतजन वहाँ प्रवेश न कर सके। १४६९। ८ तथा चार मुनि धर्मोपदेश देनेके मद्यपके द्वारकी रक्षा करते हैं। १४६९। ९ चार मुनि क्षपकके पास रातको जागरण करते हैं। १४६९। १०, और चार मुनि उस नगर या देशकी शुभाशुभ वार्ताका निरीक्षण करते हैं। १४६९। ११ चार मुनि आगन्तुक श्रोताओंको सभामण्डपमें आसिषणी आदि कथाओंका तथा स्व व पर मतका सावधानी पूर्वक उपदेश देते हैं, ताकि क्षपक उसे न सुन सके। १४६९। १२ चार वादी मुनि धर्मकथा करने वाले उपरोक्त मुनियोंकी रक्षार्थ सभामें इधर-उधर घूमते हैं। १४६९।]

७. क्षपककी वैयावृत्ति करते हैं

भ आ/सू/गा तो पाणएण परिभाविदस्स उदरमलसोधणिच्छाए। मधुर पञ्जेद्वो मडं व विरेयण खणो। ७०२। आणाहवत्तियादीहि वा वि काद्ववमुदरसोधणय। वेदणमुप्पादेज्ज हु करिस्स अथतय उदरे। ७०३। वेज्जावचस्स गुणा जे पुत्रं विच्छरेण अक्खादा। तैस्सि फिडिओ सो होइ जो उवेवलेज्ज त खवयं। १४६६। तो तस्स तिगिछा जाणएण खवयस्स सब्वसत्तीए। विज्जादेशेण वसे पडिकम्म होइ कायवव। १४६७। = पानक पदार्थका सेवन करनेवाले क्षपकको पेटके मलकी शुद्धि करनेके लिए माँडके समान मधुर रेशु ओषध देना चाहिए। ७०२। उसके पेटको सेंकना चाहिए तथा संधा नमक आदि पदार्थोंकी बत्ती बनाकर उसकी गुदामें प्रवेश कराना चाहिए। ऐसा करनेसे उसके उदरका मल निकल जाता है। ७०३। वैयावृत्त्यके गुणोंका विस्तारसे पूर्वमें वर्णन किया गया है (दे वैयावृत्त्य)। जो निर्यापक क्षपककी उपेक्षा करता है वह उन गुणोंसे भ्रष्ट होता है। १४६६। रोगका निदान जानने वाले मुनिको वैद्यके उपदेशानुसार अपनी सर्व शक्तिके क्षपकके रोगका परिहार करना चाहिए। १४६७।

दे सल्लेखना/४/६ [क्षपकके हाथ-पाँव ढबाना, उसे उठाना, बैठाना, चलाना, सुलाना, करवट दिलाना, मल-मूत्र कराना, उसके लिए आहारादि माँग कर लाना इत्यादि कार्य निर्यापक व परिचारक निरत्य करते हैं।]

दे, अपवाद/३/४-५ [जीभ और कानोंकी सामर्थ्यके लिए क्षपकको कई बार तेल व कपायसे पदार्थोंके कुत्से कराने चाहिए। उदरमें मलका शोधन करनेके लिए इनिमा करना, सर्दमें उष्णोपचार और गरमीमें शीतोपचार करना तथा अग मर्दन आदि रूपसे उसकी सेवा करते हैं।]

८. आहार दिर्याकर वैराग्य उत्पन्न कराना

भ आ/सू/६८६-६९५ दग्गपयाममरिच्चा जइ कीरइ तस्स तिविह-वोसरणं। मग्गहवि भत्तचित्तेमंमि उम्मुगो होउज गो ग्यत्रा। ६८६। तग्गहा तिविह वोसररिदिदित्ति उक्कस्समाणि दग्गानि। गोमिस्सा सविरत्थि चरिमाहार पायासेज्ज। ६९०। पासित्तु कोइ तादी तीरं पत्तरिसमेहि किं भेत्ति। वेरग्गमणुपत्तो भवेगपगयणो ह्यदि। ६९१। ६९१। देस भोच्चा हा हा तीरं। ६९३। गट्ट भोच्चा धिद्धी तीरं। ६९४। कोई तमादयित्ता मणुण्णरसवेदणाए नयिद्धा। त चेव-णुयवेज्ज हु मव्व देमं च गिद्धीए। ६९५। = क्षपकनी आहार न दिखाने ही यदि तीन प्रकारके आहारोंका त्याग कराया जायेगा तो वह क्षपक किसी आहार विशेषमें उत्सुक होगा। ६८६। इसलिए अच्छे-अच्छे आहारके पदार्थ वरतनोंमें पृथक् पृथक् करके उस क्षपकके समीप लाकर उसे दिखाना चाहिए। ६९०। ऐसे उत्सुक आहारको देखकर कोई क्षपक भें तो अज इम भवके दूगरे किनारेकी प्राप्त हुआ हूँ, इन आहारोंकी अपेक्षा कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मनमें समझकर भोगसे विरक्त व सनारसे भययुक्त होकर आहारका त्याग कर देता है। ६९१। कोई उसमेंसे थोड़ा सा उगार। ६९३। और कोई सम्पूर्ण-का भक्षण करके उपरोक्त प्रकार ही विचारता हुआ उसका त्याग कर देता है। ६९४। परन्तु कोई क्षपक दिर्याया हुआ भक्षण कर उसके स्वादिष्ट रसमें लुब्ध होकर उस सम्पूर्ण आहारको बारम्बार भक्षण करनेकी इच्छा रखता है अथवा उसमें किसी एक पदार्थको बारम्बार खानेकी अभिलाषा रखता है। ६९५। [ऐसा क्षपक कदाचित् निर्यापकका उपदेश सुनकर उससे विरक्त होता है (दे शीर्षक सं० ११) और इसपर भी विरक्त न हो तो धीरे-धीरे क्रमपूर्वक उसका प्रत्याख्यान कराया जाता है। (दे सल्लेखना/४/६)]

९. कदाचित् क्षपकको उग्र वेदनाका उद्रेक

भ आ/सू/१४०१-१४१० अहवा तग्गहादिपरसिहेहि खवओ हविज्ज अभिभूदो। उवसग्गेहिं व खवओ उचैहणो होउज अभिभूदो। १४०१। तो वेदनावसट ठो वाउल्लिदो वा परीसहादीहिं। खवओ अणप्पवसिदो सो विप्पलवेज्ज ज किं पि। १४०२। उग्गभासेज्ज व गुणसेदीदो उदरणमुद्धिओ खवओ। छट्ठं दोच्च पढम वसिया कुटिलिहपदमि-च्छतो। १४०३। चैयतोपि य कम्मोदएण कोह परीसहपरदो। उग्गभासेज्ज उचकावेज्ज व भिदेज्ज व पदिण्ण। १४१०। = भूत-प्यास इत्यादि परिपहोंसे पीडित हो कर क्षपक निश्चेत होगा अथवा भ्रान्त होगा, अथवा मूर्च्छित होगा। १४०१। वेदनाकी असहायसे दुःखी होकर, परिपह और उपसर्गसे व्याकुल होकर क्षपक आपमें नहीं रहेगा जिससे वह बड-बड करेगा। १४०२। अयोग्य भाषण बोलेंगा, समयसे गिरनेको बुद्धि करेगा। रात्रिको भोजन-पान करनेका अथवा दिनमें प्रथम भोजन करनेका विचार उसके मनमें उत्पन्न होगा। १४०३। कोई क्षपक सावध होकर कर्मोदयसे परिपहोंसे व्याकुल होकर जो कुछ भी उचित-अनुचित भाषण करेगा। अथवा ली हुई प्रतिज्ञाओंका भंग करेगा। १४१०।

१०. उपरोक्त दशामें भी उसका त्याग नहीं करते

भ आ/सू/१४११ ण हु सो कड्डुण फरुस व भाणिदग्गो ण खोसिदग्गो य। ण य वित्तासेदग्गो ण य वट्टदि हीलण काडु। १४११। = प्रतिज्ञा भंग करनेपर भी निर्यापकाचार्य उसे कडवे और कठोर शब्द न बोलें, उसकी भर्त्सना न करें, उसकी भय न दिखाने अथवा उसका अनमान न करें। १४११।

११ यथावसर उपदेश देते हैं

१. सामान्य निर्देश

दे उपदेश/३/४ [आक्षेपिणी, सवेजनी, और निर्वेजनी ये तीन कथाएँ क्षपकको सुनाने योग्य हैं। पर विक्षेपणी कथा नहीं।] (भ आ /मू/ ६/५६, १६०८)।

भ. आ /मू/ गा सं० का भावार्थ—[हे क्षपक। तुम सुख स्वभाजका त्याग करके चारित्रिक धारण करो। १५२२। इन्द्रिय व कथाओंको जीतो १५२३। हे क्षपक। तू मिथ्यात्वका वमन कर। सम्यग्दर्शन, पच-परमेष्ठी की भक्ति व ज्ञानोपयोगमें सदा प्रवृत्ति कर ७२२, ७२५। पच महाव्रतोंका रक्षण कर, कथायोंका दमन कर, इन्द्रियोंको वश कर ७२३। (मू आ /५३-६४)।

२ वेदनाकी उग्रतामें सारणात्मक उपदेश

भ. आ /मू/ गा, सं० का भावार्थ—क्षुधादिसे पीड़ित होनेपर, वे आधार-वाचु नियमिकाचार्य क्षपककी मधुर व हितकर उपदेश द्वारा आर्त-ध्यानसे रक्षा करते हैं १४४१। हे मुनि। यदि परिचारकोंने तेरा त्याग भी कर दिया है, तब भी तू कोई भय मत कर ऐसा कहकर उसे निर्भय करते हैं १४४३। शिक्षावचन रूप आहार देकर उसकी भूल-प्यास शान्त करते हैं १४४५। आचार्य क्षपकको आहारकी गृह्णितसे समयकी हानि व असयमकी वृद्धि दर्शाते हैं १६६। जिसे सुनकर वह सम्पूर्ण अभिलाषाका त्याग करके वैराग युक्त व ससारसे भययुक्त हो जाता है १६६७। पूर्वाचरणका स्मरण करानेके लिए आचार्य उस क्षपकको निम्न प्रकार पूछते हैं, जिससे कि उसकी लेश्या निर्मल हो जाती है १६०४। हे मुने। तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ रहते हो, अब कौनसा काल है अर्थात् दिन है या रात, तुम क्या कार्य करते हो, कैसे रहते हो? मेरा क्या नाम है? १६०५। ऐसा सुनकर कोई क्षपक स्मरणको प्राप्त हो जाता है कि मेने यह अकालमें भोजन करनेकी इच्छा की थी। यह आचरण अयोग्य है, और अनुचित आचरणसे निवृत्त हो जाता है १६०८। (मू आ /६५-१०२)।

३ प्रतिज्ञाको कवच करनेके अर्थ उपदेश

भ. आ /मू/ गा, सं० का भावार्थ—प्रतिज्ञा भंग करनेको उद्यत हुए क्षपकको नियमिकाचार्य प्रतिज्ञा भंगसे निवृत्त करनेके लिए कवच करते हैं १५१३। अर्थात् मधुर व हृदयस्पर्शी उपदेश देते हैं १५१४। हे क्षपक। तू दीनताको छोड़कर मोहका त्याग कर। वेदना व चारित्रिके शत्रु जो राग व कोप उनको जीत १५१५। तूने शत्रुको पराजित करनेकी प्रतिज्ञा की है, उसे याद कर। कौन कुलीन व स्वाभिमानी शत्रु समक्ष आनेपर पलायन करता है १५१८। हे क्षपक। तूने चारों गतियोंमें जो जो दुःख सहन किये हैं उनको याद कर १५६१। [विशेष दे वह-वह गति अथवा भ आ /मू/ १५६२-१६०१] उस अनन्त दुःखके सामने यह दुःख तो ना के बराबर है १६०२। अनन्त बार तुम्हें तीव्र भूख व प्यास सहन करनी पड़ी है १६०५-१६०७। तुम सवेजनी आदि तीन प्रकार कथाएँ सुनो, जिससे कि तुम्हारा बल बढ़े १६०८। कर्मोंका उदग्र होनेपर औपधि आदि भी असमर्थ हो जाती है १६१०। मरण तो केवल उस भवमें ही होता है परन्तु असयमसे संकड़ो भवोंका नाश होता है १६१२। असाताका उदय आने पर देव भी दुःख दूर करनेको समर्थ नहीं १६१७-१६१६। अतः वह दुर्निवार है १६२२। प्रतिज्ञा भंग करनेसे तो मरना भला है १६३३। (दे वत/१/७)। आहारकी लम्पटता पाँचों पापोंकी जननी है १६४२। हे क्षपक। यदि तेरी आहारको अभिलाषा इम अन्तिम समयमें भी शान्त नहीं हुई हो तो अश्रय ही तू अनन्त ससारमें भ्रमण करनेवाला है १६५२। हे क्षपक। आज तू अनन्त बार तूने चारों प्रकारका आहार भक्षण किया है, पर तू तृप्त नहीं हुआ

१६५७। जिहापर आनेके समय ही आहार सुवदायक प्रतीत होता है, पीछे तो दुःखदायक ही है १६६०। वह सुग्न अत्यन्त क्षणस्थायी है १६६२। तलवारकी धार एक भवमें ही नाशका कारण है पर अयोग्य आहार सैंकड़ों भवोंमें हानिकारक है १६६६। अब तू इस शरीरकी ममताको छोड़ १६६७। नि सगत्तकी भावनामें अब इस मोहको क्षीण कर १६७१। मरण समय सल्लेश परिणाम हानेपर ये सस्तर आदि ग्राह्य कारण तेरी सल्लेखनामें निमित्त न हो सके १६७२। (दे सल्लेखना/१/७)। यद्यपि अब यह भ्रम तुझे दुष्कर प्रतीत होता है परन्तु यह स्वर्ग व मोक्षका कारण है, इसलिये हे क्षपक। इसे तू मत छोड़ १६७५। जैसे अभेद्य कवच धारण करके योद्धा रणमें शत्रुको जीत लेता है, वैसे ही इस उपदेशरूपी कवचने युक्त होकर क्षपक परीपहोको जीत लेता है १६८१-१६८२।

६ मृत शरीरका विसर्जन व फल विचार

१. शव विसर्जन विधि

भ. आ /मू/ गा जे बेल कालगदो भिखू तू बेलमेव णीहरण। जग्गण-वधणछेदणविधी अवेलाए कादव्वा १९७४। गीदरथा रमिज्ज-वाधेज्ज १९७६-७७ (दे अपवाद/३/६)। उयसय पडिदावण्ण. पि तो होज्ज १९७८-७९। (दे अपवाद/३/३)। तेण पर सठाविय सथारगदं च तस्थ वधित्ता। उट्ठंतरवण्णट्ठ गाम तत्तो सिर किच्चा १९८०। पुव्वाभोगिय मग्गेण आसु गच्छति तं समादाय। अट्ठिदमणियत्तता य पीट्ठो ते अणिम्भता १९८१। तेण कुसमुट्ठि-धाराए अव्वोच्छिण्णाए समणिपादाए। सथारो कादव्वो सव्वथ समो सर्णि तस्थ १९८३। जथ ण होज्ज तणाइ चुण्णेहि वि तस्थ केसरहि वा। सधरिदव्वा लेहा सव्वथ समा अव्वोच्छिण्णा १९८४। जत्तो दिसाए गामो तत्तो सीस करित्त सोवधिय। उट्ठंतरवण्णट्ठं वोसरिदव्व सरोर त १९८६। जो वि विराधिय दसणमते काल करित्तु होज्ज सुरो। सो वि विवुज्जमदि दट्ठूण सदेह सोवधि सज्जो १९८७। गणरक्खत्य तम्हा तणमयपडिविचर्यं तु कावूण। एवक तु समे खेत्ते दिवड्डहेत्ते बुवे देज्ज १९९०। तट्ठाणसावण चिय तिवखुत्तो ठविय मडयपासम्मि। विदियवियपिय भिन्नू कुज्जा तह विदियतदियाण १९९१। असदि तणे चुण्णेहि च केसरच्छारि-ट्टियादियुण्णेहि। कादव्वोथ व्कारो उवरि हिट्ठा यकारो से १९९२। —जिस समय भिक्षुका मरण हुआ होगा, उसी वेलामें उसका प्रेत ले जाना चाहिए। अवेलामें मर जानेपर जाग्रत, अथवा छेदन करना चाहिए १९७४। [पराक्रमी मुनि उस शवके हाथ और पाँव तथा अँगूठा इनके कूट्र भाग बाँधते हैं अथवा छेदते हैं। यदि ऐसा न करे तो किसी भूत या पिशाचके उभ शरीरमें प्रवेश कर जानेकी सम्भावना है, जिसको लेकर वह शव अनेक प्रकारकी क्रीडाओं द्वारा सघको शोभ उत्पन्न करेगा १९७६-१९७७। (दे अपवाद/३/६)।—गृहस्थों से माँगकर लाये गये थाली आदि उपकरणोंको गृहस्थोंको वापस दे देने चाहिए। यदि सर्व जनोंको विदित किसी आर्थिका या धुलकने सल्लेखना मरण किया है तो उसके शवको किसी पालकी या विमानमें स्थापित करके गृहस्थजन उसे ग्राममें बाहर ले जावें १९७८-१९७९। (दे अपवाद/३/३)] शिविकामें विटानेके साथ उभ शवको बाँधकर उसका मस्तक ग्रामकी ओर करना चाहिए। क्योंकि कदाचित् उसका मुख ग्रामकी तरफ न होनेसे वह ग्राममें प्रवेश नहीं करेगा। अन्यथा ग्राममें प्रवेश करनेका भय है १९८०। पूर्वमें देते गये मार्गसे उस शवको ग्रीध ले जाना चाहिए। मार्गमें न खड़े होना चाहिए और न पीछे मुड़कर देखना १९८१। जिम्ने नियमका स्थान पहने देखा हो वह मनुष्य जागे ही वहाँ जाकर दर्भमुष्टिकी समानधारासे सर्वत्र सम ऐसा सस्तर करे १९८३। दर्भ

तृणके अभाजमें प्रामुक् तण्डुल मगूरकी दाल इत्यादिकोंके चूर्णसे, कमल केशर वगैरहसे मस्तकसे लेकर पाँचतक विना दूटी हुई रेखाएँ खेंचे १९६८४। अथ प्रामकी दिशामें मस्तककर पीछीके साथ उस शवको उस स्थानपर रखे १९६६। जिसने सम्यग्दर्शनकी विराधनासे मरणकर देवपर्याय पाया है, वह भी पीछीके साथ अपना वेह देखकर 'मैं पूर्व जन्ममें मुनि था' ऐसा जान सकेगा १९६७। गणके रक्षणके हेतु मध्यम नक्षत्रमें तृणका एक या दो प्रतिविम्ब बनाकर उसके पास रखना चाहिए १९६९। उन्हें वहाँ स्थापनकर जोरसे धोलकर ऐसा कहें कि मेने यह एक अथवा दो क्षपक तेरे अर्पण किये हैं। यहाँ रहकर ये चिरकाल पर्यन्त तप करें १९६९। यदि तृण न हों तो तण्डुल चूर्ण, पुष्प केशर, भस्म आदि जो कुछ भी उपलब्ध हो उससे ही वहाँ 'काय ऐसा शब्द लिखकर उसके ऊपर क्षपकको स्थापन करें १९६९।

२. शरीर विसर्जनके पश्चात् संघका कर्तव्य

भ आ /मू /१९६३-१९६६ उवगहिद उवकरण हवेज्ज ज तस्थ पाडिहरिय तु । पडिक्कोधित्ता सम्म अप्पेदव्व तग तेसि १९६३। आराधणवत्तीय काउसग्ग करेदि तो सधो। अधिउत्ताए इच्छागार खवयस्स वसधीए १९६४। सगणरथे कालगदे खमणमसज्जाइय च तद्विजस। सज्जाइ परगणत्थे भयणिज्जं खमणकरण पि १९६६। एव पडिड्विचित्ता पुणो वि तदियदिवसे उवेयवति। सधस्स सुहविहार तस्स गदी चेव णादुजे १९६६।—मृतकको निपीधिकाके पास ले जानेके समय जो कुछ वस्त्र काष्ठदिक उपकरण गृहस्थोंसे याचना करके लाया गया था उसमें जो कुछ लौटाकर देने योग्य होगा वह गृहस्थोंको समझाकर देना चाहिए १९६६। चार आराधनाओंकी प्राप्त हमको होवे ऐसी इच्छासे सधको एक कायोत्सर्ग करना चाहिए। क्षपककी वसतिकका जो अधिष्ठान देवता है उसके प्रति 'यहाँ संघ बैठना चाहता है' ऐसा इच्छाकार करना चाहिए १९६४। अपने गणका मुनि मरणको प्राप्त होवे तो उपवास करना चाहिए और उस दिन स्वाध्याय नहीं करनी चाहिए। यदि परगणके मुनिकी मृत्यु हुई हो तो स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। उपवास करें अथवा न करें १९६६। उपर्युक्त क्रमसे क्षपकके शरीरकी स्थापना कर पुन तीसरे दिन वहाँ जाकर देखते हैं कि सधका मुखसे विहार होगा या नहीं और क्षपकको कौनसी गति हुई है। [ये बातें जाननेके लिए, पक्षियों द्वारा इधर-उधर ले जाकर डाले गये, शवके अगोपागोको देखकर विचारते हैं। (दे अगला शीर्षक)] १९६६।

३. फल विचार

१. निपीधिकाकी दिशाओंपरसे

भ आ /मू /१९७३-१९७३ जा अनरदक्खिणाए व दक्खिणाए व अध व अनराए। वसधीदो वणिज्जदि णिसीधिया सा पसत्थत्ति १९७०। सव्वसमाधी पढमाए दक्खिणाए दु भत्तग सुलभ। अवराए सुह-विहारो होदि य उवधिसस लाभो य १९७१। जद तेसि बाधादो दद्वव्वा पुव्वदक्खिणा होइ। अवरुत्तरा य पुव्वा उदोचिपुव्वुत्तरा कमसो १९७२। एवामु फल कमसो जाणेज्ज तुमत्तम; य कल्लहो य। भेदो य गिलाण पि य चरिमा पुण कड्ढदे अण्ण १९७३।—वह निपीधिका क्षपककी वसतिकासे नैऋत्य दिशामें, दक्षिण दिशामें, अथवा पश्चिम दिशामें होनी चाहिए। इन दिशाओंमें निपीधिकाकी रचना करना प्रशस्त माना गया है १९७०। नैऋत्य दिशाकी निपीधिका सर्वशुभके लिए समाधिकी कारण है। अर्थात् वह सधका हित करनेवाली है। दक्षिण दिशाकी निपीधिकासे सधको आहार सुनभजासे मिलता है। पश्चिम दिशामें निपीधिका होनेसे सधका मुखसे विहार होता रहेगा, और उनकी पुस्तक आदि उपकरणोंका लाभ होता रहेगा १९७१। यदि उपरोक्त तीन दिशाओंमें निपीधिका

बनवानेमें कुछ बाधा उपस्थित होती है तो १ आग्नेय, २ वायव्य, ३. ऐशान्य, ४ उत्तर दिशाओंमेंसे भी किसी एक दिशामें बनवानी चाहिए १९७२। इन दिशाओंका फल क्रममें—१ सधमें 'मैं ऐसा हूँ, तू ऐसा हूँ' इस प्रकारकी स्पर्धा, २. सधमें जलह, कूट, व्याधि, परस्पर खेचातानी और मुनिमरण समझना चाहिए १९७३।

२. शवके सस्तरपरसे

भ. आ /मू /१९६५ यदि विसमा मथारो उवरि मज्जे व होज्ज हेट्टा वा। मरणं व गिनाण वा गणिवसभज्जीण णायव्व १९६५।—यादि तन्हुल चूर्ण आदिसे अक्षित सस्तरमें रेखाएँ ऊपर नीचे व मध्यमें विषम हैं तो वह अनिष्ट सूचक है। ऊपरकी रेखाओंके विषम होनेपर आचार्यका मरण अथवा व्याधि, मध्यकी रेखाएँ विषम होनेपर पलाचार्यका मरण अथवा व्याधि, और नीचेकी रेखाओंके विषम होनेपर सामान्य मृतिका मरण अथवा व्याधिकी सूचना मिलती है १९६५।

३ नक्षत्रों परसे

भ आ /मू /१९६८-१९६९ णत्ता भाए त्रिखे जदि कालगदी सिव तु सव्वेसि। एको द्रु समे खेत्ते दिवदुद्वेत्ते मर ति दुवे १९६८। सद-भिमभरणा अद्दा सादा असत्तेस्स जिट्ठ उवखरा। रोहिणिविसाह-पुणव्वमुत्ति उत्तरा मज्झिमा सेसा १९६९।—जो नक्षत्र १५ मुहूर्तके रहते हैं उनको जघन्य नक्षत्र कहते हैं। शतभिषक, भरणी, आर्द्रा, स्वाती, आश्लेषा इन छह नक्षत्रोंमेंसे किसी एक नक्षत्र पर अथवा उसके अक्षपर यदि क्षपकका मरण होगा तो सर्व सधका क्षेम होगा। ३० मुहूर्तके नक्षत्रोंको मध्यम नक्षत्र कहते हैं। अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा पूर्वाफाल्गुनी हस्त, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढा, प्रवण, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपदा और रेवती इन १५ नक्षत्रों पर अथवा इनके अक्षोंपर क्षपकका मरण होनेसे, और भी एक मुनिका मरण होता है। ४५ मुहूर्तके नक्षत्र उत्कृष्ट हैं—उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, पुनर्वसु, रोहिणी इन छहमेंसे किसी नक्षत्रपर अथवा उसके अक्षपर क्षपकका मरण होनेसे और भी दो मुनियुक्तिका मरण होता है।

४ शरीरके अगोपागोपरसे

भ आ./मू /१९६७ जदिदिवसे सच्चिट्ठदि तमणालद च अवखद भइय। तदिवसिसाणि सुभिवल खेमसिव तम्मिह रज्जम्मि १९६७। ज वा दिवसमुवणीद सरोर्यं खगचवुप्पद्गणेहि। टेम सिव' सुभिवल विहरिज्जो त दिस सधो १९६८। जदि तस्स उत्तमग दिस्सदि रंता च उवरिगिरिसिहरे। कम्ममलविप्पमुवको मिद्धि पत्तोत्ति णादव्वो १९६६। वेमाणो थलगदो समम्मि जो दिसि य वाणवितरओ। गड्डुए भवणवासी एस गदी से समासणे २०००।—जितने दिन तक बृकादि पशु-पक्षियोंके द्वारा वह क्षपक शरीर स्पर्शित नहीं होगा और अक्षत रहेगा उतने वर्षतक उस राज्यमें क्षेम रहेगा १९६७। पक्षी अथवा चतुष्पद प्राणी जिस दिशामें उस क्षपकका शरीर ले गये होंगे, उस दिशामें सध विहार करें क्योंकि वे अग उस दिशामें क्षेमके सूचक हैं १९६८। क्षपकका मस्तक अथवा दन्तपक्ति पर्वतके शिखरपर दाल पड़ेगी तो यह क्षपक कर्ममलसे पृथक् होकर मुक्त हो गया है, ऐसा समझना चाहिए १९६९। क्षपकका मस्तक उच्च स्थलमें दीखनेपर वह वैमानिक देव हुआ है, समभूमिमें दीखनेपर ज्योतिष्क देव अथवा व्यन्तर देव और गड्डेमें दीखनेपर भवनवासी देव हुआ समझना चाहिए २०००।

सवरी गुह्यगूहन—कायोत्सर्गका एक अतिचार—दे व्युत्सर्ग-१। सवर्णकारिणी—दे विद्या।

सविचार—दे विचार ।

सविपाक—दे विपाक ।

ससिक्थ—भ आ /त्रि /७००/८२/७ ससिक्थग सिरथसहित । = जिसमें भातके सिक्थ हों ऐसा पानक या मोंड ।

सहकारी—

का, अ /धु /२१८ सव्वाण दव्वाण जो उवयारो हवेइ अण्णोण्णं । सो चिय कारणभावो हवदि हु सहकारिभावेण । २१८ = सभी द्रव्य पर-स्परमें जो उपकार करते हैं वह सहकारी कारणके रूपमें ही करते हैं । (विशेष दे कारण/III/२/५-६) ।

सहचर—दे, हेतु ।

सहज—स्वाभाविक—(दे नि. सा /ता, वृ /१५) ।

सहज दुःख—दे दुःख ।

सहज विपर्यय—दे विपर्यय ।

सहदेव—पा पु /सर्ग/श्लो—रानी माद्रीसे पाण्डुका पुत्र था । (८/१७४-१७५) भीष्मपितामहसे तथा द्रोणाचार्यसे धनुर्विद्या सीखी । (८/२०८-२१४) । (विशेष दे, पाण्डव) । अन्तमें दीक्षा धारण की । (२५/१२) । घोर तप किया । (२५/१७-१९) । दुर्योधनके भानजे द्वारा शत्रुञ्जयगिरिपर घोर उपसर्ग होनेसे साम्यता पूर्वक देह त्याग-कर सर्वार्थसिद्धि गये । (२५/५२-१३६) । पूर्वभव स० २ में मिश्री ब्राह्मणी थे (२३/८२) तथा पूर्वभव स० १ में अच्युत स्वर्गमें देव हुए । (२३/११४) और वर्तमान भवमें सहदेव हुए । (२४/७७) ।

सहदेवी—प, पु /सर्ग/श्लो—सुकौशल मुनिकी माता थी । (२१/१५६) । पुत्र सुकौशलके मुनि हो जानेपर उसके वियोगमें मरकर सिंहनी हुई । (२२/४६) । पूर्वके क्रोधवश सुकौशलको खा लिया । (२२/८५-८८) । अन्तमें सुकौशलके पिता कीर्तिधरसे पूर्वभव जान-कर पश्चात्ताप पूर्वक देह त्याग स्वर्गमें गयी । (२२/६७) ।

सहनानी—गणितमें किसी प्रक्रियाके लिए कल्पित किया गया कोई चिन्ह अक्षर, अंक आदि—दे गणित/II/२-४ ।

सहभाव—१ अविनाभावका एक भेद । दे. अविनाभाव । २ गुण-द्रव्यका स्वभावो विशेष है—दे गुण/३/२ ।

सहभू—दे सहभाव ।

सहवृत्ति—प, का /ता, वृ /५०/६६/६ समवृत्ति सहवृत्तिर्गुणगुणितो कथंचिदेकत्वेनादितादारम्यसम्बन्ध इत्यर्थ । = समवृत्ति अर्थात् गुण और गुणोका साथ-साथ रहना अर्थात् उनका कथंचिद एकत्व अर्थात् तादात्म्य सम्बन्ध ।

सहसातिचार—दे अतिचार/३ ।

सहसा निक्षेपाधिकरण—दे अधिकरण ।

सहस्रनयन—प पु /५/७६ सगर चक्रवर्तीका साला तथा सुलोचना-का पुत्र ।

सहस्रनाम स्तव—प० आशाधर (ई ११७३-१२४३) द्वारा रचित सस्कृत छन्दबद्ध ग्रन्थ जिसमें १००८ नामों द्वारा भगवात्का स्तवन किया गया है । इसपर आ श्रुतसागर (ई, १४७३-१६३३) ने एक टीका लिखी है । विशेष—दे अहन्त/१ ।

सहस्रपर्वा—दे, विद्या ।

सहस्ररश्मि—प पु /१०/श्लोक—माहिष्मतीनगरीका राजा था । ६७ रावणकी पूजामें पाधा डालनेके कारण । ११। युद्धमें । ११४। रावण द्वारा

पकडा गया । १३१। अन्तमें पिता शतवाहुकी प्रार्थनापर छोडा जाकर दीक्षा धारण कर ली । १४७, १६८।

सहस्रायुध—म पु /६३/श्लोक—वज्रायुधका पुत्र था । ४५। मुनि पिहितान्नसे दीक्षा लेकर, पिताका भोग समाप्त होनेपर उसके पास जाकर घोर तप किया । सन्यासमरण कर अधोऽग्नेयवकमें अहमिन्द्र हुआ । १३८-१४१।

सहस्रार—१, बारहवाँ स्वर्ग—दे, स्वर्ग/५७। २. प पु /७/१४—रथनूपुरका राजा था । इसके पुत्र इन्द्रने रावणके दादा 'माली' को मारा था । पीछे रावण द्वारा युद्धमें परास्त किया गया ।

सहानवस्था—दे विरोध ।

सह्य—मलयगिरिके, समीपमें स्थित एक पर्वत—दे, मनुष्य/४ ।

सार्व—१. सामान्य परिचय

स म /परि-घ /पृ ४२१ आत्माके तत्त्वज्ञानको अथवा सम्यग्दर्शन प्रतिपादक शास्त्रको सार्व्य कहते हैं । इनको ही प्रधानता देनेके कारण इस मतका नाम सार्व्य है । अथवा २५ तत्त्वोका वर्णन करनेके कारण सार्व्य कहा जाता है ।

२. प्रवर्तक साहित्य व समय

स म /परि-घ /पृ ४२३ १ इसके मूल प्रणेता महर्षि कपिल थे, जिन्हें क्षत्रिय पुत्र बताया जाता है और उपनिषदों आदिमें जिसे अनतार माना गया है । कृतियाँ—सार्व्य प्रवचन सूत्र, तथा तत्त्व समास । समय—भगवात् वीर व बुद्धसे पूर्व । २ कपिलके साक्षात् शिष्य आसुरि हुए । समय—ई पू ६०० । ३. आसुरिके शिष्य पचशिक्ष थे । इन्होंने इस मतका बहुत विस्तार किया । कृतियाँ—तत्त्वसमास पर व्याख्या । समय—गार्बके अनुसार ई श १ । ४ वार्पगण्य भी इसी गुरु परम्परामें हुए । समय ई २३०-३०० । वार्पगण्यके शिष्य विन्ध्यवासी थे । जिनका असली नाम रुद्रिल था । समय—ई, २५०-३२० । ५ ईश्वर कृष्ण बडे प्रसिद्ध टीकाकार हुए हैं । कृतियाँ—पठितन्त्रके आधारपर रचित सार्व्यकारिका या सार्व्य सप्तति । समय—एक मान्यताके अनुसार ई श २ तथा दूसरी मान्यतासे ई ३४०-३८० । ६ सार्व्य कारिकापर माठर और गौड़पादने टीकाएँ लिखी हैं । ७ वाचस्पति मिश्र (ई ८४०) ने न्याय वैशेषिक दर्शनोंकी तरह सार्व्यकारिकापर सार्व्यकौमुदी और व्यास भाष्यपर तत्त्व वैशारदी नामक टीकाएँ लिखीं । ८ विद्वानभिषु एक प्रतिभा-शाली व्यक्ति थे । इन्होंने पूर्वके विस्मृत ईश्वरवादका पुन उद्धार किया । कृतियाँ—सार्व्यसूत्रोंपर सार्व्य प्रवचन भाष्य तथा सार्व्यसार, पातञ्जलभाष्य वार्तिक, ब्रह्म सूत्रके ऊपर विद्वानामृत भाष्य आदि ग्रन्थोंकी रचना को । ९ इनके अतिरिक्त भी—भार्गव, वारमीक, हारीति, देवल, सनक्, नन्द, सनातन, सनखुमार, अगिरा आदि सार्व्य विचारक हुए ।

२. तत्त्व विचार

(पठ् दर्शन समुच्चय/३४-४२/३२-३७) (भारतीय दर्शन) । १ मूल पदार्थ दो हैं—पुरुष व प्रकृति । २ पुरुष चेतन तत्त्व है । वह एक निष्क्रिय, निर्गुण, निरुप, सूक्ष्म, व इन्द्रियातीत है । ३ प्रकृति जड़ है । वह दो प्रकार है—परा व अपरा । परा प्रकृतिको प्रधान मूला या अव्यक्त तथा अपरा प्रकृतिको व्यक्त कहते हैं । अव्यक्त प्रकृति तीन गुणोंकी साम्यावस्था स्वरूप है, तथा वह एक है । व्यक्तप्रकृति अनिरय, अव्यापक, क्रियाशील तथा सगुण है । यह सूक्ष्मते स्थूल पर्यन्त क्रमसे २३ भेद रूप है—महत् या बुद्धि, अकार, मन, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच तन्मात्राएँ व पाँच भूत । ४ नन्द, रज व तम तीन गुण हैं । मत्त्व, प्रकाशस्वरूप 'रज' क्रियाशील,

और 'तम' अन्धकार व अवरोधक स्वरूप है। यह तीनों गुण अपनी साम्यावस्थामें सदृश परिणामी होनेसे अव्यक्त रहते हैं और नंगा दृश्य होनेपर व्यक्त हैं, क्योंकि तब कभी तो साख्य गुण प्रधान हो जाता है और कभी रज या तमोगुण। उस समय अन्य गुणोंकी शक्ति हीन रहनेसे वे अप्रधान होते हैं। ५ रजो गुणवे काग्न व्यक्त व अव्यक्त दोनों ही प्रकृति निरय परिणमन करती रहती है। यह परिणमन तीन प्रकारका है—धर्म, लक्षण व अवस्था। धर्मोंका आविर्भाव व तिरोभाव होना धर्मपरिणाम है, जैसे मनुष्यमें देव होना। प्रतिक्षण होनेवाली सूक्ष्म विलक्षणता लक्षण परिणाम है और एक ही रूपसे टिके हुए अवस्था बदलना अवस्था परिणाम है जैसे बच्चेसे बूढ़ा होना। इन तीन गुणोंकी प्रधानता होनेसे बुद्धि आदि ३३ तत्त्व भी तीन प्रकार हो जाते हैं—सात्त्विक, राजसिख, व तामसिक। जैसे—ज्ञान-वैराग्य पूर्ण बुद्धि सात्त्विक है, विषय विलासी राजसिक है और अधर्म हिंसा आदिमें प्रवृत्त तामसिक है—इत्यादि। ६ चक्षु, आदि ज्ञानेन्द्रिय है। हाथ, पाँव, नयन, गुदा व जननेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय है, ज्ञानेन्द्रियोंके विषयभूत रूप आदि पाँच तन्मात्राएँ हैं और उनके स्थूल विषयभूत पृथ्वी आदि भूय कहलाते हैं।

४. ईश्वर व स्रज-दु.स विचार

पददर्शन समुच्चय (३५-३६/२२-३३) (भारतीय दर्शन) । १ ये लोग ईश्वर तथा स्रज-योग आदि क्रियाकाण्डको स्वीकार नहीं करते। २ सत्त्वादि गुणोंकी विषमताके कारण ही स्रज दुख उत्पन्न होते हैं। वे तीन प्रकारके हैं—आध्यात्मिक, आधिभौतिक, व आधिदैविक। ३ आध्यात्मिक दो प्रकार है—कायिक व मानसिक। मनुष्य, पशु आदि वृत्त आधिभौतिक और यक्ष, राक्षस आदि या अतिवृष्टि आदिकृत आधिदैविक है।

५. सृष्टि, प्रलय व मोक्ष विचार

पददर्शन समुच्चय (४४/३८), (भारतीय दर्शन) । १ यद्यपि पुरुष तत्त्व रूपसे एक है। प्रकृतिकी विवृत्तिसे चेतन प्रतिबिम्ब रूप जो बुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं—वे अनेक हैं। जड़ होते हुए भी यह बुद्धि चेतनवत् दीखती हैं। इसे ही ब्रह्म पुरुष या जीवात्मा कहते हैं। त्रिगुणधारी होनेके काग्न यह परिणामी है। २ महत्, अहकार, ग्यारह इन्द्रियाँ न पाँच तन्मात्राएँ, प्राण व अपान इन सत्तरह तत्त्वोंसे मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं। वह इस स्थूल शरीरके भीतर रहता है, सूक्ष्म है और इसका मूल कारण है। यह स्वयं निरूपण योग्य है, पर नटकी भाँति नाग शरीरोंकी धारण करता है। ३ जीवात्मा अपने अदृष्टके साथ परा प्रकृतिमें लय रहता है। जम उसका अदृष्ट पाकोन्मुख होता है तम तमो गुणका प्रभाव हट जाता है। पुरुषका प्रतिबिम्ब उस प्रकृतिपर पडता है, जिससे उसमें क्षोभ या चञ्चलता उत्पन्न होती है और स्वत परिणमन करती हुई महत् आदि २३ विकारोंको उत्पन्न करती है। उससे सूक्ष्म शरीर और उससे स्थूल शरीर बनता है यही सृष्टि है। ४ अदृष्टके विषय समाप्त हो जानेपर ये सब पुन उलटे क्रमसे पूर्वोक्त प्रकृतिमें लय होकर साम्यावस्थामें स्थित हो जाते हैं। यही प्रलय है। ५ अनादि कालसे इस जीवात्माको अपने वास्तविक स्वरूपका ज्ञान नहीं है। २५ तत्त्वोंके ज्ञानसे उसे अपने स्वरूपका भान होता है तब उसके राजसिक व तामसिख गुणोंका अभाव हो जाता है। एक ज्ञानमात्र रह जाता है, वही केन्द्रयकी प्राप्ति है। इसे ही मोक्ष कहते हैं। ६. वह मुक्तात्मा जब तक शरीरमें रहता है तब तक जीवन्मुक्त कहलाता है और शरीर छूट जानेपर विदेह मुक्त कहलाता है। ७ पुरुष व मुक्त जीवमें यह अन्तर है कि पुरुष तो एक है और

और मुक्तात्मा अपने अगे मध्य गुणोंकी पृथक्ताके कारण अनेक है। पुरुष, ज्ञादि न निरय है और मुक्तात्मा नादि व निरय।

६. नगरण कार्य विचार

(भारतीय दर्शन) ये लाल गरुडभासी हैं। ज्योंत इनके अनुमान कार्य मदा अपने गरुडभूत पदार्थमें बिलगा रहता है। गरुडके पूर्व यह जगत्ता रहता है। तमकी स्थायि हो कार्य है। महत्त न तुल्य उत्पन्न होता है न त्र।

७. प्रमाण विचार

(भारतीय दर्शन) प्रत्यक्ष, अनुमान व आगम तीन प्रमाण मानता है। अनुमान व आगम नैर्गमिष्यत्त्व है। 'बुद्धि' अदृष्टकार व मनकी साध नेत्र भाएर निरन जाती है। और इन्द्रिय विदेहके द्वारा उसके प्रतिनियत विषयों प्रमाण करने तदानीय हो जाती है। बुद्धिना विषयाकार होना ही प्रमाण है।

* अन्य मन्त्रन्धित विषय

१. वैदिक अन्य दर्शनोंका क्रमिक विज्ञान—दे दर्शन।
- २ साजुओंका स्वरूप—दे, गोगदर्शन।
- ३ साख्य व योगदर्शनकी तुलना—दे, गोगदर्शन।

८. जैन बौद्ध व सांग्यदर्शनकी तुलना

स्वामि १/परि-घ/पृ ४२० १ जैन व बौद्धों परह साख्य भी वैद, ईश्वर, याज्ञिक क्रियायाएँ, व जाति भेदकी स्वीकार नहीं करता। जैनोंकी भाँति ही बहू आत्मवाद तथा जीवका मोक्ष होना मानता है। जैन व बौद्धों भाँति पत्तियामवादकी स्वीकार करता है। अपने तीर्थंकर कथनोंके क्षत्रियोंमें उत्पन्न हुआ मानता है। वैदिक देवी-देवताओंपर विरगास नहीं करता और वैदिक प्रजाओंपर गदास करता है। सत्तरहात, सन्यास, व सत्तरहातको प्रधानता देता है। ब्रह्मचर्यकी पर्याय गुरु मानता है। गृहस्थ धर्मकी अपेक्षा सन्यास धर्मकी अधिख महत्तर देता है। [self] २ सांग्योंकी भाँति, जैन भी फिमी न किती रूपमें २५ तत्त्वोंकी स्वीकार करते हैं। तथा परम भावप्राप्ति द्रव्याधिक नयसे स्वीकार किया गया एक, व्यापक, निरय, चैतन्यमात्र, जीव तत्त्व ही पुरुष है। सद्रह नयसे स्वीकार किया गया एक, व्यापक, निरय, अजीव तत्त्व ही अकर्म प्रकृति है। द्रव्य व भावकर्म व्यक्त प्रकृति है। शुद्ध निश्चय नगसे जिसे उपरोक्त प्रकृतिका कार्य, विचार तथा जडगाया कहा गया है, ऐसा ज्ञानका क्षयोपशम सामान्य महत्त्व या बुद्धि तत्त्व है, मोहजनित सर्व भाव-जहवार तत्त्व है, सक्कप विक्कप रूप भावमन मनतत्त्व है, पाँचों भावेन्द्रियों ज्ञानेन्द्रियों है। व्यवहार नगसे भेद फरके देवा जाये तो शरीरके अलग वृत्त वाट, पाणि, पाद आदि पाँच कर्मेन्द्रियों भी पृथक् तत्त्व है। शुद्ध निश्चय नगसे ये सभी तत्त्व विदागास है, यही प्रकृतिपर पुरुषका प्रतिबिम्ब है। यह तो चेतन जगत्का विरलेपण हुआ। जड़ जगत्की तरफ भी इसी प्रकार शुद्ध कारण परमाणु व्यक्त प्रकृति है। शुद्ध श्रुत्युद्ध या पर्यायार्थिक दृष्टिसे भिन्न माने गये स्पर्श रस आदि उस परमाणुके गुणोंके स्वलक्षणभूत अत्रिभाग प्रतिकेही ही तन्मात्राएँ हैं। नेगम व व्यवहार नयसे अविभाग प्रतिकेहीसे युक्त परमाणु और परमाणुओंके बन्धसे पृथिवी आदि पाँच भूतोंकी उत्पत्ति होती है। असद्रभूत व्यवहार नयसे द्रव्यकर्मरूप कार्मण शरीर और अशुद्ध निश्चयनय औदारिक व क्षयोपशमिक भावरूप कार्मण शरीर ही जीवका सूक्ष्म शरीर है जिसके कारण उगके स्थूल शरीरका निर्माण होता है और जिसके

विनाशमे उसका मोक्ष होता है। सृष्टि मोक्षकी यही प्रक्रिया सांख्य-मज्जको मान्य है। शुद्ध पारिगात्मिक भावरूप पुरुष व अव्यक्त प्रकृतिको ही तत्त्वरूपसे देखते हुए अन्य सब भेदोंका उसीमें लय कर देना शुद्ध द्रव्यार्थिक दृष्टि है। वही परमार्थ ज्ञान या विवेक ग्याति है। तथा वही एक मात्र साक्षात् मोक्षका कारण है। इस प्रकार सांख्य व जैन तत्व है। ३ परन्तु दूसरी ओर जैन तो उपरोक्त सर्व नयोंके विरोधी भी नयोंके विपर्ययोको स्वीकार करते हुए अनेकान्तवादी है और सांख्य उन्हें न स्वीकार करते हुए एकान्तवादी है। यथा सप्रहनयसे जो पुरुष व प्रकृति तत्त्व एक-एक व सर्व व्यापक है वही व्यवहार नयसे अनेक व व्यापक भी है। शुद्ध निश्चय नयसे जो पुरुष नित्य है अशुद्ध निश्चय नयसे अनित्य भी है। शुद्ध निश्चय नयसे जो बुद्धि, अहंकार, मन व ज्ञानेन्द्रिय प्रकृतिके विकार है अशुद्ध निश्चय नयसे वही जीवकी स्वभावभूत पर्याय है। इत्यादि। इस प्रकार दोनों दर्शनोंमें भेद है।]

सान्तर निरन्तर वर्गणा—दे वर्गणा/१।

सांतरबन्धी प्रकृति—दे, प्रकृति बन्ध/२।

सांतर मार्गणा—दे मार्गणा।

सांतर स्थिति—दे स्थिति/२।

सांद्र—नियमित सान्द्र—Regular Solid (ज प, प्र १०७)।

सांपराय—दे, संपराय।

सांपरायिक आस्त्रव—दे आस्त्रव/१/७।

सांप्रति—सम्राट् अशोकका दादा व चन्द्रगुप्त मौर्यका पुत्र था। मगधका जैनधर्मानुयायी राजा था। मौर्य वंशकी वंशावलीके अनु-सार इसका समय जैन मान्यतानुसार ई पू ३६४-३२४ तथा वर्तमान इतिहासके अनुसार ई पू २६८-२५८ आता है।—दे इतिहास/३/३ (आ हेमचन्द्र रचित परिशिष्ट पर्व/६६-१०)।

सांप्रतिक कृष्टि—दे कृष्टि।

सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष—दे प्रत्यक्ष/१/४।

सांशयिक मिथ्यात्व—दे सशय।

साकांक्ष अनशन—दे अनशन।

साकार—चेतनकी विकल्पात्मक वृत्ति अर्थात् ज्ञान—दे आकार।

साकारमन्त्रभेद—स सि/७/२६/३६६/११ अर्थप्रकरणाङ्गविकार-भूविशेषादिभि पराकृतसुगलम्य तदाविष्करणममूयादिनिमित्त यत्तत्साकारमन्त्रभेद इति कथ्यते।—अर्थवश, प्रकरणवश, शरीरके विकारवश या भ्रूषेप आदिके कारण दूमरेके अभिप्रायको जानकर डाहसे उमका प्रगट कर देना साकारमन्त्रभेद है। (रा वा/७/२६/४/६४/१)।

साकेत—भरत क्षेत्रका एक नगर। अपर नाम अयोध्या। दे मनुष्य/४।

सागर—मध्यलोकमें द्वीपोंके वेष्टित करते हुए एकके पीछे एक करके असत्यात सागर स्थित है—दे लोक/२५। इनके नकशे—दे लोक/७। २ माहयवासु गजदन्तपर स्थित एक कूट तथा नन्दनवनका एक कूट—दे लोक/७। ३, भूतकालीन द्वितीय तीर्थकर—दे तीर्थकर/५। ४ कालका एक प्रमाण—दे गणित/१/१/५।

सागरवृद्धि—बरांग चरित्र/१४/७१—ललितपुरका एक वणिक् तथा बरांगका धर्म पिता।

सागरोपम—कालका एक प्रमाण—दे गणित/१/१/५।

सागार—

चा, पा/मू/२१, २३ सागार मगये १०१। पंचैवाणुष्वयाह गुणव्ययाहं हवति तह तिण्णि। सिव्याय चत्तारिय सजमचरण च मायार १२३।—सागार मयमाचरण परिग्रहसहित श्रावकके होता है १२१। अनु-व्रत पाँच गुणव्रत तीन और शिक्षाव्रत चार ऐसे १२ प्रकार सयमा-चरण चारित्र सो सागार है—विशेष दे, व्रत प्रतिमा। (सा घ, १/१/१२)।

प वि/१/१३ आराध्यन्ते जिनेन्द्रा गुरुषु च विनतिर्धार्मिकं प्रीतिरुच्चै पात्रेभ्यो दानमापन्नित्तजनकृते तच्च कारुण्यबुद्ध्या। तत्त्वाम्यास स्वकीयव्रततरतिरमल दर्शन यत्र पूज्य, तद्गार्हस्थ्य बुधानामितरदिह पुनर्दु खदो मोहपाश ११३। एकादश स्थानानीति गृहिव्रते व्यस-नितात्यागस्तदाद्य स्मृत ११४।—जिस गृहस्थ अवस्थामें जिनेन्द्र-को आराधना की जाती है, निर्ग्रन्थ गुरुओंके प्रति विनय, धर्मा-त्माओंके प्रति प्रीति व तारसव्य, पात्रोंको दान, आपत्ति ग्रस्त पुरुषोंको दया बुद्धिमें दान, तत्त्वोंका परिशीलन, व्रतों व गृहस्थ धर्मसे प्रेम तथा निर्मल सम्यग्दर्शन धारण करना, ये सब धिया जाता है वह गृहस्थ अवस्था विद्वानोंके लिए पूजनेके योग्य है अन्यथा दु खरूप है। श्रावक धर्ममें ग्यारह प्रतिमाएँ निर्दिष्ट की गयी हैं। उस सबके आदिमें द्युत्तादि व्यसनोका त्याग स्मरण किया गया है ११४। (विशेष दे श्रावक)।

मा घ/१/२ अनाद्यविद्यादोपोत्थत्तु सजाज्वरातुरा। शशरस्वज्ञान-विमुखा सागारा विपयोन्मुखा १२।—जनादिकालीन अविद्यारूपी वात पिच कफसे उत्पन्न आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन चार सज्ञारूपी ज्वरोंसे दु खी और सदा अपने ज्ञानज्ञानसे विमुक्त तथा पंचेन्द्रियके विपर्ययोके उन्मुख, ऐसे सागार होते हैं। अर्थात् सकल परिग्रह सहित घरमें रहनेवाले सागार होते हैं।

सागारधर्ममृत—प जागाधर (ई १९७३-१२४३) द्वारा रचित संस्कृत श्लोक बद्ध श्रावकाचार विषयक विस्तृत ग्रन्थ। इसमें आठ अध्याय और ४७७ श्लोक है।

सातकर्णी—भृष्यवशके गोतमीपुत्र शालिवाहनका दूसरा नाम था—दे शालिवाहन।

सातगारव—दे गारव।

साततत्त्व व्यसन आदि—दे सप्त।

सातत्य—Continuum (घ ५/प्र २८)।

साता—दे 'वेदनीय'

सातिप्रयोग—मायाके एक भेद—दे माया/२।

सातिरेक—Excess—(ज प्र/प्र. १०६)।

शालिवाहन—भदावर प्रान्त कचनपुर नगरके अधिवासी एक जैन कवि थे। भट्टारक जग दूषणके दृशिष्य थे। वि स १६६६ में हरिवंश पुराण रचा। (हिन्दी जैन साहित्य इतिहास १०४। कामता प्रसाद)।

सातिशय अप्रमत्त—दे सयत/१/४।

सातिशय मिथ्यादृष्टि—दे मिथ्यादृष्टि/१/३।

सात्यकि पुत्र—११ वें रुद्र—दे शलाका पुरुष/७।

सात्त्विक दान—दे दान/१/५।

सादि—दे अनादि।

सादृश्य—म. भ त/७/७—तद्गित्तवे सति तद्गततूयोधर्मवस्व सादृश्यम्। यथा चन्द्रभिन्ने सति चन्द्रगताहादकरवादि मुक्षे

चन्द्रसादृश्यम् ।—उससे भिन्न हो तथा उसमें रहनेवाले धर्म पदार्थमें हों, यही सादृश्य है । जैसे चन्द्रमासे भिन्न रहते चन्द्रगत आह्लादकरत्न वर्तुलाकार युक्तवह यह चन्द्रसादृश्य सुखमें है ।

सादृश्य प्रत्यभिज्ञान—दे प्रत्यभिज्ञान ।

सादृश्यास्तित्व—दे अस्तित्व ।

साधक श्रावक—दे श्रावक/१/३ ।

साधन—१. लक्षण

१. हेतुके अर्थमें

श्लो वा ३/१/१३/श्लो १२२/२६६ अन्यथानुपपत्त्येकलक्षणं तत्र साधनं ।—अन्यथा अनुपपत्ति ही एक जिसका लक्षण है, वह साधन है । (सि वि/४/२२/३६६/७), (और भी दे हेतु/१/१) ।

न्या दी ३/१/१६/६६ निश्चितसाध्यान्वयथानुपपत्तिक साधनम् । यद्य साध्याभावाभावभवनियमरूपा व्याप्यविनाभावाद्यपरपर्याया साध्यान्वयथानुपपत्तिस्तर्कराग्येन प्रमाणेन निर्णीता तत्साधनमित्यर्थ । तदुक्तं कुमारनन्दिभट्टारके—“अन्यथानुपपत्त्येकलक्षणं लिङ्ग—मङ्गलते” [वादन्याय—] इति ।—जिसकी साध्यके साथ अन्यथानुपपत्ति निश्चित है उसे साधन कहते हैं । तात्पर्य यह है कि जिसकी साध्यके अभावमें नहीं होने रूप व्याप्ति, अविनाभाव आदि नामों-वाली साध्यानुपपत्ति—साध्यके होनेपर ही होना और साध्यके अभावमें नहीं होना—तर्क नामके प्रमाण द्वारा निर्णीत है वह साधन है । श्री कुमारनन्दि भट्टारकने भी कहा है—“अन्यथानुपपत्तिमात्र जिसका लक्षण है उसे लिङ्ग कहा गया है ।”—(और भी दे हेतु/१/१) ।

२. चारित्रिके अर्थमें

भ आ वि/२/१४/२१ उपयोगान्तरेणान्तर्हितानां दर्शनादिपरिणामानां निष्पादन साधन ।—अन्य कार्यके प्रति ज्ञानोपयोग लगनेसे तिरोहित हुए दर्शनादिपरिणामोंको उत्पन्न करना, अर्थात् नित्य व नैमित्तिक कार्य करनेमें चित्त लगनेसे तिरोहित हुए सम्यग्दर्शनादिकोंमेंसे, किसी एकको पुन उपायोंके प्रयोगसे सम्पूर्ण करना साधन कहलाता है ।

दे श्रावक/१/३/४ [मरण समय आहार व मन वचन कायके व्यापारका त्याग करके आत्म शुद्धि करना साधन है । उसको करनेवाला श्रावक साधक श्रावक कहलाता है ।]

* अन्य सम्बन्धित विषय

१ कारणके अर्थमें साधन—दे कारण/१/१/१ ।

२ साधन साध्य संबन्ध—दे संबन्ध ।

३ निश्चय व्यवहारमें साध्य साधन भाग—दे सम्यग्दर्शन आदि वह वह नाम ।

साधनमन्त्र—दे मन्त्र/१/६ ।

साधन विकल—दे दृष्टान्त/१/८ ।

साधन व्यभिचार—दे नय/III/६/८ ।

साधर्म्य—स, भ त/५३/२ साधर्म्यं नाम साध्याधिकरणवृत्तित्वेन निश्चितत्वम् ।—साध्यके आधारोंमें जिसकी वृत्तित्ता निश्चित हो उमको साधर्म्य कहते हैं ।

साधर्म्य उदाहरण—दे दृष्टान्त/१/३ ।

साधर्म्य समा—

न्या- सू व भाष्य/४/१/२ साधर्म्यं वैधर्म्यं-आमुपसहारे तद्धर्मविपर्ययो-

पपत्ते साधर्म्यं वैधर्म्यं समौ । २।—निदर्शन क्रियावाचनारम्भ द्रव्यरय क्रियाहेतुगुणयोगात् । द्रव्य लोष्ट क्रियाहेतुगुणयुक्त क्रियावाच् तथा चारत्मा तस्मात्क्रियावानिति । एव उपसहारे पर साधर्म्येणैव प्रत्यवतिष्ठते निष्क्रिय आत्मा विभुनो द्रव्यस्य निष्क्रियत्वाद् विभु चाकाश निष्क्रिय च तथा चारत्मा तस्मान्निष्क्रिय इति । विशेष-हेत्वभावात्साधर्म्यसम प्रतिषेधो भवति । विशेषहेत्वभावात्साधर्म्यसम-प्रतिषेधो भवति । अथ वैधर्म्यसम क्रियाहेतुगुणयुक्तो लोष्ट परिच्छिन्नो दृष्टो न च तथात्मा तस्मान्न लोष्टवद् क्रियावानिति । विशेषहेत्वभावाद् वैधर्म्यमम । वैधर्म्येण चोपसहारे निष्क्रिय आत्मा विभुत्वात् क्रियावद् द्रव्यमविभु दृष्ट यथा लोष्टो न च तथात्मा तस्मान्निष्क्रिय इति वैधर्म्येण प्रत्यवस्थान निष्क्रिय द्रव्यमाकाश क्रियाहेतुगुणरहित दृष्ट न तथात्मा तस्मान्न निष्क्रिय इति । विशेषहेत्वभावाद् वैधर्म्यसम क्रियावाच् लोष्ट क्रियाहेतुगुणयुक्तो दृष्ट तथा चारत्मा तस्मात् क्रियावानिति ।—विशेष हेत्वभावात्साधर्म्यसम ।—१ वादी द्वारा साधर्म्यं-नी तरफसे हेतुना पक्षमें उपसहार कर चुकनेपर उस साधर्म्यके विपर्यय धर्मकी उपपत्ति करनेसे जा बहों दृग्गण उठाया जाता है वह साधर्म्यसम प्रतिषेध माना गया है । २ और इसी तरह वादी द्वारा वैधर्म्यकी तरफसे पक्षमें हेतुका उपसहार कर चुकनेपर पुन प्रतिवाद द्वारा साध्य धर्मके विपर्ययकी उपपत्ति हो जानेसे वैधर्म्य या साधर्म्यकी आरम्भ प्रत्यवस्थान दिया जाता है वह वैधर्म्यसमा जाति दृष्ट की गयी है । ३ साधर्म्यसमाका उदाहरण—आत्मा क्रियावाच् है क्योंकि यह एक द्रव्य है, और द्रव्य क्रिया हेतु गुणसे युक्त होनेके कारण क्रियावाच् हुआ करता है । जैसे लोष्ट नामका द्रव्य क्रियाहेतु गुणसे युक्त होनेके कारण क्रियावाच् है । इसप्रकार वादी द्वारा साधर्म्यकी तरफसे उपसहार किया जा चुकनेपर प्रतिवादी इसके विपर्ययमें यों कह रहा है कि आत्मा निष्क्रिय है, क्योंकि, यह विभु है और विभुद्रव्य निष्क्रिय हुआ करता है, जैसे कि आकाश । विशेष हेतुके अभावमें साधर्म्यसमा प्रतिषेध होता है । वैधर्म्य समाका उदाहरण—क्रियाहेतुगुणसे युक्त लोष्ट तो परिच्छिन्न अर्थात् अव्यापक देखा जाता है, परन्तु आत्मा आत्मा तो वैसा नहीं है, इस लिए वह लोष्टकी भाँति क्रियावाच् भी नहीं है । विशेष हेतुके अभावमें यह वैधर्म्यसमा जाति है । ४ अथवा वैधर्म्यकी तरफसे उपसहार किया जानेपर दोनोके उदाहरण ऐसे हैं—आत्मा निष्क्रिय है, क्योंकि वह विभु है । लोष्टकी भाँति अविभु द्रव्य ही क्रियावाच् देखा जाता है, परन्तु आत्मा वैसा नहीं है, इसलिए वह निष्क्रिय है, इस प्रकार वैधर्म्यकी तरफसे उपसहार किया जा चुकनेपर प्रतिवादी वैधर्म्यके द्वारा ही प्रत्यवस्थान देता है कि निष्क्रिय आकाश द्रव्य ही क्रियाहेतु गुणसे रहित देखा जाता है, परन्तु आत्मा वैसा नहीं है, इसलिए वह निष्क्रिय है । विशेष हेतुके अभावमें यह वैधर्म्यसमा जाति है । क्रियावाच् लोष्ट द्रव्य ही क्रियाहेतु गुणसे युक्त देखा जाता है और क्योंकि आत्मा भी वैसा ही है, इसलिए वह क्रियावाच् है । विशेषहेतुके अभावमें यह साधर्म्यसमा जाति है । (श्लो वा ४/१/३३/न्या ३२५/४६३/७ तथा न्या ३२६/४७०/७) ।

साधारण—१. साधारणत्वका लक्षण

स भ त/७०/६ अनेकव्यक्तित्वत्त्वमेव हि साधारणत्वम् ।—अनेक व्यक्तियोंमें अनुगत रूपसे होनेवाला वृत्तित्व ही साधारणत्व है । (विशेष दे सामान्य) ।

२. साधारणासाधारण शक्ति

स सा/आ/परि/शक्ति न २६ स्वपरसमानासमानसमानासमानान्नि-विधभावधारणात्मिका साधारणासाधारणसाधारणासाधारणधर्मत्व-

शक्ति १=२४ व परके समान, अपमान और समानसमान ऐसे तीन प्रकारके भावोंकी धारणास्वरूप साधारण, असाधारण और साधारणासाधारण धर्मत्व शक्ति है।

३. साधारण व असाधारण हेत्वाभास

श्लो वा ४/भाषाकार/१/३३/न्या २/७३/४२६/१३,१८ य सपक्षे विपक्षे च भवेत् साधारणस्तु स। प्रस्तुभयस्माद्द्वयावृत्त सत्त्वसाधारणो मत १=व्यभिचारी हेत्वाभास तीन प्रकारका है—साधारण असाधारण और अनुपसहारी। तहाँ जो हेतु सपक्ष व विपक्ष दोनोंमें रह जाता है वह साधारण है, और जो हेतु सपक्ष और विपक्ष दोनोंमें नहीं ठहरता वह असाधारण है।

४. अन्य सम्बन्धित विषय

१. साधारण व असाधारण गुण, निमित्त व पारिणामिक भाव —दे वह वह नाम।

२. वसतिकाका एक दोष—दे वसतिका।

३ साधारण नामकर्म व साधारण वनस्पति—दे वनस्पति/४।

साधारणीकृत—Generalization (ध ६/प्र, २८)।

साधु—पंच महाव्रत पंच समिति आदि २८ मूलगुणों रूप सकल चारित्रको पालनेवाला निर्ग्रन्थ मुनि ही साधु सज्ञाको प्राप्त है। परन्तु उसमें भी आत्म शुद्धि प्रधान है, जिसके बिना वह नग्न होते हुए भी साधु नहीं कहा जा सकता। पुलाक बकुश आदि पाँच भेद ऐसे ही कुछ भ्रष्ट साधुओंका परिचय देते हैं। आचार्य, उपाध्याय व साधु तीनों ही साधुपनेकी अपेक्षा समान हैं। अन्तर केवल सघकृत उपाधिदे कारण है।

१	साधु सामान्य निर्देश
१	साधु सामान्यका लक्षण।
०	साधुके अनेकों सामान्य गुण।
३	साधुके अपर नाम।
४	साधुके अनेकों भेद।
*	यति, मुनि, ऋषि, श्रमण, गुरु, एकलविहारी, जिनकल्प आदि—दे वह वह नाम।
*	प्रत्येक तीर्थकारके कालमें साधुओंका प्रमाण। —दे तीर्थकर/६।
*	पंचम कालमें भी सभव है—दे समय/२/८।
*	साधुकी विनय व परीक्षा सम्बन्धी—दे विनय/४,६।
*	साधुकी पूजा सम्बन्धी—दे पूजा/३।
*	साधुका उत्कृष्ट व जन्य ध्यान—दे श्रुतकेवली/२।
*	ऐसे साधु ही गुरु हैं।—दे गुरु/१।
२	व्यवहार साधु निर्देश
१	व्यवहारालम्बी साधुका लक्षण।
०	व्यवहार साधुके मूल व उत्तर गुण।
*	मूल गुणके भेदोंके लक्षण आदि—दे वह वह नाम।
*	शुभोपयोगी साधु भव्य जनकों तार देते हैं —दे वर्म/१/०।

३	व्यवहार साधुके १० रियति कल्प।
*	सल्लेखनागत साधुकी १० प्रतिमा —दे सल्लेखना/४/११/२।
*	आहार, विहार, भिक्षा, प्रव्रज्या, वसतिका, सस्तर आदि।—दे वह वह नाम।
*	दोक्षासे निर्वाण पर्यन्तकी चर्या—दे, सस्कार/२।
४	अन्य कर्तव्य।
*	साधुकी दिनचर्या—दे कृतिर्म/४।
*	एक करवटसे अत्यन्त अल्प निद्रा—दे निद्रा।
५	मूलगुणोंके मूल्यपर उत्तर गुणोंकी रक्षा योग्य नहीं।
६	मूलगुणोंका अखण्ड पालना आवश्यक है।
७	शरीर सस्कारका कडा निषेध।
८	साधुके लिए कुछ निषिद्ध कार्य।
*	परिग्रह व अन्य अपवाद जनक क्रियाएँ तथा उनका समन्वय।—दे अपवाद/३,४।
*	प्रमादवश लगनेवाले दोषोंकी व उसकी शुभ क्रियाओंकी सीमा—दे समय/३।
*	साधु व गृहस्थ धर्ममें अन्तर—दे मंगम/१/६।

३ निश्चय साधु निर्देश

१	निश्चयावलम्बी साधुका लक्षण।
०	निश्चयसाधुकी पहिचान।
*	भाव लिंग—दे लिंग।
३	साधुमें सम्यक्त्वकी प्रधानता।
४	निश्चय लक्षणकी प्रधानता।
*	२४ वश योगी जीवन्मुक्त व जिनेश्वरका लघु नन्दन है—दे, जिन।
*	२८ मूलगुणोंकी मुख्यता गौणता।
५	निश्चय व्यवहार साधुका समन्वय।
*	सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टिके व्यवहारधर्ममें अन्तर —दे मिथ्यादृष्टि/४।
*	पंचमकालमें भी भाव लिंग सभव है —दे समय/२/८।

४ अयथार्थसाधु सामान्य

१	अयथार्थ साधुकी पहिचान।
*	द्रव्य लिंग—दे लिंग।
२	अयथार्थ साधु श्रावकमे भो तीन हैं।
३	अयथार्थ साधु दु लका पात्र हैं।
४	अयथार्थ साधुसे यथार्थ श्रावक श्रेष्ठ हैं।
५	लाखों अयथार्थ साधुओंसे एक यथार्थ साधु श्रेष्ठ हैं। —दे शीर्षक/न ४।

५	पुलाक व पार्श्वस्थादि साधु
*	पुलाकादि व पार्श्वस्थादिका नाम निर्देश —दे माधु/१/४/३।
*	पुलाकादि व पार्श्वस्थादिके लक्षण—दे वह वह नाम।
१	पुलाकादिमें समय श्रुतादिकी प्ररूपणा।
२	पुलाकादिमें समय लब्धिरथान।
३	पुलाकादि पाँचों निर्यन्त्र हैं।
४	पुलाकादिके निर्यन्त्र होने सम्बन्धी ज्ञान।
५	निर्यन्त्र होते हुए भी इनमें कृणलेश्या क्या।
६	पार्श्वस्थादि मुनि श्रष्टाचारी हैं।
७	पाँचोंके श्रष्टाचारकी प्ररूपणा।
८	पार्श्वस्थादिकी सगतिका निपेय।
६	आचार्य उपाध्याय व साधु
*	आचार्य, उपाध्याय, साधुके लक्षण—दे वह वह नाम।
१	चारित्र्यादिकी अपेक्षा तीनों एक हैं।
*	चत्वारिदण्डक 'साधु' शब्दसे तीनोंका ग्रहण —दे. मन्त्र/२।
२	तीनों एक ही आत्माकी पर्याय हैं।
३	तीनोंमें कयचित् भेद।
४	श्रेणी आदि आरोहणके समय इन उपाधियोंका त्याग।

१ साधु सामान्य निर्देश

१. साधु सामान्यका लक्षण

सू आ/११२ गिन्वाणसाधर जोगे मदा जुजति साधवो। नमा सव्वेसु भुवेसु तम्हा ते सव्वसाधवो।११२।—माक्षकी प्राप्ति करानेवाले मूलगुणादिक तपश्चरणोंको जो साधु मर्याकान अपने आरमासे जोडे और सर्व जीवोंमें समभावको प्राप्त होइ इसलिए वे सर्वसाधु कहनाते हैं।११२।

स सि/१६/२४/४४२/१० चिरप्रव्रजित साधु।=[तपस्वी श्रेष्ठादिमें भेद दरशाते हुए] जो चिरकालसे प्रव्रजित होता है उसे साधु कहते हैं। (रा वा/१६/२४/११/६२३/२४), (चा सा/१६/१/४)।

द्र स/सू/१४/२२१ दसणणाणसमग्ग मग्ग मोक्खस्स जो हु चारित्त। साधयदि णिच्चसुद्ध साहु स मुणे णमो तस्स।१४।—जो दर्शन और ज्ञानसे पूर्ण मोक्षके मार्गभूत सदाशुद्ध चारित्रको प्रकटरूपसे साधते हैं वे मुनि साधु परमेष्ठी हैं। उनको मेरा नमस्कार हो।१४। (प घ/४/६६७)।

क्रियाकलाप/सामायिक दण्डककी टी/३/१/४/१४३ ये व्याख्यायन्ति न शास्त्र न ददाति दीक्षादिक च शिष्याणाम्। कर्मोन्मूलनशक्ता ध्यानरतास्तेऽत्र साधवो ज्ञेया।१५।—जो न शास्त्रोंकी व्याख्या करते हैं और न शिष्योंको दीक्षादि देते हैं। कर्मोंके उन्मूलन करनेको समर्थ ऐसे ध्यानमें जो रत रहते हैं वे साधु जानने चाहिए। (प घ/४/६७०)।

प्र सा/त प्र/२०३ गतिप्रवृत्तिममात्तमस्यभ्रामण्यत्त्वं श्रमणम्।
—विरतिगी प्रवृत्तिके समान ऐसे भ्रामण्यत्त्वे काण श्रमण हैं।

प घ/४/६७१ वैराग्यम परी ताशमविरुद्धधिकप्रभ। दिगम्बरो यथाजातस्त्वाधारी दयापर।१७१।—वैराग्यकी वनकाष्टारों प्राप्त होकर प्रभारशान्ती दिगम्बर यथाजात रूपकी वाण्य करनेवाले तथा दया-परायण ऐसे साधु होते हैं।

२. साधुके अनेकों सामान्य गुण

घ १/१.१/गा ३३/४१ सोह पय-वसह मिय पसु-माग्द-मुम्माहि-गदग्दु-मणी। रिदि-उग्गय-मरिमा परम पय-मिमग्गया साह।३३।—मिष्टके समान पगप्रभो, गरुके समान स्नात्मिनी ता उगत, बैलके समान परप्रवृत्ति, मृगके समान नरुल, पशुके समान निरीह गाचरी वृत्ति करनेवाले, पानके समान निरुग या मय जगह ने रोउटाक विचरनेवाले, नृपके समान तेजस्वी या मरुत तपस्विके प्रकाशक, सागरके समान गम्भीर, मेरु मम अरुम्य व प्रधान, चन्द्रमाके समान शान्तिदायक, मणिके समान प्रभापुष्पक, क्षितिके समान सर्व प्रसारने वादाओंकी मरुनेवाले, सर्वके समान अनियत वसतिकामें रहनेवाले, जाकाशके समान निगम्बो व निर्लेप और सदाशत परमपदका अन्वेषण करनेवाले साधु होते हैं।३३।

दे तपस्वी— [विषयोंकी जाहासे उल्लेख, निरारम्भ, चरित्रश्री तथा ज्ञान-स्थानमें रत रहनेवाले ही प्रशान्त तपस्वी हैं। वही सच्चे गुरु हैं। (और भी दे माधु/१/१)।

३. साधुके अपर नाम

दे. अनगार—[श्रमण, मयत, ऋषि, मुनि, साधु, वीतराग, अनगार, भदन्त, दात व गति उनके नाम हैं।]

दे श्रमण—श्रमणको याति मुनि व अनगार भी करते हैं।

४. साधुके अनेकों भेद

१ यथार्थ व अयथार्थ दो भेद

दे श्रमण—[श्रमण मन्मन् भी होते हैं और मिथ्या भी।]

२. यथार्थ साधुके भेद

प्र सा/सू/२४६ मणगा सुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता ग होति ममयम्भि। तेसु वि सुद्धुवजुत्ता जणासवा सासवा मेसा।२४६।—शास्त्रोंमें ऐसा कहा है कि श्रमण शुद्धोपयोगी भी होते हैं और शुभोपयोगी भी। उनमें शुद्धोपयोगी (वीतराग) निरासव है और शुभोपयोगी (सराग) सायव है। (दे श्रमण)

सू जा/१४८ गिह्दस्थेय विहारो विदिओऽगिह्दस्थेयसिद्धो चेव। एत्तो तदियविहारो णाणुण्णादो जिणवरेहि।१४८।—जिसने जीवादि तत्त्व अच्छी तरह जान लिये हैं ऐसा एकनविहारो और दूसरा अगृहीतार्थ अर्थात् जिमने तत्त्वोंकी अच्छी तरह ग्रहण नहीं किया है इन दोके अतिरिक्त तीसरा विहार जिनेन्द्रदेवने नहीं कहा है। इनमेंसे एकलविहारो देशान्तरमें जाकर चारित्रता अनुष्ठान करता है और अगृहीतार्थ साधुओंके सजमें ररकर साधन करता है।

चा सा २६/४ भिक्षवो जिनरूपधारिणरते गृहधा भवन्ति अनगारा यत्तयो मुनय ऋषयश्चेत्ति।—जिनरूप धारी भिक्षु अनगार, यति, मुनि, ऋषि आदिके भेदसे बहुत प्रकारके हैं। (और भी दे, साधु/१/३), (प्र सा/ता वृ/२६/११), (और भी दे सध)।

दे सखलेखना/३/१ [जिनकण्यविधिधारी क्षपकका निर्देश किया गया है।]

दे छेदोपस्थापना/६ [भगवान् वीरके तीर्थसे पहले जिनकण्यी साधु भी सम्भव थे पर अब पचमकालमें केवल स्थविरकण्यी ही होते हैं।]

दे. वैद्यावृत्त्य—[आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, सप्त, साधु और मनोहृद् इन दश भेदोंकी अपेक्षा वैद्यावृत्त्य १० प्रकार की है।]

सा ध/२/६४ का फुटनोट -ते नामस्थापनाद्रव्यभावत्रयसैश्वर्यतुर्विधा । भवन्ति मुनय सर्वे दानमानादिर्मसु । = दान, मान आदि क्रियाओंके करनेके लिए वे सब मुनि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन निक्षेपोंके भेदसे चार प्रकारके हैं ।

३. पुलाक वक्रुशादिकी अपेक्षा भेद

त. सू/६/४६ पुलाकवक्रुशकुशीलनिर्ग्रन्थस्नातका निर्ग्रन्था । = पुलाक, वक्रुश, कुशील, निर्ग्रन्थ और स्नातक ये पाँच निर्ग्रन्थ हैं। (विशेष दे वह वह नाम) ।

४. भ्रष्टाचारी साधुओंके भेद

मू आ/१६३ पसरथो य कुसोलो ससत्तोसण्ण मिगचरित्तो य । दसणणाणचरित्ते अणित्ता मदसवेगा।६६३। = पार्वस्थ, कुशील, ससक्त, अवसन्न, और मृगचारित्र ये पाँच साधु दर्शन ज्ञान चारित्रमें युक्त नहीं हैं और धर्मादिमें हर्ष रहित हैं इसलिए बन्दने योग्य नहीं हैं। (भ आ/मू/१६४६), (भ. आ/वि/३३६/५४६/६९), (चा सा/१४३/३) ।

२. व्यवहार साधु निर्देश

१. व्यवहारावलम्बी साधुका लक्षण

ध १/१.१.१/५१/२ पञ्चमहाव्रतधरास्त्रिगुप्तिगुप्ता अष्टादशशीलसहस्रधराशचतुरशीतिशतसहस्रगुणधराशच साधव । = जो पाँच महाव्रतोंको धारण करते हैं, तीन गुप्तियोंसे सुरक्षित हैं, १८००० शीलके भेदोंको धारण करते हैं और ८४०००,०० उत्तरगुणोंका पालन करते हैं वे साधु परमेष्ठी होते हैं। दे. समय/१/२ ।

न. च वृ/३३०-३३१ दसणमुद्धिविमुद्धो मूलाद्गुणेहि संजुओ तहय । ३३०। अग्रहेण रायरहिओ वयाइरायेण जो हु सजुत्ता । सो इह भणिय सरागो । ३३१। = दर्शनशुद्धिसे जो विशुद्ध है तथा मूलादि गुणोंसे सयुक्त है ३३०। अशुभ रागसे रहित है, व्रत आदिके रागसे सयुक्त है वह सराग भ्रमण है । ३३१।

त सा/६/६ अद्धान परद्रव्य बुध्यमानस्तदेव हि । तदेवोपेक्षमाणश्च व्यवहारी स्मृतो मुनि । ६। = जो सातों तत्त्वोंका भेदरूपसे अद्धान करता है, वैसे ही भेदरूपसे उसे जानता है तथा वैसे ही भेदरूपसे उसे उपेक्षित करता है अर्थात् विकल्पात्मक भेद रत्नत्रयकी साधना करता है वह मुनि व्यवहारावलम्बी है । ६।

प्र. सा/त प्र/२४६ शुभोपयोगिश्रमणाना शुद्धात्मानुरागयोगि चारित्रत्वनक्षणम् । २४६। = शुद्धात्माका अनुराग युक्त चारित्र शुभोपयोगी श्रमणोंका लक्षण है ।

२. व्यवहार साधुके मूल व उत्तर गुण

प्र. सा/मू/२०८-२०९ वदसमिदिदियरोधो लोचावस्सयमचेलमणहाण । त्विदिसयणमदत्तधोवण ठिदिभोयणमेगभत्त च । २०८। एदे खल्ल मूलगुणा समणाण जिणवरोहि षण्णत्ता । २०९। = पाँच महाव्रत, पाँच समिति, पाँच इन्द्रियोंका रोध, केशलोच, पद् आवश्यक, अचेलकत्व, अस्नान, भूमिशयन, अदन्तधोवन, खड़े खड़े भोजन, एक बार आहार ये वास्तवमें श्रमणोंके २८ मूलगुण जिनवरोंने कहे हैं। २०८-२०९। (मू आ/२-३), (न च वृ/३३४), (प ध/७, ७२५-७२६) ।

दे ब्रह्मचर्य/१/६ [(तीन प्रकारकी अचेतन स्त्रियाँ × मन वचन व काय × कृत कारित अनुमोदना × पाँच इन्द्रियाँ × चार कपाय = ७२०), + (तीन-

प्रकारकी चेतन स्त्रियाँ × मन वचन काय × कृत कारित अनुमोदना × पाँच इन्द्रियाँ × चार मज्ञा × सोलह कपाय = १५२८०); = १८०००] इस प्रकार ये ब्रह्मचर्यकी विरावनाके १८००० अंग हैं। इनके त्यागमे साधुको १८००० शील गुण वहे जाते हैं। जयना [मन वचन कायकी शुभ क्रिया रूप तीन योग × इन्द्रियोंकी अशुभकी प्रवृत्तिरूप तीन कर्ण × चार सज्ञा × पाँच इन्द्रियाँ × पृथिवी आदि दस प्रकारके जीव × दश धर्म = इस प्रकार साधुके १८००० शील वहे जाते हैं।] ।

द पा/टी/१/८/१८ का भावार्थ—[(पाँच पाप, चार तपाय, जुगुप्सा, भय, रति, अरति ये १३ दोष हैं + मन वचन कायकी दुष्टता ये ३ + मिथ्यात्व, प्रमाद, पिशुनत्व, अज्ञान, पाँच इन्द्रियोगा निग्रह ये पाँच—इन २१ दोषोंका त्याग २१ गुण है।) ये उपरोक्त २१ गुण × अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार ये चार × पृथिवी आदि १०० जीवसमास × १० शील विरावना (दे ब्रह्मचर्य/२/४) × १० आलोचनाके दोष (दे आलोचना) × १० धर्म = ८४०००,०० उत्तरगुण होते हैं।]

३. व्यवहार साधुके १० स्थितिकल्प

भ आ/मू/४२१ आचेलवकुद्धे सियसेज्जाहरगयपिडकिरियम्म । जेट्ठपडिक्कमणे वि य मासं पज्जो सबणक्को । ४२१। = १ अचेलकत्व, २ उद्धिष्ट भोजनका त्याग, ३ शय्याग्रह अर्थात् वसतिका बनवाने या सुधरवानेवालेके आहारका त्याग, ४ राजपिड अर्थात् अमीरोंके भोजनका त्याग, ५ कृतिकर्म अर्थात् साधुओंकी विनय शून्यता आदि करना, ६ व्रत अर्थात् जिसे व्रतका स्वरूप मालूम है उसे ही व्रत देना, ७ ज्येष्ठ अर्थात् अपनेसे अधिकका योग्य विनय करना, ८ प्रतिक्रमण अर्थात् नित्य लगे दोषोंका शोधन, ९ मासैकनायता अर्थात् छहों ऋतुओंमेंसे एक मास पर्यन्त एकत्र मुनियोंका निवास और १०. पद्य अर्थात् वर्षाकालमें चार मास पर्यन्त एक स्थानपर निवास—ये साधुके १० स्थितिकल्प कहे जाते हैं। (मू आ/६०६) ।

४. अन्य कर्तव्य

भा पा/टी/७८/२२६/११ त्रयोदशक्रिया भावय त्व त्रिविधेन त्रिकरणशुद्ध्या पञ्चनमस्कारा, पञ्चावश्यकानि, चैत्यालयमध्ये प्रविशता निसिही निसिही निसिही इति वारत्रय द्युच्चार्यते, जिनप्रतिमावन्दनाभक्त कृत्वा बहिर्निर्गच्छता भव्यजीवेन असिही असिही असिही इति वारत्रय द्युच्चार्यते इति त्रयोदशक्रिया हे भव्य । त्व भावय । अथवा पञ्चमहाव्रतानि पञ्चसमितयस्तिहो गुप्स्यश्चेति त्रयोदशक्रियास्त्रयोदशविध चारित्र हे भव्यवरपुण्डरीकमुने । त्व भावय । = हे भव्य, तू मन वचन व कायकी शुद्धि पूर्वक १३ क्रियाओंकी भावना कर । वे १३ क्रियाएँ ये हैं—१ पञ्च नमस्कार, पञ्च आवश्यक, चैत्यालयमें प्रवेश करते समय तीन बार 'निसिही' शब्दका उच्चारण और चैत्यालयसे बाहर निकलते समय तीन बार 'असरी' शब्दका उच्चारण । (अन ध/८/१३०/८२१) २ अथवा पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुप्ति ये तैरट प्रकारका चारित्र ही तैरह क्रियाएँ हैं। (दे चारित्र/१/४) ।

दे मयत/३/२ [अर्हदादिको भक्ति, ज्ञानियोंमें वारमय, श्रमणोंके प्रति बन्दन, अभ्युत्थान, अनुपमन, व वैद्यावृत्त्य रचना, आहार व नीहार, तत्त्व विचार, धर्मोपदेश, पर्वके दिनोंमें उपवास, चातुर्मास योग, शिरोनति व आवर्त आदि कृतिकर्म नहित प्रतिदिन देव रन्दना, आचार्यरन्दना, स्वाध्याय, रात्रियोग धारण, प्रतिक्रमण, प्रत्याग्यान आदि, ये सप्त क्रियाएँ शुभोपयोगी साधुनी प्रमत्त अवस्थामें होती हैं।]

दे समय/१/६ [वीतनागी साधु स्वयं हटकर तथा अन्य साधु पीछीसे जीवोंकी हटाकर उनकी रक्षा करते हैं।]

५. मूलगुणोंके मूल्यपर उत्तरगुणोंकी रक्षा योग्य नहीं

प वि १/४० मुखवा मूलगुणान् गतेर्विधत्त शेषेषु यत्नं पर, २०४। मूलहरी भवत्यविरतं पूजादिकं वाञ्छत । एक प्राप्तमे प्रहारमत्तुल हिरा शिरश्छेदक, रक्षयद्गुलिकाटिखण्डनपर गोऽन्यो रणे बुद्धि-मान् ४०। = मूलगुणोंको छोड़कर कबल शेष उत्तरगुणोंके परिपाननमें ही प्रयत्न करनेवाले तथा निरन्तर पूजा आदिकी इच्छा करनेवाले साधुका यह प्रयत्न मूलघातक होगा। कारण कि उत्तरगुणमें दृढता उन मूलगुणोंके निमित्तसे ही प्राप्त होती है। इसीलिए यह उमका प्रयत्न इस प्रकारका है जिस प्रकार कि युद्धमें कोई मूर्ख युध्द जाने शिरका छेदन करनेवाले शत्रुके अतृपम प्रहारकी परमाह न करने केवल अँगुनीके अग्रभागको खण्डित करनेवाले प्रहारमें ही अपनी रक्षा करनेका प्रयत्न करता है ४०।

६. मूलगुणोंका अखण्ड पालन आवश्यक है

प ध ३/७४३-७४४ यतेर्मूलगुणाश्चाष्टाविंशतिर्मूलवत्तरो । नाश्याम-न्यतमेनोना नातिरिक्ता कदाचन ७४३। सर्वैरभि समस्तैश्च मिदं यवान्मुनिव्रतम् । न व्यस्तेर्व्यस्तमात्र तु यावदक्षनयादपि ७४४। = बृहत्की जड़के समान मुनिके २८ मूलगुण होते हैं। किसी भी समय मुनियोंमें न एक कम होता है, न एक अधिक ७४३। सम्पूर्ण मुनिव्रत इन समस्त मूलगुणोंमें ही सिद्ध होता है, किन्तु केवल अशक्त ही विषय करनेवाले किसी एक नयरी अपेक्षासे भी असमस्त मूलगुणोंके द्वारा एक देशरूप मुनिव्रत सिद्ध नहीं होता ७४४।

७. शरीर संस्कारका कड़ा निषेध

मू आ १/२३६-२३८ ते छिण्णोद्दधधा णिण्णोहा अप्पणो सरीरम्मि । ण करति किञ्चि साहू परिम ठप्प सरीरम्मि २३६। सुहणयण-दत्तधोयणमुठ्ठपट्टणपादधोयण चैव । सवाहणपरिमद्वणमरीरसठावण सच्चं २३७ धुवणमण विरेयण अजण अभगसेवण चैव । णस्युव-त्थियकम्म मिल्हेज्ज अप्पणो मव्व २३८ = पुत्र स्त्री आदिमें जिन्होंने प्रेमरूपी बन्धन काट दिया है और जो अपने शरीरमें भी ममता रहित है, ऐसे साधु शरीरमें कुछ भी संस्कार नहीं करते हैं २३६। मुख नेत्र और दंतार्का धोना शोधना पलायना, उबटन करना, पैर धोना, अंगमर्दन करना, मुट्ठीसे शरीरका साङ्गन करना, ऋतुके यन्त्रमें शरीरका पीड़ना, ये सब शरीरके संस्कार हैं २३७। धूपसे शरीरका संस्कार करना, ऋतुशुद्धिके लिए वसन करना, औषध आदिसे दस्त लेना, अजन लगाना, सुगन्ध तेल मर्दन करना, चन्दन, कस्तूरीका लेप करना, सलाई बत्ती आदिसे नासिकाकर्म व वस्तिकर्म (इनेमा) करना, नसोंसे लोहीका निकालना ये सब संस्कार अपने शरीरमें साधुजन नहीं करते २३८।

८. साधुके लिए कुछ निषिद्ध कार्य

मू आ/गा पिंडोवधिसेज्जाओ अविसोधि य जो य भुज्जे समणो । मूलदंठाण पत्तो भुवणेषु हवे समणपोषलो ११६। किं तस्स ठाणभोग किं काहदि अन्नमवगाममादावो । भेत्तिविहूणो समणो मिज्जफदि ण ह्मु सिद्धिक्खावि १२४। चड्ढो चबलो मवो तह साहू पुट्ठिममपडि-सेवी । गारवक्सायवह्लो दुरासओ होदि सो समणो १२५। दम परपरिवाद पिप्पुणत्तण पावमुत्त पडिसेव । चिरपड्ढवपि मुणी आग भज्जुद ण सेविज्ज १२५। = जो मुनि आहार, उपकरण, आवास इनको न सोधकर सेवन करता है वह मुनि गृहस्थपनेको प्राप्त होता है। और लोकमें मुनिपनेसे हीन कहलाता है ११६। उस मुनिके कायोत्सर्ग मौन और अन्नवकाश योग, आतापन योग क्या कर

गर्ता है। जा गानु मत्री भयं रति छे वह मोयका पाहनेशान एनेपर भी मायका नहीं पा मयका १२७। जो अरुदन्त क्रोधी है, चंचलप्रभाशाला है, चात्रिमें प्रान्तरी, पीर, देव करनेवाला पिशुन है, गुरुता वयाय बहुत गमता है गेगा गानु मेरने मोय नहीं १२४। जो ठगनेवाला है, दूसरोंकी पीड़ा देनेवाला है, भूठे श्रेय को ग्रहण करनेवाला है, मार्ग आदि मन्त्रज्ञान्त्र अथवा हिमापीषा शास्त्रोंका भेरीवाला है, आरम्भ सहित है, ऐसे बहुत तानने भी शीघ्रित मुनियों गदापण्यो नहीं भेरे १२५।

र सा/१०० विहाइ विष्णुसुक्तीं ज्ञाहाग्ग्माइरिहओ णणो १२०। = यत्तोज्ज्व विवधा करनेमें मुक्त तथा आधाकर्मदि सहित चर्मात्ति रहित है। (विधेय दे कथा/७, तथा आहार/II/२) ।

भा पा/प्र/६६ अयमाव भायणेण य किं मे जग्गेण णवमन्दिणं । पेत्तण्णहाममच्चमात्रागृत्तेण मवणेण ६६। = पेत्तुय, हास्य मत्स्य माया आदिरी गृहणतायुक्त प्रमत्तपनेमें जयवा उमके नग्नपनेसे क्या माध्य है। यह तो अण्यसाता भाजन है ६६।

नि पा/मू/३-२० णवदि मायदि ताव यारं चाणदि निगत्तेण । मो पागोहिदमदो तिरिक्खजोणी ण सो ममणो १४। कन्हा वाद द्वादि णिच्च मट्टपाणणविराओ निगो । वत्तणि गरयं पाटो कम्मणो निगत्तेण १६। कट्टपाणम वट्टइ कम्मणो भोयणेषु र्गमिद्वि । मायी निग विवाइ तिरिक्खजोणी ण सो ममणो १२। उप्पट्टदि पट्टदि धावदि पुट्टवीजा वणदि निगत्तेण । इत्थिगाह धागती तिरिक्ख-जोणी ण सो ममणो १३। गगो कट्टेदि णिच्च मट्टिणावर्गं प व दूमेइ । दमणणाणविहीणो तिरिक्खजोणी ण सो ममणो १७। पठवज्जोती गहिउ णेहि मासम्मि वट्टेइ मट्टमो । आया निगगहीणो तिरिक्खजोणी ण सो ममणो १८। वमणणाणवत्ति मट्टिणावर्गम्मि देहि वीमट्टो । पातरथ वि हु णियट्टो भावविणट्टो ण सो ममणो १९। = जो साधुका निग ग्रहण करके तृय करता है, माता है, बाजा बजाता है, २। मट्ट मानसे गमित होकर निरन्तर कन्हा व वाद करता है (दे वाद/७), पत्तकीडा करता है १६। कन्दर्वादि भावनाओंमें रतता है (दे भावना/१/३) तथा भोजनमें रमगृद्धि रतता है (दे आहार/II/५), मायाचारी व व्यभिचारका सेवन करता है (दे ब्रह्मचर्य/३) १२। ईर्ष्याय मोघे मित्ता दीद्वे हुए अथवा उछलते हुए चलता है, गिर पड़ता है और फिर उठकर दौडता है १३। महिला वर्गमें नित्य राग करता है, और दूसरोंमें दोष निकालता है १७। गृहस्थों व शिष्योंपर स्नेह गमता है १८। स्त्रियोंपर विद्वानस करके उनको बर्दान ज्ञान पारित्र प्रदान करता है, वह तिर्यग्गोनि है, नरकका पात्र है, भावोंसे विनष्ट हुआ वह पारर्वस्थ है साधु नहीं १२।

प ध/उ/६५७ यद्वा मोहात् प्रमादाद्वा कुर्याद् यो लौकिकी क्रियाम् । तावत्काल म नाचार्याऽप्यस्ति चान्तरं ताच्छ्रुत । = जो मोहमें अथवा प्रमादमें जितने काल तक लौकिक क्रिया करता रहता है, उतने काल तक वह आचार्य नहीं है और अन्तरगमें व्रतोंसे च्युत भी है ६५७।

दे मावच/८ (वेयावृच्य आदि शुभक्रियाएँ करते हुए पट् कायके जीवोंको बाधा नहीं पहुँचानी चाहिए) ।

दे, विहार/१/१ [स्त्रचन्द्र व एकत विहार करना इस कालमें वर्जित है ।]

दे धर्म/६/६ [अधिक शुभप्रयोगमें वर्तन करना साधुको योग्य नहीं क्योंकि वैगावृच्यदि शुभ कार्य गृहस्थोंको प्रधान हैं और साधुओंको गौण ।]

दे मन्त्र/१/३-४ [मन्त्र तन्त्र, ज्योतिष, वैद्यक, बशीकरण, उच्चाटन आदि करना मन्त्र सिद्धि, शम्भ्र अजन सर्प आदिकी सिद्धि करना तथा आजोबिका करना साधुके लिए वर्जित है ।]

दे सगति—[दुर्जन, लौकिक जन, तरुण जन, स्त्री, पुश्चली, नपुंसक, पशु आदिकी सगति करना निषिद्ध है । आर्यिकसे भी सात हाथ

दूर रहना योग्य है। पार्श्वस्थादि भ्रष्ट मुनियोंकी सगति वर्जनीय है।]

दे भिक्षा/२-३ [भिक्षार्थ वृत्ति करते समय गृहस्थके घरमें अभिमत्त स्थानसे आगे न जावे, धिद्धर्मोंसे भौंककर न देखे, अत्यन्त तग व अन्धकारयुक्त प्रदेशमें प्रवेश न करे। व्यस्त व शोक युक्त घरमें, विवाह व यज्ञशाला आदिमें प्रवेश न करे। बहु जन ससक्त प्रदेशमें प्रवेश न करे। विधर्मी, नीच कुलीन, अति दरिद्रो, तथा राजा आदिका आहार ग्रहण न करे।

दे आहार/II/२ [मात्रासे अधिक, पीष्टिक व गृद्धता पूर्वक गृहस्थपर भार डालकर भोजन ग्रहण न करे।]

दे साधु/४/१ तथा ५/७ [इतने कार्य करे वह साधु सच्चा नहीं।]

३. निश्चय साधु निर्देश

१ निश्चय साधुका लक्षण

प्र सा/मू/२४१ समसत्त्वधुवगो समसुहृदुक्खो पमसण्णिसमो । समलोदुक्कचणो पुण जीवितमरणे समो समणो । २४१। =जिसे शत्रु और बन्धुवर्ग समान है, सुख दुःख समान है, प्रशंसा और निन्दाके प्रति जिसको समता है, जिसे लाष्ट (दला) और सुवर्ण समान है, तथा जीवन मरणके प्रति जिसको समता है, वह श्रमण है। (मू आ/५२१)

नि सा/मू ७५ वावाराविप्पमुक्का चउव्विहारहाणसयारत्ता । णिगगथा णिमोहा साहू एदेरिसा होति । ७५। =काय व वचनके व्यापारसे मुक्त, चतुर्विध आराधनामें सदा रक्त, निर्ग्रन्थ और निर्माह- ऐसे साधु होते हैं।

मू. आ/१००० णिस्सगो णिरारभो भिक्खवाचरियाए सुद्धभावो । य एगगी उक्काणरदो सव्वगुड्डो हवे समणो । १०००। =जो निष्परिग्रही व निरारम्भ है, भिक्षाचर्यामें शुद्धभाव रखता है, एकाकी ध्यानमें लीन होता है, और सब गुणोंसे परिपूर्ण होता है वह श्रमण है । १०००। (और भी दे, तपस्वी तथा लिंग/१/२)

घ. १/१.२.१/५१/१ अनन्तज्ञानादिशुद्धात्मस्वरूप साधयन्तीति साधव । =जो अनन्त ज्ञानादिस्वरूप शुद्धात्माकी साधना करते हैं उन्हें साधना कहते हैं।

ध. ५/३.४१/८७/४ अणतणानदसणवीरियविरहखइयसम्मत्त.दीण साट्या साहू णाम । =अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य, विरति और क्षायिक सम्यक्त्वादि गुणोंके जो साधक हैं वे साधु कहलाते हैं।

न च. वृ/३३०-३३१ । सुहृदु ख्राहसमाणो भ्राणे लीणो हवे समणो । ३३०। । मुक्क दोहण पि खल्ल इयरो । ३३१। =सुख दुःखमें जो समान है और ध्यानमें लीन है, वह श्रमण होता है। शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके रागसे मुक्त वीतराग श्रमण है।

त सा/६/६ स्वद्रव्य अद्धानस्तु बुध्यमानस्तदेव हि । तदेवोपेक्षमाणश्च निश्चयान्मुनिसत्तम । ६। =जो निजात्माको ही अद्धानरूप व ज्ञानरूप बना लेता है और उपेक्षारूप ही जिसकी आत्माकी प्रवृत्ति हो जाती है, अर्थात् जो निश्चय व अभेद रत्नत्रयकी साधना करता है वह श्रेष्ठ मुनि निश्चयावलम्बी माना जाता है । ६।

प्र सा/ता वृ/२६२/३४५/१६ रत्नत्रयभावनया स्वात्मान साधयतीति साधु । =रत्नत्रयकी भावनारूपसे जो स्वात्माको साधता है वह साधु है। (प. प्र/दो/१/७/१४/७), (प. घ/उ/६६७)

२ निश्चय साधुकी पहचान

प घ/उ/६६८-६७४ नोच्चाप्पाय यमी किंचिद्धस्तपादादिसङ्गया । न किंचिद्वर्शयेत् स्वस्थो मनसापि न चिन्तयेत् । ६६८। आस्ते स शुद्ध-मात्मात्मास्तिष्ठन्नुवांशच परम् । स्तिमितान्तर्पहिज्जवो निस्तरङ्गा-

विध्वन्मुनि । ६६९। नादेशं नोपदेश वा नादिशेत् स मनागपि । स्व-गर्पवर्गमार्गस्य तद्विपक्षस्य किं पुन । ६७०। वैराग्यस्य परा काष्ठा-मधिरुद्धोऽधिरुप्रभ । ६७१। निर्ग्रन्थोन्तर्बहिर्मोहग्रन्थेऽद्भ्यन्थको यमी । ६७२। परीपहोपसर्गाद्यैरजटयो जितमन्मथ । ६७३। इत्याद्यनेकधानेकै साधु साधुगुणै भित । नमस्य श्रेयसेऽवश्य नेतरो विदुषां महात् । ६७४। =यह साधु कुछ नहीं बोले। हाथ पाँव आदिके उधारेसे कुछ न दशावे, आत्मस्थ होकर मनमें भी कुछ चिन्तवन न करे । ६६८। केवल शुद्धात्मामें लीन होता हुआ वह अन्तरग व बाह्य वाग्व्यापारसे रहित निस्तरग समुद्रकी तरह शान्त रहता है । ६६९। जब वह मोक्षमार्गके विषयमें ही किंचित् भी उपदेश या आदेश नहीं करता है, तब उससे विपरीत लौकिक मार्गके उपदेशादि कैसे कर सकता है । ६७०। वह वैराग्यकी परम पराकाष्ठाको प्राप्त होकर अधिक प्रभावशाली हो जाता है । ६७१। अन्तरग बहिरग मोहनी ग्रन्थिको खोलनेवाला वह यमी होता है । ६७२। परीपहो व उपसर्गोंके द्वारा वह पराजित नहीं होता, और कामरूप शत्रुको जीतनेवाला होता है । ६७३। इत्यादि अनेक प्रकारके गुणोंसे युक्त वह पूज्य साधु ही मोक्षकी प्राप्तिके लिए तत्त्वज्ञानियोंके द्वारा अवश्य नमस्कार किये जाने योग्य है, किन्तु उनसे रहित अन्य साधु नहीं । ६७४।

३. साधुसे सम्यक्त्वकी प्रधानता

प्र सा/मू/गा सत्तासबद्धेदे सविसेसे जो हि णेव सामणो । सहृदि ण सां समणो तत्तो धम्मो ण सभवदि । १११। ण हवदि समणो त्ति मदो सजमतगमुत्तसपजुत्तो वि । जदि सहृदि ण अथे आदपधाणे जिणवखदे । १२४। जे अजधागहिदत्था एदे तच्च त्ति णिच्छिदा समये । अच्चतफलसमिद्ध भमति ते तो पर कालं । १२९। =जो श्रमणावस्था-में इन सत्ता सयुक्त सविशेष (नव) पदार्थोंकी श्रद्धा नहीं करता वह श्रमण नहीं है उससे धर्मका उद्भव नहीं होता । १११। सूत्र, सयम और तपसे सयुक्त होनेपर भी यदि जिनोक्त आत्मप्रधान पदार्थोंका श्रद्धान नहीं करता तो वह श्रमण नहीं है ऐसा कहा है । १२४। भले ही द्रव्य-लिंगीके रूपमें जिनमतके अनुसार हों तथापि वे 'यह तत्त्व है (वस्तुस्वरूप ऐसा ही है), इस प्रकार निश्चयपना वर्तते हुए पदार्थोंको अयथार्थतया ग्रहण करते हैं (जैसे नहीं हैं वैसे समझते हैं) वे अत्यन्तफलसमृद्ध आगामी कालमें परिश्रमण करेंगे । १२९।

र सा/१२७ वयगुणसौलपरीसयजय च चरिय च तव पडावसय । भाण-उक्कण सव्व सम्मविणा जाण भवकीय । =धिना सम्यग्दर्शनके वत, २८ मूलगुण, ८४,००,०० उत्तरगुण, १८००० शील, २२ परीपहों का जीतना, १३ प्रकारका चारित्र, १२ प्रकार तप, पडावश्यक, ध्यान व अध्ययन ये सब ससारके वीज हैं। (और भी दे चारित्र, तप आदि वह-वह नाम)

मो पा/मू/६७ वहिरसगविमुक्को णा वि मुक्को मिच्छभाव णिग्गथो । किं तस्स ठाणमउण ण वि जाणदि अप्पसम्मभाव । ६७। =बाह्य परिग्रहने रहित होने पर भी मिथ्याभावसे निर्ग्रन्थ लिंग धारण करनेके कारण वह परिग्रह रहित नहीं है। उसके फायोत्सर्ग और मौन धारणसे क्या साध्य है।

प्र सा/त प्र/२६४ आगमज्ञोऽपि श्रमणाभानो भवति । (दे ऊपर प्र सा/मू/२६४ का अर्थ) इतना कुछ होनेपर भी वह श्रमणाभास है। दे कर्त्ता/३/१३ [आत्माको परद्रव्योका कर्त्ता देवने वाले भले ही लोकोत्तर हों अर्थात् श्रमण हों पर वे लौकिकपनेको उल्लंघन नहीं करते।]

दे लिंग/२/१ [सम्यग्दर्शन युक्त ही नग्नरूपको निर्ग्रन्थ मज्ञा प्राप्त है।]

४ निश्चय लक्षणकी प्रधानता

भ आ मू/१३४७/१३०४ षोडशलिङ्गममाणस्त तस्स अ-नतरग्नि कुधि-दस्स । वाहिरकरण किं से वाहिदि वगणिदुदकरणम् । १३२०।

—मगुले को चेष्टाके समान, अन्तरगमें कपायसे मलिन साधुकी वाह्य क्रिया किस कामकी १ वह तो घोडेकी लीदके समान है, जो ऊपरसे चिकनी अन्दरमें दुर्गन्धी युक्त होती है।

नि सा १/१२८ किं काहिदि वनवासो कायकनेसो विचिचत्तववासो । अज्झयणमौणणहुदो समदारहिदस्स समणस्स १२४। —वनवास, कायकनेसरूप अनेकप्रकारके उपवास, अध्ययन, मौन आदि, ये सब समता रहित श्रमणको क्या कर सकते हैं।

मू आ १८० अक्कमाय तु चारित्त कसायवसिओ असजदो होदि । उवसमदि जम्भित्त काले तक्काले सजदो होदि १८२। —अक्कपायपनेको चारित्र कहते हैं। वपायके वश होनेवाला असयत है। जिस कालमें कपाय नहीं करता उसी कालमें सयत है। (५ प्र १/२/४१)

सू पा १/१५ अह पुण अप्पा णिच्चद्विधं धम्मोइ करेड गिरवसेसाई । तह वि ण पावदि सिद्धि ससारस्थो पुण भणियो १५। —सर्व धर्मोंको निरवशेषरूपसे पालता हुआ भी जो आत्माकी इच्छा नहीं करता वह सिद्धिको प्राप्त नहीं होता बल्कि ससारमें ही श्रमण करता है १५।

भा पा १/१२ जे के वि दव्वसमणा इदियसुहआउला ण त्तिदत्ति । छिदत्ति भावसमणा क्काणकुठारेहि भवरुवण १२२। —इन्द्रिय विषयोंके प्रति व्याकुल रहनेवाले द्रव्य श्रमण भववृक्षका छेदन नहीं करते, ध्यानरूपी कुठारके द्वारा भाव श्रमण ही भववृक्षका छेदन करते हैं। (दे चारित्र १/३ तथा लिंग १/२)

दे, चारित्र १/३ [मोहादिसे रहित व उपशम भाव सहित किये गये ही व्रत, समिति, गुप्ति, तप, परीपह जय आदि मूलगुण व उत्तरगुण ससारछेदके कारण हैं, अन्यथा नहीं।]

दे ध्यान १/२१० [महाव्रत, समिति, गुप्ति, परयाग्यान, प्रायश्चित्त आदि सब एक आत्मध्यानमें अन्तर्भूत है।]

दे अनुभव १/१६ [निश्चय धर्मध्यान मुनिको ही होता है गृहस्थको नहीं।]

प्र सा/त प्र/गा एक एव हि स्तद्व्यप्रतिबन्ध उपयोगमार्जकत्वेन मार्जितोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य परिपूर्णतायतन, तस्माद्भावादेव परिपूर्ण-श्रामण्यम् १२१४। न चेकाग्रमन्तरेण श्रामण्य सिद्धयेत् १२३२। —एक स्वद्वय-प्रतिबन्ध ही, उपयोगको शुद्ध करनेवाला होनेसे शुद्ध उपयोगरूप श्रामण्यकी पूर्णताका आयतन है, क्योंकि उसके सद्भावसे परिपूर्ण श्रामण्य होता है १२१४। एकाप्रताके बिना श्रामण्य सिद्ध नहीं होता १२३२।

५ निश्चय व्यवहार साधुका समन्वय

र मा/११,६६ दार्ण पूजा मुख सावयधम्मे ण सावया तेण विणा । क्काणाकण्णं सुखं जइधम्म ण त विणा तथा सो वि ११। तच्च-वियारणमीलो मोक्खपटाराहणसहावजुदो । अणवरय धम्मवहाप-सगादो होड मुणिराओ १६६। —दान व पूजा ये श्रावकके मुख्य धर्म हैं। इनके बिना श्रावक नहीं होता। परन्तु साधुकीको ध्यान व अध्ययन प्रधान है। इनके बिना यतिधर्म नहीं होता ११। जो मुनि-राज सदा तत्त्वविचारमें लीन रहते हैं, मोक्षमार्ग (रत्नत्रय) का आराधना करना जिनका स्वभाव है और जो निरन्तर धर्मव्याममें लीन रहते हैं जयति यथा अवकाश रत्नत्रयकी आराधना व धर्मोप-देशादि रूप दोनो प्रकारकी क्रियाएँ करते हैं वे यथार्थ मुनि हैं १६६।

प्र सा/मू/२१४ चरदि णिच्चो णिच्च समणो णाणम्मि दसणसुहम्मि । पयदो मूलगुणेसु व जो मो पडिपुणसामण्णो ।—जो श्रमण (जन्त रग में तो) मदा ज्ञान व दर्शन आदिमें प्रतिबद्ध रहता है और (बाह्यमें) मूलगुणोंमें प्रयत्नशील विचरण करता है, वह परिपूर्ण श्रामण्यवाद् है १२१४।

प्र सा/त, प्र/२४४ ये खलु श्रामण्यपरिणति प्रतिज्ञायामि जीवितकपाय-कणतया समस्तपरद्रव्यनिवृत्तिप्रवृत्तिप्रवृत्तमुविशुद्धदृग्निष्ठस्वभावा-रमतत्त्ववृत्तिरूपां शुद्धोपयोगभूमिकामधिरोहू न क्षमन्ते ते तदुप-कण्ठनिविष्टा, कपायकुण्ठोत्तशक्तयो नितान्तमुत्कण्ठलमनस, श्रमणा- किं भवेयुर्न वैयत्राभिधीयते । 'धम्मणे परिणदत्ता अप्पा जदि सुद्ध-सपओगजुदो । पावदि णिग्वाणसुह सुहोवजुचो व सग्गसुह' इति स्वयमेव निरूपितत्वादस्ति तावच्छुभोपयोगस्य धर्मेण सहेकार्यसम-वाय । तत शुभोपयोगिनोऽपि धर्मसद्भावाद्भवेषु श्रमणा किंतु तेषां शुद्धोपयोगिभि सम समकाष्ठत्व न भवेत्, यत् शुद्धोपयोगिनो निरस्तसमस्तकपायत्वादानासत्वा एव । इमे पुनरनवकीर्णकपायकणत्वा-रसात्त्वा एव ।—प्रश्न—जो वास्तवमें श्रामण्यपरिणतिकी प्रतिज्ञा करके भी, कपायकणके जीवित होने से समस्त परद्रव्यसे निवृत्तिसे प्रवर्तमान जो सुविशुद्ध दर्शनज्ञान स्वभाव आत्मतत्त्वमें परिणतिरूप शुद्धोपयोग भूमिका उसमें आरोहण करनेको असमर्थ हैं, वे (शुभोप-योगी) जीव—जो कि शुद्धोपयोगभूमिकाके उपकण्ठ (तलहटीमें) निवास कर रहे हैं, और कपायने जिनकी शक्ति कुण्ठित की है, तथा जो अत्यन्त उत्कण्ठित मनवाले हैं, वे श्रमण हैं या नहीं । उत्तर— (आचार्यने इसी ग्रन्थकी ११वीं गाथामें) स्वयं ऐसा कहा है कि धर्ममें परिणमित स्वरूपवाला आत्मा यदि शुद्धोपयोगमें युक्त हो तो मोक्ष सुखको प्राप्त करता है, और यदि शुभोपयोगवाला हो तो स्वर्ग सुखको प्राप्त करता है ११। इसलिए शुभोपयोगका धर्मके साथ एकार्थ समवाय है। इसलिए शुभोपयोगी भी उनके धर्मका सद्भाव हं नैसे श्रमण है (किन्तु वे शुद्धोपयोगियोंके साथ समान कोटिके नहीं हैं। क्योंकि शुद्धोपयोगी समस्त कपायोंके निरस्त किया होनेसे निरासन्न ही है, और ये शुभोपयोगी तो कपायकणके विनष्ट न होनेसे सासन्न ही हैं।

प्र सा/त प्र/२५२ यदा हि समधिगतशुद्धात्मैवृत्ते श्रमणस्य तत्प्रच्य-वनहेतो कस्याप्युपसर्गस्योपनिपात स्यात् स शुभोपयोगिन स्वशक्त्या प्रतिचिकीर्षा प्रवृत्तिकाल । इतरस्तु स्वयं शुद्धात्मवृत्ते समधिगमनाय केवल निवृत्तिकाल एव ।—जब शुद्धात्म परिणतिको प्राप्त श्रमणको, उससे च्युत करनेवाले कारण—कोई उपसर्ग आ जाय, तब वह काल, शुद्धोपयोगीको अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिकार करनेको इच्छारूपप्रवृत्तिकाल है, और उसके अतिरिक्त का काल अपनी शुद्धात्मपरिणतिकी प्राप्तिके लिए केवल निवृत्तिका काल है।

४. अयथार्थ साधु सामान्य निर्देश

१ अयथार्थ साधुकी पहचान

भ. आ/मू/२६०-२६३ एसा गणधरमेरा आयारत्थाण वणिया सुत्ते । लोगसुहाणुरदारण अप्पच्छदो जहिच्छेए १२६०। सीदावेड विहार सुहसीलगुणेहिजो अनुद्धोओ । सो णवरि लिंगधारी सजमसारेण णिस्मारो १२६१। पिड उवधि तेज्जामविसोधिंय जो खु भुजमाणो हु । मूलद्वान पत्तो बालोत्तिय णो समणत्रालो १२६२। कुण्णामणयरज्जं पयहिय तेसु कुण्णं दु मसति जो । सा णवरि लिंगधारी सजमसारेण णिरसारो १२६३। —जो लोकोंका अनुसरण करते हैं और सुखकी इच्छा करते हैं उनका आचरण मर्यादा स्वरूप माना नहीं जाता है। उनमें अनुरक्त साधु स्वेच्छासे प्रवर्तते हैं ऐसा समझना चाहिए १२६०। यथेष्ट आहारादि सुखोंमें तत्कीन होकर जो सूर्य मुनि रत्नत्रयमें अपनी प्रवृत्ति शिथिल करता है वह द्रव्यलिगी है ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि, वह इन्द्रिय सयम और प्राणिसयमसे नि सार है १२६१। उद्दममादि दोषोंसे युक्त आहार, उपकरण, वसति, इनका जो साधु ग्रहण करता है। जिसको प्राणिसयम और इन्द्रियसयम है तो नहीं, वह साधु मूलस्थानको-प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है (दे,

प्रायश्चित्त/४/२)। वे अज्ञानी हैं, केवल नग्न हैं, वह यति भी नहीं है और न आचार्य है। १२१२। जो मुनि कुञ्ज, गाँव, नगर और राज्यको छोड़कर उनमें पुनः प्रेम करता है अर्थात् उनमें मेरेपनेकी बुद्धि करता है, वह केवल नग्न है, समयसे रहित है। १२१३। (भ. आ/मू। १३१६-१३२५)

२. सा/१०६-११४ देहादिषु अपुरत्ता विसयासत्ता कसायसजुत्ता। अप्ससहावे सुत्ता ते साहू सम्मपरिचत्ता। १०६। सघविरोहकुसीला सच्छदा रहियगुरुकुला मूढा। रायाइसेवया ते जिगधम्मविराहिया साहू। १०७। ण सहति इयरदप्प भुवति अप्पाण अप्पमाहप्प। जिम्भ णिमित्तं कुणति ते साहू सम्मउम्मुक्का। ११४। = जो मुनि शरीर भोग व सांसारिक कार्योंमें अनुरक्त रहते हैं, जो विषयोंके सदा अधीन रहते हैं, कर्मायोंको धारण करते हैं, आत्मस्वभावमें सुप्त हैं, वे साधु सम्यक्त्व रहित हैं। १०६। (भ. आ/मू। १३१६-१३४७) जो सबसे विरोध करता है, कुशील सेवन करता है, स्वच्छन्द रहता है, गुरुकुल में नहीं रहता, गजा आदिकी सेवा करता है वह अज्ञानी है, जिनधर्म का विरोधक है। १०७। जो दूसरेके ऐश्वर्य व अभिमानको सहन नहीं करता, अपनी महिमा आप प्रगट करता है और वह भी केवल स्वादिष्ट भोजनको प्राप्तिके लिए, वह साधु सम्यक्त्व रहित है। ११४।

दे मत्र/१/३ [मत्र, तत्र, ज्योतिष, वैद्यक, उच्चाटन, वशीकरण आदि करनेवाला साधु नहीं है।]

दे श्रुतेकैवली/१/३ [विद्यानुवादके समाप्त होनेपर आयी हुई रोहिणी आदि विद्याओंके द्वारा दिखाये गये प्रलोभनमें जो नहीं आते हैं वे अभिन्न दशपूर्वों और जोभको प्राप्त हो जानेवाले भिन्न दशपूर्वों हैं।

दे साधु/५/७ [पार्श्वस्थादि मुनियोंका आचार]

२. अयथार्थ साधु श्रावकसे भी हीन हैं

भा. पा/मू/१५५ ते वि य भणामि ह जे सयलकलासीलसजमगुणेहिं। बहुदोसाणावासो सुमल्लिणचित्तो ण सावयसमो समो। १५५। = शील और समयकी कलासे पूर्ण है उसीको हम मुनि कहते हैं, परन्तु जो बहुत दोषोंका आवास है तथा मलिन चित्त है वह श्रावकके समान भी नहीं है।

दे निदा/६ [मिथ्यादृष्टि व स्वच्छन्द द्रव्यलिंगी साधुओंको, पाप श्रमण, नट श्रमण, पाप जीव, तिर्यचयोनि, नारद, लौकिक, अभव्य, राजवस्त्रभ, नौकर आदि निन्दनीय नाम दिये गये हैं।]

३. अयथार्थ साधु दुःखका पात्र

भा. पा/मू/१०० पावति भावसमणा कल्लाणपर पराइ सोमखाइ। दुवखाइं दवसवणा णरतिरियकुदेवजोणीए। १००। = भावश्रमण तो कल्याणकी परम्परा रूप सुखको पाता है और द्रव्य श्रमण तिर्यच मनुष्य व कुदेव योनियोंमें दुःख पाता है। १००।

४. अयथार्थ साधु से यथार्थ श्रावक श्रेष्ठ है

भा. आ/मू/३५४/५६६ पासत्थसदसहस्सादो वि सुसोतो वर खु एक्को वि। ज ससिदस्स सोल दसण्णाणचरणणि षड्ढति। ३५४। [पासत्थसदसहस्सादो वि पार्श्वस्थग्रहण चारित्रसुदोपलक्षणार्थं। (वि टीका)] = यहाँ पार्श्वस्थ शब्दसे चारित्रहीन मुनियोंका ग्रहण समझना चाहिए। अर्थात् चारित्रहीन मुनि लक्षत्रिहीं तो भी एक सुशील मुनि उनसे श्रेष्ठ समझना चाहिए। कारण कि सुशील मुनीश्वरके आश्रयसे शील, दर्शन, ज्ञान और चारित्र बढ़ते हैं। "

२. क. आ/३३-गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवाद्। अनगारो गृही श्रेयाद् निर्मोहो मोहिनो मुने। ३३। = दर्शनमोहरहित गृहस्थ भी मोक्षमार्गमें स्थित है किन्तु मोहवाद् मुनि भी मोक्षमार्गमें स्थित नहीं है। इस कारण मोहो मुनिने निर्मोहो सम्यग्दृष्टि गृहस्थ श्रेष्ठ है।

दे विनय/५/३ [इस निकृष्ट कालके श्रावकोंमें तो किसी प्रकार श्रावकपना बन भी जाता है पर अयथार्थ मुनियोंमें किसी प्रकार भी मुनिपना सम्भव नहीं।]

५. पुलाक व पार्श्वस्थ आदि साधु

१. पुलाकादिमें संयम श्रुतादिकी प्ररूपगा

प्रमाण—(स सि /६/४७/४६१/), (रा वा /६/४७/४/६३७/३२); (चा सा /१०३/२)।
सकेत— ← = इसके समान

अनुयोग	पुलाक	वकुश	कुशील		निर्ग्रन्थ	स्मात्क
			प्रति सेवना	कपाय		
सयम	सामायिक व छेदो-	←	←	मा, छेद, परि, सूक्ष्म	यथा-ख्यात	←
श्रुत— उत्कृष्ट	१० पूर्व	←	←	१४ पूर्व	←	←
जघन्य	आचार-वस्तु	अष्ट प्रवचन	←	←	←	←
प्रति सेवना (विराधना)	मलात्कार वग महा-न्नतों व रात्रिभुक्ति में कदाचिद्व	उपकरणों-की आकाक्षा व शरीर-सस्कार	उत्तर गुणोंमें कदा-चिद्व	×	×	×
तीर्थ	सद्य तीर्थ-करोंके तीर्थमें	←	←	←	←	←
लिंग— भाव— द्रव्य—	भावलिंग	←	←	←	←	←
लेश्या	तीन शुभ	छटों	←	अन्तिम ४-(सूक्ष्म साँप के केवल टुक)	शुक्ल	←
उपपाद उत्कृष्ट	सहन्यार	अच्युत	←	मवार्थ सिद्धि	←	←
जघन्य	सौधर्म	←	←	←	←	←

२. पुलाकादिमें संयम लब्धिस्थान

(स सि/१/४७/४६२/१२), (रा वा/१/४७/४/६३८/१६), (चा सा/१०६/१)।

स्थान	स्वामित्व
प्र अस स्थान	पुलाक व कपाय कुशील ।
द्वि अस स्थान	केवल कपाय कुशील ।
तृ अस स्थान	कपाय व प्रतिसेवना कुशील और बकुश ।
चतु अस, स्थान	कपाय व प्रतिसेवना कुशील ।
पच अस स्थान	केवल कपाय कुशील ।
षष्ठ अस स्थान	निर्ग्रन्थोंके अकपाय स्थान ।
अन्तिम १ स्थान	स्नातकोंका अकपाय स्थान ।

३. पुलाक आदि पाँचों निर्ग्रन्थ हैं—

स सि/१/४६/४६०/१२—त एते पञ्चापि निर्ग्रन्था । चारित्रपरिणामस्य प्रकर्षापर्यभेदे सत्यपि नैगमसंग्रहादिनायापेक्षया सर्वेऽपि ते निर्ग्रन्था इत्युच्यन्ते । = ये पाँचों ही निर्ग्रन्थ होते हैं । इनमें चारित्ररूप परिणामोंकी न्यूनाधिकताके कारण भेद होनेपर भी नैगम और संग्रह आदि (द्रव्याधिक) नयोंकी अपेक्षा वे सब निर्ग्रन्थ कहलाते हैं । (चा सा/१०१/१)

४. पुलाकादि के निर्ग्रन्थ होने सम्बन्धी शंका समाधान—

रा वा/१/४६/६-१२/६३७/१—यथा गृहस्थचारित्रभेदान्निर्ग्रन्थव्यपदेशभाग न भवति तथा पुलाकादीनामपि प्रकृष्टप्रकृष्टमध्यचारित्रभेदान्निर्ग्रन्थत्व नोपपद्यते । १६। न वैप दोष । कुत यथा ज्ञाया चारित्राध्ययनादिभेदेन भिन्नेषु ब्राह्मणशब्दोऽवशिष्टो वर्तते तथा निर्ग्रन्थशब्दोऽपि इति । १७। किंच, यद्यपि निश्चयनयापेक्षया गुणहीनेषु न प्रवर्तते तथापि सग्रहव्यवहारनय-विवक्षावशात् सकल-विशेषसंग्रहो भवति । १८। किंच दृष्टिरूपसामान्यात् । १९। अग्नवते वृत्तावतिप्रसंग इति चेत्, न, रूपाभावात् । १०। अन्यस्मिन् सरूपेऽपिप्रसंग इति चेत् न, दृष्ट्यभावात् । ११। किमर्थं पुलाकादिष्वपदेश चारित्रगुणस्योत्तरोत्तरप्रकर्षे वृत्तिविशेषख्यापनार्थं पुलाकाद्युपदेश क्रियते । १२। = प्रश्न—जैसे गृहस्थ चारित्रभेद एतके कारण निर्ग्रन्थ नहीं कहा जाता, वैसे ही पुलाकादि को भी उत्कृष्ट मध्यम जघन्य आदि चारित्र भेद होनेपर भी निर्ग्रन्थ नहीं कहना चाहिये ।—उत्तर १—जैसे चारित्र व अध्ययन आदि का भेद होनेपर भी सभी ब्राह्मणोंमें जाति की दृष्टिसे ब्राह्मण शब्दका प्रयोग समानरूपसे होता है उसी प्रकार पुलाक आदिमें भी निर्ग्रन्थ शब्दका प्रयोग हो जाता है । २—यद्यपि निश्चय नय से गुणहीनोंमें निर्ग्रन्थ शब्द नहीं प्रवर्तता परन्तु संग्रह और व्यवहार नयकी अपेक्षा वहाँ भी उस शब्दका प्रयोग सर्वसंग्रहार्थ कर लिया जाता है । ३—सम्यग्दर्शन और नग्न रूप की अपेक्षा भी वे सब समान हैं । प्रश्न—यदि व्रतोंका भंग हो जानेपर भी आप इनमें निर्ग्रन्थ शब्द की वृत्ति मानते हैं तब तो गृहस्थोंमें भी इसकी वृत्ति होनेका प्रसंग प्राप्त होता है ? उत्तर—नहीं होता, क्योंकि वे नग्नरूपधारी नहीं हैं । प्रश्न—तब जिस किसी भी नग्नरूपधारी मिथ्यादृष्टिमें उसको वृत्तिका प्रसंग प्राप्त हो जायगा । उत्तर—नहीं, क्योंकि

उनमें सम्यग्दर्शन नहीं पाया जाता [और सम्यग्दर्शन युक्त ही नग्न रूपको निर्ग्रन्थ सज्ञा प्राप्त है—(दे लिंग/२/१)] प्रश्न—फिर उसमें पुलाक आदि भेदोंका व्यवदेश ही क्यों किया ? उत्तर—चारित्रगुणका क्रमिक विकास और क्रमप्रकर्ष दिखानेके लिए इनकी चर्चा की है ।

५. निर्ग्रन्थ होते हुए भी इनमें कृष्ण लेख्या क्यों—

स. सि/१/४७/४६२/कुटनोट में अन्य पुस्तक से उपलब्ध पाठ—“कृष्ण लेख्यादित्रय तयो कथमिति चेदुच्यते—तयोरुपकरणसवितसभवा-दार्तध्यान कदाचित्सम्भवति, आर्तध्यानेन च कृष्णादिलेश्यात्रित्प स भवतीति । = प्रश्न—बकुश और प्रतिसेवना कुशील (यदि निर्ग्रन्थ है तो) इन दोनोंके कृष्ण नील कापोत ये तीन लेश्याएँ कैसे हो सकती हैं ? उत्तर—उनमें उपकरणों के प्रति आसक्ति भावकी संभावना होनेसे कदाचित् आर्तध्यान सम्भव है और आर्तध्यानमें कृष्णादि तीनों लेश्याओं का होना सम्भव है । (त वृ/१/४७/२६६/२१) त वृ/१/४७/३१६/२३ “मत्तान्तरम्—परिग्रहसकाराकाङ्क्षाया स्वमेवो-त्तरगुणविराधनायामार्तसंभवादात्तविनाभावि च लेश्यापटङ्गम् । पुलाकस्यार्तकारणाभावात्त पङ्क लेश्या । = दूसरे मतकी अपेक्षा परिग्रह और शरीर सस्कारकी आकाक्षामें स्वयमेव उत्तर गुणोंकी विराधना होती है, जिससे कि आर्तध्यान सम्भव है । और उसके होनेपर उसकी अविनाभावी छहों लेश्याएँ भी सम्भव हैं । पुलाक साधु के आर्तके उन कारणों का अभाव होनेसे छह लेश्या नहीं हैं ।

६. पार्श्वस्थादि मुनि भ्रष्टाचारी हैं—

भ आ/मु/१३०६-१३१५—दूरेण साधुसत्थ छडिय सो उर्पधेण खु पलादि । सेवदि कुशीलपडिसेवणाओ जो मुत्तदिद्विओ १३०६। इदियकसायगुरुगत्तणेण चरणं तण व पस्सतो । णिद्वधसो भवित्ता सेवदि हु कुशीलसेवाओ १३०७। सो हीदि साधु सत्थादु णिग्गदो जो भवे जघाछदो । उस्सुत्तमणुवदिदुठ च जधिच्छ्राए किक्कपतो १३१०। इय एदे पचविधा जिणेहि सवणा दुगु च्छिदा मुत्ते । इदियकसायगुरुगत्तणेण णिच्चपि पडिदुद्धा १३१५। = भ्रष्टमुनि दूरसे ही साधुसार्थका त्याग करके उन्मार्गसे पलायन करता है तथा आगम में कहे हुए कुशील नामक मुनिके दोषोंका आचरण करते हैं । १३०६। इन्द्रियके विषयों तथा कपायके तीव्र परिणामोंमें तत्पर हुए वे मुनि चारित्रको लूणवत् समझते हुए निर्लज्ज होकर कुशीलका सेवन करते हैं । १३०७। जो मुनि साधुसार्थका त्यागकर स्वतंत्र हुआ है, जो स्वेच्छाचारी बनकर आगमविरुद्ध और पूर्वाचार्योंके द्वारा न कहे हुए आचार्योंको कल्पना करता है, उसे स्वच्छन्द नामका भ्रष्ट मुनि समझना चाहिए । १३१०। इन पाँच तरह के भ्रष्ट मुनियोंकी जिनेश्वरोंने आगममें निन्दा की है । ये पाँचों इन्द्रिय व कपायके गुरुत्वसे सिद्धान्तानुसार आचरण करनेवाले मुनियोंके प्रतिपक्षी हैं । १३१५।

चा सा/१/४४/२ एते पञ्च भ्रमणा जिनधर्मबाह्या । = ये पाँचों मुनि जिनधर्मबाह्य हैं । (भा पा/टी/१४/१३७/२३)।

दे प्रायश्चित्त/४/२/८ [इन पाँचों मुनियोंको मूलच्छेद नामका प्राय-श्चित्त दिया जाता है ।]

७. पाँचोंके भ्रष्टाचारकी प्ररूपणा

भ आ/मु/१६५२-१६५७ सुहसादा किमज्जा गुणसायी पावमुत्तपडि-सेवी । विसयासापडिबद्धा गारवगुरुया पमाइल्ला १६५२। समिदीसु य गुत्तीसु य अभाविदा सोलसजमगुणेसु । परतत्तीसु पसत्ता अणा-दिदा भावसुद्धीए १६५३। गथाणियत्तपणा बहुमोहा सवलसेवणा-सेवी । सहरसरुनगंभे फासेसु य मुच्छिदा वडिदा १६५४। परलोग-

गिष्पिवासा इहलोगे चैव जे सुपडिबद्धा । सज्ज्यायादीसु य जे अणु-
द्विदा सकलित्पदमी १९६५। सव्वेसु य मूलुत्तरगुणेषु तह ते सदा
अहचरता । ण लहति खवोवसम चरित्तमोहस्स कम्मस्स १२६६।
एव मूढमदीया अवतदोसा करंति जे काल । ते देवदुग्भगत्तं
मायाभोसेण पावति १९६७। —ये पाँचों मुनि सुखस्वभावी होते
हैं। इसलिए 'मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं' यह विचारकर
सबके सन कार्यसे उदासीन हो जाते हैं। सम्यग्दर्शनादि गुणोंके
प्रति निरुरसाही हो जाते हैं। नीति, नैतिक, सामुद्रिक आदि पाप
शास्त्रोंका आदर करते हैं। इष्ट विषयोंकी आशासे बँधे हुए हैं।
तीन गारवसे सदा युक्त और पन्द्रह प्रमादोसे पूर्ण हैं १९६२। समिति
गुप्तिकी भावनाओंसे दूर रहते हैं। समयके भेदरूप जो उत्तरगुण
व शील वगैरह इनसे भी दूर रहते हैं। दूसरोंके कार्योंकी चिन्तामें
लगे रहते हैं। आरम्भकालके कार्योंसे कोसो दूर हैं, इसलिए
इनमें रत्नत्रयकी शुद्धि नहीं रहती १९६३। परिग्रहमें सदा तृष्णा,
अधिक मोह व अज्ञान, गृहस्थों सरोखे आरम्भ करना, शब्द रस
गन्ध रूप और स्पर्श इन विषयोंमें आसक्ति १९६४। परलोकके
विषयमें निस्पृह, ऐहिक कार्योंमें सदा तत्पर, स्वाध्याय आदि
कार्योंमें मन न लगना, सबलेश परिणाम १९६५। मूल व उत्तर
गुणोंमें सदा अतिवार युक्तता, चारित्रमोहका क्षयोपशम न होना
१९६६। ये सब उन असन्नानादि मुनियोंके दोष हैं, जिन्हें नहीं
हटाते हुए वे अपना सर्व आयुष्य व्यतीत कर देते हैं। जिससे कि
इन मायावी मुनियोंको देव दुर्गति अर्थात् नीच देवयोनिकी प्राप्ति
होती है १९६७।

८. पार्वस्थादिकी संगतिका निषेध

भ आ /३३६, ३४१ पासस्थादीपणय गिच्च वज्जेह सव्वधा [तुम्हे ।
इदि हु गैलणदोसेण होइ पुरिसस्स तम्मयदा ३३६। सविग्गस्सपि
ससग्गोए पीदी तदी य वीसभो । इदि वीसभे य रदी होइ रदीए
वि तम्मयदा ३४१। —पार्वस्थादि पाँच भ्रष्ट मुनियोंका तुम दूरसे
त्याग करो, क्योंकि उनके ससर्गसे तुम भी वैसे ही हो जाओगे
३३६। वह ऐसे कि ससारभययुक्त मुनि भी इनका सहवास करने-
से, पहले तो प्रतियुक्त हो जाता है और तदनन्तर उनके विषयमें
मनमें विश्वास होता है, अनन्तर उनमें चित्त विश्रान्ति पाता है
अर्थात् आसक्त होता है और तदनन्तर पार्वस्थादिमय बन
जाता है ३४१।

६. आचार्य, उपाध्याय व साधु

१. चारित्रादिकी अपेक्षा तीनों एक है

प्र सा /त, प्र /२ ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारयुक्तत्वात्स भावितपरम-
शुद्धोपयोगभूमिकानाचार्योपाध्यायसाधुत्वविशिष्टान् श्रमणोश्च
प्रणमामि । —ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और
वीर्याचारयुक्त होनेसे जिन्होंने शुद्धोपयोग भूमिकाको प्राप्त किया
है, ऐसे श्रमणोंको—जो कि आचार्यत्व उपाध्यायत्व और साधुत्वरूप
विशेषोंसे विशिष्ट हैं, उन्हें—नमस्कार करता हूँ।

प्र सा /ता व /२/४/२० श्रमणशब्दवाच्यानाचार्योपाध्यायसाधुश्च ।
—आचार्य, उपाध्याय व साधु ये तीनों श्रमण शब्दके वाच्य हैं।
(और भी दे. मन्त्र/२/५) ।

प. ध /उ /६३६-६४४ एको हेतु क्रियाप्येका वेपश्चैको वहि सम ।
तपो द्वाइशधा चैक व्रत चैक व पञ्चधा ६२६। त्रयोदविध
चैक चारित्र समतै कथा । मूनीत्तरगुणेश्चैके संयमोऽप्येकधा
मन ६४०। परोपहोपसर्गाणां सहन च सम स्मृतम् ।
आहारादिविधिरश्चैकचर्गा स्थानास्तनादय ६४१। मार्गो

मोक्षस्य सद्गृष्टिर्ज्ञान चारित्रमारमन । रत्नत्रय सम तेषामपि
चान्तराहि स्थितम् ६४२। ध्याता ध्यान च ध्येय च ज्ञाता ज्ञान च
ज्ञेयसात् । चतुर्धाराधना चापि तुल्या क्रोधादिचिन्पुता ६४३।
किंचात्र बहुनोक्तेन तद्विशेषोऽशिम्यते । विशेषाच्छेपनि शेषो
न्यायादस्त्यविशेषभाक् ६४४। —उन आचार्यादिक तीनोंका एक
ही प्रयोजन है, क्रिया भी एक है, बाह्य वेप, वारट प्रकारका तप
और पच महाव्रत भी एक हैं ६३६। तेरह प्रकारका चारित्र,
समता, मूल तथा उत्तर गुण, समय ६४०। परोपह और उपमर्गों-
का सहन, आहारादिकी विधि, चर्गा, शय्या, आसन ६४१।
मोक्षमार्ग रूप आत्मके सम्यग्दर्शन ज्ञान व चारित्र—इस प्रकार ये
अन्तरग और बहिरग रत्नत्रय ६४२। ध्याता ध्यान व ध्येय, ज्ञाता,
ज्ञयाधीन ज्ञान, चार प्रकार आराधना तथा क्रोध आदिका जीतना ये
सब समान व एक हैं ६४३। अधिक वहाँ तक कहा जाय उन तीनोंकी
सब ही विषयोंमें समानता है ६४४। (और भी दे. आचार्य व उपा-
ध्यायके लक्षण) ।

दे. देव /१/४-५ [रत्नत्रयकी अपेक्षा तीनोंमें कुछ भी भेद न होनेसे
तीनों ही देवत्वको प्राप्त है ।]

दे ध्येय/३/४ [रत्नत्रयसे सम्पन्न होनेके कारण तीनों ही ध्येय हैं ।]

२. तीनों एक ही आत्माकी पर्याय हैं

भो पा /सू /१०४ अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहू पचपरमेद्वी ।
ते वि हु चिट्ठहि आधे तम्हा आदा हु मे सरण । —अहंत, सिद्ध,
आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पाँच एक आत्मामें ही चेष्टारूप हैं,
इसलिए मुझको एक आत्मका ही शरण है ।

३. तीनोंमें कथचित् भेद

प. ध /उ /६३८ आचार्य स्यादुपाध्याय साधुश्चेति त्रिधा गति ।
स्युर्विशिष्टपदारूढास्त्रयोऽपि मुनिकुञ्जरा ६३८। —आचार्य, उपाध्याय
और साधु इस प्रकार उस गुरुकी तीन अवस्थाएँ होती हैं, क्योंकि
ये तीनों मुनि कुंजर आचार्य आदि विशेष-विशेष पदमें आरूढ माने
जाते हैं ६३८।

दे उपाध्याय/ध १/१,१,१/५ ५०/१ [सप्रह अनुग्रहको छोड़कर शेष
बातोंमें आचार्य व उपाध्याय समान हैं ।] (विशेष दे उस उसके
लक्षण ।)

४. श्रेणी आदि आरोहणके समय इन उपाधियोंका त्याग

प. ध./उ /७०६-७१३ किंचास्ति यौगिकी रूढि प्रसिद्धा परमागमे ।
विना साधुपद न स्यात्केवलोरपत्तिरब्जसा ७०६। तत्र चोक्तमिद
सम्यक् साक्षात्सर्गसाक्षिणा । क्षणमस्ति स्वत श्रेण्यामधिरूढस्य
तत्पदम् ७१०। यतोऽनश्य स सूरिर्वा पाठक श्रेण्यनेहासि । तृन्-
चिन्तानिरोधारमलक्षण ध्यानमाश्रयेत् ७११। तत सिद्धमनाया-
सात्तत्पदत्व तयोरिह । नून बाह्योपयोगस्य नावकाशोऽस्ति यत्र
तत् ७१२। न पुनश्चण तत्र छेदोपस्थापनां वरम् । प्रागादाय क्षण
पश्चात्सूरि साधुपद श्रयेत् ७१३। —परमागममें यह अन्वर्थ रूढि
प्रसिद्ध है कि वास्तवमें साधुपदके ग्रहण किये विना किन्तीकी भी
केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती है ७०६। तथा वहाँ प्रत्यक्ष ज्ञाता
सर्वज्ञ देवने यह अच्छी तरह कहा है कि श्रेणी पर अधिरूढ आचार्य
आदिको क्षण भरमें यह साधु पद स्वयं प्राप्त हो जाता है ७१०।
क्योंकि, वह आचार्य और उपाध्याय श्रेणी चढ़नेके कालमें सम्पूर्ण
चिन्ताओंके निरोधरूप ध्यानको अवश्य ही धारण करते हैं ७११।
इसलिए सिद्ध होता है कि श्रेणी कालमें उनको अनायाम ही वह
साधुपद प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वहाँपर निश्चयमे बाह्य उपयोगके

लिए मिलकुल अवकाश नहीं मिलता। १७२१। किन्तु ऐसा नहीं है कि आचार्य श्रेणीके आरोहण कालमें पहिले छेदोपस्थापनारूप चारित्रको ग्रहण करके पीछे साधुपदको ग्रहण करते हो। १७२१।

दे सखीखना/४/३ [सस्तार धारणसे पूर्व आचार्य सधकी व्यवस्थाका कार्य भार मालाचार्यको सौंपकर स्वयं उस पदसे निवृत्त हो जाते हैं।]

साधु प्रासुक परित्यक्तता—दे त्याग/३।

साधुसध—दे. सध व इतिहास/क।

साधु समाधि—दे. समाधि।

साध्य—दे. पक्ष।

साध्य विकल्प—दे. दृष्टान्त/८।

साध्य विरुद्ध—दे. विरुद्ध।

साध्य सम—न्या सू/पू/२/८ साध्याविशिष्ट साध्यत्वासाध्य-सम। १८। =साध्य होनेके कारण साध्यसे जो अभिन्न है ऐसे हेतुको साध्यसम हेत्वाभास कहते हैं। [जैसे पर्वत वहिमात् है, क्योंकि यह वहिमात् है।] (श्लो वा ४/१/३३/न्या/२०३/४२६/२४)

साध्यसमा—न्या सू/भाष्य/१/१/४/२८८/२३—[मूलसूत्र दे वर्ण-समा]—क्रियाहेतुगुणयुक्त किंचिद्गुरु यथा लोष्ट. किंचिद्वस्तु यथा वायुरेवं क्रियाहेतुगुणयुक्त किंचित्क्रियावत्स्याद् यथा लोष्ट किंचिद-क्रिय यथारमा विशेषो वा वाच्य इति। हेत्वाद्ययवमामर्थ्ययोगी धर्म साध्यस्त दृष्टान्ते प्रसञ्जत साध्यसम। यदि यथा लोष्टस्तथा-रमा प्राप्तस्तर्हि यथारमा तथा लोष्ट इति। साध्यश्चायमात्मा क्रियावानिति काम लोष्टोऽपि साध्य। अथ नैव तर्हि यथा लोष्ट तथारमा। एतेपामुत्तरम्। = क्रियाहेतुगुणसे युक्त पदार्थ कुछ भारी भी होता है जैसे लोष्ट, कुछ हलका भी होता है जैसे वायु, कुछ क्रियावाला होता है, जैसे लोष्ट और कुछ क्रियारहित भी होता है जैसे आत्मा। कुछ और विशेष हो तो वहिए। हेतु आदि अवयव की सामर्थ्यको जोड़नेवाला धर्म साध्य होता है। उसको दृष्टान्तमें प्रसंग करानेवालेको साध्यसम कहते हैं। उदाहरणार्थ—जैसा लोष्ट है वैसा ही आत्मा है, तब प्राप्त हुआ कि जैसा आत्मा है वैसा ही लोष्ट है। यदि आत्माका क्रियावात्पना साध्य है तो निस्सन्देह लोष्टका भी क्रियावात्पना भी साध्य है। यदि ऐसा नहीं है तो 'जैसा लोष्ट वैसा आत्मा' ऐसा नहीं कहा जा सकता। (श्लो वा ४/१/३३/न्या ३३७/४७३/३०)।

साध्य साधक सम्बन्ध—दे सम्बन्ध।

साध्य साधन भाव—(दे निश्चय व्यवहार नय या धर्म या चारित्र आदि)।

सदानन्द—वेदान्तसार नामक ग्रन्थके रचयिता। समय ई. श. १७ (दे वेदान्त/१/२)।

सान—घ १३/४.६, ३७/२४२/३ स्यति छिनत्ति हन्ति विनाशयति अनध्यवसायमित्यवग्रह सानम्। = जो अनध्यवसायको छेदता है, नष्ट करता है, वह अवग्रहका तीसरा नाम सान है।

सान्निपातिक भाव—दे सान्निपातिक भाव।

सापेक्ष—दे स्याद्वाद/२,३

सापेक्ष मात्रा—Relative mass—(ज प/प्र १०६)।

सामानिक—

ति. प. १/६६ सामानिया कलत्तसमा। ६६। = सामानिक देव इन्द्रके कलत्रके समान होते हैं। (त्रि. सा./२२४)।

स सि/३/१६/२१८/६ गमाने श्वाभे भया नामानिया।

स. ति/४/४/२३६/१ आशीर्यवर्जित यस्याथागुर्वीर्यपग्वारभोगे प भागादि तत्त्वमानं, तस्मामाने भया सामानिया। मष्टत्तया पितृगुरु-पाध्यायतुण्या। = १ गमान रवान या पदमें जा होते हैं जो सामानिक कहनाते हैं। (१ वा ३/१६/३/१८३/३६)। २ जाहा और ऐश्वर्यके प्रतिगित्त जा आयु, गौर्य, पग्वार, भोग और उपभोग हैं वे गमान कहनाते हैं। उस समानमें जो होते हैं वे सामानिक रहनाते हैं। ये पिता, गुरु और उपाचार्यके गमान गमसे बड़े हैं। (१ वा ४/४/२/२/१०/१७)।

म. पु/२२/२४ पितृमातृगुरुररया समतास्ते सुरेशिगाम्। लभन्ते सममिन्द्रश्च मरुतर मान्यताचितम्। २४। = ये नामानि जातिके देव इन्द्रके पिता माता और गुरुके गुण्य होते हैं तथा ये उनकी मान्यताके अनुसार इन्द्रके गमान हो मरुतर प्राप्त करते हैं। २४।

ज प/११/३०६ सामानिया वि देवा अणुगमिमा नोगवात्पण। = सामानिक देव भी वैभय आदिमें लोकापानके मरुता होते हैं।

अन्य सम्बन्धित विषय

१. सामानिक देवोन्नी देवियों — (दे. स्वर्ग/३/७)

२ इन्द्रके परिवारमें सामानिक देवोन्नी प्रमाण—दे. भवन. व्यन्तर. ज्योतिषी और स्वर्ग।

सामान्य—१ 'सामान्य' सामान्यके लक्षण

दे. द्रव्य/१/७ [द्रव्य, सामान्य, उत्तरग, अनुवृत्ति, गत्ता, मज्ज, सव, अन्यय, वस्तु, अर्थ, विधि, अविशेष ये सब एकार्थवाचक शब्द हैं।] दे नय/II/४/४—[द्रव्यका सामान्यादा हारके डोरेवद सर्व पर्यायोंमें अनुस्यूत एक भाव है।]

दे नितेप/२/७ [द्रव्यकी प्रारम्भसे लेकर अन्त तककी सब पर्यायों मिलकर एक द्रव्य बनता है। वही सामान्य द्रव्यार्थिक नयका विषय है।] (और भी दे नय/IV/१/२)।

दे दर्शन/४/२-४ [यह काला है या नीला इस प्रकार भेद किये बिना सम्पूर्ण माह्य पदार्थोंका सामान्य रूपसे ग्रहण करनेके कारण आत्मा ही सामान्य है और वही दर्शनोपयोगका विषय है।]

न्या वि/मू/१/१२१/४० समानभाव सामान्य। = समान अर्थात् एकताका भाव सामान्य है।

न्या वि/वृ/१/४/१२१/१० अनुवृत्तिबुद्धिरेत्सुत्वात्सामान्यम्। = अनुवृत्ति अर्थात् एकताकी बुद्धिका कारण एतैसे सामान्य है। (प सु/४/२)।

न च वृ/६३ सामणसहावदो सव्वे। = सत्र द्रव्योंमें होगा सामान्यका स्वभाव है।

सम/४/१७/१२ स्वभाव एव ह्यय सर्वाभावाना यदनुवृत्ति तथाहि। घट एव तावत् पृथुषधोदरकारवात् प्रतीतिविषयो भद्वत् सन्नयानपि तदाकृतिभूत पदार्थान् घटरूपतया घटैकशब्दवाच्यतया च प्रत्याद्यत् सामान्यात्म्या लभते। = स्वयं ही सर्व भावोंकी अनुवृत्तिरूपसे ज्ञान करानेवाला ऐसा सब द्रव्योंका स्वभाव ही है। उदाहरणार्थ—मोटा गोल उदर आदि आकारवाला घडा स्वय ही उसी आकृतिके अन्य पदार्थोंको भी घटरूपसे और घटशब्दरूपसे जानता हुआ 'सामान्य' कहा जाता है।

द्र. स/टी/६/१८/२ सामान्यमिति कोऽर्थ ससारीजीवयुक्तजीवविवक्षा नास्ति, अथवा शुद्धाशुद्धज्ञानदर्शनविवक्षा नास्ति। तदपि कथमिति चेद् विवक्षया अभाव सामान्यलक्षणमिति वचनात्। = यहाँ 'सामान्य जीव' इस कथनका यह तात्पर्य है कि इस (जीवके) लक्षणमें ससारी तथा मुक्त जीवकी विवक्षा नहीं है अथवा दृष्ट ऊर्ध्व

ज्ञान दर्शनको भी विवक्षा नहीं है। क्योंकि, 'विपक्षाका अभाव ही सामान्यका लक्षण है' ऐसा कहा है। (स सा ता वृ / १९८/२७३/७) । न्या दो, / ३/९७६/१९७/२ तत्र सामान्यमनुवृत्तिस्वरूपम् । तद्वि घटत्वं पृथुधोदराकार । गोत्वमिति साम्नादिमन्वमेव । = 'घट घट' 'गौ गौ' इस प्रकारके अनुगतव्यवहारके विषयभूत सदृश परिणामात्मक 'घटत्व' 'गोत्व' आदि अनुगत स्वरूपको सामान्य कहते हैं। वह 'घटत्व' स्थूल कम्बुप्रोवादि स्वरूप तथा 'गोत्व' साम्ना आदि स्वरूप ही है।

प ध / ३/२ बहुव्यापकमेवैतत्सामान्य सदृशत्वत । २। = सदृशतासे जो बहुत देशमें व्यापक रहता है उसीको सामान्य कहते हैं।

वै द. / १-२/३, ४ सामान्य विशेष इति बुद्धयपेक्षम् । ३। भावोऽनुवृत्तेरेव हेतुत्वात् सामान्यमेव । ४। = सामान्य और विशेष बुद्धिकी अपेक्षासे लिये जाते हैं । ३। जैसे अनुवृत्ति अर्थात् बार बार लौटकर प्रत्येक वस्तुके मिलनेसे यह विदित होता है कि भाव अर्थात् सत्ता है।

२. सामान्यके भेद व उनके लक्षण

प मु / ४/३-५ सामान्य द्वेषा तिर्यगूर्ध्वताभेदात् । ३। सदृशप्राणाम-स्तियाकृ खण्डमुण्डादिषु गोत्ववत् । ४। परापरविवृतव्यापिद्रव्यमूर्ध्वता मृदिव स्थासादिषु । ५। = सामान्य दो प्रकारका है—एक तिर्यक् सामान्य, दूसरा ऊर्ध्वता सामान्य । ३। तहाँ सामान्य परिणामको तिर्यक् सामान्य कहते हैं, जैसे गोत्व सामान्य, क्योंकि खण्डी मुण्डी आदि गौवोंमें गोत्व सामान्यरूपसे रहता है। तथा पूर्वोत्तर पर्यायोंमें रहनेवाले द्रव्यको ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं, जैसे घड़ेमें मिट्टी, क्योंकि, स्थास, कोश, कुश्ल आदि जितनी भी एक घड़ेकी पूर्वोत्तर पर्यायें हैं उन सबमें मिट्टी अनुगत रूपसे रहती है । ५। (विशेष दे, क्रम/६) ।

स्या, म/८/६६/१७ तदनुवृत्तिप्रत्ययहेतु सामान्यम् । तच्च द्विविध परमपर च । तत्र पर सत्ता भावो महासामान्यमिति चोच्यते । द्रव्यत्वाद्यन्तरसामान्यापेक्षया महाविषयत्वात् । अपरसामान्य च द्रव्यत्वादि । एतच्च सामान्यविशेष इत्यपि व्यपदिश्यते । = अनुवृत्ति प्रत्ययका कारण सामान्य है। वह दो प्रकारका है—पर सामान्य और अपर सामान्य। पर सामान्यको सत्ता, भाव, और महासामान्य भी कहते हैं। क्योंकि, यह द्रव्यत्व आदि अपरसामान्यकी अपेक्षासे महान् विषय वाला है। द्रव्यत्व केवल द्रव्यमें ही रहता है और परसामान्य द्रव्य गुण व कर्म चीनों में रहता है। द्रव्यत्वादि अपर सामान्य है। इसे सामान्य विशेष भी कहते हैं। (और भी दे 'अस्तित्व', नय/II/४/२/९),

३. सर्वथा स्वतन्त्र सामान्य या विशेष कुछ नहीं

सि वि / मू/२/१७/१४३ न परयाम क्वचित् किञ्चित् सामान्य वा स्वलक्षणम् । जात्यन्तर तु परयाम ततो नैकान्तहेतव । = कोई किञ्चित् भी विशेष मात्र या सामान्य मात्र देखनेमें नहीं आता। हाँ सामान्य विशेषात्मक एक जात्यन्तर भाव अवश्य देखा जाता है। इसलिये 'सामान्य' अनेकान्त हेतुक है अर्थात् अनेकान्तके द्वारा ही सिद्ध हो सकता है।

सि वि/वृ/१/८/१५१/५ पर उद्भूत (प्रमाण वार्तिक/२/१२६) एकत्र दृष्टो भेदो हि क्वचिन्नान्यत्र दृश्यते । न तस्मान्निर्गमस्त्यन्यत्सामान्य बुद्धयभेदत । = किसी एक स्थान पर देखा गया भेद किसी भी प्रकार अन्यत्र नहीं देखा जाता इस लिए बुद्धिके अभेदसे वह सामान्य कथंचित् भिन्न व अन्य नहीं है।

आ प/श्लो न ६ निर्विशेष हि सामान्य प्रवेशरविपाणवत् । सामान्य-रहितत्वाच्च विशेषस्तद्भेद हि । ६। = विशेषोंसे रहित सामान्य और इसी प्रकार सामान्यसे रहित विशेष। कुछ गंधके सोंग के समान अमत् होते हैं।

४. वस्तु स्वयं सामान्य विशेषात्मक है

श्लो. वा/४/१/३३/६०/२४४/१६ सर्वरय वस्तुन' सामान्यविशेषात्मक-त्वात् । = सर्व ही वस्तुएँ सामान्यविशेषात्मक हैं।

दे. प्रमाण/२/५ [सामान्य विशेषात्मक वस्तु ही प्रमाणका विशेष है।]

क पा/२/१-२०/९३२४/३५६/२ तत स्वयमेवेकत्वापत्तिरिति स्थितम् । सामान्य-विशेषोभयानुभयैकान्तव्यतिरिक्तत्वात् जात्यन्तर वस्त्विति स्थितम् । = इसका (दे अगला शीर्षक) यह अभिप्राय है कि वस्तु न सामान्य रूप है, न विशेषरूप है, न सर्वथा उभयरूप है और न अनुभय रूप है किन्तु जात्यन्तररूप ही वस्तु है, ऐसा सिद्ध होता है। (क, पा/१/१/९/९३३/४२/२)

५. सामान्य व विशेषकी स्वतन्त्र सत्ता न माननेमें हेतु

क. पा/१/१-२०/९३२२/३५३/३ ण ताव सामणमत्थि, विसेसवदिरि-त्ताण त्त्वावसारिच्छल्लक्षणमामण्णाणमणुवलभादो समाणोपच्च-याणमुत्पत्तीए अण्णहाणुववत्तीदो अत्थि सामणमिदि ण वोत्तु' जुत्त, जणेगासमाणाणुविद्धेगसमाणगहणेण जच्चत्तरीभूतपच्चयाण-मुत्पत्तिदसणादो । ण सामणवदिरित्तो विसेसो वि अत्थि, सामण्णा-णुविद्धसेव विसेसस्सुवलभादो । "ण च एमो सामण-विमेमाण सजोगो ।"

क पा/१/१-२०/९३२३/३५४/१ ण सामण-विसेसाण मयधो वत्थु । = १—केवल सामान्य तो है नहीं, क्योंकि अपने विशेषोंको छोड़कर केवल तद्भाव सामान्य और सादृश्यलक्षण सामान्य नहीं पाये जाते हैं। २—यदि कहा जाय कि सामान्यके सर्वत्र समान प्रत्यय और एक प्रत्यय की उपपत्ति बन नहीं सकती है इसलिए सामान्य नामका स्वतन्त्र पदार्थ है, सो कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि एकका ग्रहण अनेकानुविद्ध होता है और समानका ग्रहण समानानुविद्ध होता है। ३—अत सामान्य विशेषात्मक वस्तुको विषय करनेवाले जात्यन्तर-भूत ज्ञानोंकी ही उत्पत्ति देनी जाती है। ४—तथा सामान्य से सर्वथा भिन्न विशेष नामका भी कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि सामान्यसे अनुविद्ध होकर ही विशेषकी उपपत्ति होती है। ५—यदि कहा जाय कि स्वतन्त्र रहते हुए भी उनके उपयोगका ही परि-ज्ञान एक ज्ञानके द्वारा होता है, तो भी कहना ठीक नहीं—(विशेष दे द्रव्य/४/३) । ६—सामान्य और विशेषके मध्यस्थकी अर्थात् समवाय सम्बन्धको स्वतन्त्र वस्तु कहना भी ठीक नहीं—(दे समवाय) ।

६ सामान्य व विशेषमें कथंचित् भेद

ध १३/५/४/३५/२३४/६ विसेसादो सामणस्स कथंचिच्च पुधभृदन्व उवलभादा । त जहा—सामणमेयस्व विसेसो जणेयमन्वो । वदि-रेयल्लक्षणो विसेसो जणेयल्लक्षण सामण, आहाणो विसेसो आहोयो सामण, णिच्च सामण जणिच्चो विसेसो । तस्मा नामाण-विसे-साण णत्थि एयत्तमिदि । = विशेषसे सामान्यमें कथंचित् भेद पाया जाता है। यथा—सामान्य एक सख्या वाला होता है और विशेष अनेक सख्या वाला होता है विशेष व्यतिरेक लक्षण वाला होता है और सामान्य अन्वय लक्षणवाला होता है, विशेष आधाण होता है और सामान्य आधेय होता है, सामान्य नित्य ए ता है और विशेष अनित्य होता है। इसलिए सामान्य और विशेष एक नहीं हो सकते।

प ध/पू/२-३ सामान्य विधिरूप प्रतिपेक्षाया भवति विधिपरच । । २७५ । = विधिरूप वर्तना सामान्य काल कहेगाता है और विधि-स्वरूप विशेष काल कहनाता है। (दे मत्तभंगी/२/२-म, म) ।

७. सामान्य विशेषके भेदाभेदका समन्वय

आप्त मी /३४-३६ सामान्यात्तु सर्वैष्यं पृथग्द्रव्यादिभेदत । भेदाभेद-
व्यवस्थायामसाधारणहेतुवत् ।३४। विवक्षा चाविवक्षा च विशेष्येऽ-
नन्तभूमिणी । यतो विशेषणस्यात्र नासत्तस्तेस्तदर्धिभि ।३५। प्रमाण-
गोचरी सन्तौ भेदाभेदौ न गृह्यते । तायेकत्राविरुद्धौ ते शुणमुख्य-
विवक्षया ।३६। = सामान्यरूपसे देवने पर सय द्रव्य गुण नर्म
आदिकोंमें एकत्र है और उनका भेद देखनेपर उनमें भेद है । तहाँ
अभेद विवक्षामें 'सामान्य' और भेद विवक्षामें 'विशेष' ये असाधारण
हेतु है ।३४। अनन्त धर्मोंका आधारभूत जो विशेष्य उनमें सत्वरूप
विशेषणकी ही विवक्षा होती है, असत्वरूपकी नहीं । और यह
विवक्षा वक्ताकी इच्छापर निर्भर है ।३५। इसलिये वस्तुमें भेद व
अभेद दोनों ही प्रमाण गोचर होनेसे प्रामार्थभूत है । मुख्य व गौणकी
विवक्षासे ये दोनों स्याद्वाद मतमें अविरोध है ।३६।

प घ /पू /२७५ उभयोरन्यतरस्योन्मग्नत्वादस्ति नारतीति ।२७५। =
इन दोनोंमेंसे किसी एककी मुख्य विवक्षा होनेसे कालकृत अस्ति व
नास्ति ये दो विकल्प पैदा होते हैं ।

सामान्य गुण—दे गुण/१ ।

सामान्य ग्राहक दर्शन—दे दर्शन/१ ।

सामान्य छल—दे छल ।

सामान्यतोदृष्ट—दे अनुमान/१/६ ।

सामान्य नय—दे नय/१/४ ।

सामान्याधिकरण—

भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकस्मिन्मर्थे वृत्ति सामान्याधिकर-
णम् । यथा 'तत् स्वमसि' । = भिन्ना-भिन्न अर्थोंकी प्रवृत्तिमें
निमित्तभूत जो शब्द उनकी एकही अर्थमें वृत्ति होना सामान्याधि-
करण्य है । जैसे 'तत्स्वमसि' इस पदमें 'तत्' का अर्थ अशरीरी ब्रह्म
और 'स्वम्' का अर्थ शरीरी ब्रह्म अर्थात् जीवात्मा । ये दोनों एक
हैं, ऐसे इस पदका अर्थ है ।

सामान्यावलोकन—दे दर्शन/१,२ ।

सामायिक—सुख-दुःख, लाभ-अनाभ, इष्ट-अनिष्ट आदि विष-
यताओंमें राग-द्वेष न करना बल्कि साक्षी भावसे उनका ज्ञाता द्रष्टा
बने हुए समतास्वभावी आत्मामें स्थित रहना, अथवा सर्व सावध
योगसे निवृत्ति सो सामायिक है । आवश्यक, चारित्र, व्रत व प्रतिमा
चारों एक ही प्रकारके लक्षण है । अन्तर केवल इतना है कि प्रायक
उस सामायिकको नियतकालक नियतकाल पर्यन्त धारकर अभ्यास
करता है और साधुका जीवन ही समतामय बन जाता है । प्रायक
को उस सामायिकको व्रत या प्रतिमा कहते हैं और साधुको उस
सार्वकालिक समताको सामायिक चारित्र कहते हैं ।

- १ सामायिक सामान्य निर्देश
- १ समता व साम्यताका लक्षण ।
- * वारतरमें कोई पदार्थ इष्ट-अनिष्ट नहीं ।—दे राग/२/४
- * समताका महत्त्व । —दे सामायिक/३७ ।
- ० सामायिक सामान्यका व्युत्पत्ति अर्थ ।
- ३ सामायिक सामान्यके लक्षण ।
१ समता, २ रागद्वेष निवृत्ति, ३ आत्मस्थिरता,
४. सातन्त्र्ययोग निवृत्ति, ५ मयम तप जादिका एकत्व
६. निरव-नैमित्तिक नर्म व शास्त्र ।
- * द्रव्यश्रुतका प्रथम अंग वाक्य सामायिक है ।
दे श्रुतज्ञान/III/१ ।
- * प्रतिक्रमण व मामायिकमें अन्तर ।
—दे प्रतिक्रमण/३/१ ।
- ४ द्रव्य क्षेत्रादि रूप सामायिकोंके लक्षण ।
- * नियत व अनियतकाल सामायिक ।
—दे सामायिक/४/२ ।

- २ सामायिक विधि निर्देश
- १ सामायिक विधिके सात अधिकार ।
- ० सामायिक योग्य काल ।
- ३ सामायिक विधि ।
- ४ सामायिक आमन मुद्रा क्षेत्र आदि ।
- * सामायिक मन, वचन, काय शुद्धि । —दे शुद्धि ।
- ५ सामायिक योग्य ध्येय ।
- ६ उपसर्ग आदिमें अचल रहना चाहिए ।
- * सामायिककी सिद्धिका उपाय अभ्यास है ।
—दे अभ्यास ।

- ३ सामायिक व्रत व प्रतिमा निर्देश
- १ सामायिक व्रतके लक्षण ।
१ समता व आर्त रौद्र परिणामोंका त्याग ।
२ सावधयोग निवृत्ति ।
- ० सामायिक प्रतिमाका लक्षण ।
- ३ सामायिक व्रत व प्रतिमामें अन्तर ।
- ४ सामायिकके समय गृहस्थ भी साधु तुल्य है ।
- ५ साधु तुल्य होते हुए भी वह सयत नहीं है ।
- ६ सामायिक व्रतका प्रयोजन ।
- ७ सामायिक व्रतका महत्त्व ।
- ८ सामायिक व्रतके अतिचार ।
- * स्मृत्यनुपस्थान व मन-दुष्प्रणिधानमें अन्तर ।
—दे स्मृत्यनुपस्थान ।

- ४ सामायिकचारित्र निर्देश
- १ सामायिक चारित्रका लक्षण ।
- २ नियत व अनियत काल सामायिक निर्देश ।
- ३ सामायिक चारित्रमें समयके सम्पूर्ण अंग ।
- * सामायिककी अपेक्षा एक है पर छेदोपस्थापनाकी अपेक्षा अनेक रूप है । —दे छेदोपस्थापना/२ ।
- * प्रथम व अन्तिम तीर्थमें ही इसकी प्रधानता थी । —दे छेदोपस्थापना/२ ।
- ४ इसीलिए मिथ्यादृष्टिको सम्भव नहीं ।
- * सामायिकचारित्रका स्वामित्व । —दे छेदोपस्थापना/५-७ ।
- * सामायिक चारित्रमें सम्भव भाव । —दे समय/२ ।
- ५ सामायिक चारित्र व गुप्तमें अन्तर ।
- ६ सामायिक चारित्र व समित्तमें अन्तर ।
- * सभी मार्गणाओंमें आयके अनुसार व्यय । —दे, मार्गणा ।
- * सामायिक चारित्रके स्वामियोंकी गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीवसमास आदि २० प्ररूपणाएँ । —दे, सत् ।
- * सामायिक चारित्र सम्बन्धी सत्, सख्या क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव व अल्पबहुत्वरूप आठ प्ररूपणाएँ । —दे वह वह नाम ।
- * सामायिक चारित्रमें कर्मोंका बन्ध उदय सत्त्व । —दे वह वह नाम ।
- * सामायिक चारित्रमें क्षायोपशमिक भाव कैसे । —दे समय/२ ।

पर्यायोंसे भिन्नस्वरूप निश्चय करता है उसी काल साम्यभावन उत्पन्न होता है । १७। क्रोधो, निर्दय, क्रूररर्मी, मद्य, माम, मधु व परस्त्रियों-में लुब्ध, अत्यन्त पापी, देव गुरु शास्त्रादिकी निन्दा करनेवाले ऐमे नास्तिकोंमें तथा अपनी प्रशंसा करनेवालोंमें माध्यस्थ्य भावका होना अपेक्षा कही गयी है । १३-१४।

प्र सा/ता वृ./२२/३३६/१० अथ यदेव मयततपोधनस्य साम्यलक्षण भणित तदेव श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गो भण्यते । = [शत्रु-मित्र व बन्धु वर्गमें, सुख-दुःखमें, प्रशंसा-निन्दामें, लोष्ट व सुजनमें, जीवन और मरणमें जिसे समान भाव है वह श्रमण है । २२१। (दे माधु/३/१)] ऐसा जो सयत तपोधनका 'साम्य' लक्षण किया गया है वही श्रामण्यका अपर नाम, 'मोक्षमार्ग' कहा जाता है ।

मो पा/टी/५०/३४२/१२ आत्मसु सर्वजीवेषु समभाव समतापरिणाम, यादृशो मोक्षस्थाने सिद्धो वर्तते तादृश एव ममात्मा शुद्धबुद्धे कम्ब-भाव सिद्धपरमेश्वरसमान, यादृशोऽहं केवलज्ञानस्वभावस्तादृश एव सर्वोऽपि जीवराशिरत्र भेदो न कर्तव्य । = अपने आत्मामें तथा सर्व जीवोंमें समभाव अर्थात् समता परिणाम ऐसा होता है— 'मोक्षस्थानमें जैसे सिद्ध भगवान् हैं वैसे ही मेरा आत्मा भी सिद्ध परमेश्वरके समान शुद्ध-बुद्ध एक स्वभावी है । और जैसा केवलज्ञान-स्वभावी मैं हूँ वैसे ही सर्व जीव राशि है । यहाँ भेद नहीं करना चाहिए ।

दे धर्म/१/५/१ [मोह क्षोभ हीन परिणामको साम्य कहते हैं ।]
 दे मोक्षमार्ग/२/५ [परमसाम्य मोक्षमार्गका अपर नाम है ।]
 दे, उपेक्षा—[माध्यस्थ्य, समता, उपेक्षा, वैराग्य, साम्य, निस्पृहता, वैतृष्य, परम शान्ति, ये मन् एकार्थवाची नाम हैं ।]
 दे, उपयोग/II/२/१ [साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्तनिरोध, शुद्धोपयोग, ये मन् एकार्थवाची शब्द हैं । किसी प्रकारकी भी आकृति अक्षर वर्णका विकल्प न करके जहाँ वेचल एव शुद्ध चैतन्य मात्रमें स्थिति होती है, वह साम्य है ।]

२ सामायिक सामान्यका व्युत्पत्ति अर्थ

स. सि/७/२१/३६०/७ समेकीभावे वर्तते । तद्यथा सगत घृत सगत तैलमित्युच्यते एकीभूतमिति गम्यते । एकत्वेन अयन गमनं समय, समय एव सामायिकम् । समय प्रयोजनमस्येति वा विगृह्य सामायिकम् । = १ 'सम' उपमर्गका अर्थ एक रूप है । जैसे घी सगत है, तैल सगत है, जन यह कहा जाता है तत्र सगतका अर्थ एकीभूत होता है । सामायिकमें मूल शब्द 'समय' है जिसका अर्थ है एक साथ जानना व गमन करना अर्थात् आत्मा (दे समय)—वह समय ही सामायिक है । २ अथवा समय अर्थात् एक रूप ही जाना ही जिसका प्रयोजन है वह सामायिक है । (रा वा/७/२१/७/४८/३), (गो क/जी प्र/१४७/७१३/१८)

रा. वा/६/१८/१/६१६/२६ आयन्तीत्याया जनर्था सत्त्वव्यपरोपण-हेतव, सगता आया समाया, सम्यग्वा आया समाया-स्तेषु ते वा प्रयोजनमस्येति सामायिकमवस्थानम् । = आय अर्थात् अनर्थ अर्थात् प्राणियोंकी हिंसाके हेतुभूत परिणाम । उस जाय या अनर्थका सम्यक् प्रकारसे नष्ट हो जाना सो समाय है । अथवा सम्यक् आय अर्थात् आत्माके साथ एकीभूत होना सो समाय है । उस समयमें ही या वह समाय ही है प्रयोजन जिसका सो सामायिक है । तात्पर्य यह कि हिंसादि अनर्थोंसे सतर्क रहना सामायिक है ।

चा सा./१६/१ सम्यगेकत्वेनायन गमन समय स्वविषयेभ्यो विनिवृत्त्य कायवाङ्मन कर्मणामासनना सह वर्तनाद्व्यार्थेनायन एकत्व-गमनमित्यर्थ । समय एव सामायिक, समय प्रयोजनमस्येति वा

१. सामायिक सामान्य निर्देश

१. समता व साम्यका लक्षण

झा/२४/१३० नं० चिदचिद्विज्ञानैर्भावेरिष्टानिष्टतया स्थिते । न मुह्यति मनो यस्य तस्य साम्ये स्थितिर्भवेत् । २। आशा सद्यो विपद्यन्ते यान्त्यविद्या क्षय क्षणात् । अग्रते चित्तभोगीन्द्रो यस्य सा साम्य-भावना । ११। अशेषपरपर्यायैरन्यद्रव्यैर्विलक्षणम् । निश्चिनोति यदात्मानं तदा साम्ये स्थितिर्भवेत् । १७।

झा./२७/१३-१४ क्रोधविद्धेषु सत्त्वेषु निर्विश्रमकर्मसु । मधुर्माससुरा-न्यस्त्रीलुब्धेष्वत्यन्तपापिषु । १३। देवागमयतिगातनिन्दकेष्वारम-शसिषु । नास्तिकेषु च माध्यस्थ्यं यस्तोपेक्षा प्रकीर्तिता । १४। = जिस पुरुषका मन चित् (पुत्र-मित्र-कसत्रादि) और अचित् (धन-धान्यादि) इष्ट-अनिष्ट पदार्थोंके द्वारा मोहको प्राप्त नहीं होता उस पुरुषके ही साम्यभावमें स्थिति होती है । १३। जिस पुरुषके समभावकी भावना है, उसके आशाएँ तो तरकाल नाश हो जाती हैं, अविद्या क्षणभरमें क्षय हो जाती है, उसी प्रकार चित्तरूपी मर्ष भी मर जाता है । १४। जिस समय यह आत्मा अपनेको समस्त परद्रव्यों व उनकी

सामायिकम् । = अच्छी तरह प्राप्त होना अर्थात् एकान्त रूपसे आत्मामें तल्लीन हो जाना समय है । मन, वचन, कायकी क्रियाओं-का अपने-अपने विषयसे हटकर आत्माके साथ तल्लीन होनेसे द्रव्य तथा अर्थ दोनोंसे आत्माके साथ एकरूप हो जाना ही समयका अभिप्राय है । समयको ही सामायिक कहते हैं । अथवा समय ही जिसका प्रयोजन है वह सामायिक है ।

गो. जी./जी प्र ३६७/७=६/१० समम् एतत्वेन आरमनि आय आगमन परद्रव्येभ्यो निवृत्त्य उपयोगस्य आरमनि प्रवृत्ति समाय', अयमहं ज्ञाता द्रष्टा चेति आत्मविषयोपयोग इत्यर्थ, आरमन एकस्यैव ज्ञेयज्ञायकत्वसम्भवात् । अथवा स समे रागद्वेषाभ्यामनुपहृते मध्यस्थे आरमनि आय उपयोगस्य प्रवृत्ति समाय स प्रयोजनमस्येति सामायिक । = १, 'स' अर्थात् एकत्वपनेसे 'आय' अर्थात् आगमन । अर्थात् परद्रव्योंसे निवृत्त होकर उपयोगकी आत्मामें प्रवृत्ति होना । 'यह मे ज्ञाता द्रष्टा हूँ' ऐसा आत्मामें जो उपयोग सो सामायिक है । एक ही आत्मा स्वयं ही ज्ञेय है और स्वयं ही ज्ञाता है, इसलिए अपनेको ज्ञाता द्रष्टारूप अनुभव कर सकता है । २ अथवा 'सम' का अर्थ राग-द्वेष रहित मध्यस्थ आत्मा है । उसमें आय अर्थात् उपयोगकी प्रवृत्ति सो समाय है । वह समाय ही जिसका प्रयोजन है, उसे सामायिक कहते हैं । (अन घ/८/१६/७४२)

३. सामायिक सामान्यके लक्षण

१ समता

मू आ /६२१,६२२,६२६ ज च समो अप्पाण परं य मादूय सव्वमहि-
लाम्भु । अप्पियपियमाणादिस्सु तो समणो तो य सामाइय ॥६२१॥
जो जाणइ समत्थ दव्वाण गुगाण पज्जयाण च । सम्भाव
ते सिद्ध सामाइय उत्तम जाणे ॥६२२॥ जो समो सव्वभूदेषु
तसेसु थावरसु य । जस्स रागो य दोसो य विषडि ण
जाणत्ति दु ॥६२६॥ = स्व व परमें राग व द्वेष रहित होना, स
स्त्रियोंको माताके समान देखना, शत्रु-मित्र, मान-अपमान आदि-
में सम भाव रखना, ये सब श्रमणके लक्षण है । उसे ही सामायिक
भी जानना ॥६२१॥ जो द्रव्यों, गुणों और पर्यायोंके सादृश्यको
तथा उनके एक जगह स्वतः सिद्ध रहनेको जानता है, वह उत्तम
सामायिक है ॥६२२॥ त्रम स्थावररूप सर्व प्राणियोंमें समान परिणाम
होना [अर्थात् सबको सिद्ध समान शृद्ध जानना दे सामायिक/१/१]
तथा राग-द्वेषादि भावोंके कारण आत्मामें विकार उत्पन्न न होना,
वही परम सामायिक है ॥६२६॥

घ. ८/३,४१/८४/१ सत्तु-मित्त-मणि-पाहाण-सुवण्ण-मट्टियासु राग-वेसा-
भावो समदा णाम । = शत्रु-मित्र, मणि-पापाण और सुवर्ण-मृत्तिका-
में राग-द्वेषके अभावको समता कहते हैं । (चा सा /६६/१)

अ ग आ /८/३१ जीवित्तमरणे योगे विद्योगे विप्रिये प्रिये । शत्रौ
मित्रे सुत्ते दु खे साम्य सामायिक विदु ॥३१॥ = जीवन व मरणमें,
सयोग व वियोगमें, अप्रिय व प्रियमें, शत्रु व मित्रमें, सुख व दुःख
में समभावको सामायिक कहते हैं ॥३१॥

भा पा /टी /७७/२२१/१३ सामायिक सर्वजीवेषु समत्वम् । = सर्व
जीवोंमें समान भाव रखना सामायिक है । (विशेष दे सामा-
यिक/१/१)

२. राग-द्वेषका त्याग

मू आ /६२३ रागदोसो णिरोहिता समदा सव्वकम्मसु । सुत्तेसु अ
परिणामो सामाइयसुत्तम जाणे ॥६२३॥ = मन कार्योंमें राग-द्वेषको
छोड़कर समभाव होना और द्वादशांग सूत्रोंमें श्रद्धान होना उत्तम
सामायिक है ॥६२३॥

यो. सा./अ./४/४० गरमवद्रव्यसंदर्भे रागद्वेषव्यपौदनम् । आरम-
त्तरवनिविष्टस्य तरसामायिकमुच्यते ॥४०॥ = गर्वद्रव्योंमें राग-
द्वेषका अभाव तथा आरमस्वरूपमें लीनता सामायिक कही जाती
है । (अन घ./८/२६/७४८)

३ आरमनियरता

नि. सा /मू /१४७ आनामं जइ इच्छसि अप्पमहावेसु कुणदि धिरभारं ।
तेण दु सामण्णगुणं सपुण्ण हादि जीवस्स ॥१४७॥ = यदि तू आव-
श्यकको चाहता है, तो आरम-मन्त्रभावमें स्थिरभाव कर, जिनमें
कि जीवोंको सामायिक गुण सम्पूर्ण होता है ॥१४७॥

रा वा /६/२४/११/६३०/१२ चित्तस्यैकत्वेन ज्ञानेन प्रणिधानं वा ।
= एक ज्ञानके द्वारा चित्तको निश्चल रखना सामायिक है । (चा,
सा /४४/४) ।

४. सावययोग निवृत्ति

नि सा /मू /१२४ विरदो सम्भसावज्जो तिगुत्तो पिहिदिदिज्जो । तस्स
मामाह्य ठाह इदि केवलिसासणे ॥१२४॥ = जो सर्व भावधर्म विरत
है, जो तीन गुप्तियाला है, और जिनमें इन्द्रियोंको बन्द किया है,
उसे सामायिक स्थायी है ॥१२४॥ (मू आ /६२४) ।

रा वा /६/२४/११/६३०/११ तत्र सामायिय सर्वसावययोगनिवृत्ति-
लक्षण । = सर्व सावय योग निवृत्ति ही सामायिकका लक्षण है ।
(चा. सा /६६/४) ।

५. समय तप आदिके साथ एकता

मू. आ /६१६, ६२६ मम्मत्तपाणसज्जमतवेहिं जं त पमत्थसमगमणं ।
समयत्तु तं तु भणिद तमेव सामाइय जाणे ॥६१६॥ जस्स सण्णिहिदो
अप्पा सज्जे णियमे तवे । तस्स सामायिय ठादि इदि केवलिसासणे
॥६२६॥ = समयवत्त ज्ञान समय तप इनके द्वारा जीवकी प्रशस्त
प्राप्ति अथवा उनके साथ जीवकी एकता, वह समय है । उन्हींको
सामायिक कहते हैं ॥६१६॥ (अन घ/८/१२०/७४४) जिसका
आरमा समय, नियम व तपमें लीन है, उसके सामायिक
तिष्ठतो है ॥६२६॥

६ नित्य नैमित्तिक कर्म व शास्त्र

क पा /१/१.१/९ =१/९=६ तीसु वि सन्नासु पक्खमाससधिदिदेषु वा
सगिच्छद्वेत्तलाम्भु वा यज्जत्तर गासेसत्थेषु सपरायणिरोहो वा सामाइय
णाम । = तीनों ही सन्ध्याओंमें या पक्ष और मासके सन्धिदिनों-
में या अपने इच्छित समयमें बाह्य और अन्तरंग समस्त पदार्थोंमें
कपायका निरोध करना सामायिक है ।

गो. जी /जी प्र ३६७/७८६/१२ नित्यनैमित्तिकानुष्ठान तत्प्रतिपादक
शास्त्र वा सामायिकमित्यर्थ । = नित्य-नैमित्तिक क्रिया
विशेष तथा सामायिकका प्रतिपादन शास्त्र भी सामायिक कह-
लाता है ।

४. द्रव्य क्षेत्रादि रूप सामायिकोंके लक्षण

क पा १/१-१/९=१/९/४ सामाइय चरव्विह, दव्वमामाइय सेत्त-
सामाइय कालसामाइय भावसामाइय चेदि । तत्थ सचित्ताचित्त-
रागदोसणिरोहो दव्वसामाइय णाम । णयर-खेट कव्वड-मट्टव पट्टण-
दोणसुह-जणवदादिस्सु रागदोमणिरोहो सगावासिसयस परायणिरोहो
वा खेत्तसामाइय णाम । छउदुविसयस परायणिरोहो कालसामाइय ।
णिरुद्धासेसकसायस्स वतमिच्चत्तस्स णयणिउणस्स छदव्वविसओ
वीहो नाहविवज्जिओ भावसामाइय णाम । = द्रव्यसामायिक, क्षेत्र-
सामायिक, कालसामायिक और भावसामायिकके भेदसे सामायिक
चार प्रकारका है । उनमेंसे मचित्त और अचित्त द्रव्योंमें राग और
द्वेषका निरोध करना द्रव्यसामायिक है । ग्राम, नगर, खेत, कर्बट,

महम्म, पढ़न, द्रोणमुख, और जनपद आदिमें राग और द्वेषका निरोध करना अथवा अपने निवासस्थानमें कपायका निरोध करना क्षेत्र-सामायिक है। वसन्त आदि छः ऋतुविषयक कपायका निरोध करना अर्थात् किसी भी ऋतुमें इष्ट-अनिष्ट बुद्धि न करना कालसामायिक है। जिसने समस्त कपायोंका निरोध कर दिया है तथा मिथ्यात्वका वमन कर दिया है और जो नयोंमें निपुण है ऐसे पुरुषको बाधा रहित और अस्वलित जो छह द्रव्यविषयक ज्ञान होता है वह भाव-सामायिक है। (गो जी/जी प्र/३६७/७८/१५)।

भ आ/वि/११६/२७४/पक्ति—तत्र सामायिकं नाम चतुर्विधं नामस्थापनाद्रव्यभावभेदेन। १७। चारित्रमोहनीयाख्य कर्म परिप्राप्तयोपशमावस्थं नोआगमद्रव्यतद्व्यतिरिक्तकर्म। सामायिकं नाम प्रत्ययसामायिकं। नोआगमभावसामायिकं नाम सर्वसावद्योगनिवृत्तिपरिणामं। अयमिह गृहीतः। १८। =सामायिक चार प्रकारकी है—नामसामायिक, स्थापनासामायिक, द्रव्यसामायिक, भावसामायिक। [इन सबके लक्षण निक्षेपेवत जानने। विशेषता यह है कि] क्षयोपशमरूप अवस्थाको प्राप्त हुए चारित्रमोहनीय कर्मको जो कि सामायिकके प्रति कारण है वह नोआगमद्रव्य तद्व्यतिरिक्त सामायिक है। सम्पूर्णसावद्य योगोसे विरक्त ऐसे आत्माके परिणामको नोआगमभावसामायिक कहते हैं। यही सामायिक प्रकृत विषयमें ग्राह्य है।

अन ध/५/१५-३४/७४२ नामस्थापनयोर्द्रव्यक्षेत्रयो' कालभावयो'। पृथग्निक्षिप्य विधिवत्साध्या' सामायिकादयः। १८। शुभेऽशुभे वा केनापि प्रयुक्ते नाम्नि मोहत। स्वमवाङ्गलक्षण पश्यन्न रतिं यामि नारतिम्। १९। यदिद स्मरयत्यर्चनं तदप्यस्मि किं पुनः। इदं तदस्या सुस्थेति धीरसुस्थेति वा न मे। २०। साम्यागमज्ञतद्देहो तद्विपक्षौ च यादृशौ। तादृशौ स्तां परद्रव्ये को मे स्वद्रव्यवद्ग्रहः। २१। राजधानीति न प्रये नारण्यनीति चोद्विजे। देशो हि रम्योऽरम्यो वा नात्मरामस्य कोऽपि मे। २२। नामूर्त्तत्वाद्धिमाद्यात्मा काल किं तर्हि पुद्गलः। क्षयोपचर्यते मूर्त्तस्तस्य स्पृश्यो न जास्वहम्। २३। सर्वे वै भाविका भावा मत्तोऽन्ये तेष्वत कथम्। चिच्चमत्कारमात्रात्मा प्रीत्यप्रीती तनोम्यहम्। २४। जीविते मरणे लाभेऽलाभे योगे विपर्यये। बन्धावरो मूले दु खे साम्यमेवाभ्युपैम्यहम्। २५। मैत्री मे सर्वभूतेषु वैरं मम न केनचित्। सर्वसावद्यविरतोऽस्मोति सामायिकं श्रेयम्। २६। =नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन छह निक्षेपोंपर सामायिकादि षट् आवश्यकोंको घटित करके व्याख्यान करना चाहिए। १९। किसी भी शुभ या अशुभ नाममें अथवा यदि कोई मेरे विषयमें ऐसे शब्दोंका प्रयोग करे तो उनमें रति या अरति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शब्द मेरा स्वरूप या लक्षण नहीं है। २०। यह जो सामने वाली प्रतिमा मुझे जिस अर्हन्तादिरूपका स्मरण करा रही है, मे उस मूर्तिरूप नहीं हूँ, क्योंकि मेरा साम्यानुभव न तो इस मूर्तिमें ठहरा हुआ है और न ही इससे विपरीत है। (यह स्थापना सामायिक है)। २१। सामायिक शास्त्रका ज्ञाता अनुपयुक्त आत्मा और उसका शरीर तथा इनसे विपक्ष (अर्थात् आगम नोआगम भाविनोआगम व तद्व्यतिरिक्त आदि) जैसे कुछ भी शुभ या अशुभ है, रटें, मुझे इनसे क्या, क्योंकि ये परद्रव्य हैं। इनमें मुझे स्वद्रव्यकी तरह अभिनिवेश कैसे हो सकता है। (यह द्रव्य सामायिक है)। २२। यह राजधानी है, इसलिए मुझे इससे प्रेम हो और यह अरण्य है इसलिए मुझे इससे द्वेष हो—ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा रमणीय स्थान आत्मस्वरूप है। इसलिए मुझे कोई भी बाह्यस्थान मनोज्ञ या अमनोज्ञ नहीं हो सकता। (यह क्षेत्रसामायिक है)। २३। काल द्रव्य तो अमूर्त है, इसलिए हेमन्तादि ऋतु ये काल नहीं हो सकते, बल्कि पुद्गलकी उन-उन पर्यायोंमें कालका उपचार किया जाता है। मे कभी भी उसका स्पर्श नहीं हो सकता क्योंकि मे अमूर्त व चिरस्वरूप हूँ। (यह कालसामायिक है)। २४। ओऽयिकादि तथा जीवन मरण आदि ये सब वैभाषिक

भाज मेरे भाव नहीं है; क्योंकि मुझसे अन्य है। अतएव एक चिच्च-रस्कार मात्र स्वरूपवाला मे इनमें रागद्वेषादिको कैसे प्राप्त हो सकता हूँ। २५। जीवन-मरणमें, लाभ-अलाभमें, सयोग-वियोगमें, मित्र-शत्रुमें सुख-दुःखमें इन सबमें मे साम्यभाव धारण करता हूँ। २७। सम्पूर्ण प्राणियोंमें मेरा मैत्रीभाव हो, किसीसे भी मुझे वैर न हो। मे सम्पूर्ण सावद्यसे निवृत्त हूँ। इस प्रकारके भावोंको धारण करके भावसामायिक पर आरुढ होना चाहिए। ३६।

गो जी/जी प्र/३६७/७८/१३ तच्च नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात्पञ्चविधम्। तत्र इष्टानिष्टनामसु रागद्वेषनिवृत्ति सामायिकमित्यभिधानं वा नामसामायिकम्। मनोज्ञामनोज्ञासु स्त्रीपुरुषाद्याकारासु काष्ठलेप्यचित्रादिप्रतिमासु रागद्वेषनिवृत्ति इदं सामायिकमिति स्थाप्यमानं यत् किञ्चिद्रस्तु वा स्थापनासामायिकम्। =नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावके भेदसे सामायिक छह प्रकारकी है। तहाँ इष्ट व अनिष्ट नामोंमें रागद्वेषकी निवृत्ति अथवा 'सामायिक' ऐसा नाम कहना तो नामसामायिक है। मनोज्ञ व अमनोज्ञ स्त्री-पुरुष आदिकके आकारोंमें अथवा उनकी काष्ठ, लेप्य, चित्र आदि प्रतिमाओंमें रागद्वेषकी निवृत्ति स्थापना सामायिक है। अथवा 'यह सामायिक है' इस प्रकारसे स्थापी गयी कोई वस्तु स्थापना सामायिक है। [काल द्रव्य व भाव सामायिकके लक्षण सन्दर्भ न. १ वत है।]

२. सामायिक विधि निर्देश

१. सामायिक विधिके सात अधिकार

का अ/मू/३३२ सामाह्यस्स करणे खेत काल च आसण विलो। मण-वपण-काय-सुद्धी गायवा हाति सत्तेव। =सामायिक करनेके लिए क्षेत्र, काल, आसन, विलय, मन शुद्धि, वचनशुद्धि और कायशुद्धि, ये सात बातें जाननी चाहिए (और भी दे, शीर्षक न. ३)।

२. सामायिक योग्य काल

का अ/मू/३५४ पुव्वणहे मज्जणहे अवरणहे तिहि वि णालिया-एक्को। सामाह्यस्स कालो सविणय-णिस्सेस णिहिट्ठो। ३५४। =विनय सयुक्त गणधरदेव आदिने पुत्राह, मध्याह्न और अपराह इन तीनों कालोंमें छह छह घंटों सामायिकका काल कहा है। ३५४। (और भी दे सामायिक/२/३ तथा ३/२)।

३. सामायिक विधि

र क आ/१३६ चतुरावर्त्तत्रितयश्चतु प्रणामस्थितो यथाजातः। सामायिको द्विनिपथास्त्रियोगशुद्धस्त्रिसन्ध्यमभिवन्दो। १३६। =जो चार दिशाओंमें तीन-तीन आवर्त्त करता है, चार दिशाओंमें चार प्रणाम करता है, कायोत्सर्गमें स्थित रहता है, अन्तरंग महिरम परिग्रहको चिन्तासे परे रहता है, खड्गासन और पद्मासन इन दो आसनोंमेंसे कोई एक आसन लगाता है, मन वचन कायके व्यापारको शुद्ध रखता है और त्रिकाल (पुत्राह, मध्याह्न और अपराह) बन्दना करता है वह सामायिक प्रतिमाधारी है। १३६। (का. अ/मू/३७) (वा सा/३७/२)।

वसु प्रा/२७४-२७७ होऊण सुई चेटय गिहम्मि सगिरे व चेटया-हिमुहो। अणत्थ सुहपत्ते पुव्वमुहो उत्तरमुहो वा। २७४। जिणवयण-धम्म-चेडय-परमेट्ठि-जिणालाण पिच्चपि। ज वदण तियानं कीरइ सामाह्य त लु। २७५। =स्नान आदिमें शुद्ध होकर चैरयान्यमें अथवा अपने ही घरमें प्रतिमाके सम्मुख होकर, अथवा अन्य पवित्र स्थानमें पूर्वमुख या उत्तर मुख होकर जिनवाणी, जिनधर्म, जिन-दिम्प, पंच परमेष्ठो और वृत्रिम अकृत्रिम जितानयोंकी जो निय

त्रिकाल वन्दना की जाती है वह सामायिक नामका तीसरा प्रतिमा स्थान है।

दे. सामायिक/३/१/२ [केश, हाथकी मुट्ठी व वस्त्रादिको बांधकर, श्रेष्ठ व कालको सोमा करके, सर्वसाधारणमें नियुक्त होना सामायिक प्रतिमा है।]

४. सामायिक योग्य आसन मुद्रा क्षेत्रादि

दे. कृत्तिकर्म/३ पश्यकासन या कायोत्सर्ग आसन इन दो आसनोंसे की जाती है। कमर सीधी व निश्चय रहे, नासाग्र दृष्टि हो, अपनी गोदमें बायें हाथके ऊपर दाहिना हाथ रखा हो, नेत्र न अधिक खुले हों व मुँदे, निद्रा-आलस्य रहित प्रसन्न बदन हो, ऐसी मुद्रा सहित रहे। शुद्ध, निर्जीव व हिन्द रहित भूमि, शिला अथवा सगरे मृगी पीठपर वजे। गिरिको गुफा, वृषकी कोटर, नदीका पुत्र, श्मशान, जीर्णोद्यान, शून्यागार, पर्यसवा शिखर, सिद्ध श्रेष्ठ, चैत्र्यालय आदि शान्त व उपव्य रहित क्षेत्रमें करे। वह क्षेत्र शुद्ध जीवोंकी अथवा गरमी नदी आदिको बाधाअसि रहित होना चाहिए। स्त्री, पावण्डी, तिर्यंच, भूत, वृताल आदि, व्याघ्र, सिंह आदि तथा अधिकजन मसार्गसे दूर होना चाहिए। निराकुल होना चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशाकी ओर मुख करके करनी चाहिए। द्रव्य, श्रेष्ठ, फल व भागकी तथा मन वचन कायकी शुद्धि सहित करनी चाहिए। (और भी दे, सामायिक/७/३)।

५. सामायिक योग्य ध्येय

र क आ/१०४ अक्षरमशुभमनित्य दु खमनाम्नानामासामि भव। मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। १०४। —में अक्षररूप, अशुभरूप, अनित्य, दु खमय और पररूप मसारमें निवास करता हूँ। और मोक्ष इससे विपरीत है, इस प्रकार सामायिकमें ध्यान करना चाहिए। १०४। (और भी दे, ध्येय)।

का अ/म/३७२ चित्ततो ससरुर्व जिणविम अह्य अवखरं परम। भायदि कम्मविवाय तस्स वय होदि सामर्थ्यं। ३७२। —अपने स्वरूपका अथवा जिनविम्वका, अथवा पंच परमेष्ठीके वाचक अक्षरोंका अथवा कर्मविपाकका (अथवा पदार्थोंके यथावस्थित स्वरूपका, तीनों लोकका और अक्षरण आदि वेराग्य भावनाओंका) चिन्तन करते हुए ध्यान करता है उसके सामायिक प्रतिमा होती है। ३७२। (विशेष दे ध्येय)।

दे सामायिक/२/३ [जिनवाणी, जिनविम्व, जिनधर्म, पंच परमेष्ठी तथा कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्र्यालयका भी ध्यान किया जाता है।]

दे सामायिक/३/२ [पंच नमस्कार मन्त्रका, प्रातिहार्य सहित अर्हन्तके स्वरूपका तथा सिद्धके स्वरूपका ध्यान करता है।]

६. उपसर्ग आदिमें अचल रहना चाहिए

र क आ/१०३ शीतोष्णदशमशकपरिपहमुपसर्गमपि च मौनधरा। सामायिक प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्नचलयोगा। १०३। —सामायिकको प्राप्त होनेवाले मौनधारी अचलयोग हाते हुए शीत उष्ण डाँस मच्छर आदिकी परीपहको और उपसर्गको भी सहन करते हैं। १०३। (चा, सा/१६/३)।

३. सामायिक धन व प्रतिमा निर्देश

१. सामायिक धनके लक्षण

२. समता धारण व आर्वांगीष्ट परिणामोक्ता ध्यान

वे ति/६/८ समता सर्वं तेषु संयमे शुभभाषता। आर्वांगीष्टपरिणामस्तदि सामायिक धनम्। ८। —सम प्राणियोंमें समता धारण (दे सामायिक/१/१) धारण करना, संयमके विषयमें शुभ विचार करना, तथा आर्त एवं शीघ्र ध्यानका ध्यान करना, इसे सामायिक धन माना है। ८।

३. अत्यन्त काष्ठपर्यन्त सर्व साधन नियुक्ति

७. क. आ/१०-१८ आगममशुक्तिमु- पञ्चाधानामर्गभाषेन। सर्वत्र च सामायिका सामायिकं नाम धर्मसिद्धि। १०। शूर्परेहमुष्टिगामावर्ध पर्यपन्धन चापि। स्थानमुपेक्षा वा सम्यं ज, तन्ति ननगला। १८। —मत्, मत्त, रत्त, श्या कृत्त कानि अतुन, दत्ता तमे नव-कोटिमे की हृष्टे मर्गादिनि गीतर या बाह्य भी धिकी नियत सम्य (अष्टमूर्तुय) पर्यन्त पर्यं पापेरा रणाग मन्त्रो सामायिक करते हैं। १०। हानो पुरष चोटीमें मान मुट्ठी व सम्पके कईनेकी तथा पर्यन्त आगमो या तयोत्सर्ग उत्सने सामायिक करनेकी स्थान व उपदेशका अथवा सामायिक करने योग्य समझना जानने है। १८। (विशेष दे, सामायिक/१२ व सामायिक/१३।), (चा सा/१६/३), (सा ध/१/२८)।

स सि/१-१/३७३/३ सर्वसाधनानि युचित्तलक्षणसामायिक। —सर्व साधनकी नियुक्ति हो है तथा जिनका ऐसा सामायिक धन (मद्यपि सामायिककी अपेक्षा एक है पर देहापस्थापनाकी अपेक्षा है। दे देहापस्थापना)।

२. सामायिक प्रतिमाका लक्षण

वसु आ/७७६-२०८ नाउसर्गाह् टिओ लाहानात्त च सत्तुमित्त ध। संयोग-विषयजोयं तिणच चण चंदण वामि। २०६। जो वस्सद समभाव मणम्मि धरिज्जण पचणरताम्। वरअट्टपाटिहेरेहि संजुय जिणसरुक्कं च। २०७। सिद्धमरुक्कं भायइ अहत्ता माणुत्तण गसवेय। त्वमेवक-मविचलंगो उत्तमसामाय्यं तस्स। २०७। —जो श्रावत् कायोत्सर्गमें स्थित होकर लाभ-उत्ताभगी, शत्रु-मित्रकी, इष्ट-निर्दोष व अनिष्ट-योगकी, सुण-वचणकी, चन्दन और कुटारकी समभारसे वेगता है, और मनमें पंच नमस्कार मन्त्रकी धारण कर उत्तम अष्ट प्रातिहार्यो-से समुक्त अर्हन्तजिनके स्वरूपकी और सिद्ध गणार्थके स्वरूपकी ध्यान करता है, अथवा सवेग सहित जमिचन अग होकर एक क्षणकी भी उत्तम ध्यान करता है उसको उत्तम सामायिक होती है। २०६-२०८। (विशेष दे सामायिक/२/१)।

म स/टी/४५/१६५/६ त्रिकालसामायिके प्रवृत्त तृतीय। —जन् (पूर्वाह्न, मध्याह्न व अत्राह्न) ऐसी त्रिकाल सामायिकमें प्रवृत्त होता है तब तीसरी (सामायिक) प्रतिमाधारी हाता है।

सा ध/७/१ सुहृमूलोत्तरगुणप्रामाण्यमविशुद्धधी। भजत्रिसन्ध्य कृच्छ्रेऽपि साम्यं सामायिकीभवेत्। १। —जिम श्रावणकी बुद्धि निरतिचार सम्यग्दर्शन, निरतिचार मूलगुण और निरतिचार उत्तर गुणोंके समूहके अभ्यासे विशुद्ध है, ऐसा श्रावत् पूर्वाह्न, मध्याह्न व अत्राह्न इन तीनों कालोंमें परीपह उपसर्ग उपस्थित होनेपर भी साम्य परिणामकी धारण करता है, वह सामायिक प्रतिमाधारी है। १।

दे सामायिक/२/३ [आवर्त, व नमस्कार जादि योग्य वृत्तिकर्म युक्त होकर पूर्वाह्न, मध्याह्न, व अपराह्न इन तीन सन्ध्याओंमें क्षेत्र व कालकी भीमा बाँधकर जो पंच परमेष्ठी आदिका या आत्मस्वरूपका चिन्तन करता है वह सामायिक प्रतिमाधारी है ।]

चा सा /२/१ सामायिक सन्ध्यात्रयेऽपि भुवनत्रयस्वामिन वन्दमानो वक्ष्यमाणव्युत्सर्गपक्षि कथितक्रमेण । =सामायिक सबेरे दोपहर और शाम तीनों समय करना चाहिए और वह तीनों लोकोंके स्वामी भगवान् जिनेन्द्रदेवको नमस्कारकर जागे जो व्युत्सर्ग नामका तपश्चरण कहेंगे उसमें कहे हुए क्रमके अनुसार अर्थात् कायोत्सर्ग करते हुए करना चाहिए ।

३. सामायिक व्रत व प्रतिमामें अन्तर

चा सा /३/३ अस्य सामायिकस्यानन्तरोत्तरीयसप्तकान्तर्गत सामायिकव्रत शील भवतीति । =पहिले व्रत प्रतिमामें १२ व्रतोंके अन्तर्गत सात शीलव्रतोंमें सामायिक नामका व्रत कहा है (दे शिक्षा व्रत) वही सामायिक इस सामायिक प्रतिमा पालन करनेवाले श्रावकके व्रत हो जाता है जब कि दूसरी प्रतिमावालेके वही शील रूप (अर्थात् अभ्यासरूपसे) रहता है । (सा, ध /७/६) ।

चा पा /टी/२५/४४/१६ दिन प्रति एकवार द्विवार त्रिवार वा व्रतप्रतिमाया सामायिक भवति । यत्तु सामायिकप्रतिमाया सामायिक प्रोक्त तत्त्वज्ञ वारात् निश्चयेन करणीयमिति ज्ञानव्य । =व्रत प्रतिमामें एकवार दोवार अथवा तीनवार सामायिक होती है (कोई नियम नहीं है) जब कि सामायिक प्रतिमामें निश्चयसे तीनवार सामायिक करने योग्य है ऐसा जानना चाहिए ।

ला सा /७/४ ननु व्रतप्रतिमायामेतत्सामायिकव्रतम् । तदेवात्र तृतीयाया प्रतिमायां तु किं पुन । १। सत्य किन्तु विशेषोऽस्ति प्रसिद्ध परमाणु। सातिचार तु तत्र स्यादत्रातीचारविवर्जितम् । २। किंच तत्र त्रिकालस्य नियमो नास्ति देहिनाम् । अत्र त्रिकालनियमो मुनेर्बुलगुणादिवत् । ३। तत्र हेतुवशात्कवापि कुर्यात्कुर्यान्न वा क्वचित् । सातिचारव्रतत्वाद्वा तथापि न व्रतक्षति । ४। अत्रावश्य त्रिकालेऽपि कार्यसामायिक जगत् । अन्यथा व्रतहानि स्यादतीचारस्य का कथा । ५। =प्रश्न—यह सामायिक नामका व्रत व्रतप्रतिमामें कहा है, और वही व्रत इस तीसरी प्रतिमामें व्रतनाया है । सो इसमें क्या विशेषता है । १। उत्तर—ठीक है, जो 'सामायिक' व्रत प्रतिमामें है वही तीसरी प्रतिमामें है, परन्तु उन दोनोंमें जो विशेषता है, वह आगममें प्रसिद्ध है । यह विशेषता यह है कि १ व्रतप्रतिमाकी सामायिक सातिचार है और सामायिक प्रतिमाकी निरतिचार । २। (दे, जागे इस व्रतके अतिचार) । २ दूसरी बात यह भी है कि व्रत प्रतिमामें तीनों काल सामायिक करनेका नियम नहीं, जब कि सामायिक प्रतिमामें मुनियोंके बूलगुण आदिकी भाँति तीनों काल करनेका नियम है । ३। ३ व्रत प्रतिमापाला कभी सामायिक करता है और कारणवश कभी नहीं भी करता है, फिर भी उनका व्रत भंग नहीं होता, क्योंकि वह इस व्रतकी सातिचार पालन करता है । ४। परन्तु तीसरी प्रतिमामें श्रावकको तीनों काल सामायिक करना आवश्यक है, अन्यथा उसके व्रतकी क्षति हो जाती है, तब अतिचारकी तो बात ही क्या । ५।

दे सामायिक/३/१,२ [सामायिक व्रतका लक्षण करते हुए केवल उमना स्वरूप ही बताया है, जब कि सामायिक प्रतिमाका लक्षण करते हुए उसे तीन बार अवश्य करनेका निर्देश किया गया ।

दे सामायिक/२/३ [आवर्त आदि वृत्तिकर्म सहित नामायिक करनेका निर्देश सर्वत्र सामायिक प्रतिमाके प्रकरणमें किया है, सामायिक नामक शिक्षा व्रतके प्रकरणमें नहीं ।]

४. सामायिकके समय गृहस्थ भी साधु तुल्य होता है ।

सू.आ /५/३१ सामाहम्हि दु क्दे समगो इर मावजो ह्वदि जम्हा । एदेण कारणेण दु बहुसो मामाह्य कुज्जा । =सामायिक करता हुआ श्रावक भी मयमी मुनिके समान हो जाता है, इसलिए मृत कर्के सामायिक करनी चाहिए । ५/३१।

र क आ /१/०२ सामायिके सारम्भा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि । चेलोपसृष्टमुनिरिव गृही तदा याति यतिभाव । १०२। =सामायिकमें आरम्भ सहितके सब ही प्रकार नहीं होते हैं, इस कारण उस समय गृहस्थ भी उस मुनिके तुल्य हो जाता है जिसे कि उपमर्गके रूपमें वस्त्र ओटा दिया गया हो । १०२।

स सि /७/२१/३६०/६ इयति देधे एतावति काले इत्यवधारिते नामायिके स्थितस्य महाव्रतव पूर्ववद्वेदितव्यम् । कुत् । अणुधूलकृतहिंसादि-निवृत्ते । =इतने देशमें और इतने काल तक इस प्रकार निर्दिष्ट की गयी सीमामें, सामायिकमें स्थित पुष्पके पहिलेके समान (दे दिग्ब्रत) महाव्रत जानना चाहिए, क्योंकि इसके सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकारके हिंसा आदि पापोंका त्याग हो जाता है । (रा वा /७/२१/२३/५४६/२२), (गो क /गो प्र /४४७/७६३/१) ।

पु सि उ /१/६० सामायिकप्रितानां समस्तसावद्ययोगपरिहारात् । भवति महाव्रतमेपामुदयेऽपि चारित्रमोहस्य । =इन सामायिक दशाको प्राप्त हुए श्रावकोंके चारित्र मोहके उदय होते भी समस्त पापके योगोंके परिहारसे महाव्रत होता है । १/६०।

चा सा /१६/४ हिंसादिभ्यो विषयकपायेभ्यश्च विनिवृत्त्य मामायिके वर्तमानो महाव्रती भवति । =विषय और कपायोंसे निवृत्त होकर सामायिकमें वर्तमान गृहस्थ महाव्रती होता है ।

का, अ. /३/५६-३/७ यद्यत्ता पञ्जक अहवा उद्वेगेण उन्मथो ठिच्छा । कालपमाण किच्छा इदिय-वावार-पञ्जिदो होउ । ३/५६। जिपयये-यग-मणो सवुड-काओ य जर्जलि किच्छा । स-मन्वे मनीणो वदण-अत्य विचित्तो ३/५६। किच्छा देसपमाणं मन्व सावज्ज-वज्जिदो होउ । जो कुब्बदि सामह्यं भो मुणि-मरिमो ह्वे ताव । ३/७। =पर्यक आसनको बाँधकर अथवा नीघा खडा होकर, कालका प्रमाण करके (दे सामायिक/३/१) इन्द्रियोंके व्यापारको छोड़नेके लिए जिनवचनमें मनको एकाग्र करके, कायको मन्वीचकर, हाथकी जर्जलि करके, अपने स्वरूपमें लीन हुआ अथवा बन्दना पाठके अर्थका चिन्तन करता हुआ, क्षेत्रका प्रमाण करके और समस्त सावद्य योगको छोड़ कर जो श्रावक सामायिक करता है वह मुनिके समान है । ३/५६-३/७।

५ साधु तुल्य होते हुए भी वह संयत नहीं

स, मि /७/२१/३६०/१० सयमप्रमद् इति चेत्, न, तद्वातिकर्मोदय-सद्भावात् । महाव्रताभाव इति चेत् । तत्र, उपचाराद् राजकुले सर्वगत-चैत्राभिधानवत् । =प्रश्न—यदि ऐसा है (अर्थात् यदि सामायिकमें स्थित गृहस्थ भी महाव्रती कहा जायेगा) तो नामायिकमें स्थित हुए पुरुषके सकल नयमना प्रमग प्राप्त होता है । उत्तर—नहीं, क्योंकि, इसके नयमना घात करनेजाने कर्मोंका उदय पाया जाता है । प्रश्न—तो फिर इसक महाव्रतका ज्ञान प्राप्त होता है । उत्तर—नहीं, क्योंकि, जैसे राजकुलमें चैत्रको सर्वगत उपचारसे कहा जाता है उसी प्रकार यहाँ महाव्रत उपचारसे जानना चाहिए । (रा, वा /७/२१/२४-२५/५४६/२४), (चा ना /१६/४), (गो क /जी प्र /४४७/७६३/१) ।

६. सामायिक व्रतका प्रयोजन

र, न आ /१/०१ नामायिक प्रतिविवम यथावदप्यनन्नेन चेतव्य । व्रत-पञ्चपरिपूर्णकारणमवधानमुत्तेन । १/०१। =सामायिक पंच महाव्रतोंके

परिपूर्ण करनेका कारण है, इसलिए उसे प्रतिदिन ही आलस्यरहित और एकाग्रचित्तसे यथानियम करना चाहिए।

दे. सामायिक/३/४ - [सामायिक व्रतसे मुनि व्रतकी शिक्षाका अभ्यास होता है।]

७ सामायिक व्रतका महत्त्व

ज्ञा/२४/१लो साम्यभावितभावानां स्यात्सुख यन्मनोपिणाम् । तन्मध्ये ज्ञानसाम्राज्यसमत्वमवलम्बते । १४। शान्त्यन्ति जन्तव क्रूरा यद्वर्षरा परस्परम् । अपि स्वार्थं प्रवृत्तस्य मुने साम्यप्रभावत । २०। सुभ्यन्ति ग्रहयक्षकिन्नरनरास्तुष्यन्ति नाकेश्वरा, सुखन्ति द्विपदैश्यसिंहशर-भत्रयालादय ऋग्ताम् । रुग्वेरप्रतिबन्धविभ्रमभयघ्नष्ट जगज्जायते, स्याद्योगीन्द्रसमत्वसाध्यमथवा किं किं न सद्यो भुवि । २४। - साम्य-भावसे पदार्थोंका विचार करने वाले बुद्धिमान् पुरुषोंके जो सुख होता है सो मेरे ऐसा मानता हूँ कि वह ज्ञानसाम्राज्य (केवलज्ञान) की समताको अवलम्बन करता है अर्थात् उसके समान है । १४। हम साम्यके प्रभावसे अपने स्वार्थमें प्रवृत्त मुनिके निकट परस्पर चेर करनेवाले क्रूर जीव भी साम्यभावको प्राप्त हो जाते हैं । २०। समभाव-युक्त योगीश्वरोंके प्रभावसे ग्रह यक्ष किन्नर मनुष्य ये सब क्षोभको प्राप्त नहीं होते हैं और इन्द्राण हर्षित होते हैं । शत्रु, वैश्य, सिंह, अष्टापद, सर्प इत्यादि क्रूर प्राणी अपनी क्रूरताको छोड़ देते हैं, और यह जगत रोग, वैर, प्रतिबन्ध, विभ्रम, भय आदिकसे रहित हो जाता है । इस पृथिवीमें ऐसा कौन-सा कार्य है, जो योगीश्वरोंके समभावोंसे साध्य न हो । २४।

दे सामायिक/३/४ [सामायिक कालमें गृहस्थ भी साधु तुष्य होता है।]

दे, सामायिक/४/३ [एक सामायिकमें सकल व्रत गर्भित हैं।]

८. सामायिक व्रतके अतिचार

त सू/७/३३ योगदुष्प्रणिधानानादस्मृत्यनुपस्थानानि । ३३। - काय-योगदुष्प्रणिधान, वचनयोगदुष्प्रणिधान, मनोयोगदुष्प्रणिधान, अनादर और स्मृतिका अनुपस्थान ये सामायिक व्रतके पाँच अतिचार हैं । ३३। (र क प्रा/१०६), (चा सा/२०/३), (सा ध/६/३३)।

४ सामायिक चारित्र निर्देश

१. सामायिक चारित्रका लक्षण

१. रागद्वेषादिसे निवृत्ति व समता

यो सा/यो/६६-१०० सन्वे जीवा णाणमया जो समभाव सुणेह । सो सामाह्य जाणि फुडु जिगवर एम भणेह । ६६। रायरोस वि परिहरिवि जो समभाव सुणेह । सो सामाह्य जाणि फुडु केवलि एक भणेह । १००। - समस्त जीवराशिको ज्ञानमयी जानते हुए उसमें समता भाव रखना (अर्थात् सबको सिद्ध समान शुद्ध जानना-दे सामायिक/१/१) अथवा रागद्वेषको छोड़कर जो समभाव होता है, वह निश्चयसे सामायिक है । ६६-१००। (द्र. स/टी/३६/१४७/४)

द्र स/टी/३५/१४७/७ स्वशुद्धात्मानुभूतिवलेनार्तरीद्रपरित्यागरूप वा समस्तसुखदुःखादि मध्यस्वरूप वा । - स्व शुद्धात्माकी अनुभूतिके बलसे आर्तरीद्रके परित्यागरूप अथवा समरत सुख दुःख आदिमें मध्यस्थभाव रखनेरूप है ।

२ रत्नत्रयमें एकाग्रता

स सा/वा/१६४ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रस्वभावपरमार्थभूतज्ञानभवन-मात्रैकाग्र्यलक्षणं समयसारभूत सामायिकं प्रतिज्ञायापि । - सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र स्वभाववाला परमार्थभूत जो ज्ञान, उसकी

भवनमात्र अर्थात् परिणमन होनेमात्र जो एकाग्रता, वह ही जिसका लक्षण है, ऐसी समय-सारस्वरूप सामायिककी प्रतिज्ञा लेनाके भी ।

३ सर्व सावध निवृत्ति रूप सकल समय

५ स/वा/१/१२६ सगहिय-मयलजंममेयजमपुत्तर नुरवगम्म । जीवो समुवचतो सामाह्यजंजदो एह । १२६। - जन्ममें सकल समय मगू-होत है, ऐसे सर्वसावधके रयागरूप एफमात्र अनुत्तर एव दु खगम्य अभेद समयको धारण करना, सो सामायिकमयम है और उसे धारण करनेवाला सामायिक सगत कहलाता है । (ध. १/१. १, १२३/गो. १८७/३७२), (रा वा/६/१८/२/६१६/२८), (ध १/१. १, १२२/३६६/२), (गो जो/सू/४७०/८०६)।

स सि./६/१८/४२६/६ सामायिमुत्तम् । वच । 'दिग्देशानर्थदण्डविरति-सामायिक' - इत्यत्र । - सामायिक चारित्रका कथन पहिले दिग्देश आदि व्रतोंके अन्तर्गत सामायिक व्रतके नामसे कर दिया गया है कि [सर्व सावध योगकी निवृत्ति सामायिक है- (दे सामायिक/३/१)]।

२. नियत व अनियतकाल सामायिक निर्देश

स सि/६/१८/४३६/२ तद् द्विविध नियतकालमनियतकाल च । स्वाध्यायपद नियतकालम् । ईर्ष्यापथाद्यनियतकालम् । - १-वह सामायिक चारित्र दो प्रकारका है-नियतकाल व अनियतकाल । (त सा/६/४४), (चा सा/१६/२) । २-स्वाध्याय आदि [वृत्तिर्म पूर्वक आसन आदि लगाकर पच परमेष्ठो आदिके स्वरूपका या निजात्माका चिन्तन करना (दे सामायिक/२)] नियतकाल सामायिक है और ईर्ष्यापथ आदि अनियतकाल सामायिक है ।

रा वा/६/१८/२/६१६/२८ सर्वस्य सावधयोगस्याभेदेन प्रत्यात्मानमवलम्ब्य प्रवृत्तमववृत्तकाल वा सामायिकमित्याख्यायते । - सर्व सावध योगोंका अभेदरूपसे सार्वकालिक रयाग करना अनियत काल सामायिक है और नियत समयतक रयाग करना सो नियतकाल सामायिक है ।

नोट-[यद्यपि चा, सा में व्रतके प्रकरणमें सामायिकके ये दो भेद किये हैं, पर वहाँ लक्षण नियतकाल सामायिकका ही दिया है, अनियत काल सामायिकका नहीं। इसलिए दो भेद सामायिक चारित्रके ही हैं, सामायिकव्रतके नहीं, क्योंकि अभ्यस्त दशामें रहनेके कारण गृहस्थ या अशुभ्रती प्रावक सार्वकालिक समता या सर्वसावधसे निवृत्ति करनेको समर्थ नहीं है।]

३. सामायिक चारित्रमें संयमके सम्पूर्ण अंग समा जाते हैं

ध १/१.१.१२३/३६६/६ आक्षिप्ताशेषरूपमिद सामान्यमिति कुतोऽव-सीयत इति चेत्सर्वसावधयागोपादानात् । नहोक्स्मिन् सर्वशब्द प्रवर्तते विरोधात् । स्वान्तर्भावितान्शेषसयमविशेषैक्यम सामायिक शुद्धिसयम इति यावत् । सकलव्रतानामेकत्वमापाद्य एक्यमोपादानाद् द्रव्याधिकनय । - प्रश्न-यह सामान्य समय अपने सम्पूर्ण भेदोंका सग्रह करनेवाला है, यह कैसे जाना जाता है । उत्तर-'सर्वसावधयोग' पदके ग्रहण करनेसे ही, यहाँपर अपने सम्पूर्ण भेदोंका सग्रह कर लिया गया है, यह बात जानी जाती है । यदि यहाँपर समयके किसी एक भेदकी ही मुख्यता होती तो 'सर्व' शब्दका प्रयोग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि, ऐसे स्थलपर 'सर्व' शब्दके प्रयोग करनेमें विरोध आता है । इस कथनसे यह सिद्ध हुआ कि जिसने सम्पूर्ण समयके भेदों (व्रत समिति गुप्ति आदिको) अपने अन्तर्गत कर लिया है ऐसे अभेदरूपसे एक यमको धारण करनेवाला जीव सामायिक-शुद्धि-सयत कहलाता है । (उसीमें दो तीन आदि भेद डालना छेदोपस्थापना चारित्र कहलाता है) ।

सम्पूर्ण व्रतोको सामान्यकी अपेक्षा एक मानकर एक यमको ग्रहण करनेवाला होनेसे यह द्रव्याधिक नयका विषय है। (विशेष दे, छेदोपस्थापना)।

४ इसीलिप् मिथ्यादृष्टिको सम्भव नहीं

ध. १/१.१.१२३/३६६/२ सर्वसावद्ययोगाद् विरतोऽस्मीति सकलसावद्य-योगविरति सामायिकशुद्धिसंयमो द्रव्याधिकत्वात्। एव विधेकव्रतो मिथ्यादृष्टि किं न स्यादिति चेन्न, आक्षिप्ताशेषविशेषसामान्याधिनी नयस्य सम्यग्दृष्टिस्वाविरोधात्। = 'मै सर्व सावद्ययोगसे विरत हूँ' इस प्रकार द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा सकल सावद्ययोगके त्यागको सामायिक-शुद्धि-संयम कहते हैं। प्रश्न—इस प्रकार एक व्रतका नियमवाचा जीव मिथ्यादृष्टि क्यों नहीं हो जायेगा। उत्तर—नहीं, क्योंकि, जिसमें सम्पूर्ण चारित्रके, भेदोंका सग्रह होता है, ऐसे सामान्यग्राही द्रव्याधिक नयको समीचीन दृष्टि माननेमें कोई विरोध नहीं आता है।

५ सामायिक चारित्र व गुप्तिमें अन्तर

रा वा./१/१८/३/६१७/१ स्यादेतत्—निवृत्तिपरत्वात्—सामायिकस्य गुप्तिप्रसंग इति। तत्र, किं कारणम्। मानसप्रवृत्तिभावात्। अत्र मानसीप्रवृत्तिरस्ति निवृत्तिलक्षणत्वाद् गुप्तेरित्यस्ति भेद। = प्रश्न—निवृत्तिपरक होनेके कारण सामायिक चारित्रके गुप्ति होनेका प्रसंग आता है। उत्तर—नहीं क्योंकि सामायिक चारित्रमें मानसी प्रवृत्तिका मद्भ्रम होता है, जब कि गुप्ति पूर्ण निवृत्तिरूप होती है। यह दोनोंमें भेद है।

६ सामायिक चारित्र व समितिमें अन्तर

रा वा./१/१८/४/६१७/४ स्यान्मतम्—यदि प्रवृत्तिरूप सामायिक समितिलक्षण प्राप्तमिति, तत्र किं कारणम्। तत्र यतस्य प्रवृत्त्युपदेशात्। सामायिके हि चारित्रे यतस्य समितिषु प्रवृत्तिरुपदिश्यते। अतः कार्यकारणभेदादस्ति विशेष। = प्रश्न—यदि सामायिक प्रवृत्तिरूप है (दे, शीर्षक स, ५) तो इसको समितिका लक्षण प्राप्त होता है। उत्तर—नहीं, क्योंकि, सामायिक चारित्रमें समर्थ व्यक्तिको ही समितियोंमें प्रवृत्तिका उपदेश है। अतः सामायिक चारित्र कारण है और समिति इसका कार्य।

सामायिक पाठ—१. आचार्य अमितगति (ई ६६३-१०२१) द्वारा रचित समताभावोत्पादक सस्कृतके ३२ श्लोकबद्ध ललित पाठ। अपर नाम द्वात्रिंशत्तिका। २. प जयचन्द छावड़ा (ई १८०६-१८२६) रचित भाषाछन्दबद्ध कृति।

सामोप्य—रा वा./४/१८/१/२२३/१२ तुल्यजातीयेनाव्यवधान सामोप्यम्। = तुल्य जातीयोंके बीचमें दूसरे पदार्थोंका न आना सामोप्य है।

साम्य—दे सामायिक/१/१।

सायणाचार्य—ई १२६० के न्यायमूत्रके भाष्यकार अपर नाम माधवाचार्य (सि, वि/प्र, ८० प महेन्द्र)।

सार—

नि, सा/पु/३ विवरीयपरिहरस्थ भण्ड खलु सारमिदि वयण। = (नियम शब्दका अर्थ नियमसे करने योग्य रत्नत्रय है) तहाँ विपरीतका परिहार करनेके लिए 'मार' ऐसा वचन कहा है।

स. सा/ता वृ/१/५/१५ सार शुद्धावस्था। = सार अर्थात् शुद्ध अवस्था।

सार निवह—विजयार्थकी उत्तर श्रेणीका एक नगर—दे विधाधर।

सारसंग्रह—आ पूज्यपाद (ई श ५) की एक सस्कृत छन्दबद्ध रचना।

सारसमुच्चय—आ, कुनभद्र (ई ६३७) द्वारा रचित ३२८ श्लोक बद्ध एक आध्यात्मिक ग्रन्थ।

सारस्वत—१ लौकान्तिक देवोंका एन भेद —दे लौकान्तिक, २ भरतक्षेत्र पश्चिम आर्यखण्डका एक देश—दे, मनुष्य/४।

सारस्वत यन्त्र—दे यन्त्र।

सारीपुत्र—'महावग्ग' नामक बौद्ध ग्रन्थके अनुसार, ये महात्मा बुद्धके प्रधान शिष्य थे। पहले परिव्राजक या जैन साधु थे, क्योंकि इनके सम्बन्धमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि 'सजय' नामक एक परिव्राजकने उन्हें बुद्धका शिष्य बननेसे मना किया था। (द सा./पृ. २७/प नाथुराम प्रेमी)।

सार्धद्वयप्रज्ञप्ति—आचार्य अमितगति कृत (६६३-१०२१) सस्कृत श्लोकबद्ध, अठारह द्वाप प्ररूपक एक रचना।

सालवमल्लि राय—मल्लिभूपलका अपर नाम। (मो, मा, प्र/२३। प परमानन्द शास्त्री)।

सावद्य—हिंसा जनक मन वचन कायके व्यापारको सावद्य कहते हैं। पूजा, ब्रह्मचर्य आदि भी यद्यपि कथंचित् सावद्य हैं, परन्तु धर्मके सहकारी व अधिक पुण्योत्पादक होनेमें ग्राह्य हैं। पर खर कर्म आदि अन्य लौकिक सावद्य व्यापार त्याज्य है।

१. सावद्ययोग सामान्यका लक्षण

प ध/उ/७५०-७५१ सर्वजन्देन तत्रान्तर्बहिर्वृत्तिर्यदर्थत। प्राणच्छेदो हि सावद्य सैव हिंसा प्रकीर्तिता ७५०। योगस्तत्रापयोगो वा बुद्धिपूर्व स उच्यते। सूक्ष्मश्चाबुद्धिपूर्वो य स स्मृतो योग इत्यपि ७५१। = 'सर्वसावद्ययोग' इस पदमें जर्थाकी अपेक्षा 'सर्व' शब्दसे अन्तरग और बहिरग प्रवृत्ति जर्थात् मन वचन काय तीनोंकी प्रवृत्ति है। तथा निश्चयसे 'सावद्य' शब्दका अर्थ प्राणच्छेद है। और वही हिंसा कही जाती है ७५०। उस हिंसामें जो बुद्धिपूर्वक या प्रबुद्धिपूर्वक स्थूल या सूक्ष्म उपयोग हाता है वह भी योग शब्दका अर्थ है ७५१।

* सावद्य वचनका लक्षण—दे, वचन/१/३।

२. सावद्य कर्मके भेद

१. असि, मसि आदि रूप आजीविकाकी अपेक्षा

रा, वा./३/३६/२/२००/३२ कर्मार्थिस्त्रेधा—सावद्यकर्मार्थि अल्पसावद्य-कर्मार्थि असावद्यकर्मार्थिश्चेति। सावद्यकर्मार्थि पोढा—असि-मसि-कृषि-विद्या-शिल्प-वणिक्कर्मभेदात्। = कर्मार्थि तीन प्रकारके हैं—सावद्यकर्मार्थि, अल्पसावद्यकर्मार्थि और असावद्यकर्मार्थि। तहाँ भी सावद्यकर्मार्थि असि, मसि, कृषि, विद्या, शिल्प और वणिक्कर्मके भेदमें छह प्रकारके हैं।

म, पु/१६/१७६ असिर्मपि कृषिर्विद्या वाणिज्य शिल्पमेव च। कर्मार्थि-मानि पोढा स्यु प्रजाजीवनरैतव १७६। = असि, मसि, कृषि, विद्या, वाणिज्य, और शिल्प ये छह कार्य प्रजाकी आजीविकाके कारण हैं १७६।

२. खरकर्म (कृग् व्यापार) और उनके १५ अतिचार

सा ध/४/२१-२३ व्रतयेत्खरकर्मि मनात् पञ्चदश त्यजेत्। वृत्ति वनाभ्यनस्स्फोटभाटकेयन्त्रपीडनम् १२१। निनाच्छिनामतीपोषो स—शोष द्रवप्रदाम्। विपनासादन्तुवेदात्मवाणिज्यमङ्गिर्क १२०। इति केचिन्न तच्चारु लोके मान्यकर्मणाम्। जगथ्यखरारण्ये वा तदप्यति-जडात् प्रति १२३। = प्राबकोंको प्राणियोंकी दुःख देनेवाले खर कर्म अर्थात् कृग् व्यापार सब छोड़ देने चाहिए, तथा उनके पन्ध्र अतिचार भी छोड़ने चाहिए। वे १५ कर्म ये हैं—१ वनजीविका २ अग्नि-

जोविका, ३ अनोजोविका (शकटजोविका), ४, स्फोटजोविका, ५ भाटजोविका, ६, यन्त्रपीडन, ७ निर्लाञ्छन, ८ असतीपोष, ९ सर शोष, १० दवप्रद, ११ विषवाण्ड्य, १२, लाक्षावाण्ड्य, १३, दन्तवाण्ड्य, १४ केशवाण्ड्य और १५, रसवाण्ड्य १२१-२३१

३. अस्ति, मसि आदि कर्मोंके लक्षण

रा वा ३/३६/२/२०/१/१ अस्तिधनुरादिप्रहरणप्रयोगकुशला अस्तिर्कार्या । द्रव्यायव्ययादिलेखननिपुणा मपीर्कार्या । हलकुलिदन्तालकादि-कृष्युपकरणविधानविद कृषीनला कृषिकर्माया । आलेख्यगणितादि-द्विसप्ततिस्त्रावदाता विद्याकर्म्या चतुपट्टिगुणसपत्नाश्च । रजत-नापितायस्कारकुशलमुवर्णकारादय शिष्यकर्म्या । चन्दनादि-गन्धघृतादिरसशाखादिधान्याकर्पासाद्यादानमुवतादिनादान्वय - सप्रहकारिणो बहुविधा वणिककर्म्या । -तन्ववार, धनुषादि शस्त्र-विद्यामें निपुण अस्तिर्कार्या हैं । द्रव्य अर्थात् रुपये-पैसे की आमदनी खर्च आदिके लेखनमें निपुण अर्थात् सुनीमीका कार्य करनेवाले मपिकर्माय है । हल, कुलि, दान्तो आदिसे कृषि करनेवाले कृषि-कर्माय है । चित्र खेंचना या गणित आदि ७२ कलाओंमें निपुण विद्याकर्म्या है । अथवा ६४ गुण या ऋद्धियोंसे सम्पन्न विद्याकर्म आर्य है । धोबी, नाई, लुहार, कुम्हार, सुनार आदि शिल्प कर्माय है । चन्दनादि सुगन्ध पदार्थोंका, घी आदिका अथवा रस व धान्यादिका तथा कपास, वस्त्र, मोती आदि नाना प्रकारके द्रव्योंका संग्रह करनेवाले अनेक प्रकारके वणिक कर्माय हैं (म. पु १/६/ १८१-१८२)

४. सावद्य अल्पसावद्य व असावद्य कर्मार्थके लक्षण

रा, वा ३/३६/२/२०/१/६ पड्येते अविरतिप्रयणत्वात् मावद्यकर्म्या, अल्पसावद्यकर्म्या श्रावका श्राविकाश्च विरत्यविरतिपरिणत्वात्, असावद्यकर्म्या सयता, कर्मक्षयार्थाद्यतविरतिपरिणत्वात् । -ये उपरोक्त अस्ति, मपि आदि छह सावद्यकर्म करनेवाले सावद्य कर्माय है, यद्योकि वे अविरति प्रधानी हैं । विरति, अविरति दोनों रूपसे परिणत होनेके कारण श्रावक और श्राविकाएँ अल्प सावद्य कर्माय हैं । कर्म क्षयको उद्यत तथा विरति रूप परिणत होनेके कारण मुनि-व्रत धारी सयत असावद्य कर्माय है ।

५ पन्द्रह खरकर्मोंके लक्षण

सा ध १/२१-२३ की टीका-खरकर्म खर क्रूरं प्राणियावृत्त कर्म व्यापार । तत्र वनजोविका छिन्नस्याच्छिन्नस्य वा वनस्पतिसमूहादेविक्रमेण तथा गोधूमादि धान्यानां पेयणेन दग्नेन वा वर्तनम् । अग्निजोविका अङ्गारजोविकाख्या । अनोजोविका शकटजोविका शकटस्थ-तच्चक्रादीना स्वय परेण वा निष्पादनम् वाहनेन विक्रयेण वृत्तिर्महु-भूतग्रामोपमर्ठिका गवादीना च बन्धादिहेतु । स्फोटजोविका उडादिकर्मणा पृथिवीकायिकाद्युपमर्दहेतुना जीवन्म् । भाटक-जोविका शकटादिभारवाहनमूष्येन जीवन्म् । यन्त्रपीडाकर्म तिलयन्त्रादिपीडन तिलादिक च दत्त्वा तैलादिप्रतिग्रहणम् । निर्लाञ्छन निर्लाञ्छनकर्म घृणभादेनासावेवादिना जीविका । निर्लाञ्छन नितरां लाञ्छनमङ्गावयवच्छेद । असतीपोष प्राणिधन-प्राणियोभोभाटिग्रहणार्थं दासपोष च । सर शोषो धान्यवपनाद्यर्थं वितरणं तच्च फलनिरपेक्षतापर्यायान्त्रेर्वह्निज्वालन व्यसनज-मुच्यते । पुण्यबुद्धिज तु यथा तृणदारै सति नवतृणाङ्कुरोद्भवाद्-गायशरन्तीति वा क्षेत्र वा सस्यसपत्तियुद्धेऽग्निज्वालनम् । विष-वाण्ड्य जीवधनवस्तुविक्रय । लाक्षावाण्ड्य लाक्षाविक्रयणम् । लाक्षया सूक्ष्मसजन्तुघातान्तकार्यायिकप्रवालजालोपमर्दादिना-भाविना रजयोनिवृत्तादुद्धरणेन दङ्गमन शिलासकूमालिप्रभृतीनां

वाद्यजोवघातरेतुवेन गुग्गुलिहागा वाश्रीपुष्पवचरच मरुतेतुवेन तद्विक्रयस्य पापाश्रयत्वात् । दन्तवाण्ड्यं हस्त्यादित्ताद्यवत्रवानां पुलिन्दादिषु द्रव्यदानेन तदुत्पत्तिस्थाने वाण्ड्यार्थं ग्रहणम् । जनाकारे तु दन्तादिद्रव्यविक्रये न दाप । केशवाण्ड्यं द्विपदादि-विक्रय । रसवाण्ड्यं नवनीतादिविक्रय । मधुनसामघावी तु जन्तुघातोद्भवात् । -प्राणियोंको पीडा उत्पन्न करनेवाले व्यापार-को खरकर्म अर्थात् क्रूरकर्म कहते हैं । वे पन्द्रह प्रकारके हैं—१ स्वयं टूटे हुए अथवा तोड़कर घृण आदि वनस्पतिना येचना अथवा गेहूँ आदि धान्याका पीस टूटकर व्यापार करना वनजोविका है । २ कोयला तैयार करना अग्निजोविका है । ३ स्वयं गाड़ी, रथ तथा उसके चक्र नगैरह चनाना अथवा दूमगैसे बनवाना, गाड़ी जोतनेका व्यापार स्वय करना अथवा दूमगैसे कम्बाना, गाड़ी आदिके येचनेका व्यापार करना अनोजोविका है । ४ पटाले व आतिशबाजी आदि धारुदकी चीजोंमें आजीविका करना स्फोट जोविका है । ५ गाड़ी, घोड़ा आदिसे थोका ढोकर जो भाड़की आजीविका की जाती है, वह भाटक जोविका कहलाती है । ६ तेल निकानेके लिए कोरू चलाना या सरसों तिल आदिको कोरूमें पिनवाना, तिल वगैरह देकर उनके बदले तेल लेना प्रादि यन्त्र-पीडन जोविका है । ७, बैन आदि पशुओंके नाक आदि छेदनेका धन्या करना अथवा शरीरके अवयव छेदनेको निर्लाञ्छन कर्म कहते हैं । ८ हिंसक प्राणियोंका पालन-पोषण करना और किसी प्रकारके भाडेकी उत्पत्तिके लिए दास और दासियोंका पोषण करना असतीपोष कहलाता है । ९ अनाज धोनेके लिए जनाशयोंमें नानी खोदकर पानी निकानना सर शोष कहलाता है । १० वनमें घाम वगैरहको जनानेके लिए आग लगाना दवप्रद कहलाता है । यह दो प्रकारका है—एक वामनज और दूसरा पुण्य बुद्धिज । बिना प्रयोजन-के भीनों हाग वनमें आग लगवाना व्यसनज दवप्रद है, और पुण्य-बुद्धिसे दीपोंमें अग्नि प्रचलित करायी जाना पुण्य बुद्धिज दवप्रदा है । तथा अच्छी उपज होनेकी बुद्धिसे घास आदि जलवाना दवप्रदा है । ११ विषका प्राणघातक व्यापार करना विषवाण्ड्य है । १२, लाडकोंके कीडे जिन छाटे-छाटे पत्तोंपर बैठते हैं तथा उनमें जो सूक्ष्म ब्रस होते हैं उनके घातके बिना लाल पैदा ही नहीं होती । अत लाखका और इसी प्रकार टाकनखार, मनसिल, युगन, धायके फूल व छाल जिम्से मद्य बनता है प्रादि पदार्थोंका व्यापार लाक्षा वाण्ड्यमें गभित है । १३, भीलों आदिमें हाथी दाँत आदि खरीद करना दन्तवाण्ड्य है । जहाँ दाँत आदिका उत्पत्ति स्थान नहीं है वहाँ इम व्यापारका निषेध नहीं है । १४ दानी दास और पशुओंके व्यापारको केश वाण्ड्य कहते हैं । १५, मखन, मधु, चरबी, मद्य, आदिका व्यापार रस वाण्ड्य है ।

६. कृषिकों लोकमें सर्वोत्तम उद्यम माना जाता है

कुरन काव्य/१०४/१ नरो गच्छतु कुत्रापि सर्वशान्मपेक्षते । तस्मिन्निरच कृपेस्तस्मात् सुनिशेऽपि हिताय सा । १ । -आदमी जहाँ चाहे घूमें, पर अन्तमें अपने भोजनके लिए उसे हलका सहारा लेना ही पडेगा । इसलिये हर तरफ़ी मस्ती होनेपर भी कृषि सर्वोत्तम उद्यम है । १ ।

७. दान, पूजा, शील, उपवास भी कथंचित् सावद्य है

क पा १/१,१/४८२/१००/२ दाण पूजा सीलमुववासी चेत् चउत्विहो सावयधम्मा । एसो चउत्विहो वि छज्जीवविराहओ, पयण-पायगरिगमूधुक्कण जालण-सूदि-सूदाणादिवावारेहि जीवविराहणाए विणा दाणाणुवत्तीदो । तरुवरद्धिदण-छिदावणिट्टपादान-पादावण-तद्वहण-दहानणादिवावारेग छज्जीवविराहणेहउणा विणा जिणभवण-करणकरावणणहाणुववत्तीदो । णव्वणीवलेण समज्जण-छहावण पु-

(कु) झारवण धूम्रदहणादिवावारेहि जीववहाविणाभावीहिचिणा पूजकरणाणुववत्तीदो। कथ सीलरवखणं सावज्ज। ण, सदारपीडाए विणा सीलपरिवात्तणाणुववत्तीदो। कधमुववासो सावज्जो। ण, सपोट्टस्थपाणिपीडाए विणा उववासाणुववत्तीदो। =दान, पूजा, शील और उपवास ये चार धावकोंके धर्म है। ये चारों ही प्रकारका धावक धर्म छह कायके जीवोंकी विराधनाका कारण है। क्योंकि भोजनका पकाना, दूसरेसे पकवाना, अग्निका मुलगाना, अग्निका जलाना, अग्निका खूतना और खुतवाना आदि व्यापारोंसे होनेवाली जीवविराधनाके बिना टान नहीं बन सकता है। उसी प्रकार वृक्षका काटना और कटवाना, ईटका गिराना और गिरवाना, तथा उनको पकाना और पकवाना आदि छह कायके जीवोंकी विराधनाके कारणभूत व्यापारके बिना जिनभवनका निर्माण करना अथवा करवाना नहीं बन सकता है। तथा अभिषेक करना, अवलेप करना, सुम्मार्जन करना, चन्दन लगाना, फूल चढाना और धूपका जलाना आदि जीववधके अविनाभावी व्यापारोंके बिना पूजा करना नहीं बन सकता है। अपनी स्त्रीको पीडा दिये बिना शीलका परिपालन नहीं हो सकता है, इसलिए शीलकी रक्षा भी सावध है। अपने पेटमें स्थित प्राणियोंको पीडा दिये बिना उपवास बन नहीं सकता है, इसलिए उपवास भी सावध है।

* सावध होते हुए भी पूजा करना इष्ट है—दे धर्म/१/२।

८. साधुओंको सावध योगका निषेध व सावध

मू आ./७६८-८०१ वसुधम्मिवि विहरंता पीड ण करंति वत्सइ कयाई। जीवेसु दयाववण्णा माया जह पुत्तभडेसु। ७६८। तणरुक्ख-हरिच्छेदणतयपत्तपवालकदमूलाइ। फलपुप्फत्रीयधाद ण करिदि मुणी ण कारिदि। ८०१। =सब जीवोंमें दयाको प्राप्त सब साधु पृथिवीपर विहार करते हुए भी किसी जीवको कभी भी पीडा नहीं करते हैं। जैसे माता पुत्रके ऊपर हित ही करती है उसी तरह सबका हित ही चाहते हैं। ७६८। मुनिराज तृण वृक्ष हरित इनका छेदन, वरकल पत्ता कोंपल कन्द मूल इनका छेदन तथा फल, पुष्प, बीज इनका घात न तो आप करते हैं और न दूसरेसे कराते हैं। ८०१।

प्र. सा/मू/२५० जदि कुणदि कायखेदं वेज्जावच्चरथमुज्जइ समणो। ण हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाण से। २५०।

प्र सा/ता वृ/२५०/३४४/१३ इदमत्र तात्पर्यम्—योऽनी स्वपोषणार्थं शिष्यादिमोहेन वा सावध नेच्छति तस्यैदं व्याख्यानं शोभते यदि पुनरन्यत्र सावधमिच्छति वैयावृत्त्यादिस्वकीयावस्थायोग्ये धर्मकार्ये नेच्छति तदा तस्य सम्यक्त्वमेव नास्ति। =यदि (श्रमण) वैयावृत्तिके लिए उद्यमी वर्तता हुआ छह कायको पीडित करता है तो वह श्रमण नहीं है, गृहस्थ है, क्योंकि, वह धावकोंका धर्म है। २५०। इसका यह तात्पर्य है कि—जो अपने पोषणके लिए या शिष्यादिके मोहसे सावधकी इच्छा नहीं करता उसको तो यह उपरोक्त व्याख्यान शोभा देता है, परन्तु यदि अन्य कार्योंमें तो सावधकी इच्छा करे और अपनी-अपनी भूमिका-नुसार वैयावृत्ति आदि धर्मकार्योंकी इच्छा न करे तो उसके सम्यक्त्व ही नहीं है।

* श्रावकको सावध योगका निषेध—दे सावध/२/२।

सासादन—प्रथमोपशम सम्यक्त्वके कालमें छह आवली शेष रहनेपर जीव सम्यक्त्वसे गिर उतने मात्र कालके लिए जिस गुण स्थानको प्राप्त होता है उसे सासादन कहते हैं अगले ही क्षण वह अवश्य मिथ्यात्वको प्राप्त हो जाता है। मिथ्यात्वका उद्गम न होनेसे उसे सम्यग्दृष्टि कह देते हैं। मिथ्यात्वका उद्गम उपशम व क्षय दोनों ही नहीं हैं, इसलिए इसे पारिणामिक भाव कहा जाता है।

- १ सासादन सामान्य निर्देश
- ११ सासादन सम्यग्दृष्टिका लक्षण।
- २ मिथ्यादृष्टि आदिसे पृथक् सासादनदृष्टि क्या।
- ३ सासादनको सम्यग्दृष्टि व्यपदेश क्यों।
- ४ सासादन तीनों ज्ञान अग्रान क्यों।
- ५ सासादन अनन्तानुबन्धीके उदयसे होता है।
- ६ सासादन पारिणामिक भाव कैसे।
- ७ अनन्तानुबन्धीके उदयसे औदयिक क्यों नहीं।
- ८ इसे कथंचित् औदयिक भी कहा जा सकता है।
- ९ सासादन गुणस्थानका स्वामित्व।
- * एके, विक व असक्षिप्योमें सासादन गुणस्थानकी उत्पत्ति अनुत्पत्ति सम्बन्धी चर्चा। —दे जन्म/४।
- १० सासादन गुणस्थानमें मारणान्तिक समुद्वात सम्बन्धी कुछ नियम।
- * सासादनके स्वामियोंमें जीवसमाप्त मार्गणास्थान आदि बीस प्ररूपणार्थे। —दे, सत्त्व।
- * सासादन जीवो सम्बन्धी सत्त्व सख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अन्तर भाव अल्पबहुत्व रूप आठ प्ररूपणार्थे। —दे, वह वह नाम।
- * मार्गणाओंमें सासादनके अस्तित्व सम्बन्धी शका-समाधान। —दे वह वह नाम।
- * सभी गुणस्थानोंमें आयके अनुमार व्यय होनेका नियम। —दे, मार्गणा।
- * इस गुणस्थानमें कर्म प्रकृतियोंका बन्ध उदय सत्त्व। —दे, वह वह नाम।
- २ सासादनके आरोहण व अवरोहण सम्बन्धी
- १ उपशम सम्यक्त्वपूर्वक ही होता है।
- २ प्रथमोपशमके कालमें कुछ अवशेष रहनेपर होता है।
- ३ उपशममें शेष वचा काल ही सासादनका काल है।
- ४ उक्त कालसे हीन या अधिक शेष रहने पर सासादनको प्राप्त नहीं होता।
- * सासादन गुणस्थानमें मरण सम्बन्धी। —दे मरण/३।
- ५ द्वितीयोपशमसे सासादनकी प्राप्ति अप्राप्ति सम्बन्धी दो मत।
- * द्वितीयोपशम पूर्वक होनेमें काल आदिके सर्व नियम पूर्ववत् हैं। —दे सासादन/२/५।
- * द्वितीयोपशमसे दो बार सासादनकी प्राप्ति सम्भन नहीं। —दे अन्तर/२/४।
- ६ सासादनसे अवश्य मिथ्यात्वकी प्राप्ति।

१. सासादन सामान्य निर्देश

१. सासादन सम्यग्दृष्टिका लक्षण

पं सं/प्रा/१/६,१६८ सम्मत्तरयणपठयसिहरादो मिच्छभावसमभि-
सुहो। णासियसम्मत्तो सो सासणणामो मुणियञ्जो। १। ण य मिच्छत्त
पत्तो सम्मत्तादो य जो हु परिवड्डिओ। सो सासणो त्ति गेओ
सादियपरिणामिओ भावो। १६८। = १. सम्यक्स्वरूप रत्नपर्वतके
शिखरसे च्युत, मिथ्यास्वरूप भूमिके सम्मुख और सम्यक्स्वरूपके
नाशको प्राप्त जो जीव है, उसे सासादन नामवाला जानना
चाहिए। १। (ध १/१,१,१०/मा १००/१६६), (गो जी/मू./-
२०/४६)। २ उपशम सम्यक्स्वसे परिपतित होकर जीव जम
तक मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं हुआ है तब तब उसे सासादन सम्य-
ग्दृष्टि जानना चाहिए। १६८। (ध १/१,१,१०/१६३/५), (गो जी/-
मू/६५४/११०२), (प्र स/टी/१३/३३/१)।

रा वा/६/१/१३/५८६/१८ अत एवास्यान्वर्थसङ्गा-आसादन विराधनम्,
सहासादनेन वर्तत इति सासादना, सासादना सम्यग्दृष्टि-
र्यस्य सोऽर्थ सासादनसम्यग्दृष्टिरिति। = अतएव 'सासादन'
यह अन्वर्थ सङ्गा है। आसादनका अर्थ विराधना है। आसादनके
साथ रहे वह सासादन। आसादन सहित समीचीन दृष्टि जिसके
वह सासादनसम्यग्दृष्टि है। (ध. १/१,१,१०/१६३/५-१६६/१),
(गो जी/जी प्र./१०/३१/४)।

२. मिथ्यादृष्टि आदिसे पृथक् सासादन दृष्टि क्या

ध. १/१,१,१०/१६३/७ अथ स्यान्न मिथ्यादृष्टिरय मिथ्यात्वकर्मण
उदयाभावात्, न सम्यग्दृष्टि सम्यक्स्वरूपभावात्, न सम्यग्मिथ्या-
दृष्टिरुभयविषयस्वरूपभावात्। न च चतुर्थी दृष्टिरस्ति सम्यगसम्य-
गुभयदृष्ट्यालम्बनवस्तुव्यतिरिक्तारत्नपुलकभावात्। अतोऽसद् एव
गुण इति न, विपरीताभिनिवेशतोऽसद्वदृष्टित्वात्। तर्हि मिथ्यादृष्टि-
र्भवत्स्य नास्य सासादनव्यपदेश इति चेन्न, सम्यग्दर्शनचारित्र-
प्रतिबन्धनन्तानुबन्धुदयोत्पादितविपरीताभिनिवेशस्य तत्र सत्त्वा-
द्भवति मिथ्यादृष्टिरपि तु मिथ्यात्वकर्मोदयजनितविपरीताभि-
निवेशाभावात् न तस्य मिथ्यादृष्टिव्यपदेश, किन्तु सासादन
इति व्यपदिश्यते। किमिति मिथ्यादृष्टिरिति न व्यपदिश्यते
चेन्न, अनन्तानुबन्धिना द्विस्वभावव्यतिरिक्तप्रादानफलत्वात्। न च
दर्शनमोहनीयस्योदयादुपशमार्थस्योपशमाद्वा सासादनपरिणाम
प्राणिनामुपजायते येन मिथ्यादृष्टि सम्यग्दृष्टि सम्यग्मिथ्यादृष्टि-
रिति चोच्यते। यस्माच्च विपरीताभिनिवेशोऽभूदनन्तानुबन्धिनी,
न तद्दर्शनीय तस्य चारित्रावरणत्वात्। = प्रश्न—सासादन गुणस्थान
वाला जीव मिथ्यात्वका उदय न होनेसे मिथ्यादृष्टि नहीं है,
समीचीन रुचिका अभाव होनेसे सम्यग्दृष्टि भी नहीं है। दोनोंको
विषय करनेवाली सम्यग्मिथ्यात्वरूप रुचिका अभाव होनेसे सम्य-
ग्मिथ्यादृष्टि भी नहीं है। इनके अतिरिक्त और कोई चौथी दृष्टि
है नहीं, क्योंकि, समीचीन असमीचीन और उभयरूप दृष्टिके,
आलम्बनभूत वस्तुके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु पायी नहीं जाती
है। इसलिए सासादन गुणस्थान असत्स्वरूप है। उत्तर—ऐसा नहीं
है, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें विपरीत अभिप्राय रहता है,
इसलिए उसे असद्वदृष्टि ही समझना चाहिए। प्रश्न—यदि ऐसा है
तो इसे मिथ्यादृष्टि ही कहना चाहिए, सासादन सङ्गा देना उचित
नहीं है। उत्तर—नहीं, क्योंकि, सम्यग्दर्शन और स्वरूपाचरण
चारित्रका प्रतिबन्ध करनेवाली अनन्तानुबन्धी कर्मायके उदयसे
उत्पन्न हुआ विपरीताभिनिवेश दूसरे गुणस्थानमें पाया जाता है,
इसलिए द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीव मिथ्यादृष्टि है किन्तु मिथ्या-
त्वकर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ विपरीताभिनिवेश वहाँ नहीं पाया

जाता है, इसलिए उसे मिथ्यादृष्टि नहीं कहते हैं। केवल सासादन
सम्यग्दृष्टि कहते हैं। प्रश्न—ऊपरके कथनानुसार जब वह मिथ्यादृष्टि
ही है तो फिर उसे मिथ्यादृष्टि नज़ा क्यों नहीं दी गयी है। उत्तर—
ऐसा नहीं है, क्योंकि, सासादन गुणस्थानकी स्वतन्त्र कहनेसे
अनन्तानुबन्धी प्रतियोगी द्विस्वभावताका कथन सिद्ध हो जाता
है। वे अनन्तानुबन्धी—दर्शनमोहनीयके उदय, उपशम, स्थ और
क्षयोपशमसे जीवोंके सासादनरूप परिणाम तो उत्पन्न होता नहीं
है—(दे, सासादन/१/६) जिसमें कि हम गुणस्थानकी मिथ्यादृष्टि,
सम्यग्दृष्टि अथवा सम्यग्मिथ्यादृष्टि कहा जाता। तथा जिस अनन्ता-
नुबन्धीके उदयसे दूसरे गुणस्थानमें जो विपरीताभिनिवेश होता है,
वह अनन्तानुबन्धी दर्शनमोहनीयका भेद न होकर चारित्रका
आवरण करनेवाला होनेसे चारित्रमोहनीयका भेद है। इसलिए
दूसरे गुणस्थानकी मिथ्यादृष्टि न कहकर सासादनसम्यग्दृष्टि कहा
है। (और भी वे सासादन/१/७,८)

३. सासादनको सम्यग्दृष्टि व्यपदेश क्यों

ध १/१,१,१०/१६६/१ विपरीताभिनिवेशदूषितस्य तस्य कथं सम्यग्दृष्टि-
त्वमिति चेन्न, भूतपूर्वगत्या तस्य तद्व्यपदेशोपपत्तेरिति। = प्रश्न—
सासादन गुणस्थान विपरीत अभिप्रायसे दूषित है (दे शीर्षक सं
२), इसलिए इसके सम्यग्दृष्टिपना कैसे बनता है। उत्तर—नहीं,
क्योंकि, पहले वह सम्यग्दृष्टि था [अर्थात् प्रथमोपशमसे गिरकर ही
सासादन होनेका नियम है—(दे सासादन/२)] इसलिए भूतपूर्व
न्यायकी अपेक्षा उसके सम्यग्दृष्टि सङ्गा नम जाती है। (गो. जी/
जी प्र/१०/३१/५)

४. सासादनमें तीनों ज्ञान अज्ञान क्यों

रा. वा/६/१/१३/५८६/१६ तस्य मिथ्यादर्शनोदयाभावेऽपि अनन्तानु-
बन्धुदयात् त्रीणि ज्ञानानि अज्ञानानि एव भवन्ति। = मिथ्यात्वका
उदय न होनेपर भी इसके तीनों मति, श्रुत और अवधिज्ञान अज्ञान
कहे जाते हैं। (दे सव)

ध १/१,१,१०/१६६/३ मिथ्यादृष्टे द्वेऽप्यज्ञाने भवता नाम तत्र मिथ्या-
रुदयस्य सत्त्वात्। मिथ्यात्वोदयस्यासत्त्वात् सासादने तयो
सत्त्वमिति न, मिथ्यात्व नाम विपरीताभिनिवेश स च मिथ्या-
त्वादनन्तानुबन्धिन्शरोरपद्यते। समस्त च सासादनस्थानन्तानु-
बन्धुदय इति। = प्रश्न—मिथ्यादृष्टि जीवोंके भले ही दोनों
(मति व श्रुत) अज्ञान हों, क्योंकि वहाँ पर मिथ्यात्वका उदय
पाया जाता है, परन्तु सासादनमें मिथ्यात्वका उदय नहीं पाया जाता
है, इसलिए वहाँ पर वे दोनों ज्ञान अज्ञानरूप नहीं होना चाहिए।
उत्तर—नहीं, क्योंकि, विपरीताभिनिवेशको मिथ्यात्व कहते हैं।
और मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी इन दोनोंके निमित्तसे उत्पन्न
होता है। सासादन गुणस्थानवालेके अनन्तानुबन्धीका उदय तो पाया
ही जाता है (दे शीर्षक न, २), इसलिए वहाँ पर भी दोनों अज्ञान
सम्भव है।

५. सासादन अनन्तानुबन्धीके उदयसे होता है

रा वा/६/१/१३/५८६/२० तस्य मिथ्यादर्शनस्योदये निवृत्त अनन्तानु-
बन्धिकर्मायोदयकलुषीकृतान्तरात्मा जीव सासादनसम्यग्दृष्टिरित्या-
ख्यायते। = मिथ्यादर्शनके उदयका अभाव होने पर भी जिनका
आत्मा अनन्तानुबन्धीके उदयसे कलुषित हो रहा है वह सासादन-
सम्यग्दृष्टि है।

स. सा/जी प्र/६६/१३६/१६ तदुपशमनकाले अनन्तानुबन्धुदयाभावेन
सासादनगुणप्राप्तेरभावात्। = दर्शनमोहके उपशमनकालमें अनन्ता-
नुबन्धीके उदयका अभाव होनेसे सासादनकी प्राप्तिका अभाव है।

दे सासादन/१/२ [यहाँ यद्यपि मिथ्यात्वजन्य विपरोताभिनिवेश पाया नहीं जाता, परन्तु अनन्तानुबन्धीजन्य विपरोताभिनिवेश अवश्य पाया जाता है ।]

दे सामादन/१/४ [अनन्तानुबन्धीके उदयके कारण ही इसके ज्ञान अज्ञान कहे जाते हैं ।]

दे सामादन/२/२ [उपशम सम्यक्त्वके कालमें छह आवली शेष रह जाने पर अनन्तानुबन्धीका उदय आ जानेसे सासादन होता है ।]

६. सासादन पारिणामिक भाव कैसे

प खं. ५/१,७/सूत्र ३/१६६ सासनसम्मादिदृष्टि त्ति को भावो, पारिणामिआ भावा । २। = सासादन सम्यग्दृष्टि यह कौन सा भाव है ? पारिणामिक भाव है । (प ख ७/२,१/सूत्र ७७/१०६), (प स / प्रा /१/१६६), (घ १/१,१,१०/गा १००/१६६), (गा जो. सू /२०/४६) घ ५/१,७,३/१६६/७ एरथ चोदआ भणदि—भावो पारिणामिआ त्ति णेद घडदे, अण्णेहितो अणुप्पणस्स परिणामस्स अत्थित्तविरोहा । अह अण्णेहितो उप्पत्तां हां च्छज्जादि ण सा पारिणामिओ, णिक्कारणस्स सकारणत्तविरोहा इत्ति । परिहारी उच्चते । त जहा—जो कम्मण-सुदय-उवसम-खइय-खओवसमेहि विणा अण्णेहितो उप्पणो परिणामो सो पारिणामिओ भणदि, ण णिक्कारणा कारणमत्तरेणुप्पण-परिणामाभावा । सत्त-पमेयत्तादओ भावा णिक्कारणा उवल्लभतीदि चे ण, विसेसत्तादिसरूवेण अपरिणमतसत्तादिसामण्णाणुवल्लभा ।

तदो अप्पिदस्स दसणमोहणीयस्स कम्मस्स उदएण उवसमेण खएण खओवसमेण वा ण हादि णिक्कारणसासनसम्मत्त । अदो चेव पारिणामियत्त पि । अणेण णाएण सव्वभावाण पारिणामिपत्त पसज्जदीदि च होदु, ण काइ दोसा, विरोहाभावा । अण्णभावेसु पारिणामियव्वहारा किण्ण कीरदे । ण, सासनसम्मत्त मोत्तुण अप्पिद कम्मदो गुप्पणस्स अण्णस्स भावस्स अणुवल्लभा । = प्रश्न—१. 'यह पारिणामिक भाव है' यह बात घटित नहीं होती, क्योंकि दूसरों-से नहीं उत्पन्न होने वाले परिणामके अस्तित्वका अभाव है । यदि अन्यसे उत्पत्ति मानो जाये तो पारिणामिक नहीं रह सकता है, क्योंकि, निष्कारण वस्तुके सकारणत्वका विरोध है । (अर्थात् स्वतः सिद्ध व अहेतुक त्रिकाली स्वभावको पारिणामिक भाव कहते हैं, पर सासादन तो अनन्तानुबन्धीके उदयसे उत्पन्न होनेके कारण तद्हेतुक है । इसलिए वह पारिणामिक नहीं हो सकता ?) उत्तर—जो कर्मके उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशमके बिना अन्य कारणोंसे उत्पन्न हुआ परिणाम है वह पारिणामिक कहा जाता है, न कि निष्कारण भावको पारिणामिक कहते हैं, क्योंकि, कारणके बिना उत्पन्न होने वाले परिणामका अभाव है । प्रश्न—सत्त्व, प्रमेयत्व आदिक भाव कारणके बिना भा उत्पन्न होनेवाले पाये जाते हैं । उत्तर—नहीं, क्योंकि, विशेष सत्त्व आदिके स्वरूपसे नहीं परिणत होनेवाले सत्त्वादि सामान्य नहीं पाये जाते हैं ।—२ विवक्षित दर्शन मोहनीयकर्मके उदयसे, उपशमसे, क्षयसे अथवा क्षयोपशमसे नहीं होता है अतः यह सासादन सम्यक्त्व निष्कारण है और इसी लिए इसके पारिणामिकता भी है । (घ १/१,१०/१६६/६), प्रश्न—३ इस न्यायके अनुसार तो सभी भावोंके पारिणामिकपनेका प्रसंग प्राप्त होता है [क्योंकि कोई भी भाव ऐसा नहीं जिसमें किसी एक या अधिक कर्मके उदय आदिकी अभाव न हो ।] उत्तर—इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं आता । (दे, पारिणामिक) । प्रश्न—यदि ऐसा है तो फिर अन्य भावोंमें पारिणामिकपनेका व्यवहार क्यों नहीं किया जाता ? उत्तर—नहीं, क्योंकि, सासादनसम्यक्त्वको छोड़कर विवक्षित कर्मसे नहीं होनेवाला अन्य कोई भाव नहीं पाया जाता है ।

घ ७/२,१,७/१०६/६ एसो सासनपरिणामो गइओ ण होदि, दसणमोह-पएण,णुप्पत्तीदो । ण त्वअभममिओ वि, देसघादिफइयाणमुदएण

अणुप्पत्तीए । उवसमिओ वि ण होदि, दसणमोहवसमेणाणुप्पत्तीदो । ओदइओ वि ण होदि, दसणमोहसुदएणाणुप्पत्तीदो । परिमेसादो परिणामिएण भावेण सामणो होदि । = यह सासादन परिणाम क्षायिक नहीं होता, क्योंकि, दर्शनमोहनीयके क्षयसे उसकी उत्पत्ति नहीं होती । यह मायोपशमिक भी नहीं है, क्योंकि, दर्शनमोहनीयके देशघाती स्पर्धकोंके उदयसे उसकी उत्पत्ति नहीं होती । औपशमिक भी नहीं, क्योंकि, दर्शनमोहनीयके उपशमसे उसकी उत्पत्ति नहीं होती यह औदयिक भी नहीं है क्योंकि दर्शनमोहनीयके उदयसे उसकी उत्पत्ति नहीं होती । अतएव परिणेष न्यायसे पारिणामिक भावसे ही सासादन परिणाम होता है ।

७. अनन्तानुबन्धीके उदयसे औदयिक क्यों नहीं

घ ७/२,७/१०६/६ अणताणुवधीणमुदएण सासनगुणस्सुवल्लभादो ओद-इओ भावो किण्ण उच्चदे । ण दसणमोहणीयस्स उदय-उवसम-खय-खओवसमेहि विणा उप्पज्जदि त्ति सासनगुणस्स कारण चरित्तमोह-णीय तस्स दसणमोहणीयत्तविरोहत्तादो । अणताणुवधीचदुवक्क तदुभयमोहण च । होदु णाम, किंतु णेदमेत्थ विवत्तिय । अणताणु-वधीचदुवक्क चरित्तमोहणीय चेवेत्ति विवक्खाए सासनगुणो पारिण-मिओ त्ति भणिदो । = प्रश्न—अनन्तानुबन्धी कर्माधिके उदयसे सासादन गुणस्थान पाया जाता है, अतः उसे औदयिक भाव क्यों नहीं कहते ? उत्तर—नहीं कहते, क्योंकि, दर्शनमोहनीयके उदय, उपशम, क्षय व क्षयोपशमके बिना उत्पन्न होनेसे सासादन, गुणस्थानका कारण चारित्र मोहनीय कर्म ही हो सकता है और चारित्र मोहनीयके दर्शन मोहनीय माननेमें विरोध आता है । प्रश्न—अनन्तानुबन्धी तो दर्शन और चारित्र दोनोंमें माह उत्पन्न करनेवाला है ? उत्तर—भले ही वह उभयमोहनीय हो, किन्तु यहाँ वैसी विवक्षा नहीं है । अनन्तानुबन्धी चारित्र मोहनीय ही है, इसी विवक्षासे सासादन गुणस्थानको पारिणामिक कहा है ।

घ ५/१,७,३/१६७/७ आदिमचदुगुणट्ठाणभावपक्षपणाए दसणमोहवदि-रित्तसेसकम्मसेसु विवक्खाभावा । = आदिके चार गुणस्थानोंसम्बन्धी भावोंको प्ररूपणामें दर्शनमोहनीय कर्मके सिन्धाय शेष कर्मोंके उदयकी विवक्षाका अभाव है । (गो जी / सू व जी. प्र / १०/३५) ।

८. इसे कथंचित्त औदयिक भी कहा जा सकता है

गो जी / जी / प्र / १२/३५/१४ अनन्तानुबन्धन्यतमोदयविवक्षया तु औदयिकभारोऽपि भवेत् । = अनन्तानुबन्धी चतुष्टयमेंसे अन्यतमका उदय होनेकी अपेक्षा सामादन गुणस्थान औदयिक भाव भी होता है ।

९. सासादन गुणस्थानका स्वामित्व

दे, नरक/४/२,३ [सातां ही पृथिवियोंमें सम्भव है परन्तु केवल पर्याप्त ही होते हैं अपर्याप्त नहीं ।]

दे तिर्यच/२/१,२ [पचेन्द्रिय तिर्यच व योनिमति दोनोंके पर्याप्त व अपर्याप्तमें होना सम्भव है ।]

दे मनुष्य/३/१,२ [मनुष्य व मनुष्यनियों दोनोंके पर्याप्त व अपर्याप्तमें होना सम्भव है ।]

दे देव/३/१,२ [नवनवासीमें उपरिम प्रवेयक पर्यन्तके सभी देवों व देवियोंमें पर्याप्त व अपर्याप्त दोनों अवस्थाओंमें सम्भव है ।]

दे इन्द्रिय/४/४ [एकैन्द्रिय व विकलेन्द्रियोंमें नहीं होता, सभी पचेन्द्रियोंमें ही सम्भव है । यहाँ इतनी विवेकता है कि—(दे. अणला मन्दर्)]

दे, जन्म/४ [नरकमें सर्वथा जन्म नहीं होता, कर्म व भोगभूमि दोनोंके गर्भज सत्त्वो पचेन्द्रिय तिर्यचोंमें ही जन्मता है इनसे विपरीतमें नहीं । इनकी विवेकता है कि—(दे. अणला मन्दर्)]

होता है और सञ्ज्ञियोंकी अपर्याप्त व पर्याप्त दोनों दशाओंमें द्वितीयोपशमकी अपेक्षा सञ्ज्ञी, सञ्ज्ञियोंमें पर्याप्त व अपर्याप्त दोनों तथा दोनोंमें केवल अपर्याप्त दशामें ही सम्भव है। एकेन्द्रिय व विकलेन्द्रियोंमें यदि होते हैं तो केवल निवृत्त्यपर्याप्त दशामें ही सम्भव है। वहाँ भी केवल वादर पृथिवी अप व प्रत्येक वनस्पति इन तीन कार्यामैं ही सम्भव है अन्य कार्यामैं नहीं। वास्तवमें एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न नहीं होते, बल्कि वहाँ मारणान्तिक समुद्रात करते हैं।]

दे. जन्म/४/१० [सासादन प्राणिके द्वितीय समयसे लेकर आगली/अस कालतक मरनेपर नियमसे देव गतिमें जन्मता है। इसके ऊपर आ / अस काल मनुष्योंमें जन्मने योग्य है। इसी प्रकार आगे क्रमसे सञ्ज्ञी, असञ्ज्ञी, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय व एकेन्द्रियोंमें जन्मने योग्य काल होता है।]

दे. सयत्/१/६ [सासादन निवृत्त्यपर्याप्त या पर्याप्त ही होता है लब्धि अपर्याप्त नहीं।]

१०. मारणान्तिक समुद्रात सम्बन्धी

घ ४/१,४,४/४/१६४/२ तैसि सासणगुणपाहम्मण लोणगालीए वाहिर-मुपज्जणसहाभावादे। नोणगालीए अब्भतरे मारणतिर्य करेता वि भवणवासियजगमूलादोवरि चैव देव-तिरिखलसासणसम्मादि-टिण्णे मारणतिर्य करेति, णो हेट्ठा, कुदो। सासणगुणपाहम्मादो चैव। = [सासादन सम्यग्दृष्टिदेव मारणान्तिक एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते हैं, परन्तु] उनके सासादन गुणस्थानकी प्रधानतासे लोक नालीके बाहर उत्पन्न होनेके स्वभावका अभाव है। और लोकनालीके भीतर मारणान्तिक समुद्रातको करते हुए भी भयनवासी लोकके मूलभागसे ऊपर ही देव या तिर्यच सासादन सम्यग्दृष्टि जीव मारणान्तिक समुद्रातको करते हैं। इससे नीचे नहीं, क्योंकि, उनमें सासादनगुणस्थानकी ही प्रधानता है।

घ, ४/१,४,४/१६४/७ ईसिपम्भारपुढवीदो उवरि सासणगणमाउकाइएसु मारण तियसभयादो, अट्ठमपुढनीए एगरन्तुपदरम्भतर सव्वमावूरिय टिण्णोए तैसि मारण तियकरण पडि विरोहाभावादे च। = ईपरम्भार पृथिवीसे ऊपर सासादन सम्यग्दृष्टियोंका अपकायिक जीवोंमें मारणातिक समुद्रात सम्भव है, तथा एक रज्जुपत्रके भीतर सर्व क्षेत्रकी व्याप्त करके स्थित आठनी पृथिवीमें उन जीवोंके मारणातिक समुद्रात करनेके प्रति कोई विरोध भी नहीं है।

दे मरण/४/४—[मेरुतलसे अधोभागवर्ती एकेन्द्रिय जीवोंमें व मारणा-न्तिक समुद्रात नहीं करते।]

दे जन्म/४/११—[सामादन सम्यग्दृष्टि जीव वायुकायिकोंमें मारणा-न्तिक समुद्रात नहीं करते।]

२ सासादनके आरोहण व अवरोहण सम्बन्धी

१. उपशमसम्यक्त्व पूर्वक ही होता है

घ ५/१,८,१२/२५०/७ सासणगुणमुवसमसम्मादिटिण्णे चैव पडिबज्जति। = सासादनगुणस्थानको उपशमसम्यग्दृष्टि ही प्राप्त होते हैं।

२. प्रथमोपशमके कालमें कुछ अवशेष रहनेपर होता है

रा वा १/१/१३/२६१/१६ जघन्येन एकसमये उत्कर्षेणावलिकापट्टकेऽव-शिष्टे यदा अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालाभमन्यतमस्यादयो भवति तदा सासादनसम्यग्दृष्टिरित्युच्यते। = प्रथमोपशम सम्यक्त्वके अन्तर्मुहूर्त कालमें जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छह आवली अवशेष रहनेपर, जब अन्तानुबन्धी क्रोध मान माया व लोभ इन चारोंमेंमें किसी एकका उदय होता है, तब वह जीव सासादन सम्यग्दृष्टि कहा जाता है। (गो जी / मू / १६/४४), (ल. सा / मू / १००/१३७), (गो जी / जी प्र / ५०४/११४१/१६), (गो क / जी प्र / ४४८/७१८/१७)

३. उपशममें शेष वचा काल ही सासादनका काल है

प. ख. ७/२,२/सू २००-२०२/१८२ सासणसम्माइट्ठी केवचिर कालादो होदि १२००। जहण्णेए एयसमओ १२०१। उवकस्सेण छावलियाओ १२०२। = सासादन सम्यग्दृष्टि जीव कितने काल तक रहते हैं। १२००। जघन्य एक समय १२०१। और उत्कृष्ट छह आवली कालतक रहते हैं १२०२। (प ख ४/१,५/मूत्र ७-८), (घ ४/१,५,१२/२६०/१)

घ ४/१ ४,७/गा ३१/३४१ उवसमसम्मत्तद्धा जत्तियमेत्ता हु होइ अव-सिद्धा। पडिबज्जता साण तत्तियमेत्ता य तस्सद्धा १३१। = जितना प्रमाण उपशम सम्यक्त्वका काल अवशिष्ट रहता है, उस समय सासादनगुणस्थानकी प्राप्त होनेवाले जीवका भी उतने प्रमाण ही काल होता है १३१।

घ. ७/२,२,२०१/१८२/६ उवसमसम्मत्तद्धाए एगममयावसेसे सासण गदस्स सासणगुणस्स एगममयकालोवलभादो। जेत्तिया उवसमसम्मत्तद्धा एगसमयादि काट्ठण जायुवकस्सेण छावलियाओ त्ति जवसेसा अत्थि तत्तिया चैव सासणगुणद्धावियप्पा होति। = क्योंकि, उपशम सम्यक्त्वके कालमें एक शेष रहनेपर सासादनगुणस्थानमें जानेवाले जीवके सासादनगुणस्थानका एक समय काल पाया जाता है। एक समयसे प्रारम्भ कर अधिकसे अधिक छह आवलियोंतक जितना उपशम सम्यक्त्वका काल शेष रहता है, उतने ही सासादनगुणस्थानके विकल्प होते हैं।

४. उक्त कालसे हीन या अधिक शेष रहनेपर सासादन-को प्राप्त नहीं होता

क. पा. सुत्ता/१०/गा, ६७/६३१ उवसामगो च सव्वो णिरासाणो। उवसते भजियव्वो णीरासाणो य त्तीणम्मि ६७। = जयतक दर्शन-मोहका उपशम कर रहा है तबतक वह सासादन गुणस्थानको प्राप्त नहीं होता है। उसका उपशम हो जानेपर भजितव्य है, अर्थात् सामादनको प्राप्त हो भी जाता है और नहीं भी। [प्रथमोपशम कालमें एक समयसे छह आवलीतक शेष रहनेपर तो वदाचिद प्राप्त हो जाता है। परन्तु] उस उपशम सम्यक्त्वका काल समाप्त हो जानेपर प्राप्त नहीं होता है। (घ. ६/१ ६-८, ६/गा ४/२३६), (ल. सा / मू / ६६/१३६)

घ ४/१,५,५/गा ३२/३४२ उवसमसम्मत्तद्धा जइ छावलिया हवेज्ज अवसिद्धा। तो सासण पवज्जइ णो हेट्ठकट्टकालेसु १३२। = उपशम सम्यक्त्वका छह आवली प्रमाण अवशिष्ट होने तो जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त होता है, यदि इससे अधिक काल अवशिष्ट रहे तो नहीं प्राप्त होता है १३२।

घ ७/२,२,२०१/१८२/८ उवसम्मत्तकाल सपुणमच्चिट्ठो सासणगुण ण पडिबज्जदित्ति कध णव्वदे। एदम्हादो चैव सुत्तादो, आइरिय-पर परागदुग्गदेसादी वा। = प्रश्न—जो जीव उपशमसम्यक्त्वके सम्पूर्ण कालतक उपशमसम्यक्त्वमें रहा है, वह सासादन गुणस्थानमें नहीं जाता, यह कैसे जाना। उत्तर—प्रस्तुत सूत्रसे (दे शीर्षक न ३) ही तथा आचार्य परम्परागत उपदेशसे भी पूर्णतः वात जानी जाती है।

ल सा / जी प्र / ६६/१३६/१६ उपशा-न्ते दर्शनमोहे अन्तरायामे वर्तमान प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टि सासादनगुणस्थानप्राप्त्या भक्तव्यो विकल्प-नीय। कस्यचिप्रथमोपशमसम्यक्त्वकाले एकसमयादिपडावलि-कान्तावशेषे सासादनगुणस्वसम्भवात्। उपशमसम्यक्त्वकाले क्षीणे समाप्ते सति निरासादन एव तदा नियमेन निथ्यात्वाद्यन्यतमोदय-सम्भवात्। = दर्शनमोहके उपशान्त हो जानेपर उस प्रथमोपशम सम्यक्त्वके अन्तरायाममें वर्तमान प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि जीव सासादनगुणस्थानकी प्राणिके त्ति भजनीय है, अर्थात् प्राप्त

करे अथवा न भी करे। तहाँ किसी जीवके प्रथमोपशमके कालमें एक समयसे छह आठवीं पर्यन्त काल शेष रहनेपर सासादन गुणस्थानका होना सम्भव है। परन्तु उपशम सम्यक्त्वका काल क्षीण हो जानेपर निगासादन ही है अर्थात् सासादनको बिलकुल प्राप्त नहीं हो सकता। तत्र मिथ्यादि (मिथ्यात्व, सम्यक्त्वमिथ्यात्व या सम्यक्प्रकृति इन तीनोंमेंसे किसी एकका उदय सम्भव है।)

दे, सम्यग्दर्शन/III/२/२ [प्रथमोपशमसे गिरकर अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार मिथ्यादृष्टि सासादन, सम्यग्मिथ्यादृष्टि अथवा वेदक-सम्यग्दृष्टिमेंसे किसी भी गुणस्थानको प्राप्त हो सकता है।]

५. द्वितीयोपशमसे सासादनकी प्राप्ति अप्राप्ति सम्बन्धी दो मत

ध ६/१, ६-८, १४/३३१/४ एदिस्ते उवसमसम्मत्तदाए अन्भतरादो असजम पि गच्छेज्ज, सजमासजम पि गच्छेज्ज, छसु आवलियासु सेसासु आसाण पि गच्छेज्ज। एसो पाहुड्युण्णिमुत्ताभियाओ। भूदवलिभयवत्सुवएसेण उवसमसेडीदो ओदिण्णो ण सासणत्त पडिवज्जदि। = १ द्वितीयोपशमसम्यक्त्वकालके भीतर असयमको भी प्राप्त हो सकता है सयमासयमको भी प्राप्त हो सकता है और छह आवलियोंके शेष रहनेपर सासादनको भी प्राप्त हो सकता है। यह कथायाम्नाभूत चूर्णिसूत्र (यतिवृषभाचार्य) का अभिप्राय है। (ल सा/मू/३४८), (गो जी/जी, प्र/१६/४४/१), (दे, सम्यग्दर्शन/-IV/३/३ में गो जी/जी प्र/७०४)। २ किन्तु भगवान् भूतमलिके उपदेशानुसार उपशमश्रेणीसे उत्पत्ता हुआ सासादन गुणस्थानको प्राप्त नहीं करता। (ल, सा/मू/३४९)

ध ६/१, ६, ७/११/२ उवसमसेडीदो ओदिण्णण सासणगमणाभावादो। त पि कुदो णवदे। एदम्हादो चेव भूदवलीयवयाणादो। = उपशम श्रेणीसे उतरनेवाले जीवोंके सासादनगुणस्थानमें गमन करनेका अभाव है। प्रश्न—यह कैसे जाना। उत्तर—भूतवली आचार्यके इसी वचनसे जाना [कि सासादन गुणस्थानका जघन्य अन्त एक जीवकी अपेक्षा पशुव्योपमके अर्मख्यातवै भाग है—सूत्र ७, पृ ६]।

गो क/जी, प्र/६४८/७१८/१७ अमी प्रथमद्वितीयोपशमसम्यग्दृष्टय स्त्रभ्रचरमे स्त्रमम्यक्त्वकाले जघन्येनैकसमये उत्कृष्टेन पडावल-मात्रेऽवशिष्टेऽनन्तानुबन्धन्यतमोदयेन सासादना भूत्वा। = ये प्रथमोपशम व द्वितीयोपशम दोनों सम्यग्दृष्टि अपने भवके चरम-समयमें अपने-अपने सम्यक्त्वके कालमें जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छह आवली मात्र अवशेष रहनेपर अनन्तानुबन्धी चतुष्क्रमसे किसी एक प्रकृतिके उदयसे सासादन होकर (मरते हैं, तत्र देवगतिको प्राप्त करते हैं।)

६. सासादनसे अवश्य मिथ्यात्वकी प्राप्ति

रा, वा/६/१/१३/६८/२१ स हि मिथ्यादर्शनोदयफलमापादयत् मिथ्यादर्शनमेव प्रवेशयति। = यह (अनन्तानुबन्धी कथाय) मिथ्यादर्शनके फलको उत्पन्न करती है, अत मिथ्यादर्शनको उदयमें आनेका रास्ता खोल देती है।

गो क/जी प्र/६४८/७१८/२० सासादनकालमतीत्य मिथ्यादृष्टय एव भूत्वा। = सासादनका काल बीतनेपर नियमसे मिथ्यादृष्टि होकर।

साहसगति—राजा चक्राक्रका पुत्र था। सुग्रीवकी स्त्रीको प्राप्त करनेके अर्थ इसने विद्या सिद्ध की थी। (प पु/१०/४, १८)।

साहसी—स्या म/१८/२१/६ नहया अबिमर्शात्मकेन यनेन वर्तते साहसिक। = आगे आनेवाले कष्टोंकी विचारे विना ही अपनी शिर-जोरीसे जो सहा प्रवृत्त हो उमकी साहसी कहते हैं।

सिद्ध—मध्य लोकके अन्तमें चौदहवाँ द्वीप व सागर—दे लोक/५।

सिंधु—१—भरत क्षेत्रकी प्रसिद्ध नदी—दे, मनुष्य/४, लोक/२, २—भरत क्षेत्रस्थ एक कुण्ड जिममेंसे सिन्धु नदी निरगत होती है—दे, लोक/३, ३—हिमवान् पर्वतस्थ एक कूट—दे लोक/७, ४—सिन्धु कूट व सिन्धु कुण्डकी स्वामिनी देवी—दे लोक/७, ५—भरत क्षेत्र उत्तर आर्य खण्डका एक देश—दे मनुष्य/४, ६—वर्तमान सिन्धु देश। कराची राजधानी है। (म पु/प्र, ६० पन्नालाल)।

सिंधु कक्ष—विजयार्थकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर—दे, विद्याधर।

सिंह—एक ग्रह—दे ग्रह।

सिंहनिष्क्रीडित व्रत—यह व्रत जघन्य, मध्यम व उत्कृष्टके भेदसे तीन प्रकारका है।

निम्न प्रस्तारके अनुसार क्रमशः १, २ आदि उपवास करते हुए ६० उपवास पूरे करें। चौथके २० स्थानोंमें पारणा करें। प्रस्तार—जघन्य प्रस्तारमें मध्यका अक्ष ५ है। पहलेके अक्षोंमें दो-दो अक्षोंकी सहायतासे एक-एक बढ़ाता जाये और घटाता जाये। जैसे—१, २ (२-१=१), (२+१=३), (३-२=२), (३+१=४), (४-१=३), (४+१=५), (५-१=४), [५+१=६ यह विकल्प मध्यवाले पाँच अक्षोंको उल्लंघन कर जानेके कारण ग्राह्य नहीं। अत यहाँ ६ की बजाय ५ का अक्ष ही रखना] यहाँ तक प्रस्तारका मध्य आया। इसके आगे उलटा क्रम चनाइए अर्थात् ६, ५, ४, ३, ४, २, ३, १, २, १। इस प्रकार जघन्य सिंहनिष्क्रीडित का प्रस्तार है।—१, २, १, ३, २, ४, ३, ५, ४, ६, ५, ४, ५, ३, ४, २, ३, १, २, १=६०। जाप—नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप करें। (ह पु/३४/७७-७८) (व्रत विधान स/५६) (शिशनसिंह क्रियाकोष) विधि जघन्य वत् है प्रस्तारमें कुछ अन्तर है जो नीचे दिया जाता है। प्रस्तार-प्रस्तार निकालनेकी विधि जघन्यवत् ही है। केवल मध्यमका अक्ष ५ की बजाय ६ है। अर्थात् १, २, १, ३, २, ४, ३, ५, ४, ६, ५, ७, ६, ८, ७, ८, ६, ८, ७, ८, ६, ७, ५, ६, ४, ५, ३, ४, २, ३, १, २, १=१६३। नोट—व्रत विधान मग्रहमें निशान वाला आठका अक्ष नहीं है। १६३ की बजाय १६४ उपवास है। (ह पु/३४/७६-८०) (व्रत विधान म/५७) (शिशनसिंह क्रियाकोष) प्रस्तार विधान जघन्यवत् जानना। अन्तर केवल इतना है कि यहाँ मध्यका अक्ष ५ की बजाय ६ है। शेष सर्व विधि जघन्यवत् है। प्रस्तार—१, २, १, ३, २, ४, ३, ५, ४, ६, ५, ७, ६, ८, ७, ८, ६, ८, ७, ८, ६, ७, ६, ५, ६, ४, ५, ३, ४, २, ३, १, २, १=४६६, स्थान ६१।

सिंहव्रज—विजयार्थकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर—दे विद्याधर।

सिंहानंदि—१—नन्दिगंध गलात्कार गणकी गुर्वावलीके अनुसार आप भानुचन्द्रके शिष्य तथा बभ्रुनन्दिके गुरु थे। समय—वि, श/५०८-५२६। (ई ५८३-६०३)—दे इतिहास/५/१३। २—दिगम्बराचार्य थे। स्वामी कुमारने इनकी ममाधि करागी थी। समय—ई १०० (वा अ/प्र ७३ A. N. Up)। ३—एक दिगम्बर साधु थे। कृति—लोक विभाग (मट्टन ११ अध्याय) सर्वनन्दिके प्राकृत लोचनभागका रचयिता हैं। (ति प/प्र १२ हीगान्त)। ४—गणेशीय राजमहलके गुरुके गुरु थे। तथा उनके मन्त्री चानुण्ड-रायके गुरु अजितसेनाचार्यके गुरु थे। राजा मन्के अनूदान इन्का समय—वि म, १०१०-१००० (ई ६५३-६७३) आता है। (त्राहचरित/रत्नो ६११)। ५—नन्दि नद्य बनाकर गणकी गुर्वावलीके अनुसार आ लक्ष्मीचन्द्र (ई १५१८) के समयमें मान्वा देशके भट्टारक थे। उरके अनुनार इनका समय—वि १६५ (ई १६१८)

जाता है। इनकी प्रार्थनापर श्री श्रुतसागर जीने यशस्तिनक चन्द्रिका टीका लिखी थी। (यशस्तिनक चम्पू टी./तृतीय आश्रयाम-का अन्त) —दे इतिहास/४/१३। ६—दिगम्बर साधु थे। कृति—पंच नमस्कार मन्त्र माहात्म्य। समय—वि श १६ (ई.श १६)।

सिंहपुर—विजयाचकी उत्तर श्रेणीका एक नगर—दे विद्याधर।

सिंहपुरी—अपर विदेहस्थ सुपन्न क्षेत्रकी प्रधान नगरी—दे लोक/७।

सिंहुरथ—१—जम्बूद्वीप वस्मदेशकी सुमीमा नगरीका राजा था। समयी होकर ११ जगोंका अध्यक्ष बन कर, सोनह भावनाओंका चिन्तन किया। तथा तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया। ममाधिमरण कर नवार्थमिद्धिमें अहमिन्द्र हुए। (म पृ/६४/२-१०) यह कुन्थनाथ भगवान्का पूर्वका दूसरा भव है। —दे कुन्थनाथ। २—सौदासका पुत्र था। सौदासके नरमासाहारी होनेपर इसको राज्य दिया गया। (प पृ/२२/१४४-१४५)

सिंहल—भोजवशाकी वशावलीके अनुसार गजा मुज व भर्तृ हरिके पिता थे। मालवा (मगध) के राजा थे। मुजके अनुसार इनका समय ई ६००-६८६ आता है—दे इतिहास/३/१।

सिंहवर्मा—कांचीका राजा था। सर्वनन्दिने इनके राज्यके २२वें वर्षमें 'लोक विभाग' नामका एक प्राकृत ग्रन्थ बनाया था। समय—श २८० (ई ४४८)। (ति प/प्र/१२ डॉ हीरालाल)।

सिंहसेन—१—पुत्राट सषकी पुर्वावलीके अनुसार आप सुवर्मसेनके शिष्य तथा सुनन्दिपेणके गुरु थे। —दे इतिहास/४/१८। २—(म. पृ/७२/रला भरत क्षेत्रमें सिंहपुरका राजा था (१४६) इनके मन्त्रीने बर्मने मर्ष बनकर इसको ला लिया (१६३) यह मरकर सगलका वनमें हाथी हुआ (१६७)। यह मजयन्त शुनिका पूर्वका भातर्गो भव है। —दे 'सजयन्त'।

सिंहन्दर—यूनानके बादशाह फिलिप्सका पुत्र था। मकदूनिया इसकी राजधानी थी। अस्तूरका शिष्य था। बडा पराक्रमी था। थोड़ी-सी जायमें जफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पञ्जाब आदि देशोंका जीत लिया था। —ई पू ३४६ में इसका जन्म हुआ। २० वर्षकी अवस्थामें गद्दी पर बैठा, षष्ठे ही देशोंपर विजय प्राप्त करनी प्रारम्भ कर दी। पञ्जाबमें पोरससे युद्ध किया। इसके पश्चात् वह आगे न बढ़ सका। यूनान लौटते समय मार्गमें ही ई पू ३३६ में इसकी मृत्यु हो गयी। समय—ई. पू ३३६-३२६ (वर्तमान भारत इतिहास)।

सिक्तानन—असुरकुमार (भवनवासीदेव) —दे जम्बर।

सिक्तिकी—मरुत आर्य सण्डली एव नदी—दे मनुष्य/४।

सिजय—दे गमिनाथ।

सितपट चौरासी बोल—१. हेमचन्द्र (ई ११८२-१६८०) कृत भाषा छन्द बद्ध रचना है। जो ज्वेनाम्बगाचार्य यशोविजयके दिग्गद चौरासी बोलसे उत्तरमें की गयी थी। इस श्वेताम्बर मतपर चौगनी ज्ञानेव जिये गये हैं।

सिद्ध—दे मोः/३।

सिद्ध केवली—दे. केवली/१/३।

सिद्धचक्र यन्त्र—दे यन्त्र।

सिद्धचक्र विधान—दे पूजापाठ।

सिद्धचक्राष्टक पूजा—दे, पूजापाठ।

सिद्धत्व—१—

प ध/उ/११४२ सिद्धत्व कृत्स्नकर्मैभ्य पुंसोऽवस्थान्तर पृथक्। ज्ञान-दर्शनमभ्यवसन्वीर्याद्यष्टगुणात्मकम्। ११४२।—आत्माकी सम्पूर्ण कर्मोंसे रहित ज्ञान, दर्शन, सम्पन्न वीर्य आदि जाठ गुण स्वरूप शुद्ध अवस्थाका होना ही सिद्धत्व है। २—जीवका पारिणामिक भाव है—दे पारिणामिक, ३—स्वभाव व्यजन पर्याय है—दे पर्याय/३/६।

सिद्ध पक्षाभास—दे 'पक्ष'।

सिद्धयिनी—भगवान् महावीरकी आत्मक यक्षिणी—दे यक्ष।

सिद्धसेन—१—आप यद्यपि एक श्वेताम्बराचार्य थे, पर इतने माध्यस्थ वृत्तिके तथा न्यायशील थे कि दिगम्बर आम्बनायके मूल-भूत आचार्य हरिवंश पुराणके कर्ता जिनपेण तथा अन्य कई आचार्य भी अपने ग्रन्थोंमें इनके सूत्रोंका उद्धरण बडी उदारतासे देते हैं। आप बड़े तार्किक थे। आपको दिवाकर कहते हैं। कृति—सन्मति सूत्र, द्वात्रिंशतिका, एकविंशति, गुणस्थान प्रकरण, आश्रयत जिन-स्तुति, कल्याण मन्दिर स्तोत्र। नोट—इन सब ग्रन्थोंमेंसे द्वात्रिंशतिका के सम्बन्धमें कुछ मतभेद है। प पञ्चालालके अनुसार वह सिद्धसेन नामके किन्हीं अन्य दिगम्बर आचार्यकी कृति है। समय—ई ४५० (वि श ६-७) प महेन्द्रके अनुसार वि श ५ का उत्तरार्ध है। (सभाष्य तत्त्वार्थाधिगम/प्र ३ टिप्पणी प्रेमी जी) (सतीशचन्द्र विद्याभूषण) (मि वि/प्र १८ प महेन्द्र) (ह पु/प्र ७ प पञ्चालाल)। २—पुत्राट सवकी गुर्वावलीके अनुसार आप अमयनेन नं. १ के शिष्य तथा अमयसेन नं. २ के गुरु थे—दे इतिहास/४/१८।

सिद्धसाधन हेत्वाभास—दे अकिंचित्कर।

सिद्धहेम शब्दानुशासन—दे शब्दकोश।

सिद्धान्त—१ सिद्धान्त सामान्य निर्देश

दे प्रवचन/१ आगम, सिद्धान्त और प्रवचन एकार्थक हैं।

ध १/१.१.२/७६/४ अपौरुषेयत्वतोऽनादि सिद्धान्त। —अपौरुषेय हानेसे सिद्धान्त अनादि है।

२. भेद व लक्षण

न्या मू/मू टी/१/२/२६-३१ तन्त्राधिकरणाम्युपगमसिद्धिर्थात् सिद्धान्त १२६। सर्वतन्त्रप्रतिपन्नाधिकरणाम्युपगमपरिधयर्थान्तरभावात् १२७। सर्वतन्त्राधिकरणस्तन्त्रेऽधिकृतोऽर्थ सर्वतन्त्रसिद्धान्त १२८। यथा प्राणादीनीन्द्रियाणि गन्धादय इन्द्रियार्था पृथिव्यादीनि ३तानि प्रमाणैरर्थस्य ग्रहणमिति। —समानतन्त्रसिद्ध परतन्त्रासिद्ध प्रति-तन्त्रसिद्धान्त १२९। यस्सिद्धावन्वयप्रकरणसिद्धि सोऽधिकरणसिद्धान्त १३०। यथा देहेन्द्रियव्यतिरिक्तो ज्ञाता। —अपरीक्षिताम्युपगमात्सिद्धि-शेषपरीक्षणमभ्युपगमसिद्धान्त १३१। —शास्त्रके अर्थकी सन्धिति किये गये अर्थको सिद्धान्त करते हैं। उक्त सिद्धान्त चार प्रकारका है। सर्वतन्त्र सिद्धान्त, प्रतिपत्त सिद्धान्त, अधिकरण सिद्धान्त, अभ्युपगम सिद्धान्त १२६-२७। उनमें से जो अर्थ सत्र शास्त्रोंमें अविच्छेदतासे माना गया है उसे सर्वतन्त्र सिद्धान्त कहते हैं। अर्थात् जिन शास्त्रको सर्व शास्त्रकार मानते हैं जैसे प्राण आदि पाँच इन्द्रिय, गन्ध आदि उनके विषय तथा, पृथ्वी आदि पाँच भूत और प्रमाण द्वारा पदार्थोंका ग्रहण करना इत्यादि सत्र ही शास्त्रकार मानते हैं १२८। जो शास्त्र एक शास्त्रमें सिद्ध हो, और दूसरोंमें असिद्ध हो उसे 'प्रतिपत्तसिद्धान्त' कहते हैं १२९। जो जिन अर्थके सिद्ध होनेसे अन्य अर्थ भी नियमसे सिद्ध हों उसे अधिकरणसिद्धान्त कहते हैं। जैसे—देह और इन्द्रियोंसे भिन्न जोई जानने हैं जिसे आत्मा कहते हैं १३०। बिना परीक्षा किये किसी पदार्थको मानकर उस पदार्थकी विद्वेष परीक्षा करनेको अभ्युपगम सिद्धान्त कहते हैं १३१।

* तर्क व सिद्धान्त रूप कथन पद्धति—दे. पद्धति ।

सिद्धान्तसागर—नन्दिसप्त बलात्कार (गणकी गुर्वावलीमें लक्ष्मी-चन्दके समयमें (ई १५१८) आप मालवा देश के भट्टारक थे। आपको व्याख्यान करनेके लिए ही आ, श्रुतमागरने यशस्विलक चम्पूपर यशस्विलकचन्द्रिका नामकी टीका लिखी थी। समय वि १७७५ (ई. १५१८)—दे इतिहास/५/१३।

सिद्धान्तसारसंग्रह—आ नरेन्द्रसेन (ई १०६८) द्वारा विरचित तत्त्वार्थ प्ररूपक संस्कृत छन्द बद्ध ग्रन्थ है। इसमें १२ अधिकांर हैं तथा कुल १६२४ श्लोक प्रमाण है।

सिद्धान्तसेन—अनन्तवीर्यकी गुर्वावलीके अनुसार यह गणसेनके गुरु तथा अनन्तवीर्यके दादा गुरु थे। (समय ई ६००-६४०)—दे, इतिहास/५/४।

सिद्धाभदेव—भूतकालीन आठवें तीर्थंकर—दे तीर्थंकर/५।

सिद्धायतन कूट—वर्षधर पर्वत, गजदन्त, वक्षारगिरि आदि पर्वतोंमें प्रत्येक पर एक-एक सिद्धायतन कूट है, जिसपर एक-एक जिनमन्दिर स्थित है।—दे लोक/७।

सिद्धार्थ—१ अपर नाम सिद्धायतन—दे सिद्धायतन। २ विजयार्थकी उत्तर श्रेणीका एक नगर—दे विद्याधर। ३ मानुषोत्तर पर्वतस्थ अञ्जनमूलकूटका स्वामी भवनवासी सुपर्णकुमार देव—दे लोक/७। ४. म पु/६६/श्लो कौशाम्बी नगरीके राजा पार्थिवके पुत्र थे। (४) अन्तमें दीक्षा ले तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया (१२-१५) तथा समाधिभरणकर अपराजित विमानमें अहमिन्द्र हुआ (१६) यह नमिनाथ भगवान्का पूर्वका दूसरा भव है।—दे, नमिनाथ। ५. ह पु/सर्ग/श्लो, बलदेव (कृष्णका भाई) का छोटा भाई था। यदि दे देव हुआ तो तुम्हें सम्बोधूँ गा बलदेवसे यह प्रतिज्ञा कर दीक्षा ग्रहण की (६१/४१) स्ववचनानुसार स्वर्गसे आकर कृष्णकी मृत्युपर बलदेवको सम्बोधा (६३/६१-७१) ६ भगवान् महावीरके पिता—दे, तीर्थंकर/५/७. एक क्षुल्लक था जिसने लव व कुदाको शिक्षा दी थी (प पु/१००/४७)। ८. श्रुतावतारकी पट्टावलीके अनुसार आप भद्रबाहु प्रथम (श्रुतकेवली) के पश्चात् छठे ११ अग व १० पूर्व धारी हुए हैं। समय—वी नि २४७-२६४ (ई पू. २८०-२६३)—दे इतिहास/४/१।

सिद्धार्था—एक विद्या—दे 'विद्या'।

सिद्धि—सि वि/सू./१/२/६/सिद्धिरचेदुपलब्धिमात्रम्। = उपलब्धि मात्रको सिद्धि कहते हैं।

सिद्धिविनिश्चय—आ अकलक भट्ट (ई ६४०-६८०) कृत यह न्यायविषयक ग्रन्थ संस्कृत पद्य बद्ध है। इसपर स्वोपज्ञ एक संस्कृत गद्य बद्ध वृत्ति भी लिखी है। इसमें १२ प्रस्ताव है। मूल ग्रन्थमें कुल २८ श्लोक हैं। इस ग्रन्थ पर आ अनन्तवीर्य (ई. ६५०-६६०) कृत एक संस्कृत टीका है। यह सर्व गद्य पद्य व टीका मिलकर २० x ३०-८ साइजके मुद्रित ६५० पृष्ठ प्रमाण है।

सिरा—औदारिक शरीरमें सिराओंका प्रमाण—दे औदारिक/१।

सिलोकस—यह सत्राट्ट सिकन्दरना सेनापति था। सिकन्दर अपने पश्चात् इसको पञ्जामका, गर्वनर नानाकर छोड़ गया था। इसने चन्द्रगुप्तमौर्यके साथ युद्ध किया और परास्त हो जानेपर अपनी कन्या उसके साथ परणा दी। समय—ई पू ३२३-३०५ (वर्तमान भारत इति)।

सीता—१ विदेह क्षेत्रकी प्रधान नदी—दे लोक/२/१०। २ विदेह क्षेत्रस्थ एक कुण्ड जिममें से सीता नदी निकलती है—दे, लोक, ३। ३. नील पर्वतस्थ एक कूट—दे लोक/७। ४. सीता कुण्ड व सीता कूटकी स्वामिनी देवी—दे लोक/८, ५. माण्यवान् पर्वतस्थ एक कूट—दे लोक/७, ६. रुचक पर्वत निवाग्मिनी दिव्यकमारी देवी—दे लोक/७। ७. वर्तमान पामीर प्रदेशके पूर्वमें निकली हुई यारकन्द नदी है। चातुर्द्वीपक भूगोलके अनुसार यह मेरुके पूर्ववर्ती भद्राश्व महाद्वीपकी नदी है। चीनी लाग हमे अब तक सीता कहते हैं। यह काराकोरमके शीतान नामक स्थानसे निकल कर पामीरके पूर्वकी ओर चीनी तुकिरतानमें चली गयी है। उक्त शीतान पृगणोंको शीतान्त है। तखलामकानकी मरुभूमिमें से होती हुई एफ आध और नदियोंके मिल जाने पर 'तारीम' नाम धारण करके लोपनूप नामक खारी भूमिमें जिसका विस्तार आजसे वहाँ अधिक था जा गिरती है। इसका वर्णन वायु पुराणमें लिखा है—'कृत्वा द्विधा सिंधुमरूत् सीतागाद पश्चिमोदधिम् (४७, ४३) सिंधुमरुत् तखलामकानके लिए उपयुक्त नाम है। क्योंकि इसका वायु ममुद्रान्त दीखता है। पश्चिमोदधिसे लोनपुर भूलका तात्पर्य है। (ज प/प्र १४० A N Upadhye, H L Jain)

सीता—प पु/सर्ग/श्लोक—राजा जनककी पुत्री (२६/१२१) स्वयंवरमें रामके द्वारा बरी गयी (२८/२४५) वनवासमें रामके संग गयी (३१/१६१) वहाँपर राम लक्ष्मणकी अनुपस्थितिमें रावण इसे हरकर ले गया (४४/८३ ८४)। रावणके द्वारा अनेकों भय देनेपर अपने शीलसे तनिक भी विचलित न होना (४६/८०) रावणके मारे जाने पर सीता रामसे मिली (६१/४६)। अयोध्या लौटने पर लोकापवादसे राम द्वारा सीताका परित्याग (६७/१०८६)। सीताकी जनि परीक्षा होना (६०५/२६)। विरक्त हो दीहित हो गयी। ६२ वर्ष पर्यन्त तपकर समाधिभरण किया। तथा मोलहवे स्वर्गमें देवेन्द्र हुई (१०६/१७-१८)।

सीतोदा—१ विदेह क्षेत्रकी प्रसिद्ध नदी—दे लोक/२/१०/० विदेह क्षेत्रस्थ एक कुण्ड जिसमेंसे कि सीतोदा नदी निकलती है—दे लोक/३। ३ सीतोदा कूट व सीतोदा कुण्डकी स्वामिनी देवी—दे लोक/७। ४ विद्युत्प्रभवविजयार्थका एक कूट—दे, लोक/७/५. अपर विदेहस्थ एक विभगा नदी—दे लोक/७।

सीदिया—चतुर्द्वीपके भद्राश्व व उत्तरकुल और सीदिया एक ही वात है। (ज प/प्र १४० A N up, H L Jain)

सीमंकर—भूतकालीन पञ्चम कुलकर—दे, शलाकापुरुष/६।

सीमन्तक—प्रथम नरकका प्रथम पटल—दे, नरक/५।

सीमन्धर—भूतकालीन छठे कुलकर—दे शलाकापुरुष/६।

सीमा—Boundary, (ध ५/प्र २८)।

सीमातीतसख्या—Transfinite number (ध ५/प्र २८)।

सुंगयुन—एक चीनी यात्री था। ई ५२० में इनने भारतकी यात्रा की थी। (ति प/प्र १४ हीरानाल)।

सुन्दर—कुण्डल पर्वतस्थ स्फटिक कूटका स्वामी नागेन्द्र—देव दे लोक/७।

सुन्दरदास—इनको सन्त सुन्दरदाम कहते थे। प नारासीधाम इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। समय—वि १६५२-१७८६। (हि जै सा ५/११७/वामता)।

सुन्दरी—भगवान् सप्तमदेवकी पुत्री थी। विरक्त होकर बुवागिने दीक्षा ग्रहण की। (ह पु/१२/४२)।

सुकक्ष—विजयार्थकी दक्षिण ग्रेणीका एक नगर—दे विद्याधर ।

सुकच्छ—पूर्व विदेहका एक क्षेत्र —दे लोक/७ ।

सुकच्छविजय—पूर्व विदेहस्थ चित्रकूट वक्षारगिरिका एक कूट व उसका स्वामी देव —दे लोक/७ ।

सुकुमाल चरित्र—आ सफलकीर्ति (ई १४३३-१४७३) की एक रचना ।

सुकेतु—म. प्र ४६/श्लो न श्रावस्ती नगरीका राजा था (७२) । जुएमें सर्वस्व हारनेपर दीक्षा ग्रहणकर कठिन तप किया । (८२-८३) कना, चतुरता आदि गुणोंका निदान कर लान्तव रवर्गमें देव हुआ (८६) यह धर्म नारायणका पूर्वका दूसरा भव है —दे, धर्म ।

सुकौशल—१ मध्यप्रदेश । अपरनाम महाकौशल । (म. पु / प्र ४८ पत्रालाल) । २ प पु / सर्ग / श्लोक राजा कौत्सिधरका पुत्र था । (२२/१५६) मुनि (अपने पिता) की धर्मवाणी श्रवण कर दीक्षा ग्रहण कर ली (२२/४०) । तपश्चरण करते हुए को माताने घेरनी बन कर खा लिया (२२/६०) । जीवनके अन्तिम क्षणमें निर्वाण प्राप्त किया (२२/६८) ।

सुख—सुख दो प्रकारका होता है—लौकिक व अलौकिक । लौकिक सुख विषय जनित होनेसे सर्वपरिचित है पर अलौकिक सुख इन्द्रियातीत होनेसे केवल विरागीजनोंको ही होता है । उसके सामने लौकिक सुख दु ख रूप ही भासता है । मोक्षमें विकल्पात्मक ज्ञान व इन्द्रियाका अभाव हो जानेके कारण यद्यपि सुखके भी अभावकी आशंका होती है, परन्तु केवलज्ञान द्वारा लोकालोकको युगपत् जानने रूप परमज्ञाता द्रष्टा भाव रहनेसे वहाँ सुखकी सत्ता अवश्य स्वीकरणीय है, क्योंकि निर्विकल्प ज्ञान ही वास्तवमें सुख है ।

- | | |
|------|---|
| * १ | अलौकिक सुखका कारण वेदनीय या आठों कर्मका अभाव । —दे, मोक्ष/३/३ । |
| * २ | अव्यावाध सुखके अवरोधक कर्म । —दे, मोक्ष/३/३ । |
| ४ | सुख वहाँ है जहाँ दु ख न हो । |
| ५ | ज्ञान ही वास्तवमें सुख है । |
| ६ | अलौकिक सुखमें लौकिकसे अनन्तपनेकी कल्पना । |
| ७ | छद्मस्य अवस्थामें भी अलौकिक सुखका वेदन होता है । |
| ८ | सिद्धोंके अनन्त सुखका सद्भाव । |
| * ९ | मोक्षमें अनन्त सुख अवश्य प्रकट होता है । —दे, मोक्ष/६/२ । |
| १० | सिद्धोंका सुख दु खभाव मात्र नहीं है । |
| १० | सिद्धोंमें सुखके अस्तित्वकी सिद्धि । |
| ११ | कर्मोंके अभावमें सुख भी नष्ट क्यों नहीं होता । |
| १२ | इन्द्रियोंके बिना सुख कैसे सम्भव है । |
| १३ | अलौकिक सुखकी श्रेष्ठता । |
| १४ | अलौकिक सुखकी प्राप्तिका उपाय । |
| * १५ | दोनों सुखोंका भोग एकान्तमें होता है । —दे भोग/७ । |

१. सामान्य व लौकिक सुख निर्देश

१ सुखके भेदोंका निर्देश

- न. च वृ./३६८ इदियमणसस पसमज आदत्थं तहय सोखल चउभेय । ३६८। —सुख चार प्रकारका है—इन्द्रियज, मनोत्पन्न, प्रशमसे उत्पन्न और आत्मोत्पन्न ।
- न. च, वृ / १४ पर फुटनोट—इन्द्रियजमतीन्द्रियं चेति सुखस्य द्वौ भेदौ । —इन्द्रियज और अतीन्द्रियज ऐसे सुखके दो भेद हैं ।
- त सा ५/४७ लोके चतुर्विहायैषु सुखशब्द प्रयुज्यते । विषये वेदानाभावे विषाके मोक्ष एव च । ४७। —जगत्में सुख शब्दके चार अर्थ माने जाते हैं—विषय वेदानाका अभाव, पुण्यकर्मका फल प्राप्त होना, मुक्त हो जाना ।

२. लौकिक सुखका लक्षण

- स सि ४/२०/२५१/८ सुखमिन्द्रियार्थानुभवः ।
- स सि ४/२०/०८८/२२ सदसद्वेद्योदयेऽन्तरङ्गहेतौ सति बाह्यद्रव्यादिपरिपाकनिमित्तवशादुत्पद्यमान प्रीतिपरिप्रापरूप परिणाम सुखदु खमित्यारुष्यायते । —इन्द्रियोंके विषयोंके अनुभव करनेको सुख कहते हैं (रा वा. ४/२०/३/२३६/१६) साता और असाता रूप अन्तरग परिणामके रहते हुए बाह्य द्रव्यादिके परिपाकके निमित्तसे जो प्रीति और परिप्रापरूप परिणाम उत्पन्न होते हैं वे सुख और दुख कहे जाते हैं । (रा वा ४/२०/१/४७४/२२), (गो जी / जी, प्र / ६०६ / १०६२/१६) ।
- न्या वि / वृ / १/११६/४२८/२० पर उद्धृत-सुखमाहादनाकारम् । —सुख आहाद रूप होता है ।

१	सामान्य व लौकिक सुख निर्देश
१	सुखके भेदोंका निर्देश ।
२	लौकिक सुखका लक्षण ।
३	लौकिक सुख वास्तवमें दु ख है ।
४	लौकिक सुखको दु ख कहनेका कारण ।
५	लौकिक सुख शत्रु है ।
६	विषयोंमें सुख-दु खकी कल्पना रुचिके अधीन है ।
*	सम्पददृष्टि व मिथ्यादृष्टिके सुखानुभवमें अन्तर । —दे मिथ्यादृष्टि/४/१ ।
७	मुक्त जीवोंको लौकिक सुख दु ख नहीं होता ।
८	लौकिक सुख वतानेका प्रयोजन ।
*	सुखमें सम्यग्दर्शनका स्थान । —दे सम्यग्दर्शन/१/५ ।
*	लौकिक सुख दु खमें वेदनीय कर्मका स्थान । —वेदनीय/३ ।
*	सुख व दु खमें कथञ्चित् क्रम व अक्रम ।
२	अलौकिक सुख निर्देश
१	अलौकिक सुखका लक्षण ।
२	अव्यावाध सुखका लक्षण ।
३	अतीन्द्रिय सुखमें क्या तात्पर्य ।

घ. १३/४, ४, २४/४१/४ क्लिबखणमेरुसुद्धं । सत्यजाटानिरहनवर्णनं ।
—सर्व प्रकारकी बाधाओंका दूर होना, यही प्रकृतमें (ईयांपथ
आख्यके प्रकरणमें) उसका (सुखका) लक्षण है ।

घ. १३/४, ४, ६३/३३/४ इदृत्थसमागमो अणिदृत्थविओगो च सुह णाम ।
—इष्ट अर्थके समागम और अनिष्ट अर्थके वियोगका नाम सुख है ।

त सा /८/४८-४९ सुखो वहि सुखो वायुर्विपयेष्विह कथ्यते । दु ख-
भावे च पुरुष सुखितोऽस्मीति भापते १४८। पुण्यकर्मविपाकाच्च सुख-
मिष्टेन्द्रियार्थजम् । १४९। —१ शीत ऋतुमें अग्निका स्पर्श और
ग्रीष्म ऋतुमें हवाका स्पर्श सुखकर होता है । २ प्रथम किसी प्रकारका
दु ख अथवा क्लेश हो रहा हो फिर उस दु खका थोड़े समयके लिए
अभाव हो जाये तो जीव मानता है मे सुखो हो गया १४८। ३ पुण्य-
कर्मके विपाकसे इष्ट विषयकी प्राप्ति होनेसे जो सुखका सङ्घट्ट होता
है, वह सुखका तीसरा अर्थ है १४९।

वे वेदनीय/८ वेदनाका उपशान्त होना, अथवा उत्पन्न न होना,
अथवा दु खोपशान्तिके द्रव्योंकी उपलब्धि होना सुख है ।

२. लौकिक सुख वास्तवमें दु ख है

भ. आ /मू/१२४८-१२४९ भोगोवभोगसोख ज ज दुखल च भोगणा-
सम्मि । एदेसु भोगणासे जातं दुखलं पडिविसिट्ठं १२४८। देहे
छुहादिमहिदे चले य सत्तस्स होज्ज कह सोखल । दुखलस्स य पडि-
यारो रहस्सण चैव सोखल खु १२४९। —भोगसाधनात्मक इन
भोगोंका वियोग होनेसे जो दु ख उत्पन्न होता है तथा भोगोपभोगसे
जो सुख मिलता है, इन दोनोंमें दु ख ही अधिक समझना १२४८।
यह देह भूख, प्यास, शीत, उष्ण और रोगोंसे पीडित होता है, तथा
अनिरय भी ऐसे देहमें आसक्त होनेसे कितना सुख प्राप्त होगा ।
अत्यन्त सुखकी प्राप्ति होगी । दु ख निवारण होना अथवा दु खकी
कमी होना ही सुख है, ऐसा ससारमें माना जाता है १२४९।

प्र सा /मू/६४, ७६—जेसि विसयेसु रदी तेसि दुखल वियाण सव्भाव ।
जइ तं ण हि सव्भाव वावारो णरिथ विसयत्थं ६४। सपर बाधा-
सहिय विच्छिण्णं बंधकारण विसम । ज इदियेहि लद्ध त सोखल
दुखलमेव तथा ७६। —जिन्हें विषयोंमें रति है उन्हें दु ख स्वाभाविक
जानो, क्योंकि यदि वह दु ख स्वभाव न हो तो विषयार्थमें व्यापार न
हो ६४। जो इन्द्रियोंसे प्राप्त होता है वह सुख परसम्बन्धयुक्त, बाधा-
सहित विच्छिन्न, बन्धका कारण और विषम है, इस प्रकार वह दु ख
ही है । (यो, सा, अ/३/३५), (पं, घ/उ/२४५) ।

स्व स्तो/३ शतहृदोन्मेषचलं हि सौख्य-तृष्णाभयाप्यायन-मात्र-
हेतु । तृष्णाभिवृद्धिश्च तपस्यजसं तापस्तदायासयतीत्यवादी । ३।
—आपने पीडित जगत्की उसके दु खका निदान बताया है कि—
इन्द्रिय विषय विजलीकी चमकके समान चंचल है, तृष्णा रूपी
रोगकी वृद्धिका एकमात्र हेतु है, तृष्णाकी अभिवृद्धि निरन्तर ताप
उत्पन्न करती है, और वह ताप जगत्की अनेक दु ख परम्परासे
पीडित करता है । (स्व स्तो/२०, ३१, ८२) ।

इ. उ /उ/६ वासनामात्रमेवैतत्सुख दु ख च देहिनाम् । तथा ह्युद्वेजयन्त्येते
भोगा रोगा इवापदि ६। —ससारी जीवोंका इन्द्रिय सुख वासना
मात्रसे जनित होनेके कारण दु खरूप ही है, क्योंकि आपत्ति कालमें
रोग जिस प्रकार चित्तमें उद्वेग उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार भोग भी
उद्वेग करनेवाले हैं ६।

प्र. सा /त प्र/११, ६३ शिखितस्रष्टोपसिक्तपुरुषो दाहदु खनिव स्वर्ग-
सुखबन्धमवाप्नोति ११। तद्दु खवेगमसहमानाना व्याधिसात्म्यता-
मुपगतेषु रम्येषु विषयेषु रतिरुपजायते । ततो व्याधिस्थानीयत्वा-
दिन्द्रियाणां व्याधिसात्म्यसमत्वाद्द्विषयाणां च द्यत्रस्थानानं पार-
मार्थिकं सौख्यम् ६३। —जैसे अग्निसे गर्म किया हुआ घी किसी
मनुष्य पर गिर जाये तो वह उसकी जलनसे दु खी होता है, उसी
प्रकार स्वर्गके सुखरूप बन्धनों प्राप्ति होता है । अर्थात् स्वर्ग ऐन्द्रियक

सुख-दु ख ही है ११। दु खके वेगको सहन न कर मकनेके कारण
उन्हें (ससारी जीवोंको) रम्य विषयोंमें रति उत्पन्न होती है । इम-
लिए इन्द्रिय व्याधिके समान होनेसे और विषय व्याधि प्रतिकारके
समान होनेसे द्यत्रस्थोंके पारमार्थिक सुख नहीं है ६३।

यो सा /अ/१/३६ सामारिक सुख सर्वं दु खतो न विशिष्यते । यो
नैव बुध्यते मूढ स चारित्र्यो न भण्यते ३६। —सामारिक सुख-दु ख
ही है, सामारिक सुख व दु खमें कोई विशेषता नहीं है । किन्तु मूढ
प्राणी इसमें भेद मानता है वह चारित्र्य स्वरूप नहीं कहा जाता ३६।
(पं वि/४/७३) ।

का अ /मू/६९ देवाण पि य सुखल मणहर विसएहि कीरदे जदि हि ।
विसय वस ज सुखल दुखलस्स वि कारण त पि ६९। —देवोंका
सुख मनोहर विषयोंसे उत्पन्न होता है, तो जो सुख विषयोंके
अधीन है वह दु खका भी कारण है ६९।

दे पुण्य/५/३ परिग्रह दु ख व दु खका कारण है ।

प घ /२३८ ऐहिक यत्सुख नाम सर्वं वैषयिक स्मृतम् । न तत्सुखं
सुखाभास किन्तु दु खमसशयम् २३८। —जो लौकिक सुख है, वह
सब इन्द्रिय विषयक माना जाता है, इसलिए वह सब केवल सुखा-
भास ही नहीं है, किन्तु निस्सन्देह दु खरूप भी है २३८।

४. लौकिक सुखको दु ख कहनेका कारण

स सि /७/१०/३४६/३ ननु च तस्मिं न दु खमेव, विषयरतिसुख-
सद्भावात् । न तत्सुखम्, वेदनाप्रतीकारत्वारकच्छूत्रण्डयनवत् ।
—प्रश्न—ये हिंसादि सभके सब केवल दु खरूप ही हैं, यह बात
नहीं है, क्योंकि विषयोंके सेवनमें सुख उपलब्ध होता है । उत्तर—
विषयोंके सेवनसे जो सुखाभास होता है वह सुख नहीं है, किन्तु
दादको खुजलानेके समान केवल वेदनाका प्रतिकारमात्र है ।

५. लौकिक सुख शत्रु हैं

भ आ /मू/१२७१ दुखल उपादिता पुरिसा पुरिसस्स होदि जदि
सच्चु । अदिदुखल कदमाणा भोगा सच्चु किह ण हुती १२७१।
—दु ख उत्पन्न करनेसे यदि पुरुष पुरुषके शत्रुके समान होते हैं, तो
अतिशय दु ख देनेवाले इन्द्रिय सुख क्यों न शत्रु माने जायेंगे ! (अर्थात्
लौकिक सुख तो शत्रु ही है) ।

६. विषयोंमें सुख-दु खकी कल्पना रुचिके अधीन है

क पा /१/१, १३-१४/१२२०/गा १२०/२७२ तित्ता च शीतलं तोय
पुत्रादिर्भुद्रिका-(मृत्तिका-) फलम् । निम्नक्षीरं ज्वरार्तस्य
नीरोगस्य गुडादय १२२०।

क पा /१/१, १३-१४/१२२/चूर्णसूत्र/२७२ 'सगह-वचहाराण' उजु-
मुदस्स च सव्व दव्व पेज्ज ।' ज किचि दव्व णाम तं सव्वं पेज्ज
चेत्त, कस्म वि जीवस्स कम्मिह वि काले सव्वदव्वानं पेज्जभावेण
वट्टमाणाणाणमुवलभादो । तं जहा, विसा पि पेज्ज, विमुप्पण्ण-
जोवाण - कोट्टियाण मरणमारणिच्छाण च हिद-सुट्ट-पियकारण-
त्तादो । एवं परथरतणिधणग्गिच्छुट्टाईणं ज्हामभवेण पेज्जभावेण
वत्तव्वो । विवेकमाणाण हरिसुप्पायणेण तस्य (परमाणुम्मि) पि
पेज्जभावुवलभादो । —१ पित्त ज्वर वालेको कुटती हित द्रव्य
है, प्यासेको ठण्डा पानी सुख रूप है, किसीको पुत्रादि प्रिय द्रव्य
है, पित्त-ज्वरसे पीडित रागीको नीम रित और प्रिय द्रव्य है
दूध सुख और प्रिय द्रव्य है । तथा नीरोग मनुष्यको गुड आदिक
रित, सुख और प्रिय द्रव्य है १२२०। २ मग्न व्ययहार और
ऋजुसूत्रकी अपेक्षा समस्त द्रव्य पेज्जल्प है । जगमें जो कुछ भी
पदार्थ है वे सब पेज्ज ही हैं, क्योंकि किसी न किसी जीवके किसी
न किसी कालमें सभी द्रव्य पेज्जल्प पाये जाते हैं । उसका स्पष्टी-
करण इस प्रकार है—विष भी पेज्ज है, क्योंकि विषमें उत्पन्न हुए

जीवोंके, कोढ़ी मनुष्योंके और मरने तथा मारनेकी इच्छा रखने वाले जीवोंके विषय क्रमसे हित, सुख और प्रिय भावका कारण देखा जाता है। इसी प्रकार पत्थर, घास, ईंधन, अग्नि और सुधा आदिमें जहाँ जिस प्रकार पेज्ज भाव घटित हो वहाँ उस प्रकारसे पेज्ज भावका कथन कर लेना चाहिए। परमाणुकी विशेष रूपसे जानने वाले पुरुषोंके परमाणु हर्षका उत्पादक है।

वे राग/२/१ मोहके कारण ही पदार्थ इष्ट अनिष्ट है।

प, घ /पु/५८३ सत्य वैषयिकमिदं परमिह तदपि न परत्र सापेक्षम्। सति बहिरर्थेऽपि यत् किल केपांचिदमुखादिहेतुत्वात्। ५८३। = यहाँ पर यह ससारी सुख केवल वैषयिक है, तो भी पर विषयमें सापेक्ष नहीं है, क्योंकि निश्चयसे बाह्य पदार्थोंके होते हुए भी किन्हींको वे असुखादिके कारण होते हैं। ५८३।

७. मुक्त जीवोंको लौकिक सुख-दुःख नहीं होते

प्र. सा /मू/२० सोखल वा पुण दुखल केवलणाणिसस णत्थि देहगद। जम्हा अदिदियत्त जाव तम्हा दु त गेय। २०। =केवलज्ञानीके शरीर सम्बन्धी सुख या दुःख नहीं है, क्योंकि अतीन्द्रियता उत्पन्न हुई है, इसलिए ऐसा जानना चाहिए। २०।

घ १/१,२,३३/गा १४०/२४८ ण वि इदिय-करण-जुवा अवग्गहादीहि गाहया अत्थे। जेव य इदिय-सोखला अणिदियाणत-णाण-सुहा। १४०। =वे सिद्ध जीव इन्द्रियोंके व्यापारसे युक्त नहीं है, और अव-ग्रहादि क्षायोपशमिक ज्ञानके द्वारा पदार्थोंका ग्रहण नहीं करते; उनके इन्द्रिय सुख भी नहीं है। क्योंकि उनका अनन्त ज्ञान व सुख अनिन्द्रिय है। १४०। (गो जी /मू/१७४)।

स्या म /८/८६/३ मोक्षावस्थायाम्, सुख तु वैषयिकं तत्र नास्ति। =मोक्ष अवस्थामें वैषयिक सुख भी नहीं है।

८ लौकिक सुख वतानेका प्रयोजन

प्र स /टो/१/२३/१० अत्र यस्यैव स्वाभाविकसुखामृतस्य भोजना-भावादिन्द्रियसुख भुञ्जान सत् ससारे परिभ्रमति तदेवातीन्द्रिय-सुख सर्वप्रकारेणोपादेयमित्यभिप्रायः। =यहाँ पर जिस स्वाभाविक सुखामृतके भोजनके अभावसे आत्मा इन्द्रियोंके सुखोंको भोगता हुआ ससारमें भ्रमण करता है, वही अतीन्द्रिय सुख सब प्रकारसे ग्रहण करने योग्य है, ऐसा अभिप्राय है।

९ सुख व दुःखमें कथंचित् क्रम व अक्रम

प, घ /उ/३३३-३३५ न चेकत्त सुखव्यत्तिरेकतो दुःखमस्ति तत्। एकत्थैकपदे सिद्धमित्यनेकान्तवादिनाम्। ३३३। अनेकान्त प्रमाण स्यादयदिरेक वस्तुनि। गुणपर्याययोर्द्वैतात् गुणमुख्यव्यवस्थया। ३३४। अभिव्यक्तस्तु पर्यायरूपा स्यात्सुखदुःखयो। तदात्वे तत्र तद्द्वैत द्वैतं चेद् द्रव्यत ष्वचित्। ३३५। =यह कहना ठीक नहीं कि एक आत्माके एक ही पदमें अनेकान्तवादियोंके अगीकृत किसी एक दृष्टिसे सुखकी व्यक्ति और किसी एक दृष्टिसे दुःख भी रहता है। ३३३। वास्तवमें एक वस्तुमें गौण और मुख्यकी व्यवस्थासे गुण पर्यायोंमें द्वैत होनेके कारण, अनेकान्त प्रमाण है। ३३४। परन्तु सुख और दुःखकी अभिव्यक्ति पर्यायरूप होती है। इसलिए उस सुख और दुःखको अवस्थामें वे दोनों युगपत् नहीं रह सकते। यदि उनमें युगपत् द्वैत रहता है तो दो भिन्न द्रव्योंमें रह सकता है पर्यायोंमें नहीं। ३३५।

२ अलौकिक सुख निर्देश

१. अलौकिक सुखका लक्षण

म पु/४२/११६ मनसो निर्वृतिं सौख्यम् उशन्तीह विचक्षण। ११६। =पण्डित जन मनकी निराकुलताकी ही सुख कहते हैं। (प्र सा /त, प्र/५६)।

न, च, वृ/३६८। अनुभवं न भवत्यात्मार्यम्। ३६८। =आत्मार्य सुख आत्मानुभव रूप है। (स्या, म /८/८६/१)।

उ, सा /८/४६ कर्मवलेशविमोक्षाच्च माक्षे सुखमनुत्तमम्। =कर्म जन्य वलेशोंसे छूट जानेके कारण मोक्ष अवस्थामें जो सुख होता है, वह अनुत्तम सुख है।

यो, सा यो/६७ वज्जिय सयल-वियप्पइ परम-समाहिं लहंति। ज विंदहि साणदु क वि सो सिव-सुखल भणति। ६७। =जो समस्त विकल्पोंसे रहित होकर परम समाधिको प्राप्त करते हैं, वे आनन्द का अनुभव करते हैं, वह मोक्ष सुख कहा जाता है। ६७।

ज्ञा./२०/२४ अपास्य करण ग्राम यदारमन्यारमना स्वयम्। सेव्यते योगिभिस्तद्धि सुखमाध्यात्मिक मतम्। २४। =जो इन्द्रियोंके विषयोंके बिना ही अपने आत्मामें आत्मासे ही सेवन करनेमें आता है उसको ही योगीश्वरोंने आध्यात्मिक सुख कहा है। २४।

२. अव्यावाध सुखका लक्षण

प्र. स /टो/१४/४३/५ सहजशुद्धस्वरूपानुभवसमुत्पन्नरागादिविभाव-रहितसुखामृतस्य यदेकदेशसवेदन कृतं पूर्वं तस्यैव फलभूतमव्या-वाधसुख भवति। =स्वाभाविक शुद्ध आत्म स्वरूपके अनुभवसे उत्पन्न तथा रागादि विभावोंसे रहित सुखरूपी अमृतका जो एक देश अनुभव पहले किया था, उसीके फलस्वरूप अव्यावाध अनन्त-सुख गुण सिद्धोंमें कहा गया है।

३. अतीन्द्रिय सुखसे क्या तात्पर्य

स.सा./आ/४११/१०/७ हे भगवन्। अतीन्द्रियसुख निरन्तरं व्याख्यात भवतिस्तच्च जनैर्न ज्ञायते। भगवानाह—कोऽपि देवदत्त स्त्री-सेवनाप्रभृतिपञ्चेन्द्रियविषयव्यापाररहितप्रस्तावे निर्व्याकुलचित्त तिष्ठति, स केनापि पृष्ट भो देवदत्त। सुखेन तिष्ठसि त्वमिति। तेनोक्त सुखमस्तीति तस्मिन्मतीन्द्रियम्। यत्पुन समस्तविकल्प-जालरहिताना समाधिस्थपरमयोगिनां स्वसवेदनगम्यमतीन्द्रिय-सुख तद्विषेणेति। यच्च मुक्तात्मनामतीन्द्रियसुख तदनुमानगम्य-मागमगम्य च। =प्रश्न—हे भगवन्। आपने निरन्तर अतीन्द्रिय ऐसे मोक्ष सुखका वर्णन किया है, सो ये जगत्के प्राणी अतीन्द्रिय सुखको नहीं जानते हैं। इन्द्रिय सुखको ही सुख मानते हैं। उत्तर—जैसे कोई एक देवदत्त नामक व्यक्ति, स्त्री सेवन आदि पञ्चेन्द्रिय व्यापारसे रहित, व्याकुल रहित चित्त अकेला स्थित है उस समय उससे किसीने पूछा कि हे देवदत्त, तुम सुखी हो, तब उसने कहा कि हाँ सुखसे हूँ। सो यह सुख अतीन्द्रिय है। (योंकि उस समय कोई भी इन्द्रिय विषय भोगा नहीं जा रहा है।) और जो समस्त विकल्प जालसे रहित परम समाधिमें स्थित परम योगियोंके निर्विकल्प स्वसवेदनगम्य वह अतीन्द्रिय सुख विशेषतासे होता है। और जो मुक्त आत्माके अतीन्द्रिय सुख होता है, वह अनुमानसे तथा आगमसे जाना जाता है। (प, प्र /-टो/२/६)।

४. सुख वहाँ है जहाँ दुःख न हो

आ. अनु./४६ स धर्मो यत्र नाधर्मस्तस्युखं यत्र नासुखम्। ४६। =धर्म वह है जिसके होने पर अधर्म न हो, सुख वह है जिसके होने पर दुःख न हो।

प घ /उ/२२४ नैव यत् सुख नैतत् तस्मिन् यत्र नासुखम्। स धर्मो यत्र नाधर्मस्तच्छुभं यत्र नाशुभम्। २२४। =ऐहिक सुख नहीं है, क्योंकि वास्तवमें वही सुख है, जहाँ दुःख नहीं, वही धर्म है जहाँ अधर्म नहीं है, वही शुभ है जहाँ पर अशुभ नहीं है।

५ ज्ञान ही वास्तवमें सुख है

प्र. सा/सू/६० ज केवल तिणान त सोखल परिणाम च सो चैव । वेदो तस्स ण भणितो जम्हा वादी खय जादा ।६०। = जो 'केवल' नामका ज्ञान है, वह सुख है, परिणाम भी वही है। उसे वेद नहीं कहा गया है, क्योंकि वादी कर्म क्षयको प्राप्त हुए है ।६०।

स सि/१०/४/४६८/१३ ज्ञानमयत्वाच्च सुखस्येति । = सुख ज्ञानमय होता है ।

६. अलौकिक सुखमें लौकिकसे अनन्तपने की कल्पना

भ आ/सू/२१४८-२१५१ देविदचक्राष्टी इदियसोखल च ज अणुवहति । सहरसरुवगधम्परिसप्पयमुत्तम लोए ।२१४८। अव्याबाध च सुह सिद्धा ज अणुहवति लोभग्गे । तस्स हु अणतभागो इदियसोखल तय होज्ज ।२१४९। ज सव्वे देवगणा अच्चरसहिया सुह अणुहवति । तत्तो वि अणतगुण अव्याबाध सुह तस्स ।२१५०। तिस्रु वि कालेसु सुहाणि जाणि माणुसतिरिखलदेवाण । सव्वाणि ताणि ण समाणि तस्स खणमित्तमोखेण ।२१५१। = स्पर्श, रस, गन्ध, रूप, शब्द इत्यादिकोंसे जो सुख देवेन्द्र चक्रवर्ती वगैरहको प्राप्त होता है, जो कि इस लोकमें श्रेष्ठ माना जाता है, वह सुख सिद्धोंके सुखका अनन्तवाँ हिस्सा है, सिद्धोंका सुख बाधा रहित है, वह उनको लोकाग्रमें प्राप्त होता है ।२१४८-२१४९। अप्सराओंके साथ जिस सुखका देवगण अनुभव करते हैं, सिद्धोंका सुख उससे अनन्त गुणित है, और बाधा रहित है ।२१५०। तीन कालमें मनुष्य, तिर्यच और देवोंको जो सुख मिलता है वे सब मिलकर भी सिद्धके एक क्षणके सुखको भी बराबरी नहीं करते ।२१५१। (ज्ञा/४२/६४-६८)

सू आ/११४४ ज च कामसुहं लोए ज च दिव्यमहासुह । वीतराग-सुहस्सेदे णतभागवि णग्घई ।११४४। = लोकमें विषयोंसे जो उत्पन्न सुख है, और जो स्वर्गमें महा सुख है, वे सब वीतराग सुखके अनन्तवें भागकी भी समानता नहीं कर सकते हैं ।११४४। (ध १३/५,४,२४/ गा ५/५१)

प प्र/सू/१/११७ ज मुणि लहइ अणत-सुहु णिय अप्पा भायत्तु । त सुह इद वि णवि लहइ देविहिं कोडि रमत्तु ।११७। = अपनी आत्माको ध्यावता परम मुनि जो अनन्तसुख पाता है, उस सुखको इन्द्र भी करोड देवियोंके साथ रहता हुआ नहीं पाता ।११७।

ज्ञा/२१/३ यत्सुखं वीतरागस्य मुने प्रशमपूर्वकम् । न तस्यानन्तभागोऽपि प्राप्यते त्रिदशेश्वरैः ।३। = जो सुख वीतराग मुनिके प्रशमरूप विशुद्धता पूर्वक है उसका अनन्तवाँ भाग भी इन्द्रको प्राप्त नहीं होता है ।३।

त्रि सा/५६० चक्रिकुरुफणिसुंरिददेवहमिदे ज सुहं तिकालभव । तत्तो अणतगुणिद सिद्धाण खणसुह होदि ।५६०। = चक्रवर्ती, भोगभूमिज, धरणेन्द्र, देवेन्द्र और अहमिन्द्रके इनके क्रमश अनन्तगुणा अनन्तगुण सुख है । इन सबका त्रिकालमें होने वाला अनन्त सुख एकत्रित करने पर भी सिद्धोंके एक क्षणमें होने वाला सुख अनन्त गुणा है ।५६०। (बो पा/टी/१२/८२ पर उद्धृत)

७. छद्मस्थ अवस्थामें भी अलौकिक सुखका वेदन होता है

दे. अनुभव/४/३ आरमरत होने पर तेरे अवश्यमेव वचनके अगोचर अनन्त सुख होगा ।

प प्र/सू/१/११८ अप्पा दसणि जिणवरहं ज सुहु होइ अणत्तु । त सुहु लहइ विराउ जिउ जाणतउ सिउ सत्तु ।११८। = शुद्धात्माके दर्शनमें जो अनन्त सुख जिनेश्वर देवोंके होता है, वह सुख वीतराग भावनासे परिणत हुआ मुनिगज निजशुद्धात्मभावको तथा रागादि रहित शान्त भावको जानता हुआ पाता है ।११८।

न. च वृ/४०३ सोखल च परागसोखल जंवे चारित्तमजुदे विट्ठं । वडुह त जहवग्गे अणवरय भावणालीणे ।४०३। = चारित्रसे सयुक्त तथा भावना लीन यतिवर्गमें निरन्तर परम सुख देखा जाता है ।

प. वि/२३/३ एकरयस्थितये मतिर्यदनिश सजायते मे तयाप्यानन्द परमात्मसन्धिगत किञ्चित्तमुन्मीलति । किञ्चित्कालमवाप्य सैव सकलै शीलैर्गुणैराश्रिता । तामानन्दकलां विशालविलसद्बोधार् करिष्यत्यसौ ।३। = एकरवकी स्थितिके लिए जो मेरी निरन्तर बुद्धि होती है, उसके निमित्तसे परमात्माकी समोपत्ताको प्राप्त हुआ पानन्द कुछ थोडा सा प्रकट होता है । वही बुद्धि कुछ काल प्राप्त होकर समस्त शीलों और गुणोंके आधारभूत एव प्रकट हुए उस विपुल ज्ञानसे सम्पन्न आनन्दकलाको उत्पन्न करेगी ।३।

स्या म/८/८७/२५ इहापि विषयनिवृत्तिज सुखमनुभवसिद्धमेव । = ससार अवस्थामें भी विषयोंकी निवृत्तिसे उत्पन्न होने वाला सुख अनुभवसे सिद्ध है ।

प प्र/टी/१/११८ दीक्षाकाले स्वशुद्धात्मानुभवने यत्सुख भवति जिनवराणां वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरतां जीवरत्तसुख लभत इति । = दीक्षाके समय तीर्थंकर देव निज शुद्ध आत्माको अनुभवते हुए जो निर्विकल्प सुखको पाते हैं, वही सुख रागादि रहित निर्विकल्प समाधिमें लीन विरक्त मुनि पाते हैं । (और भी दे सुख/२/१०)

८. सिद्धोंके अनन्त सुखका सञ्ज्ञाव है

रा वा/१०/४/१०/६४३/१८ यस्य हि मूर्तिरस्ति तस्य तत्पूर्वक प्रीतिपरि-तापसबन्ध स्यात्, न चामूर्तानां मुक्तानां जन्ममरणद्वन्द्वोपनिपात-व्याभाधास्ति, अतो निर्व्याबाधत्वात् परमसुखिनरते । = मूर्त अवस्थामें ही प्रीति और परितापकी सम्भावना थी । परन्तु अमूर्त ऐसे मुक्त जीवोंके जन्म, मरण आदि द्वन्द्वोंकी बाधा नहीं है । पर सिद्ध अवस्था होनेसे वे परम सुखी हैं ।

घ १/१,१,१/गा ४६/५८ अदिमयमाद-समुरथं विसयादीद अणोवम-मणत । अव्युच्छिण्ण च सुह सुदुबजोगो य सिद्धाण ।४६। = अति-शय रूप आत्मासे उत्पन्न हुआ, विषयोंसे रहित, अनुपम, अनन्त और विच्छेद रहित सुख तथा शुद्धोपयोग सिद्धोंके होता है ।४६।

घ १/१,१,३३/गा. १४०/२४८ णेव य इदियमोखला अणिदियाणत-णाण-सुहा ।१४०। = सिद्ध जीवोंके इन्द्रिय सुख भी नहीं हैं, क्योंकि उनका अनन्त ज्ञान और अनन्त सुख अनिन्द्रिय है । (गो जी/सू/१/७४)

त सा./५/४५ ससारविषयातीत सिद्धानामव्यय सुखम् । अव्याबाध-मिति प्रोक्त परम परमपिभि ।४५। = सिद्धोंका सुख ससारके विषयोंसे अतीत, स्वाधीन, तथा अव्यय होता है । उस अविनाशी सुखको अव्याबाध कहते हैं ।४५।

स्या म/८/६३ पर उद्धृत श्लोक—सुखमात्यन्तित यत्र बुद्धिप्राप्तमती-न्द्रियम् । तं च मोक्ष विजानीयाह दुष्प्रापमृतात्मभि । = जिस अवस्थामें इन्द्रियोंसे बाह्य केवल बुद्धिसे प्रष्ट करने योग्य आत्यन्तिक सुख विद्यमान है वही मोक्ष है ।

स्या म/८/८६/४ मोक्षे निरतिशयक्षयमनपेक्षमनन्त च सुख तद् माह विद्यते । = निरतिशय, अक्षय और अनन्त सुख मोक्षमें विद्यमान है ।

९ सिद्धोंका सुख दुःखाभाव मात्र नहीं है

घ. १३/५.५.१६/२०८/८ किमेत्थ सुहमिदि घेप्पदे । दुक्खवन्मो सुह णाम । दुक्खत्तव्वजो सुहमिदि किण्ण घेप्पदे । प, तस्म कम्मक्खण्णु-प्पज्जाणत्तस जीवमहावत्स कम्मज्जिदत्तविगोहादो । = प्रश्न—प्रश्न-में (वेदनीयकर्म जन्य सुख प्रकरणमें) सुख दुःखका क्या अर्थ लिया गया है । उत्तर—प्रश्नमें दुःखके उपशम रूप नृप्य लिया गया है । प्रश्न—दुःखका क्षय सुख है, ऐसा क्यों नहीं कहा करते ' उत्तर—नहीं,

क्योंकि, वह कर्मके क्षयसे उत्पन्न होता है। तथा वह जीवका स्वभाव है, अतः उसे कर्म जनित माननेमें विरोध आता है।

स्या म ८/८६/४ न चाद्य सुखशब्दो दुःखाभावमात्रे वर्तते। मुख्यसुख-वाच्यतायां बाधकाभावात्। अयं रोगाद् विप्रमुक्त सुखो जात इत्यादिवाक्येषु च सुखोक्ति प्रयोगस्य पौनरुक्त्यप्रसङ्गाच्च। दुःखाभाव-मात्रस्य रोगाद् विप्रमुक्त इतीत्यैव गतरवात्। न च भवदुःखीरितो मोक्ष पुसायुपादेयतया समतः। को हि नाम शिलाकल्पमपगतसम्पन्न-सुखसंवेदनमारमानयुपपादयित् यतेत। दुःखसंवेदनरूपत्वादस्य सुख-दुःखयोरेकस्याभावेऽपरस्यावश्यंभावात्। अत एव स्वदुःखस्य श्रूयते-वर्णनं वृन्दावने रम्ये क्रोष्टृत्वमभिवाञ्छितम्। न तु वैशेषिकीं मुक्तिं गीतमो गन्तुमिच्छति। = यहाँ पर (मोक्षमें) सुखका अर्थ केवल दुःखका उभाव ही नहीं है। यदि सुखका अर्थ केवल दुःखका अभाव ही किया जाये, तो 'यह रोगी रोग रहित होकर सुखी हुआ है' आदि वाक्योंमें पुनरुक्ति दोष आता चाहिए। क्योंकि उक्त सम्पूर्ण वाक्य न कहकर 'यह रोगी रोग रहित हुआ है', इतना कहनेसे ही काम चल जाता है। तथा शिलाके समान सम्पूर्ण सुखोंके संवेदनसे रहित वैशेषिकोंकी मुक्तिको प्राप्त करनेका कौन प्रयत्न करेगा। क्योंकि वैशेषिकोंके अनुसार पापाणकी तरह मुक्त जीव भी सुखके अनुभवसे रहित होते हैं। अतएव सुखका इच्छुक कोई भी प्राणी वैशेषिकोंकी मुक्तिकी इच्छा न करेगा। तथा यदि मोक्षमें सुखका अभाव हो, तो मोक्ष दुःख रूप होना चाहिए। क्योंकि सुख और दुःखमें एकका अभाव होने पर दूसरेका सद्भाव अवश्य रहता है। कुछ लोगोंने वैशेषिकोंकी मुक्तिका उपहास करते हुए कहा है, "गीतम श्रुपि वैशेषिकोंकी मुक्ति प्राप्त करनेकी अपेक्षा वृन्दावनमें शृगाल होकर रहना अच्छा समझते हैं।"

रा वा. १०/१४/४ उद्धृत श्लो० २४-२६/६५० "स्यावेतदशरीरस्य जन्तोर्निष्ठाष्टकर्मणः। कथं भवति मुक्तस्य सुखमित्यत्र मे शृणु ॥२४॥ लोके चतुर्विधार्थेषु सुखशब्द प्रयुज्यते। विषये वेदनाभावे विपाके मोक्ष एव च ॥२४॥ सुखो वद्वि सुखो वायुर्विषयेऽपि ह कथ्यते। दुःखाभावे च पुरुष सुखितोऽस्मीति भाषते ॥२६॥ पुण्यकर्म विपाकाच्च सुखमित्येन्द्रियार्थं जम्। कर्मश्लेशविमोक्षाच्च मोक्षे सुखमनुत्तमम् ॥२७॥ सुपुत्रावस्थया तुभ्यां केचिदिच्छन्ति निर्वृत्तिम्। तदयुक्त क्रियावत्त्वात् सुखानुशयतस्तथा ॥२८॥ श्रमवत्तममदव्याधिमदने-ग्रस्य स भवात्। महोत्पत्तिर्विपाकाच्च दर्शनजन्य कर्मणः ॥ = प्रश्न—अशरीरी नष्ट अष्टमर्मा मुक्त जीवके कैसे तया सुख होता होगा। उत्तर—लोकमें सुख शब्दका प्रयोग विषय वेदना का अभाव, विपाक, कर्मफल और मोक्ष इन चार अर्थों में देखा जाता है। 'अग्नि सुखकर है, वायु सुखकारी है।' इत्यादिमें सुख शब्द विषयार्थक है। रोग आदि दुःखोंके अभावमें भी पुरुष 'मे सुखी हूँ' यह समझता है। पुण्य कर्मके विपाकमें इष्ट इन्द्रिय विषयोंसे सुखानुभूति होती है और श्लेश के विमोक्षसे मोक्ष का अनुभव सुख प्राप्त होता है ॥२३-२७॥ कोई इस सुखको सुपुत्र अवस्थाके समान मानते हैं, पर यह ठीक नहीं है, क्योंकि उनमें सुखानुभव रूप क्रिया होती है और सुपुत्र अवस्था तो दर्शनवरणी कर्मके उदयसे श्रम, फल, मद, व्याधि काम आदि निमित्तोंसे उत्पन्न होती है और मोह विचार रूप है ॥२५-२६॥

३० सिद्धोंमें सुखके अस्तित्व की सिद्धि

आ. अनु १२/१० स्वाधीनसुखसंपन्ना न सिद्धा सुखिन कथम् = तपस्वी जो स्वाधीनता पूर्वक कायभोग आदिके कष्टको सहते हैं वह भी जय उनको सुखकर प्रतीत होता है, तप फिर जो सिद्ध स्वाधीन सुखसे सम्पन्न हैं वे सुखी कैसे न होंगे अर्थात् अवश्य होंगे।

दे सुग/२/३ इन्द्रिय व्यापारमें रहित समाधिमें स्थित योगियों को

वर्तमानमें सुख अनुभव होता है और सिद्धोंको सुख अनुमान और आगमसे जाना जाता है।

प घ/३०/३४८ अस्ति शुद्ध सुखं ज्ञान सर्वत कस्यचिद्यथा। देश-तोऽप्यस्मददीनां स्वाद्युमात्र नत द्वयो ॥३४८॥ = जैसे किसी जीवके सर्वथा सुख और ज्ञान होने चाहिए क्योंकि खेद है कि हम लोगोंके भी उन शुद्ध सुख तथा ज्ञानका एकदेश रूपसे अनुभव मात्र पाया जाता है। (अर्थात् जब हम लोगोंमें शुद्ध सुख का स्वादमात्र पाया जाता है तो अनुमान है किन्हींमें इनकी पूर्णता अवश्य होनी चाहिए) ॥३४८॥

११ कर्मोंके अभावमें सुख भी नष्ट क्यों नहीं होता

घ ६/३४-३६/४ सुह दुःखलाङ्गं कर्मोहितो ह्येति, तो कर्मसे विण्टेसु सुह-दुःखलक्षण जीवण होदत्तं। जं किं पि दुःख पात त अमादावेदणीयादो होदि, तस्स जीवसंखलक्षणाभावात्। सुह पुण ण कम्मादो उप्पज्जदि, ण सादावेदणीयाभावे वि, दुःखसुवसमहेवमुदव्व-संपादणे तस्स वावारादो। = प्रश्न—यदि सुख और दुःखसे रहित हो जाते हैं तो कर्मोंके विनष्ट हो जाने पर जीवको सुख और दुःखसे रहित हो जाना चाहिए। उत्तर—दुःख नामकी जो कोई भी वस्तु है वह असादा वेदनीय कर्मके उदयसे होती है, क्योंकि वह जीवका स्वरूप नहीं है। किन्तु सुख कर्मसे उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वह जीवका स्वभाव है। सुखको जीवका स्वभाव मानने पर सादा वेदनीय कर्म का अभाव भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि, दुःख उपशमन के कारणभूत सुदुःखोंके सम्पादनमें सादा वेदनीय कर्मका व्यापार होता है।

१२ इन्द्रियोंके विना सुख कैसे सम्भव है

अ स ८/३०/१५५/४ इन्द्रियसुखमेव सुखं, मुक्तात्मनामिन्द्रियशरीरा-भावे पूर्वोक्तमतीन्द्रियसुखं कथं घटत इति। सामारिकसुखं तावत् स्त्रीमेवनादि पञ्चेन्द्रियविषयप्रभवमेव, यत्पुनः पञ्चेन्द्रियविषय-व्यापाररहितानां निर्व्याकुलचित्तानां पुरुषाणां सुखं तदतीन्द्रिय-सुखमत्रैव दृश्यते। निर्विकल्पसमाधिस्थानां परमयोगिनां रागादि-रहितत्वेन स्वसंवेद्यमारमसुखं तद्द्वेषेणातीन्द्रियम्। = प्रश्न—जो इन्द्रियांसे उत्पन्न होता है वही सुख है, सिद्ध जीवोंके इन्द्रियों तथा शरीरका अभाव है, इस लिए पूर्वोक्त अतीन्द्रिय सुख सिद्धोंके कैसे हो सकता है। उत्तर—सारी सुख तो स्त्रीसेवनादि पाँचों इन्द्रियोंसे ही उत्पन्न होता है, किन्तु पाँचों इन्द्रियोंके व्यापारसे रहित तथा निर्व्याकुल चित्त वाले पुरुषोंको जो उत्तम सुख है वह अतीन्द्रिय है। वह इस लोकमें भी देखा जाता है। निर्विकल्प ध्यानमें स्थित परम योगियोंके रागादिके अभावसे जो स्वसंवेद्य आरिभक्त सुख है, वह विशेष रूपसे अतीन्द्रिय है।

प्र सा ५/६५ पप्पा इदं विषये फासेहि समस्सिदे सहावेण। परिणम-माणो अप्पा सयमेव सुह ण हवदि देहो ॥६५॥ = स्पर्शादिक इन्द्रियों जिसका आश्रय लेती है, ऐसे इष्ट विषयोंको पाकर (अपने अशुद्ध) स्वभावसे परिणमन करता हुआ आत्मा स्वयं ही सुख रूप होता है। देह सुख रूप नहीं होती। (त, सा ८/४२-४५)

दे प्रत्यक्ष/७/४ में प्र सा. यह आत्मा स्वयमेव अनाकुलता लक्षण सुख होकर परिणमित होता है। यह आत्माका स्वभाव ही है।

त अनु०/२४१-२४६ ननु चार्थस्तदर्थानामनु भोक्तुं सुखं भवेत्। अतीन्द्रियेषु मुक्तेषु मोक्षे तत्कीदृशसुखम् ॥२४०॥ इति चेन्नमन्यसे मोहात्तन्न श्रेयो मत्तं यत्। नाथापि वत्स। त्व वेत्सि स्वरूपं सुखदुःखयो ॥२४१॥ आत्मायत्त निराबाधमतीन्द्रियमनश्चरम्। धात्तिसर्गस्योद्भूत यत्तन्मोक्षसुखं विदुः ॥२४२॥ तन्मोहस्येव माहात्म्यं विषयेऽपि यत्सुखम्। यत्पटीलमपि स्वाद्यु श्लेषमणस्तद्विजम्भितम् ॥२४३॥ यदत्र चक्रिणां सौख्यं यच्च स्वर्गं दिव्यैकताम्। कलयापि न तत्सुखं

सुखस्य परमात्मनाम् ॥२४६॥ = प्रश्न—सुख तो इन्द्रियोंके द्वारा उनके विषय भोगनेवालेके होता है, इन्द्रियोंसे रहित मुक्त जीवोंके वह सुख कैसे। उत्तर—हे बरस, तू जो मोहसे ऐमा मानता है वह तेरी मान्यता ठीक अथवा ऋष्याणकारी नहीं है क्योंकि तूने अभी तक (नास्तवमें) सुख-दुःखके स्वरूपको ही नहीं समझा है। (२४०-२४१) जो घातिया कर्मोंके क्षयसे प्रादुर्भूत हुआ है, स्वात्माधीन है, निराबाध है, अतीन्द्रिय है, और अनश्वर है, उसको मोक्ष सुख कहते हैं ॥२४२॥ इन्द्रिय विषयों से जो सुख माना जाता है वह मोहका ही माहात्म्य है। पटोल (कट्ट वस्तु) भी जिसे मधुर माखूम होती है तो वह उसके श्लेषमा (कफ) का माहात्म्य है। ऐसा समझना चाहिए ॥२४३॥ जो सुख यहाँ चक्रों को प्राप्त है और जो सुख देवों को प्राप्त है वह परमात्माओंके सुखको एक कलाके (बहुत छोटे अंशके) बराबर भी नहीं है ॥२४४॥

त्रि सा. ॥५६६॥ एय सत्य मव्व वा सम्ममेरथ जाणता। तिव्व तुस्सति परा किण्ण समत्थत्थत्तच्चण्हू ॥५६६॥ = एक शास्त्र को सम्यक् प्रकार जानते हुए इस लोकमें मनुष्य तीव्र सन्तोष को प्राप्त करते हैं, तो समस्त तत्त्व स्वरूपके ज्ञायक सिद्ध भगवन्त कैसे सन्तोष नहीं पावेंगे। अर्थात् पाते ही है ॥५६६॥ (जो पा/टी ॥१२/८२ पर उद्धृत)

प. घ/उ/श्लोक न ननु देहेन्द्रियाभाव प्रसिद्धपरमात्मनि। तदभावे सुख ज्ञानं सिद्धिमुत्तरोयते कथम् ॥३४६॥ ज्ञानानन्दी चित्ता धर्मो नित्यी द्रव्योपजीविनी। देहेन्द्रियाद्यभावेऽपि नाभावस्तद्द्वयोरिति ॥३४६॥ तत् सिद्धं शरीरस्य पञ्चाक्षाणा तदर्थसात्। अस्त्यकिंचित्करत्वं तच्चित्तो ज्ञान सुख प्रति ॥३४६॥ = प्रश्न—यदि परमात्मामें देह और इन्द्रियोंका अभाव प्रसिद्ध है तो फिर परमात्माके शरीर तथा इन्द्रियोंके अभावमें सुख और ज्ञान कैसे कहे जा सकते हैं ॥३४६॥ उत्तर—आत्माके ज्ञान और सुख नित्य तथा द्रव्यके अनुजीवी गुण है, इसलिए परमात्माके देह और इन्द्रियके अभावमें भी दोनों (ज्ञान और सुख) का अभाव नहीं कहा जा सकता है ॥३४६॥ इसलिए सिद्ध होता है कि आत्माके इन्द्रियजन्य ज्ञान और सुखके प्रति शरीरको पाँचों ही इन्द्रियोंको तथा इन्द्रियविषयोंको अकिंचित्करत्वं है ॥३४६॥

१३. अलौकिक सुखकी श्रेष्ठता

म आ/सू/१२६६-१२७०/१२२५ अण्णायत्ता अण्णपरदी भागरमण परायत्त। भोगरदीए चइदी होदि ण अण्णपरमणेण ॥२६६॥ भोगरदीए णासो गियदी विग्घा य होति अविग्घाहुगा। अण्णपरदीए सुभाविदाए णासो ण विग्घो वा ॥२७०॥ = स्नात्मानुभवमें रति बरनेके लिए अन्य द्रव्यकी अपेक्षा नहीं रहती है, भोग रतिमें अन्य पदार्थोंका आश्रय लेना पड़ता है। अतः इन दोनों रतियोंमें साम्य नहीं है। भोगरतिसे आत्मा च्युत होनेपर भी अध्यात्म रतिसे भ्रष्ट नहीं होता, अतः इस हेतुसे भी अध्यात्म रति भोग रतिसे श्रेष्ठ है ॥२६६॥ भोगरतिका सेवन करनेसे नियमसे आत्माका नाश होता है, तथा इस रतिमें अनेक विघ्न भी आते हैं। परन्तु अध्यात्म रतिका उत्कृष्ट अभ्यास करनेपर आत्मा नाश भी नहीं होता और विघ्न भी नहीं आते। अथवा भोगरति नश्वर तथा विघ्नोत्ति युक्त है, पर अध्यात्म रति अविनश्वर और निर्विघ्न है।

१४ अलौकिक सुख प्रासिका उपाय

स श/सू/१२१ आत्मविभ्रमजं दुःखमः रमज्ञानात्प्रशाम्यति। = शरीरादिमें आत्मबुद्धिसे उत्पन्न दुःख आत्मस्वरूपके अनुभव करनेसे शान्त हो जाता है।

आ अनु/१६६-१६७ हाने शोकरततो दुःखलाभादागमत्त सुखम्। तेन हानावशोकं सद् सुखी स्वात्सर्वदा सुधी ॥१६६॥ सुखी सुख-मिहाप्यत्र दुःखी दुःख समरनुते। सुखं सकलसन्धासो दुःखं तस्य

विपर्यय ॥१६७॥ = इष्ट वस्तुकी हानिसे शोक और फिर उससे दुःख होता है तथा उसके लाभसे राग और फिर उससे सुख होता है। इसलिए बुद्धिमान् मनुष्यको इष्टकी हानिमें शोकसे रहित होकर सदा सुखी रहना चाहिए ॥१६६॥ जो प्राणी इस लोकमें सुखी है, वह परलोकमें सुखको प्राप्त होता है, जो इस लोकमें दुःखी है वह परलोकमें दुःखको प्राप्त होता है। कारण कि समस्त इन्द्रिय विषयोंसे विरक्त हो जानेका नाम सुख और उनमें आसक्त होनेका नाम ही दुःख है ॥१६७॥

दे सुख/२/३ बीतराग भावमें स्थिति पानेसे साम्यरम रूप अतीन्द्रिय सुखका वेदन होता है।

सुखकारण व्रत—जिन-किसी माममें प्रारम्भ करके एक उपवास

पारणा क्रमसे ४८ महीने तक ६८ उपवास करे। नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप करे। (व्रत विधान संग्रह/पृ. ८४), (किशन सिंह क्रियाकोप)

सुखदुःखोपसंयत—दे समाचार।

सुखबोध—तत्त्वार्थ सूत्रपर आ यज्ञ कीर्ति (ई. श. १३) द्वारा रचित सस्मृत टीका।

सुखम काल—दे काल/४।

सुख शक्ति—स सा/आ/परि/शक्ति ५ अनाकुलत्वलक्षणा सुख-शक्ति। = आकुलतासे रहितपना जिसका लक्षण है, ऐसी सुख शक्ति है।

सुखसंपत्ति व्रत—इस व्रतकी विधि तीन प्रकारसे कही है—उत्तम, मध्यम व अधम्य। उत्तमविधि—१५ महीने तक १ पडिमा, २ दोज, ३ तीज, ४ चौथ, ५ पचमी, ६ छठ, ७ मसमी, ८ अष्टमी, ९ नवमी, १० दशमी, ११ एकादशी, १२ द्वादशी, १३ त्रयोदशी, १४ चतुर्दशी, १५ पूर्णिमा, १६ अमावस्या, इस प्रकार कुल १३३ दिनके लगातार १३३ उपवास उन तिथियोंमें पूरे करे। (व्रत वि स में १३३ के बजाय १२० उपवास बताये हैं, क्योंकि वहाँ पन्द्रहका विकल्प एक बार लिया है। नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप करे। (वसु श्रा./-३६८-३७२), (व्रत विधान स/पृ ६६) (किशनसिंह क्रियाकोप) मध्यमविधि—उपरोक्त ही १२० उपवास तिथियोंसे निरपेक्ष पाँच वर्षमें केवल प्रतिमासकी पूर्णिमा और अमावस्याको पूरे करे। तथा नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप करे। (व्रत विधान स/६७), (किशनसिंह क्रियाकोप) अधम्यविधि—जिस किसी भी मामकी वृ. १ से शु १ तक १६ उपवास लगातार करे। नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप्य। (व्रतविधान स/पृ ६७), (किशनसिंह क्रियाकोप)।

सुखानुबन्ध—स, सि/८/२७/३७०/६ अनुभूतमीतिविशेषमृतिसम-न्वाहार सुखानुबन्ध। = अनुभवमें आये हुए विविध सुखाना पुन-पुन स्मरण करना सुखानुबन्ध है। (रा वा/७/३७/६/६६/७) रा वा/हि/८/३७/६-९ पूर्व सुख भोगे थे तिन स प्रीति विशेषके निमित्त तै बार-बार याद करना तथा वर्तमानमें सुख ही चाहना सो सुखानुबन्ध है।

सुखावह—अपर त्रिवेदेस्य एक वक्षार, उसरा एच इट तथा उरा कूटवा स्वामी देव—दे लोक/७।

सुखासन—दे आसन।

सुखोदय क्रिया—दे नस्कार/२।

सुगंध—१ दक्षिण अरुणाभास द्वीपका रक्षक देव—दे, व्यन्त-४/७-७, २ अरुण समुद्रका रक्षक व्यन्तर देव—दे व्यन्तर/४/७।

सुगंधदशमी व्रत—१० वर्षतक भाद्रपद शु १० को उपवास तथा नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप। (मतविधान संघट/पृ ८७); (किशनसिंह क्रियाकाण्ड)।

सुगंधा—अपर विदेहस्थ एक क्षेत्र। अपरनाम वसु/—दे लोक/७।

सुगंधिनी—विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर—दे लोक/७।

सुगत—स. श/टी/२/२०३/२ शोभा गत छात्र यरमासी सुगत, सुष्ठु वा अपुनत्तार्यगति गत, सम्पूर्ण वा अनन्तचतुष्टय गत प्राप्त सुगत। = जिसका ज्ञान साभागी प्राप्त हुआ है वह सुगत है। अधवा जो उत्तम मोक्ष गतिको प्राप्त हुआ है, जयया जिनमें सम्पूर्ण अनन्त चतुष्टय प्राप्त हुए हैं, वह सुगत है। (म. स. टी./१४/४०)।

सुगात्र—वरांगना पुत्र (वरांग चरित्र/२८/६)।

सुग्रीव—(प. पु/सर्ग/१लोक) किष्किन्ध पुरीके राजा सूर्यरजना पुत्र था तथा बालीका छोटा भाई था। (६/१०) आसुके अन्तमें दीक्षित हो गया। (११६/३६)

सुचक्षु—१ उत्तर मानुषोत्तर पर्वतका रक्षक व्यस्तार देव—दे व्यस्तार/४/७। २ बाह्य पुष्करार्धका रक्षक व्यस्तार देव—दे, व्यस्तार/४/७।

सुचरित मिथ—मीमांसा दर्शनके टीकाकार—दे मीमांसा दर्शन।

सुतारा—सुग्रीवकी पत्नी थी। साहसगति नामक विद्याधर उसको चाहता था। (प. पु/१०/५—११)

सुदर्शन—१ विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर—दे, विद्याधर, २ सुमेरु पर्वतका अपर नाम—दे सुमेरु, ३ मानुषोत्तर पर्वतस्थ स्फटिक कूटका स्वामी भवनवासी सुपर्ण कुमार देव—दे, लोक/७, ४ रुचक पर्वतस्थ एक कूट—दे लोक/७, ५ नवग्रहेयार स्वर्गना प्रथम पटल व इन्द्रक—दे स्वर्ग/५, ६ भगवान् वीरके तीर्थमें अन्तकृत केवली हुए—दे अंतकृत, ७ पूर्वभवन २ में दीक्षितशोका पुरीका राजा था। पूर्व भवमें सहस्रार स्वर्गमें देव हुआ। वर्तमान भवमें पचम बलभद्र हुए हैं। (म. पु/६१/६६-६६) विदोष—दे, दालाका पुरप/३, ८ चम्पा नगरीके राजा वृषभदामका पुत्र था। महारानी अभयमती इनके ऊपर मोहित हो गयीं परन्तु ये ब्रह्मचर्यमें दृढ़ रहे। रानीने क्रुद्ध होकर इनको सूलीकी सजा दिलायी, परन्तु इनके शीलके प्रभावसे एक व्यन्तरने सूलीको सिंहासन बना दिया। तप इन्होंने विरक्त हो दीक्षा ग्रहण कर ली। इतनेपर भी छलसे रानीने इनको पडगाह कर तीन दिन तक कुचेष्टा की। परन्तु आप ब्रह्मचर्यमें अडिग रहे। फिर पीछे बनमें घोर तप किया। उस समय रानीने वैरसे व्यन्तरी बनकर घोर उपसर्ग किया। ये उपसर्गको जीत कर मोक्ष धाम पधारे। (सुदर्शन चरित्र)

सुदर्शन चरित्र—१, आ नयनन्दि (ई ६६३ १०४३) द्वारा रचित संस्कृत छन्द बद्ध ग्रन्थ। २, सफलकीर्ति भट्टारक द्वारा रचित संस्कृत छन्द बद्ध ग्रन्थ। इसमें ६०० श्लोक हैं। ३ आ विद्यानन्दि द्वि (ई ११४८-११६८) की एक रचना।

सुदर्शन व्रत—दे दर्शन विद्युद्धि।

सुदास—यह वैवस्वतयमकी १२वीं पीढ़ीमें इक्ष्वाकु वंशी राजा था। वेदोंमें इसकी बड़ी प्रशंसा की जाती है जबकि जैनागममें इसकी निन्दा की गयी है। समय—ई पू २१०० (रामा कृष्ण द्वारा सशोधित इक्ष्वाकु वंशावली)

सुधर्म—श्रुतावतारकी पद्मावलीके अनुसार आप भगवान् वीरके परचाव दूसरे केवली हुए। अपर नाम लोहार्य था। समय—वी नि १२-१४ (ई. पू ६१६-६०३)—दे, इतिहास/४/१।

सुधर्म सेन—युगाट संघकी गुराबिनीके अनुगार आप भगवान् (श्रुतावतारके भग्न) के मिथ्य तथा मिष्टान्तके गुरु थे।—दे, इतिहास/४/१८।

सुधर्मा—गोधर्म इन्द्रकी सभा। विदेध—दे, मी. त्रि।

सुनंदियेण—१, पुन्याट नधकी गुराबिनीके अनुगार आप मिष्टान्तके मिथ्य तथा ईश्वरके गुरु थे। दे इतिहास/४/१८, २ युगाट संघकी गुराबिनीके अनुगार आप ईश्वरके मिथ्य तथा अभयके गुरु थे।—दे इतिहास/४/१८।

सुनक्षत्र—महावीरके तीर्थमें अनुभवीपना—दे, अनुभवीपनादक।

सुनपथ—प्रवाणके जोटोपर अर्जुन इनमें रहने लगा (म. पु/१६/१) यद्यपि यह वृक्षके निकट है जो वर्तमान मीमांसकी सुनपथ है।

सुपय—१ अपर विदेहस्थ एक क्षेत्र—दे, लोक/७। २ अनामक वक्षारका एक वृक्ष व उसका स्वामी देव—दे, लोक/७।

सुपर्ण—म. १३/५, १८०/३६१/८ सुपर्ण नाम सुभार्यारक्षक-किया।—सुभ पक्षीके आकार रूप विष्णु परीके अनुगार गंधीवादे सुपर्ण रहनाते हैं।

सुपर्ण कुमार—१, भवनवासो देवकी एक भेद—दे भवन/१। २ सुपर्ण कुमार देवोका लोकमें अवस्था—दे, भवन/१।

सुपाद्वनाथ—१ पूर्वभवन २ में छातरकी सटके शेषपुर नगरमें सुनंदियेण राजा था। पूर्व भवमें मत्त प्रेक्षकमें अहमिन्द्र। वर्तमान भवमें तप्तम तीर्थकर हुए हैं (म. पु/५१/२-११) विदोष—दे, तीर्थकर/६। ३ भाविराम्नीन तीरके तीर्थकर। अपर नाम सन्तु।—दे तीर्थकर/६।

सुपाद्वनाथ स्तोत्र—आ विद्यानन्दि (ई. ८०-८४०) द्वारा रचित संस्कृत छन्द बद्ध स्तोत्र है। इसमें तीन पंक्तियाँ हैं।

सुप्त—२ निद्रा।

सुप्रकीर्ति—रुचक पर्वत निवासिनी दिवकुमारी देवी—दे, लोक/७।

सुप्रणिधि—रुचक पर्वत निवासिनी दिवकुमारी देवी—दे लोक/७।

सुप्रतिष्ठ—१ रुचक पर्वतस्थ एक कूट—दे लोक/७। २ हस्तिनापुरके राजा प्रीचन्द्रा पुत्र था। दीक्षा लेकर ग्यारह जगोंका अध्ययन किया। तथा सोलह पारण भावनाओंका चिन्तन कर तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध किया। समाधिभरणक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र पद पाया। (म. पु/८०/६१-६६) यह नेमिनाथ भगवान्का पूर्वका दूसरा भव है।—दे नेमिनाथ। ३ यह पचम रूप थे—दे, दालाका पुरप/७।

सुप्रबंध—रुचक पर्वतस्थ एक कूट—दे लोक/७।

सुप्रबुद्ध—१ मानुषोत्तर पर्वतस्थ प्रवाल कूट व उसका स्वामी भवनवासी सुपर्णकुमार देव—दे लोक/७। २ नवग्रहेयकका तृतीय पटल व इन्द्रक—दे लोक/७।

सुप्रबुद्धा—रुचक पर्वत निवासिनी दिवकुमारी देवी—दे लोक/७।

सुप्रभ—१ कुण्डल पर्वतस्थ एक कूट—दे लोक/७। २, दक्षिण-घृतवर द्वीपका रक्षक देव—दे व्यस्तार/४/७। ३ उत्तर अरुणिवर द्वीपका रक्षक देव—दे व्यस्तार/४/७। ४ पूर्व भवन २ में पूर्व विदेहके नन्दन नगरमें महायल नामक राजा था। पूर्व भवमें सहस्रार स्वर्गमें देव हुआ। वर्तमान भवमें चौथे बलदेव थे। (म. पु/६८/५८-६३)। विशेष परिचय—दे, दालाका पुरप/३।

सुप्रभा—नन्दीश्वर द्वीपकी उत्तर दिशा में स्थित एक वापी—दे लोक/७।

सुप्रयोग—भरत क्षेत्रस्थ आर्यखण्डकी एक नदी—दे मनुष्य/४।

सुप्रीति क्रिया—दे संस्कार/२।

सुभग—१. सुभग व दुर्भग नामकर्मके लक्षण

स. सि /=११/३६१/११ यदुदयादन्यप्रीतिप्रभवस्तस्युभगनाम। यदुदया-
द्रूपादिगुणोपेतोऽप्यप्रीतिकरस्तद्दुर्भगनाम। = जिसके उदयसे अन्य
जन प्रीतिकर अवस्था होती है वह सुभग नामकर्म है। जिसके उदय
से रूपादि गुणोंसे युक्त होकर भी अप्रीतिकर अवस्था होती है वह
दुर्भग नामकर्म है। (रा. वा. ११/२३-२४/५७८/३१)। (गो क.
जी प्र. ३३/३०/६/१६)।

व ६/१, ६-१, २८/६६/१ स्थी-पुरिसाणं सोहृगगणिव्वत्तय सुभग णाम।
तेसि चैव दूहवभावणिव्वत्तय दूहवं णाम। = स्त्री और पुरुषोंके
सौभाग्यको उत्पन्न करने वाला सुभग नामकर्म है। उन स्त्री पुरुषोंके
ही दुर्भग भाव अर्थात् सौभाग्यको उत्पन्न करने वाला दुर्भग
नामकर्म है। (घ १३/५, ५, १०१/३६६/१४)।

२. एकेन्द्रियोंमें दुर्भग भाव कैसे जाना जाये

घ ६/१, ६-१, २८/६६/२ एइदियादिसु अव्वत्तचेट्ठेसु कथं सुहव-दुहव-
भावा णज्जते। ण, तस्य तसिमव्वत्ताणमामेण अत्थित्तसिद्धीदो।
= प्रश्न—अव्यक्त चेष्टा वाले एकेन्द्रियादि जीवोंमें सुभग और दुर्भग
भाव कैसे जाने जाते हैं। उत्तर—नहीं, क्योंकि एकेन्द्रिय आदिमें
अव्यक्त रूपसे विद्यमान उन भावोंका अस्तित्व आगमसे सिद्ध है।

सुभट वर्मा—भोजवशी राजा था। भोजवशीकी वंशावलीके अनुसार
यह राजा विन्ध्यवर्मा (विजयवर्मा) के पुत्र और अर्जुनवर्माका
पिता था। मालवा देशका राजा था और उज्जैनी व धारा राजधानी
थी। समय-वि, १२५७-१२६४ ई १२००-१२०७ विशेष-दे,
इतिहास/३/१।

सुभद्र—१ यक्ष जातिके व्यन्तर देवोंका एक भेद—दे. यक्ष, २ नव
ग्रैवेयकका पाँचवाँ पटल व इन्द्रक—दे. स्वर्ग/५। ३ अरुणोवर द्वीप-
का रक्षक व्यन्तर देव—दे व्यन्तर/४/७। ४ नन्दीश्वर द्वीपका रक्षक
व्यन्तर देव—दे, व्यन्तर/४/७। ५ रुचक पर्वतस्थ एक कूट—दे
लोक/७। ६ श्रुतावतारकी पट्टावलीके अनुसार आप भगवान् वीरके
पश्चात् मूल गुरु परम्परामें दश अगधारी अथवा दसरी मान्यतानुसार
केवल आचाराग धारी थे। समय—वी नि, ४६८-४७४ ई पू ५६-
६३—दे, इतिहास/४/१।

सुभद्रा—वा पु १६/ श्लोक-कृष्णकी बहन थी। (१६/३६) अर्जुनने
हरण कर (१६/३६) हमके साथ विवाह किया (१६/४६) इससे
अभिमन्युकी उत्पत्ति हुई (१६/१०९)। अन्तमें द्रोणात्ते (२५/१५)
घोर तप कर सोलहवें स्वर्ग गयी (२५/१४१)।

सुभाषितरत्नसंदोह—१ आ योगेन्द्रदेव (ई श ६) द्वारा
विरचित प्राकृत छन्द बद्ध आध्यात्मिक ग्रन्थ है। २ आचार्य अमित-
गति (ई ६६३-१०२९) द्वारा विरचित संस्कृत छन्द बद्ध आध्यात्मिक
ग्रन्थ है। इसमें ३३ प्रकरण हैं और कुल ६२२ श्लोक प्रमाण हैं।

सुभाषितरत्नावली—आ शुभचन्द्र (ई. १५१६-१५५६) द्वारा
रचित एक आध्यात्मिक ग्रन्थ।

सुभाषिताणव—आ शुभचन्द्र (ई १५१६-१५५६) द्वारा रचित एक
आध्यात्मिक ग्रन्थ।

सुभीम—राक्षसोंका इन्द्र। इसने सगर चक्रवर्तीके प्रतिद्वन्द्वीके पुत्र

मेघवाहनको अजितनाथ भगवान्के समवसरणमें अभयदानार्थ लका-
का राज्य दिया था। (प पु ५/१६०)।

सुभीम—पूर्व भव न २ में भरत क्षेत्रमें भूपाल नामक राजा था।
पूर्व भवमें महाशुक स्वर्गमें देव हुआ। वर्तमान भवमें अष्टम चक्रवर्ती
हुआ (म. पु ६/५१-५५) विशेष परिचय—दे शलाका पुरुष/२।

सुसति—१ पूर्व भव न २ में धातकी खण्डमें पुष्कलावती देशका
राजा था। पूर्व भवमें वैजयन्त विमानमें अहमिन्द्र हुआ। वर्तमान
भवमें पचम तीर्थकर थे (म. पु ५/११-१६)। विशेष परिचय—दे
तीर्थकर/५। २. आप मण्डवादी न १ के शिष्य थे। समय—वि,
४३६ (ई ३८३), (सि, वि / प्र ३४ प महेन्द्र)।

सुसतिकीर्ति—नन्दिसष बलात्कार गणकी गुर्वावलीके अनुसार
प्रभाचन्द न, ८ के शिष्य थे। आपने हस नामक किसी वर्णोंकी
प्रेरणासे मूलप्राकृत पचसंग्रहकी टीका लिखी थी। यह टीका
वि, १६२० में पूर्ण हुई थी। तदनुसार इनका समय—वि १६२०-
१६२५ (ई १६३-१६६) (का, अ / प्र ८३ A N UP), (प स /
प्र ४२ (A, N UP H L))—दे इतिहास/५/१३।

सुमनस—नव ग्रैवेयकका पाँचवाँ पटल व इन्द्रक—दे स्वर्ग/५।

सुमागधी—पूर्वी मध्य आर्य खण्डकी एक नदी—दे मनुष्य/४।

सुमाली—रावणका दादा था। इन्द्र नामक विद्याधरसे हारकर
पाताल लकामें रहने लगा था (प. पु ७/१३३)।

सुमित्र—म पु ६/१/श्लोक—राजगृह नगरका राजा बहुत बड़ा मग्न
था (५७-५८) राजसिंह नामक मग्नसे हारने पर (५६-६०) निर्वेद
पूर्वक दीक्षा ग्रहण कर ली (६२)। बड़ा राजा बननेका निदान कर
स्वर्गमें देव हुआ (६३-६५) यह पुरुषसिंह नारायणका पूर्वका दूसरा
भव है।—दे पुरुषसिंह

सुमुख—ह. पु १४/श्लोक—नरसदेशकी कौशाम्बी नगरीका राजा
था (६) एक समय वनमाला नामक स्त्रीपर मोहित होकर
(३२-३३) दूती भेजकर उसे अपने घर बुलाकर भोग किया (६४-
१०७) आहारदानसे भोगभूमिकी आयुका बन्ध किया। वज्रपात
गिरनेसे मरकर विद्याधर हुआ (१५/१२-१८) यह आर्य विद्याधरका
पूर्वका भव है।—दे. आर्य।

सुमुखी—विजयार्थकी दक्षिण श्रेणीका नगर—दे, विद्याधर।

सुमेधा—सुमेरु पर्वतके नन्दन वनमें स्थित निपधकूटकी दिवकुमारी
देवी—दे. लोक/७।

सुमेरु—मध्यलोकका सर्व प्रधान पर्वत है। विदेह क्षेत्रके बहुमध्य
भागमें स्थित स्वर्णवर्ण व कूटाकार पर्वत है। यह जम्बूद्वीपमें
एक, धातकी खण्डमें दो, पुष्करार्थ द्वीपमें दो पर्वत हैं, इस प्रकार
कुल ५ सुमेरु हैं। इसमेंमे प्रत्येक पर १६-१६ चैत्यालय हैं। इस
प्रकार पाँचों मेरुके कुल ८० चैत्यालय हैं। (विशेष—दे, लोक/३/६)।

१. सुमेरुका व्युत्पत्ति अर्थ

रा. वा ३/१०/१३/१८१/६ लोकत्रय मिनातीति मेरु इति। = तीनों
लोकोंका मानदण्ड है, इसलिये इसे मेरु कहते हैं।

२. इसके अनेकों अपर नाम

ह. पु ५/३७३-३७६ वज्रमूल मवे ह्यर्चूलिको मणिभिश्चित। विचित्रा-
श्चर्यसकीर्ण स्वर्णमध्य सुरालय। ३७३। मेरुरचैव सुमेरुश्च महा-
मेरु सुदर्शन। मन्दर' दौलराजश्च वमन्त प्रियदर्शन। ३७४।
रत्नोच्चयो दिशामादिलोकनाभिर्मनो'म। लोकमध्यो दिशामन्ग्यो
दिशामुत्तर एव च। ३७५। सूर्याचरणविरुष्याति सूर्यावर्त. स्वयप्रभ।

इत्थं सुरगिरिश्चेति लघ्वर्णं स वर्णित १३७६। = वज्रमूल, सर्वैश्वर्यं चूलिक, मणिचित्त, विचित्राश्चर्यकीर्ण, स्वर्णमध्य, सुरालय, मेरु, सुमेरु, महामेरु, सुदर्शन, मन्दर, शैलराज, वसन्त, प्रियदर्शन, ररनीचचय, दिशामादि, लोकनाभि, मनोरम, लोकमध्य, दिशा-मन्त्य, दिशामुत्तर, सूर्याचरण, सूर्यावर्त, स्वयंप्रभ, और सुरगिरि—इस प्रकार विद्वानोंने अनेकों नामोंके द्वारा सुमेरु पर्वतका वर्णन किया है १३७३-३७६।

* सुमेरु पर्वतका स्वरूप—दे लोक/३/६।

३. वर्तमान विद्वानोंकी अपेक्षा सुमेरु

ज प/प्र, १३६, १४१ A N up, H L Jain वर्तमान भूगोलका पामीर प्रदेश वही पौराणिक मेरु है। जिसके पूर्व से यारकद नदी (सीता) निकलती है और पश्चिम सितोदसरसे आमू दरिया निकलता है। इसके दक्षिणमें दरद (काश्मीरमें बहनेवाली कृष्णगंगा नदी) है। इसके उत्तरमें धियानसानके अचलमें बसा हुआ देश (उत्तरकुरु), पूर्वमें मूजताग (मूज) एवं शीतान (शीतान्त) पर्वत, पश्चिममें बदल्शा (बैदूर्य) पर्वत, और पश्चिम-दक्षिणमें हिंदुकुश (निपथ) पर्वत स्थित है १३३६। पुराणोंके अनुसार मेरुकी शारावाकृति है। इधर वर्तमान भूगोलके अनुसार 'पामीर देश' चारों हिंदुकुश, कारा-कोरम, काशार और अन्तार्ई पर्वतसे घिरा होनेके कारण शारावाकार हो गया है। इसी पामीर देशको मेरु कहते हैं। पामीरमें शब्द आश्लिष्ट है, क्योंकि यह शब्द सपादमेरुका जन्म है। मेरुके सम्बन्धमें भी 'सपाद मेरु' मेरुके महापादका व्यवहार प्राय हुआ है। अत यह व्युत्पत्ति अशकनीय है। इसी प्रकार काश्मीर शब्द भी मेरुका अंग जान पड़ता है, क्योंकि काश्मीर शब्द कश्यपमेरुका अपभ्रंश है। नीलमत पुराणके भी अनुसार काश्मीर कश्यपका क्षेत्र है। और तैत्तिरीय आरण्यक/१/७ में कहा गया है कि महामेरुको अरण्यक नहीं छोड़ता।

सुयश—मातृपोत्तर पर्वतस्थ सौगन्धिक कूटका स्वामी भवनवासी सुपर्णकुमार देव—दे लोक/७।

सुर—घ १३/४.५, १४०/३६१/७ तत्र अहिंसाद्यनुष्ठानरतय सुरा नाम।
—जिनकी अहिंसा आदिके अनुष्ठानमें रति है वे सुर कहलाते हैं।

सुरगिरि—सुमेरु पर्वतका अपर नाम—दे सुमेरु।

सुरदेव—भाविकालीन दूसरे तीर्थंकर—दे, तीर्थंकर/५।

सुरपतिकान्त—विजयार्थकी उत्तर श्रेणीका एक नगर।
—दे विद्याधर।

सुरमन्यु—सप्त ऋषियोंमें से एक—दे सप्तऋषि।

सुरलोक—दे स्वर्ग/५।

सरस—ब्रह्म स्वर्गका द्वितीय पटल व इन्द्रक—दे स्वर्ग/५।

सुरा—१ हिमवात् पर्वतपर स्थित एक कूट व उसकी स्वामिनी देवी।
—दे, लोक/७, २ रुचक पर्वत निवासिनी दिक्कुमारी देवी।
—दे लोक/७।

सुरालय—सुमेरु पर्वतका अपर नाम—दे सुमेरु।

सुराष्ट्र—१ मालवाका पश्चिम प्रदेश, सुराष्ट्र या सौराष्ट्र या काठियावाड़ कहते हैं। (मं. पु/प्र ४६ पञ्चाल। २ भरतक्षेत्रस्थ पश्चिम अर्धखण्डका एक देश। अपर नाम सोरठ—दे सोरठ।

सुरेन्द्र यन्त्र—दे यन्त्र/१/६।

सुरेश्वर—शकराचार्यके शिष्य। समय—ई ८२०—दे वेदान्त/१/२।

सुलस—देवकुरुके १० द्रहोंमेंसे दो का नाम—दे लोक/७।

सुलसा—चारण युगलकी पुत्री थी। सगर चक्रीने पड्यन्त्र रचकर इसको विवाहा था। अन्तमें महाकाल द्वारा रचे हिंसायज्ञमें यह हीमों गयी थी। (म पु/६७/२१४-३६३)।

सुलोचन—विहायसतिलक नगरका राजा। सगरचक्रीका समुद्र (प. पु./५/७७-७८)।

सुलोचना—म. पु/सर्ग/श्लोक पूर्वभव न. ४ में रतिवेगा नामक सेठ सुता थी (४६/१०५, ५७) तीसरेमें रतिवेगा क्यूतरी (४६/८६) दूसरेमें प्रभावती (४६/१४८) पूर्व भवमें स्वर्गमें देव थी (४६/२५०) वर्तमान भवमें काशी राजाके अकम्पनकी पुत्री थी (४३/१३६)। भरतचक्रीके सेनापति जयसेनसे विवाही गयी (४३/२२६-२२६)। भरतसुत अर्ककीर्तिने इसके लिए जयसेनसे युद्ध किया। परन्तु इसके अनशनके प्रभावसे युद्ध समाप्त हो गया (४५/२७) तब जयसेनने इसको अपनी पटरानी बनाया (४५/१८९) एक समय देवी द्वारा पतिके शीलकी परीक्षा करनेपर इसने उस देवीको भगा दिया (४७/२६८-२७३)। अन्तमें पतिके दीक्षा लेनेपर शोकचिन्त हो स्वयं भी दीक्षा ले ली। तथा घोर तपकर अच्युत स्वर्गमें जन्म लिया। आगामी पर्यायसे मोक्ष होगा। (४७/२८६-२८६)।

सुवक्षु—इसके कई रूप मिलते हैं यथा—सुवक्षु, सुवक्षु, एवं सपक्षु। इसकी उत्पत्ति मेरुके पश्चिमी सर सितोदसे कही गयी है, जहाँसे निकलकर 'नानान्लेच्छगणैर्युक्त' केतुमाल महाद्वीपसे बहती हुई, यह पश्चिम समुद्रमें चली गयी है। वर्तमान आमू दरिया वा आबशस ही सुवक्षु है, यह निर्विवाद है। इसके मगोलियन नाम अबक्षु और वक्षु, तिब्बती नाम पक्षु, तथा चीनो नाम पो-रसु वा फो-रसु, तथा आधुनिक स्थानिक नाम बलिश बखश और बला उक्त संस्कृत नामोंसे निकले हैं। प्राचीन कालसे अभी थोड़े दिन पहले तक पामीरके पश्चिमी भागवाली सिरिकील फील (बिक्टोरिया लेक) उसका उद्गम मानी जाती थी, जो पौराणिक सितोद सर हुई। इन दिनों यह आरालमें गिरती है किन्तु पहले कैस्पियनमें गिरती थी। यही चतुर्वर्षीय भूगोलका पश्चिम समुद्र है। (ज प/प्र १४० A N up, H L, Jain)।

सुवत्या—सौमनस गजदन्तके कनक कूटकी स्वामिनी दिक्कुमारी देवी—दे लोक/७।

सुवत्सा—१ पूर्व विदेहका एक क्षेत्र—दे लोक/७। २ पूर्व विदेहस्थ निकट वक्षारका एक कूट व उसका स्वामी देव—दे लोक/७।

सुवप्र—१ अपर विदेहस्थ एक क्षेत्र—दे लोक/७। २. चन्द्रगिरि वक्षारका एक कूट व उसका स्वामी देव—दे लोक/७।

सुवल्गु—१ अपर विदेहस्थ एक क्षेत्र। अपर नाम सुगन्धा—दे लोक/७, २ नागगिरि वक्षारका एक कूट व उसका स्वामी देव—दे लोक/७।

सुविधि—म. पु/सर्ग/श्लो महावत्स देशके सुदृष्टि राजाका पुत्र। (१०/१२१-१२२) पुत्र केशवके मोहसे दीक्षा न लेकर श्रावकके उत्कृष्ट व्रत ले कठिन तप किया (१०/१५८)। अन्तमें दिगम्बर हो समाधि-मरण पूर्वक अच्युत स्वर्गमें देव हुआ। (१०/१६६)। यह ऋषभदेवका पूर्वका चौथा भव है।—दे ऋषभदेव।

सुविशाल—नव ग्रैवेयका तृतीय पटल व इन्द्रक—दे स्वर्ग/५।

सुषमा काल—दे काल/४।

सुबिर प्रायोगिक शब्द—दे. शब्द/१।

सुषेण—१. बरांग चरित्र/सर्ग/श्लोक बरांगका सौतेला भाई था। (११/८५)। बरांगको राज्य मिलनेपर कृपित हो, बरांगको छलसे राज्यसे दूर भेज दब्यं राज्य प्राप्त किया (२०/७)। फिर किसी शत्रुसे युद्ध होनेपर स्वयं डरकर भाग गया (२०/११)। २ म पु/५८/श्लोक कनकपुर नगरका राजा था (६१)। गुणमजरी वृत्त्यकारिणीके अर्थ भाई विन्ध्यशक्तिसे युद्ध किया। युद्धमें हार जानेपर वृत्त्यकारिणी इससे बलात्कार पूर्वक छीन ली गयी (७३)। मानभंगसे दुःखित हो दीक्षा लेकर कठिन तप किया। अन्तमें वैर पूर्वक मरकर प्राणत स्वर्गमें देव हुआ (७८-७९)। यह द्विपृष्ठ नारायणका पूर्वका दूसरा भव है।
—दे. द्विपृष्ठ।

सुसीमा—पूर्व विदेहस्थ वत्सवेशकी मुख्य नगरी—दे. लोक/७।

सुस्थित—१. लवणसमुद्रका रक्षक व्यन्तरदेव—दे. व्यन्तर/४।

सुस्थिता—रुचक पर्वत निवासिनी दिवकुमारी देवी—दे. लोक/७।

सुस्वर—दे. स्वर।

सुहस्ति—रुचक पर्वतस्थ स्पस्तिक कूटका स्वामी देव—दे. लोक/७।

सुह्रा—१. भरतक्षेत्र आर्य खण्डका एक देश—दे. मनुष्य/४। २ जिस देशमें कपिशा (कोलिया) नदी बहती है। ताशलिपी राजधानी थी।

सुकरिका—भरत क्षेत्रस्थ आर्य खण्डकी एक नदी—दे. मनुष्य/४।

सूक्ष्म—जो किसी द्वारा स्वयं बाधित न हो और न दूसरेको ही कोई बाधा पहुँचाये, वे पदार्थ या जीव सूक्ष्म है और इनसे विपरीत स्थूल या बादर। इन्द्रियग्राह्य पदार्थको स्थूल और इन्द्रिय अग्राह्यको सूक्ष्म कहना व्यवहार है परमार्थ नहीं। सूक्ष्म व बादरपनेमें न अवगाहनाकी हीनाधिकता कारण है न प्रदेशोंकी, बल्कि नामकर्म ही कारण है। सूक्ष्म स्कन्ध व जीव लोकमें सर्वत्र भरे हुए हैं, पर स्थूल आधारके बिना नहीं रह सकनेके कारण त्रस नालीके यथायोग्य स्थानोंमें ही पाये जाते हैं।

१. सूक्ष्मके भेद व लक्षण

* सूक्ष्म जीवोंका निर्देश—दे. इन्द्रिय, काय, समास।

१ सूक्ष्म मामान्यका लक्षण

१. बाधा रहित

स सि /५/१५/२०/१२/ न ते परस्परं वादरैश्च व्याहन्यन्त इति। = वे (सूक्ष्म जीव) परस्परमें और बादरोंके साथ व्याघातको नहीं प्राप्त होते हैं। (रा वा /५/१५/४५/११)।

घ. ३/१२.८७/३३/२ अणोहि पोगलेहि अपिडिहम्ममाणसरीरो जीवो सुहृमो ति घेतञ्च। = जिनका शरीर अन्य पुद्गलोंसे प्रतिघात रहित है वे सूक्ष्म जीव हैं, यह अर्थ यहाँपर सूक्ष्म शब्दसे लेना।

घ. १३/५.३.२२/२३/१२ पविस तपरमाणुस्स परमाणु पट्टिधधदि, सुहृमस्स सुहृमेण वादरवख भेण वा पट्टिधधकरणानुववत्तीदो। = प्रवेश करनेवाले परमाणुको दूसरा परमाणु प्रतिघन नहीं करता है, क्योंकि सूक्ष्मका दूसरे सूक्ष्म स्कन्धके द्वारा या बादरके द्वारा प्रतिघन करनेका कोई कारण नहीं पाया जाता है।

का. अ/५/१२७ न य तेसि जेसि पट्टिखलणं पुढवी तोएहि अग्गिमाएहि। ते जाण सुहृम-काया इयरा पुण धूलकाया य। १२७। = जिन जीवोंका पृथ्वीसे, जलसे, आगसे और वायुसे प्रतिघात नहीं होता, उन्हें सूक्ष्मकायिक जानो। १२७।

गो जी/जी प्र/१८४/४१६/१४ आधारानपेक्षितशरीरा जीवा सूक्ष्मा भवन्ति। जलस्थलरूपाधारेण तेषां शरीरगतिप्रतिघातो नास्ति। अयन्तसूक्ष्मपरिणामत्वात् जीवा सूक्ष्मा भवन्ति। = आधारकी अपेक्षा रहित जिनका शरीर है वे सूक्ष्म जीव हैं। जिनकी गतिया जल, स्थल आधारोंके द्वारा प्रतिघात नहीं होता है। और अत्यन्त सूक्ष्म परिणमनके कारण वे जीव सूक्ष्म करे हैं।

२ इन्द्रिय अग्राह्य

स. सि /५/२८/२६६/६ सूक्ष्मपरिणामस्य स्कन्धस्य भेदो सौक्ष्म्यापरि-रयागादाक्षुपत्वमेव। = सूक्ष्म परिणामवाले स्कन्धका भेद होनेपर वह अपनी सूक्ष्मताको नहीं छोड़ता, इसलिए उसमें अक्षाक्षुपपना ही रहता है। (रा. वा /५/२८/—/४६६/१७)

रा वा /५/२४/१/४८५/११ लिङ्गेन आरमान सूचयति, सूचयतेऽमो, सूचयतेऽनेन, सूचनमात्र वा सूक्ष्म सूक्ष्मस्य भाव कर्म वा सौक्ष्म्यम्। = जो लिंगके द्वारा अपने स्वरूपको सूचित करता है या जिसके द्वारा सूचित किया जाता है या सूचन मात्र है, वह सूक्ष्म है। सूक्ष्मके भाव वा कर्मको सौक्ष्म्य कहते हैं।

प्र सा /ता. वृ./१६८/२३०/१३ इन्द्रियाग्रहणयोग्ये सूक्ष्मे। = जो इन्द्रियोंके ग्रहणके अयोग्य है वे सूक्ष्म हैं।

प घ /उ/४८३ अस्ति सूक्ष्मत्वमेतेषा लिङ्गस्याभैरदर्शनात्। ४८३। = इसके साधक साधनका इन्द्रियोंके द्वारा दर्शन नहीं होता, इसलिए इनमें (धर्मादिमें) सूक्ष्मपना है।

३. सूक्ष्म दूरस्थमें सूक्ष्मका लक्षण

घ १३/५.५.५६/३१३/३ किमेत्थ सुहृमत् १ दुगेज्जत् १ = प्रश्न—यहाँ सूक्ष्म शब्दका क्या अर्थ है? उत्तर—जिसका ग्रहण कठिन हो वह सूक्ष्म कहलाता है।

द्र सं /टी/५०/२१३/११/परचेतोवृत्तय परमाण्वादयश्च सूक्ष्म-पदार्था। = पर पुरुषोंके चित्तोंके विकल्प और परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ।

न्या. दी. २/१२२/४१/१० सूक्ष्मा स्वभावविप्रकृष्टा परमाण्वादयः। = सूक्ष्म पदार्थ वे हैं जो स्वभावसे विकृष्ट हैं—दूर हैं जैसे परमाणु आदि।

रहस्यपूर्णचिद्वी/५१३ जो आप भी न जाने केवली भगवात् ही जानै सो ऐसे भावका कथन सूक्ष्म जानना।

२ सूक्ष्मके भेद व उनके लक्षण

स सि /५/२४/२६५/१० सौक्ष्म्य द्विविध, अन्त्यमापेक्षिक च। तत्रान्यं परमाणुनाम्। आपेक्षिक विस्वामलकबदरादीनाम्। = सूक्ष्मताके दो भेद हैं—अन्त्य और आपेक्षिक। परमाणुओंमें अन्त्य सूक्ष्मत्व है। तथा बेल, आँबला, और बेर आदिमें आपेक्षिक सूक्ष्मत्व है। (रा वा /५/२४/१०/४८८/३०)

३. सूक्ष्म नामकर्मका लक्षण

स सि /५/११/३६२/१ सूक्ष्मशरीर निर्वर्तकं सूक्ष्मनाम। = सूक्ष्म शरीरका निर्वर्तक कर्म सूक्ष्म नामकर्म है।

रा. वा /५/११/२६/५७६/७ यदुदयादन्यजीवानुपग्रहोपघातायोग्यसूक्ष्म-शरीरनिर्वृत्तिर्भवति तत्सूक्ष्मनाम। = जिसके उदयसे अन्य जीवोंके अनुग्रह या उपघातके अयोग्य सूक्ष्म शरीरकी प्राप्ति हो वह सूक्ष्म है। (गो/जी/जो प्र/३३/३०/१३)

घ. ६/१६.६-१.२८/६२/१ जस्त कम्मस्स उदएण जीवो सुहृमत् पट्टिउज्जदि तस्स कम्मस्स सुहृममिदि सण्णा। = जिस उदयसे जीव (एकेन्द्रिय घ १३) सूक्ष्मताको प्राप्त होता है उस कर्मकी यह सूक्ष्म सजा है।

४. सिद्धोंके सूक्ष्मत्व गुणका लक्षण

द्र. सं./टी./१४/४२/१२ सूक्ष्मातीन्द्रियकेवलज्ञानविषयस्वारिसदस्वरूपस्य सूक्ष्मत्व भण्यते।—सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवलज्ञानका विषय होनेके कारण सिद्धोंके स्वरूपको अतीन्द्रिय कहा है।

प प्र/टी/१/६१/६२/२ अतीन्द्रियज्ञानविषय सूक्ष्मत्वम्।—अतीन्द्रिय ज्ञानका विषय होनेसे सूक्ष्मत्व है।

२ वादरके भेद व लक्षण

* वादर जीवोंका निर्देश—वे इन्द्रिय, काय, समास।

१ वादर व स्थूल सामान्यका लक्षण

१. सप्रतिघात

स सि/५/१५/२८०/१० वादरास्तावत्सप्रतिघातशरीरा।—वादर जीवों का शरीर तो प्रतिघात सहित होता है। (रा वा/५/१५/५/४४८/१०) घ. १/१.१.४५/२०६/१० वादर स्थूल सप्रतिघात कायो येषां ते वादर-काया।—जिन जीवोंका शरीर वादर, स्थूल अर्थात् प्रतिघात सहित होता है उन्हें वादरकाय कहते हैं।

घ ३/१.२.८०/३३१/१ तदो पंडितममाणसरीरो वादरो।—जिनका शरीर प्रतिघात युक्त है वे वादर हैं।

गो जी/मू/१/२३३३३३ वादसरीर धूल।—जो दूररोंको रोके, तथा दूररों से स्वयं रुके सो स्थूल कहनाता है।

२. इन्द्रिय आण

स. सि/५/२८/२६६/१० सौक्ष्म्यपरिणामोपरमे स्थौष्योरपत्तो चाधुषो भवति।—(सूक्ष्मस्कन्धमें से) सूक्ष्मपना निकल कर स्थूलपनेकी उत्पत्ति हो जाती है और इसलिये वह चाधुष हो जाता है।

रा वा/५/२४/१/४८५/१२ स्थूलयते परिवृ हयति, स्थूयतेऽसौ स्थूल-तेऽनेन, स्थूलनमात्र वा स्थूल। स्थूलस्य भाव कर्म वा स्थौष्यम्।

—जो स्थूल होता है, बढ़ता है या जिसके द्वारा स्थूलन होता है या स्थूलन मात्रको स्थूल कहते हैं। स्थूलका भाव या कर्म स्थौष्य है।

प्र सा/ता वृ/२६५/२३०/१४ तद्ग्रहणयोग्यैर्वादरैः।—जो इन्द्रियोंके ग्रहणके योग्य होते हैं वे वादर हैं।

३. स्थूल के भेद व उनके लक्षण

स सि/५/२४/२६५/१३ स्थौष्यमिदि द्विविधमन्यमापेक्षिक चेति। तत्रान्य जगद्भव्यापिनि महास्कन्धे। आपेक्षिक वादरामलकविष्वत्ता-लादिपु।—स्थौष्य भी दो प्रकार का है—अन्य और आपेक्षिक। जगद्व्यापी महास्कन्ध में अन्य स्थौष्य है। तथा वेर, आँवला, और वेल तालआदिमें आपेक्षिक स्थौष्य है। (रा. वा./५/२४/११/४८८/३३)।

४. वादर नामकर्मका लक्षण

स सि/५/११/३६२/२ अन्यवाधाकरशरीरकारण वादरनाम।—अन्य वाधाकर शरीरका निर्वर्तक कर्म वादर नामकर्म है। (रा. वा./८/११/३०/५०६/१०), (गो क/जी प्र/३३/३०/१३)।

घ ६/१६-१.२५/६१/५ जसस कम्मस्स उदरण जीवो वादरेसु उप्पज्जदि तसस कम्मस्स वादरमिदि सण्णा।—जिस कर्मके उदयसे जीव वादर काय बालोंमें उत्पन्न होता है। उस कर्म की 'वादर' यह संज्ञा है। (घ. ६/३/५.५.२०१/३६५/६)।

५. वादर कथनका लक्षण

रहस्य पूर्ण चिद्धी। अपने तथा अन्यके जाननेमें आ सके ऐसे भावका कथन स्थूल है।

३. सूक्ष्मत्व व वादरत्व निर्देश

१. सूक्ष्म व वादरमें प्रतिघात सम्बन्धी विचार

ग. सि/२/४०/१६३/६ ग नात्समायारियप्रतिघाते, सूक्ष्मपरि-णामात्। अय पिण्डे तेजोऽपुत्रवेशदसंजगमार्मणयानांगित वप्रपट-लादिपु व्याघात।—इन दोनों (संजगम व संजगम) शरीरोंका इय प्रकारका प्रतिघात नहीं होता इसलिये वे प्रतिघात रहित हैं। जिन प्रकार सूक्ष्म होनेसे अग्नि (नोहेंके गालेमें) प्रवेश कर जाती है उसी प्रकार संजगम और मार्मण शरीरका वप्रपटनादिमें भी व्याघात नहीं होता। (रा वा/४०/१४६/६)।

रा वा/५/१५/५/४५५/१४ य मशरीरस्मारमनोऽप्रतिघातस्वमित्ति चैव दृशरात्। दृश्यते हि मानाप्रतीटिमात्रिदृशरिते घातहृत्नायमभित्ति-तले वज्रमयकषाटे वहि समंतात् वज्रलेपलिप्ते जगमरके देवदृश्य मृतारय मूर्तिमज्जानावरणादिश्च मर्ते जससमार्मणशरीरसमन्धिःवेऽपि गृहमभिर्यैव निर्गमनम्, तथा सूक्ष्मनिगोदागमप्यप्रतिघातित्व वेदितव्यम्।—प्रश्न—शरीर महित आत्मके अप्रतिघातपना कैसे है? उत्तर—यह बात अनुभव सिद्ध है। निरिदृश लोहके मफानसे, जिसमें वज्रके कियाड़ लगे हों और वज्रलेप भी जिनमें किया गया हो, मर कर जीव चार्मणशरीरके साथ निचल जाता है। गट चार्मण शरीर मूर्तिमात्र ज्ञानावरणादि कर्मोंका पिण्ड है। संजग शरीर भी इसके साथ सदा रहता है। मरण कालमें इन दोनों शरीरोंके साथ जीव वज्रमय कर्मसे निचल जाता है। और कर्ममें देह नहीं होता। इस तरह सूक्ष्म निगोद जीवों का शरीर भी अप्रतिघाती है।

२ सूक्ष्म व वादरमें चाधुपत्त्व सम्बन्धी विचार

घ १/१.१.३४/२४६-२५०/६ वादरदृश्य स्थूलपर्याय स्थूलात् चानि-यतम्, ततो न दृश्यते के स्थूला इति। चधुर्माहात्तचेर, अचधुर्माहात्ता स्थूलानां सूक्ष्मतोपपत्तेः। अचधुर्माहात्तामपि वादरत्वे सूक्ष्मवादरा-णामविषेय स्यादिति। २४६। स्थूलाश्च भवन्ति चधुर्माहात्ताश्च न भवन्ति, नो विरोध स्यात्।—प्रश्न—जो चधु इन्द्रियके द्वारा ग्रहण करने योग्य है, वे स्थूल हैं। यदि ऐसा कहा जावे सो भी नहीं बनता है, क्योंकि, ऐसा माननेपर, जो स्थूल जीव चधु इन्द्रियके द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है उन्हें सूक्ष्मपनेको प्राप्ति हो जायेगी। और जिनका चधु इन्द्रियसे ग्रहण नहीं हो सकता है ऐसे जीवोंको वादर मान लेनेपर सूक्ष्म और वादरोंमें कोई भेद नहीं रह जाता। उत्तर—ऐसा नहीं है, क्योंकि स्थूल तो हों और चधुसे ग्रहण करने योग्य न हों, इस कथनमें क्या विरोध है? (अर्थात् कुछ नहीं)।

३. सूक्ष्म व वादरमें अवगाहना सम्बन्धी विचार

घ. १/१.१.३४/२५०-२५१/४ सूक्ष्मजीवशरीरादसत्त्वेयगुणं शरीर वादरम्, तदन्तो जीवाश्च वादरा। ततोऽन्यत्त्वेयगुणहीन शरीर सूक्ष्मम्, तदन्तो जीवाश्च सूक्ष्मा उपचारादिर्यपि कषणना न साध्वी, सर्वजपन्यवादराङ्कारसूक्ष्मकर्मनिर्वर्तितस्य सूक्ष्मशरीरस्यासत्त्वेय-गुणत्वतोऽनेकान्तात्। २५०। तस्मात् (सूक्ष्मात्) अन्यसत्त्वेयगुण-हीनस्य वादरकर्मनिर्वर्तितस्य शरीरस्योपलभ्मात्।—प्रश्न—सूक्ष्म शरीरसे असत्त्वात् गुणी अधिक अवगाहनावाले शरीरको वादर कहते हैं, और उस शरीरसे युक्त जीवोंको उपचारसे वादर जीव कहते हैं। अथवा वादर शरीरसे असत्त्वात् गुणी हीन अवगाहनावाले शरीरको सूक्ष्म कहते हैं और उस शरीरसे युक्त जीवोंको उपचारसे सूक्ष्म जीव कहते हैं उत्तर—यह कषणना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, सबसे जघन्य वादर शरीरसे सूक्ष्म नामकर्मके द्वारा निर्मित सूक्ष्म शरीरकी अवगाहना असत्त्वात् गुणी होनेसे ऊपरके कथनमें दोष आता है। २५०। सूक्ष्म शरीरसे भी असत्त्वात् गुणी हीन अवगाहनावाले और वादर

नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुए वादर शरीरकी उपलब्धि होती है १२५१ और भी—दे अवगाहना/२ ।

घ १२/४ २.१३.२१४/४४३/१३ ण च सुहुमयोगाहणा वादरोगाहणा सरिसा ऊणा वा होदि किं तु अमखेज्जगुणा चेव होदि । = वादर जीवकी अवगाहना सूक्ष्म जीवकी अवगाहनाके बराबर या उससे हीन नहीं होती है, किन्तु वह उससे असंख्यातगुणी ही होती है ।

घ. १३/४.३.२१/२४/२ सुहुम णम सण्णं, ण अपडिहणमाणमिदि चे—ण, आयासादीण सुहुमता भावपसगादो । = प्रश्न—सूक्ष्मका अर्थ बारीक है । दूसरेके द्वारा नहीं रोका जाना, यह उसका अर्थ नहीं है ! उत्तर—नहीं, क्योंकि सूक्ष्मका यह अर्थ करनेपर महात् आकाश आदि सूक्ष्म नहीं ठहरेंगे ।

गो जी/जी. प्र १८४/४१६/१५ यद्यपि वादरापर्याप्तवायुकायिकादीनां जघन्यशरीरावगाहनमवपम् । ततोऽसख्येयगुणत्वेन सूक्ष्मपर्याप्तकायुकायिकादिपृथ्वीकायिकावसानजीवानां जघन्योत्कृष्टशरीरावगाहनानि महान्ति तथापि सूक्ष्मनामकर्मोदयसामर्थ्यात् अन्यतरतैर्षा प्रतिघाता-भावात् निष्क्रम्य गच्छन्ति श्लक्ष्णवस्त्रनिष्क्रान्तजलबिन्दुवत् । वादराणा पुनरवपशरीरत्वेऽपि वादरनामकर्मोदयवशादन्येन प्रतिघातो भवत्येव श्लक्ष्णवस्त्रानिष्क्रान्तसर्पवत् । य (चापि) धेवं ऋद्धिप्राप्ताना स्थूल-शरीरस्य वज्रशिलादिनिष्क्रान्तिरस्ति सा कथ । इति चेत् तपोऽतिशयमाहारान्येनेति ब्रूम, अचिन्त्य हि तपोविद्यामणिमन्त्रौपधिशक्त्य-तिशयमाहारान्य दृष्टस्वभावत्वात् । 'स्वभावोऽतर्कगोचर' इति समस्तवादिसमतत्वात् । अतिशयरहितवस्तुविचारे पूर्वोक्तशास्त्रमार्ग एव वादरसूक्ष्माणो सिद्धः । = यद्यपि वादर अपर्याप्त वायुकायिकादि जीवोंकी अवगाहना स्तोके है और इससे लेकर सूक्ष्म पर्याप्त वायुकायिकादिक पृथिवीकायिक पर्यन्त जीवोंकी जघन्य वा उत्कृष्ट अवगाहना असंख्यातगुणी है, तो भी सूक्ष्म नामकर्मकी सामर्थ्यसे अन्य पर्वतादिकसे भी इनका प्रतिघात नहीं होता है, उनमें वे निकलकर चले जाते हैं । जैसे—जलकी बूँद वस्त्रसे रुकती नहीं है निकल जाती है वैसे सूक्ष्म शरीर जानना । वादर नामकर्म कर्मके उदयसे अवप शरीर होनेपर भी दूसरोंके द्वारा प्रतिघात होता है जैसे सरसों वस्त्रसे निकलती नहीं है तैसे ही वादर शरीर जानना । यद्यपि ऋद्धिप्राप्त मुनियोंका शरीर वादर है तो भी वज्र पर्वत आदिकमेंसे निकल जाता है, रुकता नहीं है सो यह तपजनित अतिशय की ही महिमा है । क्योंकि तप, विद्या, मणि, मन्त्र, औपधिकी शक्तिके अतिशयका माहारान्य ही प्रगट होता है, ऐसा ही द्रव्यका स्वभाव है । स्वभाव तर्कके अगोचर है, ऐसा समस्त वादी मानते हैं । यहाँ पर अतिशयवानोंका ग्रहण नहीं है, इसलिए अतिशय रहित वस्तुके विचारमें पूर्वोक्त शास्त्रका उपदेश ही वादर सूक्ष्म जीवोंका सिद्ध हुआ ।

४. सूक्ष्म व वादरमें प्रदेशों सम्बन्धी विचार

दे शरीर/१/४.५ औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस व कार्मण ये पाँचों शरीर यद्यपि उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं परन्तु प्रदेशोका प्रमाण उत्तरोत्तर असंख्यात व अनन्तगुणा है ।

स सि १/३८/१६२/१० यद्येव, परम्पर (शरीर) महापरिमाण प्राप्नोति । नैवम्, बन्धविशेषापरिमाणभेदाभावस्तुलनिचयाय पिण्डवत् । = प्रश्न—यदि ऐसा है तो उत्तरोत्तर एक शरीरसे दूसरा शरीर महापरिणामवाला प्राप्त होता है । उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि बन्ध-विशेषके कारण परिमाणमें भेद नहीं होता । जैसे, रूईका डेर और लोहेका गोला । (रा. वा १/३८/१/१४८/८)

रा. वा १/३६/६/१४८/३१ स्यादेतत्-वदुद्रव्योपचितत्वाच्च तैजसकार्मण-योरुपलब्धि प्राप्नोतीति । तन्न, किं कारणम् । उक्तमेतत्-प्रचय-विशेषात् सूक्ष्मपरिणाम इति । = प्रश्न—यद्यत् परमाणुवाले होनेके कारण तैजस और कार्मण शरीरकी उपलब्धि (दृष्टिगोचर) होना

प्राप्त है । उत्तर—नहीं, पहले कहा जा चुका है कि उनका अति मघन और सूक्ष्म परिणमन होनेसे इन्द्रियोंके द्वारा उपलब्धि नहीं हो सकती ।

घ. १३/४.४.२४/५०/४ ण च थूलेण बहुसरोण चेव होदव्यमिदि णियमो अरिथि । थूलेर डरुखादो सण्हलोहगोलपरुवत्तण्णाणुववत्तिलेण पदेसच्चतुवत्तभादो । = स्थूल घट्टत संख्यावाला ही होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है क्योंकि स्थूल परण्ड वृक्षसे, सूक्ष्म लोहेके गोलेमें एकरूपता अन्यथा बन नहीं सकती, इम युक्तिके बलसे प्रदेश-बहुत्व देखा जाता है ।

५. सूक्ष्म व वादरमें नामकर्म सम्बन्धी विचार

घ १/१.१.३४/२४६-२५१/६ न वादरशब्दोऽय स्थूलपर्याय, अपितु वादरनाम्न कर्मणो वाचक । तदुदयसहचरितत्वाज्जीवोऽपि वादर १२४६। कोऽनयो (वादर-सूक्ष्म) कर्मणोरुदययोर्भेदश्चेन्मूर्तैरन्यैः प्रतिहन्यमानशरीरनिर्वर्तको वादरकर्मोदय, अप्रतिहन्यमानशरीर-निर्वर्तक सूक्ष्मकर्मोदय इति तयोर्भेद । सूक्ष्मत्वासूक्ष्मजीवानां शरीरमन्यैर्न मूर्तद्रव्यैरभिहन्यते ततो न तदप्रतिघात सूक्ष्मकर्मणो विपाकादिति चेन्न, अन्यैरप्रतिहन्यमानत्वेन प्रतिलब्धसूक्ष्मव्यपदेश-भाज सूक्ष्मशरीरादसंख्येयगुणहीनस्य वादरकर्मोदयत प्राप्तवादर-व्यपदेशस्य सूक्ष्मत्वप्रत्यविशेषतोऽप्रतिघाततापत्ते । = वादर शब्द स्थूलका पर्यायवाची नहीं है, किन्तु वादर नामक नामकर्मका वाचक है, इसलिए उस वादर नामकर्मके उदयके सम्बन्धसे जीव भी वादर कहा जाता है । प्रश्न—सूक्ष्म नामकर्मके उदय और वादर नामकर्मके उदयमें क्या भेद है ? उत्तर—वादर नामकर्मका उदय दूसरे मूर्त पदार्थोंसे आघात करने योग्य शरीरकी उत्पन्न करता है । और सूक्ष्म नामकर्मका उदय दूसरे मूर्त पदार्थोंके द्वारा आघात नहीं करने योग्य शरीरकी उत्पन्न करता है । यही उन दोनोंमें भेद है । प्रश्न—सूक्ष्म जीवोंका शरीर सूक्ष्म होनेसे ही अन्य मूर्त द्रव्योंके द्वारा आघातको प्राप्त नहीं होता है, इसलिए मूर्त द्रव्योंके साथ प्रतिघातका नहीं होना सूक्ष्म नामकर्मके उदयसे नहीं मानना चाहिए । उत्तर—नहीं, क्योंकि, ऐसा मानने पर दूसरे मूर्त पदार्थोंके द्वारा आघातको नहीं प्राप्त होनेसे सूक्ष्म सज्ञाको प्राप्त होने वाले सूक्ष्मशरीरसे असंख्यात गुणी हीन अवगाहनावाले और नामकर्मके उदयसे वादर सज्ञाको प्राप्त होनेवाले वादर शरीरकी सूक्ष्मताके प्रति कोई विशेषता नहीं रह जाती है, अतएव उसका भी मूर्त पदार्थोंसे प्रतिघात नहीं होगा, ऐसी आपत्ति आयेगी ।

६ वादर जीव प्रतिघातसे ही रहते हैं

घ. ७/२.६.४८/३३६/१ पुढवीओ चेवस्सिदूण वादराणमवट्टाणादो । = पृथिवियोंका आश्रय करके ही वादर जीवोंका अवस्थान है । (घ. ४/१.३.२६/१००/१०) (गो जी/मू/१८८/४१६) (का अ/टी/१२२)

७. सूक्ष्म व वादर जीवोंका लोकमें अवस्थान

मू. आ/१००२ एडदिया य जीवा पचविधा वादरा य सुहुमा य । देसेहि वादरा खलु सुहुमेहि णिरतरो लोओ १२००। = एकेन्द्रिय जीव पृथिवीकायादि पाँच प्रकारके हैं और वे प्रत्येक वादर सूक्ष्म है, वादर जीव लोकके एक देशमें हैं तथा सूक्ष्म जीवोंसे सप्त लोक ठसाठस भरा हुआ है । १२०२। (और भी दे क्षेत्र)

* अन्य सम्बन्धी विषय

१. वादर वनस्पति वायिक जीवोंका लोकमें अवस्थान ।

—दे वनस्पति/२/१० ।

- २ वादर तेजस कायिकादिकोंका लोकमें अवस्थान ।
—दे, काय/२/५ ।
- ३ स्थूल परसे सूक्ष्मका अनुमान ।
—दे अनुमान/२/५ ।
४. सूक्ष्म व स्थूल दृष्टि ।
—दे परमाणु/१/६ ।
५. सूक्ष्म व वादर जीवों सम्बन्धी गुणस्थान, जीवसमास,
मार्गाणा स्थान आदि २० प्ररूपणाएँ ।
—दे सप्त ।
- ६ सूक्ष्म वादर जीवोंकी सत्, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल,
अन्तर, भाव व अल्पवहुत्व प्ररूपणाएँ ।
—दे वह वह नाम ।
- ७ सूक्ष्म वादर जीवोंमें कर्मोंका बन्ध उदय सत्त्वं ।
—दे वह-वह नाम ।
८. स्कन्धके सूक्ष्म स्थूल आदि भेद ।
—दे. स्कन्ध/३ ।

सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय—दे नय/III/५ ।

सूक्ष्म कृष्टि—दे, कृष्टि ।

सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपत्ति शुक्लध्यान—दे. शुक्लध्यान/१/७ ।

सूक्ष्मजीव—दे, इन्द्रिय, काय, जीव समास ।

सूक्ष्म सांपराय—

१ सूक्ष्म साम्पराय चारित्रिका लक्षण

स. सि /६/१८/४३६/६ अतिसूक्ष्मकपायस्वाम्परायचारित्रम् ।
—जिस चारित्रमें कपाय अति सूक्ष्म ही वह सूक्ष्म साम्पराय चारित्र
है । (रा वा /६/१८/६/६१७/२१), (ध १/१.१.१२३/३७/३),
(गो जी /जी प्र /४४७/७१४/७)

प. स /प्रा /१/१३२ अणुलोहं वेद्यतो जीओ उवसामगो व खवगो वा । सो
सुष्टुमसपराओ जह्लाएणुणओ किंचि ।१३२। —मोहकर्मका उपशमन
या क्षपण करते हुए सूक्ष्म लोभका वेदन करना सूक्ष्मसाम्पराय
संयम है, और उसका धारक सूक्ष्मसाम्पराय संयत कहलाता है । यह
संयम यथाख्यात संयमसे कुछ ही कम होता है । (ध १/१.१.१२३/
गा १६०/३७३), (गो जी /मू /४४७/८८२), (त सा /६/४८)

रा वा /६/१८/६/१७/२१ सूक्ष्मस्थूलसस्ववधपरिहारप्रामत्तत्वात् अनु-
पहतोऽसाहस्य अखण्डितक्रियाविशेषस्य कपायविपाहकुरस्य
अपचयाभिमुलात्तोनस्तोकमोहनीजस्य तत एव परिप्राप्तान्वर्धसूक्ष्म-
साम्परायशुद्धिसंयतस्य सूक्ष्मसाम्परायचारित्रमाख्यायते । —
सूक्ष्म-स्थूल प्राणियोंके बधके परिहारमें जो पूरी तरह अप्रमत्त है,
अखण्डत निर्वाध उरसाहशील, अखण्डितचारित्र जिसने कपायके
विपाहकुरोंको खोंट दिया है, सूक्ष्म मोहनीय कर्मके बीजको भी
जिसने नाशके मुखमें डकेल दिया है, उस परम सूक्ष्म लोभवाले
साधुके सूक्ष्म साम्पराय चारित्र होता है । (चा सा /८४/२)

यो, सा यो /१०३ मुहुमहं लोहहं जो बिलउ जो सुष्टुम वि परिणामु ।
सो सुष्टुम वि चारित्त मुणि सो सासय-सूह धामु । —सूक्ष्म लोभका
नाश होनेसे जो सूक्ष्मपरिणामोंका शेष रह जाना है, वह सूक्ष्म
चारित्र है, वह शाश्वत सुखका स्थान है ।

द्र स /हो /३५/१४८/४ सूक्ष्मातीन्द्रियनिजशुद्धारमसवित्तिबलेन सूक्ष्म-
लोभाभिधानसाम्परायस्य कपायस्य यत्र निरवशेषोपशमन क्षपण वा
तसूक्ष्मसाम्परायचारित्रमिति । —सूक्ष्म अतीन्द्रिय निजशुद्धारमा-
के बलसे सूक्ष्म लोभ नामक साम्पराय कपायका पूर्ण रूपसे उपशमन
वा क्षपण सो सूक्ष्म साम्पराय चारित्र है ।

२ सूक्ष्म साम्पराय चारित्रिका स्वामित्त्व

प. सं १/१.१/मू. १२७/३०६ सुष्टुम-सांपरायशुद्धिमज्जया एकस्मि
चेव सुष्टुम-सांपरायशुद्धिमज्जया ।१२७। —सूक्ष्म साम्पराय शुद्धि
संयत जीव एक सूक्ष्म-साम्पराय-शुद्धि-नयत गुणस्थानमें ही होते
हैं ।१२७। (गो जी /मू /४६०), (गो जी /जी प्र /७०४/१२०/११),
(द्र नं /३५/१४८)

३. जघन्य उत्कृष्ट स्थानोंका स्वामित्त्व

प ख. ७/२.११/मू १७७-१७३ व. टी /४६ सूष्टुमसांपरायशुद्धि-
सजमम् जहणिया चरित्तलद्धी • ।१७३। उवनमगेडीदो ओयरमाग
चरिमसमगसुष्टुमसांपरायस्य । 'तगतेन उषमिया चरित्तलद्धी
।१०३। चरिमममसुष्टुमसांपरायशुद्धिमज्जया । — सूक्ष्मसाम्परायिक-
शुद्धि संयम ही जघन्य चरित्र नस्थि ।१७२। 'उपशम श्रेणीसे उतगने
वाले अन्तम समयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकने होती है । 'उनी ही
सूक्ष्मसाम्परायिक शुद्धि सगमनी उत्कृष्ट चारित्र नस्थि ।१७३।—
अन्तम समयवर्ती सूक्ष्म साम्परायिक क्षपणने होती है ।

४ सूक्ष्म साम्पराय चारित्र व गुप्ति समिति में अन्तर

रा ना. /६/१८/१०/६१७/२६ स्यान्मत्तम्-गुप्तिमिद्योरन्यतरान्तर्भव-
तोद चारित्र प्रवृत्तिनिरोधात् सम्मगयनाच्चेति. ता, कि कारकम् ।
तद्भावेऽपि गुणविशेषनिमित्ताप्रयणात् । नोभसज्वलनारय साम्प-
राय सूक्ष्मो भवतीत्यर्थं विशेष आश्रित । —प्रदन्—यह चारित्र
प्रवृत्ति निरोध या सम्मक् प्रवृत्ति रूप होनेसे गुप्ति और नमित्तमें
अन्तर्भूत होता है । उत्तर—ऐसा नहीं है क्योंकि यह उनसे आगे
बढकर है । यह दसवे गुणस्थानमें, जहाँ मात्र सूक्ष्म नोभ टिमटिमाता
है, होता है, अत यह पृथक् रूपसे निर्दिष्ट है ।

६. सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थानका लक्षण

प सं /प्रा /१/२२-२३ कोसुभोजिह राओ अम्भतरदो य सुष्टुमरतो
य । एव सुष्टुमराओ सुष्टुमकमाओ त्ति पायन्वो ।२२। पुष्पाणुव-
ष्कृष्टुमअणुभागाओ अणतगुणहीणे । लोहाणुमि य द्विअओ हदि
सुष्टुमसंपराओ य ।२३। —जिस प्रकार कुसुमली रंग भीतरसे सूक्ष्म
रक्त अर्थात् अत्यन्त कम लालिमा वाला होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म
राग सहित जीवकी सूक्ष्मकपाय वा सूक्ष्म साम्पराय जानना
चाहिए ।२२। लोभाणु अर्थात् सूक्ष्म लोभमें स्थित सूक्ष्म-
साम्परायसंयत पूर्व स्पर्धक और अपूर्व स्पर्धके अनुभाग
शक्तिते अनन्तगुणी हीन होती है ।२३। (गो जी /घू /४८-६६),
(ध २/१.१.१८/गा १०१/१८८) ।

रा वा /६/१८/२१/५६०/१७ साम्पराय कपाय, स यत्र सूक्ष्मभावने-
पशान्ति क्षय च आपद्यते तो सूक्ष्मसाम्परायो वेदितव्यो ।—
साम्पराय-कपायोंको सूक्ष्म रूपसे भी उपशम या क्षय करने वाला
सूक्ष्मसाम्पराय उपशमक क्षपक है ।

घ १/१.१.१८/१८७/३ सूक्ष्मवसासौ साम्परायश्च सूक्ष्मसाम्पराय । तं
प्रविष्टा शुश्रियैषां सयतानां ते सूक्ष्मसाम्परायप्रविष्टशुद्धिसंयता ।

ध १/१.१.२७/१४७/३ तदो णतर-समप सुष्टुमकिट्टिसख्वं लोभ वेदतो
णट्टअणियट्टिउ सण्णो सुष्टुमसांपराइओ होदि । —सूक्ष्म कपायको
सूक्ष्म साम्पराय कहते हैं उनमें जिन सयतोंकी शुद्धिने प्रवेश किया है
उन्हें सूक्ष्म-साम्पराय-प्रविष्ट शुद्धि मयत कहते हैं । २ इसके अनन्तर
समयमें जो सूक्ष्म कृष्टि गत लोभका अनुभव करता है और जिसने
अनिवृत्तिकरण इस सज्ञाको नष्ट कर दिया है, ऐसा जीव सूक्ष्म-
साम्पराय संयम वाला होता है ।

द्र. स./टी/१३/३५/५ सूक्ष्मपरमात्मतत्त्वभावनात्रलेन सूक्ष्मकृष्टिगत-
लोभकपायस्योपशमका' क्षपकाश्च दशमगुणस्थानवर्तिनो भवन्ति ।
—सूक्ष्म परमात्म तत्र भावनाके बलसे जो सूक्ष्म कृष्टिरूप लोभ
कपायके उपशमक और क्षपक है, वे दशम गुणस्थानवर्ती हैं ।

* अन्य सम्बन्धित विषय

१. सूक्ष्म साम्प्रदाय गुणस्थानके स्वामित्व सम्बन्धी गुणस्थान,
जीवसमाप्त, मार्गणस्थान आदि २० प्ररूपणाएँ ।
—दे वह वह नाम ।
२. इस गुणस्थान सम्बन्धी सत्, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन,
काल, अन्तर, भाव व अल्प बहुत्वरूप आठ
प्ररूपणाएँ । —दे. वह वह नाम ।
३. इस गुणस्थानमें कर्मप्रकृतियोंका बन्ध, उदय, व
सत्त्व प्ररूपणाएँ । —दे वह वह नाम ।
४. सभी गुणस्थानों व मार्गणस्थानोंमें आयके अनुसार
ही व्यय होनेका नियम । —दे. मार्गणा ।
५. इस गुणस्थानमें कपाय योगके सद्भाव सम्बन्धी ।
—दे. वह वह नाम ।
६. इस गुणस्थानमें औपशमिक व क्षायिक भाव
सम्बन्धी । —दे अनिवृत्तिकरण ।
७. सूक्ष्म कृष्टिकरण सम्बन्धी । —दे कृष्टि ।
८. उपशम व क्षपक श्रेणी । —दे श्रेणी ।
९. पुन पुन यह गुणस्थान पानेकी सीमा । —दे. समय/२ ।
१०. सूक्ष्मसाम्प्रदाय व छेदोपस्थापनामें मेदाभेद ।
—दे छेदोपस्थापना/४ ।

सूक्ष्म स्कंध—दे. स्कन्ध ।

सूक्ष्मा वाणी—दे भाषा ।

सूची—Width (ज प/प्र १०६) । २ (Diameter or radius
व्यास या बाण १) । ३ सूची निकालनेकी प्रक्रिया ।
—दे गणित/II/७ ।

४ घ ३/१, २, १७/१३३/५ अगुलवर्गमूल विक्कम्भसूई हवदि । तं किं
भुवमिति बुले विदियवर्गमूलगुणणेण उवनकिलय । —सूच्यगुलके
प्रथम वर्गमूलमें (अर्थात् सूच्यगुलका आश्रय लेकर विक्कम्भसूची
होती है। वह सूच्यगुलका प्रथम वर्गमूल किस रूप है, ऐसा पूछने
पर आचार्य कहते हैं कि सूच्यगुलके द्वितीय वर्गमूलके गुणासे उप-
लक्षित है। अर्थात् सूच्यगुलके प्रथम वर्गमूलको उसीके द्वितीय
वर्गमूलसे गुणित कर देने पर सामान्य नारक मिथ्यादृष्टियोंकी
विक्कम्भ सूची होती है। उदाहरण—सूच्यगुल २×२, ^३ विक्कम्भ-
सूची २, सूच्यगुलका वर्गमूल २, ^३ सूच्यगुलका द्वितीय वर्गमूल
२, ^३ ^३ ^३ विक्कम्भसूची ।
२×२=२

सूच्यगुल—क्षेत्र प्रमाणका एक भेद—दे. गणित/II/१ ।

सूतक—१ सूतक पातक विषयक जुगुप्सा हेय है

मू आ/टी/६४६ जुगुप्सा गर्हा द्विविधा द्विप्रकारा-लौकिकी लोको-
'चरा च । नोऽव्यवहारशोधनार्थं सूतकादिनिवारणाय लौकिकी
जुगुप्सा परिहरणीया तथा परमार्थं लोकोत्तरा च कर्तव्येति ।
—जुगुप्सा या गर्हा दो प्रकारकी है—लौकिकी व लोकोत्तर ।

लोक व्यवहार शोधनार्थं सूतक आदिना निवारण करनेके लिए
जो लौकिकी जुगुप्सा की जाती है वह छोड़ने योग्य है, और
परमार्थ या लोकोत्तर जुगुप्सा करनी योग्य है। (और भी देखो
निर्विचिकित्सा) ।

२. मोजन शुद्धिमें सूतक पातकके विवेकका निर्देश

- भ. आ./वि/२३०/४४४/२० मृतजातसूतकयुक्तगृह्णनेन दीयमाना
वसतिर्दायकवृष्टा । —जिसको मग्नाशौच अथवा जननाशौच है,
ऐसे दोपसे युक्त गृहस्थके द्वारा यदि वसतिना दी गयी हो तो वह
दायक दोपसे छुट्ट है ।
- त्रि. सा/६२४ असूचिसूदग *। क्यदाणा वि कुत्रते जीवा वृणरेमु
जायंते ।६२४। —अपवित्रतासे अथवा मृतादिकका सूतकसे
सयुक्त जो कृपात्रोंमें दान करता है वह जीव कुमनुष्योंमें उरपत्र
होता है ।६२४।
- अन. ध ५/३४ शवादिनापि दत्त दायकदोषभाक् ।३४। उक्त च—
सूती शौण्डी तथा रोगी शव पण्ड पिशाचवाद् । पतितोऽन्वा-
ननाश्च रक्ता वेश्या च लिङ्गिनी । —शवको श्मशानमें छोड़कर
आये हुए मृतक सूतकसे युक्त पुरुषों द्वारा दत्त आहार दायक दोपसे
दूषित समझना चाहिए ।३४। —जिसके सन्तान उरपत्र हुई हो ।
- नो पा./टी/४८/११२ पर उद्धृत—दीनस्य सूतिकायाश्च । —दीन
अर्थात् दरिद्री, सूतक वाली स्त्रीके घरका विशेष रूपसे (साधु आहार
ग्रहण न करे) ।
- ता. स./५/२५१ सूतक पातक चापि यथोक्त जैनशासने । एषणाशुद्धि-
सिद्धयर्थं वर्जयेच्छ्रावकाग्रणी ।२५१। —अणुवती श्रावकोंको अपने
भोजनकी शुद्धि बनाये रखनेके लिए अथवा एषणा शुद्धिके लिए
यथोक्त सूतक पातकका भी रथाग कर देना चाहिए । भावार्थ—
किसीके सूतक पातकमें भोजन नहीं करना चाहिए ।
चर्चा समाधान/५३/पु. १० मुनि आहारार्थं सूतक व दुखित ऐसे शुद्ध
कुलमें भी प्रवेश न करे ।

३. सूतक पातक किसको व कहां नहीं लगता

प्रतिष्ठापाठ जयसेन/२५८ यद्वश्यतीर्थवरनिम्नशुदीर्थं सस्यामुस्या तदीय-
कुलगोत्रजनिप्रवेशाद् । सवृत्तगोत्रचरणप्रतिष्ठापाठयोगादाशौचमावहस्तु
नोऽभवप्रशस्तम् ।२५८। —जिस वंश वाला यजमान
बिम्ब प्रतिष्ठा करा रहा है, उसके वंश, कुल, गोत्रमें उस दिनसे
अशौच नहीं माना जाता अर्थात् जिस दिन नान्दी अभिषेक
हो गया उस दिनसे यजमानके कुलमें सूतक तथा सूना नहीं
लगता ।२५८।

प्रायश्चित्त सग्रह/३५३ मालत्रणशूरत्वाज्ज्वलनादिप्रदेशे दीक्षितै ।
अनशनप्रदेशेषु च मृतकानां खलु सूतक नास्ति । —तीन दिनका
मालक, युद्धमें मरणको प्राप्त, अग्नि आदिके द्वारा मरणको प्राप्त जिन
दीक्षित, अनशन करके मरणको प्राप्त, इनका मरणसूतक नहीं होता ।

४ सूतक पातक शुद्धि काल प्रमाण

म पु/३८/६०-६१ बहिर्यानि ततो द्वित्रै गासेरित्रचतुर्स्त ।
यथानुकूलमिष्टेऽह्नि कार्यसूर्यादिमदलै । ६०। तत प्रभृत्यभ्रष्ट
हि शिशो प्रसववेश्मन । बहि प्रणयनं माता धात्र्युत्पन्नगतस्य वा
।६१। —तदनन्तर (प्रसूतिके) दो-तीन अथवा तीन चार माहके
बाद किसी शुभ दिन तुरही आदि मांगलिक जात्रोंके साथ-साथ
अपनी अनुकूलताके अनुसार बहिर्यानि क्रिया करनी चाहिए । जिस
दिन यह क्रिया की जाये उसी दिनसे माता अथवा धायत्री
गोदमें बैठे हुए मालकका प्रसूति गृहसे बाहर ले जाना
सम्मत है ।

प्रायश्चित्त अंग्रह/१६३ ब्राह्मणक्षत्रियविडशूद्रादिने शुद्धयन्ति पञ्चभि ।
दश-द्वादशभि पञ्चादश वा सख्याप्रयोगत १२६३। = ब्राह्मण पाँच
दिनमें, क्षत्रिय दश दिनमें, वैश्य बारह दिनमें, और शूद्र पन्द्रह
दिनोंमें पातकके दोषसे शुद्ध होते हैं ।

४. व्यवहार गत सूतक पातक शुद्धिका काल प्रमाण

अनसर	जन्म	मरण		मरण
३ पीढ़ी तक	१० दिन	१२ दिन	१ महीने तकके बालक	१ दिन
४ " "	१० " "	१० " "	८ वर्ष तकका बालक	३ " "
५ " "	६ " "	६ " "	३ मास तकका गर्भपात	३ " "
६ " "	४ " "	४ " "	इसके पश्चात् जितने	उतने
७ " "	३ " "	३ " "	मासका गर्भपात हो	दिन
८ " "	८ पहर	८ पहर	गृह त्यागी, सन्यासी	१ दिन
९ " "	२ " "	२ " "	गृहस्थी पण्डेशमें	खन्नर
पुत्री, दासी, दास		३ दिन	मरे तो	आनेके
(अपने घरमें)			अपघातमृत्यु	पीछे षोड
गाय भैस आदि		१ " "		दिन
(अपने घरमें)				३ माह
अनाचारी स्त्री	सदा	सदा		
पुरुषके घर				

५. रजस्वला स्त्रीका स्पर्श करना योग्य नहीं

अन ध./६/३६ म उद्दृष्ट-रक्ता वेश्या च लिङ्गिनी । = जो मासिक
धर्मसे युक्त हो, वेश्या तथा आर्थिका आदिके आहारको दायक दोषसे
दृष्ट समझना चाहिए । (अन. ध./६/३४)

त्रि सा/६/२४ पुष्पगर्ह । कयदाणा वि कुवत्ते जीवा कुणरेसु जायते
।६२४। = पुष्पवती स्त्रीका ससर्ग कर, जा कृपात्रमें दान देता है, वह
कुमानुषोंमें उत्पन्न होता है ।

सा. ध./४/३१ । स्पृष्ट्या रजस्वलाशुष्कचर्मास्थियुनकादिकम् । =
व्रतो गृहस्थ रजस्वला स्त्री, सूखा चमडा, हड्डी, कुत्ता आदिके स्पर्श
हा जानेपर (भोजन छोड़ दे) ।

६. रजस्वला स्त्रीकी शुद्धिका काल प्रमाण

म पु/३/७० आधान नाम गर्भादौ सस्कारो मन्त्रपूर्वक । पत्नीमृत्-
मतीं स्नातां पुरस्कृत्याहं दिज्यया । ७०। = चतुर्थ स्नानके द्वारा शुद्ध
हुई रजस्वला पत्नीको आगे कर गर्भाधानके पूर्व अर्हन्तदेवकी पूजाके
द्वारा मन्त्रपूर्वक जो सस्कार किया जाता है उसे आधान क्रिया
कहते हैं ।

* अन्य सम्बन्धित विषय

१. नीचादिका अथवा रजस्वलाका स्पर्श होनेपर साधु जल धारा
से शुद्धि करते हैं । —दे भिक्षा/३।

सूत्र—१. दे. आगम/७ Formula (ध. ४/प्र./२८)

सूत्रश्रुतांग—श्रुतके दृष्टिप्रवाद अगका दूसरा भेद—दे श्रुत-
ज्ञान/III।

सूत्रपाहुड—आ कुन्दकुन्द (ई १२७-१७६) वृत्त शास्त्रज्ञान या
सम्यग्ज्ञान विषयक २७ प्राकृत गाथाओंबद्ध ग्रन्थ है । इसपर आ,
श्रुतसागर (ई १४७३ १६३३) कृत सस्वृत टांका जीर प, जयचन्द
छानडा (ई १८६७) कृत भाषा वचनिका उपलब्ध है ।

सूत्रमणि—रुचक पर्वतके नित्योद्योत कूटपर रहनेवाली
विद्युत्कुमारी देवी—दे लोक/७।

सूत्रसम द्रव्य निक्षेप—निक्षेप/७/८।

सूत्र सम्यक्त्व—दे, सम्यग्दर्शन/II/१।

सूत्रोपसंयत—दे समाचार ।

सूना—यू आ/६/२६ कडणी पीसणी चुन्ली उदकुभ पमज्जणी ।
= ओखली, चक्री, चूत्त, जल रखनेका स्थान, बुहारी ये पाँच सूना
दोष कहलाते हैं । (अन ध./४/१२६)

सूरसेन—भरत क्षेत्र मध्य आर्य खण्डका एक देश—दे मनुष्य/४।

सूर्पार—भरतक्षेत्र पश्चिम आर्य खण्डका एक देश ।—दे, मनुष्य/४।

सूर्य—१. इस सम्बन्धी विषय—दे ज्योतिष/२, २ कृष्णका १७वाँ
पुत्र—दे इतिहास/७/१०, ३ अपरविदेहस्थ नागगिरि वक्षारका एक
कूट व उसका रक्षक देव—दे लोक/७।

सूर्यगिरि—अपरविदेहस्थ एक वक्षार ।—दे लोक/७।

सूर्यपत्तन—वर्तमान सूरत । (म पु/प्र. ४६ प, पत्रालाल) ।

सूर्यपुर—विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका नगर—दे विद्याधर ।

सूर्यप्रज्ञप्ति—अग श्रुतका एक भेद—दे, श्रुतज्ञान/III।

सूर्यरज—म पु/सर्ग/श्लोक सुग्रीवका पिता था (६/१) बालीको
राज्य दे स्वय दीक्षित हो गया था (६/१६) ।

सूर्यवंश—दे इतिहास/७/१६।

सूर्यह्रद—देवकुरके दस द्रहोंमेंसे दोका नाम—दे लोक/७।

सूर्याचरण—सुमेरु पर्वतका अपर नाम—दे सुमेरु ।

सूर्याभ—१ लौकान्तिक देवोंका एक भेद—दे लौकान्तिक;
२ विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर—दे, विद्याधर ।

सूर्यावर्त—सुमेरु पर्वतका अपर नाम—दे सुमेरु ।

सृष्टा—दे कर्म/३/१।

सृष्टि—१ अन्य मत मान्य सृष्टि व प्रलय—दे वैशेषिक व सारन्य
दर्शन, दे २ प्रलय ।

सेज्जाधर—१ भ आ/वि/४२१/६१३/१३ सेज्जाधरशब्देन त्रयो
भण्यन्ते वसति य करोति । कृता वा वसति परेण भग्ना पतितैक
देशा वा सस्फुरोति । यदि वा न करोति न सस्कारयति केवलं
प्रयच्छरयन्नास्वैति । = जो वसतिकाको बनाता है वह, बनायी हुई
वसतिकाका सस्कार करनेवाला अथवा गिरी हुई वसतिकाको सुधारने-
वाला, किंवा उसका एक भाग गिर गया हो उसको सुधारनेवाला वह
एक, जो बनवाता नहीं है, और सस्कार भी नहीं करता है परन्तु
यहाँ आप निवास करो ऐसा कहता है वह, ऐसे तीनोंको सेज्जाधर
कहते हैं । २ सेज्जाधरके हाथका आहार ग्रहण करनेका निषेध—दे,
भिक्षा/३/२।

सेनसंघ—दे इतिहास/६/२८।

सेना—१. सेनाका लक्षण

प. पु/५६/३-८ अष्टाविमे गता रथ्याति प्रकारा गणनाकृता । चतुर्ण भेदमङ्गानां कीर्त्यमानं विनोध्यताम् । ३। पत्ति' प्रथमभेदोऽत्र तथा सेना प्रकीर्तिता । सेनामुख ततो गुल्म वाहिनी पृतना चम् । ४। अष्ट-मोऽनीकनीसङ्गस्तत्र भेदो बुधे स्मृत । यथा भवन्वयमी भेदास्तथे-दानां वदामि ते । ५। एको रथो गजश्चैकस्तथा पञ्च पदातय । त्रयस्तु-रङ्गमा सेपा पत्तिरिदयभिधीयते । ६। पत्तिस्त्रिगुणिता सेना तिस्र सेनामुखं च ता । सेनामुखानि च त्रीणि गुल्ममित्यनुकीर्त्यते । ७। वाहिनी त्रीणि गुल्मानि पृतना वाहिनीत्रयम् । चमूस्त्रिपृतना ज्ञेया चमूत्रयमनीकिनीम् । ८। = हाथी, घोडा, रथ और पयादे ये सेनाके चार अंग कहे गये हैं । इनकी गणना करनेके नीचे लिखे आठ भेद प्रसिद्ध हैं । ३। प्रथम भेद पत्ति, दूसरा भेद सेना, तीसरा सेनामुख, चौथा गुल्म, पाँचवाँ वाहिनी, छठाँ पृतना, सातवाँ चमू और आठवाँ अनीकिनी । अब उक्त चार अंगोंमें ये जिस प्रकार होते हैं उनका कथन करता हूँ । १४-१। जिसमें एक रथ, एक हाथी, पाँच पयादे और तीन घोडे होते हैं वह पत्ति कहलाता है । ६। तीन पत्तिकी सेना होती है, तीन सेनाओंका एक सेनामुख होता है, तीन सेनामुखों का एक गुल्म कहलाता है । ७। तीन गुल्मोंकी एक वाहिनी होती है, तीन वाहिनियोंकी एक पृतना होती है, तीन पृतनाओंकी एक चमू होती है और तीन चमूकी एक अनीकिनी होती है । ८। दस अनीकिनीकी एक अक्षीहिणी होती है । कुल अक्षी-हिणीका प्रमाण—दे, अक्षीहिणी ।

* सेनाकी १८ श्रेणियाँ—दे श्रेणी/१/२ ।

सेनापति—१ सेनापति कहिए सेनाका नायक । (त्रि सा /टी./-६८३), २ चक्रवर्तिके चौदह रत्नोंमेंसे एक—दे शलाकापुरुष/२ ।

सेनामुख—सेनाका एक अंग—दे सेना ।

सेमर—नरकमें होनेवाला एक वृक्ष विशेष (छहढाला/१ ।

सेवा—प्र सा./ता, वृ/२६२/३४४/१२ उपासन शुद्धात्मभावना सह-कारिकारणनिमित्त सेवा । =शुद्धात्मभावनाकी सहकारीकारण उपासना सेवा है ।

सैधव—भरत क्षेत्रका एक देश । अपर नाम सिन्धु ।—दे, मनुष्य/४ ।

सैतव—भरत क्षेत्रके मध्य आर्य खण्डका एक देश—दे मनुष्य/४ ।

सैद्धांतिकदेव—नन्दिसषके वैश्वीय गण नं २ की गुर्वावलीके अनुसार आप शुभचन्द्र न, २ के शिष्य थे । समय—वि १०७२-११०३ ई. १०१५-१०४५ (प. स/भा/प्र/घ, H L, Jain)—दे, इतिहास/५/१४ ।

सैल्योकस—दे सिल्योकस ।

सोपक्रमकाल—दे काल/१/६ ।

सोमकायिक—१ लोकपाल देवोंका एक देव—दे, लोकपाल, २. आकाशोपपन्न देव—दे, देव/II/१/३ ।

सोम—भद्रशाल वनस्थ पश्चोत्तर दिग्गजेन्द्रका स्वामी देव—दे, लोक/७ ।

सोमकीर्ति—काशासषकी गुर्वावलीके अनुसार भीमसेनके शिष्य थे । कृति—प्रद्वयुम्न चरित्र, चारुदत्तचरित्र । समय—वि, १५३१ (ई १४७४), (चारुदत्त चरित्रकी प्रस्तावनामें प परमेष्ठो-दास)—दे इतिहास/५/६ ।

सोमदत्त—इन्होंने जिनदत्त सेठसे आकाशगामिनी विद्याकी सिद्ध करनेका उपाय प्राप्त किया । परन्तु अस्थिर चित्तके कारण सिद्ध न कर सके । फिर उसको विद्युच्चर चोरने सिद्ध किया । (बृहद् कथा कोश । कथा ४) ।

सोमदेव—१ एक महाकवि थे । समय—ई ६५६ (झा/प्र, ६ प, पन्नालाल बाबलीवाल) । २ आप श्री नेमिदेवके शिष्य थे और यशोदेवके प्रशिष्य थे । महेन्द्र भट्टारकके लघु भ्राता थे । आपके ग्रन्थ काव्य रससे परिपूर्ण है । यद्यपि आप दिग्म्बर मुनि थे, परन्तु आपके ग्रन्थ दिग्म्बर लोग अधिक प्रामाणिक नहीं मानते । इसका कारण यह है कि आपके ग्रन्थोंमें प्रायः शिथिलाचार पोषक बातें हैं । जैसे यशस्तिलकके उपासकाध्ययन अधिकार श्लोक ६५ में आपने यहाँ तक भी लिख दिया है कि जेनोको सर्व विधि प्रमाण है जिससे व्रत व सम्यक्त्व खण्डित न हो । कृति—नीतिनाथयामृत, यशस्तिलक चम्पू, स्थाद्वारोपनिषद्, पणवतिप्रकरण, त्रिगर्ग-महेन्द्र मांति-जल्प, युक्तिक्रिन्तामणि स्तव, योगमार्ग । यशस्तिलक चम्पू वि, १६०६ में पूर्ण किया तदनुसार समय—वि, १०००-१०२५ ई ६४३-६६८; (भ,आ/प्र ६ प्रेमी जी), (प प्र/प्र १२१ A, N up), (आ. अनु/प्र, १३१ A. N, up), (पं. वि/प्र ३१ A N. up); (सि वि प्र ४० महेन्द्र), (यशस्तिलक चम्पूकी प्रशस्ति व प्रस्तावना मुन्दरलाल) । ३. बृहत्कथा सरित सागरके कर्ता एक दिम्बर मुनि थे । समय—ई १०६१-१०८१ (जीवन्धर चम्पू/प्र १८ A J N up)

सोमप्रभ—म.पु/सर्ग/श्लोक श्रेयान्स राजाका भाई था । भगवान् ऋषभदेवको सर्व प्रथम आहार दिया (२०/८८) । अन्तमें भगवान् के समवशरणमें दीक्षा ग्रहणकर (२४/१७४) मुक्ति प्राप्त की (४३/२६) ।

सोमयश—बाहुबलीका पुत्र था । इसीसे सोमवशकी उत्पत्ति हुई थी । (ह. पु/१३/१-२), (प. पु/५१४) ।

सोमवंश—दे इतिहास/७/१७ ।

सोमशर्मा—१ जातिका ब्राह्मण था । जेन मुनिसे प्रभावित होकर दीक्षा ग्रहण कर ली । परन्तु वर्णका ढीक उच्चारण न होनेसे अन्य किसी आचार्यके पास जाकर चार आराधनाओंका आराधन कर स्वर्गमें देव हुआ । (वृ क को/कथा न २) २. पुष्पा भजलका पुत्र था । मित्र मुनि वारिषेणको आहार दानके पीछे उनको सधमें पहुँचाने गया । वहाँ अनिच्छक वृत्तिसे दीक्षा धारण कर ली । बहुत समय पश्चात् वारिषेण मुनिने इनको पदविचलित जान कर अपनी शृंगारित १०० सौ रानियोंको दिवाकर इसका स्थितिकरण किया । (वृ क, को./कथा १०) । ३ विष्णुशर्मा द्वारा व्यापारार्थ प्रदत्त धनको डाकुओं द्वारा लूट लिया जानेपर दीक्षा ग्रहण कर ली । विष्णुशर्माके धनके लिए जिद करनेपर तपके प्रभावसे उसका धन चुका दिया । तब विष्णुदत्त भी दीक्षित हो गया । (वृ क को/कथा १६) ।

सोमश्रेणी—राजा भोगके समय मालवा आश्रम नगरमें सोम श्रेणी-के लिए नेमिचन्द्र संद्धान्तिक देवने द्रव्यसग्रह रवा । समय—वि, श ११ (ई श, ११ का पूर्व) ।

सोमिल—भगवान् वीरके तीर्थमें अन्तकृत केवली हुए थे । दे. अन्तकृत ।

सोमेश्वर—धारवाड़के राजा थे । इन्होंने धर्मगुरु गोवर्धन देवको सम्यक्त्व रत्नाकर चैत्यालयके लिए बुद्ध दान दिया था । समय—ई १०४५ (मि वि /७५ शिलालेख)

सोरठ—भरत क्षेत्रका एक देश । अपर नाम सौराष्ट्र—दे मनुष्य/४ ।

सोलसा—भगवान् धर्मनाथकी शानक यक्षिणी—दे, यक्ष ।

वे परस्परमें बँध जाते हैं, जिसके कारण सूक्ष्मतमसे स्थूलतम तक अनेक प्रकारके स्कन्ध उत्पन्न हो जाते हैं। पृथिवी, अप्, प्रकाश, छाया आदि सभी पुद्गल स्कन्ध हैं। लोकके सर्वद्वीप, चन्द्र, सूर्य आदि महात् पृथिवीमें मिलकर एक महास्कन्ध होता है, क्योंकि पृथक्-पृथक् रहते हुए भी ये सभी मध्यवर्ती सूक्ष्म स्कन्धोंके द्वारा परस्परमें बँधकर एक हैं।

१. स्कन्ध निर्देश

१. स्कन्ध सामान्यका लक्षण

स, सि /५/२५/२६७/७ स्थूलभावेन ग्रहणनित्येपणादिव्यापारस्कन्धना-स्कन्धा इति सज्ञायन्ते । = जिनमें स्थूल रूपसे पकडना, रखना आदि व्यापारका स्कन्धन अर्थात् सघटना होती है वे स्कन्ध कहे जाते हैं। (रा. वा /५/२५/२/४६१/१६)।

रा वा /५/२५/१६/४६३/६ बन्धो बध्यते, त परिप्राप्ता येऽणवः ते स्कन्धा इति व्यपदेशमर्हन्ति । = जिन परमाणुओंने परस्पर बन्ध कर लिया है वे स्कन्ध कहलाते हैं।

* पुद्गल वर्गणा रूप स्कन्ध—दे, वर्गणा।

२. स्कन्ध देशादिके भेद व लक्षण

पं, का /मू./७५ खंध सयलसमत्थ तस्स दुःखं अद्दं भणति वेसो त्ति । अद्दं च पदेसो परमाणुं चैव अविभागी ७५। = सकल—समस्त (पुद्गल पिण्डात्मक सम्पूर्ण वस्तु) वह स्कन्ध है, उसके अर्थको देश कहते हैं, अर्थका अर्थ वह प्रदेश है और अविभागी वह सचमुच परमाणु है ७५। (मू आ /२३१), (ति प /१/६५), (घ १३/५,३, १२/गा ३/१३), (गो जी /मू ६०३/२०५६), (यो सा अ /२/१६)। रा वा /५/२५/१६/४६३/७ ते (स्कन्धा) त्रिविधा स्कन्धा स्कन्धदेशा स्कन्धप्रदेशाश्चेति । अनन्तानन्तपरमाणुबन्धविशेष स्कन्ध । तदर्थं देशः । अर्थार्थं प्रदेशः । तद्भेदा पृथिव्यन्तेजोवायव, स्पर्शादि-शब्दादिपर्याया । = वे स्कन्ध तीन प्रकारके हैं—स्कन्ध, स्कन्धदेश और स्कन्ध प्रदेश । अनन्तानन्त परमाणुओंका बन्ध विशेष स्कन्ध है । उसके आधेको देश कहते हैं और आधेके भी आधेको प्रदेश । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि उसीके भेद हैं । स्पर्शादि और स्कन्धादि उसकी पर्याय है ।

३. स्थूल सूक्ष्मकी अपेक्षा स्कन्धके भेद व लक्षण

नि, सा /मू /२१-२४ अहस्थूलथूलथूल थूलसुहम च सुहमथूलं च । सुहम अहसुहम इदि धरादिय होदि छम्भेय १२१। भूपवदमाडिया भणिदा अहस्थूलथूलमिदि खधा । धूना इदि विण्णया सप्पीजलतेलमादीया । १२२। छायातवमादीया थूलदरखधमिदि वियाणाहि । सुहमथूलेदि भणिया खधा चउरक्खविसया य १२३। सुहमा हवं ति खधा पावोग्गा कम्मवग्गणस्स पुणो । तव्विवरीया खंधा अहसुहमा इदि परुव्वेदि । १२४। = १ भेद—अतिस्थूलस्थूल, स्थूल, स्थूलसूक्ष्म, सूक्ष्मस्थूल, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म ऐसे पृथिवी आदि स्कन्धोंके छह भेद हैं १२१। (म पु /२४/२४६), (प का /त प्र./७६), (यो सा अ /२/२०), (गो जी /मू /६०३/२०५६), २ लक्षण—भूमि, पर्वत आदि अतिस्थूल-स्थूल स्कन्ध रहे गये हैं, धी जल तैल आदि स्थूलस्कन्ध जानना । १२२। छाया, आतप आदि स्थूल-सूक्ष्मस्कन्ध जानना और चार इन्द्रियके विषयभूत स्कन्धोंको सूक्ष्म-स्थूल कहा गया है १२३। और कर्म वर्गणाके योग्य स्कन्ध सूक्ष्म हैं, उनसे विपरीत (अर्थात् कर्म वर्गणाके अयोग्य) स्वन्ध अतिसूक्ष्म कहे जाते हैं १२४।

घ ३/१,२,१/गा, २/३ पुढवी-जलं च छाया चउरिदियविसय-क्म्म-परमाणु । छव्विह भेय भणियं जिणवरेहि १२। = पृथिवी, जल, छाया, नेत्र इन्द्रियके अतिरिक्त दोष चार इन्द्रियोंके विषय, कर्म और परमाणु, इस प्रकार पुद्गल द्रव्य छह प्रकारका कहा है। (का /प्रक्षेपक/७३-१/१३०), (न, च वृ /३२), (गो. जी /मू /६०२/१०५८), (नि, सा, ता वृ /२०)।

म पु /२४/१५०-१५३ शब्द स्पर्शा रसो गन्ध सूक्ष्मस्थूलो निगच्छते । अचाक्षुपत्वे सत्येपाम् इन्द्रियग्राह्यतेऽणत्वात् १५१, स्थूलसूक्ष्मा पुनर्ज्ञेया-श्रद्धायाज्योत्स्नातपादय । चाक्षुपत्वेऽप्यसहार्थरूपत्वादि विघातका । १५२। द्रवद्रव्य जलादि स्यात् स्थूलभेदिनिदर्शनम् । स्थूलस्थूल' पृथिव्यादिर्भेद्य स्कन्ध' प्रकीर्तित १५३। = शब्द, रस, गन्ध, स्पर्शा सूक्ष्मस्थूल कहलाते हैं, क्योंकि यद्यपि इनका चक्षु इन्द्रियके द्वारा ज्ञान नहीं होता, इसलिए ये सूक्ष्म हैं परन्तु अपनी-अपनी कर्ण आदि इन्द्रियोंके द्वारा इनका ग्रहण हो जाता है इसलिए ये स्थूल भी कहलाते हैं १५१। छाया, चाँदनी और आतप आदि स्थूल-सूक्ष्म कहलाते हैं क्योंकि चक्षु इन्द्रियके द्वारा दिखाई देनेके कारण यह स्थूल है, परन्तु इनके रूपका सहरण नहीं हो सकता, इसलिए विघात रहित होनेके कारण सूक्ष्म भी है १५२। पानी आदि तरल पदार्थ जो कि पृथक् करनेपर भी मिल जाते हैं स्थूल भेदके उदाहरण हैं और पृथिवी आदि स्कन्ध जो कि भेद किये जानेपर फिर मिल न सकें स्थूल-स्थूल कहलाते हैं १५३।

का /त प्र /७६ तत्र छिन्ना स्वय सधानासमर्था काष्ठपापाणादयो वादरवादरा । छिन्ना, स्वय सधानसमर्था क्षीरघृततैलतोयसर-प्रभृतयो वादरा । स्थूलोपलम्भा अपि छेत्तु भेत्तुमादातुमशक्या छायातपतमोज्योत्स्नादयो वादरसूक्ष्मा । सूक्ष्मत्वेऽपि स्थूलोपलम्भा स्पर्शरसगन्धशब्दा सूक्ष्ममादरा । सूक्ष्मत्वेऽपि हि करणानुप-लम्भा कर्मवर्गणादय सूक्ष्मा । अत्यन्तसूक्ष्मा कर्मवर्गणाभ्योऽधो द्व्यणुकस्कन्धपर्यन्ता सूक्ष्मसूक्ष्मा इति । = काष्ठ पापाणादिक जो कि छेदन करनेपर स्वय नहीं जुड़ सकते वे (घन पदार्थ) वादर-वादर हैं । दूध, घी, तैल, रस आदि जो कि छेदन करनेपर स्वयं जुड़ जाते हैं वे (प्रवाही पदार्थ) वादर हैं । छाया, धूप, अन्धकार, चाँदनी आदि (स्कन्ध) जो कि स्थूल ज्ञात होनेपर भी जिनका छेदन, भेदन, अथवा (हस्तादि द्वारा) ग्रहण नहीं किया जा सकता वे वादर-सूक्ष्म हैं । स्पर्श-रस-गन्ध-शब्द जो कि सूक्ष्म होनेपर भी स्थूल ज्ञात होते हैं (जो चक्षुके अतिरिक्त अन्य चार इन्द्रियोंसे ज्ञात होते हैं) वे सूक्ष्म वादर हैं । कर्म वर्गणादि कि जिन्हे सूक्ष्मपना है तथा जो इन्द्रियोंसे ज्ञात न हों ऐसे हैं वे सूक्ष्म हैं । कर्म वर्गणासे नीचेके द्विअणुक स्कन्ध तकके जो कि अत्यन्त सूक्ष्म हैं वे सूक्ष्मसूक्ष्म हैं । (गो जी /जी प्र /६०३/१०५६)।

४. महास्कन्ध निर्देश

प ख /१४/४/६/सू ६४१/४६४ अठ पुढवीओ टकाणि क्खड्डाणि भवणाणि विमाणाणि विमार्णिदियाणि विमाणपत्थलाणि गिरइदियाणि गिरय-पत्थलाणि गच्छाणि गुम्माणि वल्लीणि लदाणि तणवणफदि आदीरि ६४१। = आठ पृथिवियों, टक, कूट, भवन, विमान, विमानेन्द्रक, विमानप्रस्तर नरक, नरवेन्द्रक, नरकप्रस्तर, गच्छ, गुल्म, वल्ली, लता और तृण वनस्पति आदि महास्कन्ध स्थान हैं ६४१।

गो जी /जी प्र /६००/१०५२/४ महास्कन्धवर्गणा वर्तमानकाले एता सा तु भवनविमानाष्टपुत्रीमेरुलज्जैनादीनामेकीभावरूपा । कथं सत्प्रातासन्व्यातयोजनान्तरितानामेकत्वं । एकबन्धनयद्रसूक्ष्मपुद्गल-स्कन्ध समवेतानामन्तराभावात् । = महास्कन्ध वर्गणा वर्तमान कालमें जगत्में एक ही हैं सो भवनवाग्भियोंके भवन, देवियोंके विमान, जाठ पृथिवी, मेरुगिरि, कुलाचल इत्यादिका एक स्कन्ध

रूप ही है। प्रश्न—जिनके सख्यात असख्यात योजनका अन्तर है, तिनका एक स्कन्ध कैसे सम्भवता है। उत्तर—जो मध्यमें सूक्ष्म परमाणु है, सो वे विमान आदि और सूक्ष्म परमाणु इन समका एक घातन है, इसलिये अन्तर नहीं है एक स्कन्ध है। इस एक स्कन्धका नाम महास्कन्ध है।

प्र स /टी/२/चू/लिका/७६/२ पुद्गलद्रव्य पुनर्लोकरूपमहारकधापेयया सर्वगतं, शेषपुद्गलापेक्षया सर्वगत न भवति। = पुद्गल द्रव्य लोक व्यापक महा स्कन्धकी अपेक्षा सर्वगत है और शेष पुद्गलोंकी अपेक्षा असर्वगत है।

दे, परमाणु/२/७ (महास्कन्धमें कुछ परमाणु त्रिकाल अचल हैं)
दे वर्णणा/२/२ (जबवन्ध वर्णणासे लेकर महास्कन्ध पर्यन्त वर्णणाओंकी क्रमिक वृद्धि)

* वनस्पति स्कन्ध निर्देश—दे, वनस्पति/३/७।

५. स्कन्धोंकी उत्पत्तिका कारण

छ, सू /५/२६ भेदसघातेभ्य उत्पद्यन्ते। २६।

स सि /५/२६/२६६/५ भेदात्सघाताद्भेदसघाताभ्यां च उत्पद्यन्ते इति। तथा—द्वयोः परमाण्वो सघाताद् द्विप्रदेश स्कन्ध उत्पद्यते। द्विप्रदेशस्याणोश्च प्रयाणां वा अणूनां सघातात्त्रिप्रदेश। द्वयोर्द्विप्रदेशयोस्त्रिप्रदेशस्याणोश्च चतुर्णां वा अणूनां सघाताच्चतु-प्रदेश। एव सख्येयासख्येयानन्तानामन्तानन्तानां च सघातात्तावत्प्रदेश। एवमेव भेदात्तावद् द्विप्रदेशपर्यन्ता स्कन्धा उत्पद्यन्ते। एव भेदसघाताभ्यामेकसमयिकाम्नां द्विप्रदेशादय स्कन्धा उत्पद्यन्ते। अन्यतो भेदेनान्यस्य सघातेनेति। एवं स्कन्धानामुत्पत्तिहेतुरुक्त। = भेदसे, सघातसे तथा भेद और सघात दोनोंसे स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। प्रश्न—भेद और सघात दो हैं। इसलिये सूत्रमें द्विवचन होना चाहिए। उत्तर—दो परमाणुओंके सघातमे दो प्रदेशवाला स्कन्ध उत्पन्न होता है। दो प्रदेशवाले स्कन्ध और अणुके सघातसे या तीन अणुओंके सघातसे तीन प्रदेशवाला स्कन्ध उत्पन्न होता है। दो प्रदेशवाले दो स्कन्धोंके सघातसे, तीन प्रदेशवाले स्कन्ध और अणुके सघातसे या चार अणुओंके स्कन्धोंके सघातसे, चार प्रदेशवाला स्कन्ध उत्पन्न होता है। इस प्रकार सख्यात, असख्यात, अनन्त और अनन्तानन्त अणुओंके सघातसे उतने-उतने प्रदेशोंवाले स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। तथा इन्हीं सख्यात आदि परमाणुवाले स्कन्धोंके भेदसे दो प्रदेशवाले स्कन्ध तक स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार एक समयमें होनेवाले भेद और सघात इन दोनोंसे दो प्रदेशवाले आदि स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। तारपर्यं यह है कि जब अन्य स्कन्धसे भेद होता है और अन्यका सघात, तब एक साथ भेद और सघात इन दोनोंसे भी स्कन्धकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार स्कन्धोंकी उत्पत्तिका कारण कहा। (रा वा /५/२६/२-४/४६३/२६)।

दे वर्णणा/२/३,५,६ (ऊपरकी वर्णणाओंके भेदसे तथा नीचेकी वर्णणाओंके सघातसे उत्पन्न होनेका स्पष्टीकरण)

६. स्कंधोंमें चाक्षुष अचाक्षुष विभाग व उनकी उत्पत्ति

त सू /५/२८ भेदसघाताभ्यां चाक्षुष /२८।

स सि /५/२८/२६६/७ अनन्तानन्तपरमाणुसमुदयनिष्पाद्योऽपि कश्चिच्चाक्षुष कश्चिदचाक्षुष। तत्र योऽचाक्षुष स कथं चाक्षुषो भवतीति चेदुच्यते—भेदसघाताभ्यां चाक्षुष। न भेदादिति। कात्रोपपत्तिरिति चेत। ब्रूम, सूक्ष्मपरिणामस्य स्कन्धस्य भेदे सौक्ष्म्यापरित्यागादचाक्षुषत्वमेव। सौक्ष्म्यपरिणत पुनरपर सत्यपि तद्भेदेऽन्यसघातान्तरसयोगात्सौक्ष्म्यपरिणामोपरमे स्थीयोरुत्पत्तौ चाक्षुषो भवति। = भेद और सघातसे चाक्षुष स्कन्ध उत्पन्न होता है। २८।

अनन्तानन्त परमाणुओंके समुदायमे निष्पन्न होकर भी कोई स्कन्ध चाक्षुष होता है और कोई अचाक्षुष। उसमें जो अचाक्षुष स्कन्ध है वह चाक्षुष कैसा होता है इसी बातसे बतलानेके लिए यह कहा है कि भेद और सघातमे चाक्षुष स्कन्ध होता है, केवल भेदसे नहीं, यह सूत्रका अभिप्राय है। प्रश्न—इसका क्या कारण है। उत्तर—आगे उसी कारणसे करते हैं—सूक्ष्म परिणामवाले स्कन्धका भेद होनेपर वह अपनी सूक्ष्मताकी नहीं छोड़ता इसलिये उसमें अचाक्षुषपना ही रहता है। एक दृमरा दृमर परिणामवाला स्कन्ध है जिसका यद्यपि भेद हुआ तथापि उसका दूसरे सघातसे सयोग ही गया अतः सूक्ष्मपना निरस्तपर उसमें रघुत्पत्तिका उत्पत्ति हो जाती है और इसलिये वह चाक्षुष हो जाता है। (रा वा /५/२८/१-४/६४/२६)

* परमाणुओंकी हीनाधिकतासे स्कन्ध मोटा व छोटा नहीं होता। —दे सूक्ष्म/२/४।

* स्कन्धके प्रदेशोंमें गुणों सम्यन्धी। —दे, पुद्गल।

७. शब्द गन्ध आदि भेद स्कन्धके हैं परमाणुके नहीं

रा वा /५/२४/२४/४६०/२४ शब्दादयस्तु स्कन्धानामेव व्यक्तिरूपेण भवन्ति सौक्ष्म्यसंख्या इत्येतस्य विशेषस्य प्रतिपत्त्यर्थं पृथग्योगकरणम्। = शब्द आदि (अर्थात् शब्द बन्ध, सौक्ष्म्य, स्थीय्य, सस्थान, भेद, तम, और छाया व आतप उचात ये सब) व्यक्त रूपसे स्कन्धोंके ही होते हैं सौक्ष्म्यको छोड़कर, इन विशेषताको चतानेके लिए पृथक् सूत्र बनाया है।

८. कर्म स्कन्ध सूक्ष्म है स्थूल नहीं

स सि /८/२४/४०२/११ कर्मग्रहण योग्या पुद्गला सूक्ष्मा न स्थूला इति। = कर्म रूपसे प्रत्येक योग्य पुद्गल सूक्ष्म होते हैं स्थूल नहीं होते। (रा वा /८/२४/४/५६/१७)

* एक जातिके स्कन्ध दूसरी जाति रूप परिणामन नहीं करते। —दे वर्णणा/२/८।

* अनन्तों स्कन्धोंका लोकमें अवस्थान व अवगाह।

—दे आकाश/३/६।

२ पुद्गल बन्ध निर्देश

१. पुद्गल बन्धका लक्षण

रा वा /२/१०/२/१२७/२४ द्रव्यबन्ध कर्मनोर्कर्मपरिणत पुद्गलद्रव्यविषय। = नोर्कर्म रूपसे परिणत पुद्गलकर्म रूप द्रव्यबन्ध है।

घ १३/५,६,८,९,१०,११,१२ दो तिण्णि आदि पोग्गलाण जो समवाओ सो पोग्गलबधो णाम। १। जेण णिद्धरुहुवखादिगुणेण पोग्गलाण बधो होदि सो पोग्गलबधो णाम। = दो, तीन आदि पुद्गलोंका जो समवाय सम्बन्ध होता है वह पुद्गल बन्ध कहलाता है। जिम स्निग्ध और रूक्ष आदि गुणके कारण पुद्गलोंका बन्ध होता है उसकी पुद्गलबन्ध सज्ञा है।

प्र, सा /त प्र /१७७ यस्तावदत्र कर्मणां स्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेषैरेकरवपरिणाम स केवलपुद्गलबन्ध। = कर्मोंका जो स्निग्धतारूक्षता रूप स्पर्शविशेषोंके साथ एकरव परिणाम है सो केवल पुद्गल बन्ध है।

प्र स /टी/१६/५२/१२ मृरिपण्डारिरूपेण योऽसौ बहुधाबन्ध स केवलपुद्गलबन्ध। = मिट्टी आदिके पिण्ड रूप जो बहुत प्रकारका बन्ध है वह तो केवल पुद्गलबन्ध है।

प ध /स /४७ द्रव्यं पौद्गलिक' पिण्डो ऋधस्तच्छक्तिरेव वा । = कर्म-
रूप पौद्गलिक पिण्डका अथवा कर्मकी शक्तिका ही नाम द्रव्य
बन्ध है । ४७।

२. बन्धका कारण स्निग्ध रक्षता

त सू /५/३३ स्निग्धरूपस्वाद् बन्ध १३३।
स सि /५/३३/३०४/८ द्वयो स्निग्धरूपयोरण्वो ऋस्परश्लेषलक्षण
बन्धे सति द्वयणुरस्कन्धो भवति । एवं संख्येयासंख्येयानन्तप्रदेश
स्कन्धो योज्य । = स्निग्धत्व और रूक्षत्वसे बन्ध होता है । ३३।
स्निग्ध और रूक्षगुणवाले दो परमाणुओंका परस्पर सश्लेष लक्षण
बन्ध होनेपर द्वयणुरूप नामका स्कन्ध बनता है । इसी प्रकार सख्यात
असख्यात और अनन्त प्रदेश वाले स्कन्ध उत्पन्न होते हैं । (गो जी /
सू /६०६/१०६६)

३. स्निग्ध व रूक्षमें परस्पर बन्ध होने सम्बन्धी नियम

प, ख १४/५.६/सू ३४,३६/३१,३३ णिद्वन्निद्वान्ना ण बज्जति बहुबलवहुबला
य पोगत्ता । णिद्वन्निद्वान्ना य बज्जति रूपाण्वी य पाग्गना । ३४।
णिद्वस्स णिद्वेग दुराहिएण बहुबलस्स बहुबलेण दुराहिएण । णिद्वस्स
बहुबलेण हवेदि बधो जहण्णवज्जे विसमे समे वा । ३६। = स्निग्ध
पुद्गल स्निग्ध पुद्गलोंके साथ नहीं बँधते । रूक्ष पुद्गल रूक्ष
पुद्गलोंके साथ नहीं बँधते किन्तु सदृश और विसदृश ऐसे
स्निग्ध और रूक्ष पुद्गल परस्पर बँधते हैं । ३४। स्निग्ध पुद्गल-
का दो गुण अधिक स्निग्ध पुद्गलके साथ और रूक्ष पुद्गलका
दो गुण अधिक रूक्ष पुद्गलके साथ बन्ध होता है । तथा स्निग्ध
पुद्गलका रूक्ष पुद्गलके साथ जवन्व्य गुणके सिवा विपम अथवा सम
गुणके रहनेपर बन्ध होता है । ३६। (प्र सा /त प्र /१६६ में उद्धृत),
(गो जी /सू /६१०,६१२/१०६८)

प्र सा /सू /१६६ णिद्वन्त्तेण दुगुणो चतुगुणिद्वेग बधमणुभवदि ।
लुबलेण वा तिगुणिदो अणु बज्जदि पंचगुणुत्तो । १६६। = स्निग्ध-
रूपसे दो अशवाला परमाणु चार अशवाले स्निग्ध परमाणुके साथ
बन्धको अनुभव करता है अथवा रूक्षरूपसे तीन अशवाला
परमाणु पाँच अशवालेके साथ युक्त होता हुआ बँधता है ।

त सू /५/३४ ३६ न जन्त्यगुणानाम् । ३४। गुणसाम्ये सदृशानाम् । ३६।
द्वयधिकान्दिगुणाना तु । ३६। = जन्त्य गुणवाले पुद्गलोंका बन्ध नहीं
होता । ३४। समान शक्त्यश होनेपर तद्वत् जातिवालोंका बन्ध नहीं
होता । ३६। दो अधिक आदि शक्त्यशानांका तो बन्ध होता है । ३६।

न च वृ /२८ णिद्वानो णिद्वेग तहेव रुबलेण सरिस विसम वा ।
बज्जदि दोगुणान्निद्वो परमाणु जहण्णगुणरहिओ । २८। = जवन्व्य
गुणसे रहित तथा दो गुण अधिक होनेपर स्निग्धका स्निग्धके साथ,
रूक्षका रूक्षके साथ, स्निग्धका रूक्षके साथ, और रूक्षका स्निग्धके
साथ परमाणुओंका बन्ध होता है ।

* स्कन्धोंमें परमाणुओंका एक देश व सर्वदेश समागम
दे. परमाणु/३।

४. पुद्गल वध सम्बन्धी नियममें दृष्टि भेद

सकेत—सदृश = स्निग्ध + स्निग्ध या रूप + रूप । विसदृश = स्निग्ध +
रूक्ष या रूप + स्निग्ध ।

दृष्टि न १ (प, ख, १४/सू व यो /५.६/सू २२-३६/१०-३२) ।

दृष्टि न २ (स सि /५/३४-३६/३०४-३०७) ; (रा वा /५/२४-३६/
४६८-४६९) ; (गो जी /सू व जी प्र /६१२ ६१८/१०६८) ।

न	गुणांश	दृष्टि न० १		दृष्टि न० २	
		सदृश	विसदृश	सदृश	विसदृश
१	समान गुणधारी	नहीं	है	नहीं	नहीं
२	असमान गुणधारी	हाँ	"	है	है
३	जवन्व्य + जवन्व्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
४	जवन्व्य + जवन्व्येतर	"	"	"	"
५	जवन्व्येतर + सम जवन्व्येतर	"	है	"	"
६	जवन्व्येतर + एकाधिक जवन्व्येतर	"	"	"	"
७	जवन्व्येतर + द्वयधिक जवन्व्येतर	है	"	है	है
८	जवन्व्येतर + व्यापि अधिक जवन्व्येतर	नहीं	है	नहीं	नहीं

५. बद्ध परमाणुओंके गुणोंमें परिणमन

त सू /५/३७ बन्धेऽधिकी पारिणामिकी च । ३७।
स सि /५/३७/३०७/११ यथा क्लिप्तो गुडोऽधिकमधुररस परीताना
रेणवादीनां स्वगुणापादनात् पारिणामिक । तथाऽन्योऽप्यधिकगुण
अर्पीयस पारिणामिक इति कृत्वा द्विगुणादिस्निग्धरूक्षस्य चतु-
र्गुणादिस्निग्धरूप पारिणामिको भवति । तत पूर्वावरथाप्रच्यवन-
पूर्वकं तार्तीयिकमवस्थान्तरं प्रादुर्भवतीत्येकत्वमुपपद्यते । इतरथा
हि शुक्लकृष्णतन्तुवत् सयोगे सत्यप्यपारिणामिकत्वात्मव विविक्त-
रूपेणैवावतिष्ठेत् । = बन्धके समय दो अधिक गुणवाला परिणमन
करानेवाला होता है । ३७। जेमे अधिक मीठे रसवाला मीठा गुड
उसपर पडी हुई धूलिको अपने गुणरूपसे परिणमानेके कारण पारि-
णामिक होता है उसी प्रकार अधिक गुणवाला अन्य भी अल्प गुण-
वालेका पारिणामिक होता है । इस व्यवस्थाके अनुसार दो शक्त्यश-
वाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुका चार शक्त्यशवाला स्निग्ध या रूक्ष
परमाणु पारिणामिक होता है । इससे पूर्व अवस्थाओंका रथाग होकर
उनसे भिन्न एक तीसरी अवस्था उत्पन्न होती है । अत उनमें एक-
रूपता आ जाती है अन्यथा सफेद और काले तन्तुके समान मयोग
होनेपर भी पारिणामिक न होनेसे सब अलग-अलग ही स्थित रहेगा ।

गो जी /सू /६१६/१०७४ णिद्वीदरगुणा अट्टिया हीण परिणामयति
बधम्मि । संखेज्जासखेज्जाण तपदेसाण खधाण । = सख्यात
असख्यात अनन्तप्रदेशवाले स्कन्धोंमें स्निग्ध या रूक्षके अधिक
गुणवाले परमाणु या स्कन्ध अपनेसे हीन गुणवाले परमाणु या स्कन्धों-
को अपने रूप परिणमाते हैं । (जैसे एक हजार स्निग्ध या रूक्ष
गुणके अंशोंसे युक्त परमाणु या स्कन्धको एक हजार दो अशवाला
स्निग्ध या रूक्ष परमाणु या स्कन्ध परणमाता है ।)

* गुणोंका परिणमन स्वजातिकी सीमाका लंघन नहीं
कर सकता—दे० गुण/२/७।

स्कंधशाली—महोरग नामा जातिय व्यन्तरदेवोऽता एक भेद—
दे० महोरग ।

स्तंभन यंत्र—दे यत्र ।

स्तंभाष्टभ—कायोत्सर्गका एक अतिचार—दे० व्युरार्ग/१ ।

स्तनक—दूसरे नरकका प्रथम पटल—अथवा (त्रि मा.गी अपेक्षा)
द्वितीय नरकका द्वितीय पटल—दे० नरक/५ ।

स्तनदृष्टि—कायोत्सर्गका एक अतिचार—दे० व्युत्सर्ग/१।

स्तनलोला—दूसरे नरकका ११वा पटल—दे० नरक/५।

स्तनलोलुक—दूसरे नरकका ११वाँ पटल—दे० नरक/५।

स्तनित—१ भवनवासी देवोंका एक भेद—दे० भवन/१। २. स्तनित कुमार देवोंका लोकमें अवस्थान—दे० भवन/४।

स्तब्ध—कायोत्सर्गका एक अतिचार—दे० व्युत्सर्ग/१।

स्तव—दे० भक्ति/३।

स्तवुक संक्रमण—दे० सक्रमण/१०।

स्तुति—१ पूर्व व पश्चात् स्तुति नामक आहारका एक दोष—दे० आहार/II/४। २. स्तुति सम्बन्धी विषय—दे० भक्ति/३। ३. न्याय/टी २/१/६४/१००/२४ विधे फलवादलक्षणा या प्रशंसा मा स्तुति सप्रत्ययार्थं स्तुयमानं श्रद्धधीतेति। प्रवर्तिका च फलश्रवणात् प्रवतन्ते सर्वजिता व देवा सर्वमजयन् सर्वस्वाप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेवैतेनाप्नाति सर्वं जयतीत्येवमादि। = विधि वाक्यके फल कहनेसे जो प्रशंसा है, उसे स्तुति कहते हैं क्योंकि फलकी प्रशंसा सुननेसे प्रवृत्ति होती है। उदाहरण, जैसे—देवोंने इस यज्ञको करके यज्ञको जीता, इस यज्ञके करनेसे सब कुछ प्राप्त होता है इत्यादि।

स्तूप—१ म पृ/२२/२६४ जनानुरागास्ताद्वयम् आपन्ना इव ते मधु। सिद्धार्हप्रतिमिम्बौषे अभितश्चित्रमूर्तयः। = अर्हन्त सिद्ध भगवान्की प्रतिमाओंसे वे स्तूप चारोंसे चित्र विचित्र हो रहे थे और सुशोभित हो रहे थे मानो मनुष्योंका अनुराग ही स्तूपों रूप हो रहा हो। २६४। सवशरण स्थिति स्तूप—दे० समशरण २ Pyramid. (ज प, प्र/१०८)

स्तेनप्रयोग—स सि/१०/२७/३६७३ मुष्णन्त स्वयमेव वा प्रयुद्बते-ऽन्येन वा प्रयोजयति प्रयुक्तमुष्णन्त्यते वा यत् स स्तेनप्रयोगः। = किसीको चोरीके लिए स्वयं प्रेरित करना, या दूसरेके द्वारा प्रेरणा दिलाना या प्रयुक्त किये हुए की अनुमोदना करना स्तेन प्रयोग है। (रा वा/१०/२७/३६४/६)।

स्तेनित्त—कायोत्सर्गका एक अतिचार—दे० व्युत्सर्ग/१।

स्तेय—१ त स/१०/१६ (प्रमत्तयोगात्) अदत्तादान स्तेयम्। ११५। स सि/१०/१६/३६२/१२ आदानं ग्रहणमदत्तत्त्यादानमदत्तादानं स्तेयमिरयुच्यते। दानादाने यत्र सभ्रतस्तत्रैव स्तेयव्यवहारः। = बिना दी हुई वस्तुका लेना स्तेय है। १६। आदान शब्दका अर्थ ग्रहण है। बिना दी हुई वस्तुका लेना अदत्तादान है और यही स्तेय चोरी कहलाता है जहाँ देना और लेना सम्भव है वहाँ स्तेयका व्यवहार हाता है। (रा वा/१०/१६/३६२/१६) २ स्तेय सम्बन्धी विषय—दे० स्तेय।

स्तेयानन्दी रौद्रध्यान—दे० रौद्रध्यान।

स्तोक—कालना प्रमाण विशेष—दे० गणित/II/१।

स्तोत्र—भिन्न भिन्न आचार्योंने अनेकों स्तोत्र रचे हैं—१ आ० समन्तभद्र (ईं श २) कृत देवागम स्तोत्र, स्वयम्भुस्तोत्र व जिन-स्तुतिशतक। २ आ० पूज्यपाद (ईं श ४) कृत शान्त्वप्रथम शान्तिनाथ भगवान्का स्तोत्र है। ३ स्वैताम्बराचार्य सिद्धमेन दिवाकर (ईं ४५५) कृत कषयागमन्दिर स्तोत्र व शारवत जिन स्तुति। ४ आ० पात्रकेशरी (ईं श ६-७) कृत जिनेन्द्र स्तुति या पात्रकेशरी स्तोत्र। ५ आ० अजूनक भट्ट (ईं ६४०-६५०) कृत अक्लक स्तोत्र। ६ आ० मिथानन्द (ईं ७३५-८२०) कृत सुपार्षन्नाथ स्तोत्र। ७.

आ० वादिराज (ईं १०००-१०४०) कृत एकीभावस्तोत्र। ८ आ० वसुनन्दि (ईं, १०४३-१०४३) कृत जिनशतक स्तोत्र। ९ आ० मान-तुंग (ईं १०२१-१०२५) कृत भक्तामर स्तोत्र। १० रवे० आ० हेमचन्द्र (ईं १०८८-११८३) कृत वीतराग स्तोत्र। ११ प, आशाधर (११७३-१२४३) कृत सहस्रनाम-स्तव। १२ आ० पद्मनन्द (ईं १३२८-१३६८) कृत जटाशरणीपार्षन्नाथ स्तोत्र। १३ जिन-सहस्रनाम स्तोत्र—दे० सहस्र।

स्त्यानगृद्धि—दे निद्रा।

स्त्री—धर्मपत्नी, भोगपत्नी, दासीपत्नी, परस्त्री, वेश्यादि भेदसे स्त्रियों कई प्रकारकी कही गयी है। ब्रह्मचर्यधर्मके पालनार्थ यथा-भूमिका इनके त्यागका उपदेश है। आगममें तो स्त्रियोंकी इतनी निन्दा की गयी है, वह केवल इनके भौतिक रूपपर ग्लानि उत्पन्न करानेके लिए लिए ही जानना अन्यथा तो अनेकों सतियों भी हुई हैं जो पूज्य है।

१. स्त्री सामान्य व लक्षण

पं स/प्रा/१/१०६ छादयति सय दोसेण जदो छादयति पर पि दोसेण। छादणसीला गियद तम्हा सा वणिण्या इत्थी। = जो मिथ्यात्व आदि दोषोंसे अपने आपको आच्छादित करे और मयुर सभापण आदिके द्वारा दूसरोंको भी दोषसे आच्छादित करे, वह निश्चयसे यत् आच्छादन स्वभाववाली है अत 'स्त्री' इस नामसे वर्णित की गयी है। (ध १/१,१,१०९/गा १७०/३४१), (गो जी/मू/१७४/५६५), (प, स/स/१/१६६)।

ध. १/१,१,१०९/३४०/६ दोवैरारमान पर च स्तृणाति छादयतीति स्त्री, स्त्री चासी वेदश्च स्त्रीवेद। अथवा पुरुषं स्तृणाति आकाङ्क्षतीति स्त्री पुरुषकाङ्क्षेत्यर्थ। स्त्रिय चिन्दतीति स्त्रीवेद अथवा वेदनं वेद, स्त्रियो वेद स्त्रीवेद। = १ जो दोषोंसे स्वयं अपनेको और दूसरोंको आच्छादित करती है उसे स्त्री कहते हैं। (ध ६/१,६-१, २४/४६/८), (गो जी/जी प्र/२७४/५६६/४) और स्त्री रूप जो वेद है उसे स्त्रीवेद कहते हैं। २ अथवा जो पुरुषकी आकांक्षा करती है उसे स्त्री कहते हैं, जिसका अर्थ पुरुषकी चाह करनेवाली होता है, जो अपनेको स्त्री रूप अनुभव करती है उसे स्त्रीवेद कहते हैं। ३ अथवा वेदन करनेको वेद कहते हैं और स्त्री रूप वेदको स्त्रीवेद कहते हैं।

२ स्त्रीवेदकर्मका लक्षण

स सि/८/६/३८६/२ यदुदयात्स्त्रैणान्भावान्प्रतिपद्यते स स्त्रीवेद। = जिसके उदयसे स्त्री सम्बन्धी भावोंको प्राप्त होता है वह स्त्री है। (रा वा/८/६/३७४/२०), (पं घ/उ/१०८९)।
ध. ६/१,६-१,२४/४७/१ जेसि कम्मक्वधाणमुदपण पुरुसम्मि आकत्वा उत्पज्जहे तेसिमित्थिवेदो त्ति सण्णा। = जिन कर्म स्त्रियोंके उदयसे पुरुषमें आकांक्षा उत्पन्न होती है उन कर्मस्त्रियोंकी 'स्त्रीवेद' यह सज्ञा है। (ध १२/४,५,६६/३६१/६)।

* स्त्रीवेदके बन्ध योग्य परिणाम—दे मोहनीय/३/६।

३ स्त्रीके अनेकों पर्यायवाची शब्दोंके लक्षण

भ आ/मू/६७७-६८१/१०४७ पुरिस वधमुवणेदित्ति होदि बहुगाणिरुत्तिवादम्मि। दोसेसधादिदि य होदि य इत्थी मणुस्सस्स। ६७७ तारिसओ णत्थि अरी णरस्स अण्णेत्ति उच्चदे णारी। पुरिस सदा पमत्त कुणदि त्ति य उच्चदे पमदा। ६७८ गलप हायदि पुरिसस्स अणत्थ जेण तेण विलया सा। जोजेदि णर दुवखेण तेण जुवदी य जोसा

य १६७२। अग्रनत्ति होदि ज से ज दढ हिदप्रमि धिदिवलं अरिथ। कुमरणोपाय ज जणयदि तो उच्चदि हि कुमारी १६८०। आल जाणेदि पुरिसस्स महल्ल जेण तेण महिला सा। एवं महिला णामाणि होति अमुमाणि सव्वाणि १६८१। —स्त्री पुरुषको मारती है इस वास्ते उसको बधू कहते है। पुरुषमें यह दोषोंका समुदाय सञ्चित करती है इस वास्ते इसका 'स्त्री' यह नाम है १६७७। मनुष्यको इसके समान दूसरा शत्रु नहीं है अत इसको नारी कहते है। यह पुरुषको प्रमत्त अर्थात् उन्मत्त बनाती है इसलिए इसको 'प्रमदा' कहते है १६७८। पुरुषके गलेमें यह अनर्थोंको बाँधती है अथवा पुरुषको देखकर उसमें लीन हो जाती है अत इसको विलया कहते है। यह स्त्री पुरुषको दु खसे सयुक्त करती है अत युवति और योषा ऐसे दो नाम इसके है १६७९। इसके हृदयमें धैर्य रूपी बल दढ रहता नहीं अत इसको अलला कहते है। कुरिसत ऐसा मरणका उपाय उत्पन्न करती है, इस लिए इसको कुमारी कहते है १६८०। यह पुरुषके ऊपर दोषारोपण करती है इसलिए उसको महिला कहते हैं। ऐसे जितने स्त्रियोंके नाम है वे सब अशुभ है १६८१।

४. द्रव्य व मावस्त्रीके लक्षण

स सि १/२/२००/६ स्त्रीवेदोदयात् स्त्रयायस्त्र्यस्या गर्भ इति स्त्री।
—स्त्रीवेदके उदयसे जिनमें गर्भ रहता है वह (द्रव्य) स्त्री है।
(रा. वा १/२/२१/२७/४)।

गो जी/जी प्र १/२७१/६९१/१७ स्त्रीवेदोदयेन पुरुषाभिलाषरूपमैथुन-सञ्जाक्रान्तो जीव भावस्त्री भवति। स्त्रीवेदोदयेन निर्माणनामकर्मो-दययुक्ताङ्गोपाङ्गनामकर्मोदयेन निर्लाममुखस्तनयोन्व्यादिलिङ्गलक्षित-शरीरयुक्तो जीवो भवप्रथमसमयमादि कृत्वा तद्भवचरमसमयपर्यन्तं द्रव्य (स्त्री) भवति। —स्त्रीवेदके उदयसे पुरुषकी अभिलाषा रूप मैथुन सञ्जाका धारक जीव भावस्त्री होता है। निर्माण नामके उदयसे युक्त स्त्रीवेद रूप आकार विशेष लिये, अगोपांग नामकर्मके उदयसे रोम रहित मुख, स्तन, योनि इत्यादि चिह्न सयुक्त शरीरका धारक जीव, सो पर्यायके प्रथम समयसे लगाकर अन्तसमय पर्यंत द्रव्यस्त्री होता है।

नोट—(और भी देखो भावस्त्रीका लक्षण स्त्री/१,२)।

५. गृहीता आदि स्त्रियोंके भेद व लक्षण

सा, स/२/१७८-२०६ देवशास्त्रगुरुत्रया बन्धुवर्गसमाक्षिकम्। पत्नी पाणिगृहीता स्यात्तद्व्या चेटिका मता १७८। तत्र पाणिगृहीता या सा द्विधा लक्षणावया। आरम-ज्ञाति परज्ञाति कर्मभूखडिसाध-नात् १७९। परिणीतात्मज्ञातिश्च धर्मपत्नीति सैव च। धर्मत्रयं हि सधोची यागादौ शुभकर्मणि १८०। स सन्तु कर्मकार्येऽपि गोत्ररक्षा-दिलक्षणे। सर्वलोकाविरुद्धत्वाधिकारी न चेत १८२। परिणीताना-त्मज्ञातिर्या पितृसाक्षिपूर्वकम्। भोगपत्नीति सा ज्ञेया भोगमात्रैक-साधनात् १८३। आरमज्ञाति परज्ञाति सामान्यवनिता तु या। पाणिग्रहणशून्या चेच्छेटिका सुरतत्रिया १८४। चेटिका भोगपत्नी च द्वयोर्भोगाङ्गमात्रत। लौकिकोक्तिविशेषोऽपि न भेद' पारमार्थिक १८५। विशेषाऽस्ति मिथश्चात्र परस्पररततोऽपि च। गृहीता चागृहीता च त्रयो गराङ्गना १८६। गृहीतापि द्विधा तत्र यथाया जीव-भत्' का। सरसु पित्रादिगणेषु द्वितीया मृतभत्' का १८६। चेटिका या च विख्याता पतिस्तस्या स एव हि। गृहीता सापि विख्याता स्यादगृहीता च तद्वत् १८७। जीवसु बन्धुवर्गेषु रण्डा स्यान्मृत-भत्' का। मृतेषु तेषु सैव स्यादगृहीता च स्वैरिणी १८९। अस्या' सपर्यवेनायामिद्विते नरि वेरिभि। मापराधतया दण्डो नृशादिभ्यो भवेद्भुम् १९०। केचिज्जेना वदन्त्येव गृहीतेषां स्वलक्षणात्।

नृपादिभिर्गृहीतस्वात्रीतिमार्गानतिक्रमात् १९०। विख्यातो नीति-मार्गोऽय स्वामी स्याज्जगतां नृप। वस्तुतो यस्य न स्वामी तरय स्वामी महीपति १९०। तन्मतेषु गृहीता सा पित्रार्थं रावृतापि या। यस्या ससर्गतो भोतिर्जायते न नृपादित १९०। तन्मते द्विधेय स्वैरी गृहीतागृहीतभेदत। सामान्यरनिता या स्याद्गृहीतात्त-र्भावत १९०।—स्वस्त्री—देवशास्त्र गुरुको नगस्कारकर तथा अपने भाई बन्धुओंकी साक्षी पूर्वक जिस कन्याके साथ विवाह किया जाता है वह विवाहिता स्त्री कहलाती है ऐसी विवाहिता स्त्रियोंके सिवाय अन्य सत्र परिचयों दासियाँ कहलाती है १९०। विवाहिता पत्नी दो प्रकारकी होती है। एक तो कर्मभूमिमें रुद्धिसे चली आयी अपनी जातिकी कन्याके साथ विवाह करना और दूसरी अन्य जातिकी कन्याके साथ विवाह करना १९०। अपनी जातिकी जिस कन्याके साथ विवाह किया जाता है वह धर्मपत्नी कहलाती है। वह ही यज्ञ-पूजा प्रतिष्ठा आदि शुभ कार्योंमें व प्रत्येक धर्म कार्योंमें साथ रहती है १९०। उस धर्मपत्नीसे उत्पन्न पुत्र ही पिताके धर्मका अधिकारी होता है और गोत्रकी रक्षा करने रूप कार्यमें वह ही समस्त लोका अविरोधी पुत्र है। अन्य जातिकी विवाहिता कन्या रूप पत्नीसे उत्पन्न पुत्रको उपरोक्त कार्योंका अधिकार नहीं है १९०। जो पिताकी साक्षीपूर्वक अन्य जातिकी कन्याके साथ विवाह किया जाता है वह भोगपत्नी कहलाती है, क्योंकि वह केवल भोगोपभोग सेवन करनेके काम आती है, अन्य कार्योंमें नहीं १९०। अपनी जाति तथा पर जातिके भेदसे स्त्रियाँ दो प्रकारकी हैं तथा जिसके साथ विवाह नहीं हुआ है ऐसी स्त्री दासी वा चेटो कहलाती है, ऐसी दामी केवल भोगाभिलाषिणी है १९०। दासी और भोगपत्नी केवल भोगोपभोगके ही काम आती हैं। लौकिक दृष्टिमें यद्यपि उनमें थोडा भेद है पर परमार्थसे कोई भेद नहीं है १९०। परस्त्री भी दो प्रकारकी हैं, एक दूसरेके अग्नि रहनेवाली और दूसरी स्वतन्त्र रहनेवाली जिनको गृहीता और अगृहीता कहते हैं। इनके सिवाय तीसरी वेश्या भी पर-स्त्री कहलाती है १९०। गृहीता या विवाहिता स्त्री दो प्रकारकी हैं एक ऐसी स्त्रियाँ जिनका पति जाता है तथा दूसरी ऐसी जिनका पति तो मर गया हो परन्तु माता, पिता अथवा जेठ देवरके यहाँ रहती हैं १९०। इसके सिवाय जो दासीके नामसे प्रसिद्ध हो और उसका पति ही घरका स्वामी हो वह भी गृहीता कहलाती है। यदि वह दासी किसीकी रखी हुई न हो, स्वतन्त्र हो तो वह गृहीता दासीके समान ही अगृहीता कहलाती है १९०। जिसके भाई बन्धु जीते हों परन्तु पति मर गया हो ऐसी विधवा स्त्रीको भी गृहीता कहते हैं। ऐसी विधवा स्त्रीके यदि भाई बन्धु सब मर जायें तो अगृहीता कहलाती है १९०। ऐसी स्त्रियोंके साथ समर्ग करते समय कोई शत्रु राजाको खबर कर दे तो अपराधके बदले राज्यकी औरसे भी कठोर दण्ड मिलता है १९०। कई गृह भी कहते है कि जिस स्त्रीका पति और भाई बन्धु सब मर जायें तो भी अगृहीता नहीं कहलाती किन्तु गृहीता ही कहलाती है, क्योंकि गृहीता लक्षण उसमें घटित होता है क्योंकि नीतिमार्गका उल्लंघन न करते हुए राजाओंके द्वारा ग्रहण की जाती है इसलिए गृहीता ही कहलाती है १९०। ससारमें यह नीतिमार्ग प्रसिद्ध है कि ससार भरका स्वामी राजा होता है। वास्तवमें देखा जाये तो जिसका कोई स्वामी नहीं होता उसका स्वामी राजा ही होता है १९०। जो इन नीतिको मानते है, उनके अनुसार उनको गृहीता ही मानना चाहिए, चाहे वह माता पिताके साथ रहती हो, चाहे अकेली रहती हो। उनके मतानुसार अगृहीता उसको समझना चाहिए जिनके साथ समर्ग करनेपर राजाका डर न हो १९०। ऐसे लोगोंके मतानुसार रहनेवाली (बुलटा) स्त्रियाँ दो प्रकारकी समझनी चाहिए। एक गृहीता दूसरी अगृहीता। जो सामान्य स्त्रियाँ है वे सब गृहीतामें अन्तर्भूत कर लेना चाहिए (तथा वेश्याएँ अगृहीता समझनी चाहिए) १९०।

६ चेतनाचेतन स्त्रियाँ

चा सा /६५/२ तिर्यग्मनुष्यदेवाचेतनभेदाच्चतुर्विधा स्त्री । = तिर्यच, मनुष्य, देव और अचेतनके भेदसे चार प्रकारकी स्त्रियाँ होती हैं । (बो पा /टी/११८/२६७/२०)
बो पा /टी/११८/२६७/२६ काष्ठ-पापाण लेपकृतास्त्रियो । = काष्ठ पापाण और लेप की हुई ये तीन प्रकारकी अचेतन स्त्रियाँ होती हैं ।

७. स्त्रीकी निन्दा

भ आ /यू/गाथा न बगविसचोरअग्नीजलमत्तगयकण्हसप्पसत्सु ।
सो वीसभ गच्छदि नीसभदि जो महिलिया सु ।६५२। पाउसकालण-
दीवोव्व ताओ णिच्चपि कल्लसहिदयाओ । धणहरणकदमदीओ
चोरोव्व सकज्जगुरुयाओ ।६५३। आगास भूमि उदधी जल मेरू वाउणो
वि परिमाण । माडु सक्का ण पुणो सक्का इथीण चित्ताई ।६५३। जो
जाणिऊण रत्त पुरिस चम्मड्डिमसपरिसेस । उद्दाहति य वडिसामि-
सल्लगमच्छ व ।६५४। चदो हविज्ज उण्हो सीदो सूरुो वि थडुमागास ।
ण य होज्ज अदोसा भडिया वि कुनवालिया महिला ।६५५। = जो
पुरुष स्त्रियोंपर विश्वास करता है वह माघ, विप, चोर, आग जल
प्रवाह, मदवाला हाथी, कृष्णसर्प, और शत्रु इनके ऊपर विश्वास
करता है ऐसा समझना चाहिए ।६५२। वर्षा कालकी नदीका मध्य
प्रदेश मलिन पानीसे भरा रहता है और स्त्रियोंका चित्त भी राग,
द्वेष, मोह, असुया आदि दूष्ट भावोंसे मलिन है । चोर जैसा मनमें इन
लोगोंका धन किस उपायसे ग्रहण किया जावे ऐसा विचार करता है,
वैसे ही स्त्रियाँ भी (रति क्रीडा द्वारा) धन हरण करनेमें चतुर होती
हैं ।६५४। आकाश, जमीन, समुद्र पानी, मेरु और वायु इन पदार्थों-
का कुछ परिमाण है, परन्तु स्त्रीके चित्तका अर्थात् उनके मनमें उत्पन्न
होने वाले विकल्पोंका परिमाण जान लेना अशक्य है ।६५३। अपनेपर
आसक्त हुआ पुरुष चर्म, हड्डी, और मांस ही शेष अच्चा हुआ है ऐसा
देखकर गलको लगे हुए मत्स्यके समान उसको मार देती है, अथवा
घरसे निकाल देती है ।६५४। चन्द्र कदाचित् शीतलताको रयागकर
उष्ण बनेगा, सूर्य भी ठंडा होगा, आकाश भी लोह पिण्डके समान
घन होगा, परन्तु कुलीन वंशकी स्त्री कथयाणकारिणी और सरल
स्वभावकी धारक न होगी ।६५५। (विशेष दे भ आ /यू/६३-१०२०)
ज्ञा /१२/४४.५० भेत्त शूलमर्मि छेत्तु कर्त्तित्त्तु ऋकच दृढम् । नरान्पीडयित्तु
यन्त्र वेधसा विहिता स्त्रिय ४४। यदि मूर्त्ता प्रजायन्ते स्त्रीणां
दोषा कथंचन । पूरयेयुस्तदा नून नि शेष भुवनोदरम् ।५०। = ब्रह्माने
स्त्रियाँ धनायी हैं वे मनुष्योंका वेधनेके लिए शूली, काटनेके लिए
तलवार, कतरनेके लिए करोंत अथवा पेलनेके लिए मानो यन्त्र ही
बनाये हैं ।४४। आचार्य कहते हैं कि स्त्रियोंके दोष यदि किसी प्रकार-
से मूर्त्तमाद् हो जायें तो मे समझता हूँ कि उन दोषोंसे निश्चय
करके समस्त त्रिलोकी परिपूर्ण भर जायेगी ।५०। (विशेष विस्तार
दे ज्ञा /१२-११६।)

८ स्त्रीकी निन्दाका कारण उसकी दोषप्रच्युता

--दे स्त्री/६।

८ स्त्री प्रशंसा योग्य भी है

भ आ /यू/६६६-१००० कि पुण गुणसहिदाओ इच्छीओ अत्थि विरथ-
उजसाओ । णरलोगदेवदाओ देवेहि वि वदणिज्जाओ ।६६६। तित्थयार
चक्षधर वासुदेवजलदेवगणधरवराण । जणणीओ महिलाओ
सुरणरभरोंहि महियाओ ।६६६। एगपदिव्वइकण्णा वयाणि धारिन्ति
। किज्जमहिनाम्हा । वेधवत्तित्तुदुवख आज्जीव णित्ति काओ वि
।६६७। सीलवदीवो सुच्चित्ति महोयले पत्तापाडिहेराओ । सावाणु-
ग्गहसमत्थाओ विम्व काओव महिलाओ ।६६८। उग्घेण ण द्वाओ

जलतधोरग्गिणा ण दह्हाओ । सप्पेहि सावज्जेहि वि हरिदा खट्ठा ण
काओ वि ।६६६। सबगुणसमागणं साहूण पुरिसपवरसीहार्णं ।
चरमाण जणित्त पत्ताओ हवति काओ वि ।१०००। = जगत्में कोई-
कोई स्त्रियाँ गुणातिशयसे शोभा युक्त होनेसे मुनियोंके द्वारा भी
स्तुति योग्य हुई है । उनका यश जगत्में फेला है, ऐसी स्त्रियाँ
मनुष्य लोकमें देवताके समान पूज्य हुई हैं, देव उनकी नमस्कार
करते हैं, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र और गणधरादिकोंको
प्रसवने वाली स्त्रियाँ देव, और मनुष्योंमें प्रधान व्यक्त हैं । उनसे
वन्दनीय हो गयी है । कितनेक स्त्रियाँ एक पतिव्रत धारण करती हैं,
कितनेक स्त्रियाँ आजन्म अविवाहित रहकर निर्मल ऋक्षचर्य
व्रत धारण करती हैं । कितनेक स्त्रियाँ वैधव्यका तीव्र दुःख आजन्म
धारण करती हैं ।६६५-६६७। शीलव्रत धारण करनेसे कितनेक स्त्रियों
में शाप देना और अनुग्रह करनेकी शक्ति भी प्राप्त हुई थी । ऐसा
शास्त्रोंमें वर्णन है । देवताओंके द्वारा ऐसा स्त्रियोंका अनेक प्रकारसे
माहात्म्य भी दिखाया गया है ।६६८। ऐसी शीलवती स्त्रियोंको जल-
प्रवाह भी बहानेमें असमर्थ है । अग्नि भी उनको नहीं जला सकती
है, वह शीतल होती है, ऐसी स्त्रियोंको सर्प व्याघ्रादिक प्राणी नहीं
खा सकते हैं अथवा सुँहमें लेकर अन्यस्थानमें नहीं फेंक देते हैं ।६६९।
सम्पूर्ण गुणोंसे परिपूर्ण, श्रेष्ठ पुरुषोंमें भी श्रेष्ठ, तन्त्र मोक्षगामी ऐसे
पुरुषोंको कितनेक शीलवती स्त्रियोंने जन्म दिया है ।१०००।

कुंरल /६/५.८ सर्वदेवान् परिख्यज्य पतिदेव नमस्यति । प्रातरुस्थाय या
नारी तद्वश्या वारिदा स्वयम् ।५। प्रसूते या शुभ पुत्र लोकमान्य
विदावरम् । स्तुवन्ति देवता नित्य स्वर्गस्था अपि ता मुदा ।५।
= जो स्त्री दूसरे देवताओंकी पूजा नहीं करती किन्तु बिछौनेसे उठते
ही अपने पतिदेवको पूजती है, जलसे भरे हुए बादल भी उसका कहना
मानते हैं ।५। जो महिला लोकमान्य और विद्वान् पुत्रको जन्म
देती है स्वर्गलोकके देवता भी उसकी स्तुति करते हैं ।८।

ज्ञा /१२/४७-५८ ननु सन्ति जीवलोकै कारिचच्छमशीलसयमोपेता ।
निजवशतिलभूता द्युतसरयसमन्विता नार्य ।५७। सतीखेन महत्त्वेन
वृत्तेन विनयेन च । विवेकेन स्त्रिय कारिचच्छ भूपयन्ति धरातलम्
।५८। = अहो । इस जगत्में अनेक स्त्रियाँ ऐसी भी हैं जो समभाव
और शील सयमसे भूषित है, तथा अपने वंशमें तिलभूत है, और
शास्त्र तथा सत्य वचन करके सहित भी हैं ।५७। अनेक स्त्रियाँ ऐसी
हैं जो पतिव्रतपनसे, महत्त्वसे, चारित्र्यसे, विनयसे, विवेकसे इस पृथिवी
तलको भूषित करती हैं ।५८।

९ स्त्रियोंकी निन्दा व प्रशंसाका समन्वय

भ आ /यू/१००१-१००२/१०५१ मोहोदयेण जीवो सब्बो दुस्सीलमहल्लिदो
होदि । सो पुण सब्बो महिला पुरिसाण होइ सामण्णा ।१००१। तस्मा
सा परलवणा पउरा महिल्लाण हादि अधिचिच्चा । सीलवदीओ
- भणिदे दोसे किह णाम पावति ।१००२। = माहोदयसे जीव कुशील
बनते हैं, मलिन स्वभावके धारक बनते हैं । यह मोहोदयसे सर्व स्त्रियाँ
और पुरुषोंमें समान है । जो पीछे स्त्रियोंके दोष (दे स्त्री/७) का
विस्तारसे वर्णन किया है वह श्रेष्ठ शीलवती स्त्रियोंके साथ समन्वय
नहीं रखता अर्थात् वह सत्र वर्णन कुशील स्त्रियोंके विषयमें समझना
चाहिए । क्योंकि शीलवती स्त्रियाँ गुणोका पुजस्वरूप ही हैं । उनको
दोष कैसे छू सकते हैं ।१००१-१००२।

ज्ञा /१२/५६ निर्विण्णं भवसंक्रमाच्छू तधरेरेकान्ततो ? निस्पृहं नार्यो
यद्यपि दूषिता शमधनेत्रं लज्जतालम्भिनि । निन्धानेन न तथयपि
निर्मलमस्वाद्यायुक्ताङ्गिता निर्बदप्रगमाग्निपुण्यचरितैर्यि शुद्धि-
भूता भुम्नि ।५६। = जो ससार परिभ्रमणसे विरक्त है, शास्त्रोंके पर-
गामी और स्त्रियोंसे सर्वथा निस्पृह है तथा उपशम भाव ही है धन
जिनके ऐसे ब्रह्मचर्याबुद्धिवादी मुनिगणोंने दुःखप्रि स्त्रियोंकी निन्दा की

है तथापि जो स्त्रियाँ निर्मल हे और पवित्र यम, नियम, स्वाध्याय, चारित्र्यादिमें निरूपित है और वेराग्य-उपशमादि पवित्राचरणोंसे पवित्र है वे निन्दा करने योग्य नहीं हैं। क्योंकि निन्दा दीपोंकी की जाती है, किन्तु गुणोंकी निन्दा नहीं की जाती ११।

गो जी/जी प्र १७४/५६६/४ यद्यपि तीर्थंकरजनन्यादीनां कासाचिद्व सम्पद्यन्तीना पतुक्तदोषाभावात्, तथापि तासां दुलभत्वेन सर्वत्र सुलभ-प्राचुर्यव्यवहारोपेक्षया स्त्रीलक्षण निरुक्तिपूर्वकमुक्तम्। — यद्यपि तीर्थंकरकी माता आदि सम्पद्यन्तीना स्त्रियोंमें दोष नहीं है तथापि वे स्त्री थोड़ी हैं और पूर्वाक्त दोषोंसे युक्त स्त्री घनी हैं, इसलिए प्रचुर व्यवहारकी अपेक्षा स्त्रीका ऐसा लक्षण कहा।

* मोक्षमार्गमें स्त्रीत्वका स्थान—दे वेद/६/७।

१०. स्त्रियोंके कर्तव्य

कुरल १६/१,६,७ यस्यामस्ति सुपत्नीत्व सेवास्ति गृहिणी सती। गृह-स्यायमनालीच्य व्ययते न पतिव्रता १। आहता पतिसेवाया रक्षणे कीर्तिधर्मयो। अद्वितीया सता मान्या पत्नी सा पतिदेवता ६। गुणस्थाननिधासेन स्त्रीणां नेव सुरक्षणम्। अक्षणा निग्रहस्तासा केवलौ धर्मरक्षक ७। —वही उत्तम सहमर्मिणी है, जिसमें सुपत्नीत्वके सब गुण वर्तमान हैं और जो अपने पतिकी सामर्थ्यसे अधिक व्यय नहीं करती १। वही उत्तम सहधर्मिणी है जो अपने धर्म और यशकी रक्षा करती है, तथा प्रेमपूर्वक अपने पतिदेवकी आराधना करती है ६। चार दिवारीके अन्दर पदोंके साथ रहनेसे क्या लाभ १ स्त्रीके धर्मका सर्वोत्तम रक्षक उसका इन्द्रिय निग्रह है ७।

११ स्त्री पुरुषकी अपेक्षा कनिष्ठ मानी गयी है

भ आ/वि/४२१/६१६/६ पर उद्भूत—जेणिच्छीहु लघुसिगा परप्पसज्जा य पच्छणिज्जा य। भीरु पररखणज्जेत्ति तेण पुरिसो भवदि जेट्ठो। —स्त्रियाँ पुरुषसे कनिष्ठ मानी गयी हैं, वे अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकतीं, दूमरसे डरती जाती हैं। उनमें स्वभावतः भय रहता है, कमजोरी रहती है, ऐसा पुरुष नहीं है अतः वह ज्येष्ठ है।

१२. धर्मपत्नीके अतिरिक्त अन्य स्त्रियोंका निषेध

सा सा २/१श्लोक न भोगपत्नी निपिद्धा स्यात् सर्वतो धर्मवेदिनाम्। ग्रहणरयाविशेषेऽपि दोषो भेदस्य सभवात् १२७। एतत्सर्वं परिज्ञाय स्नानुभूतिसमक्षता। पराशनासु नादेया बुद्धिधीधनशालिभि १२७। —भोगपत्नीके मेलनसे अनेक प्रकारके दोष होते हैं, जिनको भगवान् सर्वज्ञ ही जानते हैं। भोगपत्नीको दामीके समान बताया है। अतः दासीके सेवन करनेके समान भोगपत्नीके भोग करनेमें भी ब्रह्मके स्नेहके समान पापीका सचय होता है १२७। अपने अनुभव और प्रत्यक्षसे इन सब परस्त्रियोंके भेदोंको समझकर बुद्धिमत्तोंको परस्त्रीमें अपनी बुद्धि कभी नहीं लगानी चाहिए १२७।

* स्त्री सेवन निषेध—दे ब्रह्मचर्य/३।

स्त्रीकथा—२ कथा।

स्त्री परिषह—स सि १६/४२२/११ एकान्तेप्यारामभवनादिप्रदेशेषु नवयौवनमदविभगमदिरापनप्रमत्तासु प्रमदासु बाधमानासु र्म-यत्सवृतेन्द्रिग्रहदयधिकारत्वात् ललितस्मितमृदुर्ज्जितसखिलासवीक्षण-प्रहसनमदमन्थरगमनमन्वदरव्यापारविकलाकरणस्य स्त्रीबाधापरि-पहननमवगन्तव्यम्। —एकान्त एमें जगतीचा तथा नवनादि स्थानों पर नवयौवने, मदविभ्रम और मदिरापानमें प्रमत्त हुई स्त्रियोंके द्वारा बाधा पहुँचानेपर वस्तुके समान जिनमें इन्द्रिय और तन्त्रके विकारको रोक निम्ना है तथा जिनमें मन्द मुमकान, कोमल सम्भाषण,

तिरञ्जी नजरोंसे देखना, हँसना, मदभरी वीमी चालसे चलना और कामवाण मारना आदिको विकल कर दिया है उसके स्त्री बाधा पगीपह जय समझनी चाहिए। (रा वा १६/६/१३/६१०/७), (चा सा/११६/१)।

स्त्रीवेद—दे स्त्री।

स्त्री संगति—दे संगति।

स्थपति—चक्रवर्तिके चौदह रत्नोंमेंसे एक—दे शलाकापुरुष/२।

स्थलगता चूलिका—अग्रश्रुतज्ञानका एक भेद—दे श्रुतज्ञान/III.

स्थविर कल्प—गो जी/जी प्र १४७/७१४/६ पञ्चमकानस्थविर-कव्यान्पसहननसंयमिषु त्रयोदशयोक्त। —पंचमकालमें स्थविररूपी हीन महानके धारी साधुको तेरह प्रकारका चारित्र कहा है।

स्थविरवादी मत—दे बौद्धदर्शन।

स्थान—१. स्थान सामान्यका लक्षण

१ अनुभागके अर्थमें

घ, १/१,७,१/१२६/१ किं ठाण । उप्पत्तिहेज्जु ट्ठाण । —भाषाकी उत्पत्तिके कारणको स्थान कहते हैं।

घ ६/१,६-२ १/७६/३ तिष्ठत्यस्या मरुत्यायामस्मिन् वा अवस्थाविशेषे प्रकृतय इति स्थानम्। ठाणं ठिदी अट्टाणमिदि एयट्ठा। —जिसमें सख्या, अथवा जिस जगस्था विशेषमें प्रकृतियाँ टहलती हैं, उसे स्थान कहते हैं। स्थान, स्थिति और अवस्थान तीनों एकार्थक हैं।

घ १२/४,२,७,२००/१११/१२ एगजीवमि एवकम्पि समए जो दीसदि कम्माणुभागो त ठाण णाम। —एक जीवमें एक समयमें जो कर्मानु-भाग दिव्यता है उसे स्थान कहते हैं।

गो क/जी प्र १२६/२७२/१० अविभागप्रतिषेदसमूहो वर्ग, वर्गनमूहो वर्गणा। वर्गणासमूह स्पर्धक। स्पर्धकसमूहो गुणहानि। गुणहानि-समूह स्थानमिति ज्ञातव्यम्। —अविभाग प्रतिषेदार्थका समूह वर्ग, वर्गका समूह वर्गणा, वर्गणाका समूह स्पर्धक, स्पर्धकका समूह गुण-हानि और गुणहानिका समूह स्थान है।

सा सा/भाषा/२८५/२३६/१२ एक जीवके एक कालविषय (प्रकृत कथ, अनुभाग वन् आदि) सभने ताका नाम स्थान है।

२. जगह विशेषके अर्थमें

घ ३३/१,५,६४/३३६/३ समुद्रावरुद्ध ब्रज स्थान नाम निम्ननावरुद्ध वा। —समुद्रसे अवरुद्ध अथवा नदीमें अवरुद्ध ब्रजका नाम स्थान है।

अन घ ८/८४ स्थीयते येन तत्स्थान वन्दनाया द्विधा मतम्। उट्टी-भावो निपद्या च तत्प्रयोज्य यथातन्तम् ८४। —(वन्दना प्रकरणमें) वन्दना करनेवाला शरीरकी जिस आर्ति अथवा क्रिया द्वारा एक ही जगहपर स्थित रहे उसको स्थान कहते हैं ८४।


२ स्थानके भेद—१. अव्यात्म स्थानादि

सा सा/मू/१२-४१ गो अज्जम्पट्टाणा णेव य अणुभावाठानाणि १२। जीवस्स णत्थि केई जेयट्टाणा ण वषट्टाणा वा। णेव य उट्टट्टाणा ण मग्गणठानया केई १४। णा ठिदिव वट्टाणा जीवस्स ण स विनेमठाना वा। णेव विन्तोहिट्टाणा णा सज्जमल्लिठ्ठाणा वा १४। णेव य जीवट्टाणा ण गुणट्टाणा य णत्थि जीवरस। जेण ट्ट एदे मत्ते पुग्गणदब्बरम परिणामा १४। —जीवके अव्यात्म स्थान भी नहीं है और अनुभाग स्थान भी नहीं है १२। जीवके योगस्थान नहीं, बंधस्थान भी नहीं, उदयस्थान भी नहीं, बोध स्थान भी नहीं है १३। स्थितिवन्धस्थान भी नहीं, अथवा सन्निवेश स्थान भी नहीं, विशुद्धि स्थान भी नहीं, अथवा रायम लक्ष्मि स्थान भी नहीं है १४। और जीवके जीव स्थान भी नहीं अथवा गुणस्थान भी नहीं है।

क्योंकि ये सत्र पुद्गल द्रव्यके परिणाम है। अर्थात् आगममें निम्न नामके स्थानका उल्लेख यत्रतत्र मिलता है।

२. निक्षेप रूप स्थान

नोट—नाम, स्थापना, आदिके भेद दे निक्षेप/१/२ (ध १०/४, २, ४, १७/४३४/८)।



३ निक्षेप रूप भेदोंके लक्षण

ध १०/२, ४, ४, १७/४३४/१० ज स ध्रुव त सिद्धाणमोगाहणदृष्टाण। कुदो। तैसिमोगाहणाए वद्विह-हाणीणमभावेण थिरसरुत्वेण अवदृष्टाणादो। ज तमदध्रुव सच्चित्तदृष्टाण त ससारास्थान जीवाणमोहगाहणा। कुदो। तस्य वद्विहहाणीणमुवलभादो। ज त सकोच-विकोचणप्ययमभ्यन्तरसच्चित्तदृष्टाण त सब्वैसि सजोगजीवाण जीवदव्व। ज त तच्चि-हीणमभ्यन्तर सच्चित्तदृष्टाण त नेवलगाण-द सणहराण अमोवलद्विदि-वधपरिणयाण सिद्धाण अजोगिकेवल्लीण वा जीवदव्व। = जो ध्रुव है वह सिद्धोंका अवगाहनास्थान है, क्योंकि वृद्धि और हानिका अभाव होनेसे उनकी अवगाहना स्थिर स्वरूपसे अवस्थित है। जो अध्रुव सचित्तस्थान है वह ससारी जीवोंकी अवगाहना है, क्योंकि उसमें वृद्धि और हानि पायी जाती है। सकोच विकोचात्मक अभ्यन्तर सचित्त स्थान है वह योग युक्त सत्र जीवोंका जीव द्रव्य है। जो तद्विहीन अभ्यन्तर सचित्त स्थान है वह केवलज्ञान व केवलदर्शनको धारण करनेवाले एव मोक्ष व स्थितिवन्धसे परिणत ऐसे सिद्धों अथवा अयोगकेवलियाका जीव द्रव्य है।

नोट—(शेष निक्षेप रूप भेदोंके लक्षण—दे निक्षेप।)

* अध्यात्म सम्बन्धित विषय

- १ अध्यात्म आदि स्थानोंके लक्षण — दे वह वह नाम।
- २ जीव स्थान — दे समाग।
- ३ स्वरस्थान स्वरस्थान व विहारवत्त्व-स्वस्थान — दे क्षेत्र/१।

स्थानकवासी—दे श्वेताम्बर।

स्थानांग—द्वादशांगका तीसरा अंग—दे श्रुतज्ञान/III।

स्थानार्ह पद्धति—Place Value notation, system (ज प/प्र १०९)।

स्थापना—१ दे धारणा/१ धरणी, धारणा, स्थापना, कोष्ठा और प्रतिष्ठा एकार्थवाची है।

ध. १३/६, ६, ४/२४३/११ स्थाप्यते अनया निर्णोतरूपेण अर्थ इति स्थापना। = जिसके द्वारा निर्णीत रूपसे अर्थ स्थापित किया जाता है वह स्थापना है। २ पूजामें स्थापनाका विधि निषेध—दे पूजा/५।

स्थापनाअक्षर—दे अक्षर।

स्थापना नय—दे नय/II/५/३।

स्थापना निक्षेप—दे निक्षेप/४।

स्थापना सत्य—दे सत्य/१।

स्थापित—१. आहारका एक दोष—दे आहार/II/४। २. वस-तिकाका एक दोष—दे वसतिका।

स्थावर—वर्धमान भगवात्का पूर्वका १८ वाँ भव—दे वर्धमान।

स्थावर—पृथिवी अप आदि कायके एकेन्द्रिय जीव अपने स्थान पर स्थित रहनेके कारण अथवा स्थावर नामकर्मके उदयसे स्थावर कहलाते हैं। ये जीव सूक्ष्म व बादर दोनों प्रकारके होते हुए सर्व लोकमें पाये जाते हैं।

१ स्थावर जीवोंका लक्षण

स सि /२/१२/१७१/४ स्थावरनामकर्मोदयवशवर्तिन स्थावरा। = स्थावर नामकर्मके उदयसे जीव स्थावर कहलाते हैं। (रा वा./२/१२/३/१२६/२८)।

ध १/१, १, ३३/गा १३६/२३६ जाणदि पस्सदि भुजदि सेवदि पस्सिदिपण एवकेण। कुणदि य तस्सामित्त थावरु एइदिओ तेण। १३६। = स्थावर जीव एक स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा ही जानता है, देखता है, खाता है, सेवन करता है और उसका स्वामीपना करता है, इसलिए उसे एकेन्द्रिय स्थावर जीव कहा है। १३६।

ध १/१, १, ३६/२६६/६ एते पच्चापि स्थावरा स्थावरनामकर्मोदयजनित-विशेषत्वात्। = स्थावर नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई विशेषताके कारण ये पाँचों ही स्थावर कहलाते हैं।

२. स्थावर नामकर्मका लक्षण

स सि /८/११/३६१/१० यन्नित्त एकेन्द्रियेण प्रादुर्भावस्तत्स्थावर-नाम। = जिसके उदयसे एकेन्द्रियोंमें उत्पत्ति होती है वह स्थावर नामकर्म है। (रा. वा /८/११/२२/५८/२६), (गो क/जी प्र /३३/३०/१३)।

ध ६/१, ६-१, २८/६१/६ जस्स कम्मस्स उदण्ण जीवो थावरत्त पडिबज्जदि तस्स कम्मस्स थावरसण्ण। जदि थावरणामकम्म ण होज्ज, तो थावरजीवाणमभावो होज्ज। ण च एव तैसिमुवल्लभा। = जिस कर्मके उदयसे स्थावरपनेको प्राप्त होता है, उस कर्मकी स्थावर यह सद्भा है। यदि स्थावर नामकर्म न हो, तो स्थावर जीवोंका अभाव हो जायेगा। किन्तु ऐसा नहीं है। (ध १३/६, ६, १०१/३६५/४)।

* स्थावर नामकर्मके असंख्याता भेद सम्भव हैं —दे नामकर्म।

* स्थावर नामकर्मकी वन्ध उदय व सत्त्व प्ररूपणाएँ —दे वह वह नाम।

३. स्थावर जीवोंके भेद

प.का/मू./११० पुढवी य उदगमगणी वाउ वणफदि जीवससिदा काया । ११०। = पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय, और वनस्पतिकाय यह चारों जीव सहित है । ११०। (मू आ /२०५), (न च वृ /१२३), (का अ /१२४), (द्र स /मू /११) ; (स्या म /२६ /३२६/२३) ।

४. स्थावर जीव एकेन्द्रिय ही होते हैं

प का /मू /११० देति खलु मोहयहुल फास बहुगा वि ते तैसि ११०। = (पाँचों स्थावर जीवोंकी अवांतर जातियोंकी अपेक्षा) उनकी भारी सख्या होनेपर भी वे सभी उनमें रहनेवाले जीवोंको वास्तवमें अत्यन्त मोहसे सयुक्त स्पर्श देती है (अर्थात् स्पर्श ज्ञानमें निमित्त होती है ।)

ध.१/१२.३३/गा १३५/२३६ जाणदि पस्सदि भुजदि सेवदि पस्सिदिएण एवकेण । कुणदि य तस्सामित्त थावर एह्विदो तेण १३५। = क्योंकि स्थावर जीव एक स्पर्शान्द्रियके द्वारा ही जानता है, देखता है, खाता है, सेवन करता है और उसका स्वामीपना करता है, इसलिए उसे एकेन्द्रिय स्थावर जीव कहा गया है । १३५।

५. स्थावर जीवोंमें जीवत्वकी सिद्धि

प का /मू व प्र /११३ अडेमु पवइहता गम्भथा माणुसा य मुच्छगया । जारिसया तारिसया जीवा एगेंदिया णेया ११३। एकेन्द्रियाणां चेतन्यास्तित्वे दृष्टान्तोपन्य सोऽयम् । अण्डान्तर्लानाना, गर्भस्थानां, मूर्च्छितानां च बुद्धिपूर्वकव्यापारादर्शनेऽपि येन प्रकारेण जीवत्व निश्चीयते, तेन प्रकारेणैकेन्द्रियाणामपि, उभयेषामपि बुद्धिपूर्वक-व्यापारादर्शनस्य समानत्वादिति । = अण्डेमें वृद्धि पानेवाले प्राणी, गर्भमें रहे हुए प्राणी और मूर्च्छा प्राप्त मनुष्य, जैसे हैं, वैसे एकेन्द्रिय जीव जानना । ११३। यह एकेन्द्रियोंको चैतन्यका अस्तित्व होने सम्बन्धी दृष्टान्तका कथन है । अण्डेमें रहे हुए प्राणी, गर्भमें रहे हुए और मूर्च्छा पाये हुएके जीवत्वका, उन्हें बुद्धि पूर्वक व्यापार नहीं देखा जाता तथापि, जिस प्रकार निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार एकेन्द्रियोंके जीवत्वका भी निश्चय किया जाता है, क्योंकि दोनोंमें बुद्धि पूर्वक व्यापारका अदर्शन है ।

रा वा /१/४/१५-१६/२६/१७ यद्ये वनस्पत्यादीनामजीवत्व प्राप्नोति तदभावात् । ज्ञानादीनां हि प्रवृत्तिरुपलब्धि, न च तेषां तत्पूर्विका प्रवृत्तिरस्ति हिताहितप्राप्तिपरिर्वर्जनाभावात् । उक्तं च—बुद्धिपूर्वा क्रिया इष्टत्वा स्वदेहेऽन्यत्र तद्रह्यात् । मन्यते बुद्धिसद्भावं सा न येयु न तेषु धी । [सन्ताना सि श्लो] इति नैप दोष, तेषामपि ज्ञानादयः सन्ति सर्वज्ञप्रत्यक्षा, इतरेषामागमगम्या । आहारला-भालाभयोः पुष्टिस्तानादिदर्शनेन युक्तिगम्याश्च । अण्डगर्भस्थ-मूर्च्छितादिषु सत्यपि जीवत्वे तत्पूर्वकप्रवृत्त्याभावात् हेतुव्यभि-चारः । = प्रश्न—(जिसमें चेतनता न पायी जाये सो अजीव है) यदि ऐसा है तो वनस्पति आदिकोंमें अजीवत्वकी प्राप्ति होती है । क्योंकि उनमें चेतनताका अभाव है । ज्ञानादिकी प्रवृत्तिसे ही उसकी उप-लब्धि होती है । परन्तु वनस्पति आदिमें बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, क्योंकि उनमें हितके ग्रहण व अहितके त्यागका अभाव है । कहा भी है—अपने शरीरमें बुद्धि क्रिया बुद्धिके गृते ही देखी जाती है, वैसे ही क्रिया यदि अन्यत्र हो तो वहाँ भी बुद्धिका सद्भाव मानना चाहिए, अन्यथा नहीं । उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वनस्पति आदिमें ज्ञानादिका सद्भाव है । इसको सर्वज्ञ तो अपने प्रत्यक्ष ज्ञानसे जानते हैं और हम लोग आगमसे । खान पान आदिके मिलने पर पुष्टि और न मिलने पर मलिनता देखकर उनमें चैतन्यका अनुमान भी होता है । गर्भस्थ जीव मूर्च्छित और

अण्डस्थ जीवमें बुद्धि पूर्वक स्थूल क्रिया भी दिग्वाडे नहीं देती, अतः न दीखने मात्रसे अभाव नहीं किया जा सकता ।

स्या म./२६/३३०/१० पृथिव्यादीनां पुनर्जीवत्वमित्य साधनीयम् । यथा सात्मिका विद्रुमशिलादिरूपा पृथिवी, छेदे समानधातुत्वात्, अर्शोऽपुरत्वम् । भौममम्भोऽपि सात्मकम्, क्षतभूसजातीयस्य स्वभा-वस्य सभवात्, शाश्वरत्वम् । आन्तरिक्षमपि सात्मकम्, अग्नादि-विकारे स्वतः सभूय पातात्, मत्स्यादिवत् । तेजोऽपि सात्मकम्, आहारोपादानेन वृद्ध्यादिविकारोपलम्भात्, पुरुषाश्च । वायुरपि सात्मक, अपरप्रेरितत्वे तिर्यग्गतिगत्त्वाद् गोवत् । वनस्पतिरपि सात्मक छेदादिभिर्म्लान्यादिदर्शनात्, पुरुषाश्च । केपाचित्त्वात् स्वापाङ्गनोपश्लेषादिविकारात् । अप्रकर्षतत्त्वात् वा सर्वेषां सात्मकत्वसिद्धिः । आप्तवचनाच्च । त्रसेषु च कृमिपिपीलिकाभ्रमर-मनुष्यादिषु न केपाचित्त्वात् सात्मकत्वे विगानमिति । = १ मूंगा पापाणादि रूप पृथिवी सजीव है, क्योंकि डामके अङ्कुरकी तरह पृथिवीके काटनेपर वह फिरसे उग आती है । २ पृथिवीका जल सजीव है, क्योंकि मेढककी तरह जलका स्वभाव खोदी हुई पृथिवीके समान है । आकाशका जल भी सजीव है, क्योंकि मछलीकी तरह बादलके विकार होने पर वह स्वतः ही उत्पन्न होता है । ३ अग्नि भी सजीव है, क्योंकि पुरुषके अगोंकी तरह आहार आदिके ग्रहण करनेसे उसमें वृद्धि होती है । ४ वायुमें भी जीव है, क्योंकि गौकी तरह वह दूसरेसे प्रेरित, होकर गमन करती है । ५ वनस्पतिमें भी जीव है, क्योंकि पुरुषके अगोंकी तरह छेदनेसे उसमें मलिनता देखी जाती है । कुछ वनस्पतियोंमें त्रियोंके पादाघात आदिसे विकार होता है, इसलिए भी वनस्पतिमें जीव है । अथवा जिन जीवोंमें चेतना घटती हुई देखी जाती है, वे सब सजीव हैं । सर्वज्ञ भगवान्ने पृथिवी आदिकी जीव कहा है । ६ कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य आदि त्रस जीवोंमें सभी लोगोंने जीव माना है ।

६ स्थावरोंमें कथंचित् त्रसपना

प का /मू. व ता वृ /१११ तित्यावरतणुजोगा अणिलानलकाध्याय तेषु तसा । १११। अथ व्यवहारेणाग्निवातकायिकानां त्रसत्व दर्शयति—पृथिव्यवनस्पतयश्च स्थावरकाययोगात्मवन्धात्स्थावरा भण्यन्ते अनलानिलकायिका तेषु पञ्चस्थावरेषु मध्ये चलनक्रियां दृष्ट्वा व्यवहारेण त्रसा भण्यन्ते । = अथ व्यवहारसे अग्नि और वातकायिकोंके त्रसत्व दर्शयते हैं—पृथिवी, अप् और वनस्पति ये तीन तो स्थावर अर्थात् स्थिर योग सम्बन्धके कारण स्थावर कहे जाते हैं । परन्तु अग्नि व वायुकायिक उन पाँच स्थावरोंमें ऐसे हैं जिनमें चलन क्रिया देखकर व्यवहारसे त्रस भी कह देते हैं ।

७ स्थावरके लक्षण सम्बन्धी शंका समाधान

रा वा./२/१२/४-५/१२०/१ स्यादेतत्-तिष्ठन्तीत्येव शीला स्थावरा इति । तन्न, कि कारणम् । वाय्वादीनामस्थावरत्वप्रसगात् । वायु-तेजोऽम्भसां हि देशान्तराप्रदर्शनादस्थावरत्व स्यात् । कथं तर्ह्यस्य निष्पत्तिः—'स्थानशीला स्थावरा' इति । एव इति विशेषवज्ज-लामात् । क्वचिदेव वर्तते । अथ मतमेतत्—इष्टमेव वाय्वादी-नामस्थावरत्वमिति, तन्न कि कारणम् । सगयाथानिवबोधत् । एव हि समयोऽवस्थित सत्प्ररूपणाय कायाजुवादे "त्रसा नाम द्वीन्द्रियादारभ्य आ ज्योतिर्वैवलिन (प. खं १।१०१। मू ४४/१७७) ।" तस्मात् चलनाचननापेक्षं त्रसस्थावरत्वं नमदिमापेक्ष-मेवेति स्थितम् । = प्रश्न—'जो ठहरे सो, स्थावर' ऐसा क्यों नहीं कहते । उत्तर—नहीं, क्योंकि, वायु आदिकोंमें स्थायरत्वाका प्रसंग जाता है । वायु अग्नि और ज्वरी देशान्तर प्राप्ति देखी जाती है । इसमें वे अस्थावर मममें जायेंगे । प्रश्न—'फिर हम स्थावर शब्द की 'जो ठहरे सो स्थावर' ऐसी निष्पत्ति कैसे हो सकती है ।

उत्तर—यह तो रूढि विशेषके बलसे क्वचिद् ऐलनेमें आता है। प्रश्न—वायु आदिक अस्थावर होते हैं तो हो जाओ, क्योंकि यह तो हमें दृष्ट है। उत्तर—ऐसा नहीं है, क्याकि आगमके साथ विरोध आता है। पट्ट खण्डागम सरप्ररूपणाके कायानुवादमें ऐसा वचन अपस्थित है कि "होन्द्रियसे लेकर अयोग केवल तक जीवोंको ब्रस कहते है।" अत वायु आदिकोंको स्थावरकी कोटिसे निकालकर ब्रस कोटिमें लाना उचित नहीं है। इसलिए वचन और चलनकी अपेक्षा ब्रस और स्थावर नहीं किया जा सकता। (स, सि २/१२/१७१/४), (ध १/१,२,३६/२६६/६)

ध, १/१,९ ४४/२७६/१ स्थावरकर्मण कि कार्यमिति चेदेकस्थानवस्थाप-
कत्वम्। तेजोवाटवृष्कायानां चलनात्मकाना तथा सत्यस्थावरत्वं
स्यादिति चेत् स्थास्तूना प्रयोगतत्त्वलच्छिन्नपणानामिव गतिपर्याय-
परिणतसमीरणव्यतिरिक्तशरीरत्वतस्तेषा गमनाविरोधात् ।
=प्रश्न—स्थावर कर्मका क्या कार्य है। उत्तर—एक स्थानपर
अवस्थित रखना स्थावर कर्मका कार्य है। प्रश्न—ऐसा मानने पर,
गमन स्वभाववाले अग्निकायिक वायुकायिक और जलकायिक जीवों-
को अस्थावरपना प्राप्त हो जायगा। उत्तर—नहीं, क्योंकि, जिस
प्रकार वृक्षमें लगे हुए पत्ते वायुसे हिला करते हैं और दूटनेपर इधर-
उधर उड़ जाते हैं उसी प्रकार अग्निकायिक और जलकायिकके
प्रयोगसे गमन माननेमें कोई विरोध नहीं आता है। तथा वायुके
गति पर्यायसे परिणत शरीरको छोड़कर कोई दूसरा शरीर नहीं
पाया जाता है इसलिए उसके गमन करनेमें भी कोई विरोध नहीं
आता है।

८. ब्रस व स्थावरमें भेद बतानेका प्रयोजन

ध, स/टी/११/२६/६ अयमत्रार्थ —विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजपर-
मात्मस्वरूपभावनोत्पन्नपारमार्थिकसुखमलभमाना इन्द्रियमुखासक्ता
एकेन्द्रियादिजीवानां बध कृत्वा ब्रसस्थावरा भवन्तीत्युक्तं पूर्वं
तस्मात्ब्रसस्थावरोत्पत्तिविनाशार्थं तत्रैव परमात्मनि भावना
कर्त्तव्येति ।=सारार्थ यह है कि निर्मल, ज्ञान दर्शन स्वभाव निज
परमात्म स्वरूपकी भावनासे उत्पन्न जो पारमार्थिक सुख है उसको
न पाकर जीव इन्द्रियोंके सुखमें आसक्त होकर जो एकेन्द्रियादि
जीवोंकी हिंसा करते हैं उससे ब्रस तथा स्थावर होते हैं, ऐसा पहले
कह चुके हैं, इस कारण ब्रस स्थावरोंमें उत्पत्ति होती है, सबको
मिटानेके लिए उसी पूर्वोक्त प्रकारसे परमात्मकी भावना करनी
चाहिए।

* स्थावरोंको सत् संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अन्तर भाव
अल्प बहुत्व रूप आठ प्ररूपणाएँ—दे वह वह नाम।

* स्थावरोंमें गुणस्थान जीवसमास, मार्गणास्थानोंके
स्वामित्व विषयक २० प्ररूपणाएँ—दे सत्।

* मार्गणा प्रकरणमें भाव मार्गणाकी इष्टता तथा वहाँ
आय व व्ययका संतुलन—दे, मार्गणा।

* स्थावर जीवोंमें प्राणोंका स्वामित्व—दे, प्राण/१।

९ स्थावर लोक निर्देश

ति प/५/५ जा जीवयोगलानं धम्माधम्मपुत्रद्व आयासे। होंति हु
गदागदाणि ताव हे थावरा लोओ।५।=धर्म व अधर्म द्रव्यसे सम्ब-
न्धित जितने आकाशमें जीव और पुद्गलकोंका जाना आना रहता है
उतना स्थावर लोक है।५।

का अ/सू/१२२ एइदिएहि भरिदो पच—पयारेहि सम्बदी लोओ। ।
१२२।=यह लोक पाँच प्रकारके एकेन्द्रियोंसे सर्वत्र भरा हुआ है।

दे, काय/२/५ वादर, अप्, तेज व वनस्पति कायिक जोर अपोलोककी
आठों पृथिवियों व भवनवासियोंके विमानोंमें भी पाये जाते हैं।

स्थित द्रव्य निक्षेप—दे, निक्षेप/५/८।

स्थिति—अवस्थान कानना नाम स्थिति है। बन्ध कालसे लेकर
प्रतिसमय एक एक करके कर्म उदयमें जा आकर रिगते रहते हैं।
इस प्रकार जब तक उस समयमें बन्धा सर्ग द्रव्य समाप्त हो, उतना
उतना काल उस कर्मकी स्थिति है। और प्रतिसमय वह विगने-
वाला द्रव्य निषेक कहलाता है। सम्पूर्ण स्थितिमें एक एकके पीछे
एक स्थित रहता है। सबसे पहिले निषेकमें सबसे अधिक द्रव्य है,
पीछे क्रम पूर्वक घटते घटते अन्तिम निषेकमें नर्त्र स्तोत्र द्रव्य
होता है। इसलिए स्थिति प्रकरणमें कर्म निषेकोंका यह त्रिकोण
यन्त्र बन जाता है। कथाय आदिकी तीव्रताके कारण सबलेश
परिणामोंसे अधिक और विशुद्ध परिणामोंसे हीन स्थिति
बन्धती है।

१	भेद व लक्षण
१	स्थिति सामान्यका लक्षण।
२	स्थिति बन्धका लक्षण।
*	स्थिति बन्ध अध्यवसाय स्थान। —दे, अध्यवसाय।
३	उत्कृष्ट व सर्व स्थितिके लक्षण।
*	उत्कृष्ट व सर्व स्थिति आदिमें अन्तर। —दे अनुयोग/३/२।
४	अग्र व उपरितन स्थितिके लक्षण।
५	सान्तर व निरन्तर स्थितिके लक्षण।
६	प्रथम व द्वितीय स्थितिके लक्षण।
७	सादि अनादि स्थितिके लक्षण।
८	विचार स्थानका लक्षण।
*	जीवोंकी स्थिति। —दे आयु।
२	स्थितिवन्ध निर्देश
१	स्थितिवन्धमें चार अनुयोग द्वार।
२	भवस्थिति व कायस्थितिमें अन्तर।
३	एवसमयिक बन्धको बन्ध नहीं कहते।
४	स्थिति व अनुमाग बन्धकी प्रधानता।
*	स्थितिवन्धका कारण कथाय है। —दे बन्ध/५/१।
*	स्थिति (काल) की ओष आदेश प्ररूपणा। —दे काल/५,६।
३	निषेक रचना
१	निषेक रचना ही कर्मोंकी स्थिति है।
२	स्थितिवन्धमें निषेकोंकी त्रिकोण रचना सम्बन्धी।
*	निषेकोंकी त्रिकोण रचनाका आकार। —दे, उदय/३।
३	कर्म व नोकर्मकी निषेक रचना, सम्बन्धी विशेष सूची।
४	उत्कृष्ट व जघन्य स्थितिवन्ध सम्बन्धी नियम
*	जघन्य स्थितिमें निषेक प्रधान है और उत्कृष्ट स्थितिमें काल। —दे सत्त्व/२/५।
१	मरण समय उत्कृष्ट बन्ध सम्भव नहीं।

०	स्थितिवन्धमें सकलेश विशुद्ध परिणामोंका स्थान ।
३	मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्धक कौन ।
४	उत्कृष्ट अनुभागके साथ उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी व्याप्ति ।
*	स्थिति व प्रदेश वन्धमें अन्तर —दे प्रदेश वन्ध ।
५	उत्कृष्ट स्थिति वन्धका अन्तरकाल ।
६	जवन्य स्थितिवन्धमें गुणहानि सम्भव नहीं ।
७	साता व तीर्थकार प्रकृतियोंका ज. उ. स्थितिवन्ध सम्बन्धी दृष्टि भेद ।
*	ईर्ष्याय कर्मकी स्थिति सम्बन्धी —दे ईर्ष्याय ।
*	जवन्य व उत्कृष्ट स्थिति सत्त्वके स्वामी —दे, सत्त्व/२ ।
८	उत्कृष्ट अनुभागके साथ अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध कैसे ।
५	स्थितिवन्ध सम्बन्धी ग. रा. समाधान
१	साताके जवन्य स्थितिवन्ध सम्बन्धी ।
०	उत्कृष्ट अनुभागके साथ अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध कैसे ।
३	विग्रह गतिमें नारकी सञ्जीवा मुजगार स्थितिवन्ध कैसे ?
६	स्थितिवन्ध प्ररूपणा
१	मूलोत्तर प्रकृतियोंकी जवन्योत्कृष्ट आवाधा व स्थिति तथा उनका स्वाभाव ।
२	इन्द्रिय मार्गणाकी अपेक्षा प्रकृतियों की उ. ज. स्थितिकी सारणी ।
३	उत्कृष्ट व जवन्य स्थिति, प्रदेश व अनुभागके वन्धोंकी प्ररूपणा ।
४	अन्य प्ररूपणाओं सम्बन्धी सूची ।
*	मूलोत्तर प्रकृतिकी स्थितिवन्ध व वन्धकों सम्बन्धी सख्या, क्षेत्र, रक्षण, काल, अन्तर, भाव व अल्पवहुत्व रूप आठ प्ररूपणाएँ । —दे वह वह नाम ।

२. स्थितिका अर्थकाल

स सि /१/७/२२/४ स्थिति कालपरिच्छेद । = जितने काल तक वस्तु रहती है वह स्थिति है । (रा वा /१/७/—/३८३)

ग. वा. /१/८/६/४२/३ स्थितिमतोऽत्र विपरिच्छेदार्थं कालोपादानम् । ६ ।
= किसी क्षेत्रमें स्थित पदार्थकी काल मयार्दा निश्चय करना काल (स्थिति) है ।

क पा ३/३/३५/१६२/६ कर्ममरुत्वेण परिणदानं कर्ममद्ययोगल-
खधान कर्मभावमद्य टिय उच्छानकालो द्विदीणाम । = कर्म रूपसे परिणत हुए पुद्गल कर्मस्वन्धोंके कर्मपनेको न छोड़कर रहनेके कालकी स्थिति कहते हैं ।

क पा ३/३-२२/३५/२६२/५ मयलणितेयगयकालपहाणो अद्याच्छेदो,
सयलणितेयगपहाणा द्विदि सि । = सर्वनिषेकगत काल प्रधान अद्या-
च्छेद होता है और सर्वनिषेक प्रधान स्थिति होती है ।

गो जी /भापा/ पृ ३१०/२ अन्य काय तै आकर तेजसकाय विर्ष जोव
उपज्या तहाँ उत्कृष्टपने जेते काल ओर काय न धरे, तेजसकायनिकों
धराधरे जिस कालके समयनिका प्रमाण (तेजसनायिककी स्थिति)
जानना ।

३. स्थिति का अर्थ आयु

स सि /४/२०/२५१/७ स्तोपात्तस्यायुष उदयात्तस्मिन्भवे शरीरेण सहाव-
स्थान स्थिति । = अपने द्वारा प्राप्त हुई आयुके उदयसे उम भवमें
शरीरके साथ रहना स्थिति कहलाती है । (रा वा /४/२०/१/२३६/१९)

२. स्थिति वन्धका लक्षण

स सि /८/३/३७६/४ तत्त्वभवायाद्वच्युति स्थिति । यथा—अजागो-
महिष्यादिश्रीराणां माधुर्यस्वभावाद्वच्युति स्थिति । तथा ज्ञाना-
वर्णादीनामर्थावगमादिस्वभावाद्वच्युति स्थिति । = जिसका जो
स्वभाव है उससे च्युत न होना स्थिति है । जिस प्रकार बकरी, गाय
और भैस आदिके दूधका माधुर्य स्वभावसे च्युत न होना स्थिति है ।
उसी प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्मोंका अर्थका ज्ञान न होने देना आदि
स्वभावसे च्युत न होना स्थिति है । (प स. /भा /४/५१४-५१५);
(रा वा /८/३/५/६७/७) (द्र म / टी /३/६३/५). (प स/म
/४/३६६ ३६७)

घ ६/१. ६-६. २/१४६/१ जोगवमेण कर्मस्वरुत्वेण परिणदानं योगल-
खान कसायवसेण जीवे एगस्वरुत्वेणावद्याणकालो द्विदीणाम । = योगके
वशसे कर्मस्वरुपसे परिणत पुद्गल स्वन्धोंका कपालके वशसे जीवमें
एक स्वरुपसे रहनेके कालको स्थिति कहते हैं ।

३. उत्कृष्ट व सर्व स्थितिके लक्षण

क पा ३/३-२२/३२०/१४/२ 'तत्त्वतणमव्वणिमेयाण सम्हो सव्वट्टिदी
णाम । = (बद्ध कर्मके) ममस्त निषेकके या ममस्त निषेकोंके प्रदेशोंके
कालको उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति कहते हैं ।

दे स्थिति /२/६ बहाँ पर (उत्कृष्ट स्थितिमें) रहनेवाले (बद्ध कर्मके)
सम्पूर्ण निषेकोंका जो समूह वह सर्व स्थिति है ।

क पा ३/३-२२/३२०/१५ पर विनोपार्थ—(बद्ध कर्मके) अन्तिम निषेकका
जो काल है वह (उस कर्मके) उत्कृष्ट स्थिति है । इनमें उत्कृष्ट
स्थितिवन्ध ह नेव प्रथम निषेकसे नेवर अन्तिम निषेक तककी रूप
स्थितियोंका ग्रहण किया है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होनेपर जो प्रथम
निषेकसे नेवर अन्तिम निषेक तक निषेक रचना होती है वह सर्व
स्थिति विभक्ति है ।

१. भेद व लक्षण

१. स्थिति सामान्यका लक्षण

१ स्थितिका अर्थ गमनरहितता

रा वा /४/१७/७/४६०/२४ तद्विपरीता स्थिति । २४ द्रव्यस्य स्वदेश-
प्रचयनहेतुर्गतिनिवृत्तिरुपा स्थितिरवगतव्या । = गतिसे विपरीत
स्थिति होती है । अर्थात् गतिकी निवृत्ति रूप स्वदेशमें अवच्युतिकी
स्थिति कहते हैं । (स. सि /४/१७/२=१/१२/

रा वा /४/८/१६/१६१/१० जीवप्रदेशानाम् उद्वयनिधनपरिपन्डस्या-
प्रवृत्ति । = जीवके प्रदेशोंकी उद्वय पुण्यको अवस्थिति तथा उद्वय-
पुण्य न होनेको स्थिति कहते हैं ।

४ अग्र व उपरितन स्थितिके लक्षण

१. अग्र स्थिति

ध १४/५,६,३२०/३६७/४ जहण्णणिव्वत्तीए चरिमणिसोओ अग्ग णाम । तस्स द्विदी जहण्णया अग्गट्टिदि त्ति घेत्ठवा । जहण्णणिव्वत्ति त्ति भण्णिद होदि । = जघन्य निवृत्तिके अन्ततम निपेक्की अग्रसज्ञा है । उसकी स्थिति जघन्य अग्रस्थिति है । जघन्य निवृत्ति (जघन्य आयुषन्ध) यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

२ उपरितन स्थिति

गो. जो /भाषा /६७/१७६/१० वर्तमान समय तै लगाइ उदयावलीका काल, ताके पीछे गुण श्रेणी आयाम काल, ताके पीछे अवशेष मय स्थिति काल, अन्त विपै अतिस्थापनावली बिना सो उपरितन स्थितिका काल, तिनिके निपेक् पूर्वै थे तिनि विपै मिलाइए है । सो यह मिलाया हुआ द्रव्यपूर्व निपेक्किके साथ उदय होइ निर्जरे है, ऐसा भाव जानना । (ल सा /भाषा /६६/१०४) ।

गो जो./अर्थ सहष्टि/पृ २४ ताके (उदयावली तथा गुण श्रेणीके) ऊपर (बहुत काल तक उदय आने योग्य) के जे निपेक् तिनिका समूह सो तो उपरितन स्थिति है ।

५. सान्तर निरन्तर स्थितिके लक्षण

गो क /भाषा /६४५,६४६/२०४४-२०५५ सान्तरस्थिति उत्कृष्ट स्थिति तै लगाय-जघन्य स्थिति पर्यन्त एक-एक समय घाटिका अनुक्रम लिये जो निरन्तर स्थितिके भेद (६४५/२०४४) । सान्तर स्थिति—सान्तर कहिए एक समय घाटिके नियम करि रहित ऐसे स्थितिके भेद ।

स सा /भाषा/५८३/६६५/१६ गुण श्रेणि आयामके ऊपरवर्ती जिन प्रदेशनिका पूर्व अभाव किया था तिनिका प्रमाण रूप अन्तर-स्थिति है ।

६ प्रथम व द्वितीय स्थितिके लक्षण

स सा /भाषा /५८३/६६५/१७ ताके उपरिवर्ती (अन्तर स्थितिके उपरिवर्ती) अवशेष सर्व स्थिति ताका नाम द्वितीय स्थिति है ।

दे अन्तरकरण/१/२ अन्तरकरणसे नीचेकी अन्तर्भूतप्रमित स्थितिको प्रथम स्थिति कहते हैं और अन्तरकरणसे ऊपरकी स्थितिको द्वितीय-स्थिति कहते हैं ।

७. सादि अनादि स्थितिके लक्षण

प सं /भा /टी /४/३६०/२४३/१६ सादिस्थितिवन्ध, य अचन्ध स्थितिवन्ध घघ्नाति स सादिवन्ध' । अनादिस्थितिवन्ध, जो कर्मणोरनादिवन्ध रयात् । = विवभित्त कर्मवी स्थितिके बन्धका अभाव होकर पुन उसके बंधनेको सादि स्थितिवन्ध कहते हैं । गुणस्थानोमें बन्ध ठ्युच्छित्तिके पूर्वतक अनादि कालसे होनेवाले स्थितिवन्धको अनादिस्थितिवन्ध कहते हैं ।

८. विचार स्थानका लक्षण

ध, ६/१,६-६,५/१५० पर उदाहरण

वीचारस्थान = (उत्कृष्ट स्थिति—जघन्य स्थिति) या अथाधाके भेद—१

तहाँ अथाधाके भेद = $\frac{\text{उत्कृष्टस्थिति—जघन्यस्थिति} + १}{\text{आथाधा काण्डक}}$

अथाधा काण्डक = $\frac{\text{उत्कृष्ट स्थिति}}{\text{उत्कृष्ट आथाधा}}$

जैसे यदि उत्कृष्ट स्थिति = ६४, जघन्य स्थिति = ४४

उत्कृष्ट आथाधा १६, आथाधा काण्डक = $\frac{६४}{१६} = ४$

तो ६४-६४ तक ४ स्थिति भेदों का एक आथाधा काण्डक

(ii) ६०-५७ .. " " " " " " " " "

(iii) ५६-५३ .. " " " " " " " " "

(iv) ५२-४९ .. " " " " " " " " "

(v) ४८-४५ .. " " " " " " " " "

यहाँ आथाधा काण्डक = ५, आथाधा काण्डक आयाम = ४

आथाधाके भेद = $५ \times ४ = २०$

वीचार स्थान = २०-१ = १९ या ६४-४५ = १९

२. स्थितिवन्ध निर्देश

१ स्थितिवन्धमें चार अनुयोग द्वार

प ख/११/४,२,६/सु ३६/१४० एत्तो मूलपयडिद्विदिबधे पुव्व गमणिउजे तत्थ इमाणि चत्तारि अणियोगद्वारणि द्विदिबधट्टाणप्ररुवणा गित्से-यपरुवणा आथाधाकडयपरुवणा अप्पावहुए त्ति । ३६। = आगे मूल प्रकृति स्थितिवन्ध पूर्वमें ज्ञातव्य है । उसमें ये चार अनुयोगद्वार हैं—स्थिति बन्धस्थान प्ररुवणा, निपेक्-प्ररुवणा, आथाधा काण्डक प्ररुवणा, और अण बहुव ।

२. भवस्थिति व कायस्थितिमें अन्तर

रा वा /३/३६/६/२१०/३ एकभवविषया भवस्थिति । कायस्थिति-रेककायापरित्यागेन नानाभवग्रहणविषया । = एक भवकी स्थिति भवस्थिति कहलाती है और एक कायका परिदयाग किये बिना अनेक भवविषयक कायस्थिति होती है ।

३. एकसमयिक बन्धको बन्ध नहीं कहते

ध १३/५,४,२४/५४/५ टिट्ठि-अणुभागवभावेण सुक्कडु पयित्तवा-ल्लुअमुट्ठि व्व जीवसवधविदियसमए चैव णिवद तस्स वधववएस-विरोहादो । = स्थिति और अनुभाग बन्धके बिना शुष्क भीतप-फैकी गयी सुट्ठीभर धालुकाके समान जीवसे सम्बन्ध होनेके दूसरे समयमें ही पतित हुए सातावेदनीय कर्मको बन्ध सज्ञा देनेमें विरोध आता है ।

४. स्थिति व अनुभाग बन्धकी प्रधानता

रा वा /६/३/७/५०७/३१ अनुभागबन्धो हि प्रधानभूत तन्नमित्तत्वात् सुखदु खविपाकस्य । = अनुभागबन्ध प्रधान है, वही सुख-दु ख रूप फलका निमित्त होता है ।

गो क/जो प्र १००/१७२/८ एतेषु षट्सु ससु जीवो ज्ञानदर्शनावरणद्वय
भूयो बध्नाति प्रतुरवृत्त्या स्थिरयनुभागी बध्नातीत्यर्थः । = इन छट्
(प्रत्यनीक आदि) कार्यके होते जीव ज्ञानावरण और दर्शनावरण
कर्मको अधिक बाँधता है अर्थात् ज्ञानावरण व दर्शनावरण कर्मकी
स्थिति व अनुभागको प्रचुरता लिये बाँधे है ।

प ध /उ /१३७ स्वार्थक्रियासमर्थोऽत्र बन्ध स्याद् रससज्जिक । शेषवन्धत्रि-
कोऽप्येष न कार्यवरणक्षमः । १६३७ = केवल अनुभाग नामक बन्ध ही
बाँधने रूप अपनी क्रियामें समर्थ है । तथा शेषके तीनों बन्ध
आत्मको बाँधने रूप कार्य करनेमें समर्थ नहीं है ।

३. निपेक रचना

१. निपेक रचना ही कर्मोंकी स्थिति है

ध ६/१,६-७,४३/२००/१० ठिदिबधे पिसेयविरयणा परूबिदा । ण सा
पदेसेहि विणा सभवादि, विरोहादो । तदो तत्तो चेव पदेसवधो
वि सिद्धो । = स्थिति बन्धमें निपेकोंकी रचना प्ररूपण की गयी है ।
वह निपेक रचना प्रदेशोंके बिना सम्भव नहीं है, क्योंकि, प्रदेशोंके
बिना निपेक रचना माननेमें विरोध आता है । इसलिए निपेक
रचनासे प्रदेश बन्ध भी सिद्ध होता है ।

२. स्थिति बन्धमें निपेकोंका त्रिकोण रचना सम्बन्धी नियम

गो क/मू/१२०-१२१/११०४ आबाह्न भोजाविय पढमणितेगन्मि देय
बहुग तु । तत्तो विसेसहोणं विदियस्सादिमणितेओत्ति । १२० । विदिये
विदियणितेगे हाणी पुविग्रलहाणि अद्धं तु । एव गुणहाणि पडि
हाणी अद्धद्वय होदि । १२१ = कर्मोंकी स्थितिमें आधाधा कालके पीछे
पहले समय प्रथम गुणहानिके प्रथम निपेकमें बहुत द्रव्य दिया जाता
है । उसके ऊपर दूसरी गुणहानिका प्रथम निपेक पर्यत एव-एक चय
घटता-घटता द्रव्य दिया जाता है । १२० । दूसरी गुणहानिके दूसरे निपेक-
उस हीके पहले निपेकसे एक चय घटता द्रव्य जानना । जो पहिली
गुणहानिमें निपेक-निपेक प्रति हानि रूप चय था, तिसने दूसरी
गुणहानिमें हानि रूप चयका प्रमाण आधा जानना । इस प्रकार ऊपर-
ऊपर गुणहानि प्रति हानिरूप चयका प्रमाण आधा-आधा जानना ।

गो, क/मू/१४०/११३६ उक्त्सट्ठिदिबधे सयलाबाहा हु सव्वठिदि-
रयणा । तक्काले दोसदि तो धोघो बध्दिठदीण च । = विवक्षित
प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थिति बन्ध होनेपर उसी कालमें उत्कृष्ट स्थितिकी
आभावा और सब स्थितिकी रचना भी दायी जाती है । इस कारण
उस स्थितिके अन्तके निपेकसे नीचे-नीचे प्रथम निपेक पर्यत स्थिति
बन्ध रूप स्थितियोंकी एक-एक समय हीनता देखनी चाहिए ।

३. कर्म व नोकर्सकी निपेक रचना सम्बन्धी विशेष सूची

१ चौदह जीवसमाप्तोंमें मूल प्रकृतियोंकी अन्तरोपनिधा परम्परो-
पनिधाकी अपेक्षा पूर्णस्थितिमें निपेक रचना

(म व २/४-१६/६-१२) ।

२. उपरोक्त प्रिय उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा

(म व २/१६-२८/२२८-२२६) ।

३. नोकर्सके निपेकोंकी समुत्कीर्तना

(प ख १/२,६/५/२४६-२४८/३३१) ।

४. उत्कृष्ट व जघन्य स्थितिवन्ध सम्बन्धी नियम

१ मरण समय उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सम्भव नहीं

ध १२/४,२,१३,६/२७८/१२ चरिमसमये उक्त्सट्ठिदिबध्नाभावादो ।
= (नारक जीवके) अन्तिम समयमें उत्कृष्ट स्थितिवन्धका
अभाव है ।

२. स्थितिवन्धमें संक्लेश विशुद्ध परिणामोंका स्थान

प स /प्रा /४/४२५ सव्वट्ठिदीणमुक्त्ससओ दु उक्त्ससविलेसेण । विव-
रोओ दु जहणो आउगतिग वज्ज सेमाण । ४२५ । = आयुत्रिकको छोड़कर
शेष सर्व प्रकृतियोंकी स्थितियोंका उत्कृष्ट बन्ध उत्कृष्ट सवत्तेशे होता
है और उनका जघन्य स्थितिवन्ध विपरीत अर्थात् संक्लेशके कम
होनेसे होता है । (यहाँपर आयुत्रिकसे अधिप्राय नग्कायुके बिना शेष
तीन कर्मोंसे है । (गो क/मू/१३४/१३२), (प स /म /४/२३६),
(ल सा /भापा/१७/३) ।

गो क/जो प्र /१३४/१३२/१७ तत्त्रयस्य तु उत्कृष्ट उत्कृष्टविशुद्धपरिणा-
मेन जघन्य तद्विपरीतेन भवति । = तीन आयु (तिर्यग्, मनुष्य व
देवायु) का उत्कृष्ट स्थितिवन्ध उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामोंसे और
जघन्य स्थितिवन्ध उससे विपरीत अर्थात् कम संक्लेश परिणामसे
होता है ।

३. मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्धक कौन

क पा ३/३-२२/४२२/१६/५ तत्थ ओघेण उक्त्सट्ठिदी वत्स । अण्ण-
दरत्स, जो चउट्ठाणिय जवमउभत्स उवरि अंतोकोडाकोडि बधतो
अच्छिदो उक्त्ससविलेस गधो । तदो उक्त्सट्ठिदी पयदा तत्स
उक्त्सस्य होदि । = जो चतुस्थानीय यवमध्यके ऊपर अन्त कोडा-
कोडी प्रमाण स्थितिको बाँधता हुआ स्थित है और अनन्तर उत्कृष्ट
संक्लेशको प्राप्त हुआ, जिसने उत्कृष्ट-उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध किया
है, ऐसे किसी भी जीवके मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति होती है ।

४ उत्कृष्ट अनुभागके साथ उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी व्याप्ति

ध १२/४,२,१३,६/३६०/१३ यदि उक्त्सट्ठिदीए सह उक्त्सस-
सविलेसेण उक्त्ससविसरोपच्चण उक्त्ससाणुभागे पयदो तो
कालवेयणाए सह भाओ वि उक्त्ससा होदि । उक्त्ससविसेन-
पच्चयाभावे अणुत्सामो चेव । = यदि उत्कृष्ट स्थितिके साथ
उत्कृष्ट विषय प्रत्ययरूप उत्कृष्ट संक्लेशके द्वारा उत्कृष्ट अनुभाग
बाँधा गया है तो काल वेदना (स्थितिवन्ध) के साथ भाव (अनु-
भावी) भी उत्कृष्ट होता है । और (अनुभाग सम्बन्धी) उत्कृष्ट विषय
प्रत्ययके अभावमें भाव (अनुभाग) अनुत्कृष्ट ही होता है । (ध १२/
४,२,१३,४०/३६३/४) ।

ध १२/४,२,१३,४०/२६०/६ उक्त्ससाणुभाग बध्माणो णिचरण
उक्त्ससिय चेव ट्ठिदि बध्दि, उक्त्ससविलेसेण विणा उक्त्ससाणु-
भागधभावादो । = उत्कृष्ट अनुभागकी बाँधनेवाला जीव
निश्चयसे उत्कृष्ट स्थितिको ही बाँधता है, क्योंकि उत्कृष्ट संक्-
लेशके बिना उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध नहीं होता है ।

५ उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल

क पा १/३-२०/६,२८/३१६/३ कम्माणमुक्त्सट्ठिदिबध्नाभावादो ।
दोहमुणत्सट्ठिदीण विचालिमअणुत्सट्ठिदिबध्नाणो तास्मिस्स

ति भण्डि हादि । एगसमओ जहणतर विण्ण होदि । ण उक्कस्स-
ट्ठिदि बधिय पडिहग्गस्स पुणो अतोमुहुत्तेण विणा उक्कस्सट्ठिदि-
वधाम्भवादो । = कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिको बाँधनेवाला जीव
अनुकृष्ट स्थितिको कर्मसे कम अन्तर्मुहूर्त काल तक बन्ध करता है
उसके अन्तर्मुहूर्तके बाद पुन पूर्वार्त्त पूर्वार्त्तको उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध
पाया जाता है । प्रश्न—जघन्य अन्तर एक समय क्यों नहीं होता ।
उत्तर—नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट स्थितिको बाँधकर उससे च्युत हुए
जीवके पुन अन्तर्मुहूर्त कालके विना उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध नहीं
होता, अत जघन्य अन्तर एक समय नहीं है ।

६. जघन्य स्थितिवन्धमे गुणहानि सम्मज नहीं

घ ६/१९-७, ३/१८-१/१ एरथ गुणहानीओ णत्थि, पल्लिदोवमस्स अस-
खेज्जदि भागमेत्तट्ठिदीए विणा गुणहानीए अमभवादो । = इस
जघन्य स्थितिमें गुणहानियाँ नहीं होती है, क्योंकि, पश्योपमके
असख्यातवें भागमात्र स्थितिके विना गुणहानिका होना अस-
म्भव है ।

७. साग व तीर्थकर प्रकृतियोंकी ज. उ. स्थितिवन्ध सम्बन्धी दृष्टिभेद

घ ११/४-२६, १८-१/३२१/६ उवरिमणाणागुणहाणिसलागाओ सेडिछेद-
णाहिंतो बहुगाओ त्ति के वि आइरिया भणति । तेमिमाइरियाग-
महिप्पाएण सेडीए अमखेज्जदिभागमेत्ता जीवा उवरि तप्पाओग्ग-
सरेज्जगुणहानीओ गत्तुण होंति । ण च एव ववत्ताण अण्णोण्णवमत्थ-
रासिस्स पल्लिदोवमस्स असरेज्जदिभागत्तुवलभादो । = (साता
वेदनीयके द्वि स्थानिक यव मध्यसे तथा असाता वेदनीयके चतुस्थान-
निक यव मध्यसे ऊपरकी स्थितियोंमें जीवोंकी) 'नाना गुणहानि
शलाकार्थं श्रेणिके अर्धच्छेदोसे बहुत है' ऐसा कितने ही आचार्य
कहते हैं । उन आचार्योंके अभिप्रायसे श्रेणिके असख्यातवें भाग
प्रमाण जीव आगे तत्प्रायोग्य असख्यात गुणहानियाँ जाकर हैं ।
परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि इस व्याख्यानमें अन्योन्याभ्यस्त राशि
पश्योपमके असख्यातवें भाग प्रमाण पायी जाती है ।

घ, १२/४-२, १४, ३८/४६४/१२ आदिमत्तमदोहि वासपुधत्तं हि ऊणदो-
पुड्ढकोडीहि सादिरैयतेत्तीससागरोपममेत्ता तित्थयरस्स समयपवद्ध-
ट्ठदा होदि त्ति के वि आइरिया भणति । तण्ण घडदे । कुदो ।
आहारदुग्गस्स सरेज्जवासमेत्ता तित्थयरस्स सादिरैयतेत्तीससागरो-
पममेत्ता समयपवद्धट्ठदा होति त्ति सुत्ताभावादो । = आदि और
अन्तके दो वर्ष पृथक्वर्षसे रहित तथा दो पूर्व कौटि अधिक तीर्थकर
प्रकृतिकी तैत्तीस सागरोपम मात्र समय प्रवद्धार्थता होती है, ऐसा
कितने ही आचार्य कहते हैं । परन्तु वह घटित नहीं होता, क्योंकि,
आहारशुद्धिकी सख्यात वर्ष मात्र और तीर्थकर प्रकृतिकी साधक
तैत्तीस सागरोपम प्रमाण समय प्रवद्धार्थता है, ऐसा कोई सूत्र नहीं है ।

५ स्थितिवन्ध सम्बन्धी शका-समाधान

१. साताकं जघन्य स्थिति बन्ध सम्बन्धी

घ ६/१९-७, ३/१८-१/१ तीसियस्स वसणावरणीयरम अतोमुहुत्तमे-
त्तट्ठिदि बधमाणे सुहुमसागराइयो तीसियवेदणीयभेदस्स सादावेद-

णीयरस पण्णारमसागरोवमकोडाकोडी उववरसट्ठिदिअरस बध
वारसमुहुत्तिय जहणट्ठिदि बवदे । ण, दसणावरणादा सुहस्स
सादावेदणीयरस विसोधीदो मुट्ठ ट्ठिदिबधोवट्टणाभागा । = तीस
कोडाकोडी सागरोपमकी उत्कृष्ट स्थितिके दशनावरणीय कर्मकी
अन्तर्मुहूर्त मात्र जघन्य स्थितिके बाँधनेवाला सूक्ष्म मास्पराय सयत
तीस कोडाकोडी सागरोपमकी उत्कृष्ट स्थिति वाले वेदनीयकर्मके
भेदस्वरूप पन्द्रह कोडाकोडी सागरोपम प्रमित उत्कृष्ट स्थितिके
साता वेदनीय कर्मकी बारह मुहूर्त वाली जघन्य स्थितिके कैसे
बाँधता है । उत्तर—नहीं, क्योंकि, दशनावरणीय कर्मकी अपेक्षा
शुभ प्रकृति रूप सातावेदनीय कर्मकी विशुद्धिके द्वारा स्थितिवन्ध-
की अधिक अपवर्तनाका अभाव है ।

२. उ. अनुभागके साथ अनुकृष्ट स्थिति बन्ध कैसे

घ १२/४-२, १३, ४०/३६३/६ उवकस्साणुभाग बवमाणो णिच्छएण उवक-
सिय चैव ट्ठिदि बधदि, उवकस्ससक्खिलेसेण विणा उवकस्साणु-
भागवधाभावादो । एव सते बधमुत्तरसाणुभागे णिरुद्धे अणुक्कस्स-
ट्ठिदीए सभवो त्ति । ण एस दोसो, उक्कस्साणुभागेण सह उक्कस्स-
ट्ठिदि बधिय पडिभग्गस्स अधट्ठिदिगलणाए उक्कस्सट्ठिदीदो
समज्जादिवियत्तुपुलभादो । ण च अणुभागरस अद्धट्ठिदिगलणाए
घादो अत्थि, सरिसधणिय परमाणुण तत्थुवलभादो । पडिभग्ग-
पढमसमयप्पहुडि जाण अतं मुहुत्तकालो ण गदो ताव अणुभागवज्ज-
घादाभावादो । = प्रश्न—क्योंकि उत्कृष्ट अनुभागकी बाँधनेवाला
जीव निश्चयसे उत्कृष्ट स्थितिको ही बाँधता है, क्योंकि उत्कृष्ट
सव्लेशके विना उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध नहीं होता, अतएव ऐसी
स्थितिमें उत्कृष्ट अनुभागकी विवक्षामें अनुकृष्ट स्थितिकी सम्भावना
कैसे हो सकती है । उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट
अनुभागके साथ उत्कृष्ट स्थितिको बाँधकर प्रतिभग्न हुए जीवके अध-
स्थितिके गलनेसे उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा एक समय हीन आदि
स्थिति विकल्प पाये जाते हैं । और अध स्थितिके गलनेसे अनुभागका
घात कुछ नहीं होता है, क्योंकि, समान धनवाले परमाणु वहाँ पाये
जाते हैं । प्रतिभग्न होनेके प्रथम समयसे लेकर जब तक अन्तर्मुहूर्त
काल नहीं बीत जाता है तब तक अनुभाग काण्डक घात सम्भव
नहीं है ।

३. विग्रह गतिमें नारकी सञ्जीका भुजगार स्थितिवन्ध कैसे

क पा ४/३-२२/४६१/२७/७ सक्खिलेसखएण विणा त्थियममए बध
सण्णि ट्ठिदि बधदि । ण सक्खिलेसेण विणा सण्णिर्थाचदियजादि
मस्सिसुण ट्ठिदिबधवट्टीए उवलभादो । = प्रश्न—सव्लेश क्षयके
विना (विग्रहगतिके) तीसरे समयमें वह (नरक गतिको प्राप्त करने
वाला) जीव मञ्जीकी (भुजगार) स्थितिको कैसे बाँधता है ।
उत्तर—क्योंकि सव्लेशके विना सञ्जी पचेन्द्रिय जातिके निमित्तसे
उसके स्थितिवन्धमें वृद्धि पायी जाती है ।

६. स्थितिविध प्ररूपणा—

१ मूलोत्तर प्रकृतियोंकी जघन्योच्छ्रुत आवाधा, व स्थिति तथा उनका स्वामित्व—(त सु /१४-३०), (म आ/१२३७-२२३६), (प स/मा/४३६२-४४०), (प स/स/४/१६६-२०७), (वत न/२-६४), (घ ङ/१४६-१६८), (घ ङ/१४६०-४६७), (म व २/३४/९७), (म व २/३४/९७), (घ ङ/१४६०-४६७), (म व २/३४/९७), (गो क/१२८-१३३, १३६-१४०, १४६-१४९), (गो क/प्र/१६२/१६६/२), (त सा/४/४३-४६)

क्र	प्रकृति	उच्छ्रुत						जघन्य							
		काल			स्वामित्व			काल			स्वामित्व				
		घ १२/४	अवाधा	स्थिति	विवरण	विवरण	स्थिति	मो. वू आ	अवाधा	स्थिति	विवरण	मो. वू आ	अवाधा	स्थिति	विवरण
(१) ज्ञानावरणीय—															
मूल	४२६	३	३०	४३२ १	चारों गति उत व मध्य										
पाँचों	४२६	"	"	१ १	संज्ञा	१२२									
(२) दर्शनावरणीय—															
मूल	४२६	"	"	"	"	१२४									
निद्रानिद्रा	"	"	"	"	"	"									
प्रचलाप्रचला	"	"	"	"	"	"									
सत्या, गुह्रि.	"	"	"	"	"	"									
निद्रा	"	"	"	"	"	"									
प्रचला	"	"	"	"	"	"									
चशु. द.	"	"	"	"	"	"									
अपशु. व	"	"	"	"	"	"									
अवाधि	"	"	"	"	"	"									
केवल द.	"	"	"	"	"	"									
(३) वेदनीय—															
मूल	४२६	"	"	"	"	१२६									
साता	४२६	३	३०	"	"	१२६									
असाता															

क्र	प्रकृति	उत्कृष्ट				अवच्य					
		काल		स्थिति	स्वामित्व		काल		स्थिति	स्वामित्व	
		घ १२/१४	अनाथा		विवरण	गे सू आ.	अनाथा	विवरण			
		१६०	सहस्र वर्ष	का का सा	१६०	अन्तर्मुहूर्त	१६०	अन्तर्मुहूर्त	१६०	अन्तर्मुहूर्त	
(४)	मोहनीय- मूल		७	७०	४३२ १	(विशेष दे स्थिति/४/३)	१६६	अन्तर्मुहूर्त	४२४	अन्तर्मुहूर्त	
	दर्शनमोहनीय-										
१	मिथ्यात्व प्र	४६०	"	"	"	चारों गतिमें उ व म सन्देश	१६६	"	१/७ सा *	अन्तर्मुहूर्त	
२	सम्यक्त्व प्र	क पा ३/१६६	"	"	"	" सत्त्व	१६७	"	"	"	
३	सम्यग् मि		"	"	"	"	"	"	"	"	
	चारित्र मोहनीय-										
१-४	मूल	ल सा २२२/२७६	४	४०	"	चारों गतिके उत्तम मध्यम	"	अन्तर्मुहूर्त	१६८	अन्तर्मुहूर्त	
	अल चतु.	४६०	"	"	"	सन्देश	"	"	"	"	
५	अप्र चतु.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
१२	प्रत्या चतु	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
१३	सं क्रोध	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
१४	स मान	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
१५	स माया	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
१६	स लोभ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
	नोकषाय-										
१	हास्य	४६०	१	१०	"	"	१६०	"	२/७ सा *	अन्तर्मुहूर्त	
२	रति	"	१	२०	"	"	"	"	"	"	
३	अरति	१६६	२	२०	"	"	"	"	"	"	
४	शोक	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
५	भय	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
६	जुगुप्सा	"	"	"	"	"	"	"	"	"	

क्र	प्रकृति	उत्कृष्ट				अधम्य						
		काल		स्वामित्व	काल		स्वामित्व					
		ध १२/५. ५/३	अमाथा		स्थिति	विवरण		गो सा सू आ ५/३	अमाथा	स्थिति	विवरण	
७	नी वेद	१५८	४६०	सहस्र वर्ष १३	को को सा १५	४३२ १	चारों गतिके उत्तम मध्यम मन्वेला	१६०	अत्तर्मुहूर्त	२/७ सा * ८ वर्ष	१६२ ४३४	सर्व विशुद्ध ना एकेन्द्रिय प, अनिवृत्तिकरण क्षपक
८	पुरुष वेद	१६२	"	१	"	"	"	१६६	गो/१४०	"	४३३	सर्व विशुद्ध ना एकेन्द्रिय प,
९	नपुंसक वेद	१६३	"	२	"	"	"	१६०	"	२/७ सा *	१६२ ४३४	सर्व विशुद्ध ना एकेन्द्रिय प,
(१०)	आयु--											
१	मून	१६६	गो सू आ.	१/३ सू को	३३	४३२ १	"	१६३	"	अत्तर्मुहूर्त	४३४	वर्म धूमिल मनुष्य तिर्यंच मि सज्ञी पंचे, ति संवेला
२	नरकायु	१६६	"	"	"	४३१ "	मनुष्य व सज्ञी प पंचे	१६३	"	१०,००० वर्ष	"	परिणत या सर्वविशुद्ध सज्ञी पंचे पर्याप्त।
३	तिर्यंचायु	१६६	"	"	३ परम	"	"	१६३	"	सुदभव	४३४	वर्म धूमिल मनुष्य व तिर्यंच सन्वेला युक्त
४	मनुष्यायु	१६६	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
५	देवायु	१६६	"	"	"	"	प्रमत्त सयत	"	"	१०,००० वर्ष	१६३ ४३४	सज्ञी व असज्ञी तिर्यंच सर्व विशुद्ध असज्ञी तिर्यंच या सन्वेलायुक्त सज्ञी पर्याप्त
(६)	नाम--											
६	मून	१६३	४६२	२	२०	४२७ ६	"	१६५	"	८ सुहूर्त	४४०	सन्वेलायुक्त असज्ञी पंचे, प.
७	गति--											
८	नरक	१६३	४६२	२	२०	४३१ "	मनु व ति सज्ञी प पंचे.	१६५	"	२/७ सा.*	१६३ ४३४	सन्वेलायुक्त असज्ञी पंचे, प.

क्र	प्रकृति	उत्कृष्ट					जघन्य					
		काल			स्वामित्व	विवरण	काल			स्वामित्व		
		पृष्ठ सं.	पृष्ठ सं.	स्थिति			विवरण	विवरण	स्थिति	विवरण		
		१६३	४६२	२०	देव नारकी	१६०	४६०	२/७ सा	सर्व विद्युद्ध ना एकेन्द्रिय पर्याप्त			
	मनुष्य	१६८	४६३	१६	चारों गतिके उत्तम मध्यम सकलेश			"	"	१६२	"	"
	देव	१६२	"	१०	मनु व ति सङ्गी प	१६४	"	"	"	१६४	४६४	सर्व विद्युद्ध असङ्गी ६ चैन्द्रिय
२	जाति— एकेन्द्रिय	१६३	४६२	२०	ईशान देव	१६०	"	"	"	१६२	"	सर्व विद्युद्ध ना एकेन्द्रिय प.
	द्वीन्द्रिय	१७२	४६३	१८	मनु ति प पर्याप्त	"	"	"	"	"	"	"
	चतुरिन्द्रिय	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	पचैन्द्रिय	१६३	४६२	२०	चारों गतिके उत्तम मध्यम सकलेश	"	"	"	"	"	"	"
३	शरीर बन्धन											
	सघात—											
	ओदारिक	१६३		२०	देव नारकी	१६०	"	"	"	१६२	"	"
	वैक्रियक	"		"	मनु व ति सङ्गी प, प	१६४	"	"	"	१६४	४६४	सर्व विद्युद्ध असङ्गी पचे
	आहारक	१७४	४६६	अन्त.	अममत्त	१६७	"	अन्तर्मुहूर्त	अन्त को को	१६७	४६३	अपूर्वकरण क्षपकके १-७ भाग तक
	तैजस	१६३	४६२	२०	चारों गतिके उ. म. सकलेश	१६०	"	"	"	१६२	४६४	सर्व विद्युद्ध ना एकेन्द्रिय प
	कार्माण	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

क्र.	प्रकृति	उत्कृष्ट					अवश्य				
		काल			स्वामित्व		काल			स्वामित्व	
		घ १२/५	अथाथा	स्थिति	विवरण	गो मू. वा	अथाथा	स्थिति	विवरण	५/३	५/३
१०	अर्थ नाराच	४६३	१३	१६	४३२ १	चारों गतिके उ, म, सबलेश	१६०	अन्तर्मुहूर्त	२/० सा *	१६२/४३४	सर्व विद्युद्ध मा एकेन्द्रिय प
११	कीर्तिता	४६३	१३	१८	" "	"	"	"	"	"	"
१२	असमाप्त सू.	४६३	२	२०	४३१ १	देव नारकी	"	"	"	"	"
१३	स्पर्श (आठों)	"	"	"	४३२ "	चारों गतिके उ, म, सबलेश	"	"	"	"	"
१४	रस (पाचों)	"	"	"	" "	"	"	"	"	"	"
१५	गन्ध (दोनों)	"	"	"	" "	"	"	"	"	"	"
१६	वर्ण (पाँचों)	"	"	"	" "	"	"	"	"	"	"
१७	आयुपूर्वी -	"	"	"	" "	"	"	"	"	"	"
१८	नरक	४६३	२	२०	४३१ "	मनु व ति, संज्ञी पं, प	१६४	अन्तर्मुहूर्त	२० सा,	१६४/४३४	संलेशा युक्त असंज्ञी पंचे, प.
१९	तियंच	"	"	"	" "	देव नारकी	१६०	"	"	१६२ "	सर्व विद्युद्ध मा. एके प.
२०	मनुष्य	४६३	१३	१६	४३२ "	चारों गतिके उ, म, सबलेश	"	"	"	"	"
२१	देव	४६३	१	१०	४३१ १	मनु, व ति, संज्ञी प, प.	१६४	"	"	१६४/४३४	सर्व विद्युद्ध असंज्ञी पंचे, प.
२२	अगुरुबहु -	४६३	२	२०	४३२ १	चारों गतिके उ, म, सबलेश	१६०	"	"	१६२ "	" मा एकेन्द्रिय प
२३	उपधात	"	"	"	" "	"	"	"	"	"	"
२४	परधात	"	"	"	" "	"	"	"	"	"	"
२५	आतप	"	"	"	४३१ "	ईशान देव	"	"	"	"	"
२६	उद्योत	"	"	"	" "	देव नारकी	"	"	"	"	"
२७	उच्छ्वास	"	"	"	४३२ "	चारों गतिके उ, म, सबलेश	"	"	"	"	"

क्र.	प्रकृति	उत्कृष्ट				जघन्य								
		काल		स्थिति	स्वामित्व	विवरण	काल		स्थिति	स्वामित्व	विवरण			
		घ. १२/५	अबाधा				अबाधा	स्थिति				१६/१५	१६/१५	
३६	स्वियर	१६२	४६३	१०	को को, सा	४३२	१	१६०	अन्तर्मुहूर्त	२/७ सा *	१६३	४३४	सर्व विद्युद्ध बा एके प	
३७	अस्वियर	१६३	४६२	२०	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
३८	आदेय	१६२	४६३	१०	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
३९	अनावेय	१६३	४६२	२०	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
४०	यज्ञ कीर्ति	१६२	४६३	१०	"	"	"	१६८	"	८ मुहूर्त	१६८	४३३	सू सा क्षपकका अन्तिम समय	
४१	अयज्ञ कीर्ति	१६३	४६२	२०	"	"	"	१६०	"	२/७ सा *	१६२	४३४	सर्व विद्युद्ध बा एके प.	
४२	तीर्थकारत्व	१७४	४६५	अन्तर्मुहूर्त	अन्तर्मुहूर्त	४२७	४	१६७	"	अन्त कोको.	१६७	४३३	अपू क्षपकका १-७ भाग तक	
७	गोत्र—													
	मूल			२०	घाटों गतिके उ. म सकलेश	४३२	१	१६८	"	८ मुहूर्त	१६८	४३३	सू. सा क्षपकका अन्तिम समय	
	उच्च	१६२	४६७	१०	"	"	"		"	"				
	नीच	१६३	"	२०	"	"	"	१६०	"	२/७ सा *	१६०	४३४	सर्व विद्युद्ध बा. एके प	
८.	अन्तराय—													
	मूल		४८६	३०	"	"	"	१६३	"	अन्तर्मुहूर्त		४३३	सू. सा क्षपकका अन्तिमसमय	
	पाँचों	१७६		३०	"	"	"	१६३	"	"	१६३	"	"	

संकेत— * प्रथमका अस से हीन

२ इन्द्रिय मार्गणाकी अपेक्षा प्रकृतियोंका उ. ज. स्थितिकी सारणी—(रा ना ८/१७-२०), (म न २/२४/१७-२६), (घ ६/१६६)।

क्र.	प्रकृति	एकेन्द्रिय		द्वीन्द्रिय		त्रोन्द्रिय		चतुर्न्द्रिय		असङ्गी पचेन्द्रिय		सङ्गी पचेन्द्रिय	
		उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य
१	ज्ञानारणीय	सागर	सागर	सागर	सागर	सागर	सागर	सागर	सागर	सागर	सागर	सागर	अन्तर्मुहूर्त
२	दर्शनावरणीय	१	१-पश्य/अस	२५	२५-पश्य/अस	५०	५०-पश्य/अस	१००	१०० पश्य/अस	१०००	१०००-पश्य/अस	१०००	१
३	वेदनीय	३/७	३/७-पश्य/अस.	७५/७	७५/७-पश्य/अस	१५०/७	१५०- " / "	३००/७	३००/७- " / "	३०००/७	३०००/७- " / "	३०००/७	"
४	दर्शन मोहनीय	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	१२
५	स्वाय	१	१-पश्य/अस	२५	२५-पश्य/अस.	५०	५०- पश्य/अस.	१००	१००-पश्य/अस.	१०००	१०००-पश्य/अस	१०००	१
६	नोपयाम "	४/७	४/७-पश्य/अस	१००/७	१००/७- " / "	२००/७	२००/७- " / "	४००/७	४००/७- " / "	४०००/७	४०००/७- " / "	४०००/७	"
७	नोपयाम "	२/७	२/७- " / "	५०/७	५०/७- " / "	१००/७	१००/७- " / "	२००/७	२००/७- " / "	२०००/७	२०००/७- " / "	२०००/७	"
८	आयु	—	—	—	—	देखो	आयु	—	—	—	—	—	—
९	नाम	२/७	२/७- " / "	५०/७	५०/७- " / "	१००/७	१००/७- " / "	२००/७	२००/७- " / "	२०००/७	२०००/७- " / "	२०००/७	८
१०	गोत्र	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
११	अन्तराय	३/७	३/७- " / "	७५/७	७५/७- " / "	१५०/७	१५०/७-पश्य/अस.	३००/७	३००/७-पश्य/अस	३०००/७	३०००/७- " / "	३०००/७	१

३. उत्कृष्ट व जघन्य स्थिति, प्रदेश व अनुभागके

वन्धकोंकी प्ररूपणा—

१. सारणीमें प्रयुक्त सन्नेतोका अर्थ

- १ मारणान्तिक ससुद्धात रहित ससम पृथिवी की ५०० धनुष अवगाहना-वाला अन्तिम समयवर्ती गुणित कर्माशिक नारकी ।
- २ ससम पृथिवीके प्रति मारणान्तिक ससुद्धात गत महामरस्य ।
- ३ सूक्ष्म साम्परायके अन्तिम समय तथा आगेके सर्वरथान ।
- ४ द्विचरम वा त्रिचरम समयके पहले अन्तर्मुहूर्त काल तक स्थित ससम पृथिवीका मिथ्यादृष्टि नारकी ।
- ५ लोऋपूर्ण ससुद्धात गत केवली ।
- ६ पूर्वकोटिके त्रिभाग प्रमाण आयुकी आबाधा करके ससम नरककी आयु बाँधनेवाला महामरस्य ।
- ७ उत्कृष्ट मनुष्यायु सहित आयु वन्धके प्रथम समय गत प्रमत्त सयत ७-११ गुणस्थान मनुष्य यदि पूर्व कोटिके त्रिभागमें देवायु-

को बाँधे ।

- ८ त्रिमयवर्ती आहारक व तद्गम्य होनेके तृतीय समयमें वर्तमान जघन्य योगवाला सूदम निगोद मध्यपर्याप्त जीव ।
- ९ क्षपित कर्माशिक क्षीणरथागी १२वें गुणस्थानके अन्तिम समयवर्ती सयत ।
- १० चरम समयवर्ती क्षपित कर्माशिक अयोग केवली ।
- ११ चरम समयवर्ती सामान्य कर्माशिक अयोग केवली ।
- १२ अमाता वेदनीगके उदय सहित क्षपक श्रेणीपर चढा हुआ अन्तिम समयवर्ती अयोग केवली ।
- १३ संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त, ५०० धनुष अवगाहनावाला यदि तिर्यच आयु बाँधे, नारकी जीव तेतीस सागरके भीतर अम-गुणहानियों-को गलाकर क्षीपक्षिणाक्रमे स्थित । (ध १२/४६२/१७) ।
- १४ तिर्यचायु बाँधनेवाला अपर्याप्त ।
- १५ क्षपित कर्माशिक सर्वविशुद्ध सूदम निगोद त्रि चरममय स्थित ।
- १६ चादर तेज व वायुनायिक पर्याप्त ।

घ १२/४. २ १३. ७/५ सं./४

प्रकृति	प्रव्य प्रदेश वन्ध			क्षेत्र वन्ध जीवकी अवगाहना			काल वन्धकी स्थिति			भाव अनुभाग		
	प्रमाण	ज	उ	प्रमाण	ज	उ	प्रमाण	ज	उ	प्रमाण	ज	उ
ज्ञानावरणी	३७७-४४६	६	१	३८९	८	२	३८७	६	१	३६९	६	४
दर्शनावरणी	३६५	"	"	३६५	"	"	३६५	"	"	३६५	"	"
वेदनीय	३६६-४४६	१०	"	३६७	"	५	४०९	१९	"	४०२	१२	३
मोहनोय	३६५	६	१	३६५	८	२	३६५	६	१	३६५	६	४
आयु	४०५	१३	६	४०५	"	५	४०६	१०	७	४१९	१४	७
नाम	४०४	११	१	४०४	"	"	४०४	११	१	४०४	१५	३
गोत्र	४०४	"	"	४०४	"	"	४०४	"	"	४०४	१६	"
अन्तराय	३६५	६	"	३६५	"	२	३६५	६	"	३६५	६	४

४. अन्य प्ररूपणाओं सम्बन्धी सूची— (म. व /पृ. सं / $\frac{६ सं}{५ सं}$)

क्र.	प्रकृति	मूल वा उत्तर	विषय	मित्र-मित्र पदा की		अपेक्षा प्रमाण
				ज उ स्थिति	भुजगारादि पद	
१	अष्ट कर्म	मूल	सन्निकर्ष	२/ $\frac{१२६-१३४}{७७-८३}$	२/ $\frac{२६५-२०९}{१५७-१५६}$	२/ $\frac{३८३-२८५}{१६५}$
			भग विचय	३/ $\frac{१३५-१४०}{८३-८७}$		
		उत्तर	सन्निकर्ष	३/ $\frac{१-१४१}{१-१०२}$	३/ $\frac{७६४-७६७}{३६१-}$	
			भगविचय	३/ $\frac{४४२-४४८}{२०२-२०४}$		

नोट—साता असाताके द्वि त्रि रतु स्थानीय अनुभाग वन्धक जीवोंकी अपेक्षा ज उ, स्थिति वन्धका स्वामित्व व उनका अवपनहुत्त्व — (घ. ११/३१६-३३२)

स्थितिकरण—१. स्थितिकरण अंगका लक्षण

१. निश्चय

स. सा /मू/२३४ उम्मग गच्छत सग पि मग्गे ठवेदि जो चेदा । सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिट्ठी मुण्येज्जो । = जो चेतयिता उन्मार्गमें जाते हुए अपने आत्माको भी मार्गमें स्थापित करता है वह स्थितिकरण युक्त सम्मग्दृष्टि जानना चाहिए ।

रा वा /६/२४/१/५२६/१४ कपायोदयादिपु धर्मपरिभ्रशकारणेपु उपस्थित्त्वेष्वात्मनो धर्मप्रच्यवन परिपालनं स्थितिकरणम् । = कपायोदय आदिसे धर्म भ्रष्ट होनेके कारण उपस्थित होनेपर भी अपने धर्मसे परिच्युत नहीं होना, उसका बराबर पालन करना स्थितिकरण है ।

पु. सि उ /२८ कामक्रोधमदादिपु चलयित्तुमुदितेषु वर्त्मनो न्यायात् । श्रुतमात्मन परस्य च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम् । २८ । = काम, क्रोध, मद, लोभादिक भावोंके होनेपर न्याय मार्गसे च्युत करनेको प्रगट होते हुए अपने आत्माको जिस किस प्रकार धर्ममें स्थित करना भी कर्तव्य है । (प ध उ /७६५)

का अ /मू/४२० धम्मादो चलमाणं जो अण्णं सठवेदि धम्मम्मि । अप्पाण पि मुदिद्वयदि ठिदिकरण होदि तस्सेव । ४२० । = जो धर्मसे चलायमान अपनेको धर्ममें दृढ करता है उसीके स्थितिकरण गुण होता है ।

द्र स /टी/४१/१७५/० निश्चयेन पुनस्तेनेव व्यवहारेण स्थितिकरणगुणेन धर्मदृढत्वे जाते सति रागादिविकल्पजालत्यागेन निजपरमात्मस्वभावभावनोरपन्नपरमानन्दैकलक्षणसुखामृततरसास्वादेन तत्तल्यतन्मयपरमसमरसीभावेन चित्तस्थिरीकरणमेव स्थितिकरणमिति । = व्यवहार स्थिति करणगुणसे धर्ममें दृढता होनेपर रागादिविकल्पोंके त्याग द्वारा निज परमात्म स्वभाव भावकी भावनासे उत्पन्न परम आनन्द सुखामृतके आस्वाद रूप परमात्मामें लीन अथवा परमात्म स्वरूपमें समरसी भावसे चित्तका स्थिर करना, निश्चयसे स्थितिकरण है ।

२. व्यवहार

मू आ /२६२ दसणचरणवभट्ठे जीवे दट्ठूण धम्मबुद्धीए । हिदमिदमवगूहिय ते खिप्पं तत्तो णियत्तेइ । २६२ । = सम्मग्दर्शन ज्ञानचारित्रसे भ्रष्ट हुए जीवोंको देव धर्म बुद्धिकर सुखके निमित्त हितमित वचनोंसे उनके दोषोंको दूर करके धर्ममें दृढ करता है वह शुद्धसम्भवस्वी स्थितिकरण गुणवाला है ।

र. क. भ्रा /१६ दर्शनाच्चरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलै । प्रत्यवस्थापन प्राज्ञे स्थितिकरणमुच्यते । १६ । = सम्मग्दर्शन वा चारित्रसे डिगते हुए पुरुषको जो उसीमें स्थिर कर देना है सो विद्वानोंके द्वारा स्थितिकरण अंग कहा गया है ।

का अ /मू/४२० धम्मादो चलमाण जो अण्ण सठवेदि धम्मम्मि । ठिदि-करण होदि तस्सेव । ४२० । = जो धर्मसे चलायमान अन्य जीवको धर्ममें स्थिर करता है । उसीके स्थितिकरण गुण होता है ।

द्र स /टी/४१/१७५/३ चातुर्वर्णसत्तुस्य मध्ये यदा कोऽपि दर्शनचारित्रमहोदयेन दर्शन ज्ञान चारित्र वा परित्यक्त वाञ्छति तदगमविरोधेन-यथाशक्त्या धर्मप्रवणेन वा अर्थेन वा सामर्थ्येन वा केनाप्युपायेन यद्धर्म स्थिरत्वं क्रियते तद्भव्यवहारेण स्थितिकरणमिति । = चार प्रकारके सधर्मसे यदि कोई दर्शन मोहनीयके उदयसे दर्शन-ज्ञानको वा चारित्र मोहनीयके उदयसे चारित्रको छोड़नेकी इच्छा करे तो यथाशक्ति शास्त्रानुसूल धर्मोपदेशसे, धनसे या सामर्थ्यसे या अन्य किसी उपायसे उसको धर्ममें स्थिर कर देना, वह व्यवहारसे स्थितिकरण है ।

पं. ध /उ/८०२ सुस्थितिकरणं नाम परेषा सदनुग्रहात् । भ्रष्टानां स्वपदात्तत्र स्थापन तत्पदे पुन । ८०२ । = स्व व पर स्थितिकरणोंमें अपने पदसे भ्रष्ट हुए अन्य जीवोंको जो उत्तम दया भावसे उनके पदमें फिरसे स्थापित करना है वह परिस्थितिकरण है । ८०२ ।

२. स्वधर्मवाधक परका स्थितिकरण करना योग्य नहीं

पं. ध /उ/८४ धर्मादेशोपदेशाभ्यां कर्तव्योऽनुग्रह परे । नारमव्रतं विहायास्तु तत्पर पररक्षण । ८०२ । = धर्मके आदेश वा उपदेशसे ही दूसरे जीवोंपर अनुग्रह करना चाहिए । किन्तु अपने व्रतको छोड़कर दूसरोंके व्रतोंकी रक्षा नहीं करनी चाहिए । ८०२ ।

स्थितिकल्प—साधुके १० स्थितिकरण । दे. साधु/२/३ ।

स्थितिकांडक घात—दे. उपकर्षण/४ ।

स्थितिवंधापसरण—दे. अपकर्षण/३ ।

स्थितिवंधोत्सरण—दे. उत्कर्षण/५ ।

स्थितिभोजन—साधुका एक मूलगुण—दे. साधु/२/२ ।

स्थितिसत्त्वापसरण—दे. अपकर्षण/३ ।

स्थिर—कण्डल पर्वतस्थ अरु कूटका स्वामी देव—दे. लोक/७ ।

स्थिर—१. स्थिर व अस्थिर नामकर्मका लक्षण

स. सि /५/११/३६२/५ स्थिरभावस्य निर्वर्तक स्थिरनाम । तद्विपरीतमस्थिरनाम । = स्थिर भावका निर्वर्तक कर्म स्थिर नामकर्म है, इससे अस्थिर नामकर्म है ।

रा वा /५/११/३४-३५/७६/२२ यदुदयात् दुष्करोपवासादितपस्करणेऽपि अङ्गोपाङ्गानां स्थिरत्वं जायते तत् स्थिरनाम । ३४ । यदुदयादीपद्रुपवासादिकरणात् स्वल्पशीतोष्णादिसंबन्धाच्च अङ्गोपाङ्गानि कृशीभवन्ति तदस्थिरनाम । = जिसके उदयमें दुष्कर उपवास आदि तप करनेपर भी अंग-उपंग आदि स्थिर बने रहते हैं, कृश नहीं होते वह स्थिर नामकर्म है । तथा जिससे एक उपवाससे या साधारण शीत उष्ण आदिसे ही शरीरमें अस्थिरता आ जाय, कृश हो जाय वह अस्थिर नामकर्म है ।

ध. १३/५.५.१०१/३६५/१० जस्य कम्मस्सुदण रसादीण सगसरूवेण केत्तिय पि कालमवट्ठान होदि त्थिरणाम । जस्य कम्मस्सुदण रसादीणमुवरिमधादुसरूवेण परिणामो होदि तमथिरणाम । = जिस कर्मके उदयसे रसादिक धातुओंका अपने रूपसे कितने ही कालतक अवस्थान होता है वह स्थिर नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे रसादिकोंका आगेकी धातुओं स्वरूपसे पणिमन होता है वह अस्थिर नामकर्म है । (ध. ६/१.६-१.२८/६३/३); (गो. जी /जो प्र /३३/३०/३) ।

२. सप्त धातु रहित विग्रह गतिमें स्थिर नामकर्मका क्या कार्य है

ध. ६/१.६-१. २८/६४/६ सत्तधाउविरहिदविग्गहगदीए वि थिराथिराण-मुदयदसणादो णेदामि तत्थ वापारो त्ति णामकणिज्जं, सजोगिक्खेवत्ति-परघादस्मेव तत्थ अवनत्तोदण अवट्ठानादो । = प्रश्न—सप्त धातुओंसे रहित विग्रहगतिमें भी स्थिर और अस्थिर प्रकृतियोंका उदय देखा जाता है, इसलिए इनका वहाँ पर व्यापार नहीं मानना चाहिए । उत्तर—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मयोगेवन्ती भगवान्में परघात प्रकृतिके समान विग्रहगतिमें उन प्रकृतियोंका अन्यत्र उदयरूपसे अवस्थान रहता है ।

* स्थिर नामकर्मकी बन्ध उदय सत्त्व प्ररूपणाएँ व तत्सम्बन्धी शांका समाधान—दे. वट वट नाम ।

स्थूणा—औदारिक शरीरमें स्थूणाओंका प्रमाण—दे औदारिक/१।

स्थूल—दे सूक्ष्म।

स्थूलभद्र—आचार्य भद्रबाहु प्रथम (पंचम श्रुतकेवली) के शिष्य थे। १२ वर्षीय दुर्भिक्षके अवसरपर आपने उनकी चातको अस्वीकार करके दक्षिणकी ओर विहार न किया और उज्जैनीमें ही रह गये। दुर्भिक्ष आनेपर उनके सघमें शिथिलाचार आया और वे 'अर्ध फालक' (दे श्वेताम्बर) बन गये। भद्रबाहु स्वामीकी दक्षिणमें ही समाधि हो गयी, परन्तु दुर्भिक्षके समाप्त होनेपर उनके शिष्य विशालाचार्य आदि लौटकर पुन उज्जैनीमें आये। उस समय आप (स्थूल भद्र) ने अपने सघको शिथिलाचार छोड़ पुन शूद्राचरण अपनातेको कहा। इसपर सघने रुष्ट होकर इन्हें जानसे मार दिया। ये एक व्यन्तर बनकर सघपर उपद्रव करने लगे। जिसे शान्त करनेके लिए सघने कुलदेवताके रूपमें इनकी पूजा करनी प्रारम्भ कर दी। इनके अपर नाम स्थूलाचार्य व रामभ्य भी थे। इस कथाके अनुसार इनका समय भद्रबाहु तृतीयसे लेकर विशालाचार्यके कुछ काल पश्चात् तक बी. नि १३३-१६७ (ई पू ३६४-३६०) आता है।—दे श्वेताम्बर।

स्थूलाचार्य—अपर नाम स्थूलभद्र—दे स्थूलभद्र।

स्नातक—१. स्नातक साधुका लक्षण

स.सि /६/४६/४६०/१११श्रीणघातिरुर्माण केवलिनो द्विविधा स्नातका ।
=जिन्होंने चार घातिया कर्मोंका नाश कर दिया है, ऐसे दोनों प्रकारके केवली स्नातक कहलाते हैं। (रा वा /६/४६/४/६३६/३।), (चा सा /१०२/२)।

त सा /५/२४ तत क्षीणवस्तुक्कमप्राप्तोऽप्राख्यातसयमम् । बीजबन्धन-निर्मूक्त स्नातक । =चारों घातियाकर्म नष्ट होते ही यथाख्यात संयमकी प्राप्ति होती है। बीजके समान बन्धनका निर्मूल नाश होनेसे बन्धन रहित हुए योगी स्नातक कहाने लगते हैं।

* स्नातक साधु सम्बन्धी विषय—दे साधु/४।

स्नान—अस्नान मूलगुणका लक्षण

मू आ /३१ ण्णाणादिवज्जणेण य विलिप्तज्वलम्वलसेदसुव्वग । अण्हाणं घोरगुण संजमद्दुगपालय मुणिणो ।३१। =जलसे नहाना रूप स्नानादि क्रियाओंके छोड़ देनेसे ज्वल म्वल स्वेद रूप देहके मूलकर लिप्त हो गया है सय अंग जिममें ऐसा अस्नान नामक महागुण साधुके होता है। अन घ /६/६= न ब्रह्मचारिणामर्थो विशेषादात्मदक्षिणाम् । जलशुद्धयाथवा यावद्दोष सापि मताहर्तते । ६८। =ब्रह्मचारी तथा विशेषकर आत्म-दक्षिणोंको जो कि स्वयं पवित्र हैं उनके लिए स्नान किस प्रयोजनका। किन्तु अस्पर्श दोष होनेपर उसकी शुद्धिके लिए उसकी आवश्यकता है।

२. साधुके अस्नान गुण सम्बन्धी शंका समाधान

भ. आ /वि /६३/२२६-२३०/२० स्नानमनेकप्रकारं शिरोमात्रप्रक्षालन, शिरो मुखवा अन्यस्य वा गात्रस्य, समस्तस्य वा । तत्र शीतोदकेन क्रियते स्थावराणां प्रसार्तां च बाधा माभूदिति । उष्णोदकेन स्नायादिति चेन्न, तत्र त्रसस्थावरमाधावस्थितैव । न चास्ति प्रयोजन स्नानेन सप्तधातुमयस्य देहस्य न शुधिता क्षयमा कर्तुं । ततो न शीचप्रयोजन । न रोगापट्टतये रोगपरीपहसहनाभावप्रसगात् । न हि भूपायै विराग-त्वात् । श्रुततेलादिभिरभयञ्जनमपि न करोति प्रयोजनाभावाद्दुक्तेन प्रकारेण घृतादिना क्षारेण स्पृष्टा भूम्यादिजन्तवो बाध्यन्ते । तत्राश्च तत्रावलगना । =स्नान अनेक प्रकार है—जलसे केवल मस्तक धोना, अथवा मस्तक छोड़कर अन्य अवयवोंको धोना अथवा समस्त अवयवोंको धोना, परन्तु त्रस और स्थावर जीवोंको बाधा न होवे

इसलिए मुनि शीतल जलसे स्नान नहीं करते हैं। प्रश्न—ठंडे जलसे स्नान नहीं करते तो गरम पानीसे क्यों नहीं करते हैं। उत्तर—नहीं, गरम जलसे स्नान करनेमें भी त्रसस्थावर जीवोंको बाधा होती ही है। मुनियोंको जलस्नानकी आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि, जल स्नानमें त्रस धातुमय देह पवित्र नहीं होता। इस वास्ते शुचिसाधके लिए स्नान करना भी योग्य नहीं है, रोग परिहारके लिए भी स्नानकी आवश्यकता नहीं है, यदि वे स्नान करने लगे तो गग परीपट सहन करना व्यर्थ होगा। शरीर गौन्दर्घ्य युक्त होनेके लिए भी वे स्नान नहीं करते, क्योंकि वे पीतराग हैं। मुनि, धी, तंन इत्यादिकमें अभ्यगस्नान भा वृत्र प्रयोजन न होनेसे करते नहीं हैं। घृतादि क्षार पदार्थोंका स्पर्श होनेसे भूमि वर्गपरमें गटने जाने उन्तुओंको पीड़ा होती है, भूमिपर चिपके हुए जीव इधर उवर होते हैं, गिरते हैं, तब उनको एक स्थानसे दूसरे स्थान पर जाते समय बाधा पहुँचती है।

३. गृहस्थ व साधुकी स्नान विधि

सा घ /२/३४ स्नारम्भसेवाम्बिनष्ट, स्नात्वा कण्ठमयाशिर । म्वय यजेताहृत्पादानम्नातोऽन्येन ध्यायेत् । =स्त्री सेवन और सेती आदि करनेसे दूषित है मन जिसका ऐसा गृहस्थ कण्ठ पर्यन्त अथवा शिर पर्यन्त स्नान कर अर्हन्त देवके चरणोंको पूजे और अस्नान कथिक दूसरे स्नातकव्यक्तिने पूजा करावे।

सा, घ /२/३३,३४ पर फुटनोट—निर्घ्न स्नान गृहस्थस्य देवार्चनपरिग्रहे । पादजानुकट्टिघ्रायाशिर पर्यंतसभ्रय । स्नान पञ्चविध होय यथा दाप शरीरिणा । ब्रह्मचर्योपपन्नस्य निवृत्तारम्भकर्मण । यद्वा तद्वा भवेत्स्नान-मन्त्रमन्यस्य तु द्वयम् । =जिन पूजा आदि करनेको गृहस्थको निरय स्नान करना चाहिए।—केवल पाँव धोना, घुटने तक धोना, कमर तक धोना, कण्ठ तक धोना और शिर तक स्नान करना इन प्रकार पाँच प्रकारका स्नान है। इसमें प्राणियोंको दोपानुसार स्नान करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी हैं, और जो सेती आदि आरम्भसे निवृत्त हैं उनको पाँचोंमेंसे इच्छानुसार स्नान कर लेना चाहिए। परन्तु गृहस्थोंको कण्ठ तक वा शिर तक दो ही स्नान करना चाहिए।

४. जलाशयमें डुबकी लगाकर स्नान करनेका निर्देश

सा घ /२/३४ पर फुटनोट—वातातपादिसस्पृष्टे धूरितोये जलाशये । अवगाह्याचरेन्स्नानमतीऽऽद्गुणालित भजेत् । =जिस जलाशयमें पानी बहुत हो और उसपरसे भारी पवनका झरोका निकल गया हो अथवा धूप पड़ रही हो तो उसमें डुबकी मारकर स्नान करना चाहिए। यदि ऐने जलाशय न मिले तो छत्ने हुए पानीसे स्नान करना चाहिए।

* झूटसे छूनेपर साधुकी स्नान विधि ।—दे भिक्षा/३/३।

५. आत्म स्नान ही यथार्थ स्नान है

द्र स /टी /३/१०६/१२ विशुद्धात्मनदीस्नानमेव परमशुचित्वकारण न च लौकिकज्जादितोर्थे स्नानादिकम् । आत्मा नदी सयमतोयपूर्णा सत्यावगाहा शीलतटा द्योमि । तत्राभिपेक दुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शुद्ध्यति चान्तरात्मा । =विशुद्ध आत्मा रूपी शुद्ध नदीमें स्नान करना ही परम पवित्रताका कारण है, लौकिक गंगा आदि तीर्थोंमें स्नानका करना शुचिका कारण नहीं है। सयम रूपी जलसे भरी, सय्य रूपी प्रवाह, शील रूप तट और दयामय तरङ्गोंकी धारक तो आत्मा रूपी नदी है।

स्निग्ध—स सि /४/३३/३०४/४ बाह्याभ्यन्तरकारणवशात् स्नेहप-र्यायाविर्भावात् स्निग्धते स्मेति स्निग्ध । स्निग्धत्व चिक्कणगुण-लक्षण पर्याय । =बाह्य और आभ्यन्तर कारणसे जो स्नेह पर्याय

उत्पन्न होती है जो उममे पुद्गल स्निग्ध कहलाता है।...स्निग्ध पुद्गलका धर्म स्निग्धत्व है।

स्नेहातिचार—दे अतिचार/३।

स्पर्धक—कर्म स्कन्धमें उसके, अनुभागमें, जीवके कपाय व योगमें तथा इसी प्रकार अन्यत्र भी स्पर्धक सज्ञाका ग्रहण किया जाता है। किसी भी द्रव्यके प्रदेशोंमें अथवा उसकी शक्तिके अंशोंमें जघन्यसे उत्कृष्ट पर्यन्त जो क्रमिक वृद्धि या हानि होती है उसीसे यह स्पर्धक उत्पन्न होते हैं। जघन्यसे उत्कृष्ट पर्यन्त समान अविभाग प्रतिच्छेदोंके समूहसे एक वर्ग बनता है। (दे वर्ग) समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्गोंके समूहसे एक वर्गणा बनती है (दे वर्गणा) इस प्रकार जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त एक-एक अविभाग प्रतिच्छेदके अन्तरसे वर्गणाएँ प्राप्त होती है, इनके समूहको स्पर्धक कहते हैं। तहाँ भी विशेषता यह है कि जहाँ तक एक एक अविभाग प्रतिच्छेदके अन्तरसे वे प्राप्त होती चली जायें तहाँ तक प्रथम स्पर्धक है। प्रथम स्पर्धकसे दुगुने अविभाग प्रतिच्छेद प्राप्त होनेपर द्वितीय स्पर्धक और तृतीय आदि प्राप्त होनेपर तृतीय आदि स्पर्धक बनते हैं। इसीका विदेष रूपसे स्पष्टीकरण यहाँ किया गया है।

१. स्पर्धक सामान्यका लक्षण

रा वा २/५/४/१०७/११ पङ्क्तय कृता यावदेकाविभागपरिच्छेदाधिकनाभम्। तदलाभे अन्तर भवति। एवमेतासां पङ्क्तीनां विशेषहीनानां क्रमवृद्धिक्रमहानियुक्तानां समुदाय. स्पर्धकमित्युच्यते। तत् उपरि द्वित्रिचतु सख्येयासख्येयगुणरसा न लभ्यन्ते अनन्तगुणरसा एव। तत्रैकप्रदेशो जघन्यगुण परिगृहीत, तस्य चानुभागाविभागपरिच्छेदा पूर्ववत्कृता। एव समगुणा वर्ग समुदिता वर्गणा भवति। एकाविभागपरिच्छेदाधिका पूर्ववद्विरलीङ्गता वर्ग वर्गणाश्च भवन्ति यावदन्तर भवति तावदेक स्पर्धक भवति। एवमनेन ब्रमेण विभागे क्रियमाणेऽभयानामनन्तगुणानि सिद्धानामनन्तभागप्रमाणानि स्पर्धकानि भवन्ति। = (पहले दे वर्ग व वर्गणा) इस तरह एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ा कर वर्ग और वर्गणा समूह रूप वर्गणाएँ तब तक बनानी चाहिए जब तक एक-एक अधिक परिच्छेद मिलता जाये। इन क्रम हानि और क्रम वृद्धि वाली वर्गणाओंके समुदायको स्पर्धक कहते हैं। इसके बाद दो तीन चार संख्यात और असंख्यात गुण अधिक परिच्छेद नहीं मिलते किन्तु अनन्त गुण अधिक वाले ही मिलते हैं। फिर उनमेंसे पूर्वाक्त क्रमसे समगुण वाले वर्गोंके समुदाय रूप वर्गणा बनाना चाहिए। इस तरह जहाँ तक एक-एक अधिक परिच्छेदका लाभ हो वहाँ तककी वर्गणाओंके समूहका दूसरा स्पर्धक बनता है। इसके आगे दो, तीन, चार संख्यात असंख्यात गुण अधिक परिच्छेद नहीं मिलते हैं। इस तरह समगुण वाले वर्गोंके समुदाय रूप वर्गणाओंके समूह रूप स्पर्धक एक उदय स्थानमें अभव्योसे अनन्तगुणे तथा सिद्धोके अनन्त भाग प्रमाण होते हैं। (घ १२/४,२,७,२०४/१४५/६), (घ १४/५,६,२०६/४३३/६), (गो जी/भापा १६/२५५/६), (गो क/भापा/२२६/३२२)

क पा ४/४-२२/९,७३-४७३/२४४-३४५/१५ एव दो अविभागपरिच्छेदुत्तरतिष्णो चातारि, ष, छ सत्तादि अविभागपरिच्छेदुत्तरकमेण अवद्विदअणतपरमाणु घेतूण तदणुभागस्स पण्णच्छेदणय काऊण अभवसिद्धिएहि अण तागुण सिद्धाणमणतभागमेत्तवर्गणाओ उप्पाइय उवरि उवरि रचेदव्वाओ। एवमेत्तियाहि वग्गणाहि एग फहय्य होदि अविभागपरिच्छेदे हि कमवड्ढीए एगेगपति पडुच्च अवट्टिदत्तादो। उवरिमपरमाणु अविभागपरिच्छेदेसख पेक्खिदुण कमहाणीए अभावेण विरुद्धाविभागपरिच्छेदेसखत्तादो वा १७३। पुणो पढमफहयचरिमवग्गणाए एवग्गणाविभागपरिच्छेदेहिंतो एगविभागपरिच्छेदेहिंतो एगविभागपरिच्छेदेपुत्तरपरमाणु णत्थि, किंतु सव्व-

जीवेहि अणंतगुणाविभागपरिच्छेदेहि अहिययरपरमाणु तत्थ चिरतणपुज्जे अत्थि। ते घेतूण पढमफहयउप्पाइदकमेण विदियफहयमुप्पाएयव्व। एवं तदियादिकमेण अभवसिद्धिएहि अणतगुण सिद्धाणमणतभागमेत्ताणि फहयाणि उप्पाएदव्वाणि। एवमेत्तियफहयसमूरेण सुहुमणिगोदजहण्णाणुभागट्ठाणं होदि। = (पहले देखो वर्ग व वर्गणा) इस प्रकार दो अविभाग प्रतिच्छेद अधिक तीन, चार, पाँच, छह और सात आदि अविभाग प्रतिच्छेद अधिक के क्रमसे अवस्थित अनन्त परमाणुओंको लेकर उनके अनुभागका बुद्धिके द्वारा छेदन करके अभव्य राशिसे अनन्तगुणी और सिद्ध राशिके अनन्तवें भाग प्रमाण वर्गणाओंको उत्पन्न करके उन्हें ऊपर ऊपर स्थापित करो। इस प्रकार इतनी वर्गणाओंका एक स्पर्धक होता है, क्योंकि वहाँ अविभाग प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा एक एक पत्तिके प्रति क्रमवृद्धि अवस्थित रूपसे पायी जाती है, अथवा ऊपरके परमाणुओंमें अविभाग प्रतिच्छेदोंकी संख्याको देखते हुए वहाँ क्रम हानिका अभाव होनेसे इसके विरुद्ध अविभाग प्रतिच्छेदोंकी संख्या पायी जाती है। पुन प्रथम स्पर्धक अन्तिम वर्गणाके एक वर्गके अविभाग प्रतिच्छेदोंसे एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक बाला परमाणु आगे नहीं है, किन्तु सब जीवोसे अनन्तगुणे अविभागपरिच्छेद अधिक वाले परमाणु उस चिरतन परमाणु पुजमें मौजूद हैं। उन्हें लेकर जिस क्रमसे प्रथम स्पर्धकको रचना की थी उसी क्रमसे दूसरा स्पर्धक उत्पन्न करना चाहिए। इसी प्रकार तीसरे आदि स्पर्धकोंके क्रमसे अभव्य राशिसे अनन्तगुणे और सिद्धराशिसे अनन्तवें भागमात्र स्पर्धक उत्पन्न करने चाहिए। इस प्रकार इतने स्पर्धकसमूहसे सूक्ष्म निगोदिया जीवन्त जघन्य अनुभाग स्थान बनता है।

क पा ५/४-२२/९,७४/३४५ पर विशेषार्थ—एक परमाणुमें रहनेवाले उन अविभाग प्रतिच्छेदोंको वर्ग कहते हैं अर्थात् प्रत्येक परमाणु एक एक वर्ग है। उसमें पाये जाने वाले अविभाग प्रतिच्छेदोंका प्रमाण सदृष्टिके लिए ऽ कल्पना करना चाहिए। पुन पुन उन परमाणुओंमें से प्रथम परमाणुके समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले दूसरे परमाणुको लो और पूर्वाक्त वर्गके दक्षिण भागमें उसकी स्थापना कर देनी चाहिए—।८८। ऐसा तब तक करना चाहिए जब तक जघन्य गुणवाले सब परमाणु समाप्त न हो। ऐसा करने पर भी अभव्य राशिसे अनन्तगुणे और सिद्ध राशिसे अनन्तवें भाग प्रमाण वर्ग प्राप्त होते हैं। उनका प्रमाण सदृष्टि रूपमें इस प्रकार है—६६८। द्रव्याधिक नयको अपेक्षा इन सभी वर्गोंकी वर्गणा सज्ञा है, क्योंकि वर्गोंके समूहको वर्गणा कहते हैं। तत्पश्चात् फिर एक परमाणु लो जिसमें एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद पाया जाता है उसका प्रमाण सदृष्टिमें ६ है। इस क्रमसे उस परमाणुके समान अविभाग प्रतिच्छेदवाले जितने परमाणु पाये जायें, उनका प्रमाण इस प्रकार है—६६६। यह दूसरी वर्गणा है। इसकी प्रथम वर्गणाके आगे स्थापित करना चाहिए। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पाँचवी आदि वर्गणाएँ, जो कि एक एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेदको लिये हुए हैं उत्पन्न करनी चाहिए। इन वर्गणाओंका प्रमाण अभव्य राशिसे अनन्तगुणा और सिद्ध राशिसे अनन्तवें भाग प्रमाण है। इन सब वर्गणाओंका एक जघन्य स्पर्धक होता है, क्योंकि परमाणुओंके समूहको स्पर्धक कहते हैं। इन प्रथम स्पर्धकको पृथक् स्थापित करके पूर्वाक्त परमाणु पुजमेंसे एक परमाणुको लेकर बुद्धिके द्वारा उसका छेदन करनेपर द्वितीय स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके प्रथम वर्ग उत्पन्न होता है। इस वर्गमें पाये जाने वाले अविभाग प्रतिच्छेदोंका प्रमाण नदृष्टि रूपसे १६ है। इस क्रमसे अभव्य राशिसे अनन्त गुणे और सिद्धराशिसे अनन्तवें भागमात्र समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले परमाणुओंको लेकर उतने ही वर्ग उत्पन्न होते हैं। इन वर्गोंका समुदाय दूसरे स्पर्धककी प्रथम वर्गणा कहलाता है, इन प्रथम वर्गणाको प्रथम स्पर्धककी अन्तिम वर्गणाके आगे अन्तराल देकर स्थापित करना चाहिए। इन क्रमसे वर्ग, वर्गणा और स्पर्धकको जानकर इन उनकी

उत्पत्ति करनी चाहिए जगतक पूर्वोक्त परमाणुओंका प्रमाण समाप्त नहीं है। इस प्रकार स्पर्धकोंकी रचना करने पर अभव्यराशिसे अनन्तगुणे और सिद्धराशिसे अनन्तवें भाग प्रमाण स्पर्धक और वर्गणाएँ उत्पन्न होती है। इनमेंसे अन्तिम स्पर्धककी अन्तिम वर्गणाके एक परमाणुमें जो अनुभाग पाया जाता है उसे ही जघन्य स्थान कहते हैं। इसकी सृष्टि इस प्रकार है—

	प्रथमस्पर्धक	द्वि स्पर्धक	तृ स्पर्धक	चतु.स्पर्धक	प स्पर्धक	ष स्पर्धक
प्र० वर्गणा	८८८८	१६	२४	३२	४०	४८
द्वि० वर्गणा	६६६	१७	२५	३३	४१	४९
तृ० वर्गणा	१०१७	१८	२६	३४	४२	५०
च० वर्गणा	११	१९	२७	३५	४३	५१

२ स्पर्धकके भेद—

रा.वा /२/४/३/१०६/३० द्विविध स्पर्धक-देशघातिस्पर्धक सर्वघाति-स्पर्धक चेति। =स्पर्धक दो प्रकारके होते हैं—देशघाति स्पर्धक और सर्वघाति स्पर्धक। (इसके अतिरिक्त जघन्य स्पर्धक व द्वितीय स्पर्धक (गो जी /भापा/४६/१६६/६) पूर्वस्पर्धक तथा अपूर्व स्पर्धकका निर्देश आगममें यत्र तत्र पाया जाता है।)

३. देशघाति व सर्वघाति स्पर्धकका लक्षण

प्र सं/टो /३२/६६/४ सर्वप्रकारेणारमगुणप्रच्छादिका कर्मशक्त्य सर्वघातिस्पर्धकानि भण्यन्ते, विवक्षितैकदेशेनारमगुणप्रच्छादिका शक्तयो देशघातिस्पर्धकानि भण्यन्ते। =सर्व प्रकारसे आत्माके गुणोंको आच्छादन करनेवाली जा कर्मोंकी शक्तियाँ हैं उनका सर्व-घाति स्पर्धक कहते हैं। और विवक्षित एक देशसे जो आत्माके गुणोंका आच्छादन करनेवाली कर्मशक्तियाँ हैं वे देशघातिस्पर्धक कहलाती हैं।

४. पूर्व व अपूर्व स्पर्धकके लक्षण

श सा /भापा/४६/४४०/१६ समार अवस्थामें देशघाति व सर्वघाति प्रकृतियोंका जघन्यसे उत्कृष्ट पर्यन्त जो अनुभाग रहता है, उससे युक्त स्पर्धक पूर्वस्पर्धक कहलाते हैं।—जैसे मोहनीयमें सम्यक् प्रकृतिका अनुभाग केवल देशघाति होनेके कारण जघन्य लता भागसे दारु भाग। असख्यात पर्यन्त ही है। ताते ऊपर मिश्र मोहनीयका अनुभाग जघन्यसे उत्कृष्ट पर्यन्त मध्यम दारु भावरूप ही रहता है। और इससे भी ऊपर मिथ्यात्वका अनुभाग अपर दारुमें लेकर उत्कृष्ट शैल भागतक रहता है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीयकी केवल ३ व ४ से रहित सज्वलन चतुष्क, नव नोकापाय, पाँच अन्तराय, इन २५ प्रकृतियोंका अनुभाग जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट देशघाती पर्यन्त तो लता भागमें दारु। अस पर्यन्त और जघन्य सर्वघातीसे लेकर उत्कृष्ट सर्वघाती पर्यन्त दारु। अस से उत्कृष्ट शैल भाग पर्यन्त वर्तते हैं। केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण पाँच निद्रा और प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, अनन्तानुबन्धीकी १२ इन १६ सर्वघाती प्रकृतियोंका अनुभाग जघन्य सर्वघातीसे उत्कृष्ट सर्वघाती पर्यन्त दारु। अस, ये उत्कृष्ट शैल भाग पर्यन्त हैं। वेदनीय, आयु, नाम व

गोत्र इन चार अघातियाका अनुभाग जघन्य देशघातीसे उत्कृष्ट सर्वघाती पर्यन्त जघन्य लता भागसे उत्कृष्ट शैल भाग पर्यन्त रहता है।

श सा /४६/४४२ चारित्रमोहकी क्षपणा विधिमें सभी प्रकृतियोंके द्रव्यमेंसे युक्त निषेधोंके अनुभागको अपकर्षण द्वारा घटाकर अनन्त गुणा घटता करे है। अर्थात् उन उनके योग्य पूर्व स्पर्धकमें जो मर्व जघन्य अनुभागके स्पर्धक समार अवस्था विधि पहिने थे। उनमें भी अनन्तगुणा घटता (अनुभाग जो पहले सभी प्राप्त नहीं हुआ था) मरित अपूर्व स्पर्धककी रचना करे है। तहाँ पूर्व स्पर्धकनिकी जघन्य वर्गणासे भी अपूर्व स्पर्धककी उत्कृष्ट वर्गणा विधि अनुभाग अनन्त भाग मात्र है। ऐसे अपूर्व स्पर्धकोंका प्रमाण अनन्त होता है। तहाँ अपूर्व स्पर्धकोंमें भी जघन्य अनुभागमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। अरवरण करणके प्रथम समयमें लगाय उमके अन्तिम समय पर्यन्त बराबर यह अपूर्व स्पर्धक बनानेका कार्य चनता रहता है। अर्थात् अरवरण का अनन्तमूर्तत्त प्रमाण काल ही इसकी विधि का काल है। इसके ऊपर कृष्टि करणका काल प्रारम्भ होता है। (स, सा /४८७)।

* योग स्पर्धकका लक्षण—दे, योग/५।

* स्पर्धक व कृष्टिमें अन्तर—दे कृष्टि।

स्पर्श—स्पर्शनका अर्थ स्पर्श करना या छूना है। यहाँ इस स्पर्शानु-योग द्वारमें जीवोंके स्पर्शका वर्णन किया गया है अर्थात् बौन-बौन मार्गणा स्थानगत पर्याप्त या अपर्याप्त जीव किस-किस गुणस्थानमें कितने आकाश क्षेत्रको स्पर्श करता है।

१	भेद व लक्षण
१	स्पर्श गुणका लक्षण।
२	स्पर्श नाम कर्मका लक्षण।
३	स्पर्शनानुयोग द्वारका लक्षण।
४	स्पर्शके भेद १. स्पर्श गुण व स्पर्श नामकर्मके भेद। २. निक्षेपोंकी अपेक्षा भेद दृष्टि न १ व दृष्टि न २।
५	निक्षेप रूप भेदोंके लक्षण।
*	अग्नि आदि सभीमें स्पर्श गुणकी सिद्धि —दे पुद्गल/१०।
*	स्पर्शन नामकर्म सकारण है या निष्कारण। —दे वर्ण/४।
*	स्पर्श नामकर्मकी बन्ध उदय सत्त्व प्ररूपणाएँ। —दे वह वह नाम।
२	स्पर्श सामान्य निर्देश
*	परमाणुओंमें परस्पर एकदेश व सर्वदेश स्पर्श। —दे परमाणु/३।
१	अमूर्तसे मूर्तका स्पर्श कैसे सम्भव है।
०	क्षेत्र व कालका अन्तर्भाव द्रव्य स्पर्शमें क्यों नहीं होता।
*	क्षेत्र व स्पर्शमें अन्तर।

३	स्पर्श विषयक प्ररूपणाएँ
*	स्पर्शन प्ररूपणा सम्बन्धी नियम। —दे क्षेत्र/३।
१	सारणियोंमें प्रयुक्त सकेत सूची।
२	जीवोंके वर्तमान काल स्पर्शकी ओर प्ररूपणा।
३	जीवोंके अतीत कालीन स्पर्शकी ओर प्ररूपणा।
४	जीवोंके अतीत कालीन स्पर्शकी आदेश प्ररूपणा।
५	अष्ट क्रमोंके चतुर्वन्धकोंकी ओर आदेश प्ररूपणा।
६	मोहनीय सत्कामिक बन्धकोंकी ओर आदेश प्ररूपणा।
७	अन्य प्ररूपणाओंकी सूची।

१. भेद व लक्षण

१. स्पर्श गुणका लक्षण

स सि./५/२३/२६३/११ स्पृश्यते स्पर्शनमात्र वा स्पर्शः।
स. सि./२/२०/१७८/६ स्पृश्यत इति स्पर्शः। पर्यायप्राधान्यविषयक्षायं भावनिर्देशः। स्पर्शनं स्पर्शः। = १ जो स्पर्शन किया जाता है उसे या स्पर्शनमात्रको स्पर्श कहते हैं। २ द्रव्यकी अपेक्षा होनेपर कर्म निर्देश होता है। जैसे—जो स्पर्श किया जाता है सो स्पर्श है। तथा जहाँ पर्यायकी विवक्षा प्रधान रहती है तब भाव निर्देश होता है जैसे स्पर्शन स्पर्श है। (रा. वा./२/२०/१/१३२/३१)।

घ. १/१.३३/२३७/८ यदा वस्तुप्राधान्येन विवक्षितं तदा इन्द्रियेण वस्तुवैव विषयीकृतं भवेद् वस्तुव्यतिरिक्तस्पर्शाद्यभावात्। एतस्या विवक्षायाम् स्पृश्यत इति स्पर्शो वस्तु। यदा तु पर्याय प्राधान्येन विवक्षितस्तदा तस्य ततो भेदोपपत्तौ रौदासीन्यावस्थितभावकथना-ज्ञावसाधनत्वमप्यविरुद्धम्। यथा स्पर्श इति। = जिस समय द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा प्रधानतासे वस्तु ही विवक्षित होती है, उस समय इन्द्रियके द्वारा वस्तुका ही ग्रहण होता है, क्योंकि वस्तुको छोड़कर स्पर्शादि धर्म पाये नहीं जाते हैं इसलिए इस विवक्षामें जो स्पर्श दिया जाता है उसे स्पर्श कहते हैं, और वह स्पर्श वस्तु रूप ही पड़ता है। तथा जिस समय पर्यायाधिक नयकी प्रधानतासे पर्याय विवक्षित होती है, उस समय पर्यायका द्रव्यसे भेद होनेके कारण उदासीन रूपसे अवस्थित भावका कथन किया जाता है। इसलिए स्पर्शमें भाव साधन भी बन जाता है। जैसे स्पर्शन ही स्पर्श है।

२ स्पर्श नामकर्मका लक्षण

स सि./८/११/३६०/८ यस्योद्धारस्पर्शाद्रुर्भावस्तस्पर्शनम्। = जिसके उदयसे स्पर्शकी उत्पत्ति होती है वह स्पर्श नामकर्म है। (रा. वा./२१/१०/६७/१४), (घ. १/५.६.१०१/३६४/८), (गो. क./जी. प्र./३३/२६/१६)।

घ. ६/१.६-१.२८/५६/६ जस्य कम्ममखधस्स उदएण जीवसरीरे जाइपडि-पिण्णदो पासो उप्पज्जदि तस्स कम्ममखधस्स पाससण्णा कारणे कज्जु-वयारादो। = जिस कर्मस्फुन्धके उदयसे जीवके शरीरमें जाति

प्रतिनियत स्पर्श उत्पन्न होता है, उस कर्म स्फुन्धकी कारणमें कार्यके उपचारसे स्पर्श यह सज्ञा है।

३ स्पर्शानुयोग द्वाराका लक्षण

स. सि./१/८/२६/७ तदेव स्पर्शनं त्रिकालगोचरम्। = त्रिकाल विषयक निवासको स्पर्श कहते हैं। (रा. वा./१/८/५/४१/३०)

घ. १/१.१.७/गा/१०२/१५८ अस्थित्त पुण सत अस्थित्तस्स य तद्देव परिमाणं। पच्चुप्पण्ण तेत्त अदीद-पदुप्पण्ण फुसण १०२।

घ. १/१.१.७/१५८/५ तेहिंदो वलद्ध सत-पमाण खेत्ताण अदीद-काल-विसिद्धफास पस्वेदि फोसणाणुगमो। = १, अस्तित्वका प्रतिपादन करनेवाली प्ररूपणाको सप्ररूपणा कहते हैं। जिन पदार्थोंके अस्तित्वका ज्ञान हो गया है ऐसे पदार्थोंके परिमाणका कथन करनेवाली सख्या प्ररूपणा है, वर्तमान क्षेत्रका वर्णन करनेवाली क्षेत्र प्ररूपणा है। अतीत स्पर्श और वर्तमान स्पर्शका वर्णन करनेवाली स्पर्शन प्ररूपणा है। १०२। २ उक्त तीनों अनुयोगोंके द्वारा जाने हुए सत् सख्या और क्षेत्ररूप द्रव्योंके अतीतकाल विशिष्ट वर्तमान स्पर्शका स्पर्शानुयोग वर्णन करता है।

घ. ४/१.४.१/१४४/८ अस्पर्शि स्पृश्यत इति स्पर्शनम्। = जो श्रुतकालमें स्पर्श किया है और वर्तमानमें स्पर्श किया जा रहा है वह स्पर्शन कहलाता है।

४. स्पर्शके भेद

१. स्पर्शगुण व स्पर्श नामकर्मके भेद

प खं ६/१.६.१/सू ४०/७५ ज त पासणामकम्म त अट्टविह, कपखड-णाम मज्जणाम गुरुअणाम लहुअणाम निट्ठणाम लुवखणाम सीदणाम उल्लुणणाम चेदि १४०। = जो स्पर्श नामकर्म है वह आठ प्रकारका है—कर्कशनामकर्म, मृदुकनामकर्म, गुरुकनामकर्म, लघुकनामकर्म, स्निग्धनामकर्म, रूक्षनामकर्म, शीतनामकर्म और उष्णनामकर्म। (प ख १३/५.६/सू ११३/३७०), (स सि./८/११/३६०/८), (प. स/प्रा/२/४/टी/४८/२), (रा. वा./८/१२/१०/५७/१४), (गो. क./जी. प्र./३३/२६/१५)।

स सि./५/२२/२६३/११ सोऽष्टविध, मृदुकठिनगुरुलघुशीतोष्णस्निग्ध-रूक्षभेदात्। = कोमल, कठार, भारी हलका, ठंडा, गरम, स्निग्ध और रूक्षके भेदसे वह स्पर्श आठ प्रकारका है। (रा. वा./५/०३/७/४८४), (गो. जी/जी प्र/८/५६/१), (द्र स/टी/७/१६), (प प्र/टी/१/१६)।

२ निक्षेपोंकी अपेक्षा भेद दृष्टि न ?

नोट—(नाम, स्थापना आदि भेद = दे. नि. ३५)।

घ. ४/१.४.१/१४४/२ मिस्मपदव्यफोमण छण्ट दव्वाण सजाण्ण एधूण-सङ्घिभेयभिण्ण। = मिश्रद्रव्यस्पर्शन चेतन अचेतन स्वरूप छट्टों द्रव्योंके संयोगसे उनसठ भेदवाला होता है।


विशेषार्थ—मिश्र तद्रव्यतिरिक्त नोआगम द्रव्य स्पर्शके क्वचिन्न व क्वचित्त रूप छह द्रव्योंके ६४ संयोगी भग निम्न प्रकार है। एक संयोगी भग = छह द्रव्योंका पृथक्-पृथक् ग्रहण करनेमें = ६। द्विसंयोगी (६×६) = (१×२) = २०/२ = १४। त्रिसंयोगी भग = (६×६×६) = (१×२×३) = १२०/६ = २०। चतुसंयोगी भग = (६×६×६×६) = (१×२×३×४) = २६०/२४ = ११। पंचसंयोगी भग = (६×६×६×६×६) = (१×२×३×४×५) = ७२०/१२० = ६। छह संयोगी भग = (६×६×६

$3 \times 3 \times 2 \times 1 = (1 \times 2 \times 3 \times 2 \times 1 \times 1) = 360/360 = 1$ । कुल ६३ भग
जीवके साथ जीवका बन्ध रूप स्पर्श = १। पुद्गलके साथ पुद्गलका
बन्ध रूप स्पर्श = १। = २ कुल भग = ६६ (गो क/घ/००)।

५ निक्षेप रूप भेदोंके लक्षण

प ख, व धयला टो /१३/५,३,३/सूत्र ' /घ न. 'ज दव्यं दव्येण पुमदि
सो मव्यो दव्यफासो णाम। (१२/११)' 'ज दवामेयपटोत्तेण पुसदि
सो मव्यो एयवरोत्तफासो णाम (१२/१६)' एकन्दि आगासपदेमे
टिट्ठअणताणसपोगलसत्तपानसमवाण सजोएण वा जा फासो
सो एयवरोत्तफासो णाम। बहुआण दव्याण अयमेण एयवरोत्तपुसण-
हुवारैण वा एयवरोत्तफासा वत्तव्यो। — 'ज दवमणत्तरवरोत्तेण पुमदि
सो सव्यो अणत्तरवरोत्तफासो णाम (१६/१७)' दुपदेमटिट्ठदव्याण-
मण्णेहि दोआगासपदेसाटिट्ठदव्येहि जो फासो गो अणत्तरवरोत्तफासो
णाम। एवं सते समाणोगाहणवधाण जो फासा सो एयवरोत्तफा-
सासो णाम। समाणोगाहणवधाण जो फासा सो अणत्तरवरोत्तफासो
णाम। कधमणत्तरत्त। समाणासमाणवरोत्तफासमत्तरे रोत्ततगभासादो।
एवमणत्तररोत्तफासापकुराण गरा। — 'ज दव्यदेशं देमेण पुमदि सो
सव्यो देमफासो णाम (१८/१८)' एगस्स दव्यम देतं अवमत्तं जदि
[देमेण] अणदव्यदेशेण अण्णो अणयवेण पुसदि तो देसप्पासो त्ति
दट्ठव्वो। — ज दव्य तय वा णोत्तय वा पुसदि मा सव्वो तयफासो
णाम (२०/१६)' एमो तयफासो इव्वफामे जत्तमभाय किण्ण गच्छदे।
ण, तय-णोत्तयाण खधमिह ममवेदाण पुध दव्यत्ताभावादो। खध-तय-
णोत्तयाणं समूहो दव्य। ण च एकन्दि दव्ये दव्यफासो अरिय, विरो-
हादो। तयफासो देसफासे किण्ण पन्निस्सि। ण, णाणदव्यविसए
देसफासे एगदव्यविसयस्स तयफामस्स पवेमविरोहादो। — ज दव्यं
सव्वं सव्वेण फुसदि, तहा परमाणुदव्यमिदि, सा सव्वो सव्वफासो
णाम। (२२/२१)' 'सो अट्ठविरो-कवत्तलडफासो मउवफासो-गरव-
फासो लणुवफासा णिद्धफासो लुवत्तफासो सीदफासो उण्णफासो।
सो सव्वो फासफासो णाम (२४/२४)' स्पृश्यत्त इत्ति स्पर्श वक्क-
शादि। स्पृश्यत्तयेनेत्ति स्पर्शस्त्वगिन्त्रिय। तयोद्धमो स्पर्शयो
स्पर्श स्पर्शस्पर्श। — 'सो अट्ठविहो-णाणावरणीय-द सणावरणीय-
वेयणीय-मोहणीय-आउअ-णामा-गोद-अतराहय-वम्मफासो। सो
सव्वो कम्मफासो णाम (२६/२६)' अट्ठव्वमाण जीवेण विरसा-
सोवचएहिय णोक्कमेहिय जो फासो सो दव्यफासि पददि त्ति एत्थ
ण बुच्चदे, वम्मभाण कम्महेहि जो फासो सो वम्मफासो त्ति एत्थ
घेत्तव्वो। — 'सो पचविहो-ओरालियसरीरबधफासो एवं वेउट्ठिविय-
आहार-तेया वम्मइयसरीरबधफासो। सो सव्वो बधफासो णाम।
(२८/३०)' यध्नात्तोत्ति बन्ध। औदारिकशरीरमेव बन्ध औदारिक-
शरीरबन्ध। तस्स बधस्स फासो ओरालियसरीरबधफासो णाम।
एवं सव्वसरीरबधफासाण पि वत्तव्व। — 'जहा विस वूड-जत्त-पजर-
कदय-वग्गुरादीणि कत्तारो समोद्वियारो य भवियो फुसणटाए णो
य पुण ताव त फुसदि सो सव्वो भवियफासो णाम (३०/२४)'
'उवज्जुत्तो पाहुडजाणओ सो सव्वो भावफासो णाम (३२/२४) = १
एक द्रव्य दूमरे द्रव्यके स्पर्शको प्राप्त होता है वह सब द्रव्यस्पर्श है
। १२। २ जो द्रव्य एक क्षेत्रके साथ स्पर्श करता है वह सब एक क्षेत्र-
स्पर्श है । १४। एक आकाश प्रदेशमें स्थित अनन्तान्त पुद्गल
स्कन्धोका समवाय सम्बन्ध या सयोग सम्बन्ध द्वारा जो स्पर्श होता
है वह एक क्षेत्रस्पर्श कहलाता है। अथवा बहुत द्रव्योका युगपत् एक
क्षेत्रके स्पर्श द्वारा एक क्षेत्र स्पर्श कहना चाहिए। ३ जो द्रव्य
अनन्तर द्रव्यके साथ स्पर्श करता है वह सब अनन्तरक्षेत्र स्पर्श
है। १६। दो प्रदेशोंमें स्थित द्रव्योंका दो आकाशके प्रदेशोंमें स्थित
अन्य द्रव्योंके साथ जो स्पर्श होता है वह अनन्तर क्षेत्रस्पर्श है।
इस स्थितिमें (एक शब्द सख्यावाची नहीं समानवाची है) समान
अवगाहना वाले स्कन्धोंका जो स्पर्श होता है वह एक क्षेत्रस्पर्श है
और असमान अवगाहना वाले स्कन्धोंका जो स्पर्श होता है वह
अनन्तरक्षेत्र स्पर्श है। क्योंकि समान और असमान क्षेत्रोंके मध्यमें
अन्य क्षेत्र नहीं उपलब्ध होता, इसलिए इसे अनन्तरपना प्राप्त है।
४. जो द्रव्य एकदेश एकदेशके साथ स्पर्श करता है वह सब देशस्पर्श

३ निक्षेपोंकी अपेक्षा भेद दृष्टि न ०
प ख १२/६,३/घ ४-३३/घ ३-२६



घ १३/६,३,२४/२/३ एत्थ केवि आहिरिया कखलडादिफासाण पहाणी-
कयाण एगादिसजोमेहि फासभगे उप्पायत्ति, तण्ण घड्ढे, गुणाण
णिससहावण गुणेहि फासाभावादो। अधवा सुत्तस्स देसामासियत्ते
सगतोक्खित्तासेसविससंतराणमट्ठण्ण फासाण सजोएण दुसद-पच-
वचासभगा उप्पाएयव्वा। — यहाँ कितने ही आचार्य प्रधानताको
प्राप्त हुए कर्कों आदि स्पर्शोंके एक आदि संयोगों द्वारा स्पर्श भग
उत्पन्न कराते हैं, परन्तु वे अनन्त नहीं, क्योंकि गुण निस्त्वभाव होते
हैं, इसलिए उनका अन्य गुणोंके साथ स्पर्श नहीं बन सकता।
अथवा सूत्रदेशामर्क होता है। अतएव अपने भीतर जितने विशेष
प्राप्त होते हैं, उन सबके साथ आठ स्पर्शोंके संयोगपे दो सौ पचपन
भग उत्पन्न कराने चाहिए।

है। १८। एक द्रव्यका देश अर्थात् अवयव यदि अन्य द्रव्यके देश अर्थात् उसके अवयवके साथ स्पर्श करता है तो वह देशस्पर्श जानना चाहिए। (दो परमाणुओंका दो प्रदेशावगाही स्कन्ध धननेमें जो स्पर्श होता है वही देशस्पर्श है।) १. जो द्रव्य त्वचा या नोत्वचा को स्पर्श करता है वह सप्त त्वक्स्पर्श है। २०। प्रश्न—यह त्वक् स्पर्श द्रव्य स्पर्शमें क्यों नहीं अन्तर्भावको प्राप्त होता। उत्तर—नहीं, क्योंकि त्वचा और नोत्वचा स्कन्धमें समवेत है, अतः उन्हें पृथक् द्रव्य नहीं माना जा सकता। स्कन्ध, त्वचा और नोत्वचाका समुदाय द्रव्य है। पर एक द्रव्यमें द्रव्यस्पर्श नहीं धनता, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है। प्रश्न—त्वक्स्पर्श देशस्पर्शमें क्यों नहीं अन्तर्भूत होता है। उत्तर—नहीं, क्योंकि नाना द्रव्योंको विषय करनेवाले देश स्पर्शमें एक द्रव्यको विषय करनेवाले त्वक् स्पर्शका अन्तर्भाव माननेमें विरोध आता है। ६ जो द्रव्य सप्तका सप्त सर्वात्मना स्पर्श करता है, यह परमाणु द्रव्य, वह सप्त सर्वस्पर्श है। २२। ७ स्पर्शस्पर्श आठ प्रकारका है—कर्कशस्पर्श, मृदुस्पर्श, गुरुस्पर्श, लघुस्पर्श, दिनग्ध-स्पर्श, रूक्षस्पर्श, शीतस्पर्श और उष्ण स्पर्श है वह सप्त स्पर्शस्पर्श है। २३। जो स्पर्श किया जाता है वह स्पर्श है, यथा कर्कश आदि। जिसके द्वारा स्पर्श किया जाय वह स्पर्श है, यथा त्वचा इन्द्रिय। इन दोनों स्पर्शोंका स्पर्श स्पर्शस्पर्श कहलाता है। ८ वह आठ प्रकारका है—ज्ञानावरणीय कर्मस्पर्श, दर्शनावरणीय कर्मस्पर्श, वेदनीय कर्मस्पर्श, मोहनीय कर्मस्पर्श, आयुर्कर्मस्पर्श, गोत्र कर्मस्पर्श और अन्तराय कर्मस्पर्श। वह सप्त कर्मस्पर्श है। २६। आठ कर्मोंका जीवके साथ, विषसोपचयोंके साथ और नोकर्मोंके साथ जो स्पर्श होता है वह सप्त द्रव्य स्पर्शमें अन्तर्भूत होता है इसलिए वह यहाँ नहीं कहा गया है। किन्तु कर्मोंका कर्मोंके साथ जो स्पर्श होता है वह कर्मस्पर्श है; इरेना यहाँ ग्रहण करना चाहिए। ९ वह पाँच प्रकारका है—औदारिक शरीर बन्धस्पर्श। इसी प्रकार वैक्रियक, आहारक, तैजस और कार्मण शरीर बन्धस्पर्श। वह सप्त बन्ध-स्पर्श है। २८। जो बाँधता है वह बन्ध कहलाता है, औदारिक शरीर ही बन्ध औदारिक शरीर बन्ध है, उस बन्धका स्पर्श औदारिकशरीरबन्ध-स्पर्श है। इसी प्रकार सर्व शरीरबन्ध स्पर्शोंका भी कथन करना चाहिए। १० विष, कूट, यन्त्र, पिंजरा, कन्दक और पशुको बाँधनेका जाल आदि तथा इनके करनेवाले और इन्हें इच्छित स्थानोंमें रखनेवाले स्पर्शनके योग्य होंगे परन्तु अभी उन्हें स्पर्श नहीं करते, वह सप्त भव्य स्पर्श है। ३०। ११. जो स्पर्श प्राभूतका ज्ञाता उसमें उपयुक्त है वह सप्त भाव स्पर्श है। ३२।

ध. ४/१,४,१/१४३-१४४/३,२ सेसदव्वाणमागासेण सह सजोओ खेत्तफो-
सण/१४३/३/ कालदव्वस्स अण्णदव्वेत्ति जो संजोओ सो कालफोसण
णाम। = १२ शेष द्रव्योंका आकाश द्रव्यके साथ जो सयोग है, वह
क्षेत्र स्पर्शन कहलाता है। १३ कालद्रव्यका जो अन्य द्रव्योंके साथ
सयोग है उसका नाम कालस्पर्शन है।

२. स्पर्श सामान्य निर्देश

१. अमूर्तसे मूर्तका स्पर्श कैसे सम्भव है

ध. ४/१,४,१/१४३/३ अमुत्तेण आगासेण सह सेसदव्वाण मुत्ताणममुत्ताण
वा कध पोसो। ण एस दोसो, अवगेज्जावगाहभावस्सेव उवयारेण
फासववएसोदो, सत्त-पमेयत्तादिणा अण्णोणसमाणत्तणेण वा।
अमुत्तेण कालदव्वेण सेसदव्वाण जदि वि पासो णत्थि, परिणामज्ज-
माणणि सेसदव्वाणि परिणत्तेण कालेण पुत्तिदाणि त्ति उवयारेण
कालफोसण वुच्चदे। = प्रश्न—अमूर्तआकाशके साथ शेष अमूर्त
और मूर्त द्रव्योंका स्पर्श कैसे सम्भव है। उत्तर—यह कोई दोष नहीं
है, क्योंकि अवगाह्य अवगाहक भावको ही उपचारसे स्पर्श सज्ञाप्राप्त
है, अथवा सत्त्व प्रमेयत्व आदिके द्वारा मूर्त द्रव्यके साथ अमूर्त द्रव्य-
की परस्पर समानता होनेसे भी स्पर्शका व्यवहार धन जाता है।
यद्यपि अमूर्तकालद्रव्यके साथ शेष द्रव्योंका स्पर्शन नहीं है, तथापि
परिणमित होने वाले शेष द्रव्य परिणामत्वकी अपेक्षा बालसे स्पर्शित
हैं, इस प्रकारसे उपचारसे काल स्पर्शन कहा जाता है।

२. क्षेत्र व काल स्पर्शका अन्तर्भाव द्रव्य स्पर्शमें क्यों नहीं

ध. ४/१,४,१/१४४/४ खेत्तकालपोसणाणिदव्वफोसणम्हि किण्ण पद त्ति त्ति
वुत्ते ण पदत्ति, दव्वादो दव्वेगदेसस्स कध चि भेवुवल भादो। = प्रश्न—
क्षेत्रस्पर्शन और कालस्पर्शन ये दोनों स्पर्शन, द्रव्य स्पर्शनमें क्यों
नहीं अन्तर्भूत होते हैं। उत्तर—अन्तर्भूत नहीं होते हैं, क्योंकि,
द्रव्यसे द्रव्यके एकदेशका कथंचिद् भेद पाया जाता है।

३. स्पर्श विषयक प्ररूपणाएँ

१. सारणीमें प्रयुक्त संकेत सूची

/	भाग
—	भाग
x	गुणा
S	किंचिद्गुण
८/१४/लोक	लोकका ८/१४ भाग
अस.	असख्यात
च.	चतुलोक (मनुष्य लोक रहित सर्व लोक)
त्ति	तिर्यक् लोक
त्रि.	त्रिलोक या सर्व लोक
द्वि	ऊर्ध्व व अधो ये दो लोक
म	मनुष्य लोक (अदार्ई हीण)
सर्व	सर्व लोक (२४३ धन राजु)
स.	सत्यात
स.घ	सत्यात धर्मागुल

प्रमाण	गुणस्थान	गुण-स्थान	स्वस्थान स्वस्थान	विहारव स्वस्थान	वेदना कपाय समुद्घात	वैक्यिक समुद्घात	भारणान्तिक समुद्घात	उपपाद	तैजस आहारक व केवल समुद्घात
१४८	मिथ्यादृष्टि	१	सर्व	त्रि /अस, ति /स, मxअस.	सर्व	त्रि /अस, ति /स, मxअस	सर्व	भारणान्तिकवत्	
१४९	सासादन	२	च /अस, मxअस	च /अस, मxअस	च /अस, मxअस,	च /अस, मxअस	च /अस, मxअस.	"	.
१५०	सम्यग्विध्यादृष्टि	३	"	"	"	"	"	"	...
१५१	असंयत सम्यदृष्टि	४	त्रि /अस, ति /स, मxअस	त्रि /अस, ति /स, मxअस	त्रि /अस, ति /स, मxअस.	त्रि /अस, ति /स, मxअस.	त्रि /अस, ति /स, मxअस	भारणान्तिकवत्	.
१५२	सयत्सायत	५	"	"	"	"	"
१५३	प्रमत्त सयत	६	च /अस, म /स	च /अस, म /स,	च /अस, म /स	च /अस, म /स.	च /अस, मxअस	तैजस आहारक	च /अस, म /स
"	अप्रमत्त सयत	७	"	"	"	...	"	"	"
"	उपशामक	८-११	"	"	"	...	"	"	"
"	क्षपक	८-१२	"	"	"	...	"	"	"
१७२	सयोगकेवली	१३	"	च /अस, म /स	दण्ड = कपाट-कार्योत्सर्ग	च /अस, मxअस.
१७३	अयोगकेवली	१४	"	उपविष्ट प्रतर लोकोत्सर्ग	४५००००० योx१ जगत्प्रतर ६०००००० योx१ ज प्र वातवलय रहित सर्व सर्व

२. जीविके वर्तमान काल स्पर्शकी ओघ प्ररूपणा—(घ ४/१.४.२-१०/१४५-१७३)

प्रमाण ध ४/५	गुणस्थान	गुण- स्थान	स्वस्थानस्वस्थान	विहारवत् स्वस्थान	वेदना कषाय समुद्घात	वैक्रियक समुद्घात	मारणात्मिक समुद्घात	उपपाद	तैजस आहारक व केवली समुद्घात
३. जीविके अतीत कालीन स्पर्शकी ओष प्ररूपणा—(ध ४/१, ४, २-१०/१४६-१७३)									
१४८	विष्यादृष्टि	१	सर्व	S ८/१४ लोक	सर्व	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	मारणान्तिवत्	
१४६,	सामादन	२	त्रि/अस., ति/स मXअस	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१८ लोक	S १२/१४ लोक	S ११/१४ लोक	
१६२-									
१६६-	सन्ध्यामिष्यादृष्टि	३	"	"	"	"	.	.	.
१६७									
१६७	असगत सम्यग्दृष्टि	४	"	"	"	"	S ८/१४ लोक	S ६/१४ लोक	"
१६८	असगत सम्यग्दृष्टि	५	त्रि/अस., ति./- स., मXअस.	त्रि/अस, ति/स, मXअस	त्रि/असं, ति/स, मXअस	त्रि/अं, ति/स, मXअस.	S ६/१४ लोक	S ६/१४ लोक	.
१७१	प्रसक्त सम्यत्	६	च/अस, म/सं.	च./अस, म/स	च/अस, म/सं.	सर्व मनुष्य लोक	च/अस, मXअस	.. तैजस आहारक	सर्व मनुष्य लोक
"	अप्रसक्त सम्यत्	७	"	"	"	"	"	.	"
"	उपशामक	८-११	"	"	"	"	"	.	.
"	क्षपक	८-१२	"	"	"	"	"	.	च/असं., मXअस.
१७२	सयोग केवली	१३	च/अस, म/सं.	च/अस, म/सं.	च/अस, म/सं.	"	"	दण्ड कपाट— नायोरसर्ग	.. ४१०३,००० यो. X १ अ. प्र.
१७२	अयोग केवली	१४	च./अस, म/स	उपविष्ट अ. प्र. वातवलय रहित सर्व लोकपूर्ण	२०००,००० यो. X १ अ. प्र. वातवलय रहित सर्व सर्व

४. जीविके अतीत कालीन स्वर्णकी आदेश प्ररूपणा १-(घ ख. ४/१, ४, सूत्र ११-१८६/१७३-३०६) २-(घ ख ७/२, ७, सू १-२०६/३६७-४६१)

प्रमाण नं. १ नं. २ पृ.	मार्गणा	गुण स्थान	स्वस्थान स्वस्थान	विहारवत् स्वस्थान	वेदना कषाय समुदात	वैकियक समुदात	मारणान्तिक समुदात	उपपाद	तेजस-आहारक व केवली समुदात
३६८	१ गति मार्गणा- १ नरक गति- सामान्य	ति/अस च/अस, मxअस.	ति/अस च/अस, मxअस	च/अस, मxअस. च/अस, मxअस	च/अस, मxअस. च/अस, मxअस	च/अस, मxअस च/अस, मxअस सर्व/अस	सख्यात सहल-६/१४ या त्रि/अस, ति/स, मxअस (कुछ कम बूट्टा, दूट्टे बूट्टे बूट्टे, बूट्टे बूट्टे लोक)	जान मारणान्तिकवत् " "	
३७०	प्रथम पृथिवी	"	"	"	च/अस, मxअस.	च/अस, मxअस.	S ६/१४ लोक ४/१४,	"	
३७१	सामान्य	च/अस, मxअस.	च/अस, मxअस.	च/अस, मxअस.	च/अस, मxअस.	च/अस, मxअस.	च/अस, मxअस.	मारणान्तिकवत् च/अस, मxअस	
३७२	प्रथम पृथिवी	"	"	"	"	"	"	"	
३७३	"	"	"	"	"	"	"	"	
३७४	"	"	"	"	"	"	"	"	
३७५	"	"	"	"	"	"	"	"	
३७६	"	"	"	"	"	"	"	"	
३७७	"	"	"	"	"	"	"	"	
३७८	"	"	"	"	"	"	"	"	
३७९	"	"	"	"	"	"	"	"	
३८०	"	"	"	"	"	"	"	"	
३८१	२ तिर्यक्गति- सामान्य	मर्व त्रि/अस, ति/स, मxअस	मर्व त्रि/अस, ति/स, मxअस	त्रि/अस, ति/स, मxअस त्रि/अस, ति/स, मxअस	सर्व त्रि/अस, ति/म, मxअस	त्रि/अस, द्वि/अस त्रि/अस, ति/स, मxअस	सर्व " "	मारणान्तिकवत् " "	
३८२	पंचोन्द्रयतिर्ग प	त्रि/अस, ति/स, मxअस	त्रि/अस, ति/स, मxअस	त्रि/अस, ति/स, मxअस	सर्व त्रि/अस, ति/म, मxअस	त्रि/अस, द्वि/अस त्रि/अस, ति/स, मxअस	सर्व " "	मारणान्तिकवत् " "	
३८३	" योनिमति तिर्य् अप, सामान्य	"	"	"	"	"	"	"	
३८४	"	"	"	"	"	"	"	"	
३८५	"	"	"	"	"	"	"	"	
३८६	"	"	"	"	"	"	"	"	
३८७	"	"	"	"	"	"	"	"	
३८८	"	"	"	"	"	"	"	"	
३८९	"	"	"	"	"	"	"	"	
३९०	"	"	"	"	"	"	"	"	
३९१	"	"	"	"	"	"	"	"	
३९२	"	"	"	"	"	"	"	"	
३९३	"	"	"	"	"	"	"	"	
३९४	"	"	"	"	"	"	"	"	
३९५	"	"	"	"	"	"	"	"	
३९६	"	"	"	"	"	"	"	"	
३९७	"	"	"	"	"	"	"	"	
३९८	"	"	"	"	"	"	"	"	
३९९	"	"	"	"	"	"	"	"	
४००	"	"	"	"	"	"	"	"	
४०१	"	"	"	"	"	"	"	"	
४०२	"	"	"	"	"	"	"	"	
४०३	"	"	"	"	"	"	"	"	
४०४	"	"	"	"	"	"	"	"	
४०५	"	"	"	"	"	"	"	"	
४०६	"	"	"	"	"	"	"	"	
४०७	"	"	"	"	"	"	"	"	
४०८	"	"	"	"	"	"	"	"	
४०९	"	"	"	"	"	"	"	"	
४१०	"	"	"	"	"	"	"	"	
४११	"	"	"	"	"	"	"	"	
४१२	"	"	"	"	"	"	"	"	
४१३	"	"	"	"	"	"	"	"	
४१४	"	"	"	"	"	"	"	"	
४१५	"	"	"	"	"	"	"	"	
४१६	"	"	"	"	"	"	"	"	
४१७	"	"	"	"	"	"	"	"	
४१८	"	"	"	"	"	"	"	"	
४१९	"	"	"	"	"	"	"	"	
४२०	"	"	"	"	"	"	"	"	
४२१	"	"	"	"	"	"	"	"	
४२२	"	"	"	"	"	"	"	"	
४२३	"	"	"	"	"	"	"	"	
४२४	"	"	"	"	"	"	"	"	
४२५	"	"	"	"	"	"	"	"	
४२६	"	"	"	"	"	"	"	"	
४२७	"	"	"	"	"	"	"	"	
४२८	"	"	"	"	"	"	"	"	
४२९	"	"	"	"	"	"	"	"	
४३०	"	"	"	"	"	"	"	"	
४३१	"	"	"	"	"	"	"	"	
४३२	"	"	"	"	"	"	"	"	
४३३	"	"	"	"	"	"	"	"	
४३४	"	"	"	"	"	"	"	"	
४३५	"	"	"	"	"	"	"	"	
४३६	"	"	"	"	"	"	"	"	
४३७	"	"	"	"	"	"	"	"	
४३८	"	"	"	"	"	"	"	"	
४३९	"	"	"	"	"	"	"	"	
४४०	"	"	"	"	"	"	"	"	
४४१	"	"	"	"	"	"	"	"	
४४२	"	"	"	"	"	"	"	"	
४४३	"	"	"	"	"	"	"	"	
४४४	"	"	"	"	"	"	"	"	
४४५	"	"	"	"	"	"	"	"	
४४६	"	"	"	"	"	"	"	"	
४४७	"	"	"	"	"	"	"	"	
४४८	"	"	"	"	"	"	"	"	
४४९	"	"	"	"	"	"	"	"	
४५०	"	"	"	"	"	"	"	"	
४५१	"	"	"	"	"	"	"	"	
४५२	"	"	"	"	"	"	"	"	
४५३	"	"	"	"	"	"	"	"	
४५४	"	"	"	"	"	"	"	"	
४५५	"	"	"	"	"	"	"	"	
४५६	"	"	"	"	"	"	"	"	
४५७	"	"	"	"	"	"	"	"	
४५८	"	"	"	"	"	"	"	"	
४५९	"	"	"	"	"	"	"	"	
४६०	"	"	"	"	"	"	"	"	
४६१	"	"	"	"	"	"	"	"	
४६२	"	"	"	"	"	"	"	"	
४६३	"	"	"	"	"	"	"	"	
४६४	"	"	"	"	"	"	"	"	
४६५	"	"	"	"	"	"	"	"	
४६६	"	"	"	"	"	"	"	"	
४६७	"	"	"	"	"	"	"	"	
४६८	"	"	"	"	"	"	"	"	
४६९	"	"	"	"	"	"	"	"	
४७०	"	"	"	"	"	"	"	"	
४७१	"	"	"	"	"	"	"	"	
४७२	"	"	"	"	"	"	"	"	
४७३	"	"	"	"	"	"	"	"	
४७४	"	"	"	"	"	"	"	"	
४७५	"	"	"	"	"	"	"	"	
४७६	"	"	"	"	"	"	"	"	
४७७	"	"	"	"	"	"	"	"	
४७८	"	"	"	"	"	"	"	"	
४७९	"	"	"	"	"	"	"	"	
४८०	"	"	"	"	"	"	"	"	
४८१	"	"	"	"	"	"	"	"	
४८२	"	"	"	"	"	"	"	"	
४८३	"	"	"	"	"	"	"	"	
४८४	"	"	"	"	"	"	"	"	
४८५	"	"	"	"	"	"	"	"	
४८६	"	"	"	"	"	"	"	"	
४८७	"	"	"	"	"	"	"	"	
४८८	"	"	"	"	"	"	"	"	
४८९	"	"	"	"	"	"	"	"	
४९०	"	"	"	"	"	"	"	"	
४९१	"	"	"	"	"	"	"	"	
४९२	"	"	"	"	"	"	"	"	
४९३	"	"	"	"	"	"	"	"	
४९४	"	"	"	"	"	"	"	"	
४९५	"	"	"	"	"	"	"	"	
४९६	"	"	"	"	"	"	"	"	
४९७	"	"	"	"	"	"	"	"	
४९८	"	"	"	"	"	"	"	"	
४९९	"	"	"	"	"	"	"	"	
५००	"	"	"	"	"	"	"	"	

प्रमाण	मार्गणा	गुण स्थान	स्वस्थान स्वस्थान	विहारवत् स्वस्थान	वेदना व कपाय समुदात	वैक्रियक समुदात	मारणान्तिक समुदात	उपपाद	तेजस, आहारक व केवली समुदात
२०६	सामान्य तिर्यंच	३	त्रि/अस, ति/स म×अस	त्रि/अस, ति/स म×अस	त्रि/अस, ति/स म×अस	त्रि/अस, ति/स. म×अस	...	त्रि/अस, ति/स, म×अस	
२०७		४	"	"	"	"	S ६/१४ लोक		
"		५	"	"	"	"	"	मारणान्तिकवत्	
२११	पंचेन्द्रियतिर्यंच प	१	"	"	"	"	S ७/१४ लोक	१२/१४ लोक	
२१३		२	"	"	"	"	S ६/१४ लोक		
"		३	"	"	"	"	"	त्रि/अस, ति/स, म×अस	
"		४	"	"	"	"	"		
"		५	"	"	"	"	"		
२११	पंचे तिर्यं योनिमति	१-३	—	—	—	पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तवत्	←	—	
२१२		४-५	—	—	—	त्रि/अस, ति/स म×अस	←	सर्व (पृ. २१६)	
"		१	त्रि/अस, ति/स. म×अस						
३२०	३ मनुष्य गति —		च/अस, म/स	कुछ कम मनुष्य लोक	कुछ कम मनुष्य लोक	कुछ कम मनुष्य लोक	सर्व	मारणान्तिकवत्	मूलओषवत्
"	सामान्य व पर्याप्त मनुष्यणी		"	"	"	"	"	"	"
३२१	मनुष्य अपर्याप्त सामान्य व पर्याप्त	१	च/अस, म/स.	च/अस, म/स	च/अस, म/स	च/अस, म/स	"	"	"
२१६			"	"	"	"	S ७/१४ लोक	त्रि/अस, ति/स, म×अस	
२१७		२	"	"	"	"			
२२०		३	"	"	"	"			
२२१		४	"	"	"	"			
२२२		५	"	"	"	"			
२२३		६-१४	—	—	—	मूलोषवत्	←	—	—
२१६		१-३	—	—	—	मनुष्य पर्याप्तवत्	←	—	—
२२१	मनुष्यणी	४-६	—	—	—	"	←	—	—
२२३		७-१४	—	—	—	मूलोषवत्	←	—	—
२२३	मनुष्य अप.	१	च/अस, म/स.	च/अस, म/स	च/अस, म/स.	च/अस, म/स.	सर्व	सर्व	—

क्रमांक	मार्गवा	गुण-स्थान	स्वरान-स्वस्थान	विशारत स्वस्थान	वेदना कथाय समुहघात	वैक्यिक समुहघात	भारणात्तिक समुहघात	उपपाद	तैजस आहारक तैजसी समुहघात
३२५	४ देव गति		चि /असं, ति /नं, म०अस.	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ६/१४ लोक	S ६/१४ लोक	
३२६	सामान्य		च /असं, ति /स, म०अस	स्वनिमित्तक S७/२८ लोक परनिमित्तक = S८/१४ "	स्वनिमित्तक = S७/२८ लोक परनिमित्तक = S८/१४ "	स्वनिमित्तक = S७/२८ लोक परनिमित्तक = S८/१४ "	S ६/१४ लोक	त्रि /अस, ति /स, म०अस	
३२७	भयनासो		"	दीनो अपेक्षा "	दीनो अपेक्षा "	दीनो अपेक्षा "	"	"	
३२८	गन्तर ज्योतिषी		"	दीनो अपेक्षा "	दीनो अपेक्षा "	दीनो अपेक्षा "	"	"	
३२९	सौधर्म ईशान		च /अस, म०अस	क्रमेण ८/१४, S६/१४ लोक	क्रमेण ८/१४, S६/१४ लोक	क्रमेण ८/१४, S६/१४ लोक	क्रमेण S ८/१४, S ६/१४ लोक	S ३/२८ लोक	
३३०	सत्तुमार-सहस्रार पाँच युगदोमें प्रत्येक		"	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	क्रमेण S ३/१४, ७/२८, ४/१४, ६/२८, ५/१४ लोक	
३३१	आन्त-अच्युत (२ युगदोमें प्रत्येक)		सर्व /असं	S ६/१४ लोक	S ६/१४ लोक	S ६/१४ लोक	S ६/१४ लोक	क्रमेण S १/२८, ६/१४ लोक	
३३२	सर्ववैयक-अपराजित		च /अस, म०अस	च /अस, म०अस,	च /अस, म०अस,	च /अस, म०अस,	च /अस, म०अस,	च /अस, म०अस,	
३३३	सर्ववैयक		"	"	"	"	"	"	
३३४	सामान्य	१	त्रि /असं ति /स, म०अस,	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ६/१४ लोक	S ६/१४ लोक	
३३५		२	"	"	"	"	"	"	
३३६		३	"	"	"	"	"	"	
३३७		४	"	"	"	"	"	"	

प्रमाण	मार्गणा	गुण-स्थान	स्वस्थान	विहारसत् स्वस्थान	वेदना कषाय ममुद्घात	वैक्रियक समुद्घात	मारणान्तिक समुद्घात	उपपाद	तैजस आहारक व केवली समुद्घात
२१८	भवनवासी	१	च/अस, ति/स, मxअस	स्वनिमित्तक S०/२८ लोक परनिमित्तक = S८/१४ "	स्वनिमि = S०/२८ लोक परनिमि = S८/१४ " दोनों अपेक्षा "	स्वनिमि = S०/२८ लोक परनिमि = S८/१४ " दोनों अपेक्षा "	S ६/१४ लोक	त्रि/अस, ति/स, मxअस.	.
२२८		२	"	"	"	"	दोनों अपेक्षा वैक्रियकवत् S ६/१४ लोक	"	.
२३२		३	"	"	"	"	"	त्रि/अस, ति/स, मxअस	.
"		४	"	"	"	"	"	"	.
२२८	व्यन्तर ज्योतिषी	१	"	"	"	"	"	त्रि/अस, ति/स, मxअस	.
"		२	"	"	"	"	"	"	.
२३२		३	"	"	"	"	"	"	.
"		४	"	"	"	"	"	"	.
२३४	सौषर्म ईशान	१	"	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	"	S ३/२८ लोक	.
"		२	"	"	"	"	"	"	.
"		३	"	"	"	"	"	"	.
"		४	"	"	"	"	"	"	.
२३७	सनतकुमार-सहस्रार	१-२	"	"	स्व औषवत्	"	"	"	.
"		३	"	"	"	"	"	"	.
२३८	आग्न अच्युत	१-२	च/अस, ति/स, मxअस.	S ६/१४ लोक	S ६/१४ लोक	S ६/१४ लोक	"	च/अस, ति/स, मxअस	.
"		३	"	"	"	"	"	"	.
"		४	"	"	"	"	"	"	.
"		१-२	त्रि/अस, ति/स, मxअस	त्रि/अस, ति/स, मxअस	त्रि/अस, ति/स, मxअस	त्रि/अस, ति/स, मxअस	त्रि/अस, ति/स, मxअस.	क्रमेण S११/२८, S ६/१४ लोक	.
"		३	"	"	"	"	"	"	.
"		४	"	"	"	"	"	"	.
२४०	अदृशसे अपराजित	४	च/अस, मxअस.	च/अस, मxअस	च/अस, मxअस	च/अस, मxअस	च/अस, मxअस.	त्रि/अस, ति/स, मxअस	.
"	सर्वार्थ सिद्धि	४	म/स	म/स	म/स	म/स	म/स.	च/अस, मxअस.	.

समाप्त	मार्गणा	गुण-स्थान	स्वस्थान स्वस्थान	विहारवत् स्वस्थान	वेदना व कषाय समुद्घात	वैक्रियक समुद्घात	भारान्वित्तु समुद्घात	उपवाद	तेजस आहारक व केवली समुद्घात
२३३	२३३३ एकेन्द्रिय सा प अप	सर्व/स	.	.	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व	.
"	" " सू प अप	त्रि/स, ति/अस, म५अस	.	.	"	त्रि/स, ति/अस, म५अस	"	"	"
"	" " ना प अप	त्रि/अस, ति/स, म५अस	त्रि/अस, ति/स, म५अस	त्रि/अस, ति/स, म५अस	त्रि/अस, ति/स, म५अस	त्रि/अस, ति/स, म५अस	"	"	"
२३६	२३६६ द्विक्वेन्द्रिय सा प अप	"	"	त्रि/अस, ति/स, म५अस	त्रि/अस, ति/स, म५अस	त्रि/अस, ति/स, म५अस	"	"	"
२३६	२३६६ पचेन्द्रिय सा, प अप,	"	"	S ८/१४ लोका	S ५/१८ लोका	S ५/१८ लोका	"	"	"
२४०	एकेन्द्रियके सर्व विहरण	—	—	—	स्व औषवत्	—	—	—	—
२४२	द्विक्वेन्द्रिय " "	—	—	—	"	—	—	—	—
२४३	पचेन्द्रिय सा, प,	—	—	—	"	—	—	—	—
२४४	पचेन्द्रिय अप	—	—	—	सू औषवत्	—	—	—	—
२४५	पचेन्द्रिय अप	—	—	—	स्व औषवत्	—	—	—	—
२४६	३ काय मार्गणा—	सर्व	सर्व	.	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व	.
४०१	पृ अप बायु सा, व सू	"	"	.	"	त्रि/अस, ति/स, म५अस	"	"	...
"	प अप तेज, सू अप	त्रि/अस, ति/स, म५अस	त्रि/अस, ति/स, म५अस	.	"	त्रि/अस, ति/स, म५अस	"	"	..
"	तेज सा व सू प.	सर्व	सर्व	.	"	"	"	"	..
४०४	पृ अप तेज सा, प अप	त्रि/अस, ति/स, म५अस	त्रि/अस, ति/स, म५अस	.	"	त्रि/अस, ति/स, म५अस	"	"	..
४०६	बायु ना प अप	"	"	.	"	"	"	"	..
४१०	वन, निगोद सा, सू प अप	सर्व	सर्व	.	"	"	"	"	..
"	वन निगोद ना प अप	त्रि/अस, ति/स, म५अस	त्रि/अस, ति/स, म५अस	.	"	"	"	"	..
"	वन अप्रतिष्ठित प अप,	"	"	.	"	"	"	"	..

प्रमाण	मार्गणा	गुण स्थान	स्वस्थानस्वस्थान	विहारवस्वस्थान	वेदना कपाय ससुहृथात	नै क्रियक ससुहृथात	मारणान्तिक ससुहृथात	उपपाद	तेजस, आहारक व केवली ससुहृथात
म. १स २ पृ ५									
१४११	त्रसकाय प अप	१	—	—	पचेन्द्रियवत्	—	—	—	—
२४७	पृ अप सा मू प अप	१	सर्व	०	सर्व	०	सर्व	सर्व	०
२४७	वायु " " "	१	"	०	"	०	"	"	०
"	तेज " " "	१	"	०	"	०	"	"	०
२४७	पृ अप वा अप	१	त्रि/अस, ति/स, म/अस	०	त्रि/अस, ति/स, म/अस	०	सर्व	सर्व	०
२४८	वायु वा अप,	१	त्रि/स, ति/अस, म/अस	०	त्रि/स, ति/अस, म/अस	०	"	"	०
२४७	तेज वा अप	१	त्रि/अस, ति/स, म/अस	०	त्रि/अस, ति/स, म/अस	०	"	"	०
२४७	पृ. अप, वा प,	१	"	०	"	०	"	"	०
"	तेज वा प	१	"	०	"	०	"	"	०
२४८	वायु वा प	१	त्रि/स, ति/अस, म/अस	०	त्रि/स, ति/अस, म/अस	०	"	"	०
२४८	वन निगोद यू अप	१	सर्व	०	सर्व	०	सर्व	सर्व	०
"	वन निगोद सू. प	१	सर्व	०	सर्व	०	"	"	०
२४७	वन " वा अप	१	त्रि/अस, ति/स, म/अस	०	त्रि/अस, ति/स, म/अस	०	"	"	०
२४७	" " प	१	"	०	"	०	"	"	०
२४७	वन अप्रति प्रत्येक अप	२	"	०	"	०	"	"	०
२४९	" " प	१	"	०	"	०	"	"	०
२४८	त्रम अपर्मासि	१	त्रि/अस, ति/स, म/अस	०	त्रि/अस, ति/स, म/अस	०	"	"	०
"	त्रस पासि	१	"	०	"	०	"	"	०
"		२-१४	—	५८/१४ लोक	५८/१४ लोक	५८/१४ लोक	—	—	—

प्रमाण सं. १, २ पृ.	मार्गणा	गुण स्थान	स्वस्थानस्वस्थान	विहारवचस्वस्थान	वेदना कथाय समुद्घात	वैक्रियक समुद्घात	मारणान्तिक समुद्घात	उपपाद	तैजस, आहारक व केवली समुद्घात
४	योग मार्गणा— पौर्वो मन वचन योग	त्रि/अस, ति/स, म×अस	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	सर्व	सर्व	केवल तै, आ मूलोघवत्
४१३	काय योग सामान्य	सर्व	"	"	सर्व	"	"	सर्व	मूलोघवत्
४१४	औदारिक काय योग	"	त्रि/अस, ति/स, म×अस	त्रि/अस, ति/स, म×अस	"	त्रि/अस, ति/स, म×अस	"	सर्व	केवल समु मूलोघवत्
४१२	" मिश्र "	"	"	S ८/१४ लोक	"	S ८/१४ लोक	"	सर्व	
४१६	वैक्रियक काय योग	त्रि/अस, ति/स, म×अस	त्रि/अस, ति/स, म×अस	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S १३/१४ लोक	सर्व	
४१७	वैक्रियक मिश्र "	"	"	च/अस, म/स	स्वस्थानवच (नारक्तियौगै)			..	च/अस, म/स
४१८	आहारक काय योग	च/अस, म/स	च/अस, म/स	च/अस, म/स	च/अस, म/स				
४१६	" मिश्र "	"	"	सर्व	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	सर्व		
४२०	कार्मणि "	सर्व	सर्व	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	सर्व		
२६५	पौर्वो मन वचन योग	त्रि/अस, ति/स, म×अस	त्रि/अस, ति/स, म×अस	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	सर्व		
२६६		"	"	"	"	"	S १२/१४ लोक		
"		"	"	"	"	"	"		
२६७		—	—	—	—	मूलोघवत्	—		
२६८	काय योग सामान्य	सर्व	सर्व	S ८/१४ लोक	सर्व	S ८/१४ लोक	सर्व	सर्व	
"		—	—	—	—	मूलोघवत्	—		
२६९	औदारिक योग	सर्व	त्रि/अस, ति/स, म×अस	त्रि/अस, ति/स, म×अस	त्रि/अस, ति/स, म×अस	त्रि/अस, ति/स, म×अस	S ७/१४ लोक		
२६०		त्रि/अस, ति/स, म×अस	त्रि/अस, ति/स, म×अस	त्रि/अस, ति/स, म×अस	त्रि/अस, ति/स, म×अस	त्रि/अस, ति/स, म×अस	S ७/१४ लोक		
२६१		"	"	"	"	"	S ६/१४ लोक		
२६२		"	"	"	"	"	—		
"		—	—	—	—	मूलोघवत्	—		

प्रमाण	मार्गणा	गुण स्थान	स्त्रस्थानस्त्रस्थान	विहारवस्त्रस्थान	वेदना कषाय समुद्घात	वैक्रियक समुद्घात	मारणान्तिक समुद्घात	उपपाद	तैजस, आहारक व केवली समुद्घात
२६३	जीवितिक मिश्र	१	सर्व	..	सर्व	..	सर्व	सर्व	तैजस, आहारक व केवली समुद्घात
२६४		२	त्रि/अस, ति/स, मxअस	..	त्रि/अस, ति/स, मxअस	त्रि./असं, ति/स मxअस	तैजस, आहारक व केवली समुद्घात
"		३	त्रि./अस, ति/स, मxअस	..	त्रि/अस, ति/स, मxअस	त्रि./अस, ति/स मxअस	तैजस, आहारक व केवली समुद्घात
२६५		४	त्रि./अस, ति/स, मxअस	..	त्रि/अस, ति/स, मxअस	त्रि./अस, ति/स मxअस	तैजस, आहारक व केवली समुद्घात
२६६	वैक्रियक मिश्रयोग	१-२	त्रि/अस, ति/स, मxअस	S ५/१४ लोक	S ५/१४ लोक	S ५/१४ लोक	S १३/१४ लोक	..	केवली समुद्घात
२६७		२	"	"	"	"	S १२/१४ लोक	..	केवली समुद्घात
"		३	"	"	"	"	केवली समुद्घात
"		४	"	"	"	"	S ५/१४ लोक	..	केवली समुद्घात
२६८	वैक्रियक मिश्रयोग	१-२	"	..	"	त्रि/अस, ति/सं, मxअस	केवली समुद्घात
"		३	च/अस, मxअस	..	च/अस, मxअस	केवली समुद्घात
"		४	च/अस, म/सं	च/असं, म/स	च/अस, म/स	..	च/अस, मxअस	च/अस, मxअस	केवली समुद्घात
२६९	आहारक योग	६	"	..	"	केवली समुद्घात
"	मिश्र योग	६	सर्व	..	सर्व	केवली समुद्घात
२७०	नार्मणकाय योग	१	केवली समुद्घात
"		२	केवली समुद्घात
"		३	केवली समुद्घात
"		४	केवली समुद्घात
२७१		१३	६/१४ लोक	प्रतर न लोकपूर्ण मूलोषवत्

प्रमाण	मार्गणा	गुण स्थान	स्वस्थान-स्वस्थान	विहारवत्-स्वस्थान	वेदना कथाय व समुदात	वै क्रियक समुदात	मारणात्तिक समुदात	उपपाद	तैजस-आहारक व केवली समुदात
५	वेदमार्गणा— ४२० स्रीवेद (देवीप्रधान)	त्रि/अस, ति/स, म/अस.	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	सर्व या ६/१४ लोक	त्रि/अस, ति/स, ६/१४ लोक	तै व आ मूलोषवत्
"	" पुरुषवेद (देव ")	" सर्व	त्रि/अस, ति/स, म/अस	त्रि/अस, ति/स, म/अस	" सर्व	त्रि/अस, ति/स, म/अस	" सर्व	" सर्व	"
४३३	नपुसक वेद	त्रि/अस, म/स	त्रि/अस, म/स	त्रि/अस, म/स	"	८/१४ लोक	च/अस, म/अस	"	केवल समुदात ओषवत्
४२४	अपगत वेद	त्रि/अस, ति/सं, म/अस	त्रि/अस, ति/सं, म/अस	८/१४ लोक	८/१४ लोक	८/१४ लोक	सर्व	सर्व	"
२७१	स्री वेद	म/अस	"	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ६/१४ लोक	S ११/१४ लोक	"
२७२	"	"	"	"	"	"	S ८/१४ लोक	"	"
२७४	"	"	"	"	"	"	S ८/१४ लोक	S ६/१४ लोक	"
२७५	"	त्रि/अस, ति/स, म/अस	त्रि/अस, ति/स, म/अस	त्रि/अस, ति/स, म/अस	त्रि/अस, ति/स, म/अस	त्रि/अस, ति/स, म/अस	S ६/१४ लोक	"	"
"	"	च/अस, म/स	च/अस, म/स	च/अस, म/स	च/अस, म/स	च/अस, म/स	च/अस, म/असं.	"	"
२७६-२७७	पुरुष वेद	—	—	—	—	→ स्रीवेद वत्	—	—	—
२७५	"	—	—	—	—	→	—	—	—
"	"	—	—	—	—	→	—	—	—
२७६	नपुसक वेद	सर्व	सर्व	त्रि/अस, ति/स, म/अस	सर्व	८/१४ या ६/१४ लोक	सर्व	सर्व	तैजस व आहा ओषवत्
२७७	"	त्रि/अस, ति/स, म/अस	त्रि/अस, ति/स, म/अस	त्रि/अस, ति/स, म/अस	त्रि/अस, ति/स, म/अस	त्रि/अस, ति/स, म/अस	S १२/१४ लोक	S ११/१४ लोक	"
"	"	"	"	"	"	"	S ६/१४ लोक	च/अस, म/अस	"
२७८	"	"	"	"	"	"	"	"	"

प्रमाण	गुणस्थान	गुण-स्थान	स्वस्थान स्वस्थान	विहारवत् स्वस्थान	वेदना कर्पाय समुद्रघात	वैक्रियक समुद्रघात	माराणविक समुद्रघात	उपपाद	तैजस आहारक व केमलि समुद्रघात
१७८		६-६	च/अस, म/सं,	म लोक	म लोक → मूलोषवत् ←	म लोक	च/अस, मXअस	—	—
१७९	उपगत वेद	१०-१४	—	—	→ मूलोषवत् ←	—	—	—	—
१८०	६ कर्पायमार्गणा— चारों कर्पाय	—	मर्व	त्रि/अस, ति/सं, मXअस	सर्व	S ८/१४ लोक	सर्व	सर्व	तै, व आ ओषवत्
१८१	अर्पाय	—	—	—	—	→ अपगतवेदवत् ←	—	—	—
१८२	चारों कर्पाय	१-१४	—	—	—	→ मूलोषवत् ←	—	—	—
१८३	अर्पाय	११-१४	—	—	—	→ " ←	—	—	—
१८४	७. मानमार्गणा— मतिश्रुत अज्ञान	—	सर्व	८/१४ लोक	सर्व	८/१४ लोक	सर्व	सर्व	—
१८५	विभंग ज्ञान	—	त्रि/अस, ति/सं, मXअस	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	देवनारको १३/१४ लोक तियं मनुष्य=सर्व	सर्व	—
१८६	मति, श्रुत अविज्ञान	—	"	"	"	"	८/१४ लोक	६/१४ लोक	तै आ ओषवत्
१८७	मन पर्याय ज्ञान	—	च/असं, मXअस	च/अस, मXअस	च/अस, मXअस	च/अस, मXअस	च/अस, मXअस	—	"
१८८	केवलज्ञान	—	सर्व	८/१४ लोक	सर्व	८/१४ लोक	सर्व	सर्व	—
१८९	मतिश्रुत अज्ञान	१	त्रि/असं, ति/सं, मXअस	८/१४ लोक	८/१४ लोक	८/१४ लोक	१२/१४ लोक	१२/१४ लोक	—
१९०	विभंग ज्ञान	२	मXअस	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	सर्व	सर्व	—
१९१	मति श्रुत अविधि	४-१२	"	"	"	"	S १२/१४ लोक	१२/१४ लोक	—
१९२	मन पर्याय ज्ञान	६	—	—	→ मूलोषवत् ←	—	—	—	—
१९३	केवल ज्ञान	१३-१४	—	—	→ " ←	—	—	—	—

प्रमाण	गुणस्थान	गुणस्थान	स्वस्थान	विहारवत् स्वस्थान	वेदना कषाय समुहवात	वै क्रियक समुहवात	मारणात्मिक समुहवात	उपमाद	तैजस आहार व केवली समुहवात
४३१	संयम सामान्य	त्रि/अस, म/सं	त्रि/अस, म/स	त्रि/अस, म/स	त्रि/अस, म/सं	त्रि/अस, म/सं	च/अस, म×असं	...	मूलोषवत्
"	सामाजिक छेदो	च/अस, म/अस	च/अस, म/अस	च/अस, म/अस	च/अस, म/अस	च/अस, म/अस	च/अस, म×अस		तै आ मूलोषवत्
"	परिहार विशुद्धि	"	"	"	"	"	"		
"	सूक्ष्म साम्प्रदाय	"	"	"	"	"	"		
४३२	संयतासयत	त्रि/अस., त्रि/स	त्रि/अस, त्रि/स,	त्रि/अस, त्रि/स,	त्रि/अस., त्रि/स.	त्रि/अस, त्रि/सं	S ६/१४ लोक		
४३४	असयत	म ×असं	म ×अस.	म ×अस	म ×अस	म ×अस	—		—
४३५	संयम सामान्य	—	—	—	—	→ नुसक वेदवत्	—		.
४३६	सामाजिक छेदोप.	—	—	—	—	→ मूलोषवत्	—		.
"	परिहार विशुद्धि	—	—	—	—	→ "	—		..
"	"	—	—	—	—	→ स्व लोषवत्	—		.
४३७	सूक्ष्म साम्प्रदाय	—	—	—	—	→	स्व लोषवत्		.
"	यथाख्यात	—	—	—	—	→	—		.
"	संयतासयत	—	—	—	—	→	—		..
४३८	असंयत	—	—	—	—	→	—		..

प्रमाण	मार्गणा	गुण स्थान	स्वस्थान स्वस्थान	विहारवतस्वस्थान	वेदना व कषाम समुदात	वैक्रियक समुदात	मारणान्तिक समुदात	उपपाद	तैजस आहारक व केवती समुदात
म १ सं २ पृ ५	१. दर्शन मार्गणा								
४३३	चमु दर्शन	त्रि/अस, ति/स, मXअस	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	सर्व	(लघ्विकी अपेक्षा) १२/१४ लोक व सर्व	तैजस व आहारक ओषवत्
४३७	अचक्षु दर्शन	—	—	—	नपुसक वेदवत्	—	—	—	—
४३८	अधि दर्शन	—	—	—	अधि ज्ञानवत्	—	—	—	—
४३९	केवल दर्शन	—	—	—	केवल ज्ञानवत्	—	—	—	—
४४०	चमु दर्शन	—	—	—	स्व ओषवत्	—	—	—	—
४४१	अचक्षु दर्शन	—	—	—	मूलोषवत्	—	—	—	—
४४२	अधि दर्शन	—	—	—	मूलोषवत्	—	—	—	—
४४३	केवल दर्शन	—	—	—	अधि ज्ञानवत्	—	—	—	—
४४४	केवल दर्शन	—	—	—	केवल ज्ञानवत्	—	—	—	—
१०. लेख्या मार्गणा									
४४५	कृष्ण नील कापोत	—	—	—	नपुसक वेदवत्	—	—	—	—
४४६	तेज	त्रि/अस, ति/स, मXअस	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	८/१४ लोक	८/१४ लोक	६/१४ लोक	S ३/२८ लोक	—
४४७	पद्म	"	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ४/१४ लोक	..
४४८	शुक्र	"	६/१४ लोक	६/१४ लोक	६/१४ लोक	६/१४ लोक	S ६/१४ लोक	६/१४ लोक	मूलोषवत्
४४९	कृष्ण नील कापोत	सर्व	त्रि/अस, ति/स, मXअस	त्रि/अस, ति/स, मXअस	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व	.
४५०		१	त्रि/अस, ति/स, मXअस	च/अस, मXअस	च/अस, मXअस	त्रि/अस, ति/स, मXअस	क्रमशः S ४/१४, ४/१४, ३/१४ लोक	मारणान्तिकवत्	..
४५१		२	त्रि/अस, ति/स, मXअस	च/अस, मXअस	च/अस, मXअस	त्रि/अस, ति/स, मXअस	क्रमशः S ४/१४, ४/१४, ३/१४ लोक	मारणान्तिकवत्	..
४५२		३	"	"	"	"
४५३		४	"	"	"	"	कृष्ण = च/अस, मXअस	मारणान्तिकवत्	..

प्रमाण	प्रमाण	गुण स्थान	स्वस्थान-स्वस्थान	विहारद्वस्वस्थान	वेदना व कषाय समुदात	वै क्रियक समुदात	मारणान्तिक समुदात	उपपाद	तैजस आहारक व केवली समुदात
२६६	तेज	१-२	त्रि/अस, ति/स, मXअस	८/१४ लोक	८/१४ लोक	८/१४ लोक	नील=, कापीत=ति/अस, त्रि/म,मXअस, ६/१४ लोक	"	
"	"	३	"	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	"	
२६६	"	४	त्रि/अस, ति/स, मXअस	"	"	"	S ३/१८ लोक	३/१८ लोक	
२६६	"	५	त्रि/अस, ति/स, मXअस	त्रि/अस, ति/स, मXअस	त्रि/अस, ति/स, मXअस	त्रि/अस, ति/स, मXअस	S ५/१४ लोक	S ३/१८ लोक	
२६७	पद्म	६-७	"	"	"	"	"	"	
"	"	१-२	त्रि/अस, ति/स, मXअस	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ८/१४ लोक	S ५/१४ लोक	
"	"	३	"	"	"	"	"	"	
"	"	४	"	"	"	"	"	"	
२६८	पद्म	५	त्रि/अस, ति/स, मXअस	त्रि/अस, ति/स, मXअस	त्रि/अस, ति/स, मXअस	त्रि/अस, ति/स, मXअस	त्रि/अस, ति/स, मXअस	S ५/१४ लोक	
"	"	६-७	"	"	"	"	"	"	
२६९	शुक्र	१-२	त्रि/अस, ति/स, मXअस	S ६/१४ लोक	S ६/१४ लोक	S ६/१४ लोक	S ६/१४ लोक	च/अस, मXअस	
"	"	३	"	"	"	"	"	"	
"	"	४	"	"	"	"	"	"	
३००	"	५	त्रि/अस, ति/स, मXअस	त्रि/अस, ति/स, मXअस	त्रि/अस, ति/स, मXअस	त्रि/अस, ति/स, मXअस	S ६/१४ लोक	मारणान्तिकवत्	
"	"	६-१४	"	"	"	"	"	"	

प्रमाण सं. र. सं. सं. पृ. पृ.	मार्गना	युग्म- रथा	रत्नस्थान- स्थान	निष्कारण- स्थान	वेदना- रथा	ने किमक- समुद्रागत	मार्गना- समुद्रागत	उपपाद	तीव्र- आहारक- के- सही- समुद्रागत
१०७	उपशम	५	पि./असं., ति./सं., म.असं.,	५८/१४ लोक	५८/१४ लोक	५८/१४ लोक	प./असं., म.असं.,	मार्गना- समुद्रागत	..
१०८	..	६	पि./असं., ति./सं., म.असं.,	पि./असं., ति./सं., म.असं.,	पि./असं., ति./सं., म.असं.,	पि./असं., ति./सं., म.असं.,
१०९	सासारम	६-११	युद्धोपपाद
११०	साम्यनिष्कारण	३	"
१११	निष्कारण	३	"
११२	संक्षी- मार्गना	३	पि./असं., ति./सं., म.असं.,	५/१४ लोक	५८/१४ लोक	५८/१४ लोक	संक्षी- मार्गना	मार्गना- समुद्रागत	युद्धोपपाद
११३	संक्षी
११४	असंक्षी	२	नर्तक- वेदना
११५	संक्षी	२-१४	स्व- लोपपाद
११६	असंक्षी	१	सर्ग	पि./असं., ति./सं., म.असं.,	सर्ग	५/१४ लोक	सर्ग	सर्ग	..
११७	सर्ग	५८/१४ लोक	सर्ग	पि./असं., ति./सं., म.असं.,	सर्ग	सर्ग	युद्धोपपाद
११८	आहारक- मार्गना	केनही- युद्धोपपाद
११९	आहारक	१	पि./असं., ति./सं., म.असं.,	५८/१४ लोक	युद्धोपपाद	५८/१४ लोक	पि./असं., ति./सं., म.असं.,	पि./असं., ति./सं., म.असं.,	..
१२०	...	२	"
१२१	...	३	"
१२२	...	४	"
१२३	...	५	पि./असं., ति./सं., म.असं.,	पि./असं., ति./सं., म.असं.,	पि./असं., ति./सं., म.असं.,	पि./असं., ति./सं., म.असं.,	पि./असं., ति./सं., म.असं.,	पि./असं., ति./सं., म.असं.,	..
१२४	...	६-१३	युद्धोपपाद

प्रमाण नं. पृ.	मार्गणा	गुण-स्थान	स्वस्थान-स्वस्थान	बिहारवत् स्वस्थान	वेचना व कयाय समुहवात	वै क्रियक समुहवात	मारणान्तिक समुहवात	उपपाद	तै जस आहारक व केवल समुहवात	
										प्रकृति
मूल प्रकृति	मूल प्रकृति	मूल प्रकृति	मूल प्रकृति	मूल प्रकृति	मूल प्रकृति	मूल प्रकृति	मूल प्रकृति	मूल प्रकृति	मूल प्रकृति	
३०६	अनाहारक	१	सर्व	.	सर्व			सर्व	..	
"	"	२	.	.	.			११/१४ लोक	.	
"	"	४	.	.	.			६/१४ लोक	प्रतर व लोकपूर्ण	
"	"	१३	मूलोषवत्	
"	"	१४	.	.	.			सर्व/अस.		
सं	पद विकोप	मूल प्रकृति	प्रकृति	उत्तर प्रकृति	मूल प्रकृति	स्थिति	उत्तर प्रकृति	मूल प्रकृति	अनुभाग	प्रदेश
५	अष्टकर्मोंके चतु वन्धकोंकी ओघ आदेश प्ररूपणा—(म. व. /गु. /§ /घृ)									
१	ज. उ पद	१/२६२-३३६, १६१-२३६	२/१७०-१८६/१०१-११०	३/४७८-५२१/२१७-४३	४/२०८-३६/६१-१०६	५/२०८-३६/६१-१०६	६/२०८-३६/६१-१०६	७/२०८-३६/६१-१०६	८/२०८-३६/६१-१०६	९/२०८-३६/६१-१०६
२	भुजगारादि पद		२/३२०-३१७/१६३-१६६	३/७७५-७६४/३६७-३७६	४/१०३-१२७/१३४-१३७	५/१०३-१२७/१३४-१३७	६/१०३-१२७/१३४-१३७	७/१०३-१२७/१३४-१३७	८/१०३-१२७/१३४-१३७	९/१०३-१२७/१३४-१३७
३	बुद्धि हानि		२/३६१ ४००/१६८-१७५	३/६३३-६६६/४५५-४७३	४/६३३-६६६/४५५-४७३	५/६३३-६६६/४५५-४७३	६/६३३-६६६/४५५-४७३	७/६३३-६६६/४५५-४७३	८/६३३-६६६/४५५-४७३	९/६३३-६६६/४५५-४७३
६	सोहनीय सल्मिक बन्धकोंकी ओघ आदेश प्ररूपणा—(क पा /गु. /§ /घृ)									
१	दोष व पेज	१/३८४-३८१/३६६-४०४	२/३६२-३६६/३२६-३३४	३/११६-१२२/१६५-१७१	४/१०३-१२७/१३४-१३७	५/१०३-१२७/१३४-१३७	६/१०३-१२७/१३४-१३७	७/१०३-१२७/१३४-१३७	८/१०३-१२७/१३४-१३७	९/१०३-१२७/१३४-१३७
२	२४, २८ आदि स्थान		२/१७६-१८२/१६५-१७१	३/११६-१२२/१६५-१७१	४/१०३-१२७/१३४-१३७	५/१०३-१२७/१३४-१३७	६/१०३-१२७/१३४-१३७	७/१०३-१२७/१३४-१३७	८/१०३-१२७/१३४-१३७	९/१०३-१२७/१३४-१३७
३	सत्ता असत्ताके -		२/३६२-३६६/३२६-३३४	३/११६-१२२/१६५-१७१	४/१०३-१२७/१३४-१३७	५/१०३-१२७/१३४-१३७	६/१०३-१२७/१३४-१३७	७/१०३-१२७/१३४-१३७	८/१०३-१२७/१३४-१३७	९/१०३-१२७/१३४-१३७
४	ज उ पद	२/८१-८८/६०-७१	३/१०३-१२७/१३४-१३७	४/१०३-१२७/१३४-१३७	५/१०३-१२७/१३४-१३७	६/१०३-१२७/१३४-१३७	७/१०३-१२७/१३४-१३७	८/१०३-१२७/१३४-१३७	९/१०३-१२७/१३४-१३७	१०/१०३-१२७/१३४-१३७
५	भुजगारादि पद		२/३६२-३६६/३२६-३३४	३/११६-१२२/१६५-१७१	४/१०३-१२७/१३४-१३७	५/१०३-१२७/१३४-१३७	६/१०३-१२७/१३४-१३७	७/१०३-१२७/१३४-१३७	८/१०३-१२७/१३४-१३७	९/१०३-१२७/१३४-१३७
६	बुद्धि हानि		२/६१८-६२४/४६६-४७०	३/११६-१२२/१६५-१७१	४/१०३-१२७/१३४-१३७	५/१०३-१२७/१३४-१३७	६/१०३-१२७/१३४-१३७	७/१०३-१२७/१३४-१३७	८/१०३-१२७/१३४-१३७	९/१०३-१२७/१३४-१३७
७	अन्य प्ररूपणाओंकी सूची—									
१	पौच शरीरके योग्य पुद्गल स्मर्थोंकी ज उ सघातन परिशासन कृतिके स्वामियोंकी अपेक्षा—दे घ ६/३७०-३८० ।									
२	पौच शरीरके स्वामियोंके २, ३, ४ आदि भंगोंकी अपेक्षा—									
३	२३ प्रकार तर्गणाओं का जघन्य स्वर्ण—									

कथन करना व्यर्थ है । उत्तर—ऐसा नहीं है, क्योंकि, मनोदुष्प्रणिधानमें अन्य विचार नहीं आता, जिस विषयका विचार किया जाता है, उसमें भी क्रोधादिका आवेश आ जाता है, किन्तु स्मृत्यनुप्रस्थानमें चिन्ताके विकल्प चलते रहते हैं और चित्तमें एकाग्रता नहीं आती । अथवा रात्रि और दिनकी निरव क्रियाओंको ही प्रमादकी अधिकतासे भूल जाना स्मृत्यनुप्रस्थान है । (चा सा १०/५)

स्यन्दन—घ १४/५,६,४२/३६/१ चक्रवर्ति-बलदेवार्ण चडणजोग्गा सञ्वालहायुष्णा णिमणपवणवेगा अच्छे भगे वि चक्कघडणगुणेण अपडिहयगमणा सदणा गाम । = जो चक्रवर्ती और बलदेवोंके चढने योग्य होते हैं, जो सर्व आयुषोसे परिपूर्ण होते हैं, जो पवनके समान वेगवाले होते हैं और धुरके दूट जानेपर भी जिनके चक्कोंकी इस प्रकारकी रचना होती है जिस गुणके कारण जिनके गमनागमनमें बाधा नहीं पड़ती वे स्यन्दन कहलाते हैं ।

स्यात्—१. स्यात् शब्दका लक्षण

रा, वा ४/४२/१५/२६३/११ तेनेतरनिवृत्तिप्रसङ्गे तत्सभ्रवप्रदर्शनार्थं स्याच्छब्दप्रयोग, स च लिङन्तप्रतिरूपको निपात । तस्यानेकान्त-विधिविचारादिषु बहुष्वर्थेषु स भवत्सु इह विवक्षावशात् अनेकान्तार्थो गृह्यते । अथवा, स्याच्छब्दोऽयमनेकान्तार्थस्य द्योतक । द्योतकश्च वाचकप्रयोगसन्निधिमन्तरेणाभिप्रेतार्थविद्योतनाय नालमिति तद्व्योत्यधर्माधारार्थाभिधानायेतरपदप्रयोग क्रियते । अथ केनोपात्तोऽनेकान्तार्थं अनेन द्योत्यते । उक्तमेतत्—अभेदवृत्त्या अभेदोपचारेण वा प्रयुक्तशब्दवाच्यतामेवास्वन्दन्ति इतरे धर्मा इति । = इससे, इतर धर्मोंकी निवृत्तिका प्रसंग होता है, अतः उन धर्मोंका सद्भाव द्योतन करनेके लिए 'स्यात्' शब्दका प्रयोग किया गया है । स्यात् शब्द लिङन्त प्रतिरूपको निपात है । इसके अनेकान्त विधि विचार आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं । परन्तु विवक्षावश यहाँ अनेकान्त अर्थ लिया गया है । अथवा स्यात् शब्द अनेकान्तका द्योतक होता है । जो द्योतक होता है वह किसी वाचक शब्दके द्वारा कहे गये अर्थका ही द्योतन कर सकता है अतः उसके द्वारा प्रकाश्य धर्मकी सूचनाके लिए इतर शब्दोंका प्रयोग किया गया है । प्रश्न—इसके द्वारा किस कारणसे अनेकान्तार्थका द्योतन होता है । उत्तर—यह बात पहले भी कही जा चुकी है कि अभेद वृत्ति वा अभेदोपचारके द्वारा प्रयुक्त शब्दोंकी वाच्यता ही इतने धर्मोंका ग्रहण करती है । (स, भ, त / ३१/१०)

रातो वा २/१६/५५/४५६/१ स्यादिति निपातोऽयमनेकान्तविधिविचारादिषु बहुष्वर्थेषु वर्तते । = स्यात् यह लिङन्तप्रतिरूपको निपात अनेकान्त, विधि, विचार, और विद्या आदि बहुवचन अर्थोंमें वर्त रहता है । (विशेष दे स्याद्वाद/५/२) ।

अष्टसहस्री/टिप्पणी/पृ २८६ विधि-आदिष्वर्थेषु अपि लिङ्जकारस्य स्यादिति क्रियारूप पद सिद्धवति । परन्तु नाय स शब्द निपात इति विशेष्योक्तत्वात् । = स्यात् शब्द विधि आदि अर्थोंमें लिङ्जकारकी क्रिया रूप पदको सिद्ध करता है, परन्तु यह स्यात् शब्द निपात नहीं है । क्योंकि विशेषता पहले कह दी गयी है ।

२. स्यात् नामक निपात शब्द द्योतक व वाचक दोनों है

आस मी/भाषा/१/१४/२३ (सप्त भगोमें) सत् आदि शब्द है ते तौ अनेकान्तके वाचक है और कथंचित् शब्द है सो अनेकान्तका द्योतक है । बहुवचन इसके आगे एवकार शब्द है सो अवधारण कहिये नियम के अधि होइ है । बहुवचन यह कथंचित् शब्द है सो गाना पर्याय शब्द स्यात् है ।

स. भं त २३/१ न च निपातानां द्योतकत्वादेवकारस्य वाचकत्वं न संभवतीति वाच्यम् । निपातानां द्योतकत्वपक्षस्य वाचकत्वपक्षस्य च शास्त्रे दर्शनात् । 'द्योतकाश्च भवन्ति निपाता' इत्यत्र च शब्दाद्वाचकाश्च इति व्याख्यानात् । = कदाचित् यह कही कि निपातोंको द्योतकता है नैकि वाचकताका सम्भव है । सो ऐसा नहीं है, क्योंकि निपातोंका द्योतकत्व तथा वाचकत्व दोनों शास्त्रोंमें देखे गये हैं । 'द्योतकाश्च भवन्ति निपाता' निपात द्योतक भी होते हैं इस वाक्यमें च शब्दसे वाचकताका भी व्याख्यान किया गया है ।

३. स्यात् शब्दकी अर्थ विवक्षा

स. भं. त ३०/१ स्याच्छब्दस्य चानेकान्तविधिविचारादिषु बहुष्वर्थेषु स भवत्सु इह विवक्षावशादनेकान्तार्थो गृह्यते । = यद्यपि अनेकान्त, विधि, विचार आदि अनेक अर्थ स्यात्कारके सम्भव हैं तथापि यहाँ वक्तृकी विशेष डच्छासे अनेकान्तार्थ वाचक ही स्यात्कार शब्दका ग्रहण है ।

४. स्यात् शब्दका संशय अर्थमें मी प्रयोग होता है

घ. १३/५,४,२६/५८/१० तस्मिन् चैव अत्ये गुणस्य पञ्जायस्य वा सकमदि । पुत्रिवल्लजोगादो जोगतर पि सिया सकमदि । = (पृथक्त्वं वितर्क वीचार शुक्लध्यान अन्तर्मुहूर्त तक एक ही अर्थको ध्यानेके पश्चात्) अर्थान्तरपर नियमसे सक्रामित होता है । और पूर्व योगसे स्यात् (अनियमित रूपसे) योगान्तरपर सक्रामित होता है ।

*** स्यात् शब्दकी प्रयोग विधि व उसका महत्त्व**

—दे, स्याद्वाद/४,५ ।

स्याद्वाद—आ शुभभद्र (ई १५१६-१५५६) द्वारा रचित एक न्याय विषयक ग्रन्थ ।

स्याद्वाद—अनेकान्तमयी वस्तु (दे अनेकान्त) का कथन करनेकी पद्धति स्याद्वाद है । किसी भी एक शब्द या वाक्यके द्वारा सारीकी सारी वस्तुका युगपत् कथन करना अशक्य होनेसे प्रयोजनवश कभी एक धर्मको मुख्य करके कथन करते हैं और कभी दूसरेको । मुख्य धर्मको सुनते हुए श्रोताको अन्य धर्म भी गौण रूपसे स्वीकार होते रहें उनका निषेध न होने पावे इस प्रयोजनसे अनेकान्तमयी अपने प्रत्येक वाक्यके साथ स्यात् या कथंचित् शब्दका प्रयोग करता है ।

१	स्याद्वाद निर्देश
१	स्याद्वादका लक्षण ।
०	विवक्षाका ठीक ठीक स्वीकार ही स्याद्वादकी सत्यता है ।
३	स्याद्वादके प्रामाण्यमें हेतु ।
#	स्याद् पदमें अर्थ
२	अपेक्षा निर्देश
१	सापेक्ष व निरपेक्षका अर्थ ।
२	विवक्षा एक ही अंश पर लागू होती है अनेक-पर नहीं ।
३	विवक्षाकी प्रयोग विधि ।

४	विवक्षाकी प्रयोग विधि प्रदर्शक सारणी ।
*	वस्तुमें अनेकों विरोधी धर्म व उनमें कथचित् अविरोध —दे अनेकान्त/४/५ ।
*	अनेकों अपेक्षासे वस्तुमें मेदामेद —दे सप्तभगी/५ ।
*	मेद व अमेदका समन्वय —दे द्रव्य/४ ।
*	नित्यानित्यत्वका समन्वय —दे उत्पाद/२ ।
५	अपेक्षा प्रयोगका कारण वस्तुका जटिल स्वरूप ।
६	एक अशका लोप होनेपर सबका लोप हो जाता है ।
७	अपेक्षा प्रयोगका प्रयोजन ।
३	मुख्य गौण व्यवस्था
१	मुख्य व गौणके लक्षण
२	मुख्य गौण व्यवस्थासे ही वस्तु स्वरूपकी सिद्धि है ।
३	सप्तभगीमें मुख्य गौण व्यवस्था ।
४	विवक्षा वश मुख्यता व गौणता होती है ।
५	गौणका अर्थ निषेध करना नहीं ।
४	स्यात् व कथचित् शब्द प्रयोग विधि
१	स्यात्कारका सम्यक् प्रयोग ही कार्यकारी है ।
२	व्यवहारके साथ ही स्यात्कार आवश्यक है निश्चयके साथ नहीं ।
*	स्यात्कारका सच्चा प्रयोग प्रमाण ज्ञानके पश्चात् ही सम्यक् होता है —दे नय/II/१० ।
३	स्यात्कारका प्रयोग धर्मोंमें होता है गुणोंमें नहीं ।
४	स्यात्कार भावमें आवश्यक है शब्दमें नहीं ।
*	स्यात् शब्दकी प्रयोग विधि —दे, सप्तभगी/२/३:५ ।
५	कथचित् शब्दके प्रयोग ।
५	स्यात्कारका कारण व प्रयोजन
१	स्यात्कार प्रयोगका प्रयोजन एकान्त निषेध ।
*	स्यात् शब्दसे ही नय सम्यक् होती हैं ।
२	स्यात्कार प्रयोगके अन्य प्रयोजन ।
*	स्याद्वादका प्रयोजन हेयोपादेय बुद्धि —दे अनेकान्त/३/२ ।
३	सप्त भगीमें स्यात् शब्द प्रयोगका फल ।
४	एवकार व स्यात्कारका समन्वय ।

स्व. स्तो./मू/१०२-१०३ [सर्वथा नियमस्यागी यथादृष्टमपेक्षक । स्याच्छब्दस्तावके न्याये नान्येषामात्मविद्विषाम् । १०२। अनेकान्ता-ऽप्यनेकान्त प्रमाणनयसाधन' । अनेकान्त प्रमाणत्वे तदेकान्तो-ऽपि तात्रयात् । १०३।

स. सा./ता वृ./स्याद्वाद अधिकार/५१६/११/ पर उद्धृत—धर्मिणोऽनन्त-रूपत्व धर्माणां न कथंचन । अनेकान्तोऽप्यनेकान्त इति जैनमतं तत । —१. सर्वथा रूपसे—सत् ही है, असत् ही है इत्यादि रूपसे प्रति-पादनके नियमका त्यागी और यथादृष्टको—जिस प्रकारसे वस्तु प्रमाण प्रतिपन्न है उसको अपेक्षामें रखनेवाला जो स्यात् शब्द है वह आपके न्याय (मत) में है । दूसरोंके न्यायमें नहीं है जो कि आपके वैरो हैं । १०२। आपके मतमें अनेकान्त भी प्रमाण और नय साधनों-को लिये हुए अनेकान्त स्वरूप है, प्रमाणकी दृष्टिसे अनेकान्त स्वरूप दृष्टिगत होता है और विवक्षित नयकी अपेक्षासे अनेकान्तमें एकान्त रूप सिद्ध होता है । १०३। (स सा /स्याद्वाद अधिकार/ता वृ / ५१६/६) । २. धर्मों अनेकान्त रूप है क्योंकि वह अनेक धर्मोंका समूह है परन्तु धर्म अनेकान्त रूप कदाचित् भी नहीं क्योंकि एक धर्मके आश्रय अन्य धर्म नहीं पाया जाता (इस प्रकार अनेकान्त भी अनेकान्त रूप है अर्थात् अनेकान्तात्मक वस्तु अनेकान्त रूप भी है और एकान्तरूप भी है ।

स सा /ता वृ स्याद्वाद अधिकार/५१३/१७ स्यात्कथंचित् विवक्षित-प्रकारेणानेकान्तरूपेण वदन वादो जल्प कथन प्रतिपादनमिति स्याद्वाद । =स्यात् अर्थात् कथंचित् या विवक्षित प्रकारसे अनेकान्त रूपसे वदना, वाद करना, जल्प करना, कहना प्रतिपादन करना स्याद्वाद है ।

स्व स्तो /टी/१३४/२६४ उत्पाद्यते उत्पाद्यते येनासी वाद , स्यादिति वादो वाचक शब्दो यस्यानेकान्तवादस्यादौ स्याद्वाद । = 'उत्पा-द्यते' अर्थात् जिसके द्वारा प्रतिपादन किया जाये वह वाद कहलाता है । स्याद्वादका अर्थ है वह वाद जिसका वाचक शब्द 'स्यात् हो अर्थात् अनेकान्तवाद है ।

२ विवक्षाका ठीक-ठीक स्वीकार ही स्याद्वादकी सत्यता है

स. सा /प जयचन्द/३४४/४७३ आत्माके कर्तृत्व-अकर्तृत्वकी विवक्षा-को यथार्थ मानना ही स्याद्वादको यथार्थ मानना है ।

३. स्याद्वादके प्रामाण्यमें हेतु

न्या वि /३/८६/३६४ स्याद्वाद श्रवणज्ञानहेतुत्वाच्चक्षुरादिवत् । प्रमा प्रमितिहेतुत्वात्प्रामाण्यमुपगम्यते । ८६। = शब्दको सुननेका कार्य वाच्य पदार्थका ज्ञान है उसके कारण ही स्याद्वादकी स्थिति है । इसलिए भगवत्प्रवचन रूप शान्दिक स्याद्वाद उपचारसे प्रमाण है पर तज्जनित ज्ञान रूप स्याद्वाद चक्षु आदि ज्ञानवत् मुख्यत प्रमाण है, क्योंकि उसकी हेतु प्रामाणी प्रमिति है ।

१. स्याद्वाद निर्देश

१. स्याद्वादका लक्षण

न च. वृ/२५१ गियमणिसेहणसीलो निपादनादो य जोहु खलु सिद्धो । सो मियसद्धो भणियो जो सावेत्तल पसाहेदि । २५१। = जो नियमका निषेध करनेवाला है, निपातसे जिसकी सिद्धि होती है, जो सापेक्षता की सिद्धि करता है वह स्यात् शब्द कहा गया है ।

२. अपेक्षा निर्देश

१ सापेक्ष व निरपेक्षका अर्थ

न च वृ/२५० अवरोपरसावेकत्वं णयविसयं अह पमाण विसय वा । तं सावेकत्वं तत्त णिरवेकत्वं ताण विवरीय । = प्रमाण व नयके विषय परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षा करके है अथवा एक नयका विषय दूसरी नयके विषयकी अपेक्षा करता है, इसीको सापेक्ष तत्त्व कहते हैं । निरपेक्ष तत्त्व इससे विपरीत है ।

२. विवक्षा एक ही अंशपर लागू होती है अनेकपर नहीं

प घ/५/३०० नहि किंचिद्विधिरूप किंचित्तच्छेपतो निषेधांशम् । आस्तां साधनमस्मिन्नाम द्वैत न निर्विशेषत्वात् । ३००। = कुछ विधि रूप और उस विधिसे शेष रहा कुछ निषेध रूप नहीं है तथा ऐसे निरपेक्ष विधि निषेध रूप सत्के साध्य करनेमें हेतुका मिलना तो दूर, विशेषता न रहनेसे द्वैत भी सिद्ध नहीं हो सकता है ।

३. विवक्षाकी प्रयोग विधि

रा.वा/२/१६/१/१३१/८ स्पर्शनादीना कर्णसाधनत्व पारतन्त्र्यात् कर्तृ-साधनत्व च स्वातन्त्र्याद् बहुलवचनात् । १। कुत पारतन्त्र्यात् । इन्द्रियाणां हि लोके पारतन्त्र्येण विवक्षा विद्यते, आत्मनः स्वातन्त्र्य-विवक्षायां यथा 'अनेन चक्षुषा सुष्ठु पश्यामि, अनेन कर्णेन सुष्ठु शृणोमि' इति । कर्तृसाधन च भवति स्वातन्त्र्यविवक्षायाम् । 'यथा इदं मेऽक्षि सुष्ठु पश्यति, अयं मे कर्णं सुष्ठु शृणोतीति । = स्पर्शन आदिक इन्द्रियोंका परतन्त्र विवक्षासे करण साधनत्व और स्वतन्त्र विवक्षासे कर्तृसाधनत्व दोनों निष्पन्न होते हैं । १। कैसे १ सो ही बताते हैं—इन्द्रियोंकी लोकपरतन्त्रताके द्वारा विवक्षा ह तो है और अपनेमें स्वतन्त्र विवक्षा होनेसे जैसे—'इस चक्षुके द्वारा मैं अच्छा देखता हूँ और इस कर्ण द्वारा मैं अच्छा सुनता हूँ । स्वतन्त्र विवक्षामें कर्तृसाधन भी होता है जैसे—'यह मेरी आँख अच्छा देखती है, यह मेरे कान अच्छा सुनते हैं इस प्रकार । (स मि/२/१६/७७/३)

प का/ता, वृ/१८/३८/१७ जैनमते पुनरनेकस्वभाव वस्तु तेन कारणेन द्रव्यार्थिकनयेन द्रव्यरूपेण नित्यत्व घटते पर्यायार्थिकनयेन पर्यायरूपेणानित्यत्व च घटते । तौ च द्रव्यपर्यायो परस्पर सापेक्षौ । = जैन मतमें वस्तु अनेकस्वभावी है इसलिए द्रव्यार्थिक नयसे द्रव्यरूपसे नित्यत्व घटित होता है, पर्यायार्थिक नयसे पर्याय रूपसे अनिरपेक्ष घटित होता है । दोनों ही द्रव्यार्थिक व पर्यायार्थिक नय परस्पर सापेक्ष हैं । (दे उरपाद/२)

दे द्रव्य/३/५ धर्मादिक चार शुद्ध द्रव्य व्यजन पर्यायके अभावसे अवरिणामी वा नित्य कहलाते हैं, परन्तु अर्थ पर्यायकी अपेक्षा सभी पदार्थ परिणामी कहलाते हैं । और व्यजन पर्याय होनेके कारण जीव व पुद्गल नित्य भी ।

४. विवक्षाकी प्रयोग विधि प्रदर्शक सारणी

न. च/गच श्रुत/पृ ६५-६७

स	अपेक्षा	प्रयोग	प्रयोजन
१	स्यादस्ति	स्वरूपेणास्तित्त्वं-मिति	अनेकस्वभवावाराधत्व
२	स्यान्नास्ति स्यान्नित्यत्व स्यादनित्यत्व	इति पररूपेणैव द्रव्यरूपेण नित्येति इति पर्यायरूपेणैव	सस्कारादि दोष रहितत्व चिरकाल स्थायित्व निज हेतुओंके द्वारा अनित्यत्व स्वभावी कर्म- का ग्रहण त्याग होता है । सामान्यपनेमें समर्थ है । अनेक स्वभाव दर्शकत्व व्यवहारकी सिद्धि
३	स्यादेकत्व स्यादनेकत्व स्याद्भेदत्व	सामान्यरूपेणेति इति विशेषरूपेणैव सद्भूत व्यवहार रूपेणेति	परमार्थकी सिद्धि स्वपर्याय परिणामित्व
४	स्यादभेदत्व स्याद्भव्यत्व	इति द्रव्यार्थिकेनैव स्वकीयरूपेण भवनादि	परपर्याय त्यागित्व
५	स्यादभेदत्व स्याद्भव्यत्व	इति पररूपेणैव कुर्यात्	कर्मकी हानि
६	स्याच्चेतन	चेतनस्वभाव प्रधानत्वेन	कर्मका ग्रहण कर्म बन्ध
७	स्यादचेतन स्यान्मूर्त	इति व्यवहारेणैव असद्भूत द्रव्य- हारेणेति	स्वभावका अपरित्याग स्वभावमें अचलवृत्ति
८	स्यादमूर्त स्यात्परम	इति परमभावेनैव पारिणामिक स्वभावत्वेनेति	स्वभावमें विकृति
९	स्यादपरम	विभाव इति कर्मज रूपेणैव	निश्चयसे एकरव
१०	स्यादेकप्रदेशत्व स्यादनेक- प्रदेशत्व	भेदकगणना निर्वे- क्षत्वेनेति इतिव्यवहारेणैव	अनेक कार्यकारित्व
११	स्याच्छुद्ध स्यादशुद्धत्व स्यादुपचरित स्यादनुपचरित	केवल स्वभाव प्रधानत्वेनेति इति मिश्रभावेनैव स्वभावस्याप्य- न्यत्रोपचारादिति इति निश्चयादेव	स्वभाव प्राप्ति तद्विपरीत पर(भाव)को जानना तद्विपरीत

नोट—ये तथा अन्य भी अनेकों विधि निषेधारमक अपेक्षाएँ एक ही पदार्थमें उसके किसी एक ही गुण या पर्यायके साथ अनेकों भिन्न दृष्टियोंसे लागू की जानी सम्भव है । ऐसा करते हुए उनमें विरोध भी नहीं आता ।

५. अपेक्षा प्रयोगका कारण वस्तुका जटिल स्वरूप

न च वृ/७४ इति पुब्वुत्ता धम्मा सियसावेरग्वा ण गेट्ठाए जो हु । सो हु मिच्छाहट्ठी णायवो पवयणे भणिओ । ७४। = इस प्रकार पूर्वोक्त धर्मोंको जो सापेक्ष रूपमें ग्रहण नहीं करता है उसे मिच्छादृष्टि जानो । ऐसा आगममें कहा है ।

का, अ/पू/२६१ ज द्वित्यु अण्यत् एयत् त पि होदि सविषेत्वं ।
 मुख्य-गौणेण णएहि य गिरवेत्त्वं दीसदे गेव ।२६। = जो वस्तु
 अनेकान्त रूप है वही मापेक्ष दृष्टिसे एकांत भी है । श्रुतज्ञानकी
 अपेक्षा अनेकान्त रूप है और नयकी अपेक्षा एकांत रूप है । बिना
 अपेक्षाके वस्तुका स्वरूप नहीं देखा जा सकता ।

दे अनेकान्त/५/४ वस्तु एक नयसे देखनेपर एक प्रकार दिखाई देती है,
 और दूसरी नयसे देखनेपर दूसरी प्रकार ।

प ध/पू/६५५ नैवमसभवदोपायता न कश्चिन्नयो हि निरपेक्ष ।
 सति च विधौ प्रतिषेध प्रतिषेधे सति विधे प्रसिद्धत्वाद् ।६५५।
 = असम्भव दोषके आनेसे इस प्रकार कहना ठीक नहीं (कि केवल
 निश्चय नयसे काम चल जावेगा) क्योंकि निश्चयसे कोई भी नय-
 निरपेक्ष नहीं परन्तु विधि होनेमें प्रतिषेध और प्रतिषेध होनेमें विधि-
 की प्रसिद्धि है ।

६. एक अंशका लोप होनेपर सयका लोप हो जाता है

स्व स्तो./२२ अनेकमेक च तदेव तत्त्वं भेदान्वयज्ञानमिद हि
 सयम् । मृषोपचारोऽन्यतरस्य लोपे तच्छेषलोपोऽपि ततोऽनुपा-
 रण्यम् ।२२। = वह मृयुक्तिनीत वस्तुतत्त्व भेदाभेद ज्ञानका विषय
 है और अनेक तथा एक रूप है । और यह वस्तुको भेद-अभेद-
 रूपसे ग्रहण करनेवाला ज्ञान ही सत्य है । जो लोग इनमेंसे एकको
 ही सत्य मानकर दूसरोंमें उपचारका व्यवहार करते हैं वह मिथ्या
 है क्योंकि दोनोंमेंसे एकका अभाव माननेपर दूसरेका भी अभाव
 हो जाता है, दोनोंका अभाव हो जानेसे वस्तुतत्त्व अनुपाख्य-
 नि स्वभाव हो जाता है ।

प. ध/पू/१६ तन्न यतो द्रव्याधिकपर्यायाधिकनयात्मक वस्तु । अन्य-
 तरस्य विलोपे शेषस्यापीह लोप इति दोष ।१६। = यह ठीक नहीं
 (कि एक नयसे सत्ताकी सिद्धि हो जाती है) क्योंकि वस्तु द्रव्याधिक
 और पर्यायाधिक, इन दोनोंके विषय मय है । इनमेंसे किसी एकका
 लोप होनेपर दूसरे नयका भी लोप हो जायेगा । यह दोष आवेगा ।

७. अपेक्षा प्रयोगका प्रयोजन

का, अ/पू/२६४ गाणाधम्मयुव पि य, एयं धम्म पि बुद्धे अत्थ ।
 प्रस्तेयविवकलादो णरिय विवकलादा हुं सेसाण ।२६४। = अनेक धर्मोंसे
 युक्त पदार्थ है, तो भी उन्हें एक धर्म युक्त कहता है, क्योंकि जहाँ
 एक धर्मकी विवक्षा करते हैं वहाँ उसी धर्मको कहते हैं शेष धर्मोंकी
 विवक्षा नहीं कर सकते हैं ।

३. मुख्य गौण व्यवस्था

१. मुख्य व गौणके लक्षण

स्व. स्तो./१३ विवक्षितो मुख्य इतीप्यतेऽन्यो गुणोऽविवक्षो । = जो
 विवक्षित होता है वह मुख्य कहलाता है, दूसरा जो अविवक्षित होता
 है वह गौण कहलाता है । (स्व स्तो/२५)

स्या म/७/६३।२२ अव्यभिचारी मुख्योऽविकलोऽसाधारणोऽन्तरङ्गश्च ।
 विपरीतो गौणोऽर्थ सति मुख्ये धी कथ गौणे । = अव्यभिचारी,
 अविकल, असाधारण और अन्तरग अर्थको मुख्य कहते हैं और उससे
 विपरीतको गौण कहते हैं । मुख्य अर्थके रहनेपर गौण बुद्धि नहीं
 हो सकती ।

२. मुख्य गौण व्यवस्थासे ही वस्तु स्वरूपकी सिद्धि है

स्व स्तो./२६-६२ विधिनिषेधश्च कथंचिदपि विवक्षया मुख्य-गुण-
 व्यवस्था ।२६। यथैकश्च कारकमर्थ-सिद्धये, समीक्ष्य शेष स्वसहाय-
 कारकम् । तथैव सामान्य-विशेषमात्तुका नयास्तवैषा गुण मुख्य

उत्पत्त ।६२। = विधि और निषेध दोनों कथंचित् इष्ट है । विवक्षा-
 से उनमें मुख्य गौणकी व्यवस्था होती है ।२६। जिम प्रकार एक एक
 कारक शेष अन्यको अपना सहायक रूप कारक अपेक्षित करके अर्थ-
 की सिद्धिके लिए समर्थ होता है उसी प्रकार आपके मतमें सामान्य
 और विशेषसे उत्पन्न होनेवाले जो नय है वे मुख्य और गौणकी
 व्यवस्थाने इष्ट हैं ।६२।

३. ससमंगीमें मुख्य गौण व्यवस्था

रा वा/४/४०/१४/२६३/२१-२६ गुणप्राधान्यव्यवस्थाविशेषप्रतिपादनार्थ-
 त्वात् सर्वेषां भङ्गाना प्रयोगोऽर्थवाद् । तद्यथा, द्रव्याधिकस्य
 प्राधान्ये पर्यायगुणभावे च प्रथम । पर्यायाधिकस्य प्राधान्ये द्रव्यगुण-
 भावे च द्वितीय । तत्र प्राधान्य शब्देन विवक्षितत्वाच्छब्दाधीनम्,
 शब्देनानुपात्तस्यार्थतो गम्यमानस्याप्राधान्यम् । तृतीये तु युगपद्भावे
 उभयस्याप्राधान्य शब्देनाभिधेयतयानुपात्तरात् । चतुर्थे स्तुभ्य-
 प्रधान क्रमेण उभयस्यास्यादिशब्देन उपात्तत्वात् । तथोचरे च
 भङ्गा वक्ष्यन्ते । = गौण और मुख्य विवक्षासे सभी भगोंकी सार्थ-
 कता है । द्रव्याधिककी प्रधानता तथा पर्यायाधिककी गौणतामें
 प्रथम भग सार्थक है और द्रव्याधिककी गौणता और पर्यायाधिक-
 की प्रधानतामें द्वितीय भग । यहाँ प्रधानता केवल शब्द प्रयोगकी
 है, वस्तु तो सभी भगोंमें पूरी ही ग्रहण की जाती है । जो शब्दसे
 कहा नहीं गया है अर्थात् गम्य हुआ है वह यहाँ अप्रधान है । तृतीय
 भगमें युगपत् विवक्षा होनेसे दोनों ही अप्रधान हो जाते हैं क्योंकि
 दोनोंको प्रधान भावसे कहनेवाला कोई शब्द नहीं है । चौथे भगमें
 क्रमश उभय प्रधान होते हैं ।

४. विवक्षावश मुख्य व गौणता होती है

प. का/ता वृ/१८/३६/१८ द्रव्याधिकपर्यायाधिकनययो परस्परगौण-
 मुख्यभावव्याख्यानादेकदेवदत्तस्य जन्यजनकादिभाववत् एकस्यापि
 द्रव्यस्य नित्यानित्यत्व घटते नास्ति विरोध इति ।

प का/ता वृ/१६/४१/१ स एव नित्य स एवानित्य कथ घटत इति
 चेत् । यथैकस्य देवदत्तस्य पुत्रविवक्षाकाले पितृविवक्षा गौणा पितृ-
 विवक्षाकाले पुत्रविवक्षा गौणा, तथैकस्य जीवस्य जीवद्रव्यस्य वा
 द्रव्याधिकनयेन नित्यत्वविवक्षाकाले पर्यायरूपेणानित्यत्व गौण
 पर्यायरूपेणानित्यत्वविवक्षाकाले द्रव्यरूपेण नित्यत्व गौण । कस्मात्
 विवक्षितो मुख्य इति वचनात् । = द्रव्याधिक और पर्यायाधिक
 इन दोनों नयोंमें परस्पर गौण और मुख्य भावका व्याख्यान होनेसे
 एक ही देवदत्तके पुत्र व पिताके भावकी एक भाँति ही द्रव्यके
 नित्यत्व व अनित्यत्व ये दोनों घटित होते हैं इसमें कोई विरोध
 नहीं है । प्रश्न—वह ही नित्य और वही अनित्य यह कैसे घटित होता
 है । उत्तर—जिस प्रकार एक ही देवदत्तके पुत्रविवक्षाके समय पितृ-
 विवक्षा गौण होती है और पितृविवक्षाके समय पुत्रविवक्षा गौण
 होती है, उसी प्रकार एक ही जीवके वा जीव द्रव्यके द्रव्याधिक नयसे
 नित्यत्वकी विवक्षाके समय पर्यायरूप अनित्यत्व गौण होता है, और
 पर्यायरूप अनित्यत्वकी विवक्षाके समय द्रव्यरूप नित्यत्व गौण होता
 है । क्योंकि 'विवक्षा मुख्य होती है' ऐसा वचन है ।

प का/ता वृ/१०६/१६६/२२ विवक्षितो मुख्य इति वचनात् । = 'विवक्षा
 मुख्य होती है' ऐसा वचन है ।

५. गौणका अर्थ निषेध करना नहीं

स्व स्तो/पू/२३ सत् कथंचित्तदसत्त्वशक्ति —खे नास्ति पुष्पं तरुण
 प्रसिद्धम् । = जो सत् है उसके कथंचित् असत्त्व शक्ति भी है—जैसे
 पुष्प वृक्षोंपर तो अस्तित्वकी लिये हुए है परन्तु आकाशपर उसका
 अस्तित्व नहीं है, आकाशकी अपेक्षा वह असत् रूप है ।

दे. एकांत/३/३ कोई एक धर्म विवक्षित होनेपर अन्य धर्म विवक्षित नहीं होते ।

स. भ त १/८ प्रथमभङ्गादावसत्त्वादीना गुणभावमात्र, न तु प्रति-
पेध' । = प्रथम भङ्ग 'स्यादस्त्येव घट' आदिसे लेकर कई भगोंमें
जो असत्त्व आदिका भान होता है वह उनकी गौणता है न कि
निपेध ।

४. स्यात् व कथञ्चित् शब्द प्रयोग विधि

१. स्यात्कारका सम्यक् प्रयोग ही कार्यकारी है

प्र. सा / त. प्र. / ११५ सप्तभङ्गिकेवकारविश्रान्तमभ्रान्तसमुच्चार्यमाण-
स्यात्कारामोघमन्त्रपदेन समस्तमपि विप्रतिपेधविपमोहमुदस्यति ।
= सप्तभगी सतत सम्यक्तया उच्चारित करनेपर स्यात्काररूपी
अमोघ मन्त्र पदके द्वारा 'एव कारमें रहनेवाले समस्त विरोध विपके
मोहको दूर करती है ।

२. व्यवहार नयके स्या ही स्यात्कार आवश्यक है निश्चयके साथ नहीं

न. च / श्रुत/३१-३६ स्याच्छब्दरहितत्वेऽपि न चास्य निश्चयाभासत्व-
मुपनयरहितत्वात् । कथमुपनयाभावे स्याच्छब्दस्याभाव इति चेद,
स्याच्छब्दप्रधानत्वेनोपनयो हि व्यवहारस्य जनकत्वात् । यदा तु
निश्चयनयेनोपनय प्रलय नीयते तदा निश्चय एव प्रकाशते ।
किमर्थं व्यवहारोऽसत्कल्पनानिवृत्त्यर्थं सहरत्नत्रयसिद्ध्यर्थं च । ..
निश्चय गृह्यति अन्ययोगव्यवच्छेदनं करोति । ३१। (यथा) भेदेन
अन्यत्रोपचारात् उपचारेण स्याच्छब्दमपेक्षते तथा व्यवहारोऽपि ।
सर्वथा भेदे तयोर्द्रव्याभाव । अभेदे तु व्यवहारविलोप तथोप-
चारेऽपि सकरादिदोषसम्भवात् । अन्यथा कर्तृ त्वादिकारकरूपाणामनु-
त्पत्तित्वात् स्यादेव व्यवहारविलोपापत्तिः । ३६। = १ स्यात् पदसे रहित
होनेपर भी इसके निश्चयाभासपना नहीं है । क्योंकि यह उपनयसे
रहित है । उपनयके अभावसे 'स्यात्' पदका अभाव किस तरह हो
सकता है । इस प्रकार कोई पूछे तो उत्तर यह है कि स्यात् पदकी
प्रधानताके द्वारा उपनय ही व्यवहारका जनक है । किन्तु जब
निश्चय नयके द्वारा उपनय प्रलयको प्राप्त करा दिया जाता है तब
निश्चय ही प्रकाशित होता है । प्रश्न—यदि ऐसा है तो अर्थका
व्यवहार किस लिए होता है । उत्तर—असत् कल्पना निवारण करनेके
लिए और सम्यग् रत्नत्रयकी सिद्धिके लिए अर्थका व्यवहार होता
है । निश्चयको ग्रहण करते हुए भी अन्यके मतका निपेध नहीं
करता । २. अन्यत्र भेदके द्वारा उपचार होनेसे उपचारसे स्यात्
शब्दकी अपेक्षा करता है । उसी प्रकार व्यवहार करने योग्यमें भी
सर्वथा भेद माननेपर उन दोनोंके द्रव्यपनेका अभाव होता है ।
इतना विशेष है कि सर्वथा अभेद मान लेनेपर व्यवहारके माननेपर
भी मकर वगैरह दोष सम्भव है । ऐसा न माननेपर कर्ता कारक
वगैरहकी उरपत्ति नहीं होती है इस प्रकार व्यवहार लोपका प्रसंग
आता है ।

३. स्यात्कारका प्रयोग धर्मोंमें होता है गुणोंमें नहीं

स्या म / २४/२६५ स्यान्नृशि निरय सदृश विरूप वाच्य न वाच्य
सदसत्तदेव । विप्रश्चित्ता नाथ निपीततत्त्वसुधोद्गतोद्गारपरम्परेयम्
। २६। = हे विद्वद्-शिरोमणि । आपने अनेकान्त रूपी अमृतको पीकर
प्रत्येक वस्तुको कथञ्चित् अनिरय, कथञ्चित् निरय, कथञ्चित् सामान्य,
कथञ्चित् विशेष, 'कथञ्चित् वाच्य, कथञ्चित् अवाच्य, कथञ्चित्
सत् और कथञ्चित् असत्का प्रतिपादन किया है । २६। तथा इसी
प्रकार सर्वत्र ही 'स्यात्कार'का प्रयोग धर्मोंके साथ किया है, वहाँ
भी अनुजोवी गुणोंके साथ नहीं किया गया है (दे सप्तभगी) ।

श्लो वा २/भापा/१/६/५६/४२३/१३ स्याद्वाट प्रक्रिया आपेक्षक धर्मोंमें
प्रवर्तती है । अनुजोवी गुणोंमें नहीं ।

४ स्यात्कार भावमें आवश्यक है शब्दमें नहीं

यु अनु / ४४ तथा प्रतिज्ञाशयतोऽप्रयोग । ४४। = स्यात् शब्दके
प्रयोगकी प्रतिज्ञाका अभिप्राय रहनेसे 'स्यात्' शब्दका अप्रयोग देखा
जाता है ।

क पा १/१.१३-१४/२०२/३०८/५ द्रव्यम् अनुत्तासेऽप्रमाण घडाव-
णट्ट सियासद्वा जोजेयवो । मुत्ते किमिदि ण पउत्तो । ण, तहापइ-
जासयस्स पओआभावे वि सदत्थावगमो अत्थि चि दोसाभावो ।
उत्त च—तथाप्रतिज्ञाशयतोऽप्रयोग । २२६। = द्रव्यमें अनुक्त समस्त
धर्मोंके घटित करनेके लिए 'स्यात्' शब्दका प्रयोग करना चाहिए ।
प्रश्न—'रमकसाओ' इत्यादि सूत्रमें स्यात् शब्दका प्रयोग क्यों नहीं
किया है । उत्तर—नहीं, क्योंकि स्यात् शब्दके प्रयोगका अभिप्राय
रखनेवाला वक्ता यदि स्यात् शब्दका प्रयोग न भी करे तो भी उसके
अर्थका ज्ञान हो जाता है अतएव स्यात् शब्दका प्रयोग नहीं करनेपर
भी कोई दोष नहीं है, कहा भी है— स्यात् शब्दके प्रयोगकी प्रतिज्ञाका
अभिप्राय रखनेसे 'स्यात्' शब्दका अप्रयोग देखा जाता है ।

ध ६/४,१,४४/१८३/६ न चतेपु सप्तवपि वाक्येषु स्याच्छब्दप्रयोग-
नियम', तथा प्रतिज्ञाशयदाप्रयोगोपलम्भत्वात् । = मातो ही वाक्योंमें
(सप्तभगी सम्बन्धी) 'स्यात्' शब्दके प्रयोगका नियम नहीं है,
क्योंकि वैसी प्रतिज्ञाका आशय होनेसे अप्रयोग पाया जाता है ।

दे स्याद्वाद्/४/२ स्याद् पदसे रहित होनेपर भी निश्चय नयके
निश्चयाभासपना नहीं है क्योंकि यह उपनयसे रहित है ।

श्लो, वा २/१/६/ श्लो ५६/४५० सोऽप्रयुक्तोऽपि वा तज्ज्ञे सर्वत्रात्प्र-
तीयते । तथैवकारो योगादिव्यवच्छेदप्रयोजन । ५६। = स्यात् शब्द
प्रत्येक वाक्य या पदमें नहीं बोला गया भी सभी स्थलोपर स्याद्वाद्को
जाननेवाले पुरुषों करके प्रकरण आदिकी सामर्थ्यसे प्रतीत कर लिया
जाता है । जैसे कि अयोग अन्ययोग और ज्ञत्यन्तायोगका व्यवच्छेद
करना है प्रयोजन जिसका ऐसा एवकार बिना कहे भी प्रकरणवश
समझ लिया जाता है । (स्या म / २३/२७६/६), (स भ त. ३१/२
पर उद्धृत) ।

५. कथञ्चित् शब्दके प्रयोग

स्तो / मू. / ४२ तदेव च स्यान्न तदेव च स्यात् तथा प्रतीतेस्तव
तत्कथञ्चित् ॥ नात्यन्तमन्यत्वमन्यता च विधेनिपेधग्य च
शून्यदोषात् । ४२। = आपका वह तत्त्व कथञ्चित् तद्रूप (सद्रूप) है
और कथञ्चित् तद्रूप नहीं है क्योंकि वैसी ही सत्-असत् रूपकी
प्रतीति होती है । स्वरूपादि-चतुष्टय रूप विधि और पररूपादि
चतुष्टय रूप निपेधके परपरमें अत्यन्त भिन्नता तथा अभिन्नता
नहीं है क्योंकि सर्वथा ऐसा माननेपर शून्य दोष आता है । ४२।

रा वा १/८/१८/१२२/१५ सर्वस्य वागर्थस्य विधिप्रतिपेधात्मकत्वात्,
न हि किञ्चिद्वस्तु सर्वनिपेधगम्यमस्ति । अस्ति त्वेत्तत् अभ्यात्मकम्,
यथा कुरवका रक्तश्वेतव्युदासेऽपि नावर्णा भवन्ति नापि रक्ता एव
श्वेता एव वा प्रतिपिद्धत्वात् । एव वत्त्वपि पगरमना नास्तीति
प्रतिपेधेऽपि स्वात्मना अस्तीति मिद्व । तथा चोक्तम् अतिव्यमुप-
लब्धिश्च कथञ्चिदसत् मृते । नान्तितानुपलब्धिश्च कथञ्चिदसत्
एव ते । १। सर्वथैव सतो नेमौ धर्मो सर्वात्मदोषत । सर्वथासतो
नेमौ वाचा गोचरताप्रत्ययात् । २। = जितने भी पदार्थ शब्दगोचर
हैं वे सब विधि-निपेधात्मक हैं । जोई भी वस्तु सर्वथा निपेध गम्य
नहीं होती । जैसे कुरवक पुष्प लाल और सफेद दोनों रंगोंका होता
है । न केवल रक्त ही होता है, न केवल श्वेत ही होता है और न ही
वह वर्णशून्य है । इस तरह परकी अपेक्षासे वस्तुमें नास्तित्व होनेपर
भी स्व दृष्टिसे उसका अस्तित्व प्रसिद्ध ही है । वही भी है—

कथञ्चिद् असत्की भी उपलब्धि और अस्तित्व है और कथञ्चित् सत्की भी अनुपलब्धि और नास्तित्व । यदि सर्वथा अस्तित्व और उपलब्धि मानी जाये तो घटकी पटादि रूपसे भी उपलब्धि होनेसे सभी पदार्थ सर्वात्मक हो जायेंगे और यदि परकी तरह स्व रूपसे भी असत्त्व माना जाये तो पदार्थका ही अभाव हो जायेगा और वह शब्दका विषय न हो सकेगा ।

प्र सा /त प्र /३५,१०६ सर्वेऽर्था ज्ञानवर्तिन एव कथञ्चिद् भवन्ति ।३५। अतएव च सत्ताद्रव्ययो कथञ्चिदनर्थान्तरत्वेऽपि सर्वथैकत्वं न शङ्कनीयम् । =१. समस्त पदार्थ कथञ्चित् ज्ञानवर्ती ही है । २ यद्यपि सत्ता द्रव्यके कथञ्चित् अनर्थान्तरत्व है तथा उनके सर्वथा एकत्व होगा ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए ।

स सा /आ /३३१/क २०४ कर्मैव प्रवितर्क्यकर्तृ हतके क्षिप्त्वारमन कर्तृताम् । कर्तात्मेप कथञ्चिदित्यचलिता केरिचङ्कृति कोपिता । =कोई आरम घातक कर्मको ही कर्ता विचार कर आरमाके कर्तृत्व-को उडाकर, यह आत्मा कथञ्चित् कर्ता है' ऐसी कहनेवाली अचलित श्रुतिको क पित करते हैं ।

प्र सा /ता वृ /२७/३७/६ यदि पुनरेकान्तेन ज्ञानमात्मेति भण्यते तदा ज्ञानगुणमात्र एवात्मा प्राप्त सुखादिधर्मिणामवकाशो नास्ति । तस्मात्कथञ्चिज्ज्ञानमात्मा न सर्वथेति । =यदि एकान्तसे ज्ञानको ही आत्मा कहते है तो तब ज्ञान गुण मात्र ही आत्मा प्राप्त होती है सुखादि धर्मोंको अवकाश नहीं है । इसलिए कथञ्चित् ज्ञानमात्र आत्मा है सर्वथा नहीं ।

घ /पु /६१ द्रव्य तत कथञ्चिरेकचिदुत्पद्यते हि भावेन । व्येति तदन्वयेन पुनर्नेतद्वद्वित्यं हि वस्तुतया ।६१। =निश्चयसे द्रव्य कथञ्चित् किसी अवस्था रूपसे उत्पन्न होता है और किसी अन्य अवस्थासे नष्ट होता है किन्तु परमार्थसे निश्चय करके ये दोनों ही नहीं है ।

५. स्यात्कारका कारण व प्रयोजन

१. स्यात्कार प्रयोगका प्रयोजन एकान्त निषेध

आप्त मी /१०२-१०४ वाक्येऽनेकान्तद्योती गम्य प्रति विशेषणम् । स्यान्निपातोऽर्थयोगित्वात् तव केवलिनानामपि ।१०३। स्याद्वाद सर्व-थेकान्तस्यागार्तिकवृत्तचिद्विधि । सप्तभङ्गनयापेक्षो हेयादेयविशेषक ।१०४। =स्यात् ऐसा शब्द है यह निपात या अव्यय है । वाक्योंमें प्रयुक्त यह शब्द अनेकान्त द्योतक वस्तुके स्वरूपका विशेषण है ।१०३। स्याद्वाद अर्थात् सर्वथा एकान्तका त्याग होनेसे किञ्चित् ऐसा अर्थ यतानेवाला है । सप्त भगरूप नयकी अपेक्षावाला तथा हेय व उपादेय-का भेद करनेवाला है ।१०४।

रा वा /४/४२/१७/२६०/२६ ननु च सामान्यार्थाविच्छेदेन विशेषण-विशेषप्रसन्न्यावद्योतनार्थ एवकारे सति तदवधारणादितरेषां निवृत्ति प्राप्नोति । नैप दोष, अत्राप्यत एव स्याच्छब्दप्रयोग कर्तव्य 'स्यादस्त्वेव जीव' इत्यादि । कोऽर्थ । एवकारेणेतरेनि-वृत्तिप्रसङ्गे स्वात्मलोपात् सकलो लोपो मा विज्ञायीति वस्तुनि यथावस्थित विवक्षितधर्मस्वरूप तथैव द्योतयति स्याच्छब्द । 'विवक्षितार्थवागङ्गम्' इति वचनात् । =प्रश्न—जब आप विशेषण-विशेष्यके नियमनको एवकार देते हो तब अर्थात् ही इतरकी निवृत्ति हो जाती है । उदासीनता कहाँ रही । उत्तर—इसलिए दोष धर्मक सद्भावको द्योतन करनेके लिए 'स्यात्' शब्दका प्रयोग किया जाता है । प्रकारसे जब इतर निवृत्तिको प्रसंग प्रस्तुत होता है तो सरुन लोप न हा जाय इसलिए 'स्याद्' शब्द विवक्षित धर्मके साथ ही साथ अन्य धर्मों के सद्भावकी सूचना दे देता है ।

दे, स्यात्/१ स्यात् शब्द अनेकान्तका द्योतक होता है ।

दे स्याद्वाद/१/१ नियमका निषेध करना तथा सापेक्षताकी सिद्धि करना स्याद्वादका प्रयोजन है ।

श्लो वा २/१/६/१४/४५/४ तत्त्वतोऽस्तित्वादीनामेकत्र वस्तुन्येवमभेद-वृत्तेरस भवे कालादिभिर्भिन्नान्तनामभेदोपचार क्रियते । तदेवान्याम-भेदवृत्त्यभेदोपचाराभ्यामेकेन शब्देनेकस्य जीवादिबस्तुनोऽनन्त-धर्मात्मकस्योपात्तस्य स्यात्कारो द्योतक समवतिष्ठते ।

श्लो वा. २/१/६/१४/४५ स्याच्छब्दादप्यनेकान्तसामान्यस्यावबोधने । १५५। =१ जब कि वास्तविक रूपसे अस्तित्व, नास्तित्व आदि धर्मोंका एक वस्तुमें इस प्रकार अभेद वृत्तिका होना असम्भव है तो अत्र काल, आत्मरूप आदि कर्के भिन्न-भिन्न स्वरूप हो रहे धर्मोंका अभेद रूपसे उपचार किया जाता है । तिस कारण इन अभेद वृत्ति और अभेदोपचारसे एक शब्द कर्के ग्रहण किये गये अनन्तधर्मात्मक एक जीव आदि वस्तुका कथन किया गया है । उन अनेक धर्मोंका द्योतक स्यात्कार निपात भले प्रकार व्यवस्थित हो रहा है । २ स्यात् शब्दसे भी सामान्य रूपसे अनेक धर्मोंका द्योतन होकर ज्ञान ही जाता है । १५५।

घ १२/४,२,६,२/२६५/१० सिया सद्वा दोग्णि-एकका किरियाए वाययो, अवरो णइवादियो । सबहणियमपरिहारेण सो सबवत्थ परुवओ, पमाणायुसारित्तादो । =स्यात् शब्द दो हैं—एक क्रियावाचक और अनेकान्त वाचक । उक्त स्यात् शब्द 'सर्वथा' नियमको छोडकर सर्वत्र अर्थको प्ररुणा करनेवाला है, क्योंकि वह प्रमाणका अनुसरण करता है ।

न च वृ /२५१ पर उद्भूत-सिद्धमन्तो यथा लोके एकोऽनेकार्थदायक । स्याच्छब्दोऽपि तथा ज्ञेय एकोऽनेकार्थसाधक । =जिस प्रकार लोकेमें सिद्ध क्रिया गया मन्त्र एक व अनेक पदार्थोंको देनेवाला होता है, उसी प्रकार 'स्यात्' शब्दको एक तथा अनेक अर्थोंका साधक जानना चाहिए ।

न च श्रुत /६५ स्याच्छब्देन किं । यथा द्रव्यरूपेण नित्यत्व तथा पर्यायरूपेण नित्यत्व मा भूदिति स्याच्छब्द, स्यादस्ति नित्य इति पर्यायरूपेणैव कुर्यात् । तर्हि स्याच्छब्देन किं यथा सद्भूत-व्यवहारेण भेदस्तथा द्रव्यार्थिकेनापि माभूदिति स्याच्छब्द । =प्रश्न—स्यात् शब्दसे यहाँ क्या प्रयोजन है । उत्तर—जिस प्रकार द्रव्य रूपसे नित्य है, उसी प्रकार पर्याय रूपसे नित्य न हो यह स्यात् शब्दका प्रयोजन है । स्यात् शब्द स्यादस्ति स्यादनित्य इस प्रकारसे होता है । अनित्यता पर्याय रूपसे समझना चाहिए । =प्रश्न—यहाँ स्यात् शब्दसे क्या प्रयोजन है । उत्तर—जिस प्रकार सद्भूत व्यवहार नयसे भेद है, उसी प्रकार द्रव्यार्थिक नयसे भेद न हो, यह स्यात् पदका यहाँ प्रयोजन है ।

प का /त प्र /१४ अत्र सर्वथात्वनिषेधकोऽनेकान्तद्योतक कथञ्चिदर्थे स्याच्छब्दो निपात । =यहाँ (सप्तभगीमें) सर्वथापनेका निषेधक, अनेकान्तका द्योतक 'स्यात्' शब्द कथञ्चित् ऐसे अर्थमें अव्यय रूपसे प्रयुक्त हुआ है । (म भ त /३०/१०) ।

२ स्यात्कार प्रयोगके अन्य प्रयोजन

स्व स्तो /पु, ४४ अनेकमेक च पदस्य वाच्य, वृक्षा इति प्रत्ययव-त्प्रकृत्या । आकाङ्क्षिण स्यादिति नै निपातो गुणानपेक्षे नियमेऽपवाद-।४४। =पद (शब्द) का वाच्य प्रकृतसे एक और अनेक दोनों रूप है । 'वृक्षा' इस पद ज्ञानकी तरह । अनेकान्तात्मक वस्तुके अस्तित्वादि किसी एक धर्मका प्रतिपादन करनेपर उस समय गौण-भूत नास्तित्वादि दूसरे धर्मके प्रतिपादनमें जिसकी आकांक्षा है, ऐसी आकांक्षा (स्याद्वाद) का स्यात् यह निपात गौणकी अपेक्षा न रखने-वाले नियममें निश्चय रूपसे बाधक होता है । ४४।

न च, श्रुत्, ६५ यथा स्वरूपेणास्तित्व तथा पररूपेणाप्यस्तित्व माभू-
दिति स्याच्छब्द । यथा द्रव्यरूपेण नित्यत्वं तथा पर्यायरूपेणैव
नित्यत्वं माभूदिति स्याच्छब्द । = जिस प्रकार स्वस्वरूपसे है उसी
प्रकार परस्वरूपसे भी है, इसी प्रकारकी आपत्तिका निवारण करना
स्यात् शब्दका प्रयोजन है । जिस प्रकार द्रव्य रूपसे नित्य है उसी
प्रकार पर्याय रूपसे नित्य न हो यह स्यात् शब्दका प्रयोजन है ।

स्या म १९६/२५४/३ यथावस्थितपदार्थप्रतिपादनोपयिक्त नान्यदिति
ज्ञापनार्थम् । अनन्तधर्मात्मकस्य सर्वस्य वस्तुन सर्वनयारम्भकेन
स्याद्वादेन विना यथावद्गृहीतुमशक्यत्वात् । = यथावस्थित पदार्थ-
का प्रतिपादन करनेका अन्य कोई उपाय नहीं है । क्योंकि प्रत्येक
वस्तुमें अनन्तस्वभाव है, अतएव सम्पूर्ण नय स्वरूप स्याद्वादेके
विना किसी भी वस्तुका ठीक-ठीक प्रतिपादन नहीं किया जा
सकता ।

३ समभंगीमें 'स्यात्' शब्द प्रयोगका फल

क पा १/१,१३-१४/१२७३/३०८/८ सिया कसाओ, सियाओ एरथतण-
सियासद्दो [णोकसाय] कसाय कसायणोकसायविसय अत्थपज्जाए
'च दव्वम्मि घडावेड । सिया अवत्तव्व 'कसायणोकसायविसयअत्थ-
पज्जाय सरुव्वेण, एरथतण-सिया-सद्दो कपायणोकसायविसयवज्जण-
पज्जाए डोएइ । 'सिया कसाओ च णोकसाओ च' एरथतण-सियासद्दो
कसाय णोकसायविसयअत्थपज्जाए दव्वेण सह डोएइ । 'सिया
कसाओ च अवत्तव्वओ च' एरथतण सियासद्दो णोकसायत्त घडावेड ।
'सिया णोकसाओ च अवत्तव्वओ च' एरथतणसियासद्दो कसायत्त
घडावेड । 'सिया कसाओ च णोकसाओ च अवत्तव्वओ च' एरथ-
तणसियासद्दो कपायणोकपाय-अवत्तव्वधम्मणं तिण्ह पि कमेण
भण्णमाणण दव्वम्मि अवकमउत्ति सूचेदि । = १ द्रव्य स्यात् कपाय
रूप है, (यहाँ कपायका प्रकरण है) २ द्रव्य स्यात् अकपाय रूप
है । इन दोनों भगोंमें विद्यमान स्यात् शब्द क्रमसे नोकपाय और
कपायको तथा कपाय और नोकपाय विषयक अर्थपर्यायोको द्रव्यमें
घटित करता है । ३ कपाय और नोकपाय विषयक अर्थ पर्याय
रूपसे द्रव्य स्यात् अवत्तव्व है । इस भगमें विद्यमान स्यात् शब्द
कपाय और नोकपाय विषयक व्यञ्जन पर्यायोको द्रव्यमें घटित करता
है । ४. द्रव्य स्यात् कपाय रूप और अकपाय रूप है । इस चौथे
भगमें विद्यमान स्यात् शब्द कपाय और नोकपाय विषयक अर्थ
पर्यायोमें घटित करता है । ५ द्रव्य स्यात् कपाय रूप और अवत्तव्व
है । इस पाँचवें भगमें विद्यमान स्यात् शब्द द्रव्यमें नोकपायपनेको
घटित करता है । ६ द्रव्य स्यात् अकपाय रूप और अवत्तव्व है ।
इस छठे भगमें विद्यमान स्यात् शब्द द्रव्यमें कपायपनेको घटित
करता है । ७ द्रव्य स्यात् कपाय रूप, अकपाय रूप, और अनत्तव्व
है । इस सातवें भगमें विद्यमान स्यात् शब्द क्रमसे कहे जानेवाले
कपाय, नोकपाय और अवत्तव्व रूप तीनों धर्मोंकी द्रव्यमें अक्रम
वृत्तिको सूचित करता है ।

४. एवकार व स्यात्कारका समन्वय

श्लो वा २/१/६/ श्लो ६३-६४/४३१, ४४८ वाक्येऽवधारणं तावदनिष्टार्थ-
निवृत्तये । कर्तव्यमन्यथानुक्तसमत्वात्तस्य कुत्रचित् । ६३। सर्वथा
तत्प्रयोगेऽपि सत्त्वादिप्राप्तिविच्छेदे । स्यात्कार सप्रयुज्येताने-
कान्तद्योतकत्वात् । ६४। = वाक्यमें एवकार ही ऐसा जो नियम किया
जाता है, वह तो अवश्य अनिष्ट अर्थकी निवृत्तिके लिए करना ही
चाहिए । अन्यथा कहीं-कहीं वह वाक्य नहीं कहा गया सरीखा
सम्झा जाता है । ६३। उस एवकारके प्रयोग करनेपर भी सभी प्रकारसे
सत्त्व आदिकी प्राप्तिका विच्छेद करनेके लिए वाक्यमें स्यात्कार
शब्दका प्रयोग करना चाहिए । क्योंकि वह स्यात् शब्द अनेकान्तका
द्योतक है । ६४।

क पा १/१,१३-१४/१२७१-२७२/३०६/६ श्रुत्तेण जउत्तो मियासद्दो
कथमेत्थ उच्चदे । ण, सियासद्दपओएण विणा सव्वपओआण अउत्त-
तुव्वत्तत्तप्पसगादो । ते जहा, कसायमद्दो पडिबवत्तथ सगत्यादो
ओमारिय सगत्य चैव भणदि पईवो वज दुस्सहावत्तादो । अत्रोपयो-
गिनो श्लोकौ—अन्तर्भूतैवकारार्था गिर सर्वा स्वभावत् । एवकार-
प्रयोगोऽयमिष्टतो नियमाय स' । १२३। निरस्यन्ती परस्यार्थं स्वार्थं
कथयति श्रुति । तमो विधुन्वती भास्य यथा भासयति प्रभा । १२४।
एव चैव होदु चे, ण, एक्कम्मि चैव माहुल्लिगफने तिच्च-कडुववित्त-
मधुर-रसाण रूव-गंध-फास सठाणाईणमभावप्पसगादो । एद पि होउ
चे, ण, दव्वलव्वणभावेण दव्वस्स अभावप्पसगादो । = प्रश्न—
'स्यात्' शब्द सूत्रमें नहीं कहा है फिर यहाँ क्यों कहा है । उत्तर—
क्योंकि यदि 'स्यात्' शब्दका प्रयोग न किया जाय तो सभी वचनोंके
व्यवहारको अनुक्त तुल्यत्वका प्रसंग प्राप्त होता है । जैसे—यदि
कपाय शब्दके साथ स्यात् शब्दका प्रयोग न किया जाय तो वह कपाय
शब्द अपने वाच्यभूत अर्थसे प्रतिपक्षी अर्थोंका निराकरण करके
अपने अर्थको ही कहेगा, क्योंकि वह दीपक की तरह दो स्वभाववाला
है (अर्थात् स्वप्रकाशक व प्रतिपक्षी अन्धकार विनाशक स्वभाव-
वाला) इस विषयमें दो उपयोगी श्लोक दिये जाते हैं ।—जितने भी
शब्द है उनमें स्वभावसे ही एवकारका अर्थ छिपा हुआ रहता है,
इसलिए जहाँ भी एवकारका प्रयोग किया जाता है वहाँ वृद्ध इष्टके
अवधारणके लिए किया जाता है । १२३। जिस प्रकार प्रभा अन्धकार-
का नाश करती है उसीप्रकार शब्द दूसरेके अर्थका निराकरण करता
है और अपने अर्थको कहता है । १२४। (तात्पर्य यह है कि 'स्यात्'
शब्दमे रहित केवल कपाय शब्दका प्रयोग करनेपर उसका वाच्य
भूत द्रव्य केवल कपाय रसवाला ही फलित होता है) प्रश्न—ऐसा
होता है तो होओ । उत्तर—नहीं क्योंकि ऐसा मान लिया जाये तो
एक ही विजौरेके फलमें पाये जानेवाले कपाय रसके प्रतिपक्षी तीते,
कडए, खट्टे और मीठे रसके अभावका तथा रूप, गन्ध, स्पर्श और
आँकार आदिके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है । प्रश्न—होता है तो
होओ । उत्तर—नहीं, क्योंकि वस्तुमें विवक्षित स्वभावको छोड़कर
शेष स्वभावोंका अभाव माननेपर द्रव्यके लक्षणका अभाव हो जाता
है । उसके अभाव हो जानेसे द्रव्यके भी अभावका प्रसंग प्राप्त
होता है ।

स्या० म २/३/२७६/५ वाक्येऽवधारणं तावदनिष्टार्थनिवृत्तये । कर्तव्य-
मन्यथानुक्तसमत्वात् तस्य कुत्रचित् । प्रतिनियतस्वरूपानुपपत्ति
स्यात् । तत्प्रतिपत्तये स्याद् इति शब्दप्रयुज्यते । = किसी वाक्यमें
'एव' का प्रयोग अनिष्ट अभिप्रायके निराकरणके लिए किया जाता
है, अन्यथा अविवक्षित अर्थ स्वीकार करना पड़े । वस्तु स्वचतुष्टय-
की अपेक्षा ही कथंचित् अस्ति रूप है, परचतुष्टयकी अपेक्षा नहीं,
इसी भावको स्पष्ट करनेके लिए 'स्यात्' शब्दका प्रयोग किया
गया है ।

स्याद्वादभूषण— आ अक्लक (ई ६४०-६८०) कृत लज्जिय-
स्त्रयपर आ अभयचन्द्र (ई श १३) कृत सस्कृत शृति ।

स्याद्वादमंजरी — हेमचन्द्र सूरि (ई १०८८-११७३) कृत अयोग
व्यवच्छेद नामक ग्रन्थकी टीका रूपमें आ मचिन्पेण सं. ३ (ई
१२६२) द्वारा रचित एक न्याय विषयक ग्रन्थ ।

स्याद्वादमंजूषा— श्वेताम्बरार्चार्य यशोविजय (ई १६३८-१६८७)
द्वारा सस्कृत भाषामें रचित न्याय विषयक ग्रन्थ ।

स्याद्वादरत्नाकर— दे. प्रमाणय तत्तालकार ।

स्याद्वादवदनविदारण — आ. शुभाचन्द्र (ई १४१६-१४६६)
द्वारा रचित न्यायविषयक ग्रन्थ ।

स्याद्वादसिद्धि—आ वादीभरिह (ई. ७७८-८६२) द्वारा संस्कृत भाषामें रचित न्यायविषयक ग्रन्थ है ।

स्याद्वादोपनिषद्—आ सोमदेव (ई. ६४३-६६८) कृत यह ग्रन्थ स्याद्वाद न्यायका प्ररूपक है । संस्कृत भाषामें रचा गया है ।

स्वक्षेत्र—दे क्षेत्र/१ ।

स्वगणानुस्थापनप्रायश्चित्त—दे, परिहार ।

स्वगुरु वापि क्रिया—दे सत्कार/२ ।

स्वचतुष्टय—दे चतुष्टय ।

स्वचारित्र—दे चारित्र/१ ।

स्वच्छंद—१ स्वच्छंद परिग्रह ग्रहणका निराकरण—दे, अपवाद/४,
२ स्वच्छन्द आहार ग्रहणका निराकरण—दे आहार/१/२/७ ।

स्वच्छंद साधु—

१. स्वच्छन्द साधुका लक्षण

भ आ /मू १३०८-१३१२ मित्रिपुरमुनवलीणा वि केह उदियत्रसामचो-
रेहि । पविलुत्तचरणभडा उरहरमाणा गिवट्टति १३०८। तो ते
सोत्तदरिहा दुखमणत सदा वि पावति । १३०९। मो होदि
साधुसत्थादु गिग्गरो जो भवे जघाछरो। उस्सुत्तमणुवदिट्टं च
जधिज्जाण विकप्पसो १३१०। जो होदि जघाछदा हु तस्स धणिदपि
सजमित्तस्स । णथिं दु चरण चरण सु होदि सम्यत्तमट्टपारी
१३११। इदियक्कसायगुरुगत्तणेण सुत्त पमाणमवरतो। परिमाणेदि
जिणुते अथे सच्छंददो चेत्त १३१२। =मोक्ष नगरके समीप
जाकर भी कितनेक मुनि इन्द्रिय और कपाय रूपी चोरोसे
जिनका चारित्र रूपी भांडाल छूटा गया है तथा नयमका
अभिमान जिनका तट्ट हुआ है ऐसे होकर मिथ्यात्वको प्राप्त होते
हैं १३०८। वे शील दरिद्री मुनि हमेशा तीव्र दुखको प्राप्त होते
हैं १३०९। जो मुनि साधु सार्थको छोडकर स्वतन्त्र हुआ है। जो
स्वेच्छाचारी बनकर आगम विरुद्ध और पूर्वाचार्य प्रकथित आचारों-
को कणपना करता है वह स्वच्छन्द नामक भ्रष्ट मुनि समझना
चाहिए १३१०। यथेष्ट प्रवृत्ति करनेवाले उस भ्रष्ट मुनिने यद्यपि
घोर भयम किया होगा तथापि सम्भ्रमन न होनेसे उनका समय
चारित्र नहीं कहा जाता है १३११। इन्द्रिय और कपामोंमें आधीन
होनेसे यह भ्रष्टमुनि जिनप्रणीत सिद्धान्तको प्रमाण नहीं मानता है
और स्वच्छन्दाचारी बनकर सिद्धान्तका स्वरूप अन्यथा समझता
है तथा अन्यथा विचारमें लाता है १३१२।

भ आ /वि /१६६०/१७२३/१ स्वच्छन्दसपकारस्वयमपि स्वच्छन्दवृत्ति ।
यथाच्छन्दो निरूप्यते—उरसुत्रमनुपदिष्ट स्वेच्छाविकल्पितं यो
निरूपयति सोऽभिधीयते यथाच्छन्द इति । तद्यथा वर्षे पतंत
जलधारणमसयम । क्षुरकर्तारिकादिभि केशापनयनप्रशसनम् आत्म-
विराधनान्यथा भवतीति । भूमिशय्यातुणपुञ्जे वसत अवस्थितानाम्ना-
मावाधेति, उद्देशिकादिके भोजनेऽदोष प्राप्तिं सक्ल पर्यटतो महती
जीवनिकायविराधनेति, गृहामत्रेषु भोजनमदोष इति कथन, पाणि-
पात्रिकस्य परिशातनदोषो भवतीति निरूपणा, सप्रति यथोक्तकारी
विद्यत इति च भाषण एवमादिनिरूपणापरा स्वच्छन्दा इत्युच्यन्ते ।
=स्वच्छन्द मुनिके असर्गसे मुनि स्वच्छन्द बनते हे । यथाच्छन्द
मुनिका वर्णन करते है—जो मुनि आगमके विरुद्ध आगममें न रहा

हुआ और स्वेच्छा कथित पदार्थोंका स्वल्प कहते हैं उनको यथा-
च्छन्द मुनि कहते हैं । वर्षाकालमें जो पानी गिरता है उसको घाग्न
करना वह अगम्य है । उम्ताग और कंधीमें वेदा निरासनना ही
योग्य है । वेदान्तक कर्ममें प्राण-विनाशता हाती है । सचिच
तुणपुत्रर बंधुसे भी भूमि दाय्या भूतगुण पाया जाता है । कृष्ण
पेटनेसे भी जीरोंको माया नहीं पचती । उग्रदेशादि श.प स्थिति
भोजन करना दोषान्द नहीं है । आहारके निष्पन्न भ्रममें घूमनेमें
जीरोंकी विनाशना होती है । घर्म (ममत्तिका) में ही भोजन करना
अन्ता है । हाथमें आहार लेकर भोजन करनेमें जीरोंको बाधा
पड़ती है । ऐसा वे उरसुत्र करते हैं । हम कालमें मर्त्यान्त आचरण
करनेवाले मुनि कोई नहीं हैं । ऐसा करना करना इत्यादि प्रकारमें
विरुद्ध भाषण करनेवाले मुनियोंका यथाच्छन्द अर्थात् स्वच्छन्दमुनि
हते हैं ।

चा मा /१४४/२ त्वत्तुमुद्रुन पणामिवेत् स्वच्छन्दमिहानी जिनवचन-
रूपको मृगचाग्नि स्वेच्छन्द इति ना। =जो अकेले ही स्वच्छन्द
रोतिसे विहार करते हैं और जिनेन्द्र देवके वचनको दूषित करने-
वाले हैं उनको मृगचाग्नि ज्यथा स्वच्छन्द करते हैं । (भा पा /
टो /१४/१३०/२२) ।

स्वच्छन्द शक्ति—म ना /आ /परि /शक्ति ११ नीरुपारमदेदा-
प्रकाशमाननोकानो रावा-मेचकोपयोगनक्षणा स्वच्छन्दशक्ति ।
=अधुतिक जात्मप्रदेशोंमें प्रकाशमान नोकानोंके आचारोंसे नेचन
(अर्थात् अर्थ-आकाररूप) ऐसा उपयोग जिनका लक्षण है ऐसा
स्वच्छन्द शक्ति । (जैसे दर्पणकी स्वच्छन्द शक्तिसे उसकी पर्यायमें
घटपटादि प्रकाशित होते हैं, उन्ही प्रकार आत्माकी स्वच्छन्द शक्तिने
उपयोगमें सोत्तलोकके आकार प्रकाशित होते हैं ।

स्वच्छाहार—भ आ /वि /७००/८२०/६ स्वच्छन्द एक पानक' उप्पो-
दक सोवीरकम् । =स्वच्छ यह एक पानकका प्रकार है । गरम पानी,
बगैरहको स्वच्छ कहते हैं ।

स्वजातिउपचार—दे उपचार/१ ।

स्वतन्त्रता—१ द्रव्यकी स्वतन्त्रता—दे द्रव्य/६ । ७ गुणोंकी
स्वतन्त्रता—दे गुण/७/७, ३ पर्यायोंकी स्वतन्त्रता—दे पर्याय/२/४;
४ आत्मद्रव्य अनौरवर नयसे स्वतन्त्रता भोगने वाला है । हिरण्यकी
स्वतन्त्रता पूर्ण पण्डुरर खा जानेवाले मिट्टीकी भाँति—दे नय/१/
४/४ ।

स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति—स सा. /आ /परिशक्ति/२५। स्वशरी-
रैकस्वरूपारिमना, स्वधर्मव्यापकत्वशक्ति १२५। =सर्व शरीरोंमें
एक स्वरूपारमक ऐसी स्वधर्मव्यापकत्व शक्ति (शरीरके धर्मरूप न
होकर अपने-अपने धर्मोंमें व्यापने रूप शक्ति) सो स्वधर्म व्यापकत्व
शक्ति है ।

स्वदारसन्तोषव्रत—दे ब्रह्मचर्य/१/३ ।

स्वद्रव्य—मो पा /मू /१८ दुदुदुठकम्मररिथं अणोवम णापविग्गह-
णित्तच । सुदुधं जिणेहिं कहियं अप्पाण हवइ सहव १६८। =दुष्ट
कर्मोंसे रहित हैं, तथा अजुपम हान ही है शरीर जिसके ऐसी
अविनाशी, विकार रहित कैवलज्ञानमयी आत्मा जिन भगवान्ने
करी है सो स्वद्रव्य है ।

स्वनिमित्त—दे निमित्त/१/५ ।

स्वप्न—

१. भेद व लक्षण

म.पु./४१/५६-६१ ते च स्वप्ना द्विधात्मना स्वस्थास्वस्थात्मगोचरा । समस्तु धातुभि स्वस्था विपरितरे मता ।६१। तथ्या स्यु स्वस्य सद्य मिथ्या स्वप्ना विपर्ययाद् । जगत्प्रतीतमेतद्वि विद्वि स्वप्न-विमर्शनम् ।६०। स्वप्नाना द्वैतमस्त्यन्यद्वोपदैवसमुद्भवम् । दोष-प्रकोपजा मिथ्या तथ्या स्युर्दैवसभवा ।६१। =स्वप्न दो प्रकारके है—स्वस्थ अवस्थावाले, अस्वस्थ अवस्थावाले । जो धातुओंकी समानता रहते दीखते है वे स्वस्थ अवस्थावाले है, और जो धातुओंकी असमानतासे दीखते है वे अस्वस्थ अवस्थावाले है ।६१। स्वस्थ अवस्थामें दीखनेवाले स्वप्न सत्य और अस्वस्थ अवस्थामें दीखनेवाले स्वप्न असत्य होते है ।६०। स्वप्नोके और भी दो भेद है—एक दैवसे उत्पन्न होने वाले, दूसरे दोषसे उत्पन्न होने वाले । दैवसे उत्पन्न होनेवाले स्वप्न सत्य तथा दोषसे उत्पन्न होने वाले असत्य हुआ करते है ।६१। दे० निमित्त/२/३ (वात, पित्तादिके प्रकोपसे रहित व्यक्ति सूर्य चन्द्रमा आदिको देखता है व शुभस्वप्न तथा गर्दभ, ऊँट आदि पर चढना, व प्रदेश गमनादि देखता है वह अशुभ स्वप्न है । इसके फलरूप सुख-दुःखादिको बताना स्वनिमित्त है । स्वप्नमें हाथी आदिका दर्शन मात्र चिह्न स्वप्न है । और पूर्वापर सम्बन्ध रखने वालेको माला स्वप्न कहते है ।

२ स्वप्नके निमित्त

स्या म./१६/२१६-२१६/३० स्वप्नज्ञानमप्यनुभूतदृष्टाद्यर्थविपयत्वान्न निरालम्बनम् । तथा च महाभाष्यकार—अणुहृद्यदिट्ठचित्तिय म्रियपयहृवियारदेवयाणुवा । सुमिणस्स निमित्ताद् पुण्ण पाव च णा-भावो । =स्वप्नमें भी जाग्रत दशामें अनुभूत पदार्थोंका ही ज्ञान होता है, इसलिए स्वप्न ज्ञान भी सर्वथा निर्विषय नहीं है । जिन-भद्रगणि क्षमाश्रमणने कहा है—“अनुभव किये हुए, देखे हुए, विचारे हुए, सुने हुए, पदार्थ, वात, पित्त आदि प्रकृतिके विकार, दैविक और जल प्रधान प्रदेश स्वप्नमें कारण होते है । सुख निद्रा आनेसे पुण्य रूप और सुख निद्रा न आनेसे पाप रूप स्वप्न दिखाई देते है । वास्तवमें स्वप्न सर्वथा अवस्तु नहीं है ।

३ तीर्थंकरकी माताके १६ स्वप्न

म पु/१२/१६५-१६६ शृणु देवि महात् पुत्रो भविता ते गजेक्षणवा । समस्तभुवनज्येष्ठो महावृषभदर्शनात् ।१६५। सिंहेनानन्तवीर्योऽसौ दाम्ना सद्धर्मतीर्थकृत् । लक्ष्म्याभिषेकमाशासी मेरोर्मूर्ध्नि सुनोत्तमे ।१६६। पूर्णेन्दुना जनाह्लादी भास्वता भारवरण्युति । कुम्भाभ्या निधिभागी स्यात् सुखी मत्स्ययुगेक्षणवा ।१६७। सरसा लक्षणोज्जासी सोऽब्धिना केवली भवेत् । सिंहामनेन साम्राज्यम् अवाप्स्यति जगद्गुरु ।१६८। स्वविमानावलोकेन स्वर्गादवतरिष्यति । फणीन्द्र-भवनालोकात् सोऽब्धिज्ञानलोचन ।१६९। गुणानामाकर प्रोचद्रत्न-राशिनिशामनात् । कर्मेन्धनधगप्येव निर्धूमज्वलनेक्षणवा ।१६०। वृषभाकारमादाय भवत्यास्यप्रवेशनात् । रवद्गर्भे वृषभो देव स्वमा-धास्यति निर्मले ।१६१। = (नाभिराय मरुदेवीसे कहते है) हे देवी । सुन, १ हाथीके देखनेसे उत्तम पुत्र होगा, २ उत्तम प्रेल्के देखनेसे

समस्त लोकमें ज्येष्ठ, ३, सिंहके देखनेसे अनन्त धनमे युक्त, ४ मालाओंके देखनेसे समीचीन धर्मका प्रवर्तक, ५ लक्ष्मीके देखनेसे सुमेरु पर्वतके मस्तक पर देवोंके द्वारा अभिषेकको प्राप्त, ६ पूर्ण चन्द्रमाको देखनेसे लोगोंको आनन्द देनेवाला, ७ सूर्यको देखनेसे देदीप्यमान प्रभाका धारक, ८ दो कलश युगल देखनेसे अनेक निधिको प्राप्त, और ९, मखलियोंका युगल देखनेसे सुखी होगा ।१६५-१६७। १०, सरोवरको देखनेसे अनेक लक्षणोंसे शोभित, ११ समुद्रको देखनेसे केवली और, १२ सिंहासन देखनेसे जगद्गुरु होकर साम्राज्य प्राप्त करेगा ।१६८। १३ देवोंका विमान देखनेसे स्वर्गसे अवतीर्ण, १४, नागेन्द्रका भवन देखनेसे अधिज्ञानसे युक्त, १५ चमकते रत्नोंकी राशि देखनेसे गुणोंकी खान, १६ निर्धूम अग्नि देखनेसे कर्मरूपी ईधनको जलाने वाला होगा ।१६६-१६७। तुम्हारे मुखमें वृषभने प्रवेश किया है इसलिए तुम्हारे गर्भमें वृषभदेव प्रवेश करेंगे ।१६१।

४. चक्रवर्तीकी माताके ६ स्वप्नोंका फल

म पु/१५/१२३-१२६ देवि पुत्रमाप्सति गिगीन्द्रात् चक्रवर्तिनम् । तस्य प्रतापितामर्कं शास्तीन्दु कान्तिसपदम् ।१२३। सरोजाक्षि सरोहरटे असी पङ्कजवासिनीम् । वोढा व्यूढोरसा पुण्यलक्षणाद्भितविग्रह ।१२४। महीग्रसनत कृत्स्ना मही सागरवाससम् । प्रतिपालयिता देवि विशराट् तव पुत्रक ।१२५। सागराच्चरमाद्गोऽसौ तरिता जन्मसागरम् । ज्यायान्पुत्रशतस्यायम् इक्ष्वाकुकुलनन्दन ।१२६। = (भगवान् रूपभ देव यशस्वतीके स्वप्नोंका फल कहते है) हे देवी ! सुमेरु पर्वत देखनेसे तेरे चक्रवर्ती पुत्र होगा । सूर्य उसके प्रतापको और चन्द्रमा उसकी कान्तिको सूचित कर रहा है ।१२३। सरोवरके देखनेसे पवित्र लक्षणोंसे युक्त शरीर वाला होकर अपने विस्तृत वक्षस्थल पर लक्ष्मीको धारण करेगा ।१२४। पृथ्वीका प्रसा जाना देखनेसे चक्रवर्ती होकर समस्त पृथ्वीका पालन करेगा ।१२५। और समुद्र देखनेसे चरम-शरीरी होकर ससार समुद्रको पार करेगा । इसके अतिरिक्त इक्ष्वाकु-वशको आनन्द देनेवाला वह पुत्र तेरे १०० पुत्रोंमें ज्येष्ठ होगा ।१२६।

५. नारायणकी माताके सात स्वप्न

ह पु/३५/१३-१५ ज्वलद्दृष्टज्ज्वालहुताशमुच्चैः सुरध्वज रत्नमरीचि-चक्रम् । मृगाधिप चाननमाविशन्त निशाम्य सौम्या ब्रुवुधे सक्म्पा ।१३। अपूर्वसुखप्रविलोकनारसा सविस्मया दृष्टतनूहा तात् । जगौ प्रभाते कृतभङ्गनादा समेत्य पत्येऽभिदधे स विद्वान् ।१४। प्रतापविध्वस्तरिपु सुतस्ते प्रियोऽतिसौभाग्ययुतोऽभिपेत्नी । दिवो-ऽवतीर्यतिरुचि स्थिरोऽभोर्भविष्यति क्षिप्रमिनी जगत्या ।१५। = (वसुदेव अपनी रानी देवकीसे कृष्णके गर्भसे पूर्व देखे गये स्वप्नोंका फल कहते है)—हे प्रिये ! जो समस्त पृथ्वीका स्वामी होगा ऐसा तेरे पुत्र होगा । १ सूर्य देखनेसे शत्रु-विध्वंसक प्रतापसे युक्त होगा, २ चन्द्रमाको देखनेसे समका प्रिय होगा, ३ दिग्गजों द्वारा लक्ष्मीका अभिषेक देखनेसे सौभाग्ययुती एव राज्याभिषेकसे युक्त होगा, ४ आकाशसे नीचे आता विमान देखनेसे स्वर्गसे अवतीर्ण होगा, ५ देदीप्यमान अग्नि देखनेसे अत्यन्त कान्तिसे युक्त होगा, ६ रत्न-राशिकी किरणसे युक्त देवध्वजा देखनेसे स्थिर प्रकृतिना होगा, ७ मूसलमें प्रवेश करता सिंह देखनेसे निर्भय होगा ।१३-१५।

जैनेन्द्र सिद्धान्त बोध

६ भरत चक्रवर्तिके १६ स्वप्न—

म.पु १४१/६३-७६ ।

सं.	प्रमाण श्लो स	स्वप्न	फल
१	६३	पर्वत पर २३ सिंह	वीरके अतिरिक्त २३ तीर्थ-करोंके समय दृष्ट नयोंकी उत्पत्तिका अभाव
२	६५	सिंहके साथ हिरणों का समूह	वीरके तीर्थमें अनेकों कुलि-गियोंकी उत्पत्ति
३	६६	बड़े बोकसे झुकी पीठवाला घोडा	पचम कालमें तपश्चरणके समस्त गुणोंसे रहित साधु होंगे
४	६८	शुष्क पत्ते खानेवाले बकरों-का समूह	आगामी कालमें दुराचारी मनुष्योंकी उत्पत्ति
५	६९	हाथीके ऊपर बैठे मानर	क्षत्रिय वंश नष्ट हो जायेंगे
६	७०	अन्य पक्षियों द्वारा प्राप्त किया हुआ खरू	धर्मकी इच्छासे मनुष्य अन्य मतके साधुओंके पास जायेंगे
७	७१	आनन्द करते भूत	व्यन्तर देवोंकी पूजा होगी
८	७२	मध्य भाग सूखा हुआ तालाब	आर्य खण्डमें धर्मका अभाव
९	७३	मलिन रत्नराशि	शुद्धि धारी मुनियोंका अभाव
१०	७४	कुत्तेका नेबेय आदिसे सरकार करना	गुणी पात्रोंके समान अमती शाहणोंका सरकार होगा
११	७५	जवान बैल	तरुण अवस्थामें ही मुनिपद होगा
१२	७६	मण्डलसे युक्त चन्द्रमा	अवधि व मन पर्यय ज्ञानका अभाव होगा
१३	७७	शोभा नष्ट दो बैल	एकाकी विहारका अभाव होगा
१४	७८	मेघोंसे आवृत सूर्य	केवलज्ञानका अभाव होगा
१५	७९	छाया रहित सुखा वृक्ष	स्त्री-पुरुषोंका चारित्र भ्रष्ट होगा
१६	८०	जीर्ण पत्तोंका समूह	महोपधियोंका रस नष्ट होगा

७. राजा श्रेयांसके सात स्वप्न

म पु २०/३४-४० सुमेरुमैक्षतोत्तुङ्गं हिरण्यमहातनुम् । कल्पद्रुम च शाखाप्रलम्बि भूपणभूपितम् । ३४। सिंह सहारसन्ध्याभकेसरोद्भुर-कन्धरम् । शृङ्गाप्रलग्नमृत्स न च वृषभ कूलमुद्रजम् । ३५। सूर्येन्द्र भुवन-स्येव नयने प्रस्तुद्वयुत्तौ । सरस्वन्तमपि प्रोच्चैर्बोधि ररनाचि-तार्णसम् । ३६। अष्टमङ्गलधारीणि भूतरूपाणि चाग्रत । सोऽपश्यद्द भगवत्पाददर्शनं कफलाग्निमात् । ३७। सप्रश्रयमथासाद्य प्रभाते प्रीत-मानस । सोमप्रभाय तात् स्वप्नात् यथादृष्टं न्यवेदयत् । ३८। तत पुरोधो कल्याण फल तेषामभाषत । प्रसरद्दशनज्योत्स्नाप्रधौतक-कुम्भन्तर । ३९। मेरुसदर्शनाद्देवो यो मेरुरिव सूत्रत । मेरी प्राप्ताभिपेक स गृहमेप्यति न स्फुटम् । ४०। — राजा श्रेयांसने भगवात्को आहार-दानसे पूर्व प्रथम स्वप्नमें सुमेरु पर्वत देखा । फिर क्रमसे आभूषणोंसे सुशोभित कल्पवृक्ष, किनारा उखाड़ता हुआ बैल, सूर्य चन्द्रमा, लहरों और रत्नोंसे सुशोभित समुद्र, और सातवें स्वप्नमें अष्ट मंगल द्रव्य लिये हुए व्यन्तर देवोंकी मूर्तियाँ देलीं । ३४-३९। मेरुके देखनेसे

यह फल प्रफट होता है कि जिसका सुमेरु पर अभिषेक हुआ है, ऐसा देव (शुभ भगवात्) अवश्य आज हमारे घरमें आवेगा । ४०। और ये अन्य स्वप्न भी उन्हींके गुणोंको सूचित करते हैं । ४१।

स्वप्नातिचार—दे अतिचार/३ ।

स्वभाव—वस्तुके स्वयसिद्ध तर्कागोचर, नित्य शुद्ध अक्षका नाम स्वभाव है । वह दो प्रकारके होते हैं—वस्तुभूत और आपेक्षिक । तहाँ वस्तुभूत स्वभाव दो प्रकार के हैं—सामान्य व विशेष । सारभावी गुण सामान्य स्वभाव है और क्रमभावी पर्याय, विशेष स्वभाव है । आपेक्षिक स्वभाव अस्तित्व, नास्तित्व, नित्यत्व-अनित्यत्व आदि विरोधी धर्मोंके रूपमें अनन्त है, जिनकी सिद्धि स्वाहाद रूप सप्त-भगी द्वारा होती है । इन्हींके कारण वस्तु अनेकान्त स्वरूप है ।

१	स्वभावके भेद लक्षण व विभाजन
१	स्वभाव सामान्यका लक्षण ।
	१. स्वभावका निरुक्तार्थ ।
	२. स्वभावका अर्थ अन्तर ग भाव ।
	३. स्वभावका लक्षण गुण पर्यायोंमें अन्य परिणाम ।
	४. स्वभाव व शक्तिके एकार्थवाची नाम ।
२	स्वभाव सामान्यके भेद ।
३	सामान्य व विशेष स्वभावोंके भेद ।
*	प्रत्येक द्रव्यके स्वभाव —दे वृह-वह द्रव्य ।
*	जीव पुद्गलका कर्ध्व अधोगति स्वभाव —दे, गति/१/३-६ ।
*	वस्तुमें अनेकों विरोधी धर्मोंका निर्देश —दे अनेकान्त/४ ।
*	जीवके क्षायोपशमिकादि स्वभाव —दे भाव तथा वह-वह नाम ।
*	वस्तुमें अनन्तों धर्म होते हैं —दे गुण/३/९-११ ।
४	अपचरित स्वभावके भेद व लक्षण ।
५	प्रत्येक द्रव्यमें स्वभावोंका निर्देश ।
६	वस्तुमें कल्पित व वस्तुभूत धर्मोंका निर्देश
२	स्वभाव व शक्ति निर्देश
१	स्वभाव परकी अपेक्षा नहीं रखता ।
२	स्वभावमें तर्क नहीं चलता ।
३	शक्ति व व्यक्तिकी परोक्षता प्रत्यक्षता ।
*	शक्तिका व्यक्त होना आवश्यक नहीं—दे भव्य/३/३ ।
*	अशुद्ध अवस्थामें स्वभावकी शक्तिका अभाव रहता है —दे अगुरुलघु ।
४	स्वभाव या धर्म अपेक्षाकृत होते हैं ।
५	गुणको स्वभाव कह सकते हैं पर स्वभावको गुण नहीं ।
६	धर्मोंकी सापेक्षताको न माने सो अशानी ।
*	स्वभाव अनन्त चतुष्टय —दे चतुष्टय ।
*	स्वभाव विभाव सम्बन्धी —दे, विभाव ।
*	स्वभाव व विभाव पर्याय —दे पर्याय/३ ।
*	वस्तु स्वभावके भानका सम्यग्दर्शनमें स्थान —दे, सम्यग्दर्शन/II/३ ।

१. स्वभावके भेद लक्षण व विभाजन

१. स्वभाव सामान्यका लक्षण

१. स्वभावका निरुक्ति अर्थ

रा वा /७/१२/२/५३६/८ स्वेनात्मना असाधारणेन धर्मेण भवन स्वभाव इत्युच्यते । = स्व अर्थात् अपने असाधारण धर्मके द्वारा होना सो स्वभाव कहा जाता है ।

स, सा /आ /७१ स्वस्य भवन तु स्वभाव' । = 'स्व' का भवन अर्थात् होना वह स्वभाव है ।

का अ/घृ /४७८ धम्मो वस्तुसहावो । = वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं ।

त अनु /५३ वस्तुस्वरूप हि प्राहुर्यमं महर्षय ॥३॥ = वस्तुके स्वरूपको ही महर्षियोंने धर्म कहा है ।

स, श्र/टी /१/२२६/१८ स्वसवेद्यो निरुपाधिक हि रूप वस्तुत स्वभावोऽभिधीयते । = स्वसवेद्य निरुपाधिक ही वस्तुका स्वरूप है, वही वस्तुका स्वभाव है ।

२. स्वभावका लक्षण अन्तरग भाव

क पा १/४,२२/५६२३/३८७/३ को सहावो । अन्तरङ्गकारण । = अन्तरग कारणको स्वभाव कहते हैं ।

घ, ७/२,४,४/२३८/७ को सहावो नाम । अन्तरगभावो । = आभ्यन्तर भावको स्वभाव कहते हैं । (अर्थात् वस्तु या वस्तुस्थितिकी उस अवस्थाको उसका स्वभाव कहते हैं जो उसका भीतरी गुण है और बाह्य परिस्थिति पर अवलम्बित नहीं है ।)

३ स्वभावका लक्षण गुण पर्यायोंमें अन्वय परिणाम

प्र सा /त प्र /१६५,६६ स्वभावोऽस्तित्वसामान्यान्वय ॥६५॥ स्वभावस्तु द्रव्यस्य धौव्योत्पादोच्चेदैक्यात्मकपरिणाम ॥६६॥ = द्रव्यका स्वभाव वह अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय है ॥६५॥ स्वभाव द्रव्यका धौव्य-उत्पादविनाशकी एकता स्वरूप परिणाम है ॥६६॥

प्र सा /ता वृ /८७/११०/१२ द्रव्यस्य क स्वभाव इति पृष्टे गुणपर्यायाणामात्मा एव स्वभाव इति । = प्रश्न—द्रव्यका क्या स्वभाव है ? उत्तर—गुण पर्यायोंकी आत्मा ही स्वभाव है ।

४. स्वभाव व शक्तिके एकार्यवाची नाम

दे तत्त्व/१/१ तत्त्व, परमार्थ, द्रव्य, स्वभाव, परमपरम, ध्येय, शुद्ध और परम ये सब एकार्यवाची है ।

दे. प्रकृति बन्ध १/१ प्रकृति, शक्ति, लक्षण, विशेष, धर्म, रूप, गुण तथा शील व आकृति एकार्यवाची है ।

२. स्वभाव सामान्यके भेद

न, च. वृ /१६ को उत्थानिका—स्वभावाद्द्विविधा—सामान्या विशेषाश्च । = स्वभाव दो प्रकारके है—सामान्य, विशेष । (प घ /पू /२८०)

३ सामान्य व विशेष स्वभावोंके भेद

न, च वृ /५६-६० अत्थित्ति णत्थि णिच्च अणिच्चमेग अणेगभेदिदर भव्वा भव्व परम सामण्णा सव्वदब्बाण ॥५६॥ चेदणमचेदण पि हु सुत्तममुत्त च एगवहुदेस । सुद्धामुद्धविभावं उवयरिय होइ कस्सेव ॥६०॥ = अस्तित्व, नास्तित्व, नित्य, अनित्य, एक, अनेक, भेद, अभेद, भव्य, अभव्य और परम । ये ११ सर्व द्रव्योंके सामान्य स्वभाव हैं ॥५६॥ चेतन, अचेतन, मूर्त, अमूर्त, एकप्रदेशी, बहुप्रदेशी, शुद्ध, अशुद्ध, विभाव और उपचरित ये १० स्वभाव द्रव्योंके विशेष स्वभाव हैं । [इस प्रकार कुल २१ सामान्य व विशेष स्वभाव हैं । (न च वृ /७०), (आ, प, ४), (न च, श्रुत/६१)

का अ./३१२ प जयचन्द-वे धर्म (स्वभाव) अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, अपेक्षात्व, अनपेक्षात्व, दैवसाध्यत्व, पौरुषसाध्यत्व, हेतुसाध्यत्व, आगम साध्यत्व, अन्तर गत्व, बहिर गत्व, इत्यादि तो सामान्य हैं । बहुरि द्रव्यत्व, पर्यायत्व, जीवत्व, अजीवत्व, स्पर्शत्व, रसत्व, गन्धत्व, वर्णत्व, शब्दत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, समारित्व, सिद्धत्व, अवगाहत्व, गति-हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व इत्यादि विशेष धर्म हैं ।

४. उपचरित स्वभावके भेद व लक्षण

आ प./६ स्वभावस्याप्यन्यत्रोपचारादुपचरितस्वभाव । स द्वेषा-कर्म-जस्वाभाविकभेदात् । यथा जीवस्य मूर्तत्वमचेतन्यत्व, यथा सिद्धानां परज्ञता परदर्शकत्व च । एवमितरेषा द्रव्याणामुपचारा यथासंभवो ज्ञेय । = स्वभावका भी अन्यत्र उपचार करनेसे उपचरित स्वभाव होता है । वह उपचरित स्वभाव कर्मज और स्वाभाविकके भेदसे दो प्रकारका है । जैसे जीवका मूर्तत्व और अचेतनत्व कर्मजस्वभाव है । और सिद्धोंका परकी देवता, परकी जानना स्वाभाविक स्वभाव है । इस प्रकार दूसरे द्रव्योंका उपचार भी यथासंभव जानना चाहिए ।

दे पारिणामिक/२ अस्तित्व, अन्यत्व, कर्तृत्व, हरत्व, पर्यायत्व, असर्वगतत्व, अनादिसन्तति बन्धत्व, प्रदेशवत्त्व, अरूपत्व, नित्यत्व आदि भाग च शब्दसे समुच्चय किये गये हैं ।

स सा /आ /परि /४७ शक्तियाँ—जीव द्रव्यमें ४७ शक्तियोंका नाम निर्देश किया गया है, यथा—१ जीवत्व, २ चितिशक्ति, ३ दृशिशक्ति, ४ ज्ञानशक्ति, ५ सुखशक्ति, ६ वीर्यशक्ति, ७ प्रभुत्व, ८ विभुत्व, ९ सर्वदर्शित्व, १० सर्वज्ञत्व, ११ स्वच्छत्व, १२ प्रकाशशक्ति, १३ असकुचितविकाशत्व, १४ अकार्यकारण, १५ परिणम्य परिणामकत्व १६ त्यागोपादानशून्यत्व, १७ अगुरुलघुत्व, १८ उत्पादव्ययधौव्यत्व, १९ परिणाम, २० अमूर्तत्व, २१ अकर्तृत्व, २२ अभावतृत्व, २३ निष्क्रियत्व, २४ नियतप्रदेशत्व, २५ सर्वधर्म-व्यापकत्व, २६ साधारणासाधारणधर्मत्व, २७ अनन्तधर्मत्व, २८ विरुद्धधर्मत्व, २९ तत्त्वशक्ति, ३० अतत्त्वशक्ति, ३१ एकत्व, ३२ अनेकत्व, ३३ भावशक्ति, ३४ अभावशक्ति, ३५ भावाभावशक्ति, ३६ अभावभावशक्ति, ३७ भावभावशक्ति, ३८ अभावभावशक्ति, ३९ भावशक्ति, ४० क्रियाशक्ति, ४१ कर्मशक्ति, ४२ कर्तृशक्ति, ४३ करणशक्ति, ४४ सम्प्रदानशक्ति, ४५ अपादानशक्ति, ४६ अधि-करणशक्ति, ४७ सम्बन्धशक्ति ।

५ प्रत्येक द्रव्यमें स्वभावोंका निर्देश

न च वृ /७० इगवीस तु सहावा दोण्ह तिण्ह तु सोडमा भणिया । पचदसा पुण काले दब्बमहावाय णायव्वा ॥७०॥ = जीव [पुद्गलके २१ स्वभाव हैं, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्यके १६ स्वभाव कहे गये हैं । तथा काल द्रव्यके १५ स्वभाव जानना चाहिए ।

स सा /प जयचन्द/आ /क २ वस्तुमें अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तिकत्व, अमूर्तिकत्व इत्यादि तो गुण हैं । एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म हैं । वे सामान्य रूप तो वचनके गोचर हैं, किन्तु अन्य विशेष रूप धर्म वचनके विषय नहीं हैं । किन्तु वे ज्ञानगम्य हैं । आत्मा भी एक वस्तु है उसमें भी अनन्त धर्म हैं ।

स सा /प जयचन्द/४०४ आत्मानं अनन्तधर्म है, कितने तो दृश्यके अनुभव गोचर ही नहीं हैं, कितने ही धर्म अनुभव गोचर हैं । कितने ही तो अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्वादि तो अन्य द्रव्योंके साथ सामान्य और कितने ही पर द्रव्यके निमित्तसे हुए हैं ।

६ वस्तुमें कल्पित व वस्तुभूत धर्मोका निर्देश

श्लो. वा २/१/७/६/१२६/२७ कल्पितानां वस्तुभूतानां च धर्माणाम्
वस्तुनि यथाप्रमाणोपपन्नत्वात् । = वस्तुमें प्रमाणोंकी उत्पत्तिका
अतिक्रम नहीं करके कल्पित, अस्तित्, नास्ति आदि सप्तभगीके विषय-
भूत धर्मोंकी और वस्तुभूत वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ज्ञान, सुख, रूप, रस
आदि धर्मोंकी सिद्धि हो रही है ।

२ स्वभाव व शक्ति निर्देश

१ स्वभाव परकी अपेक्षा नहीं रखता

न्या वि /टी/१/१३६/४८८ पर प्रमाण वार्तिकसे उद्धृत—अर्थान्तरा-
नपेक्षत्वात् स्वभावोऽनुवर्णित । = दूसरे पदार्थकी अपेक्षा न होनेसे
वह स्वभाव कहा गया है ।

स सा /आ/१/११६ न हि स्वतोऽसती शक्ति कर्तुमन्येन पार्यते । न
हि वस्तुशक्त्य परमपेक्षन्ते । = (वस्तुमें) जो शक्ति स्वतः न हो उसे
अन्य कोई नहीं कर सकता । वस्तुकी शक्तियाँ परकी अपेक्षा
नहीं रखती ।

प्र सा /त प्र/१/६/६/६८ स्वभावस्य तु परानपेक्षत्वात् । १६। स्वभाव
तत्पुनरन्यसाधननिरपेक्षत्वादानाद्यनन्ततया हेतुकयैकरूपया । १६।
सर्वद्रव्याणां स्वभावसिद्धत्वात् स्वभावसिद्धत्वं तु तेषामनादिनिध-
नत्वात् । अनादिनिधनं हि न साधनान्तरमपेक्षते । १८। = स्वभाव-
परमे अनपेक्ष है ॥१६॥ स्वभाव अन्य साधनसे निरपेक्ष होनेके
कारण अनादि अनन्त होनेसे तथा अहेतुक, एकरूप वृत्तिसे
। १६। वास्तवमें सर्व द्रव्य स्वभावसिद्ध है । स्वभावसिद्धता तो उनकी
अनादिनिधनतासे है, क्योंकि अनादिनिधन साधनान्तरकी
अपेक्षा नहीं रखता । १८।

२ स्वभावमें तर्क नहीं चलता

घ १/१.१.२२/१६६/२ न हि स्वभावा परपर्यायुयोगार्हा । = स्वभाव
दूसरोंके प्रश्नोंके योग्य नहीं हुआ करते हैं । (घ ६/४.२.४४/१२२/२),
(और भी वे आगम/६/३) ।

घ ६/१.६.७८/४६/७ ण च सहावे ज्ञुक्तिवादस्स पवेसो अरिथ ।
= स्वभावमें युक्तिवादका प्रवेश नहीं है ।

गो जी /जो प्र/१/८/४१६/२० स्वभावोऽतर्कगोचर इति समस्त-
वादिंसमतत्वात् । = स्वभावमें तर्क नहीं चलता ऐसा समस्तवादी
मानते हैं (श्लो. वा २/भाषा/१/६/३८/३६३/१२), (प.घ/७/४३.४८८) ।

३. शक्ति व व्यक्तिकी परोक्षता प्रत्यक्षता

न्या. वि /वृ/२/१/२/३७ पर उद्धृत—शक्ति कार्यानुमेया हि व्यक्ति-
दर्शनहेतुका । = शक्तिका कार्यपरसे अनुमान किया जाता है और
व्यक्तिका प्रत्यक्ष दर्शन होता है ।

४. स्वभाव या धर्म अपेक्षा कृत होते हैं

स्या म /२/४/२८/२१ नन्वेते धर्मा परस्पर विरुद्धा तत्कथमेकत्र
वस्तुभेषां समावेश सम्भवति । उपाधयोऽवच्छेदका अशप्रकारा
तेषां भेदो नानात्वम्, तेनोपहितमर्पितम् । असत्त्वस्य विद्योपपत्तत्त्वं ।
उपाधिभेदोपहित सदर्थेऽन्यत्वं न विरुद्धम् । = प्रश्न—अस्तित्व,
नास्तित्व और अवक्तव्य परस्पर विरुद्ध हैं, अतएव ये किसी वस्तुमें
एक साथ नहीं रह सकते । उत्तर—वास्तवमें अस्तित्वादिमें विरोध
नहीं है । क्योंकि अस्तित्वादि किसी अपेक्षासे स्वीकार किये गये हैं ।
पदार्थोंमें अस्तित्व, नास्तित्वादि नानाधर्म विद्यमान हैं । जिस समय
हम पदार्थोंका अस्तित्व सिद्ध करते हैं, उस समय अस्तित्व धर्मकी
प्रधानता और अन्य धर्मकी गौणता रहती है । अतएव अस्तित्व,
नास्तित्व धर्ममें परस्पर विरोध नहीं है ।

वे स्वभाव/१/६ सप्तभगीके विषयभूत अस्तित्व नास्तित्व आदि धर्म
वस्तुमें कल्पित हैं ।

५. गुणको स्वभाव कह सकते हैं पर स्वभावको गुण नहीं

आ प /६ धर्मापेक्षया स्वभावा गुणा न भवन्ति । स्वद्रव्यचतुष्टयापेक्षया
परस्पर गुणा, स्वभावा भवन्ति । = धर्मोंकी अपेक्षा स्वभाव गुण नहीं
होते हैं । परन्तु स्व द्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा परस्पर गुण स्वभाव
होते हैं ।

६ धर्मोंकी सापेक्षताको न माने सो अज्ञानी

न. च. वृ /७४ इति पुबुवृत्ता धर्मा सियसावेवत्वा ण गेहप जो हु । सो
इह मिच्छादृष्टी णायव्वो पवयणे भण्णो । ७४। — जो पूर्वमें कहे
हुए धर्मोंको कथंचित् परस्परमें सापेक्ष ग्रहण नहीं करता है वह
मिथ्यादृष्टि जानना चाहिए । ऐसा बचनमें कहा है । ७४।

स्वभाव नय—दे नय/१/४/४।

स्वभाववाद—मो क /मृ/८८३ को करइ कटयाण तिवत्त
मियविहगमादीण । विविहत्त तु सहाओ इदि सव्व पि य,सहाओत्ति
। ८८३। = कौटोको आदि लेकर जो तीक्ष्ण वस्तु है उनके तीक्ष्णपना
कौन करता है । तथा मृग और पक्षी आदिकोंके अनेकपना कौन
करता है । इस प्रश्नका उत्तर मिलता है कि सबमें स्वभाव ही है ।
ऐसे सबको कारणके बिना स्वभावसे ही मानना (मिथ्या) स्वभाव-
वादका अर्थ है ।

नि. सा /ता वृ/१/७० ज्ञान तावज्जीवस्वरूप भवति, ततो हेतोरखण्डा-
द्वेत्स्वभावनिरत निरतिशयपरमभावनासनार्थ मुक्तिमुन्दरीनाथ
बहिर्व्यावृत्तकौतूहल निजपरमात्मान जानाति करिचदारमा भव्य-
जीव इति अयं खलु स्वभाववाद । = ज्ञान वास्तवमें जीवका स्वरूप
है, उस हेतुसे जो अखण्ड अद्वैत स्वभावमें लीन है, जो निरतिशय
परम भावना सहित है, जो मुक्ति मुन्दरीका नाथ है और बाह्यमें
जिसने कौतूहल व्यावृत्त किया है ऐसे निज परमात्माको कोई
आत्मा-भव्य जीव जानता है । ऐसा वास्तवमें (निश्चय)
स्वभाववाद है ।

स्वभावविरुद्धानुपलब्धिहेतु—दे हेतु ।

स्वभावानित्य पर्यायार्थिक नय—दे नय/IV/४।

स्वमुखोदय—दे उदय/१।

स्वयंप्रभ—१ भाविकालीन चाँथे तीर्थकर—दे तीर्थकर/६।

२ म पु/सर्ग/श्लोक ऐशान स्वर्गका एक देव था । (६/१८६) यह
श्रेयांस राजाका पूर्वका छठा भव है ।—दे श्रेयांस । ३ सुमेरु
पर्वतका अपर नाम—दे सुमेरु । ४ रुचक पर्वतस्थ एक कूट—दे,
लोक/७।

स्वयंप्रभा—म पु./सर्ग/श्लोक स्वर्गमें ललितागदेव (ऋषभदेवके
नवमें भव) की अति प्रिय देवी थी (६/२८६) । यह ललितागदेवके
स्वर्गसे च्युत होनेपर अति दुखी हुई (६/६०) । अन्तमें पंचपरमपत्नीके
स्मरण पूर्वक स्वर्गसे च्युत हुई (६/४६-५७) । यह श्रेयांस राजाका
पूर्वका पाँचवाँ भव है—दे श्रेयांस ।

स्वयंबुद्ध—१ इस सम्बन्धी विषय—दे बुद्ध । २. म पु/सर्ग/
श्लोक यह राजा महाबल (ऋषभदेवका पूर्वका नवमा भव) का
मन्त्री था (४/१६१) इसने तीन मिथ्यादृष्टि मन्त्रियों द्वारा मिथ्या-
वादोंकी स्थापना करनेपर उनका खण्डनकर अस्तित्वस्वभावकी
स्थापना की (६/८६) । एक समय मेरुकी वन्दनार्थ गया (६/१६१)

वहाँ मुनियोंसे राजाकी दसवें भवमें मुक्ति जानकर हर्षित हुआ (१/१६८-२००)। आयुका अन्त जानकर राजाका समाधि पूर्वक मरण कराया। (४/२२५) अन्तमें राजाके वियोगसे दीक्षा ग्रहण कर ली। तथा समाधिपूर्वक स्वर्गमें रत्नचूल देव हुआ (६/१०६)।

स्वयंभू—१. म. पु/५६/श्लोक पूर्व भव स २ में पश्चिम विदेहमें मित्रनन्दी राजा था (६३) पूर्व भवमें अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र था (७०)। वर्तमान भवमें तृतीय नारायण हुए है। विशेष पश्चिम—३. शलाकापुरूप/४। २ भाविकालीन उन्नोसर्व तीर्थकर है।—दे. तीर्थकर/५। ३ योगदर्शनके आद्य प्रवर्तक हिरण्यगर्भका अपर नाम—दे योगदर्शन। ४, अपभ्रंशके प्रथम कवि है। इनके पिताका नाम मारुत देव, और माताका नाम पद्मिनी था। आप कर्णाटकके रहनेवाले थे। राहुलजीके अनुसार आप कन्नौजके हैं। धनजयकी प्रार्थनापर आपने पञ्चमचरित्रकी रचना की। इसके अतिरिक्त रिट्टनेमि चरित्र, स्वयंभूछन्द, हरिवंश पुराण (अप) की रचना की। समय—ई ६६७-७२३ (वि ७३४), (पञ्चम चरित्र/प्र महेंद्र कुमार), (म पु/प्र. २० प. पन्नालाल), (हिं जै सा, ई/कामता)।

स्वयंभू—१. स्वयंभूका लक्षण

निक्षेप/५/१/६ आचार्योंकी अपेक्षा न करके समयसे उत्पन्न हुए श्रुत ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे स्वयंबुद्ध होते है।

पं. का/ता वृ/१५२/२२०/१२ तथा चोक्तम्—श्रीपूज्यपादस्वामिभिर्निरचयध्येयव्याख्यानम्। आत्मानमात्मा आत्मन्येवात्मनासी क्षण-सुपजनन्यन्सद् स्वयंभू प्रवृत्त। —श्रीपूज्यपाद स्वामीने भी निरचय ध्येयका व्याख्यान किया है कि—आत्मा आत्माको आत्मामें आत्माके द्वारा उस आत्माको एक क्षण धारण करता हुआ स्वयं हो जाता है।

प्र. सा/त प्र/१६ स्वयमेव पट्टकारकीरूपेणोपजायमान, उत्पत्ति-व्यपेक्षया द्रव्यभावभेदभिन्नघातिकमर्ण्यपास्य स्वमेवाविर्भूतत्वाद्वा स्वयंभूरिति निर्दिश्यते। —स्वयं ही पट्टकारक रूप होता है, इसलिए वह स्वयंभू कहलाता है। अथवा अनादि कालसे अतिदृढ बँधे हुए द्रव्य तथा भाव घाति कर्मोंको नष्ट करके स्वयमेव आविर्भूत हुआ है, अर्थात् किसीकी सहायताके बिना अपने आप ही स्वयं प्रगट हुआ इसलिए स्वयंभू कहलाता है।

त्या म/१/६/३ स्वयम्-आत्मनैव, परोपदेशनिरपेक्षतयावगतत्त्वो भव-तितीति स्वयंभू—स्वयंबुद्ध। —जिसने दूसरेके उपदेशके बिना स्वयं ही तत्त्वोंको जान लिया है, वह स्वयंभू कहलाता है।

स्व. स्तो/टी/१ स्वयं परोपदेशमन्तरेण मोक्षमार्गमवबुद्धय अनुष्ठाय वा अनन्त भवतीति स्वयंभू। —स्वयं ही बिना किसी दूसरेके उपदेशके मोक्षमार्गको जानकर तथा उसका अनुष्ठान करके आत्मविकासको प्राप्त हुए थे, इसलिए स्वयंभू थे।

* जीवको स्वयंभू कहनेकी विवक्षा—दे, जीव/१/३।

स्वयंभू छन्द—कवि स्वयंभू (ई. ६७७-७८३) द्वारा प्राकृत भाषामें रचित यह ग्रन्थ अनेको प्रकारके छन्दोंमें निम्न है।

स्वयंभूरमण—१ मध्यलोकका अन्तिम सागर व द्वीप—दे, लोक/४/८। २ स्वयंभूरमण द्वीप व समुद्रका लोकमें अवस्थान व विस्तार—दे लोक/२/११। ३ इस द्वीप व समुद्रमें काल वर्तन आदि सम्बन्धी विशेषताएँ—दे काल/४/१५।

स्वयंभूस्तोत्र—जा समन्तभद्र (ई श. २) कृत यह ग्रन्थ संस्कृत छन्दोंमें रचा गया है। इसमें २४ तीर्थंकरोंका स्तवन किया है, और

वह भी न्यायपूर्वक अनेकान्तकी स्थापना करते हुए। २, ३ के अतिरिक्त सभी तीर्थंकरोंके स्तवनमें ५,६ श्लोक है। कुल श्लोक १४३ है।

स्वयंशोधातिचार—दे, अतिचार/३।

स्वर—१. स्वरनामकर्म निर्देश

स सि/५/११/३६१/१२ यन्निमित्त मनोज्ञस्वरनिर्वर्तन तस्सुस्वरनाम। तद्विपरीत दु स्वरनाम। —जिसके निमित्तसे मनाज्ञ स्वरकी रचना होती है वह सुस्वर नामकर्म है। इससे विपरीत दु स्वर नामकर्म है। (रा वा/५/११/३६-२६/५७६/१), (ध ६/१. ६-१,२,८/६५/३), (गो क/जी प्र/३३/३०/६)।

ध १३/५ ५ १०१/३६६/१ जस्स कम्मस्सुदरण कण्णसुहो सरो होदि तं सुस्सरणाम। जस्स कम्मस्सुदरण खरोट्टाण व कण्णसुहो सरो ण होदि तं दुस्सरणाम। —जिस कर्मके उदयसे कानोंको प्यारा लगनेवाला स्वर होता है वह सुस्वर नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे गधा एवं ऊँटके समान कर्णोंको प्रिय लगनेवाला स्वर नहीं होता है वह दु स्वर नामकर्म है।

२ षड्ज आदि स्वर निर्देश

का. अ/टी/१५६/१२३/१ निपादर्पभगान्धारपड्जमध्यमधैवता। पञ्चमश्चैति सन्तेते तन्त्रीकण्ठोत्थिता स्वरा। १। कण्ठदेशे स्थित षड्ज शिरस्थ ऋषभस्तथा। नासिकायां च गान्धारो हृदये मध्यमो भवेत्। २। पञ्चमश्च मुखे ज्ञेयस्तालुदेशे तु धैवत। निपाद सर्वगात्रे च ज्ञेया सप्तस्वरा इति। ३। निपाद कुब्जरो वक्ति ब्रूते गौ ऋषभ तथा। अजा वदति गान्धार पड्ज ब्रूते भुजङ्गभुक्। ४। ब्रवीति मध्यम क्रौञ्चो धैवतं च तुरगम। पुष्पसधारणे काले पिक कूजति पञ्चमम्। ५। —निपाद, ऋषभ, गान्धार, पड्ज, मध्यम, धैवत और पञ्चम ये सात स्वर तन्त्री रूप कण्ठसे उत्पन्न होते हैं। १। जो स्वर कण्ठ देशमें स्थित होता है, उसे षड्ज कहते हैं। जो स्वर शिरोदेशमें स्थित होता है उसे ऋषभ कहते हैं। जो स्वर नासिका देशमें स्थित होता है उसे गान्धार कहते हैं। जो स्वर हृदय देशमें स्थित होता है उसे मध्यम कहते हैं। २। मुख देशमें स्थित स्वरको पञ्चम कहते हैं। तालु देशमें स्थित स्वरको धैवत कहते हैं और सर्व शरीरमें स्थित स्वरको निपाद कहते हैं। ३। इस तरह ये सात स्वर जानने चाहिए। ४। हाथीका स्वर निपाद है। गौका स्वर ऋषभ है। बकरीका स्वर गान्धार है और गरुडका स्वर पड्ज है। ५। क्रौञ्च पक्षीका शब्द मध्यम है। अश्वका स्वर धैवत है और वसन्त स्रुतुमें कोयल पञ्चम स्वरसे कूजती है।

* अन्य सम्बन्धित विषय

१. स्वरोक्ती अपेक्षा अक्षरके भेद-ऽभेद। —दे, अक्षर।

२. सुस्वर दु स्वर नामकर्मकी प्रकृतियोंकी धन्य उदय सत्त्व प्ररूपणाएँ व तत्सम्बन्धी नियम व शक्ता-समाधानादि। —दे, वह वह नाम।

३. त्रिकालेन्द्रियमें दु स्वर ही होता है तथा तत्सम्बन्धी शक्ता-समाधान। —दे उदय/५/४।

स्वर निमित्त ज्ञान—दे निमित्त/३।

स्वरूप—भूत जातिके व्यन्तर देवोंका एक भेद—दे भूत।

स्वरूप यक्ष—यक्ष जातिके व्यन्तर देवोंका एक भेद—दे यक्ष।

स्वरूप विपर्यय—दे विपर्यय।

स्वरूप संबोधन—१ आ अकलक भट्ट (ई ६४०-६८०) के द्वारा विरचित मस्कृत छन्दमय आध्यात्मिक ग्रन्थ है। इसमें २५ श्लोक हैं। २ आ शुभचन्द्र (ई १५१६ १५५६) द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रन्थ ।

स्वरूपाचरण चारित्र—असयतादि गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वके कारण परिणामोंमें जो निर्मलता या आंशिक साम्यता जागृत होती है, उसीको आगममें स्वरूपाचरण या सम्यक्त्व चारित्र कहते हैं। मोक्षमार्गमें इसका प्रधान स्थान है। व्रतादि रूप चारित्रमें इसके साथ वर्तते हुए ही सार्थक है अन्यथा नहीं।

१. स्वरूपाचरण चारित्र निर्देश

चा पा /सू/८ तं चैव गुणविमुद्ध जिणसम्मत्त सुमुत्तलठाणाय। ज चरइ णाणजुत्त पढम सम्मत्तचरणचारित्त। —नि शक्ति आदि गुणसि विशुद्ध अरहन्त जिनदेवको श्राद्ध होकर, यथार्थ ज्ञान सहित आचरण करे सो प्रथम स्वरूपाचरण चारित्र है। सो यह मोक्षमार्गमें कारण है। ८।

प. ध./उ/७६४ कर्मादानक्रियायाश्च स्वरूपाचरण च यत्। धर्म, शुद्धो-पयोग स्यात्सैव चारित्रसंज्ञक ७६४। —जो कर्मोंकी आत्म रूप क्रियाका रोधक है वही स्वरूपाचरण है, वही चारित्र नामधारी है, शुद्धोपयोग है, वही धर्म है। (ला स /४/२६३)।

२. चारित्रका उदय स्वरूपाचरणमें बाधक नहीं

प ध /उ/६६०-६६२ कार्य चारित्रमोहस्य चारित्राच्च्युतिरात्मन। नात्मदृष्टेस्तु दृष्टिस्वान्ध्यायादितरदृष्टिवत्। ६६०। यथा चक्षु प्रसन्न वे कस्यचिद्दृष्टैवयोगत। इतरत्राक्षतापेऽपि दृष्टाध्यक्षत्र तत्क्षति। ६६१। कयायाणामनुद्वेकचरित्र तावदेव हि। नात्रुद्वेक कयायाणां चारित्रा-च्च्युतिरात्मन। ६६२। —न्यायसे तो चारित्रसे आत्माको च्युत करना ही चारित्र मोहका कार्य है किन्तु इतरकी दृष्टिके समान शुद्धात्मानुभवसे च्युत करना चारित्र मोहका कार्य नहीं। ६६०। जैसे प्रत्यक्षमें देवयोगसे किसीकी आँखमें पीडा होनेपर भी किसी दूसरेकी आँख प्रसन्न भी रह सकती है। वैसे ही चारित्रमोहसे चारित्रगुणमें विकार होनेपर भी शुद्धात्मानुभवकी क्षति नहीं। ६६१। निश्चयसे जितना कयायाणां अभाव है उतना ही चारित्र है और जो कयायाणां उदय है वही चारित्रसे च्युत होता है। ६६२।

* अन्य सम्यन्धित त्रिपय

१. अल्प भूमिकामें भी कथचित् शुद्धोपयोग रूप स्वरूपाचरण चारित्र अवश्य होता है। —दे अनुभव/४।
२. निन्दन गर्हण ही अविरत सम्यग्दृष्टिके स्वरूपा-चरण चारित्रका चिह्न है। —दे, सम्यग्दृष्टि/४।
३. स्वरूपाचरण चारित्र ही मोक्षका प्रधान कारण है। —वे चारित्र/२/२।
४. लौकिक कार्य करते भी सम्यग्दृष्टिको शान चेतना रहती है। —दे, सम्यग्दृष्टि/२।

स्वरूपाभाव—दे अभाव।

स्वरूपासिद्ध—दे असिद्ध।

स्वरूपास्तित्व—दे, अस्तित्व।

स्वर्ग—देवोंके चार भेदोंमें एक वैमानिक देव नामका भेद है। ये लोग ऊर्ध्वलोकके स्वर्ग विमानोंमें रहते हैं तथा बड़ी विभूति व श्रद्ध आदिको धारण करनेवाले होते हैं। स्वर्गके दो विभाग हैं—कल्प व कल्पातीत। इन्द्र सामानिक आदि रूप कल्पना भेद युक्त देव जहाँ तक रहते हैं उसे कल्प कहते हैं। वे १६ हैं। इनमें रहनेवाले देव कल्पवासी कहलाते हैं। इसके ऊपर इन सप्त कल्पनाओंसे अतीत, समान ऐश्वर्य आदि प्राप्त, अहमिन्द सज्ञावाले देव रहते हैं। वह कल्पातीत है। उनके रहनेका सब स्थान स्वर्ग कहलाता है। इसमें इन्द्रक व श्रेणी-युद्ध आदि विमानोंकी रचना है। इनके अतिरिक्त भी उनके पास धूमने फिरनेको विमान है, इसीलिए वैमानिक सज्ञा भी प्राप्त है। बहुत अधिक पुण्यशाली जीव वहाँ जन्म लेते हैं, और सागरोंकी आयु पर्यन्त दुर्लभ भोग भोगते हैं।

१	वैमानिक देवोंके भेद व लक्षण
१-२	वैमानिक व कल्पके लक्षण।
३	कल्प व कल्पातीत रूप भेद व उनके लक्षण।
४	कल्पातीत देव सभी अहमिन्द्र होते हैं।
*	सौधर्म ईशान आदि भेद। —दे स्वर्ग/६/२।
२	वैमानिक देव सामान्य निर्देश
१	मोक्ष जानेकी योग्यता सम्बन्धी नियम।
*	मार्गणा व गुणस्थान आदि २० प्ररूपणाएँ—दे सत्।
*	सत् सख्या क्षेत्र आदि आठ प्ररूपणाएँ।
	—दे, वह-वह नाम।
*	अवगाहना व आयु। —दे वह-वह नाम।
*	सम्भव कषाय, वेद, लेख्या, पर्याप्ति।
	—दे वह-वह नाम।
*	सम्भव कर्मोंका बन्ध उदय सत्त्व। —दे वह-वह नाम।
*	जन्म, शरीर, आहार, सुप्त, दु ख आदि।
	—दे देव/II/२।
*	कहाँ जन्मे और क्या गुण प्राप्त करे। —दे, जन्म/६।
३	वैमानिक इन्द्रोंका निर्देश
१	नाम व सख्या आदिका निर्देश।
२	दक्षिण व उत्तर इन्द्रोंका विभाग।
३	इन्द्रों व देवोंके आहार व श्वासका अन्तराल।
*	विमानोंके भेद-वैक्रियक व स्वाभाविक —दे विमान।
४	इन्द्रोंके चिह्न व यान विमान।
५	इन्द्रों व देवोंकी शक्ति व विक्रिया।
६	वैमानिक इन्द्रोंका परिवार।
	१ सामानिक आदि देवोंकी अपेक्षा।
	२ देवियोंकी अपेक्षा।
७	इन्द्रोंके परिवार देवोंकी देवियाँ।
८	इन्द्रोंके परिवार, देवोंका परिवार विमान आदि।
४	वैमानिक देवियोंका निर्देश
१	इन्द्रोंकी प्रधान देवियोंके नाम।
०	देवियोंकी उत्पत्ति व गमनागमन सम्बन्धी नियम।

५	स्वर्गलोकका निर्देश
१	स्वर्गलोक सामान्य निर्देश ।
२	कल्प व कल्पातीत विभाग निर्देश ।
३	स्वर्गमें स्थित पटल्लोक नाम व उनमें स्थित इन्द्रक व श्रेणीबद्ध ।
४	श्रेणीबद्धोंके नाम ।
५	स्वर्गमें विमानोंकी संख्या । १. बाग्रह इन्द्रोंकी अपेक्षा । २ चौदह इन्द्रोंकी अपेक्षा ।
६	विमानोंके वर्ण व उनका अवस्थान ।
७	दक्षिण व उत्तर कल्पोंमें विमानोंका विभाग ।
८	दक्षिण व उत्तर इन्द्रोंका निश्चित निवास स्थान ।
९	इन्द्रोंके निवासभूत विमानोंका परिचय ।
१०	कल्पविमानों व इन्द्र भवनोंके विस्तारदि ।
११	इन्द्र नगरोंका विस्तार आदि ।
*	ब्रह्म स्वर्गका लौकान्तिक लोक । —(दे. लौकान्तिक) ।

१. वैमानिक देवोंके भेद व लक्षण

१. वैमानिकका लक्षण

स. सि/४/१६/२४८/४ विमानेषु भवा वैमानिका । = जो विमानोंमें होते हैं वे वैमानिक हैं । (रा. वा./४/१६/१/२२२/२६) ।

२. कल्पका लक्षण

स. सि./४/३/२३८/६ इन्द्रादय प्रकारा दश एतेषु कल्पयन्त इति कस्याः । भवननासिषु तत्कल्पनासभवेऽपि रुद्विशवाइमानिकेष्वेव वर्तते कल्पशब्दः । = जिनमें इन्द्र आदि दस प्रकार कल्पे जाते हैं वे कल्प कहलाते हैं । इस प्रकार इन्द्रादिकी कल्पना ही कल्प सज्ञाका कारण है । यद्यपि इन्द्रादिकी कल्पना भवनवासियोंमें भी सम्भव है, फिर भी रुद्विसे कल्प शब्दका व्यवहार वैमानिकोंमें ही किया जाता है । (रा. वा./४/३/२३२/८) ।

३. कल्प व कल्पातीत रूप भेद व लक्षण

त. सु/४/१७ कल्पोपपन्ना कल्पातीतश्च । १७ = वे दो प्रकारके हैं—कल्पोपपन्न और कल्पातीत । (विशेष दे स्वर्ग/६) ।

स. सि/४/१७/२४८/६ कल्पोपपन्ना कल्पोपपन्ना कल्पानतीता कल्पातीतश्च । = जो कल्पोंमें उत्पन्न होते हैं वे कल्पोपपन्न कहलाते हैं और जो कल्पोंके परे हैं वे कल्पातीत कहलाते हैं । (रा. वा./४/१७/—/२२३/२) ।

४. कल्पातीत देव सभी अहमिन्द्र हैं

रा. वा./४/१७/१/२२३/४ स्यान्मतम् नवग्रैवेयका नवानुदिशा पञ्चानुत्तरा इति च कल्पनासंभवात् तेषामपि च कल्पवत्प्रसङ्ग इति, तन्न, कि कारणम् । उपतस्मात् । उक्तमेतत्—इन्द्रादिदशतयकल्पनासज्ञावाद् कल्पा इति । नवग्रैवेयकादिषु इन्द्रादिकल्पना नास्ति तेषामहमिन्द्रत्वात् । = प्रश्न—नवग्रैवेयक, नव अनुदिश और पंच अनुत्तर इस प्रकार संख्याकृत कल्पना होनेसे उनमें कल्पत्व का प्रसंग आता है ।

उत्तर—नहीं, क्योंकि, परिले ही कहा जा चुका है कि इन्द्रादि दश प्रकारकी कल्पनाके सज्ञावसे ही कल्प कहलाते हैं । नव ग्रैवेयकादिकमें इन्द्रादिकी कल्पना नहीं है, क्योंकि, वे अहमिन्द्र हैं ।

२. वैमानिक देव सामान्य निर्देश

१. वैमानिक देवोंमें मोक्षकी योग्यता सम्बन्धी नियम

त. सु/४/२६ विजयादिषु द्विचरमा । २६ = विजयादिकमें अर्थात् विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित नामके अनुत्तर विमानवासी देव द्विचरम देही होते हैं । [अर्थात् एक मनुष्य व एक देव ऐसे दो भव बीचमें, लेकर तीसरे भव मोक्ष जायेंगे (दे चरम)] ।

स. सि/४/२६/२४७/१ सर्वार्थसिद्धिप्रसंग इति चेत् । न, तेषां परमोत्कृष्टत्वात्, अन्वर्थसज्ञात् एकचरमत्वमिदृशे । = प्रश्न—इम (उपरोक्त सूत्रसे) सर्वार्थसिद्धिका भी ग्रहण प्राप्त होता है । उत्तर—नहीं, क्योंकि, वे परम उत्कृष्ट हैं, उनका सर्वार्थसिद्धि यह सार्थक नाम है, इसलिए वे एक भवावतारी होते हैं । अर्थात् अगले भवसे मोक्ष जायेंगे । (रा. वा./४/२६/१/२४४/१८) ।

दे. लौकान्तिक—[सब लौकान्तिक देव एक भवावतारी हैं ।]

ति. प/८/६७५-६७६ कम्पादीदा दुचरमदेहा हवति केई सुरा । सक्को सहगमहिंसी सलोयवालो य दक्खिणा इदा । ६७५ । सव्वट्टसिद्धिवासी लोयेत्तियणामधेयसव्वसुरा । णियमा दुचरिमदेहा सेनेमु णत्थि णियमो य । ६७६ । = कल्पवासी और कल्पातीतोंमेंसे कोई देव द्विचरम-शरीरी अर्थात् आगामी भवमें मोक्ष प्राप्त करनेवाले है । अग्रमहिपी और लोकपालोंसे सहित सौधर्म इन्द्र, सभी दक्षिणेन्द्र, सर्वार्थसिद्धिवासी तथा लौकान्तिक नामक सब देव नियमसे द्विचरम शरीरी है । शेष देवोंमें नियम नहीं है । ६७५-६७६ ।

३. वैमानिक इन्द्रोंका निर्देश

१. वैमानिक इन्द्रोंके नाम व संख्या आदिका निर्देश

स. सि/४/१६/२४०/३ प्रथमी सौधर्मेशानकषी, तयोरुपरि सनत्कुमार-माहेन्द्रौ, तयोरुपरि ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरौ, तयोरुपरि लान्तव-कापिष्ठी, तयोरुपरि शुक्रमहाशुक्रौ, तयोरुपरि शतारसहस्रारौ, तयोरुपरि आनतप्राणतौ, तयोरुपरि आरणच्युतौ । अध उपरि च प्रत्येक-भिन्द्रसबन्धो वेदितव्य । मध्ये तु प्रतिद्वयम् । सौधर्मेशानसानत्कुमार-माहेन्द्राणां चतुर्णां चत्वार इन्द्रा । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरयोरेको ब्रह्मा नाम । लान्तवकापिष्ठयोरेको लान्तवारय्य । शुक्रमहाशुक्रयोरेक शुक्रसञ्ज । शतारसहस्रारयोरेको शतारनामा । आनतप्राणतारणा-च्युताना चतुर्णां चत्वार । एव कल्पवासिना द्वादश इन्द्रा भवन्ति । = सर्वप्रथम सौधर्म और ऐशान कल्प युगल है । इनके ऊपर क्रमसे—सनत्कुमार-माहेन्द्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लान्तव-कापिष्ठ, शुक्र-महाशुक्र, शतार-सहस्रार, आनत-प्राणत, और आरण अच्युत, ऐसे १६ स्वर्गोंके कुल आठ युगल है । नीचे और ऊपरके चार-चार कल्पोंमें प्रत्येकमें एक-एक इन्द्र, मध्यके चार युगलोंमें दो-दो कल्पोंके अर्थात् एक-एक युगलके एक-एक इन्द्र हैं । तात्पर्य यह है, कि सौधर्म, ऐशान, सनत्कुमार और माहेन्द्र इन चार कल्पोंके चार इन्द्र हैं । ब्रह्मलोक और ब्रह्मोत्तर इन दो कल्पोंका एक ब्रह्म नामक इन्द्र है । लान्तव और कापिष्ठ इन दो कल्पोंमें एक लान्तव नामक इन्द्र है । शुक्र और महाशुक्रमें एक शुक्र नामक इन्द्र है । शतार और सहस्रार इन दो कल्पोंमें एक शतार नामक इन्द्र है । तथा आनत, प्राणत, आरण, अच्युत इन चार कल्पोंके चार इन्द्र हैं । इम प्रकार कल्पवासियोंके १२ इन्द्र होते हैं । (रा. वा./४/१६/६-८/२०४/४) । (त्रि. सा/४/२४-४५५) (और भी दे स्वर्ग/६/२)

ति. प./८/४७० इदाण चिन्हाणि पत्तेक ताव जा सहस्रसार । आणद-
आरणजुगले चोद्दिसाणेसु वोच्छामि १४५०। = सौधर्मसे लेकर सहस्रार
पर्यन्तके १२ वर्षोंमें प्रत्येकका एक-एक इन्द्र है । तथा आनत, प्राणत
और आरण अच्युत इन दो युगलोंके एक-एक इन्द्र है । इस प्रकार
चौदह स्थानोंमें अर्थात् चौदह इन्द्रोंके चिह्नोंको कहते हैं ।

रा वा १/४/१६/२३२/२९—त एते लोकानुयोगोपदेशेन चतुर्दशेन्द्रा उक्ता ।
इह द्वादशेष्यन्ते पूर्वोक्तेन क्रमेण ब्रह्मोत्तरकापिष्ठमहाशुक्रसहस्रा
रेन्द्राणां दक्षिणेन्द्रानुवृत्तत्वात् आनतप्राणतधरपयोश्च एकेकेन्द्र-
रात् । = ये सब १४ इन्द्र (दे स्वर्ग/४/६ में रा, वा) लोकानुयोगके
उपदेशसे कहे गये हैं । परन्तु यहाँ (तत्त्वार्थ सूत्रमें) १२ इन्द्र अपेक्षित
हैं । क्योंकि १४ इन्द्रोंमें जिनका पृथक् ग्रहण किया गया है ऐसे
ब्रह्मोत्तर, कापिष्ठ, शुक्र और सहस्रार ये चार इन्द्र अपने-अपने
दक्षिणेन्द्रोंके अर्थात् ब्रह्म, लान्तव, महाशुक्र और शतारके अनुवर्ती
हैं । तथा १४ इन्द्रोंमें युगनरूप ग्रहण करके जिनके केवल दो इन्द्र
माने गये हैं ऐसे आनतादि चार वर्षोंके पृथक्-पृथक् चार इन्द्र हैं ।
[इस प्रकार १४ इन्द्र व १२ इन्द्र इन दोनों मान्यताओंका समन्वय
हो जाता है ।]

२ वैमानिक इन्द्रोंमें दक्षिण व उत्तर इन्द्रोंका त्रिभाग

दे स्वर्ग/४/६ में—(ति. प./८/३३६-३७९), (रा वा. १/४/१६/८/पृष्ठ/
पक्ति), (ह पु ६/१०९-१०२), (ति सा १/४२३)

क्र	१२ इन्द्रोंकी अपेक्षा		१२ इन्द्रोंकी अपेक्षा		१४ इन्द्रोंकी अपेक्षा	
	ति प व त्रि सा,		ह पु		रा वा	
	दक्षिण	उत्तर	दक्षिण	उत्तर	दक्षिण	उत्तर
१	सौधर्म	ईशान	सौधर्म	ईशान	सौधर्म	ईशान
२	सनत्कु	माहेन्द्र	सनत्कु	माहेन्द्र	सनत्कु	माहेन्द्र
३	ब्रह्म	×	ब्रह्म	×	ब्रह्म	ब्रह्मोत्तर
४	लान्तव	×	×	लान्तव	लान्तव	कापिष्ठ
५	×	महाशुक्र	महाशुक्र	×	शुक्र	महाशुक्र
६	×	सहस्रार	×	शतार	शतार	सहस्रार
७	आनत	प्राणत	आनत	प्राणत	×	×
८	आरण	अच्युत	आरण	अच्युत	आरण	अच्युत

३ वैमानिक इन्द्रों व देवोंके अनाहार व स्वासका अन्तराल

यू आ/११४५ यदि सागरोपमाऊ तदि वासमहस्मियादु जाहारी ।
परदेहिं दु उस्तासो मागरसमयेहिं चैव भवे ११४५। = जितने सागर-
की आयु है उतने ही हजार वर्षके बाद देवोंके आहार है और उतने
ही पक्ष मोतनेपर श्वासोच्छ्वास है । ये सब सागरके समर्थोकर होता
है । (ति सा १/४४४), (ज प १/११/३५०)

ति प/८/४२-४५५—जेत्तियजलणिहि उवमा जो जीवदि तत्स तेत्ति-
र्णहि च । वरिमाहस्तेहि ह्ये जाहारी पणुदिणाणि पल्लमिदे १४२।
पत्तिदाण सामाणियाण तेत्तिसमुत्तरण । भोगणकालपमाण णिय-
णिय-शदान मारिच्छ १५३। इदपणुदिचउत्तके देवीण भोगणम्मि
जो ममसा । तस्म पमाणपरुणउवपमो मपहि पणुटो १४४। सोह-

मर्मिददिगिदे सोमम्मि जयम्मि भोगणावसरु । मामाणियाण ताण
पत्तेयकं पचवीसदलदिवसा १५४५। = जो देव जितने सागरोपम काल
तक जीवित रहता है उसके उतने ही हजार वर्षोंमें आहार होता है ।
पक्ष्य प्रमाण काल तक जीवित रहनेवाले देवके पाँच दिनमें आहार
होता है १५४२। प्रतीन्द्र, सामानिक और त्र्ययंश्रिय देवके आहार-
कालका प्रमाण अपने-अपने इन्द्रोंके सहस्र है १५४३। इन्द्र आदि
चारकी देवियोंके भोजनका जो समय है उसके प्रमाणके निरूपणका
उपदेश नष्ट हो गया है १५४४। सौधर्म इन्द्रके दिग्पालोंमेंसे सोम
व यमके तथा उनके मामानिकोंमेंसे प्रत्येकके भोजनका अवसर
१२३ दिन है १५४५।

दे. देव/II/२—(सभी देवोंको अमृतमयी दिव्य आहार होता है ।)

४ इन्द्रोंके चिह्न व यान विमान

ति प/४/८४-९७ का भावार्थ—(नन्दीश्वरद्वीपकी वन्दनार्थ सौधर्मा-
दिक इन्द्र निम्न प्रकारके यानोंपर आरूढ होकर आते हैं ।
सौधर्मन्द्र=हाथी, ईशानेन्द्र=हाथी, सनत्कुमार=सिंह, माहेन्द्र=
अश्व, ब्रह्मेन्द्र=हंस, ब्रह्मोत्तर=कौच, शुक्रेन्द्र=चक्रवाक, महा-
शुक्रेन्द्र=तोता, शतारेन्द्र=कोयल, सहस्रारेन्द्र=गरुड, आनतेन्द्र=
गरुड, प्राणतेन्द्र=पक्ष विमान, आरणेन्द्र=कुमुद विमान, अच्युतेन्द्र
=मयूर ।)

ति प./८/४३८-४४० का भावार्थ—[इन्द्रोंके यान विमान निम्न प्रकार
है—सौधर्म=वालुक, ईशान=पुष्पक, सनत्कुमार=सौमनस,
माहेन्द्र=श्रीवृक्ष, ब्रह्म=सर्वतोभद्र, लान्तव=प्रीतिकर, शुक्र=रम्यक,
शतार=मनोहर, आनत=लक्ष्मी, प्राणत=मादिन्ति (१), आरण=
विमल, अच्युत=विमल]

ति प./८/४४०-४५० का भावार्थ—[१४ इन्द्रवाली मान्यताकी अपेक्षा
प्रत्येक इन्द्रके क्रमसे निम्न प्रकार मुकुटोंमें नी चिह्न है जिनसे कि वे
पहिचाने जाते हैं—शुक्र, हरिणी, महिष, मत्स्य, भेक (मेंढक),
सर्प, छागल, वृषभ व कल्पतरु ।]

ति प/८/४५१ का भावार्थ—[दूसरी दृष्टिसे उन्हीं १४ इन्द्रोंमें क्रमसे—
शुक्र, हरिणी, महिष, मत्स्य, कूर्म, भेक (मेंढक), हय, हाथी,
चन्द्र, सर्प, गवय, छागल, वृषभ और कल्पतरु ये १४ चिह्न मुकुटोंमें
होते हैं ।] (ति, सा १/४८६-४८७)

५ इन्द्रों व देवोंकी शक्ति व विक्रिया

ति प/८/६९७-६९९ एषपलिदोवमाऊ उप्पाडेदु धराए छवखडे । तग्गद-
णरतिरियजणे मारेदु पोसेदु सक्को ६९७। उवहिउवमाणजीवी
पल्लेदु च जवुदीव हि । तग्गदणरतिरियाण मारेदु पोसिदु सक्को
६९८। सोहम्मिदो णियमा जवुदीव समुत्तिववदि एव । केई आहरिया
इय सत्तिसहाव परुवति ६९९। = एक पश्योपम प्रमाण आयुवाला
देव पृथिवीके छह खण्डोंको उखाडनेके लिए और उनमें स्थित
मनुष्यों व तिर्यचोंको मारने अथवा पोपनेके लिए समर्थ है ६९७।
सागरोपम प्रमाण काल तक जीवित रहनेवाला देव जम्बूद्वीपको भी
पलटनेके लिए और उसमें स्थित तिर्यचों व मनुष्योंको मारने अथवा
पोपने लिए समर्थ है ६९८। सौधर्म इन्द्र नियमसे जम्बूद्वीपको
फेंक सकता है, इस प्रकार कोई जाचार्य शक्ति स्वभावका निरूपण
करते हैं ६९९।

त्रि सा १/५२७ दुसु दुसु तिचयकेसु य णवचोइसगे विणुवणा सत्ती ।
पढमलिदीदी सत्तमलिदिपेग तो त्ति अवहो य १५२७। =दो स्वर्गोंमें
दूसरी नरक पृथिवी पर्यन्त चार स्वर्गोंमें तीसरी पर्यन्त, चार स्वर्गोंमें,
चौथी पर्यन्त, चार स्वर्गोंमें पाँचवी पर्यन्त, नवग्रैवेयवर्गोंमें छठीं
पर्यन्त और अनुदिश अनुत्तर विमानोंमें सातवीं पर्यन्त, इस प्रकार
देवोंमें क्रमसे विक्रिया शक्ति व अवधि ज्ञानसे जाननेकी शक्ति है
(विशेष—ये अवधिज्ञान/६) ।

६. वैमानिक इन्द्रोका परिवार

१. सामानिक आदि देवीकी अपेक्षा

(ति प/८/२१८-२४६), (रा. वा/४/१६/८/२२५-२३५), (त्रि. सा/४६४,४६५,४६८), (ज प/१६/२३६-२४२, २७०-२७८) । सकेत = स = सहस्र

इन्द्रोके नाम	प्रतीन्द्र	सामानिक	जायसिद्ध	परिपद्			आत्मरक्ष	लोकपाल	सप्त अनीक*	
				अभ्यन्तर समिति	मध्य समिति	बाह्य समिति			प्रत्येक अनीक	कुल अनीक
सौधर्म	१	८४ स	३३	१२ स	१४ स	१६ स	३३६ म	४	सहस्र १०६६८	सहस्र ७४६७६
ईशान	१	८० स	३३	१० स	१२ स	१४ स	३२ स	४	१०१६०	७११२०
सनत्कु	१	७२ स	३३	८ स	१० स	१२ स	२८८ म	४	६१४४	६४००८
माहेन्द्र	१	७० स	३३	६ स	८ स	१० स	२८० स	४	८८६०	६२२०
ब्रह्म	१	६० स	३३	४ स	६ स	८ स	२४० स	४	७६२०	५३३४०
सान्तव	१	५० स	३३	२ म	४ स	६ स	२०० स	४	६३५०	४४४५०
महाशुक्र	१	४० स	३३	१०००	२ स	४ स	१६० स	४	५०८०	२५६६०
सहस्रार	१	३० स	३३	५००	१ स	२ स	१२० स	४	३८१०	२६६७०
आनत	१	२० स	३३	२५०	५००	१ स	८० स	४	२४४०	१७७८०
प्राणत	१	"	"	"	"	"	"	"	"	"
आरण	१	"	"	१२५	"	"	"	"	"	"
अच्युत	१	"	"	"	"	"	"	"	"	"

* नोट—[वृषभ तुरग आदि सात अनीक सेना है। प्रत्येक सेनामें सात-सात कक्षा है। प्रथम कक्षा अपने सामानिक प्रमाण है। द्वितीयादि कक्षाएँ उत्तरोत्तर दूनी-दूनी है। अतः एक अनीकका प्रमाण = सामानिकका प्रमाण × १२७। कुल सातों अनीकोंका प्रमाण = एक अनीक × ७— (दे अनीक), (ति प/८/२३५-२३७)]

२. देवियोंकी अपेक्षा

(ति प/८/३०६-३१५ + ३७६-३८५), (रा वा/४/१६/८/२२५-२३५), त्रि सा/५०६-५१३) ।

क्र	इन्द्रका नाम	उपेष्ट देवियों	प्रत्येक उपेष्ट देवीकी परि वार देवियों	वस्तुभिका	अग्र देवियों	प्रत्येक देवीके वैक्रियक रूप
१	सौधर्म	८	१६०००	३२०००	१६०,०००	१६०००
२	ईशान	८	१६०००	३२०००	१६०,०००	१६०००
३	सनत्कु,	८	८०००	८०००	७२,०००	३२०००
४	माहेन्द्र	८	८०००	८०००	७२,०००	३२०००
५	ब्रह्म	८	४०००	२०००	३४,०००	६४०००
६	सान्तव	८	२०००	५००	१६५००	१२८०००
७	महाशुक्र	८	१०००	२५०	८२५०	२५६०००
८	सहस्रार	८	५००	१२५	४१२५	५१२०००
९	आनत	८	२५०	६३	२०६३	१०२४०००
१०	प्राणत	८	"	"	"	"
११	आरण	८	"	"	"	"
१२	अच्युत	८	"	"	"	"

७. वैमानिक इन्द्रोंके परिवार देवोंकी देवियाँ

(ति प/८/३१६-३३०), (रा वा./४/१६/८/२२५-२३५) ।

परिवार देव	देवीका पद	कथ्य इन्द्रोंके नाम				अनसादि चार		
		सौ, ई, युगल	स.मा. युगल	त्र युगल	सहस्र युगल			
प्रतीन्द्र सामानिक त्रायस्त्रिंश	अग्र दे	—	→	अपने इन्द्रोंके समान ←			—	६३,६२
	परिवार देवी	[४०००	२०००	१०००	६००	२५०	१२५	
प्र येरु-लोकपाल	अग्र	—	→३५०,००,०००	←			—	—
	अग्र	५००	४००	३००	२००	१००	६०	२५
मध्य	अग्र	६००	६००	४००	३००	२००	१००	५०
बाह्य	अग्र	७००	६००	५००	४००	३००	२००	१००
अनीक मह	अग्र	६००	६००	६००	६००	६००	६००	६००
अनीक-आत्मरक्ष	अग्र	२००	२००	२००	२००	२००	२००	२००
ज्येष्ठ	ज्येष्ठ	१	१	१	१	१	१	१
वृषभ	वृषभ	१	१	१	१	१	१	१
प्रकीर्णक आदि	—	—	→	उपदेशानुष्ट			←	—

८. वैमानिक इन्द्रोंके परिवार, देवोंका परिवार व विमान आदि

ति प./८/२८६-३०४ का भावार्थ-प्रतीन्द्र, सामानिक व त्रायस्त्रिंशमें प्रत्येकके १० प्रकारके परिवार अपने-अपने इन्द्रोंके समान है। १२८६। सौधर्मादि १२ इन्द्रोंके लोकपालोंमें प्रत्येक सामन्त क्रमसे ४०००, ४०००, १०००, १०००, ५००, ४००, ३००, २००, १००, १००, १००, १०० है। १२८७-२८८। समस्त दक्षिणेन्द्रोंमें प्रत्येकके सोम व यम लोकपालके अग्र्यन्तर आदि तीनों पारियदके देव क्रमसे ५०, ४०० व ५०० है। १२८९। वरुणके ६०, ५००, ६०० है तथा कुबेरके ७०, ६००, ७०० है। १२९०। उत्तरेन्द्रोंमें इससे विपरीत क्रम करना चाहिए। १२९०। सोम आदि लोकपालोंकी सात सेनाओंमें प्रत्येककी प्रथम कक्षा २८००० और द्वितीय आदि ६ कक्षाओंमें उत्तरोत्तर दुगुनी है। इस प्रकार वृषभादि सेनाओंमें से प्रत्येक सेनाका कुल प्रमाण ३५५६००० × २७ = ३५५६००० है। १२९१। और सातों सेनाओंका कुल प्रमाण ३५५६००० × ७ = २४८९२००० है। १२९२। सौधर्म सनत्कुमार व ब्रह्म इन्द्रोंके चार-चार लोकपालोंमें से प्रत्येकके विमानोंकी संख्या ६६६६६६ है। शेषकी संख्या उपलब्ध नहीं है। १२९७, २९६, ३०२। सौधर्मके सोमादि चारों लोकपालोंके प्रधान विमानोंके नाम क्रमसे स्वयम्भ, अरिष्ट, चक्षुप्रभ और वरुणप्रभ हैं। १२९८। शेष दक्षिणेन्द्रोंमें सोमादि उन लोकपालोंके प्रधान विमानोंके नाम क्रमसे स्वयम्भ, वरज्येष्ठ, अजन और वरुण है। ३००। उत्तरेन्द्रोंके लोकपालोंके प्रधान विमानोंके नाम क्रमसे सोम (सम), सर्वसोम, सुभद्र और अमित हैं। ३०१। दक्षिणेन्द्रोंके सोम और यम समान श्रुद्धिवाले हैं, उनसे अधिक वरुण और उससे भी अधिक कुबेर है। ३०३। उत्तरेन्द्रोंके सोम और यम समान श्रुद्धिवाले हैं। उनसे अधिक कुबेर और उससे अधिक वरुण होता है। ३०४।

४ वैमानिक देवियोंका निर्देश

१. वैमानिक इन्द्रोंकी प्रधान देवियोंके नाम

ति प./८/३०६-३०७, ३१६-३१८ बलमाणा अश्विनिया ताओ सन्विद-सरिसणामाओ। एवमेकजत्तरिदे सम्मेत्ता जेट्ठदेवीओ। ३०६। किन्हा या ये पुराई रामावहरामरविलदा वसुका। वसुमिता वसुधम्मा वसधरा सव्वइद समणामा। ३०७। विणयसिरिकणयमालापउमाण दासुसीम-जिणदत्ता। एवमेकदविलिण्णिदे एवमेका पाणवणलहिया। ३१६। एवमेक-उत्तरिदे एवमेका होदि हेममाला य। णिलुप्पलविरसुदया ण दावइल-वखणादो जिणदासी। ३१७। सयत्तिदवणलभाण चत्तारि महत्तरीओ पत्तेवक कामा कामिणिआओ पकयगधा यत्तुणामा य। ३१८। = सभी दक्षिणेन्द्रोंकी ८ ज्येष्ठ देवियोंके नाम समान होते हुए क्रमसे पद्मा, शिवा, शची, अञ्जुका, रोहिणी, नवमी, बला और अचिनिका ये हैं और सभी उत्तरेन्द्रोंकी आठ-आठ ज्येष्ठ देवियोंके नाम, मेघराजी रामापति, रामरक्षिता, वसुका, वसुमित्रा, वसुधर्मा और वसुधरा ये हैं। ३०६-३०७। छह दक्षिणेन्द्रोंकी प्रधान वरुणभाओंके नाम क्रमसे विनयप्रती, कनकमाला, पद्मा, नन्दा, सुसीमा और जिनदत्ता ये हैं। ३१६। छह उत्तरेन्द्रोंकी प्रधान वरुणभाओंके नाम हेममाला, नीलोत्पला, विश्रुता, नन्दा, वैलक्षणा और जिनदासी ये हैं। ३१७। इन वरुणभाओंमेंसे प्रत्येकके कामा, कामिनिका, पक्कजगन्धा और अलम्बु नामकी चार महत्तरिका होती हैं। ३१८।

त्रि सा/१०६, ११०-१११ ताओ चउरो सगो कामा कामिणि य पउमगधा य। तो होदि अलबूसा सन्विदपुराणमेस कम्पो। १०६। सवि पउम सिव सिधामा कालिदीमुलसअञ्जुकाणामा भाणुत्ति जेट्ठदेवी सव्वेसि दविलिण्णिदाण। ११०। सिरिमति राम सुसीमा पभावदि जयसेण णाम य

सुसेना । वसुमिन्न वसुधर वरदेवीओ उत्तरिदाण ॥११॥ = सौधर्मादि स्वर्गमें कामा, कामिनी, पद्मगन्धा, अलबुसा ऐसी नामवाली चार प्रधान गणिका है ॥५०६॥ छह दक्षिणेन्द्रोंकी आठ-आठ ज्येष्ठ देवियोंके नाम क्रमसे शची, पद्मा, शिवा, श्यामा, कालिन्दी, मूलसा, अञ्जुका ओर भानु ये है ॥११०॥ छहो उत्तरेन्द्रोंकी आठ-आठ ज्येष्ठ देवियोंके नाम क्रमसे श्रीमती, रामा, सुसीमा, प्रभावती, जयसेना, सुपेणा, वसुमित्रा, और वसुधरा ये हैं ॥१११॥

२. देवियोंकी उत्पत्ति व गमनागमन सम्बन्धी नियम

यू. आ ॥११३१-११३२ आईसाणा कप्पा उववादो होइ देवदेवीण । तत्तो परत्तु णियमा उववादो होइ देवीण ॥११३१॥ जावदु आरण-अच्युद गमनागमणं च होइ देवीण । तत्तो परत्तु णियमा देवीण परियसे गमण ॥११३२॥ = [भवनवासीसे लेकर] ईशान स्वर्ग पर्यन्त देव व देवी दोनोंकी उत्पत्ति होती है । इससे आगे नियमसे देव ही उत्पन्न होते हैं, देवियाँ नहीं ॥११३१॥ आरण अच्युत स्वर्ग तक देवियोंका गमनागमन है, इससे आगे नियमसे उनका गमनागमन नहीं है ॥११३२॥ (ति प ॥५६६॥)

ति प ॥५/गा. सोहम्मीसाणेसु उप्पज्जते हु सव्वदेवीओ । उवरिमक्कप्पे ताण उप्पत्तो णरिथ कइया वि ॥३३१॥ तेसु उप्पणाओ देवीओ भिण्ण-ओहिणाणेहि । णावूण णियकप्पे णेति हु देवा सरागमणा ॥३३३॥ णवरि विसेसो एसो सोहम्मीसाणजाददेवीण । वच्चति मूलदेहा णियणियक्कप्पामरण पासम्मि ॥५६६॥ = सब (कल्पवासिनी) देवियाँ सौधर्म और ईशान कल्पोंमें ही उत्पन्न होती है, इससे उपरिम कल्पोंमें उनको उत्पत्ति नहीं होती ॥३३१॥ उन कल्पोंमें उत्पन्न हुई देवियोंकी भिन्न अवधिज्ञानसे जानकर सराग मनवाले देव अपने कल्पोंमें ले जाते हैं ॥३३३॥ विशेष यह है कि सौधर्म और ईशान कल्पमें उत्पन्न हुई देवियोंके मूल शरीर अपने-अपने कल्पोंके पास जाते हैं ॥५६६॥-

ह पु ॥५/११६-१२१ दक्षिणाशारणात्तानां देव्य सौधर्ममेव तु । निजा-गारेषु जायन्ते नीयन्ते च निजास्पदम् ॥१२१॥ उत्तराशाच्युत्तान्ताना देवानां दिव्यमूर्तय । ऐशानकल्पसभृता देव्यो यान्ति निजा-श्रयम् ॥१२०॥ शुद्धदेवीयुत्तान्याहुर्विमानानि मुनीश्वरा । पटलक्ष्मास्तु चतुर्लक्षा सौधर्मेशानकल्पयो ॥१२१॥ = आरण स्वर्ग पर्यन्त दक्षिण दिशाके देवोंकी देवियाँ सौधर्म स्वर्गमें ही अपने-अपने उपपाद स्थानोंमें उत्पन्न होती है और नियोगी देवोंके द्वारा यथा स्थान ले जायी जाती है ॥१२१॥ तथा अच्युत स्वर्ग पर्यन्त उत्तर दिशाके देवोंकी सुन्दर देवियाँ ऐशान स्वर्गमें उत्पन्न होती है, एव अपने-अपने नियोगी देवोंके स्थानपर जाती है ॥१२०॥ सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें शुद्ध देवियोंसे युक्त विमानोंकी संख्या क्रमसे ६००,००० और ४००,००० बतायी है । अर्थात् इतने उनके उपपाद स्थान है ॥१२१॥ (त्रि सा ॥५२४-५२५), (त सा. २/५९) ।

घ १/१.१.६८/३३८/२ सनत्कुमारादुपरि न स्त्रिय ससुत्पद्यन्ते सौधर्मा-दाविच तदुत्पद्यन्तिपादनात् । तत्र स्त्रीणामभावे कथ तेषां देवानाम-नुपशान्ततस्सतापाना मुखमिति चेन्न, तस्त्रोणां सौधर्मकल्पोपपत्ते । = प्रश्न-सनत्कुमार स्वर्गसे लेकर ऊपर स्त्रियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि सौधर्म ओर ऐशान स्वर्गमें देवागनाओके उत्पन्न होनेका जिस प्रकार कथन किया गया है, उसी प्रकार आगेके स्वर्गमें उनकी उत्पत्तिका कथन नहीं किया गया है इसलिए वहाँ स्त्रियोंका अभाव होनेपर, जिनका स्त्री सम्बन्धी सन्ताप शान्त नहीं हुआ है, ऐसे देवोंके उनके बिना मुख कैसे हो सकता है ! उत्तर-नहीं, क्योंकि

सनत्कुमार आदि कल्प सम्बन्धी स्त्रियोंकी सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें उत्पत्ति होती है ।

५. स्वर्ग लोक निर्देश

१. स्वर्ग लोक सामान्य निर्देश


ति प ॥५/६-१० उत्तरकुरुमणुवाण एवकेणुणेण तह य बालेण । पणवीसु-त्तरचउसहकोसयदडेहि विहीणेण ॥६॥ इगिसट्ठीअहिएण लवलेण जोयणेण ऊणाओ । रज्जूओ सत्त गयणे उड्डुड्डु णाकपडलाणि ॥७॥ कणपद्विचूलिउवरि उत्तरकुरुमणुवएकनालस्स । परिमाणेणतरिदो चेत्ठेदि हु इदओ पढमो ॥८॥ लोयसिहरादु हेत्ठा चउसय पणवीस चावमाणणि ॥ इगिवीस जोयणणि गंतूण इदओ चरिमो ॥९॥ सेसा य एकसट्ठी एदाण इदयाण विञ्चाले । सव्वे अणादिणिहणा रयण-मया इदया होति ॥१०॥ = उत्तरकुरुमें स्थित मनुष्योंके एक बाल चार सौ पचीस धनुष और एक लाख इकसठ योजनोंसे रहित सात राजू प्रमाण आकाशमें ऊपर-ऊपर स्वर्ग पटल स्थित है ॥६-७॥ मेरुकी चूलिकाके ऊपर उत्तरकुरु क्षेत्रवर्ती मनुष्योंके एक बालमात्रके अन्तरसे प्रथम इन्द्रक स्थित है ॥८॥ लोक शिखरके नीचे ४२५ धनुष और २१ योजन मात्र जाकर अन्तिम इन्द्रक स्थित है ॥९॥ शेष इकसठ इन्द्रक इन दोनों इन्द्रकोंके बीचमें हैं । ये सब रत्नमय इन्द्रक विमान अनादिनिघन है ॥१०॥ (स सि. ४/१६/२५१/१), (ह पु ६/३५), (घ ४/२, ३, १/६/२), (त्रि सा ४७०) ।

२. कल्प व कल्पातीत विभाग निर्देश

ति प ॥५/११५-१२८ कप्पाकप्पातीद इदि दुविह होदि ॥११४॥ बारस कप्पा केइ केइ सोलस वदति आइरिया । तिविहाणि भासिदाणि कप्पातीदाणि पडलाणि ॥११५॥ हेदिठम मज्जे उवरि पत्तेक्क ताण होति चत्तारि । एव बारसकप्पा सोलस उड्डुड्डुमज्ज जुगलाणि ॥११६॥ गेवज्जमणुहिसय अणुत्तर इय हुवति तिविहप्पा । कप्पातीदा पडला गेवज्ज णवविह तेसु ॥११७॥ सोहम्मीसाणसणक्कुमारमाहि-दन्नमहलतनया । महसुक्कसहस्सारा आणदपाणदयआरणचुदया । ॥१२०॥ एव बारस कप्पा कप्पातीदेसु णव य गेवेज्जा । ॥१२१॥ आइञ्च-इदयस्स य पुव्वादिस्सु चत्तारो वरविमाणाइ ॥१२३॥ पण्णयाणि य चत्तारो तस्स णादव्वा ॥१२४॥ विजयत्त पुव्वावरदविखणुत्तर-दिसार ॥१२५॥ सोहम्मी ईसाणो सणक्कुमारो तहेव माहिदो । यन्हा-वन्हुत्तरय लतवकापिट्ठसुक्कमहसुक्का ॥१२७॥ सदरसहस्साराणद-पाणदआरणयअच्युदा णामा । इय सोलस कप्पाणि मण्णे ते केइ आइरिया ॥१२८॥ = १ स्वर्गमें दो प्रकारके पटल हैं- कल्प और कल्पातीत ॥११४॥ कल्प पटलोंके सम्बन्धमें दृष्टिभेद है । कोई १२ कहता है और कोई सोलह, कल्पातीत पटल तीन है ॥११४॥ १२ कल्पकी मान्यताके अनुसार अधो, मध्यम व उपरिम भागमें चार-चार कल्प हैं (दे स्वर्ग/३/१) और १६ कल्पोंकी मान्यताके अनुसार ऊपर-ऊपर आठ युगलोंमें १६ कल्प हैं ॥११६॥ ग्रंथेयक, अनुदिश व अनुत्तर ये तीन कल्पातीत पटल हैं ॥११७॥ सौधर्म, ईशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, लान्तव, महाशुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत ये बारह कल्प हैं । इनसे ऊपर कल्पातीत विमान है । जिनमें नव ग्रंथेयक, नव अनुदिश और पाँच अनुत्तर विमान हैं ॥१२०-१२५॥ (त सू ४/१६-१८, २३) + (स्वर्ग/३/१) । २ सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत नामक ये १६ कल्प हैं, ऐसा कोई आचार्य मानते हैं ॥१२८-१२८॥ (त सू ४/१६), (ह, पु ६/३-३६-३७) । (दे अग्ने पृष्ठ पर चित्र नं ६)

ऊर्ध्व लोक


चित्र सं० ६



सिद्ध लोक ५५००००० धौ

← राज →

-२१ यो० + ४२५ धनुष



३. स्वर्गोंमें स्थित पदलोंके नाम व उनमें स्थित इन्द्रक व श्रेणीवद्ध

दे. स्वर्ग/५/१ (मेरुकी चूलिकासे लेकर ऊपर लोकके अन्त तक ऊपर-ऊपर ६३ पदल या इन्द्रक स्थित है।)

ति प/५/१९ एककेक इदयस्त य त्रिञ्चालमसखजोयणण सम। एदानं षामाणि वोच्छोमो आणुपुव्वोए १११। = एक-एक इन्द्रकका अन्तराल असख्यात योजन प्रमाण है। अम इनके नामोंको अनुक्रमसे कहते हैं १११। (दे आगे कोष्ठक)।

रा. वा. ४/१६/५/२२५/१५ तयोरेकत्रिशद् विमानप्रस्तारा। = उन सौधर्म व ईशान कर्णोंके ३१ विमान प्रस्तार है। (अर्थात् जो इन्द्रक का नाम हो वही पदलका नाम है।)

कोष्ठक स. १-४ = (ति. प./८/१२-१७), (रा. वा. ४/१६/५/१५/५-पक्ति-२२५/१४+२२७/३०+२०६/१४+२३०/१२+२३१/०+२३१/३६+२३३/३०), (ह. पु./६/४४-५४), (त्रि. सा./४६४-४६६)।

कोष्ठक स. ६-७ = (ति. प./५/५२-५५), (रा. वा. ४/१६/८/१५/५-पक्ति-२२५/१७+२२७/२६+२२६/१४+२३०/१२+२३१/६+२३१/३५+२३२/२८), (ह. पु./६/४३), (त्रि. सा./४७३-४७४)।

नोट—(ह. पु. में ६२ की वजाय ६३ श्रेणीवद्धसे प्रारम्भ किया है।)

कोष्ठक नं ८—(ति. प./५/१५-१९), (त्रि. सा./४७२)।

सकेत—डस और वाला नाम—


क्र.	प्रत्येक स्वर्गके इन्द्रक या पदल				प्रत्येक पदल-इन्द्रक	श्रेणीवद्ध		इन्द्रकोंका विस्तार
	ति. प	रा वा.	ह पु.	त्रि सा.		प्रति दिशा	कुल योग	
(१)	१	२	३	४	५	६	७	८
	सौधर्म ईशान युगल ३१							
१	शुद्ध	←	←	←	१	६२	२४५	४१००,०००
२	विमल	चन्द्र	विमल	विमल	१	६१	२४४	४४२९०३२ $\frac{५}{६}$
३	चन्द्र	विमल	चन्द्र	चन्द्र	१	६०	२४०	४३५८०६४ $\frac{५}{६}$
४	वल्लु	←	←	←	१	५९	२३६	४२८७०९६ $\frac{५}{६}$
५	वीर	←	←	←	१	५८	२३२	४२१६१२९ $\frac{५}{६}$
६	अरुण	←	←	←	१	५७	२२८	४१४५१६१ $\frac{५}{६}$
७	नन्दन	←	←	←	१	५६	२२४	४०७४१९३ $\frac{५}{६}$
८	नलिन	←	←	←	१	५५	२२०	४००३२२५ $\frac{५}{६}$
९	कचन	लोहित	काचन	काचन	१	५४	२१६	३९३२२५८ $\frac{५}{६}$
१०	रुधिर (रोहित)	काचन	रोहित	रोहित	१	५३	२१२	३८६१२९० $\frac{५}{६}$
११	चचत्	वचन	चचत्	चचत्	१	५२	२०८	३७९०३२२ $\frac{५}{६}$
१२	मरुत	←	←	←	१	५१	२०४	३७१९३५४ $\frac{५}{६}$
१३	ऋद्धीश	←	←	←	१	५०	२००	३६४८३८७ $\frac{५}{६}$
१४	वैशूर्य	←	←	←	१	४९	१९६	३५७७४१९ $\frac{५}{६}$
१५	रुचक	←	←	←	१	४८	१९२	३५०६४५१ $\frac{५}{६}$
१६	रुचिर	←	←	←	१	४७	१८८	३४३५४८३ $\frac{५}{६}$
१७	अक	←	अक	अक	१	४६	१८४	३३६४५१६ $\frac{५}{६}$
१८	स्फटिक	←	←	←	१	४५	१८०	३२९३५४८ $\frac{५}{६}$
१९	तपनीय	←	←	←	१	४४	१७६	३२२२५८० $\frac{५}{६}$
२०	मेघ	←	←	←	१	४३	१७२	३१५१६१२ $\frac{५}{६}$

क्र	प्रत्येक स्वर्गके इन्द्रक या पटल				प्रत्येक पटल- में इन्द्रक	श्रेणीबद्ध		इन्द्रक विस्तार
	ति व.	ग. वा	ह पु	त्रि सा.		प्रति दिशा	कुल योग	
११	जम्भ	←	←	←	१	४२	१६८	३०८०६४५ $\frac{५}{३}$ क
२०	हारिद्र	←	←	हरित	१	४१	१६४	३००९६७७ $\frac{५}{३}$ क
२१	पद्मान	पद्म	पद्म	पद्म	१	४०	१६०	२९३८७०९ $\frac{५}{३}$ क
२४	लोहित	नारिताक्ष	लोहिताक्ष	लोहित	१	३९	१५६	२८६७७४१ $\frac{५}{३}$ क
२६	वज्र	←	←	←	१	३८	१५२	२७९६७७४ $\frac{५}{३}$ क
२६	नन्द्यामर्त	←	←	←	१	३७	१४८	२७२५८०६ $\frac{५}{३}$ क
२७	प्रभङ्ग	←	←	←	१	३६	१४४	२६५४८३८ $\frac{५}{३}$ क
२८	पृष्ठ	पिष्टक	प्रष्टक	पृष्ठक	१	३५	१४०	२५८३८७० $\frac{५}{३}$ क
२९	गज	←	←	←	१	३४	१३६	२५१२९०३ $\frac{५}{३}$ क
३०	मित्र	मस्तक	मित्र	मित्र	१	३३	१३२	२४४१९६७ $\frac{५}{३}$ क
३१	प्रा	चित्रप्रभा	प्रभ	प्रभ	१	३२	१२८	२३७०९६७ $\frac{५}{३}$ क

(दे० चित्र म ७)

प्रत्येक पटल में इन्द्रक व श्रेणीबद्ध

चित्र सं० ७



	१	२	३	४	५	६	७	८
(२) मानसकुमार माहेन्द्र युगल ७								
१२ अर्वा	←	←	←	←	१	३१	१२८	२३००,०००
१३ ग १३, १४	←	←	←	←	१	३०	१२०	२२२९०३२ $\frac{५}{३}$ क
१४ गार्ग	←	←	←	←	१	२९	११६	२१५८०६४ $\frac{५}{३}$ क
१५ गङ्गा	←	←	←	←	१	२८	११२	२०८७०९६ $\frac{५}{३}$ क
१६ गङ्गा	←	←	←	←	१	२७	१०८	२०१६१२९ $\frac{५}{३}$ क
१७ गङ्गा	←	←	←	←	१	२६	१०४	१९४५१९६ $\frac{५}{३}$ क
१८ गङ्गा	←	←	←	←	१	२५	१००	१८७४१९३ $\frac{५}{३}$ क

क्र	प्रत्येक स्वर्गके इन्द्रक या पटल				प्रत्येक पटल-इन्द्रक	श्रेणीबद्ध		इन्द्रक विस्तार
	ति, प	रा, वा	ह पु	त्रि, सा,		प्रति दिशा	कुल योग	
(३)	ब्रह्म ब्रह्मोत्तर युगल ४							
३६	अरिष्ट	←	←	←	१	२४	६६	१८०३२२५ $\frac{३५}{६}$
३७	सुरसमिति	देवसमिति	देवसमिति	सुरस	१	२३	६२	१७३२२५८ $\frac{३५}{६}$
३९	ब्रह्म	←	←	←	१	२२	८८	१६६१२९० $\frac{३५}{६}$
३२	ब्रह्मोत्तर	←	←	←	१	२१	८४	१५९०३२२ $\frac{३५}{६}$
(४)	लातव कापिष्ठ युगल २							
३३	ब्रह्महृदय	←	←	←	१	२०	८०	१५१९३५४ $\frac{३५}{६}$
३४	लातव	←	←	←	१	१६	७६	१४४८३८७ $\frac{३५}{६}$
(५)	शुक महाशुक युगल १							
३५	महाशुक	←	शुक	शुक	१	१८	७२	१३७७४१९ $\frac{३५}{६}$
(६)	शतार सहस्रार युगल १							
३६	सहस्रार	←	शतारव्य	शतार	१	१७	६८	१३०६४५१ $\frac{३५}{६}$
(७)	आनतादि चार ६							
३७	आनत	←	←	←	१	१६	६४	१२३५४८३ $\frac{३५}{६}$
३८	प्राणत	←	←	←	१	१५	६०	११६४५१६ $\frac{३५}{६}$
३९	पुष्पक	←	←	←	१	१४	५६	१०९३५४८ $\frac{३५}{६}$
४०	शान्तकर	सातक	सानुकार	सातक	१	१३	५२	१०२२५८० $\frac{३५}{६}$
४१	आरण	←	←	←	१	१२	४८	९५१६१२ $\frac{३५}{६}$
४२	अच्युत	←	←	←	१	११	४४	८८०६४५ $\frac{३५}{६}$
(८)	नव प्रवेयक ९							
४३	सुदर्शन	←	←	←	१	१०	४०	८०९६७७ $\frac{३५}{६}$
४४	अमोघ	←	←	←	१	९	३६	७३८७०९ $\frac{३५}{६}$
४५	सुप्रबुद्ध	←	←	←	१	८	३२	६६७७४१ $\frac{३५}{६}$
४६	यशोधर	←	←	←	१	७	२८	५९६७७४ $\frac{३५}{६}$
४७	सुभद्र	←	←	←	१	६	२४	५२५८०६ $\frac{३५}{६}$
४८	सुविशाल	←	←	←	१	५	२०	४५४८३८ $\frac{३५}{६}$
४९	सुमनस	←	←	←	१	४	१६	३८३८७० $\frac{३५}{६}$
५०	सौमनस	←	←	←	१	३	१२	३१२९०३ $\frac{३५}{६}$
५१	प्रीतिकर	←	←	←	१	२	८	२४१९३५ $\frac{३५}{६}$
(९)	सब अनुदिश व पंचअनुत्तर १							
५२	आदित्य	←	←	←	१	१	४	१७०९६७ $\frac{३५}{६}$
५३	सवार्थसि	←	←	←	१			१०००००

४. श्रेणी चन्द्रोंके नाम निर्देश

ति. प १८/२०-२०० भिगणिममानि रोहिणद्गोसु। पदमेम् पद्मनिम्न-
 आवत्तविसिद्धुत्तानि १८६। उद्वरदगपुञ्जादी भेडिगया जे हुतीति
 नामद्वी। तान् विदिमादीण एषादिमाए भगानो नामाई १८७।
 सठिगणामा तिरिरचउरदृणामा य हुमुमजावाणि। एतजगयन्ता -
 १६६। एवं चउसु दिमामु नामेम् पभिगणादिगदिमासु। रोहिणदगा
 णामा पीदित्ररहृदय जाउ १६८। आरचचहदगयगम य पुञ्जादिगु नचिद-
 लच्छिमानिणिमा। नद्वराउशरावणिया चत्तारो उरविमाणाणि १६९।
 विजगतउदजगत जगत्तमपराजिद च चत्तारो। पुञ्जादिगु माणाणि
 ठिदाणि मव्वद्वमिद्विस्त १७०० -१. ऋतु आदि गर्व एण्डवारी
 चारों दिशाओंमें स्थित श्रेणी चन्द्रोंमें प्रथम चारका नाम उम उम
 इन्द्रके नामके साथ प्रथ, मध्यम, आरत न विशिष्ट ये चार शब्द
 जोड़ देनेसे बन जाते हैं। जैसे—ऋतुप्रथ, ऋतु मध्यम, ऋतु आरत
 और ऋतु विशिष्ट। २ ऋतु इन्द्रके पूर्वदि दिशाओंमें स्थित, द्वि-
 त्तीय आदि ६१-६१ विमानोंके नाम इस प्रकार हैं। एक दिशाके
 ६१ विमानोंके नाम-सरियत, श्रीवस्त, वृत्त, गुमुम, पाप, एध,
 अजन, तलश आदि हैं। चोथ तीन दिशाओंके नाम बनानेके लिए
 इन नामके साथ 'मध्यम', 'आरत' और 'विशिष्ट' ये तीन
 शब्द जोड़ने चाहिए। इस प्रकार नान्निषेयकके अन्तिम प्रोत्तर
 विमानतकके श्रेणी चन्द्रोंके नाम प्राप्त होते हैं। ३, आदित्य इन्द्रकी
 पूर्वादि दिशाओंमें लक्ष्मी, लक्ष्मीमालिनी, वज्र और वजापनि ये
 चार विमान हैं। विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित ये चार
 विमान सर्वार्थसिद्धिकी पूर्वादि दिशाओंमें हैं।

ह पु ६/६३-६४ अचिराथ पर रयातमचिमासिन्यभित्यया। वज्र
 वैरोचनं चैत्रसौम्यं स्यात्सौम्यरूप्यकम् ६३। अद् व स्फुटिकं
 चेति दिशास्वन्नुदिशानि तु। आदित्यात्पत्यम वर्तन्ते प्राच्या प्रभृति
 सक्रमम् ६४। विजय वैजयन्त च जयन्तमपराजितम्। दिशु
 सर्वार्थसिद्धेस्तु विमानानि स्थितानि वै ६५। -अनुदिशोंमें आदित्य
 नामका विमान बीचमें है और उसकी पूर्वादि दिशाओं तथा
 विदिशाओंमें क्रमसे-अर्चि, अर्चिमासिनी, वजा, वैरोचन, सौम्य,
 सौम्यरूपक, अक और स्फुटिक ये आठ विमान हैं। अनुत्तर विमानोंमें
 सर्वार्थसिद्धि विमान बीचमें है और उसकी पूर्वादि चार दिशाओंमें
 विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित ये चार विमान
 स्थित हैं।

ज प. ११/३३८-३४० अक्षी य अचिमासिणी दिवां वद्वरोगण पभास

च। पुञ्जावन्दविगत उपरेण आर्चिको होति ३३८। विजय च
 वेज्यस जगत्तमपराजित च नामेन। मावद्वम द् एदे चउरनि य
 दिमामु चणाणि १७०० -अर्चि, अर्चिमासि नि, दिद्व, वैगवा और
 प्रभास ये चार विमान आदित्य पञ्जे पूर्व, पदिसम, दक्षिण और
 उत्तरमें हैं ३३८। विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित ये चार
 विमान सर्वार्थसिद्धिकी पूर्वादि दिशाओंमें स्थित हैं ३३९।

सौधर्म युगल के ३१ पटल

(पटलो के नामो मे अन्तर-दे-स्वर्ग/५/३)
 चित्र सं. ८

सं.	नाम	अन्तर
३१	इम	
३०	भिन्न	
२९	गज	
२८	पुञ्जा	
२७	इन्द्र	
२६	नक्षत्र	
२५	वन	
२४	लक्षित	
२३	पद्ममाल	
२२	हरिद	
२१	जम्बू	
२०	नेत्र	
१९	सुपनीच	
१८	स्फुटिक	
१७	उल	
१६	रुचिर	
१५	रुचक	
१४	वेद्व	
१३	सुधरि	
१२	मखत	
११	चक्र	
१०	रुचिर	
९	कचन	
८	नखिन	
७	नन्दन	
६	उरुण	
५	वीर	
४	बल्लु	
३	चन्द्र	
२	विमल	
१	सुजु	

५. स्वर्गोंमें विमानोंकी संख्या

१. १२ इन्द्रोंकी अपेक्षा

(ति. प/१४६-१७७+१८६), (रा. वा/४/१६/५-२२./२६+२३३/२४);
(त्रि. सा/४६६-४६२+४७३-४७६)।

क्र	कल्पका नाम	इन्द्रक	श्रेणीबद्ध	प्रकीर्णक	कुल योग	सं व अस योजन युक्त
१	सौधर्म	३१	४३७१	३१६६५६८	३२ लाख	सर्व रात्रिके पाँचों भाग प्रमाण सख्यात योजन विस्तार युक्त है और शेष अख्यात योजन विस्तार युक्त।
२	ईशान	—	१४६७	२७६८४४३	२८ लाख	
३	सनत्कुमार	७	६८८	११६६४०५	१२ लाख	
४	माहेन्द्र	—	१६६	७६६८०४	८ लाख	
५	ब्रह्म	४	३६०	३६६६३६	४ लाख	
६	लान्तव	२	१५६	४६६४२	१०,०००	
७	महाशुक	१	७२	३६६२७	१०,०००	
८	सहस्रार	१	६८	४६३१	६,०००	
९	आनतादि चार	६	३२४	३७०	७००	
१०	अधो ग्रै	३	१०८	×	१११	
११	मध्य ग्रै	३	७२	३२	१०७	
१२	उर्ध्व ग्रै	३	३६	५२	६१	
१३	अनुदिश	१	४	४	६	
१४	अनुत्तर	१	४	×	५	

२. १४ इन्द्रोंकी अपेक्षा

१. (ति. प/८/१७८-१८५), (ह. पु/६/४४-६२+६६-८८)।

न	कल्पका नाम	इन्द्रक	श्रेणीबद्ध	प्रकीर्णक	कुल योग	सख्यात, यो. युक्त
१	सौधर्म	२१	४४६५		३२ लाख	६४०,०००
२	ईशान	—	१४८८		२८ "	५०८,०००
३	सनत्कुमार	७	६१६		१२ "	२४०,०००
४	माहेन्द्र	—	२०३		८ "	१६०,०००
५	ब्रह्म	४	२४६		२६६०००	} ८०,०००
६	ब्रह्मोत्तर	—	६४		१०४०००	
७	लान्तव	२	१२५		२५०४२	} १०,०००
८	कापिष्ठ	—	४१		२४६५८	
९	शुक	—	५८		२००२०	४०००
१०	महाशुक	१	१६		१६६८०	३०००
११	शतार	—	५५		३०१६	} १२००
१२	सहस्रार	१	१८		२६८१	
१३	आनत-प्राणत	३	१६५		४४०	८८
१४	आरण-अभ्युत	३	१५६		२६०	५२
१५	अधो ग्रै	३	१२.३(१)		१११	
१६	मध्य ग्रै	३	८७		१०७	
१७	उपरि ग्रै	३	६१		६१	
१८	अनुदिश	१	८		८	
१९	अनुत्तर	१	४		५	

६. विमानोंके वर्ण व उनका अवस्थान

(ति. प/८/२०३-२०७), (रा. वा/४/१६/५/२३५/३), (ह. पु/६/६८-१००), (त्रि. सा/४८१-४८२)।

कल्पका नाम	वर्ण	आधार	कल्पका नाम	वर्ण	आधार
सौधर्म ईशान	} पंच वर्ण }	} घन वात	महाशुक	} श्वेत व हरित	} जल व वायु दोनों
			सहस्रार		
सनत्कु. माहेन्द्र	} कृष्ण रहित ४	} केवल- पवन	आनतादि	} श्वेत	} शुद्ध आकाश
			चार		
ब्रह्म लान्तव	} कृ नील रहित ३	} जल व वायु दोनों	ग्रैवेयक	} "	} "
			आदि		

ह. पु/६/६१ सर्वश्रेणीविमानानामर्द्धर्मूर्ध्वमितोऽपरम् । अन्येषां स्वविमानार्थं स्वयम्भूरमणोदधे । ६१। = समस्त श्रेणीबद्ध विमानोंकी जो संख्या है, उसका आधा भाग तो स्वयम्भूरमण समुद्रके ऊपर है और आधा अन्य समस्त द्वीप समुद्रोंके ऊपर फेला हुआ है।

त्रि. सा/४७४ उद्धमेढोवद्बद्धल सयभुरमणुदहपिणिधिभागम्ह । आश्ल-तिणिण दीवे तिणिण समुद्रे य सेसा हु । ४७४। = सौधर्मके प्रथम ऋतु इन्द्रक सम्बन्धी श्रेणीबद्धोंका एक दिशा सम्बन्धी प्रमाण ६२ है, उसके आधे अर्थात् ३१ श्रेणीबद्ध तो स्वयम्भूरमण समुद्रके उपरिभागमें स्थित है और अवशेष विमानोंमेंसे १५ स्वयम्भूरमण द्वीपके ऊपर आठ अपनेसे लगते समुद्रके ऊपर, ४ अपनेसे लगते द्वीपके ऊपर, २ अपनेसे लगते समुद्रके ऊपर, १ अपनेसे लगते द्वीपके ऊपर तथा अन्तिम १ अपनेसे लगते अनेक द्वीपसमुद्रोंके ऊपर है।

७. दक्षिण व उत्तर कल्पोंमें विमानोंका विभाग

ति. प/८/१३७-१४८ का भावार्थ—जिनके पृथक्-पृथक् इन्द्र है ऐसे पहिले व पिछले चार-चार कल्पोंमें सौधर्म, सनत्कुमार, आनत व आरण ये चार दक्षिण कल्प हे। ईशान, माहेन्द्र, प्राणत व अच्युत ये चार उत्तर विमान हैं, क्योंकि, जैसा कि निम्न प्ररूपणामे विदित है इनमें क्रमसे दक्षिण व उत्तर दिशाके श्रेणीबद्ध सम्मिलित हैं। तहाँ सभी दक्षिण कल्पोंमें उस-उस युगल सम्बन्धी सर्व इन्द्रक, पूर्व, पश्चिम व दक्षिण दिशाके श्रेणीबद्ध और नैऋत्य व अग्नि दिशाके प्रकीर्णक सम्मिलित हैं। सभी उत्तर कल्पोंमें उत्तर दिशाके श्रेणीबद्ध तथा वायु व ईशान दिशाके प्रकीर्णक सम्मिलित हैं। बीचके ब्रह्म आदि चार युगल जिनका एक-एक ही इन्द्र माना गया है, उनमें दक्षिण व उत्तरका विभाग न करके सभी इन्द्रक, सभी श्रेणीबद्ध व सभी प्रकीर्णक सम्मिलित हैं। (त्रि. सा/४७६), (ज. प/११/०३-२१८)।

८. दक्षिण व उत्तर इन्द्रोंका निश्चित निवास स्थान

ति. प/८/३१ छज्जुगलसेसएसु अट्टारममम्मि नेद्विनद्वेषु । दोहीण-कम दक्षिण उत्तरभागम्हिंति देविदा । ३१। = छह युगलों और शेष कल्पोंमें यथाक्रमसे प्रथम युगलमें अपने अन्तिम इन्द्रकने सम्बद्ध अठारहवें श्रेणीबद्धमें, तथा इससे आगे दो हीन क्रमसे अर्थात् १६वें, १४वें, १२वें, १०वें, ८वें और ६वें श्रेणीबद्धमें, दक्षिण भागमें दक्षिण इन्द्र और उत्तर भागमें उत्तर इन्द्र स्थित है । ३१। (त्रि. सा/४८३)।
ति. प/८/३३६-३५० का भावार्थ—[अपने-अपने पटलके अन्तिम इन्द्रक-की दक्षिण दिशावाले श्रेणीबद्धोंमेंसे १८वें, १६वें, १४वें १२वें, १०वें,

और पुन ६ठें श्रेणीयद्ध विमानमें क्रमसे सौधर्म, सानरकुमार, ब्रह्म, लान्तव, आनत और आरण ये छह इन्द्र स्थित है। उन्हीं इन्द्रकोंको उत्तर दिशावाले श्रेणीयद्धोंमेंसे १८वें, १६वें, १०वें, ८वें, ६ठें और पुन ६ठें श्रेणीयद्धोंमें क्रमसे, ईशान, मारेन्द्र, महाशुक, सहस्रार, प्राणत और अच्युत ये छह इन्द्र रहते हैं। (१ पृ/६/ १०१-१०२)

नोट—[१. पु में लान्तवके स्थानपर शुक्र और महाशुकके स्थानपर लान्तव दिया है। इस प्रकार वहाँ शुक्रको दक्षिणेन्द्र और लान्तवको उत्तरेन्द्र कहा है।]

रा वा/४/१६/८/५/ पक्षिका भावार्थ—सौधर्म युगलके अन्तिम इन्द्रकणी दक्षिण दिशावाले श्रेणीयद्धोंमेंसे १८वेंमें सौधर्मन्द्र (२२५/२१)। उसीके उत्तर दिशावाले १८वें श्रेणीयद्धमें ईशानेन्द्र (२२७/६)। सनरकुमार युगलके अन्तिम इन्द्रकणी दक्षिण दिशावाले १६वें श्रेणी यद्धमें सनरकुमारेन्द्र (२२७/३२)। और उसीको उत्तर दिशावाले १६वें श्रेणीयद्धमें माहेन्द्र (२२८/२५)। ब्रह्मयुगलके अन्तिम इन्द्रकणी दक्षिण दिशावाले १२वें श्रेणीयद्धमें ब्रह्मेन्द्र (२२९/१७)। और उसी-को उत्तर दिशावाले १२वें श्रेणीयद्धमें ब्रह्मोत्तरेन्द्र (२३०/२)। लान्तव युगलके अन्तिम इन्द्रकणी दक्षिण दिशावाले ९वें श्रेणीयद्धमें लान्त-वेन्द्र (२३०/१२) और उसीकी उत्तर दिशावाले ९वें श्रेणीयद्धमें कापिठेन्द्र (२३०/३४)। शुक्र युगलके एक ही इन्द्रकणी दक्षिण दिशावाले १२वें श्रेणीयद्धमें शुकेन्द्र (२३१/८) और उसीकी उत्तर दिशावाले १२वें श्रेणीयद्धमें महाशुकेन्द्र (२३१/२६)। शतार युगलके एक ही सहस्रार इन्द्रकणी दक्षिण दिशावाले ९वें श्रेणीयद्धमें शतारेन्द्र (२३१/३६) और उसीकी उत्तर दिशावाले ९वें श्रेणीयद्धमें सह-सारेन्द्र (२३२/१८)। आनतादि चार कण्ठोंके आरण इन्द्रकणी दक्षिण दिशावाले ६ठें श्रेणीयद्धमें आरणेन्द्र (२३२/३१) और अच्युत इन्द्रकणी उत्तर दिशावाले ६ठे श्रेणीयद्धमें अच्युतेन्द्र (२३३/१४)। इस प्रकार ये १४ इन्द्र क्रमसे स्थित है।

९. इन्द्रोंके निवासभूत विमानोंका परिचय

त्रि प/८/गा ऋ भावार्थ—१ इन्द्रक श्रेणीयद्ध और प्रकीर्णक, इन तीनों प्रकारके विमानोंके ऊपर समचतुष्कोण व दीर्घ विविध प्रकारके प्रासाद स्थित हैं। १२०८। ये सब प्रासाद सात-आठ-नौ-दस भूमियोंसे भूषित हैं। आसनशाला, नाट्यशाला व क्रीडनशाला आदिकोंसे शोभायमान हैं। सिंहासन, गजासन, मकरासन आदिते परिपूर्ण हैं। गणिमय शय्याओंसे कमनीय हैं। अनादिनिधन व अकृत्रिम विरा-जमान हैं। १२०९-२१३। २ प्रधान प्रासादके पूर्वदिशाभाग आदिमें चार-चार प्रासाद होते हैं। १३६६। दक्षिण इन्द्रोंमें वैश्वर्य, रजत, अशोक और मृगरकर तथा उत्तर इन्द्रोंमें रुचक, मन्दर, अशोक और सप्तश्रद ये चार-चार प्रासाद होते हैं। १३६७। (त्रि. सा/४८४-४८५)। ३ सौधर्म व सनरकुमार युगलके ग्रहोंके आगे स्तम्भ होते हैं, जिनपर तीर्थंकर बालकोंके वस्त्राभरणोंके पिटारे लटके रहते हैं। १३६८-४७४। सभी इन्द्र मन्दिरोंके सामने चैत्य वृक्ष होते हैं। ४७५-४७६। सौधर्म इन्द्रके प्रासादके ईशान दिशामें सुधर्म सभा, उपपाद सभा और जिनमन्दिर हैं। ४७७-४९१। (इस प्रकार अनेक प्रासाद व पुष्प वाटिकाओं आदिते युक्त वे इन्द्रोंके नगरोंमें) एकके पीछे एक ऊँची-ऊँची पाँच वेदियाँ होती हैं। प्रथम वेदीके बाहर चारों दिशाओंमें देवियोंके भवन, द्वितीयके बाहर चारों दिशाओंमें पारिषद, तृतीयके बाहर सामाजिक और चौथीके बाहर अभियोग्य आदि रहते हैं। ४९३-४९८। पाँचवीं वेदीके बाहर वन हैं और उनसे भी आगे दिशाओंमें लोकपालोंके ४२८-४३३। और विदिशाओंमें गणिका महत्तरियोंके नगर हैं। ४३५। इसी प्रकार कण्ठातीर्थोंके भी विविध प्रकारके प्रासाद, उपपाद सभा, जिनभवन आदि होते हैं। ४५३-४५४।

१०. कल्प विमानों व इन्द्र भवनोंके विस्तार आदि

नोट—सभी प्रमाण योजनाओंमें बताये गये हैं।

इन्द्रोंके नाम	कल्प विमान	इन्द्र भवन	देवियोंके भवन				
त्रि प/१६८-२०२ ४ पु/१६२-१३ त्रि सा/४८०		त्रि. प/८/४७२-३७३ + ४५५-४५६ ४ पु/६/१४४-६६	त्रि प/८/४१४-४१७				
	मोटाई	लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई	लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई
सौधर्म यु.	११२१	१२०	६०	६००	१००	४०	४००
सनत.यु.	१०२२	१००	४०	४००	६०	४५	४४०
ब्रह्म यु	६२३	६०	४५	४४०	८०	४०	४००
लान्तव यु	८२४	८०	४०	४००	७०	३५	३५०
महाशुकयु.	७२५	७०	३५	३५०	६०	३०	३००
सहस्रार यु	६२६	६०	३०	३००	६०	२५	२५०
आनतादि ४	५२७	५०	२५	२५०	४०	२०	२००
अधो ग्रै.	४२८	४०	२०	२००			
मध्य ग्रै	३२९	३०	१५	१५०			
उपरि ग्रै.	२३०	२०	१०	१००			
अनुदिश	१३१	१०	५	५०			
अनुत्तर	१२१	५	२ ३/४	२५			

११ इन्द्र नगरोंका विस्तार आदि

नोट—सभी प्रमाण योजनाओंमें जानने

इन्द्रोंके नाम	नगर		नगरकोट		नगर द्वार	
	त्रि सा/४८६		त्रि सा / ४८०-४८१		त्रि सा / ४८२-४८३	
	लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई	मोटाई व नीव	सख्या व ऊँचाई	चौड़ाई
सौधर्म	८४०००	८४०००	३००	५०	४००	१००
ईशान	८००००	८००००	"	"	"	"
सनत	७२०००	७२०००	२५०	२५	३००	६०
मारेन्द्र	७०,०००	७००००	"	"	"	"
ब्रह्म यु	६०,०००	६००००	२००	१२ ३/४	२००	८०
लान्तव यु	५०,०००	५००००	१५०	६ ३/४	१६०	७०
शुक यु.	४०,०००	४००००	१२०	४	१४०	५०
शतार यु	३०,०००	३००००	१००	३	१२०	४०
आनतादि ४.	२०,०००	२००००	८०	२ ३/४	१००	३०

स्वर्ण—१. तोलका प्रमाण विशेष । अपरनाम कस —दे' गणित/१/१),
२. विजयार्थकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर —दे विद्याधर ।

स्वर्णकुला—१. हैरण्यवत् क्षेत्रकी एक नदी —दे लोक/३/१०, २.
हैरण्यवत् क्षेत्रस्थ एक कुण्ड —दे. लोक/३/६; ३. स्वर्णकुला कुण्डकी
स्वामिनी देवी —दे लोक/७ ।

स्वर्णनाभ—विजयार्थकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर —दे लोक/७ ।

स्वर्णभद्र—विजयार्थ पर्वतका एक कूट व उसका रक्षक देव —दे,
लोक/७ ।

स्वर्ण मध्य—सुमेरु पर्वतका अपर नाम —दे सुमेरु ।

स्वर्णरेखा—सौराष्ट्र देशमें गिरनार पर्वतसे निकली है । इसके रेतमें
सोनेका सूक्ष्म अणु अणु भी पाया जाता है । सुवर्णा नामसे प्रसिद्ध
है । (नेमिचरित प्रस्तावना/प्रेमीजी ।

स्वर्णवती—भरतक्षेत्रके वरुण पर्वतस्थ एक नदी —दे, मनुष्य/४ ।

स्ववचन बाधित—दे. बाधित ।

स्ववचन विरोध—दे विरोध ।

स्ववश—नि सा/मू/१४६ परिचत्ता परभाव अप्पाण भादि जिम्मल
सहाव । अप्पवसो सो होदि हु तस्स दु कम्म भणति आवासं । १४६।
—जो परभावको त्यागकर निर्मलस्वभाव वाले आत्माको ध्याता है,
वह वास्तवमें आत्मवश है और उसे आवश्यक कर्म (जिन) कहते हैं ।
भ आ./वि/८४/२१७/५ सव्वथ सर्वस्मिन्देशे आरमवशता । स्वेच्छया
आस्ते, गच्छति, शेते वा । इहासनादिकरणे इद मम विनश्यति
वस्तिवति तदमुरोधकृता परतन्त्रता नास्ति संयतस्य । —सर्वत्र
आत्मवशता-परिग्रहके त्यागसे सयतके यह गुण भी प्राप्त होता है ।
मुनिके पास कोई परिग्रह न होनेसे वे स्वेच्छासे बैठते हैं, जाते हैं,
सोते हैं । बैठने-उठनेमें मेरी अमुक वस्तु नष्ट हुई, अमुक वस्तु मेरेको
चाहिए इस प्रकारकी चिन्ता उनके नहीं होती ।

स्वसंवेदन—दे अनुभव ।

स्व समय—१. दे समय, २. स्व-समय और पर-समयके स्वाध्याय-
का क्रम —दे उपदेश/३/४-५ ।

स्वस्तिक—१. विदेह क्षेत्रमें स्थित भद्रशाल वनमें एक दिग्गजेन्द्र
पर्वत —दे लोक/७ । २. विद्युत्प्रभ गजदन्तस्थ एक कूट—दे
लोक/७ । ३. कुण्डल पर्वतरथ मणिप्रभ कूटका स्वामी नागेन्द्र
देव—दे लोक/७ । ४. रुचक पर्वतस्थ एक कूट—दे लोक/७ ।

स्वस्तिकमति—प पु/११/श्लोक क्षीरकदम्बकी स्त्री । पर्वत, वसु व
नारदकी गुरुमाता थी (१४) इसने 'अजैर्यष्टव्यम्'का विपरीत
समर्थन करनेके लिए वसुराजाको प्रेरित किया था (६६) ।

स्वस्त्री—दे स्त्री/५ ।

स्वस्थान अप्रमत्त—दे सयत/१/४ ।

स्वस्थान सत्त्व—दे सत्त्व/१ ।

स्वस्थान स्वस्थान क्षेत्र—दे क्षेत्र/१/११ ।

स्वहस्त क्रिया—दे क्रिया/३ ।

स्वाति—१. एक नक्षत्र—दे नक्षत्र । २. मानुषोत्तर पर्वतस्थ तपनीय
कूटका स्वामी भवनवासी गरुड कुमार देव—दे, लोक/७ ।

स्वाति संस्थान—दे संस्थान ।

स्वात्मनि क्रिया विरोध—दे, विरोध ।

स्वाद्य—मू आ/६४४ सादति सादिय भणिय । ६४४। —जिससे
सुगन्धका स्वाद लिया जाये, इलायची आदि स्वाद्य कहा है ।
अन घ/७/१३ स्वाद्य ताम्बूलादि । —पान, सुपारी, इलायची आदि
तथा अनार, सन्तरा, ककड़ी आदि भक्ष्य पदार्थ स्वाद्य है ।

ला स/२/१६ स्वाद्यं तु भोगार्थं ताम्बूलादि यथागमात् । १६। —भोगों-
के लिए आगमानुसूल ताम्बूल आदि पदार्थ स्वाद्य कहलाते हैं ।

स्वाध्याय—स्वशास्त्रका वाचना, मनन करना, या उपदेश देना
आदि स्वाध्याय कहा जाता है जो सर्वोत्तम तप माना गया है ।
मोक्षमार्गमें इसका बहुत ऊँचा स्थान है । यथा विधि यथा काल
ही स्वाध्याय करना योग्य है । सूर्यग्रहण आदि काल स्वाध्यायके
लिए अयोग्य समझे जाते हैं ।

१	स्वाध्याय निर्देश
१	स्वाध्याय सामान्यका लक्षण ।
*	निश्चय स्वाध्यायके अपर नाम ।—दे मोक्षमार्ग/२/५ ।
२	स्वाध्यायके भेद ।
३	स्वाध्यायमें सम्यक्त्वकी प्रधानता ।
४	स्तुति आदि परिवर्तन रूप भी स्वाध्याय है ।
*	स्वाध्यायमें विनयका महत्त्व । —दे, विनय/२/५ ।
५	प्रयोजन व अप्रयोजनभूत विषय ।
६	चारों अनुयोगोंकी स्वाध्यायका क्रम ।
*	निश्चय व व्यवहार विषयक स्वाध्यायका क्रम । —दे उपदेश/३/४-५ ।
*	स्वपर समय विषयक स्वाध्यायका क्रम । —दे उपदेश/३/४-५ ।
७	स्वाध्याय सर्वोत्तम तप है ।
*	स्वाध्यायकी अपेक्षा वैधावृत्यकी प्रधानता । —दे वैधावृत्य/६ ।
८	स्वाध्यायका लौकिक व अलौकिक फल ।
९	स्वाध्यायका फल गुणश्रेणी व निर्जरा व सवर ।
*	स्वाध्यायमें फलेच्छाका निषेध । —दे राग/४/५-६ ।
१०	स्वाध्यायका प्रयोजन व महत्त्व ।
*	पठित ज्ञानके सस्कार साय जाते हैं ।—दे सस्कार/१/२ ।
२	स्वाध्याय विधि
*	स्वाध्यायमें द्रव्य क्षेत्रादि शुद्धिका निर्देश —दे, शुद्धि ।
१	स्वाध्याय योग्य काल व उसका विभाजन ।
२	स्वाध्याय योग्य कालमें कुछ अपवाद ।
३	स्वाध्यायके अयोग्य द्रव्य क्षेत्र काल ।
४	अयोग्य द्रव्यादिमें स्वाध्याय करनेसे हानि ।
५	स्वाध्याय प्रतिष्ठान व निष्ठापन विधि ।
*	स्वाध्याय प्रकारणमें कायोत्सर्गका काल प्रमाण । —दे व्युत्सर्ग/१ ।
*	स्वाध्यायसे शेष वच्ये समयमें क्या करे । —दे कृतिकर्म/४/१ ।
६	विशेष शास्त्रोंके प्रारम्भ व समाप्ति आदिपर उपवासादिका निर्देश ।
७	नियमित व अनियमित विधि युक्त पढ़े जाने योग्य कुछ ग्रन्थ ।
*	शास्त्र श्रवण व पठनके योग्ययोग्य पात्र —दे श्रोता ।
*	कैसे व्यक्तिको कैसा शास्त्र पढ़ना चाहिए ।—दे श्रोता ।
*	कैसे जीवको कैसा उपदेश दे । —दे उपदेश/३ ।

१. स्वाध्याय निर्देश

१ स्वाध्याय सामान्यका लक्षण

१ निरुचय

स सि १/२०/४३६/७ ज्ञानभावनालस्यरयाग स्वाध्याय ।—आलस्य रयागकर ज्ञानकी आराधना करना स्वाध्याय तप है ।

चा सा १/१२/४ स्वस्मे हितोऽध्याय स्वाध्याय ।—अग्ने आत्माका हित करनेवाला अध्ययन करना स्वाध्याय है ।

० व्यवहार

मू आ १/११ वारसंग जिणषसाह सज्जमाय कथितं युधे १-१—वारर अग चौदहपूर्व जो जिनदेवने करे हैं उनको पण्डितजन स्वाध्याय कहते हैं ।

ध १३/५,४,२६/६४/१ अगगत्राहिरआगमवायणपुच्छनाणुपेहा - परि- गट्टण-धम्मपट्टाओ सज्जमाओ णाम ।—अग और अगत्राह्य आगम- को वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, परिवर्तन और धर्मस्था करना स्वाध्याय नामका तप है (अन ध १/६/४) ।

चा सा १/४४/३ स्वाध्यायस्तत्त्वज्ञानस्याध्ययनमध्यापन स्मरण च ।—तत्त्वज्ञानको पढना, पढ़ाना, स्मरण करना आदि स्वाध्याय है ।

का अ/मू ४६२ पूयादिमु गिरिवेखो जिण-सरथ जो पदेह भत्ती, कम्म मल सोहणट्ठ सुय लाहो सुहयरो तस्स—जो मुनि अपनी पूजादिसे निरपेक्ष, केवल कर्ममल शोधनके अर्थ जिन शास्त्रोंको भक्तिपूर्वक पढ़ता है, उसका श्रुतलाभ सुखकारो है ।

२. स्वाध्यायके भेद

मू आ १/३३ परियट्टणाय वायण पट्टिच्छनाणुपेहया य धम्मकहा । अत्तिमगलसजुत्तो पचविटो होह सज्जमाओ १३३३—पडे हुए ग्रन्थका पाठ करना, वाचन—व्याख्यान करना, पृच्छना—शास्त्रोंके अर्थको किसी दूसरेसे पूछना, अनुप्रेक्षा—धारम्भार शास्त्रका मनन करना, धर्मस्था—त्रेशठ शलाका पुरुषोंका चारित्र्य पढना ये पाँच प्रकारका स्वाध्याय मुनि देव वन्दना मगल सहित करना चाहिए १३३३ (दे, ऊपरवाले शीर्षकमें ध १/३), (अन ध १/७) ।

त सू १/६/२ वाचनाप्रच्छनानुप्रेक्षन्नायधर्मोपदेशा १२५—वाचना, पृच्छना, आम्नाय, और धर्मोपदेश यह पाँच प्रकारका स्वाध्याय है १२५ (चा सा १/१२/५), (अन ध १/७/८३-८७) ।

दे वाचना चार प्रकार है—नन्दा, भद्रा, जया और सौम्या ।

३ स्वाध्यायमें सम्यक्त्वकी प्रधानता

भा पा मू १/८ सयलो णाणञ्जयणो गिररथओ भावरहियाण ।—भावरहित श्रमणोंका सकल ध्यान और अध्ययन निरर्थक है ।

ध ६/४,१,१/६/३ ण च सम्मत्तेण विरहियाणं णाणभाणामसखेज्ज- गुणसेडोकम्मणिज्जराए अणिमित्ताण णाण भाणववएसो पारमत्थिओ अरिथ, अत्रगयट्ठ सद्दहणणणे तच्चवपमव्युवगमे सत्ते अहप्प- सगादो ।—सम्यक्त्वसे रहित ज्ञान ध्यानके असख्यात गुणी श्रेणी रूप कर्म निर्जराके कारण न होनेसे 'ज्ञानध्यान' यह सज्ञा वास्तविक नहीं है । काकि अर्थ ध्रान्तसे रहित ज्ञान में वह सज्ञा स्वीकार करनेमें अतिप्रसंग दाप आता है ।

यो सा अ १/७/४४ मसारो त्रिहुपां शारत्रमध्यात्सरहितानां १४४—जो विद्वान् हैं—शास्त्रोंका अध्यास तो कर चुके हैं परन्तु आत्म- ध्यानसे शून्य हैं उनका ससार शास्त्र है ।

४ स्तुति आदि परिवर्तन रूप भी स्वाध्याय है

अन, ध १/७/६२ अहंनानपररयात्तु अ वो दिरयात्सगरतु व । शान्ति- रित्यादिरूपाऽपि स्वाध्याय श्रेयमे मत १६२—जो यापु निरन्तर अहंन्त भगवाव्के ध्यानमें लीन रहता है उसके 'अहंन्तु वा दिरयात्' अर्थात् अहंन्त भगवात् तुम्हारा कथ्याण करे । तथा 'सदारतु व शान्ति' अर्थात् मुझे मदा शान्ति बनी रहे इत्यादि वचनोंकी भी स्वाध्याय ही कहता चाहिए । यद्यपि प्राचीनोंने इसके द्वारा भी कथ्याण और परम्परा मोंमकी मित्रि मानी है ।

दे स्वाध्याय/१/२ ये पाँच प्रकारका स्वाध्याय मुनि देव वन्दना मगल सहित करना चाहिए ।

५. प्रयोजन व अप्रयोजन भूत विषय

मो, मा प्र १/३१७/२१ मोक्षमार्गं विषं देव, गुरु, धर्म व जीवादि तप या धन्य मोक्षमार्ग प्रयोजनभूत है । द्वीप समुद्रादिका कथन अप्रयोजनभूत है ।

६. चारों अनुयोगोंके स्वाध्यायका क्रम

मो, मा प्र १/७/३४७/१८ पहला मच्चा तत्त्व ज्ञान हो (द्रव्यानुयोग) पीछे पुण्य पापके फलको जाने (प्रथमानुयोग) शुद्धीययोगसे मोक्ष माने (चम्पानुयोग) और गुणस्थादि जीवका व्यवहार निरूपण जाने (करणानुयोग) इत्यादि जैसे है वैसे ध्रान्त कर्मे उमका अर्थात् (आगमका) अभ्यास करे तो सम्यक्ज्ञान होय ।

मो मा प्र १/८/३/५ पत्ति स करणानुयाग विषे भो किन्ती टिकाने उप- देशकी सुख्यता पूर्वक व्याख्यान होता है । उसे सर्वथा बंसा ही न मानना (४०७/२) मुख्यपने तो निचनी दशामें द्रव्यानुयोग कार्यकारी है । गौणपने जाहीं मोक्षमार्गकी प्राप्ति होती न जानिये ताकी पहने काई व्रतादिका उपदेश दीजिए है । ताते ऊँची दशा वालोंका अध्यास अभ्यास योग्य है । (४३१/७)

७ स्वाध्याय सर्वोत्तम तप है

भ आ मू १/१०७-१०६ वारसविट्ठिम य तवे सम्भतरवाहिरे कुसल- दिट्ठे । ण वि अरिथ ण वि य होहिदि सज्जमायसम तवो कम्म । १०७। जं अण्णाणीकम्म खवेदि भवसयसहस्सकोडोहि । त णाणी- तिहि गुत्तो खवेदि अतोमुहुत्तेण १०८। छट्ठमदमवदुवालसेहि अण्णा- णियस्स जा सोहो । तत्तो बहुगुणदरिया हाज्ज हु जिमिदस्स णाणिम्स । १०९।—१ सर्वज्ञ देवकर उपदेशे हुए अन्त्यतर और वादा भेद सहित वारह प्रकारके तपमेंसे स्वाध्याय तपके समान अन्य कोई न तो है और न होगा १०७ (मू आ ४/४०६, ६००) २ सम्यक्ज्ञानसे रहित जीव नक्षत्राधि कोटि भवोंमें जितने कर्मोंके क्षय करनेमें समर्थ होता है, ज्ञानी जीव गुण्णित होकर उतने कर्मोंका क्षय अन्तर्मुहूर्तमें कर देता है १०८। (प्र सा मू १/२३८), (ध ६/६,६,६०/गा २७/२८९) एक, दो, तीन, चार वा पाँच, अथवा पक्षोपवास व मासोपवास करने- वाले सम्यक्ज्ञान रहित जीवसे भोजन करनेवाला स्वाध्यायमें तपपर सम्यग्दृष्टि परिणामोंकी ज्यादा विशुद्धि कर लेता है १०९।

८ स्वाध्यायका लौकिक व अलौकिक फल

ति प १/१५-४२ दुविहो हवेदि हेदू तिलोपपणत्तिमथयञ्जयण । जिणवरययणुद्विट्ठो पच्चवखरोवत्तभेएहि १५। सख्वापच्चवत्तपरपच्च- वत्ता दाणिण होदि पच्चवत्ता । अण्णाणस्स विणासं णाणदिवाधररस उप्पत्ती १६। देवमणुप्सादीहि सततमन्भच्चणप्पयाराणि । पडिसमय- मसखेज्जगुणसेडिकम्मणिज्जरण १७। इय सख्वापच्चवत्त पच्चवत्त परपर च णादव्व । सिस्सपडिसिस्सपहुदीहि सददमन्भच्चणयार १८। दोभेद च परोखं अभुदयसोवत्ताह मोवत्तसोवत्ताह

साक्षाद्विबिद्भुः परसत्यकर्ममतिः श्रानुभांगउदएहि ॥३६॥ इदपडि
ददिगिदय तेत्तीसामरसमाणपहुदिसुह । राजाहिराजमहराज-
द्रमडलिसडनयाण ॥२०॥ महमडलियाण अद्रचक्रिचक्राहिरि-
तिरथयरसोक्ख । अट्टारसमेत्ताण सामी सेसाण भत्तिवुत्ताण
॥११॥ वररयण मउडधारी सेवयमाणण वत्ति तह अट्ठ । देत्ता
हवेत्ति राजा जितसत्तु समरसघट्ठे ॥१२॥ = त्रिलोक प्रज्ञप्तिग्रन्थके
अध्ययनमें, जिनेन्द्रदेवके वचनोंसे उपदिष्ट हेतु, प्रत्यक्ष और परोक्षके
भेदसे दो प्रकारका है ॥३६॥ १. प्रत्यक्ष हेतु साक्षात् और परम्पराके
भेदसे दो प्रकारका है । अज्ञानका विनाश, ज्ञानरूपी दिवाकरकी
उत्पत्ति, देव और मनुष्यादिकोंके द्वारा निरन्तरकी जानेवाली
विविध प्रकारकी अभ्यर्थना, और प्रत्येक समयमें होनेवाली अस-
ख्यात गुणी रूपमें कर्मोंकी निर्जरा, इसे साक्षात् प्रत्यक्ष हेतु समझना
चाहिए । और शिष्य-प्रशिष्य आदिके द्वारा निरन्तर अनेक प्रकारसे
की जानेवाली पूजाकी परम्परा परोक्ष हेतु समझना चाहिए ॥३६-३८॥
२. परोक्ष हेतु भी दो प्रकारका है—एक अभ्युदय और दूसरा मोक्ष
सुख । सातावेदनीय आदि सुप्रशस्त कर्मोंके तीव्र अनुभागके उदयसे
प्राप्त हुआ इन्द्र, प्रतीन्द्र, दिगिन्द्र, त्रयस्त्रिंश, व सामानिक आदि
देवोंका सुख तथा राजा, अधिराज, महाराज, मण्डलीक, अर्धमण्ड-
लोक, महामण्डलीक, अर्धचक्री, चक्रवर्ती और तीर्थकर इनका सुख
अभ्युदय सुख है । जो भक्तियुक्त अठारह प्रकारकी सेनाओंका स्वामी
है, चत्कृष्ट रत्नोंके मुकुटको धारण करनेवाला है, सेवकजनोंको वृत्ति
अर्थात् भूमि तथा अर्थ (धन) प्रदान करनेवाला है, और समरके
संघर्षमें शत्रुओंको जीत चुका है, वह राजा है ॥३६-४२॥ (ध १/१,
१/१६/१) ।

ध १/१.२.२/गा ४७-५१/५६ भविय-सिद्धाताण दिणयर कर-णिम्मल
हवइ णाण । सिसिर-यर-कर सिच्छ हवइ चरित्त स-वस चित्त ॥७७॥
मेरु व्व णिवकप णट्ठट्ठ मल तिमूढ उम्मुक्क । सम्मद्वद सणमणु-
वमसमुप्पज्ज पवयणम्भासा ॥४८॥ तत्तो चेव सुहाइ सयलाइ देव-
मणुयत्तराण । उम्मुलियट्ठ कम्म फुड सिद्ध-सुह पि पवयणदो ।
॥४९॥ जियमोहिषण-जलणो अण्णाण तमधयार-दिणयरओ । कम्म-
मलकल्लसपुसओ जिणवयणमिओवही सुहओ ॥५०॥ अण्णाण-तिमिर-
हरण सुभविय-हिययारविद-जोहणय । उज्जोइय-सयल चद्ध सिद्ध त-
दियायर भजह ॥५१॥ = जिन्होंने सिद्धान्तका उत्तम प्रकारसे अभ्यास
किया है ऐसे पुरुषोंका ज्ञान सूर्यकी किरणोंके समान निर्मल होता है
और जिसने अपने चित्तको स्वाधीन कर लिया है ऐसा चन्द्रमाकी
किरणोंके समान निर्मल चरित्र होता है ॥४७॥ प्रवचनके अभ्याससे मेरुके
समान निष्कम्प, आठ मल रहित, तीन मूढता रहित सम्पर्दर्शन
होता है ॥४८॥ देव, मनुष्य और विद्याधरोंके सुख प्राप्त होते हैं और
आठ कर्मोंके उन्मूलित होनेपर प्रवचनके अभ्याससे विशद सिद्ध सुख
भी प्राप्त होता है ॥४९॥ जिनागम जीवोंके मोहरूपी ईधनको अग्नि
के समान, अज्ञानरूप अन्धकारके विनाशके लिए सूर्यके समान और
द्रव्य व भाव कर्मके मार्जनके लिए समुद्रके समान है ॥५०॥ अज्ञानरूपी
अन्धकारके विनाशक भव्यजीवोंके हृदयको विकसित करनेवाले,
मोक्षपथको प्रकाशित करनेवाले सिद्धान्तको भजो ॥५१॥

९ स्वाध्यायका फल गुणश्रेणी निर्जरा व सवर

ध १/१.२.२/५६/३ कर्मणामसख्यातगुणश्रेणिनिर्जरा केषां प्ररयसेत्ति
चेन्न, अवधिमन पर्ययज्ञानिना मूत्रमधीयानाना तत्प्रत्यक्षताया समुप-
लम्भात् । = प्रश्न—कर्मोंकी असख्यातगुणित-श्रेणी रूपसे निर्जरा
होती है, यह किनको प्रत्यक्ष है ? उत्तर—ऐसी शका ठीक नहीं है,
क्योंकि, सूत्रका अध्ययन करनेवालोंकी असख्यात गुणित श्रेणी रूपसे
प्रतिस्मय कर्म निर्जरा होती है, यह बात अवधिज्ञानी और मन-
पर्ययज्ञानियोंको प्रत्यक्ष रूपसे उपलब्ध होती है ।

ध. ६/४.१.१/३/१ उसहसेणादिगणहरदेवेहि विरटसहरयणाओ दट्ट-
मुत्तादो तत्पढण-गुणणकिरियात्रावदाण मव्वजीत्राण पडिसमयमसत्ते-
वेज्जगुणसेट्ठोए पुट्टसच्चिदकम्मणिज्जरा होदि त्ति । = वृषभमेनादि
गणधर देवों द्वारा जिनकी शब्द रचना की गयी है, ऐसे द्रव्य सूत्रोंसे
उनके पढ़ने और मनन करने रूप क्रियामें प्रवृत्त हुए सत्र जीवोंके
प्रति समय असख्यात गुणित श्रेणीसे पूर्व सचित कर्मोंकी निर्जरा
होती है ।

ध ६/५.५.५०/२८२/३ किमर्थं सर्वकालं व्याख्यायते । श्रोतुर्व्या-
ख्यातुश्च असख्यातगुणश्रेण्या कर्मनिर्जरणहेतुत्वात् । प्रश्न—इसका
सर्वकाल किस लिए व्याख्यान करते हैं ?—उत्तर—क्योंकि वह
व्याख्याता और श्रोताके असख्यात गुणी श्रेणी रूपसे होनेवाली कर्म
निर्जराका कारण है ।

१०. स्वाध्यायका प्रयोजन व महत्त्व

भ आ /मू /१०४-१०६ सज्जायं कुव्वतो पचिदियमुवुओ तिगुत्तो य ।
हवदि य एयगमणो विणएण समाहिदो भिग्गू ॥१०४॥ ज्हज्ह सुदमा-
ग्गाहदि अट्टिसयरसपसरमसुदवुवुत्तु । तह तह पण्हादिज्जदि नव-
नवसवेगमड्ढाए ॥१०५॥ आयापायविदण्हू दसणणातवसज्जमें ठिच्चा ।
विहरदि विमुज्जफमाणो जावज्जीवं दु णिवक्खो ॥१०६॥ = जो साधु
स्वाध्याय करता है वह पाँचों इन्द्रियोंका सवर करता है, मन आदि
गुप्तियोंको भी पालनेवाला होता है और एकाग्रचित्त हुआ विनयकर
सयुक्त होता है ॥१०४॥ (मू आ /४१०) जिसमें अतिशय रसका
प्रसार है और जो अश्रुतपूर्व है ऐसे श्रुतका वह जैसे-जैसे अवगाहन
करता है वैसे ही वैसे अतिशय नरीन वर्म श्रद्धासे सयुक्त होता हुआ
परम आनन्दका अनुभव करता है । (ध. १३/४.५.५०/गा.२१-२२/
२८१) स्वाध्यायसे प्राप्त आत्म विशुद्धिके द्वारा निष्कम्प तथा हेयो-
पादेयमें विचक्षण बुद्धि होकर यावज्जीवन रत्नत्रयमार्गमें प्रवर्तता
है ॥१०६॥

प्र सा मू /८६, २३२-२२७ जिणसत्थादो अट्ठे पच्चनखादोहिं बुज्जकदो
णियमा । खीयदि मोहोवच्यो तम्हा सत्थ समधिदव्व ॥८६॥ एयगगदो
समणो एयग णिच्छिद्वस्स अत्येसु । णिच्छित्ती आगमदो आगमचेट्ठा
तदो जेट्ठा ॥२२२॥ आगमहीणो समणो गेयप्पाण पर विद्याणादि ।
अविजाणतो अट्ठे खवेदि कम्माणि किध भिक्खू ॥२३३॥ आगमचक्खू
साहू इदियच्चमखूणि सव्वभूदाणि । देवा य ओहिचक्खू सिट्ठा पुण
सव्वदो चक्खु ॥२३४॥ सव्वे आगमसिद्धा अथा गुणपज्जएहि चित्तंहि ।
जाण ति आगमेण हि पेच्छित्ता ते वि ते समणा ॥२३५॥ आगमपुट्टवा
दिट्ठो ण भवदि जस्सेह सज्जमो तस्स । णथोदि भणदि मुत्त
असज्जदो होदि किध समणो ॥२३६॥ ण हि आगमेण सिज्जदि मद्दहण
जदि वि णरिथ अत्येसु ॥२३७॥ = जिन शास्त्र द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे
पदार्थोंको जानने वालेके नियमसे मोह समूह क्षय हो जाता है इन-
लिए शास्त्रका सम्यक्प्रकारसे अध्ययन करना चाहिए ॥८६॥ (न च
वृ /३१७ पर उद्धृत) । श्रमण एकाग्रताका प्राप्त होता है, एकाग्रता
पदार्थोंके निश्चयवाचक होती है, निश्चय आगम द्वारा होता है,
इसलिए आगमके व्यापार मुख्य है ॥२३२॥ आगमहीन श्रमण आत्मा-
को और परको नहीं जानता, पदार्थोंको नहीं जानता हुआ भिक्षु
कर्मोंको किम प्रकार क्षय करे ॥२३३॥ साधु आगम चक्षु है सर्वप्राणी
इन्द्रिय चक्षुवाले हैं, देव अर्थात् चक्षु वाले हैं और मित्र सर्वत
चक्षु है ॥२३४॥ समस्त पदार्थ विचित्र गुण पर्यायों सहित आगम सिद्ध
है उन्हें भी वे श्रमण आगम द्वारा वास्तवमें देखकर जानते हैं ॥२३५॥
(यो सा अ /६/१६-१७) । इस लोकमें जिनकी आगम पूर्वक दृष्टि नहीं
है उनके समय नहीं है इन प्रकार मूत्र कहता है, और अन्यतः वह
श्रमण कैसे हो सकता है ॥२३६॥ आगमसे यदि पदार्थोंका प्रदान न हो
तो सिद्धि नहीं होती ॥२३७॥

र सा / ६१, ६४ पत्रयण सारभाग परम्पराज्जाणकारण जाण । कम्म-
वपणणिमित्तं तम्मवत्तवणेहि मोत्तसोवत्तरहि । ६१। अज्जकयणमेव
भाण पचेदिमणिगह् कमाय पि । तत्ते पचमकाले पवयणसारभासमेव
कुज्जा हो । ६४। = प्रवचनके मारका अभ्यास ही परब्रह्म परमात्माके
ध्यानका कारण है। विशुद्ध आरमाके स्वरूपका ध्यान ही कर्मोका
नाश व मोक्षसुखकी प्राप्तिका प्रधान कारण है । ६१। प्रवचनसार
(जिनागम) का अभ्यास पठन-पाठन और वस्तुविचार ही ध्यान है ।
उसीसे इन्द्रियाका निग्रह, मनका बशीकरण व कर्पायोंका उपशम
होता है । इन पचम कालमें जिनागमका अभ्यास करना ही जिनागम
है । ६१।

र पा / सू / १७ जिगवयणमोसहमिण त्रिसयसुहविरैयण अमिदभूय ।
जग्मरणजाहिहरण खयकरण सव्वदुवलाण । = यह जिनवचन रूप
अपिधि इन्द्रिय विषयसे उत्पन्न सुखको दूर करनेजाला है। तथा
जन्म-मरण रूप रोगको दूर करनेके लिए अमृत सृष्टि है और सर्व
दुःखोंके क्षयका कारण है । १७।

सू पा / सू / ३ सत्तुम्मि जाणमाणो भवस्स भवणासण च सो कुणदि । सूई
जहा समुत्ता णासदि सुत्ते सहा णो वि । ३। = जो पुरुष सूत्रका जान-
कार है वह भवका नाश करता है, जैसे सूई डारे सहित हो तो नष्ट
नहीं होती, यदि डारेसे रहित हो तो नष्ट हो जाती है ।

स मि / ६१/४/४३/६ प्रज्ञातिशय प्रज्ञास्तार्थवसाय परमसवेगस्तपो-
वृद्धिरतिचारविशुद्धिरित्येवमाचर्य । = प्रज्ञामें अतिशय नानेके
लिए, अध्यवसायको प्रशस्त करनेके लिए, परम सवेगके लिए, तप
वृद्धि व अतिचार शुद्धिके लिए, (सशयोच्छेद व परवादियोंको
शरणाका अभाव रा वा) आदिके लिए स्वाध्याय तप आवश्यक है ।
(रा वा / ६/२/६/६२४/२०) ।

ति प / १/४१ ऋणयधराधरधीर मूढत्तयविरहिद ह्ययट्ठमल । जायदि
पवयणपठणे सम्मद्दसणमणुवसाण । ४१। = प्रवचन अर्थात् परमागमके
पढ़नेपर सुमेरु पर्वतके समान निश्चल लोकमूढता, देवमूढता गुरु-
मूढतासे रहित, शास्त्र आदि आठ दीपोंसे युक्त अनुपम सम्यग्दर्शनकी
प्राप्ति होती है ।

वे स्वाध्याय/१/८ में ध / १ जिनागम जीवोंके मोहरूपी ईधनके जलानेके
लिए अग्निके समान, अज्ञानको विनाशके लिए सूर्यके समान, तथा
कर्मोंके मार्जनके लिए समुद्रके समान है ।

न च वृ / ३६४ व उदधृत व ३४८ दव्वसुयादो भाव भावदो टोइ सव्व-
सणणा । सवेयणसवित्ति केवलणाण तदो भणियो । १। गहिओ सो
सुदणणे पच्छा सवेयणेण भायव्वो । जो णु सुदमवलवइ सो
सुवक्क उप्पसम्भावे । ३४८। = द्रव्यश्रुतसे भावश्रुत होता है फिर क्रमसे
सम्यग्ज्ञान, सवेदन, आरम सर्वात्ति तथा केवलज्ञान होते हैं, ऐसा
कहा गया है। (न च वृ / २६७) श्रुतज्ञानको ग्रहण करके पश्चात्
आरम सवेदनमें ध्याना चाहिए। जो श्रुतज्ञानका अवलम्बन नहीं
लेता वह आरम सद्धानमें मोह करता है । ३४८।

स सा / आ / २/४ स किल गुण श्रुताभ्ययनस्य यद्विचित्तवस्तुभूतज्ञान-
मयात्मज्ञानम् । = जो भिन्न वस्तु भूत ज्ञानमय आत्माका ज्ञान वह
ज्ञान पठना गुण है ।

आ अनु / १/७० अनेरान्तारमार्यप्रमवफलभागातिविनते वच पर्णादीर्णे
विपुनरपशापशतपुत्ते । ममुत्तुद्धे नन्द्वत्ततमतिमूने प्रतिदिन
श्रुतमन्थे धोमात् रमणय मनोमर्गटगमुयु । १७०। = जो श्रुतस्कन्ध
रूप मूष अथ धर्मात्मर पदार्थ रूप पून एव फलोंके भारसे अतिशय
कुंटा हुआ है, उनमें रूपों पदार्थोंमें व्यापार है, विस्तृत नयों रूप से कड़ों
शाखाओंमें युक्त है उन्नत है, तथा ममीचोचन एव विस्तृत मतिज्ञान
रूप तद्गुणे स्थिर है, उम श्रुत मन्थ रूप वृक्षके ऊपर युद्धिमान्
मनुके लिए प्रथमे मनस्वी मन्दरको मदा रमाना चाहिए ।

प प्र / टी / २/१६१ निजशुद्धात्मैवोपादेय इति मत्वा तत्परिज्ञानसाधक-
च पठति तदा परम्परया मोक्षसाधक भवति । = जो निज शुद्धात्मा-
को उपादेय जानकर, ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय जो शास्त्र, उनको
पढ़ता है, तो परम्परा मोक्षका साधक होता है ।

२ स्वाध्याय विधि

१. स्वाध्याय योग्य काल व उसका विभाजन

दे कृतिकर्म/४/१ प्रात का स्वाध्याय सूर्योदयसे दो घड़ी पश्चात् प्रारम्भ
करके मध्याह्नमें दो घड़ी वाकी रहनेपर समाप्त कर देना चाहिए ।
अपराह्णका स्वाध्याय मध्याह्नके दो घड़ी पश्चात्में प्रारम्भकर सूर्यास्त-
से दो घड़ी पूर्व समाप्त कर देना चाहिए । यही क्रम पूर्व रात्रिक व
वैरात्रिक स्वाध्यायमें अपनाया चाहिए ।

ध ६/४, १, ६४/गा १११-११४/२५८ प्रतिपद्येक पादो ज्येष्ठा मूलस्य
पौर्णमास्या तु । सा वाचना विमाक्षे छाया पूर्वाहनेलायाम् । १११।
सेवापराहकाले वेला स्याद्वाचनाविधौ विहिता । सप्तपदी पूर्वाह्णपरा-
ह्योग्रहण-मोक्षेण । ११२। ज्येष्ठासूलात्परतोऽन्यापौपाद्ब्रह्मवद्गुला हि
वृद्धि स्यात् । मासे मामे विहिता क्रमेण सा वाचनाछाया । ११३।
एव क्रमप्रवृद्धया पादद्वयमत्र होयते पश्चात् । पौपादाज्येष्ठान्ताद्
द्वद्गुलमेवेति विज्ञेयम् । ११४। = ज्येष्ठ मासकी प्रतिपदा एव
पूर्णमासकी पूर्वाह्नकालमें वाचनाकी समाप्तिमें एक पाद अर्थात् एक
वितरित प्रमाण (जाँझोंकी) वह छाया कही गयी है अर्थात् इस
समय पूर्वाह्न कालमें बारह अंगुल प्रमाण छायाके रह जानेपर अध्ययन
समाप्त कर देना चाहिए । १११। वही समय अपराह्न कालमें वाचना
प्रारम्भ करनेमें कहा गया है। पूर्वाह्न कालमें वाचना प्रारम्भ करके
अपराह्न कालमें उसे छोड़नेमें सात पाद प्रमाण छाया कही गयी है
। ११२। ज्येष्ठ माससे आगे पौष मास तक प्रत्येक मासमें दो अंगुल
प्रमाण वृद्धि होती है, यह क्रमसे वाचना समाप्त करनेकी छायाका
प्रमाण कहा गया है । ११३। इन प्रकार क्रमसे वृद्धि होनेपर पौष मास
तक दो पाद हो जाते हैं । पश्चात् पौष माससे ज्येष्ठ मास तक दो
अंगुल ही क्रमशः कम होते जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए । ११४।
(और भी दे. काल / १/१०) ।

२. स्वाध्याय योग्य कालमें कुछ अपवाद

भ आ / सू / २/०५०/१७८४ वायणपरियट्टणपुच्छणाओ मोत्तण तथ य
धम्मथुदि । सुत्तस्स पोरिसीमि वि सरैदि सुत्तत्थमेयमणी । २/०५२। =
(सग्लेखना गत साधु) वाचना, पृच्छना, परिवर्तना व धर्मोपदेशको
छोड़कर सूत्र और अर्थका एकाग्रताने स्मरण करते हैं। अथवा दिन-
का पूर्व, मध्य, अन्त तथा अर्धरात्रि ऐसे चार समयोंमें तीर्थकर्तोंको
दिव्य ध्वनि खिरती है। ये काल स्वाध्यायके नहीं हैं, परन्तु ऐसे
समयोंमें भी वे अनुप्रेक्षात्मक स्वाध्याय करते हैं ।

३. स्वाध्यायके अयोग्य द्रव्य क्षेत्र काल

ध ६ / ४, १, ६४/गा ६६-११४/२५६-२५७ यमपटहरवश्रवणे रुधिरस्रावे-
ऽश्रुतोऽतिचारे च । दात्तुशुद्धकायेषु भुक्तयति चापि नाध्येयम् । ६६।
तिल गलन-पुशुस्लाजाप्रापदिल्लघुस्तरभिनन्धेषु । भुत्तेषु भोजनेषु च
दशग्निधूमे च नाध्येयम् । ६७। योजनमण्डलमात्रे मन्यासविधौ
मठोपवासे च । आशयकक्रियायां केरैषु च लुच्यमानेषु । ६८। सप्तदि-
नान्यध्ययन प्रतिपिद्ध स्वर्गगते प्रमणसूरी । योजनमात्रे दिवसत्रितय
त्विद्युत्तो दिवसम् । ६६। प्राणिनि च तीव्रदुःखाग्निश्रयमाणे रफुरित
चातिवेदनया । एकनिवर्तनमात्रे तिर्यक्षु चरसु च न पाठ्यम् । १००।
तावन्मात्रे स्थावरकामयक्षयकर्मण प्रवृत्ते च । क्षेत्राशुद्धौ दुर्गन्धे
वातिदुष्पे वा । १०१। विगतार्थगमने वा स्वशरीरे शुद्धिचित्तिरहे

वा। नाध्येय सिद्धान्त' शिवसुखफलमिच्छता व्रतिना ११०२। प्रमिति-व्यन्तरभेरीताडन-सत्पूजासकटे कर्पणे वा। समूक्षण-समाह्वय-नसमीपचाण्डालबालेषु ११०६। अग्निजलरुधिरदीपे मासास्थिप्रजनने तु जीवानाम्। क्षेत्रविशुद्धिर्न स्याद्यथोदितं सर्वभावज्ञैः ११०६। युक्त्या समधीयानो वक्षणकक्षाद्यमस्पृशन् स्वाङ्गम्। यत्नेनाधीत्य पुनर्यथाश्रुत वाचनां मुञ्चेत् ११०८। तपसि द्वादशसख्ये स्वाध्याय श्रेष्ठ उच्यते सद्भिः। अस्वाध्यायदिनानि ज्ञेयानि ततोऽत्र विद्वद्भिः ११०९। पर्वसु नन्दीश्वरवरमहिमादिवसेषु चोपरागेषु। सूर्याचन्द्रमसोरपि नाध्येय जानता व्रतिना १११०। अष्टम्यामध्ययन गुरुशिष्यद्वयवियोगमा-वहति। कलह तु पौर्णमास्यां करोति विघ्न चतुर्दश्याम् ११११। कृष्णचतुर्दश्या यद्यधीयते साधवो ह्यमावस्याम्। विद्योपवास-विधयो विनाशवृत्तिं प्रयान्त्यशेष सर्वे १११२। मध्याह्ने जिनरूप नाशयति करोति सद्योव्याधिम्। तुष्यन्तोऽप्यप्रियतां मध्यमरात्रौ समपयान्ति १११३। अतितीव्रदु खितानां रुदतां सददर्शने समीपे च। स्तनयित्नुविद्युद्भ्रंशवृष्ट्या उष्कनिर्घति १११४। = द्रव्य—यम पटहका शब्द मुननेपर, अगसे रक्तस्त्रावके होनेपर, अतिचारके होने-पर तथा दाताओंके अशुद्धकाय होते हुए भोजन कर लेनेपर स्वाध्याय नहीं करना चाहिए १६६। तिलमोदक, चिउडा, लाई और पुआ आदि चिक्कण एव सुगन्धित भोजनोंके खानेपर तथा दावानल-का धुँआ होनेपर अध्ययन नहीं करना चाहिए १६७। एक योजनके घेरेमें सन्यासविधि, महोपवास विधि, आवश्यकक्रिया एव केशोंका लोच होनेपर तथा आचार्यका स्वर्गवास होनेपर सात दिन तक अध्ययन करनेका प्रतिषेध है। उक्त घटनाओंके एक योजन मात्रमें होनेपर तीन दिन तक तथा अत्यन्त दूर होनेपर एक दिन तक अध्ययन नहीं करना चाहिए १६८-१६९। प्राणीके तीव्र दु खसे मरणासन्न होनेपर या अत्यन्त वेदनासे तडफडानेपर तथा एक निवर्तन (एक बीघा) मात्रमें तिर्यचोंका सचार होनेपर अध्ययन नहीं करना चाहिए ११००। २ क्षेत्र—उतने मात्र स्थावर काय जीवोंके घात रूप कार्यमें प्रवृत्त होनेपर, क्षेत्रकी अशुद्धि होनेपर, दूरसे दुर्गन्ध आनेपर अथवा अत्यन्त सड़ी गन्धके आनेपर, ठीक अर्थ समझमें न आनेपर (१) अथवा अपने शरीरसे शुद्धिसे रहित होनेपर मोक्ष सुखके चाहनेवाले व्रती पुरुषको सिद्धान्तका अध्ययन नहीं करना चाहिए ११०१-११०२। व्यन्तरोंके द्वारा भेरी ताडन करनेपर, उनकी पूजाका सकट आनेपर, कर्पणके होनेपर, चाण्डाल बालकोके समीप भाडा-बुहारी करनेपर, अग्नि, जल व रुधिरकी तीव्रता होनेपर, तथा जीवोंके मांस व हड्डियोंके निकाले जानेपर क्षेत्रकी विशुद्धि नहीं होती ११०५-११०६। ३. काल—साधु पुरुषोंने बारह प्रकारके तपमें स्वाध्यायको श्रेष्ठ कहा है। इसलिए विद्वानोंको स्वाध्याय न करनेके दिनोंको जानना चाहिए ११०९। पर्वदिनों, नन्दीश्वरके श्रेष्ठ महिम दिवसों और सूर्य, चन्द्र ग्रहण होनेपर विद्वान् व्रतीको अध्ययन नहीं करना चाहिए १११०। अष्टमीमें अध्ययन गुरु और शिष्य दोनोंका वियोग करनेवाला होता है। पूर्णमासीके दिन किया गया अध्ययन कलह और चतुर्दशीके दिन किया गया अध्ययन विघ्नको करता है ११०७। यदि साधुजन कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्याके दिन अध्ययन करते हैं तो विद्या और उपवास विधि सब विनाशवृत्तिको प्राप्त होते हैं ११०८। मध्याह्न कालमें किया गया अध्ययन जिन रूपको नष्ट करता है, दोनों सन्ध्या कालोंमें किया गया अध्ययन व्याधिको करता है, तथा मध्यम रात्रिमें किये गये अध्ययनसे अनुरक्तजन भी द्वेषको प्राप्त होते हैं १११३। अतिशय तीव्र दु खसे युक्त और रोते हुए प्राणियोंको देखने या समीपमें होनेपर, मेघोंकी गर्जना व बिजलीके चमकनेपर और अतिवृष्टिके साथ उष्कापात होनेपर (अध्ययन नहीं करना चाहिए) १११४। (और भी दे. काल/१/१०)।

४. अयोग्य द्रव्यादिमें स्वाध्याय करनेसे हानि

घ १/४.१.५४/गा. ११६/२५६ द्वादिवादिक्कर्मणं करेदि सुत्तथमिषल-लोहेण। असमाहिमसज्ज्माय कलह वार्हि वियोग च १११६। = सूत्र और अर्थकी शिक्षाके लोभसे किया गया द्रव्यादिका अतिक्रमण असमाधि अर्थात् सम्यक्त्वादिकी विराधना, अस्वाध्याय अर्थात् अलाभ, कलह, व्याधि और वियोगको करता है १११६।

५. स्वाध्याय प्रतिष्ठापन व निष्ठापन विधि

घ १/४.१.५४/गा. १०७-१०८/२५६ क्षेत्र सशोधय पुन स्वहरतपादी विशोध्य शुद्धमना। प्राशुकदेशावस्थो गृह्णीयाद् वाचनां पश्चात् ११०७। युक्त्या समधीयानो वक्षणकक्षाद्यमस्पृशन् स्वाङ्गम्। यत्नेनाधीत्य पुनर्यथाश्रुतं वाचनां मुञ्चेत् ११०८। = क्षेत्रकी शुद्धि करनेके पश्चात् अपने हाथ और पैरोंको शुद्ध करके तदनन्तर त्रिशुद्ध मन युक्त होता हुआ प्राशुक देशमें स्थित होता हुआ वाचनाको ग्रहण करे ११०७। बाजू और कान आदि अपने अगका स्पर्शन करता हुआ उचित रीतिसे अध्ययन करे और यत्नपूर्वक अध्ययनके पश्चात् शास्त्र विधिसे वाचनाको छोड़ दे ११०८।

दे. कृत्तिकर्म/४/३ [स्वाध्यायका प्रारम्भ दिन और रात्रिके पूर्वसि, अपराह्न चारों ही बेलाओंमें लघु श्रुत भक्ति, ओर आचार्य भक्तिका पाठ करके करना चाहिए, नियत समय तक स्वाध्याय करके लघु श्रुतभक्ति पूर्वक निष्ठापना करनी चाहिए। ये सब पाठ योग्य कृत्तिकर्म सहित किये जाते हैं।]

६. विशेष शास्त्रोंके प्रारम्भ व समाप्तिपर उपवासादि-का निर्देश

मू आ./२८० उद्देस समुद्देशे अणुणापण ए अ होति पचेन। अगमुदखं ध भेषुवदेसा विय पदविभागी य १२८०। = बारह अग चौदह पूर्व वस्तु प्राभूत-प्राभूत इनके [पाद विभागके प्रारम्भमें वा समाप्तिमें वा गुरुओंकी अवज्ञा होनेपर पाँच-पाँच उपवास अथवा प्रायश्चित्त अथवा कायोत्सर्ग कहे हैं १२८०।

७. नियमित व अनियमित विधि युक्त पढे जाने योग्य कुछ शास्त्र

मू. आ /२७७-२७९ सुत्तं गणधरकधिद तवेव पत्तेयशुद्धिकधिद च। मुदकेवल्लिणा कधिद अभिण्णदसपुत्रकधिद च १२७७। तं पढितु-मसज्ज्माये णो कप्पदि विरद इत्थिवग्गस्स। एत्तो अण्णो गथो कप्पदि पढितु असज्ज्माए १२७८। आराहणणजुत्ती मरणविभत्ती य सगहथुदियो। पच्चवल्लणाणासयधम्मकहाओ य एत्थिओ १२७९। = अग पूर्व वस्तु प्राभूत रूप सूत्र गणधर कथित श्रुतकेवली कथित अभिन्न दशपूर्व कथित होता है १२७७। वे चार प्रकारके सूत्र काल-शुद्धि आदिके विना समयियोंको तथा आयिनाओंको नहीं पढने चाहिए। इनसे अन्य ग्रन्थ कालशुद्धि आदिके न होनेपर भी पढने योग्य माने गये हैं १२७८। सम्यग्दर्शनादि चार आराधनाओंका स्वरूप कहनेवाला ग्रन्थ, सत्रह प्रकारके मरणको वर्णन करनेवाला ग्रन्थ, पच सग्रहग्रन्थ, स्तोत्र ग्रन्थ, आहारादिके त्यागका उपदेश करनेवाला ग्रन्थ, सामायिकादि छह आवश्यकोंको करनेवाला ग्रन्थ, महापुरुषोंके चरित्रको वर्णन करनेवाला ग्रन्थ कालशुद्धि आदि न होनेपर भी पढना चाहिए।

स्वानुभव—दे अनुभव।

स्वानुभव दर्पण—आ योगेन्दुदेव (ई श ६) द्वारा विरचित अध्यात्म विषयक प्राकृत गाथा बद्ध ग्रन्थ है। इसमें १०६ गाथाएँ हैं।

स्वामित्व—१. स्वामित्वका लक्षण

स सि /१/७/२२/३ स्वामित्वमात्रिपत्यम् ।

स. सि /१/२५/१३२/४ स्वामी प्रयोक्ता । =स्वामीवा अर्थ अधिष्ठाता है (रा वा /१/७/-३८/२) । (अनधि व मन पर्यय ज्ञानके अर्थमें) स्वामीका अर्थ प्रयोक्ता है (रा वा /१/२५/-८६/६) ।

२. अष्टकर्म बन्धके स्वामियोंकी ओष आदेश प्ररूपणा

(म बं /पु स $\frac{६ स}{पु स}$), (ध /पु स /पु स)

प्रकृति	विषय	उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट	भुजगार आदि पद	ज उ वृद्धि हानि	अमन्यात भागादि वृद्धि	सामान्य
१ प्रकृति बन्ध—						
मूलोत्तर	बन्धक सामान्य					म./१/१६-३०
२ स्थिति बन्ध—						
मूल	काल सामान्य	घ ११/८७-१३६				घ ११/८७
"	ओषादेश	म /२/३३	म /२/३३	म /२/३३	म./२/३३	
उत्तर		म /२/३३	म /३/३३	म./३/३३	म./३/३३	
मू. उ	साता असाताके २,३,४ स्थानीय अनुभाग बंधक जीवोंकी अपेक्षा	घ ११/११६				
३ अनुभाग बन्ध—						
मूल	ओष आदेश	म /४/१५	म /४/१५	म. ४/१५	म /४/१५	
उत्तर	ओषादेश	म /४/१५	म /५/१५	म /५/१५	म /५/१५	
"	बन्धकके भाव	घ १२/१३				
"	कालोंमें अण्यमहत्त्व				घ १०/२११	
"	स्थानों " "				प ख /१२/२५६-२६७/२१४	
४ प्रदेश बन्ध—						
मूल	ओष आदेश	म /६/३४	म./६/३४	म./६/३४		
उत्तर	" "	म /६/३४				
५. विशेष—		विषय	उत्कृष्ट	अनुत्कृष्ट	जघन्य	अजघन्य
ज्ञानावरणीय	मू	प्रदेश सचय	घ १०/३१	घ १०/२१०	घ १०/२६८	घ १०/२६६
दर्शनावर्णीय	"	" "			घ. १०/३१२	घ १०/३१४
वेदनीय	"	" "			घ १०/३१६	घ १०/३२७
मोहनीय	"	" "			घ १०/३१२	घ १०/३१४
आयु	"	" "	घ १०/२२५	घ १०/२२५	घ १०/३३०	घ १०/३३६
नाम, गोत्र	"	" "			घ १०/३३०	घ १०/३३०
अन्तराय	"	" "			घ १०/३१२	घ १०/३१४

प्रकृति	विषय	उत्कृष्ट	अनुत्कृष्ट	जघन्य	अजघन्य
१ ज्ञानावरणी मू.	क्षेत्र या अवगाहना	घ. ११/१४	घ. ११/२३	घ. ११/३३	घ ११/३३
३,४,८ दर्शना, मोह अन्तराय मू.	"	घ ११/२६	घ. ११/२६	घ ११/५३	घ ११/५३
३ वेदनीय मू	"	घ ११/२६	घ. ११/३३	"	"
६-७ आयु, नाम, गोत्र	"	घ ११/३३	घ ११/३३	"	"

३. मोहनीय कर्म सत्त्वका ओघ आदेशसे स्वामित्व

(क पा/पु. स./^३सं
पु.सं.

स.	मूल या उत्तर	विषय	उत्कृष्टानुत्कृष्ट	भुजगारादि पद	ज, उ वृद्धि हानि	पद स्थान वृद्धि-हानि	स्वामित्व सामान्य
१	प्रकृति सत्त्व—						
१	सामान्य	राग व द्वेष भाव					१/३३३३
	मूल	कर्म सत्ता व असत्ता सा, कर्म सत्त्व					३/३३३
	उत्तर	असत्त्वका					२/३३३
	"	"					२/३३३
	"	परस्पर सन्निकर्ष					२/३३३
	"	२८, २४, २३ आदि स्थानोंकी समुत्कीर्तना	२/३३३	२/३३३	२/३३३	२/३३३	२/३३३
२	स्थिति सत्त्व—						
१	मूल		३/३३३	३/३३३	३/३३३	३/३३३	
२	उत्तर		३/३३३	४/३३३	४/३३३	४/३३३	
३	अनुभाग सत्त्व—						
१	मूल		५/३३३	५/३३३	५/३३३	५/३३३	
२	उत्तर		५/३३३	५/३३३	५/३३३	५/३३३	

४. अष्ट कर्म उद्दीरणाके स्वामित्व सम्बन्धी ओघ आदेश
प्ररूपणा
(ध १५/पृष्ठ स)

५. अष्टकर्मोदय स्वामित्व सम्बन्धी ओघ आदेश प्ररूपणा
(ध. १५/पृष्ठ स)

क्र	प्रकृति	मूल व उत्तर	जघन्य उत्कृष्ट	भुजगारादि पद	उ. वृद्धि हाणि	स्वामित्व सामान्य	भगो या स्थानोंका स्वामित्व
१	प्रकृति उद्दीरणा						
१	अष्टकर्म	मूल उत्तर	४६-४८	५१	५३	४४-४६	४८
२	जाना दर्शना	उत्तर	८१-८३	६७-६९	१००	५४-६१	
३	वेदनीय मोह	"	"	"	"		८१-८३

स	प्रकृति	मूल व उत्तर	उत्कृष्टानु-रूप	भुजगारादि पद	उ. वृद्धि हाणि	पद, स्थान वृद्धि-हाणि	स्वामित्व सामान्य
१ प्रकृति उदय—							
१	अष्टकर्म	मूल उत्तर					२८५ २८५- २८८
२ स्थिति उदय—							
१	अष्टकर्म	मूल उत्तर	२६०	२६४	२६५	२६५	
३ अनुभाग उदय—							
१	अष्टकर्म	मूल उत्तर	२६५	२६५	२६५	२६५	
			२६५-२६६	२६५-२६६	२६६	२६६	
४ प्रदेश उदय—							
१	अष्टकर्म	मूल उत्तर	२६६	२६६	२६६	२६६	
			२६७-३०६	३२५	३३२-३३४	×	

क्र	प्रकृति	मूल व उत्तर	उत्कृष्टानु-रूप	भुजगारादि पद	उ. वृद्धि हाणि	पद, स्थान वृद्धि-हाणि	स्वामित्व सामान्य
४	आयु, नाम		८६-९६	९७-९९	१००		८१-८३
५	गोत्र, अन्तरा	उत्तर	९७	"	"		८६-९६ ९७
२ स्थिति उद्दीरणा—							
१	अष्टकर्म	मूल	१०४-११८				
३ अनुभाग उद्दीरणा—							
१	अष्टकर्म	मूल	१०६-१६०		२३७-२४६		
४ प्रदेश उद्दीरणा—							
१	अष्टकर्म	मूल	२४३-२६१		२६४-२७१		

६. अन्य विषयोंके स्वामित्व सम्बन्धी ओघ आदेश
प्ररूपणा (ध १५/पृष्ठ स)

स	प्रकृति	विषय	जघन्योत्कृष्ट पद	भुजगारादि पद	उ. वृद्धि हाणि	स्वामित्व सामान्य
१ मूलोत्तर प्रकृति—						
		उपशमना		२८०		२७६-२७८
		सक्रमण	→	२८३-२८४	←	
२ मूलोत्तर स्थिति—						
		उपशमना	→	२८१	←	
		सक्रमण	→	२८३-२८४	←	
३ मूलोत्तर अनुभाग—						
		उपशमना	→	२८२	←	
		सक्रमण	→	२८३-२८४	←	
४ मूलोत्तर प्रदेश—						
		उपशमना	→	२८२	←	
		सक्रमण	→	२८३-२८४	←	

७. अन्य सम्बन्धित विषय

१. पाँचों शरीरकी जघन्योत्कृष्ट सघातन परिशातन कृतिके स्वामित्वकी ओषादेश प्ररूपणा — (प ख/६/सू ७१/३२६-३३६) ।
२ पाँच शरीरोंमें बन्धको प्राप्त वर्गणाओंमें ज. उ. विस्तसोपचयोंके स्वामित्वकी ओष आदेश प्ररूपणा — (घ १४/५६६-५६२) ।

स्वार्थ—स्व स्तो./सू/३१ स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेव पसा स्वार्थो न भोग परिभङ्गुरारमा । तृपोऽनुपङ्गात्त च तापशान्तिरतिदीदमाख्य-
ज्ञगवाद् सुपाश्व १३१।—यह जो आत्यन्तिक स्वास्थ्य है वही पुरुषोंका स्वार्थ है, क्षणभंगुर भोग स्वार्थ नहीं है, क्योंकि इन्द्रिय विषय मूल सेवनसे उत्तरोत्तर तृष्णाकी वृद्धि होती है तापकी शान्ति नहीं होती। यह स्वार्थ और अस्वार्थका स्वरूप शोभन पाशर्वोंके धारक भगवाद् सुपाश्वने बताया है १३१।

स्या म./३/१५/२१ तेषां (ज्ञानिनां) हि परार्थस्यैव स्वार्थत्वेनाभिम-
तत्वात् ।—महात्मा लोग दूसरेके स्वार्थको अपना स्वार्थ समझते हैं ।
अन घ/४/४४ मौनमेव सदा कुर्यादायं स्वार्थकसिद्धये । स्वैकसाध्ये
परार्थं वा द्रुयात्स्वार्थाविरोधत १४४।—परोपकारकी अपेक्षा न करके
आत्म कर्माणके लिए निरन्तर मौन धारणा चाहिए । परोपकारका
कार्य ऐसा हो जो कि एक अपने द्वारा ही सिद्ध होता हो तो आत्म
कर्माणमें विरोध न आवे इस तरह बोलना चाहिए १४४।

स्वार्थ प्रमाण—दे. प्रमाण/१/२।

स्वार्थानुमान—दे अनुमान/१।

स्वास्तिक—रुचक पर्वतस्थ एक कूट—दे लोक/७।

स्वास्थ्य—१. स्वास्थ्यका लक्षण

स श/३६ यदा मोहात्प्रजायेत रागद्वेषौ तपस्विन । तदैव भावयेत्स्व-
स्थमात्मानं शाम्यत क्षणात् ३६।—जिस समय तपस्वीके मोहके
उदयसे रागद्वेष उत्पन्न हो जायें, उस समय तपस्वी अपने स्वास्थ्य
(आत्म स्वरूप) की भावना करे, इससे वे क्षणभरमें शान्त हो
जाते हैं ।

भ आ/वि/७/३७/१७ बन्धरहिता निर्जरा स्वास्थ्य प्रापयति नेतरा
बन्धसहभाविनीति ।—बन्ध रहित निर्जरा ही स्वास्थ्य अर्थात्
मोक्ष प्रदान करती है, परन्तु बन्धसहभाविनी निर्जरा मुक्तिका
कारण नहीं ।

सामायिक पाठ/अमित/२४ न सन्ति बाह्या मम केचनार्था भवामि तेषां
न कदाचनाहम् । इत्थ विनिश्चिन्त्य विमुच्य बाह्या स्वस्थ तदा
त्व भव द्र मुवत्यै २४।—कूट भी बाह्य पदार्थ मेरे नहीं हैं, और मैं
भी उनका कभी नहीं हूँ । ऐसा सोचकर तथा समस्त बाह्यको
छोडकर, हे भद्र ! तू मुक्तिके लिए स्वस्थ हो जा ।

दे स्वार्थमें स स्तो आत्मोपयोग ही स्वास्थ्य है ।

प वि/४/६४ साम्य स्वास्थ्य समाधिश्च योगश्चेत्तानिरोधनम् । शुद्धो-
पयोग इत्येते भवत्येकार्थवाचका ।६४।—साम्य, स्वास्थ्य, समाधि,
योग, चित्तनिरोध, और शुद्धोपयोग एकार्थवाची है ।

* अन्य सम्बन्धित विषय

१. परम स्वास्थ्यके अपर नाम —दे मोक्षमार्ग/२/५।

२. स्वास्थ्यनाथक पदार्थ अभक्ष्य है —दे. भक्ष्याभक्ष्य/१/३।

स्वाहा—भ आ/वि/१७३६/१५६६/५ स्वाहाकारान्ता तद्रहित-
मन्त्रस्य ।—जिसके अन्तमें स्वाहाकार है, वह विद्या है । मन्त्र
स्वाहाकारसे रहित होता है ।

स्वस्त्री—दे स्त्री/५।

स्वोदय बंधी प्रकृतियाँ—दे उदय/७/२।

स्वोपकार—दे उपकार ।

[ह]

हंस—१ प प्र/टी/२/१७० अनन्तज्ञानादिनिर्मलगुणयोगेन हस ह्व
हस परमात्मा ।—अनन्तज्ञानादि निर्मल गुण सहित हसके समान
उज्ज्वल परमात्मा हस है । २ परमहसके अपर नाम—दे
मोक्षमार्ग/२/५।

हंसगर्भ—विजयार्थकी उत्तर श्रेणीका नगर—दे. विद्याधर ।

हड्डी—दे अस्थि ।

हतसमुपतिक—दे. अनुभाग/१/७।

हत—गणितकी गुणकार विधिमें गुण्य राशिको गुणकार करि हत
किया गया कहलाता है ।—दे गणित/II/१/५।

हत्या—१ दे हिंसा, २ आत्महत्या दे. मरण/४।

हनन—गणित विधिमें दो राशियोंको परस्पर गुणा करना/दे.
गणित/II/१/५।

हनुमंत चरित्र—आ रायमञ्ज (ई १५५६-१६०६) द्वारा रचित
भाषा ग्रन्थ ।

हनुमान्—१ मानुषीत्तरपर्वतस्थ वज्रकूटका स्वामी भवनवासी
सुप्रभु कुमार देव—दे लोक/७। २. प. पु/सर्ग/१लोक पूर्वभव सं. ६
में दमयन्त, पाँचवेंमें स्वर्गमें देव (१७/१४२-१४८) चौथेमें सिंहचन्द्र
नामक राजपुत्र (१७/१५१) तीसरेमें स्वर्गमें देव (१७/१५२) दूसरेमें
सिंहवाहन राजपुत्र (१७/१५४) और पूर्वभवमें लान्तव स्वर्गमें देव
था (१७/१६२) वर्तमान भवमें पवनजयका पुत्र था (१७/१६४.३०७) ।
क्योंकि विमानमेंसे पापाण शिलापर गिरनेपर इसने पर्यरको चूर्ण-
चूर्ण कर दिया इसलिये इनका नाम श्रीईल भी था । (१७/४०२)
रामायण युद्धमें रामकी बहुत सहायता की । अन्तमें मेरुकी मन्दनाकी
जाते समय उष्कापातसे विरक्त होकर दीक्षा ले लो (११२/७६),
(११३/३२), तथा क्रमसे मोक्ष प्राप्त किया (१११/४४-४६) ।

हनुसहृदीप—हनुमाचकी माता अजनाके मामा प्रतिसूर्गका राज्य ।
(प पु/१७/३४६) ।

हरण—भरत क्षेत्रकी एक नदी—दे मनुष्य/४।

हरि—१ चम्पापुरके राजा आर्यका पुत्र था । इसीके नामपर
हरिवंशकी उत्पत्ति हुई (ह पु/१४/५७-५८)—दे इतिहास/७/१८ ।
२ निपथ पर्वतस्थ एक कूट व उसका स्वामी देव—दे लोक/७; ३.
विद्युत्प्रभ गजदन्तका एक कूट व उसका रक्षक देव—दे लोक/७,
४ माण्यवात्पर्वतस्थ एक कूट व उसका स्वामिनी देवी—दे लोक/७।

हरिकांत—१ हरि क्षेत्रमें स्थित एक कुण्ड जिसमें से हरिकान्ता नदी
निकलती है ।—दे लोक/३/६। २ हेमवत पर्वतस्थ एक कूट व उसका
स्वामी देव—दे लोक/७।

हरिकांता—हरि क्षेत्रकी एक प्रसिद्ध नदी—दे लोक/३/१०।

हरिक्षेत्र—रा वा/३/१०/८/१७२/२७ हरि सिंहस्तस्य ध्रुवलक्ष्मण-
रिणामित्वात् तद्वर्णमनुष्याद्य पितृधाद्धरिवप इत्यात्म्यायते ।—हरि
अर्थात् सिंहके समान ध्रुवल रूपवाले मनुष्य इसमें रहते हैं अत यह
हरिवर्ष कहलाता है । (यह जवाई द्वीपोंमें प्रसिद्ध तीसरा क्षेत्र है) ।


० इस क्षेत्र का अस्थान व विस्तार दि—दे लोक/३/३। ३. इस क्षेत्र में काल वर्तन आदि सम्बन्धी विशेषताएँ—दे काल/४/१६।

हरिचन्द्र—नोमक वंशके कायस्थ कुल आर्द्रदेव नामक श्रेष्ठीके पुत्र थे। इनके गुरु दिगम्बर मत्तके अनुयायी थे। कृति—धर्मशर्माभ्युदय, जीवन्धरचम्पू यह एक जैन कवि थे। (जीवन्धर चम्पू/प्र A N Up), (धर्मशर्माभ्युदय/प्र १६ प पत्रात्ताल) समय—वि श ११-१२।

हरित—१ हरिसेत्रकी प्रसिद्ध नदी—दे लोक/३/१०। २ हरिसेत्रमें स्थित एक कुण्ड जिसमें-ने कि हरित नदी निकलती है।—दे सा/१/३, ३ निषध पर्वतस्थ एक कूट—दे लोक/७, ४ हरित कूट व हरित कुण्डरी स्वामिनी देवी—दे लोक/७।

हरिताल—मध्य नोकके अन्तका पन्द्रहवाँ सागर व द्वीप—दे. ल/क/६।

हरिदेव—



हरिद्वती—भरत क्षेत्र वरुण पर्वतस्थ एक नदी—दे. मनुष्य/४।

हरिभद्र सूरि—१ आप बड़े तार्किक व दार्शनिक एक श्वेताम्बर-राचार्य थे। कृति—पद्दर्शन समुच्चय, जम्बूदीप सहायनी, लीला विस्तार टोरा। समय—वि ६५ में आपका स्वर्गवास हुआ। (वि ४३३-४८४), (ई ४००-४०८ (द सा/प्र. २८/प्रेमी)। २ प्रसिद्ध श्वेताम्बर-राचार्य थे। मुनि जिनविजय मूरिके अनुसार इनका समय—वि ७६-६४७ मित्र है। (ई. ७००-७००), (न च/प्र/० प्रेमी)।

हरिमशु—एक मित्रवादी—दे क्रियावाद।

हरिवंश—हनुम राजाने नीरक नामक श्रेष्ठीकी स्त्रीका हृष्णकर नामसे जन्म किया। ये दोनों फिर आहार दानके प्रभावसे हरिसेत्रमें उत्पन्न हुए। पूर्व वंशके नामक नीरकनी देव मनकर इगर्जी (समुच्चयके लेखके) भरत क्षेत्रमें राय दिया। चूँकि यह हरिसेत्रसे आया था इसलिए इसके संज्ञा नाम हरिवंश हुआ। (च. पु/२१/२-७३, ४८-४६), (द पु/१५/८)।

हरिवंश पुराण—१. पृताट सधीम आ जिगमुरि द्वारा ई ७८३ में रचा, संस्कृत स्तोत्रक बद्ध ग्रन्थ है। इसमें ६६ सर्ग तथा लगभग

१०,००० श्लोक हैं। श्रीकृष्ण, भगवान् नेमिनाथका तथा तत्कालीन राज्य वंश आदिका कथन करता है। २ कवि रद्धु (ई १४३६) द्वारा अपभ्रंश छन्दोंमें रचित। ३ आ. सकलकीर्ति द्वारा (ई १४४०-१४५०) रचित अपभ्रंश छन्द बद्ध ग्रन्थ। ४. पण्डित दौलतराम (ई १७६७) रची गयी भाषा वचनिका।

हरिवर्मा—अगदेशके चम्पापुर नगरका राजा था। दीक्षा धारण कर ११ अर्गोंका अध्ययन किया। दर्शनविशुद्धि आदि भावनाओंका चिन्तन कर तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध किया। अन्तमें समाधि मरणकर प्राणत स्वर्गमें इन्द्र हुआ। (म पु/६७/२-१५) यह मुनिमुवत नाथ भगवात्का पूर्वका दूसरा भव है।—दे मुनिमुवत।

हरिवर्ष—१ हिमवात् पर्वतस्थ एक कूट—दे लोक/७। २ हिरात वस्तीसे तारपर्यं है जिसका पर्वत महामेरु शृ खलाके अन्तर्गत निषध (हिन्दुकुश) है जो मेरु तक पहुँच जाता है। अवेस्तामें इसका नाम 'हरिवरजो' प्रसिद्ध है। (ज प/प्र १३६)।

हरिवेग—१ साकेत नगरीके स्वामी वज्रसेनका पुत्र था। दीक्षा धारणकर आयुके अन्तमें महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ। (म पु/७७/२३२-२३४) यह वर्धमान भगवात्का पूर्वका सातवाँ भव है।—दे वर्धमान २ पूर्वभव सं २, में अनन्तनाथ भगवात्के तीर्थमें एक बड़ा राजा था। पूर्व भवमें स्वर्गमें देव था। (म पु/६७/६१) वर्तमान भवमें दसवाँ चक्रवर्ती था। विशेष—दे शालाकापुर/२, ३ काठियावाड़के वर्धमानपुर नगर (जहाँ कि पहले आ. जिनसेनने हरिवंशपुराणकी रचना की थी) में ही आपने बृहत्कथाकोपकी रचना की। समय—वि स ८८८ (ई. ८३१), (ह. पु/प्र. ३ A.N.U.P), (सि वि/प्र ११ प महेंद्र)।

हर्ष वर्धन—१. स्थानेश्वरके राजा थे। समय—वि ६६७-७०७ (ई ६१०-६५०), (क्षत्र चूडामणि प्र/८ प्रेमी)। २ एक चीनी यात्री था। भारतमें ई ७०० में आया था। समय—ई. ७००।

हस्त—१ एक नक्षत्र—दे नक्षत्र, २ क्षेत्रका प्रभाव विशेष। अपर नाम हाथ—दे गणित/II/१।

हस्तकर्म—भ आ/वि ६१३/८-१२/६ छेदन भेदन, पेणमभिघातो, व्यधन, खनन, बन्धन, स्फाटन, प्रक्षालन, रञ्जन, वेष्टन, ग्रन्थन, पूरण, समुदायकरण, लेपन, क्षेपण आलेखनमित्यादि संस्कृष्ट हस्तकर्म।—छेदन करना, भेदन करना, पीसना, आघात करना, चुगना, खोदना, बाँधना, फाडना, धोना, रँगाना, वेष्टन करना, मूँधना, पूर्ण करना, एकत्र करना, लेपन करना, फेंकना, चित्र बनाना आदि कार्यको संविलष्ट हस्तकर्म कहते हैं।

हस्तनागपुर—कुरुजांगल देशका एक नगर—दे. मनुष्य/४।

हस्तिनायक—विजयार्थकी उत्तर श्रेणीका एक नगर—दे. विद्याधर।

हस्तप्रहेलित—कालका एक प्रमाण विशेष—दे गणित/II/१।

हस्तिपानी—भरत क्षेत्रस्थ आर्य गण्डकी एक नदी—दे मनुष्य/४।

हस्तिमल्ल—एक अर्जन कवि थे। इन्होंने भी समस्तभद्राचार्यकी प्रशंसा की है। कृति—विक्रान्त कौम्ब नाटक। समय—वि श, १४ (भ. आ/प्र. ६ प्रेमी जी), (यु अत्रु/प्र ३१ प जुगलकिशोर)।

हाथ—क्षेत्रका प्रमाण विशेष। अपर नाम हस्त—दे गणित/II/१।

हानि—१ दा गुणहानि, ड्य व गुणहानि—दे. गणित/II/६। पटगुण हानि वृद्धि—दे पट।

हार—१ शास्त्रार्थमें हार जीत सम्बन्धी—दे न्याय/२। २. गणित-की भागहार विधिमें जिस राशिसे भाग दिया जाता है सो हार है।—दे गणित/II/६।

हारि—सौधर्म स्वर्गका २२ वाँ पटल व इन्द्रक—दे, स्वर्ग/५।

हारित—एक क्रियावादी—दे, क्रियावादी।

हारी—एक विद्या—दे विद्या।

हार्य—गणितकी भागाहार विधिमें जिस राशिका भाग किया जाये सो हार्य है।—दे, गणित/II/१/६।

हाव—मुख विकार—दे विभ्रम।

हास्तिन—विजयार्थकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर—दे, विद्याधर।

हास्य—१. हास्य प्रकृतिका लक्षण

स सि /८/६/२८५/१२ यस्योदयाद्वास्याविर्भावस्तद्वास्यम् । = जिसके उदयसे हँसी आती है वह हास्य कर्म है। (रा वा /८/६/४/५७४/१७), (गो क/जो, प्र /३३/२७)।

घ ६/१,६-२४/४७/४ हसन हास । जस्स कम्मवत्तधरस उदएण हस्स-णिमित्तो जीवस्स रागो उप्पजइ, तस्स कम्मवत्तधस्स हास्सो त्ति सण्णा, कारणे कज्जुवयारादो । = हँसनेको हास्य कहते हैं। जिस कर्म-स्कन्धके उदयसे जीवके हास्य निमित्तक राग उत्पन्न होता है उस कर्म-स्कन्धकी कारणमें कार्यके उपचारसे हास्य सज्ञा है।

घ १३/५,५,६/३६/३६१/८ जस्स कम्मस्स उदएण अण्यविहो हासो समु-प्पज्जदि त कम्म हस्स णाम । = जिस कर्मके उदयसे अनेक प्रकारका परिहास उत्पन्न होता है वह हास्य कर्म है।

* अन्य सम्बन्धित विषय

१. हास्य राग है। —दे कपाय/४।

२. हास्य प्रकृतिकी बन्ध उदय मत्त्व प्ररूपणा।—दे वह वह नाम।

३ हास्य प्रकृतिके बन्ध योग्य परिणाम। —दे, मोहनोय/३/६।

हास्तिविजय—विजयार्थकी उत्तर श्रेणीका नगर।—दे विद्याधर।

हाहाग—कालका प्रमाण विशेष।—दे गणित/I/१।

हाहा—१. गन्धर्व नामा व्यन्तर जातिका भेद—दे गन्धर्व। २ कालका एक प्रमाण विशेष।—दे गणित/I/१।

हिगुल—मध्य लोकके अन्तका ग्यारहवाँ सागर व द्वीप।—दे लोक/५।

हिंसा—स्व व परके अन्तर ग व बाह्य प्राणोका हनन करना हिंसा है। जहाँ रागादि तो स्व हिंसा है और पद काय जीवोको मारना या कष्ट देना पर हिंसा है। पर हिंसा भी स्व हिंसा पूर्वक होनेके कारण परमार्थसे स्व हिंसा ही है। पर निचली भूमिकाकी प्रत्येक प्रवृत्तिमें पर हिंसा न करनेका विवेक रखना भी अत्यन्त आवश्यक है।

१ हिंसाके भेद व लक्षण

१ हिंसा सामान्यके भेद।

२ पारितापि आदि हिंसा निर्देश।

३ सक्रन्धी आदि हिंसा निर्देश।

४ असत्यादि सर्व अविरति भाव हिंसा रूप है।

५ आखेट। —दे आखेट।

* सावध योग। —दे सावध।

* कर्मबन्धके प्रत्ययोके रूपमें हिंसा। —दे, प्रत्यय/१/२।

५ एक समयमें छह कायकी हिंसा सम्भव है।

६ हिंसा अत्यन्त निन्द्य है।

७ हिंसकके तपादिक सर्व निरर्थक है।

२ निश्चय हिंसाकी प्रधानता

१ स्व हिंसा ही हिंसा है।

२ अशुद्धोपयोग व कपाय ही हिंसा है।

३ निश्चय हिंसा ही प्रधान है व्यवहार नहीं।

४ मैं जीवोको मारता हूँ ऐसा कहने वाला अशानी है।

३ व्यवहार हिंसाकी कथंचित् गौणता व मुख्यता

१ कारणवश या निष्कारण भी जीवोका घात हिंसा है।

२ वेद प्रणीत हिंसा भी हिंसा है।

३ तिलीने तोडना भी हिंसा है।

४ हिंसक आदि जीवोकी हिंसा भी योग्य नहीं।

५ धर्मार्थ भी हिंसा करनी योग्य नहीं।

६ छोटे या बड़े किसीकी भी हिंसा योग्य नहीं।

* सूक्ष्म भी त्रस जीवोका वध हिंसा है।—दे, माम/५।

* निगोद जीवको तीव्र वेदना नहीं होती।

—दे वेदना समुद्घात/३।

७ सकल्पी हिंसाका निषेध।

८ विरोधी हिंसाकी कथंचित् आशा।

९ वाय हिंसा, हिंसा नहीं।

४ निश्चय व्यवहार हिंसा समन्वय

१ निश्चय हिंसाको हिंसा कहनेका कारण।

२ निश्चय हिंसाको हिंसा कहनेका प्रयोजन।

३ व्यवहार हिंसाको हिंसा कहनेका प्रयोजन।

४ जीवसे प्राण भिन्न है, उनके वियोगसे हिंसा क्यों।

* व्यवहार हिंसाको न माने तो जीवोको भस्मवत् मल दिया जायेगा। —दे विभाज/५/५।

५ हिंसा व्यवहार मात्रमें है निश्चयसे तो नहीं।

६ भिन्न प्राणोके वानसे न दु रा हे न हिंसा।

* निश्चय व्यवहार हिंसा समन्वय। —दे हिमा/३/१।

१. हिंसाके भेद व लक्षण

१ हिंसा सामान्यके भेद

१. निश्चय

क पा १/१,२/९८३/गा ४२/१०२ तैसि (रागादोण) ये उप्पत्ती हिंसेति जिणेहि जिदिडा। १४२। = रागादिक्रुको उरपत्ति ही हिंसा है, ऐसा जिनदेवने कहा है। (स सि ७/२२/३६३ पर उद्धृत) (भ, आ/वि १०१-१०२) (पु सि ७/४४), (अन घ ४/२६/३०८)

प्र. सा/त प्र/२१६,२१७ अशुद्धापयोगो हि छेद स एव च हिंसा १२१६। अशुद्धापयोगो अन्तरङ्गछेद १२१७। = वास्तवमें शुद्धापयोग छेद है और वही हिंसा है १२१६। अशुद्धापयोग अन्तरंग छेद है।

प प्र/टी २/१२५ रागाद्युत्पत्तिस्तु निश्चयो हिंसा। = रागादिकी उत्पत्ति वह निश्चय हिंसा है।

अन घ ४/२६ पर जिनागमस्येद रहस्यमत्रधार्यताम्। हिंसा रागाद्युत्पत्तिरहिंसा तदनुद्भव १२६। = जिनागमके इस परमोत्कृष्ट रहस्यको ही उदयमें धारण करो कि रागादि परिणामोंका प्रादुर्भाव होना हिंसा है १२६।

प ध/३/७५५ अर्थाद्वागादयो हिंसा चास्त्यधर्मो व्रतच्युति १७५५। = रागादिका नाम ही हिंसा, अधर्म और अव्रत है।।

२ व्यवहार

त सू/७/१३ प्रमत्तयोगादत्राणव्यपरोपण हिंसा १३३। = प्रमाद योगसे किसी जीवके प्राणोंका व्यपरोपण करना अर्थात् पीड़ा देना हिंसा है। प्र सा/त, प्र/३/१७ प्राणव्यपरोपो हि बहिरङ्गछेद। = प्राणोंका व्यपरोपण बहिरंग छेद है।

पु. सि, ७/४३ यत्खलु योगप्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम्। व्यपरोपणस्य करण मुनिश्चितता भवति सा हिंसा ४३३। = कपाय रूप परिणमा जो मन वचन काय योग तिसके हेतु है द्रव्य भाव स्वरूप दो प्रकार प्राणोंका पीड़ना या घात करना, निश्चय करि वही हिंसा है।

२. पारितापिकी आदि हिंसा निर्देश

भ आ/मू/८०७ पादोसिय अविकरणीय कायिय परिदावणादिवादाए। एदे पचपओगा किरियाओ होंति हिंसाओ। = द्वेषिकी, कायिकी, प्राणघातिकी, पारितापिकी, क्रियाधिकरणी ऐसे पाँच प्रकारकी क्रियाओंका हिंसा क्रिया कहते हैं ८०७।

३. सकल्पो आदि हिंसा निर्देश

नोट —[हिंसा चार प्रकारकी होती है—सकृषो, उद्योगो, आरम्भो व विरोधो। विना किसी उद्देश्यके सकृष प्रमादसे की जानेवाली हिंसा सकल्पो है। भोजन आदि बनानेमें, घरकी सफाई आदि करने रूप धरेख कार्योंमें होनेवाली हिंसा आरम्भो है। अर्थ कमाने रूप व्यापार धन्धमें होनेवाली हिंसा उद्योगो है। तथा अपनी, अपने आश्रितोंकी अथवा अपने देशकी रक्षाके लिए युद्धादिमें की जानेवाली हिंसा विरोधो है।

४. असत्यादि सर्व अविरति भाव हिंसा रूप है

पु मि ७/१श्लोक म, सर्वस्मिन्नप्यस्मिन्प्रमत्तयोगकहेतुकथन यत्। अतृप्तनचनेऽपि तस्मान्नियत हिंसा समवतरति १६६। अतीर्णस्य ग्रहणं परिग्रहस्य प्रमत्तयोगाद्यत्। तत्परिग्रहं रतियैव च हिंसा वधस्य हेतुत्वात् १२०२। अर्था नाम य एते प्राणा एते बहिश्चरा पुसाय्। हरति स तस्य प्राणात् यो यस्य जनो हरत्यर्थात् १२०३। यद्देवरागयोगान्मैथुनमभिधीयते तद्वज्र। अवतरति तत्र हिंसा वधस्य

सर्वत्र सदभावात् १२०७। हिंस्यन्ते तिलनाश्यां तस्मायमि विनिहिते तिला यद्वत्। बहवो जीवा योनी हिंस्यन्ते मैथुने तद्वत् १२०८। हिंसा पर्यायस्त्वसिद्धा हिंसान्तरङ्गसङ्गेषु। बहिरङ्गेषु तु नियतं प्रयातु मूर्ध्नि हिंसात्वम् १२१६। राज्ञो भुञ्जानानां यस्मादनिवारिता भवति हिंसा। हिंसा विरतिस्तरमाच्यत्तव्या रात्रिभुक्तिरपि १२२६। = १, क्योंकि इस सम्पूर्ण असत्य वचनमें एक प्रमाद योग ही कारण है इसलिए असत्य वचन बोलने वालेमें अवश्य ही हिंसा होती है, क्योंकि हिंसाका कारण एक प्रमाद ही है। (अन घ/४/३६) २ प्रमादके योगसे विना दिये हुए स्वर्ण वस्त्रादिक परिग्रहका ग्रहण करना चोरी कहते हैं वही चोरी हिंसा है, क्योंकि वह प्राणघातका कारण है १२०२। ये जितने भी स्वर्ण आदि पदार्थ हैं वे सत्र पुरुषके बाह्य प्राण हैं। इसलिए जो जिसके इन पदार्थोंका हरण करता है वह उसके प्राणोंको ही हरता है १२०३। (ज्ञा १/१०/३) (अन, घ/४/४६), ३. स्त्री पुरुष आदि वेद भावके परिणमन रूप रागसे महिल योगको मैथुन कहते हैं। वही अवल है। तिस विषे हिंसा अवतार धरे है, क्योंकि कुशील करने तथा करानेवालेके सर्व हिंसाका सद्भाव है १२०७। जैसे तिलोंसे भरो हुई नलीमें तपे हुए लारैकी मत्तई डालनेपर उस नलीके समस्त तिल जल जाते हैं, इसी प्रकार स्त्री अगमें पुरुषके अगसे मैथुन करनेपर योगित समस्त जीव तत्काल मर जाते हैं १२०८। ४ अन्तरंग चौदह प्रकार परिग्रहके सभी भेद हिंसाके पर्यायवाची होनेके कारण हिंसा रूप ही सिद्ध है। और बहिरंग परिग्रहविषे मूर्च्छा या ममत्व भाव ही निश्चयसे हिंसापनेको प्राप्त होता है १२१६। ५ रात्रिमें भोजन करनेवालोंको क्योंकि अनिवारित रूपसे हिंसा होती है, इसलिए अहिंसा व्रतधारी जनोंकी रात्रि भोजन त्याग अवश्य करना चाहिए १२२६।

५. एक समयमें छह कायकी हिंसा सम्भव है

गो क/भापा/७६४/६६४/४ छह कायकी हिंसा विषे एक जीवके एकै काल एक कायकी हिंसा होय, वा दो कायकी हिंसा होय, वा तीनकी वा चारकी, वा पाँचकी वा छहकी हिंसा होय।

६. हिंसा अत्यन्त निन्द्य है

ज्ञा/१/१६,५८ हिंसैव दुर्गतेर्दार हिंसैव दुरितार्णव। हिंसैव नरक घोर हिंसैव गहन तम १६। यत्किंचिरमसारे शरीरिणां दु खशोक-भयधीजम्। दौर्भाग्यादि समस्त तद्विनासभव ज्ञेयम् १६८। = हिंसा ही दुर्गतिका द्वार है, पापका समुद्र है, तथा हिंसा ही घोर नरक और महान्धकार है १६। ससारमें जीवोंके जो दुःख दुःख-शाक व भयका बीज रूप कर्म है तथा दौर्भाग्यादिक हैं वे समस्त एकमात्र हिंसासे उत्पन्न हुए जानो १६८।

७. हिंसकके तपादिक सद्य निरर्थक है

ज्ञा/८/२० नि स्पृहस्य महत्त्व च नैराशय दुष्पर तप। कायवलेशश्च दानं च हिंसकानामार्थकम् १२०। = जो हिंसक पुरुष है उनकी निस्पृहता, महत्ता, आशारहितता, दुष्पर तप करना, कायवलेश और दान करना आदि समस्त धर्म कार्य व्यर्थ हैं अर्थात् निष्फल है १२०।

२. निश्चय हिंसाकी प्रधानता

१. स्पृहिसा ही हिंसा है

भ, आ/मू ८०३, १३६३ अत्ता चेव अहिंसा अत्ता हिंसति गिच्छओ समये। जो होदि अप्पमत्तो अहिंसगो हिंसगो इदरो १०३। तप रोसेण सय पुब्बमेव उज्झदि हु कलकलेणेव। अणस्स पुणो दुवल

करिञ्ज रुद्रो ण य करिञ्जा । १३६३। = आत्मा हिंसा है और आत्मा ही अहिंसा है ऐसा जिनागममें निश्चय किया है। अप्रमत्तको अहिंसक कहते हैं और प्रमत्तको हिंसक । ५०३। तप्त लोहेके समान क्रोधी मनुष्य प्रथम स्वयं सन्तप्त होता है, तदनन्तर वह अन्य पुरुषको सन्तप्त कर सकेगा अथवा नहीं भी, नियमपूर्वक दुःखी करना इसके हाथमें नहीं । १३६३।

स. सि ७/१३/३५२ पर उद्धृत—स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवात् । पूर्वं प्राण्यन्तराणां तु पश्चात्स्याद्वा न वा वधः । = प्रमादसे युक्त आत्मा पहिले स्वयं अपने द्वारा ही अपना घात करता है इसके बाद दूसरे प्राणियोंका वध होवे या मत हो- (रा वा / ७/१३/१२/४४१ पर उद्धृत) ।

घ १४/५.६.६३/३/६० त्रियोजयति चासुभिर्न च वधेन सयुज्यते शिवं च न परोपमर्दपरुषमृतेर्विद्यते । वधोपनयमभ्युपैति च पगननिघ्नन्नपि त्वयायमतिदुर्गमं प्रशमहेतुरुच्योति । ६। = कोई प्राणी दूसरोंको प्राणोंसे विद्युक्त करता है फिर भी वह बन्धसे सयुक्त नहीं होता। तथा परोपघातसे जिसकी स्मृति कठोर हो गयी है, अर्थात् जो परोपघातका विचार करता है उसका कल्याण नहीं होता। तथा कोई दूसरे जीवोंको नहीं मारता भी हिंसकपनेको प्राप्त होता है। इस प्रकार हे जिन ! तुमने यह अति गहन प्रशमका हेतु प्रकाशित किया है।

पु. सि उ ४६-४७ व्युत्थानावस्थायाम् रागादीनां वशप्रवृत्तायाम् । त्रियतां जीवो मा वा धावत्यग्रे ध्रुव हिंसा । ४६। यस्मात्सकपाय सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम् । पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु । ४७। = रागादि प्रमाद भावोंके वशसे उठने-बैठने आदि क्रियाओंमें, जीव मरो अथवा न मरो निश्चयसे हिंसा है ही । ४६। क्योंकि कपाय युक्त आत्मा पहिले अपने द्वारा अपनेको ही घातता है पीछे अन्य जीवोंका घात हो अथवा न हो । ४७।

प्र. सा त/प्र १/१४६ कदाचित्परस्य द्रव्यप्राणानावाध्य कदाचिदनावाध्य स्वस्य भावप्राणानुपरक्तत्वेन बाधमानो ज्ञानावरणादीनि कर्माणि यद्वाति । = कदाचित् पर द्रव्यके प्राणोंको बाधा करके और कदाचित् बाधा नहीं करके अपने भाव प्राणोंको तो उपरक्तपनेके द्वारा बाधा करता हुआ ज्ञानावरणादि कर्मोंको (राग-द्वेषादिके कारण) बाधता ही है ।

प्र. सा. ता वृ १४६/२११/१० यथा कोऽपि तप्तलोहपिण्डेन पर हन्तुकाम सच्च पूर्वं तावदात्मानमेव हन्ति पश्चादन्यघाते नियमो नास्ति, तथा-यमज्ञानी जीवोऽपि मोहादिपरिणामेन परिणत सच्च पूर्वं स्वकीयशुद्धप्राणं हन्ति पश्चादुत्तरकाले परप्राणघाते नियमो नास्ति । = जिस प्रकार कोई व्यक्ति तप्त लोहेके गोले द्वारा किसीको मारनेकी कामना रखता हुआ पहले तो अपनेको ही मारता (हाथ जलाता) है, पीछे अन्यका घात होवे भी अथवा न भी होवे, कोई नियम नहीं। उसी प्रकार यह अज्ञानी जीव भी मोहादि परिणामोंसे परिणत होकर पहले तो स्वकीय शुद्ध प्राणोंका घात करता है, पश्चात् उत्तर कालमें अन्यके प्राण घातका नियम नहीं।

अन घ ४/२४ प्रमत्तो हि हिनस्ति स्वं प्रागात्मात्तद्गतयानात् । परो वृ त्रियतां मा वा रागाद्या ह्यारयोऽङ्गिन । २४। = दुष्कर्मोंका सचय तथा व्याकुलता रूप दुःखको उत्पन्न करनेके कारण प्रमत्त जीव पहले तो अपना घात ही कर लेता है, दूसरा जीव मरो वा मत मरो। क्योंकि जीवोंके वास्तविक वैरो तो कपाय ही हैं न कि दूसरोंका प्राणवध ।

२. अशुद्धोपयोग व कपाय ही हिंसा है

स सा आ/२६२ को उत्थानिका—हिंसाध्यवसाय एव हिंसा । = अध्यवसाय ही बन्धका कारण है अतः यह हिंसाका अध्यवसाय ही हिंसा है ।

प्र सा त/प्र २/२१६ अशुद्धोपयोगो हि छेद शुद्धोपयोगरूपस्य ग्रामण्यस्य छेदनात्, तस्य हिंसनात् स एव च हिंसा । = शुद्धोपयोग रूप ग्रामण्यका छेद करनेके कारण अशुद्धोपयोग ही छेद है और उस ग्रामण्यका नाश करनेके कारण वह ही हिंसा है। (प्र सा त/प्र ३/३१८), (यो मा अ / ८/२८), (पु सि, उ, ४/४४) ।

पु सि उ ६४ अभिमानभयजुगुप्साहास्यरतिशोककामकोपाद्या । हिंसाया पर्याया सर्वेऽपि । = अभिमान, भय, जुगुप्सा, हास्य, रति, शोक, काम, क्रोध आदि हिंसाकी पर्यायें हैं ।

प्र. सा ता वृ २/१७/प्रसेक/२/२६२/२१ सूक्ष्मजन्तुचातेऽपि यावताशेन स्वस्वभावचलनरूपेण रागादिपरिणतिलक्षणभावहिंसा तावताशेन बन्धो भवति, न च पादसघटनमात्रेण । = वीतगगी मुनियोंके ईर्ष्यासमिति पूर्वक चलते हुए, सूक्ष्म जन्तुओंका घात होनेपर भी जितने अशमें स्वस्वभावसे चलन रूप अर्थात् अशुद्धोपयोग रूप रागादि परिणत लक्षणवाली भाव हिंसा है, उतने अशमें ही बन्ध होता है, केवल यादकी रगड मात्रसे नहीं ।

आचारसार/४/१० स्वयं हिंसा स्वयमेव हिंसनं न तत्पराधीनमिह द्वयं भवेत् । प्रमादहीनोऽत्र भगवत्यहिंसक प्रमादयुक्तस्तु तदैव हिंसक । १०। = निश्चयसे जीव स्वयं हिंसा है और स्वयं ही हिंसन है। यह दोनों हिंसा व हिंसन व घात पराधीन नहीं है। प्रमाद रहित जीव अहिंसक होता है और प्रमाद युक्त सदैव हिंसक ।

प प्र टो २/१२५ रागाद्भ्युत्पत्तिस्तु निश्चयहिंसा । तदपि कस्मात् । निश्चयशुद्धप्राणस्य हिंसाकारणात् । = रागादिककी उत्पत्ति ही निश्चय हिंसा है। क्योंकि वह निश्चय शुद्ध चैतन्य प्राणोंकी हिंसाका कारण होनेसे ।

पं घ उ ७/७५ सत्यं रागादिभावेपु बन्धं स्यात्कर्मणा बलात् । तत्पा-कादात्मनो दुःखं तत्सिद्धं स्वात्मनो वधः । ७/७५। = रागादि भावोंके होनेपर बलपूर्वक कर्मोंका बन्ध होता है। और उन कर्मोंके उदयसे आत्माको दुःख होता इसलिए रागादि भावोंके द्वारा अपनी आत्माका वध या हिंसा सिद्ध होती है । ७/७५।

३. निश्चय हिंसा ही प्रधान है व्यवहार नहीं

भ आ./सू ५०६ जदि सुद्वस्स य वधो होहिदि बाहिरगवत्थुजोगेण । णत्थिदु अहिंसगो णाम होदि वायादिवधहेतु । ५०६। = यदि राग-द्वेष रहित आत्माको भी बाह्य वस्तुके सम्बन्धसे बन्ध होगा तो जगत्में कोई भी अहिंसक नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध मुनि भी वायुकायादि जीवोंके वधका हेतु है।

घ १४/५.६.६३/३/६० जेग विणा ज ण होदि चेव त तस्स कारण । तम्हा अतरगहिंसा चेव सुद्धणणं हिंसा ण बहिरगा त्ति सिद्धम् । = जिसके बिना जो नहीं होता वह उसका कारण है, इनलिप शुद्ध नयसे अन्तरग हिंसा ही हिंसा है बहिरग नहीं।

प्र सा त/प्र २/२१७ अशुद्धोपयोगोऽन्तर्गच्छेत्, परप्राणव्यपरोषो बहिरङ्गः । अन्तरङ्ग एव छेदो बलीयान् न पुनर्बहिरङ्गः । = अशुद्धोपयोग तो अन्तरङ्ग छेद है और परप्राणोंका घात बहिरग छेद है। तहाँ अन्तरग छेद ही बनवाच्च है बहिरग नहीं।

अन घ ४/२३ रागाद्यमगत प्राणव्यपरोषेऽन्यहिंसनं । स्यात्तद्व्यप-रोषेऽपि हिंसो रागादिसंघित । = यदि जीव रागादिमें आविष्ट नहीं है तो प्राणोंका व्यपरोषण हो जानेपर भी वह अहिंसक है और यदि रागद्वेषादि कपायोंसे युक्त है तो प्राणोंका त्रियोग न होनेपर भी हिंसक है।

४. मैं जीवोंको मारता हूँ ऐसा कहनेवाला अज्ञानी है

स.सा./सू २/४७ जो मण्णदि हिंसामि य हिंसिञ्जामि य परेहिं नत्तेहिं । सो मूढो अण्णणी णाणी एत्तो दु विउरीदो । २/४७। = जो पुरुष ऐसा मानता है कि मैं पर जीवोंको मारता हूँ और पर जीवों द्वारा मैं मान

जाता है वह पुरुष मोही है, अज्ञानी है, और इससे विपरीत है वह ज्ञानी है। १२४७। (गो मा/अ/४/१२)।

स सा./आ/२५६/क १६८ सर्व सदैव नियत भवति एतकीयमर्मादयाम्-मरणजीवितानु खसौख्यम्। अज्ञानमेतदिति गच्छन् परं परमं तु गच्छि पुमान् मरणजीवितानु खसौख्यम्।—इस लोचनें जीवोंके जो जीवन मरण दुःख सुख है वे सभी सदा काल नियमसे अपने अपने कर्मके उदयमे होते हैं। ऐसा होनेपर पुरुष परके जीवन मरण सुख दुःखों को करता है यह मानना अज्ञान है।

३. व्यवहार हिंसाको कथंचित् गौणता व मुख्यता

१. कारणवश वा निष्कारण भी जीवोंका घात हिंसा है

पु सि उ/५०-८६ धर्मो हि देवताभ्य १८०। पूज्यनिमित्तं घाते १२१। बहुसत्त्वघातजनितादशनाह्वरमेकसदपातोपधम् १२२। रक्षा भवति बहुनामेकैरय मास्य जीवहरणेन। हिंससात्त्वानाम् १८३। शरीरिणो हिंसा १८४। बहुदुःखासात्प्रतिता दु विषो १८५। सुखिना हृदा सुखिना एव। इति तत्र सुखिनां घाताय १८६। उपनिषद्सुगतिसाध्या-समाधि स्वपुरो क्षिप्येण शिरो न तर्त्तनीयम् १८७। मोक्षं प्रद्वेग नैव १८८। पर पुरस्तादशनाय निजमांसतारभसादानभनीयो न चात्मापि १८९।—देवताके अर्थ हिंसा करना धर्म है ऐसा मानकर १८०। या पूज्य पुरुषोंके सत्कारार्थ हिंसा करनेमें दोष नहीं है ऐसा मानकर १८१। शाकाहारमें अनेक जीवोंको हिंसा होती है और मांसाहारमें केवल एकको, इनलिए मांसाहारको भला जानकर १८२। हिंसक जीवोंको मार देनेसे अनेक जीवोंकी रक्षा होती है ऐसा मानकर हिंसक जीवोंकी हिंसा १८३। तथा इसी प्रकार हिंसक मनुष्योंकी भी १८४। दुःखी जीवों दुःखसे छुड़ानेके लिए मार देना रूप हिंसा १८५। सुखीको मार देनेसे पर भवमें उनको सुख मिलता है, ऐसा समझकर सुखी जीवको मार देना १८६। समाधिसे सुगतिकी प्राप्ति होती है, ऐसा मानकर समाधिरथ गुरुका क्षिप्य द्वारा सिर काट देना १८७। या मोक्षकी प्रद्वेग करनेके ऐसा करना १८८। दूसरेको भाजन बनानेके लिए अपना मांस देनेको निज शरीरका घात करना १८९। ये सभी हिंसाएँ करनेकी योग्य नहीं हैं।

शा १८/१८, २७ शान्तर्यथ देवपूजाय यज्ञार्थमथवा तृभि। कृत प्राणभृतां घात पातयत्यविलम्बितम् १९०। चरुमन्त्रोपधाना वा रेतोरन्त्यरय वा यवचिच। कृत सती नैरिंसा पातयत्यविलम्बितम् १९१।—अपनी शान्तिके अर्थ अथवा देवपूजाके तथा यज्ञके अर्थ जो मनुष्य जीवघात करते हैं वह घात भी जीवोंको शीघ्र ही नरकमें डालता है। १९०। देवताकी पूजाके लिए रथ हुए नैवेद्यसे तथा मन्त्र और औपधके निमित्त अथवा अन्य किसी भी कार्यके लिए की हुई हिंसा जीवोंको नरकमें ले जाती है १९१।

२ वेद प्रणीत हिंसा भी हिंसा है

रा वा १५/११३-२६/४६२-४६४ आगमप्रामाण्यात् प्राणिबधो धर्म-रैत्तुरिति चैव, न, तस्यागमत्सासिद्धे ११३। सर्वेषामविशेष-प्रसङ्गात् १२०। यदि हिंसा धर्मसाधन मत्स्यबन्ध (बध) शाकूनिक-शौकरिकादीनां सर्वेषामविशिष्टाधर्मासि स्यात्। यज्ञाधर्मणो-ऽन्यत्र बध पापायेति चैव, न, उभयत्र तुल्यत्वात् १२१। 'तादध्यात् सर्गस्येति चैव' १२२। 'यज्ञार्थं पशव गृहा स्वयमेव स्वयभुवा (मनुस्मृति/५/१९६/इति) इति। अतः सर्गस्य यज्ञार्थत्वात् न तस्य विनियोगस्तु पापमिति तान्न, किं कारणम्। साधनत्वात्। 'मन्त्र-प्राधान्याददोष इति चैव, १२३। यथा विप मन्त्रप्राधान्यादुपयुज्य-मान न मरणकारणम्, तथा पशुबधोऽपि मन्त्रसंस्कारपूर्वक क्रिय-माणो न पापहेतुरिति। तत्र, किं कारणम्। प्रत्यक्षविरोधात्। यदि मन्त्रेभ्यो एव केवलैभ्यो यज्ञे कर्मणि पशून्निपातयन्त दृश्येरत् मन्त्र-

यत् प्रष्टीयेत्, दृश्यते तु रज्ज्वादिभिर्मरिचम्। तस्मात् प्रमत् विरोधात् मन्त्राग्ने न मन्त्रगतार्थमिति।—हिंसासाधनमित्युक्ते १२४। नियतपशुनाम निमित्तस्य मन्त्राग्निभिर्निषेधात् भवत् १२५।—प्रष्टा—आगम प्रमाणसे प्राणी बध भी धर्म समझा जाता है। उच्यते—'हृषी, यद्विंसे एते आगमरा आगमरा'। इति नर्त्त १२६। यदि हिंसारो धर्मग साधन माना जायगा तो मन्त्राग्ने भोजन प्रादि सर्व हिंसक मनुष्य जातिमें मन्त्राग्ने, रूपसे, मन्त्रों प्राप्ति नहीं जायेगी १२०। प्रष्टा—ऐसा नहीं होता, यद्विंसे मन्त्रे अतिशय अन्य मार्गोंमें किया जायगा तथा पाप माना गया है। उच्यते—ऐसा भेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंसारो इच्छिते शोचते तुल्य है १२१। प्रष्टा—यहसे अर्थ ही मन्त्राग्नेसे पशुजाती मृष्ट की है, अतः मन्त्रके अर्थ तथा पापरा हेतु नहीं हो सकता। उच्यते—यह पक्ष अशुद्ध है। यद्विंसे पशुजाती मृष्ट मन्त्रो गी है, यह पक्ष अशुद्ध नहीं हो सकती है १२२। प्रष्टा—मन्त्रकी प्रमाणात्के कारण यह हिंसा निर्दोष है। मन्त्र प्रचार मन्त्रकी प्रशान्तात्के प्रयोग किया बिना मनुष्य-का कारण नहीं उभो प्रकार मन्त्र मन्त्राग्ने केव किया पशुबध भी पाप हेतु नहीं हो सकता। उच्यते—नहीं, यद्विंसे ऐसा माननेपर प्रत्यय विरोध आता है—यदि केवल मन्त्र मन्त्रे ही मन्त्राग्नेपर पशुजाती घात देया जाता तो मन्त्र मन्त्र विरुद्ध किया जाता। परन्तु यह पक्ष ताम्बो प्राप्ति बंधक न होकर देया जाता है। इनलिए प्रत्ययमें विरोध होनेके कारण मन्त्राग्ने मन्त्रोंकी कथना उचित नहीं है १२३। अतः मन्त्राग्ने पशुबध करनेवाले भी हिंसा दोषसे निवृत्त नहीं हो सकते १२४। सुभ परिणामोंमें पूज्य और अजुभ परिणामोंसे पाप बन्ध नियत है, उनमें ऐ-येर नहीं हो सकता।

३. खिलाने तोड़ना भी हिंसा है

सा ध./३/२२ यत्प्रनाचक्रुत्तादि मत्स्यजीवविशेषादिबध। न बुभुगन्-त्वागपटिरतदि सोऽपि गरिष्ठम् १२३।—दिग्गारदशकत्वात्वाग-वर्त्तमाना प्राणय तत्र दिक्ता और काष्ठ पाषाणादि शिल्पमें निर्याने गये या बनाये गये जीवोंका छेदनादिबधो नहीं करे, क्योंकि वगादि-में स्थापित किये गये जीवोंका छेदन भेदा केवल शागमें ही नहीं किन्तु लोकमें भी निन्दित है।

४. हिंसक आदि जीवोंकी हिंसा भी योग्य नहीं

पु मि उ./५३-८५ रक्षा भवति बहुनामेकस्यैवाद्य जगत्स्येव। इति मत्सा कर्त्तव्यं न हिंसत् हिंसकत्त्वानाम् १८३। बहुसत्त्वघातोऽपि जीवन्त उपार्जयन्ति गुरु पापम्। इत्युत्तराणां तुक्ता न हिंसनीया शरीरिणो हिंसा १८४। बहुदुःखासात्प्रतिता प्रयाति त्वचिरेण दु-विच्छिदितम्। इति तासनावृषाणोमादाय न दु गिनोऽपि हन्व्या १८५।—एक जीवको मारनेमें बहुतसे जीवोंकी रक्षा होती है, ऐसा मानकर हिंसक जीवोंका भी घात न करना १८३। बहुत जीवोंके मारनेवाले यह प्राणी जीता—ऐसा तो बहुत पाप उपजानेगा इस प्रकार दया करके भी हिंसक जीवका मारना नहीं चाहिए १८४। यह प्राणी बहुत दुःख करि पीड़ित है यदि इसको मारिये तो इसके सभ दुःख नष्ट हो जायेंगे ऐसी खोटी वासना रूप एतवार को जगीवार कर दुःखी जीव भी मारना १८५।

सा. ध./३/८१, ८३ न हिंस्यात्सर्वभूतानोरग्याय धर्म प्रमाणयत्। सागसोऽपि सदा रतीच्छद्वरया किं नु विरागस १८१। हिंसदु विमुक्तिप्राप्ति-घात कुर्वानं जातुचित्। अतिप्रसङ्गवधाति-सुखोच्छेदसमीक्षणत्।—सम्पूर्ण त्रस स्थावर जीवोंमेंसे किसी भी जीवको हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकारके श्रुति प्रणीत शाश्वत प्रद्वेग पूर्वक माननेवाला धार्मिक गृहस्थ धर्मके निमित्त सदा अपनी शक्तिके अनुसार अपराधी जीवोंकी रक्षा करे और निरपराधी जीवोंका तो बचना ही क्या है १८१। यस्याणार्थी गृहस्थ अति-प्रसंग रूप दाप नरक सम्बन्धी दुःख

मुखका कारण होनेसे हिंसक दुःखी और सुखी प्राणियोंके घातको कभी न करे । १२३।

५. धर्मार्थ भी हिंसा करनी योग्य नहीं

प्र सा १/२५० यदि कुण्दि कायखेद वेज्जावच्चत्थमुज्जदो समणो । ण हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयण । = यदि (भ्रमण) वैयावृत्तिके लिए उद्यमी वर्तता हुआ छह कायको पीडित करे तो वह भ्रमण नहीं है । गृहस्थ है, (क्योंकि) वह छह कायकी विराधना सहित वैयावृत्त्य हे । १२५०।

इ. उ. १/१६ त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त सच्चिनोति यः । स्वशरीर स पङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति । १६६। = जो निर्धन मनुष्य पात्रदान आदि प्रशस्त कार्योंके लिए पुण्य प्राप्ति तथा पाप विनाशके अनेक साधनों द्वारा धन उपार्जन करता है, वह मनुष्य निर्मल शरीरमें पीछे स्नान करके निर्मल होनेकी आशासे कौचड लपेटता है ।

पु सि उ. १/५०-५१ धर्मो हि देवताम्य' प्रभवति ताम्य प्रदेयमिति सर्वम् । इति दुर्विवेककलिता धिपर्णा न प्राप्य देहिना हिंसा । ५०। पूज्य-निमित्तघाते छागादीनां न कोऽपि दोषोऽस्ति । इति सप्रधार्य कार्यं नातिथये सत्त्वसङ्गपनम् । ५१। = देवताको प्रसन्न करनेसे धर्म होता है इसलिए इस लोकमें उस देवताके सन कुछ देने योग्य है । जीवको उनके लिए बलि कर देना धर्म है । ऐसी अविवेक बुद्धि प्राणी घात योग्य नहीं । ५०। अपने गुरुके वास्ते बकरा आदि मारनेमें कोई दोष नहीं ऐसा मानकर अतिथिके अर्थ जीव बध करना योग्य नहीं ।

दे हिंसा ३/१ देवताकी पूजाके लिए जीवघात करना नरकमें डालता है ।

६. छोटे या बड़े किसीकी भी हिंसा योग्य नहीं

सु आ ७/६८-६९ वधुधम्मवि विहरता पीड ण करोति कस्सइ कयाई । जीवेसु दयावण्णा माया जह पुत्तभडेसु । ७६८। तणरुववहरिच्छेदण-तयपत्तपवालकदमूलाई । फनपुप्फनीयघाद ण करिंति सुणी ण कारेति । ७६९। = सत्र जीवोंके प्रति दयाको प्राप्त सत्र साधु पृथिवीपर विहार करते हुए भी किसी जीवको कभी भी पीडा नहीं करते । जैसे माता पुत्रका हित ही करती है उसी तरह सबका हित चाहते हैं । ७६८। मुनिराज तृण, वृक्ष, हरित इनका छेदन, यकृत्, पत्ता, कोंपल, कन्दमूल, इनका छेदन, तथा फल, पुष्प बीज इनका घात न तो आप करते हैं, न दूसरोंसे कराते हैं । ७६९।

७. संकल्पी हिंसाका निषेध

सा ध २/२२ आरम्भेऽपि सदा हिंसा, सुभी सांकरिकीं त्यजेत् । धनतोऽपि कर्षकादुच्चै, पापोऽधनस्य धीवर । = बुद्धिमान् मनुष्य खेती आदि कार्योंमें भी संकल्पी हिंसाको सर्वैव छोड़ देवे, क्योंकि असकल्प पूर्वक बहुते जीवोंका घात करनेवाला किसानसे जीवोंको मारनेका संकल्प करके उनको नहीं मारनेवाला भी धीवर विशेष पापी होता है । २२।

८. विरोधी हिंसाकी कथंचित् आज्ञा

सा ध ४/५ की टोकामें उद्धृत—दण्डो हि केवलो लोकमिम चामु च रक्षति । राज्ञा शत्रौ च पुत्रे च यथा दोषसम धृत । = पुत्र व शत्रुमें समता रूपसे क्षत्रियों द्वारा किया गया दण्ड इस लोक और परलोककी रक्षा करता है, यह शास्त्र वचन है ।

९. वाह्य हिंसा, हिंसा नहीं

भ आ. १/५०६ यदि सुहस्स य बधो होहिदि वाहिगवत्थुजोगेण । पत्थि दु अहिंसगा णाम होदि चागादिबधेदु । ५०६। = यदि राग-द्वेषरहित आत्माको भी मात्र नाह वस्तुके सम्बन्धसे बन्ध होगा

तो जगत्में कोई भी अहिंसक नहीं, ऐसा मानना पड़ेगा । क्योंकि मुनि भी वायुकायादि जीवोंके बधका हेतु हैं । ५०६।

प्र सा १/२१७ मरदु वा जियदु जीवो अयदाचारस्स णिच्छिवा रिंसा । पयदस्स णत्थि बधो हिंसामेतेण समिदस्स । २१७। = जीव मरे या जीये, अप्रयत आचारवालेके हिंसा निश्चित है, प्रयतके समतिवाचके (बहिरग) हिंसामात्रसे बन्ध नहीं है । २१७। (स सि १/८/१३/३५१ पर उद्धृत), (ध १४/६, ६, ६३/गा २/६०), (रा वा १/८/१३/१२/५४० पर उद्धृत) ।

प्र सा १/५७/प्रक्षेपक १-२/२६२ उच्चालिगमिह पाए हरियासमिदस्स णिगमत्थाए । आयाधेज्ज कुलिग मरिज्ज त जोगमासेज्ज । १। ण हि तस्स तण्णिमित्तो बधो सुहुमो य देमिदो समये । सुच्छापरिगगहा च्चिय उज्जफपपमाणो दिट्ठो । २। = ईर्यासमित्तसे युक्त साधुके अपने पैरके उठानेपर चलनेके स्थानमें यदि कोई क्षुद्र प्राणी उनके पैरसे दब जाये और उसके सम्बन्धसे मर जाये तो भी उम निमित्तसे थोडा भी बन्ध आगममें नहीं कहा है क्योंकि जैसे अघ्यात्म दृष्टिसे मूर्च्छाको ही परिग्रह कहा है वैसे यहाँ भी रागादि परिणामोंको हिंसा कहा है । (स सि ७/१३/३५१/ पर उद्धृत), (रा वा ७/१३/१२/ ५४० पर उद्धृत) ।

स सि ७/१३/३५१/४ 'प्रमत्तयोगात्' इति विशेषण केवल प्राणव्यपरोपणं नाधर्मयति ज्ञापनार्थम् । = केवल प्राणोंका वियोग करनेसे अधर्म नहीं होता, यह बतलानेके लिए सूत्रमें 'प्रमत्तयोगसे' यह पद दिया है ।

ध. १४/६, ६, ६२/६१/१२ हिंसा णाम पाण-पाणिवियोगो । त करेताणं कथमहिंसालक्षणपंचमहव्ययसभवो । ण, बहिरगहिंसाए आसव-त्ताभावादे । = प्रश्न—प्राण और प्राणियोंके वियोगका नाम हिंसा है । उसे करने वाले जीवोंके अहिंसा लक्षण पाँच महाव्रत कैसे हो सकते हैं । उत्तर—नहीं, क्योंकि बहिरग हिंसा आसव रूप नहीं होती । पु सि उ ४/५ युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेगमन्तरेणापि । न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव । ४५। = युक्ताचारी सत्पुरुषके रागादि भावोंके प्रवेश बिना केवल पर जीवोंके प्राण पीडते ही तै वदाचित्त हिंसा नहीं होती है ।

नि सा १/ता वृ ५६ तेषा मृतिर्भवतु वा न वा, प्रयत्नपरिणाममन्तरैण सावद्यपरिहारो न भवति । = उन (जीवोंका) मरण हो अथवा न हो, प्रयत्न रूप परिणामके बिना सावद्यका परिहार नहीं होता । अन ध ४/२३ रागाद्यसङ्गत प्राणव्यपरोपेऽप्यहिंसक । स्यात्तदध्य-परोपेऽपि हिंसो रागादिसम्रित । २३। = जीव यदि राग द्वेष मोह रूप परिणामोंसे आविष्ट नहीं है तो प्राणोंका व्यपरोपण हो जानेपर भी अहिंसक है । और यदि रागादि वषायोंसे युक्त है तो प्राणोंका वियोग न होनेपर भी हिंसक है ।

४ निश्चय व्यवहार हिंसा समन्वय

१. निश्चय हिंसाको हिंसा कहनेका कारण

रा वा ७/१३/१२/५४०/३३ ननु च प्राणव्यपरोपणाभावेऽपि प्रमत्तयोग-मात्रादेव हिंस्यते । उक्त च - १. (प्राणव्यपरोपणनिर्देश अनर्थ-कम्) । नैप दोष, तत्रापि प्राणव्यपरोपणमस्ति भावलक्षणम् । तथा चोक्तम्—स्वयमेवात्मनारमान हिनस्वत्यात्मा प्रमादयात् । पुत्रं प्राण्य-न्तराणां तु पश्चात्स्याद्वा न वा बध । १। इति । एव कृत्वा यैरपालम्भ क्रियते—तोऽत्रावकाश न लभते । भिक्षुर्ज्ञानिध्यानपरायणस्य प्रमत्त-योगाभावात् । = प्रश्न—प्राणव्यपरोपणके अभावमें भी केवल प्रमत्त योगसे ही हिंसा स्वीकारी गयी है । कहा भी है कि—[जीव मरो या जीवा अयत्नाचारीके निश्चित रूपसे हिंसा है । चाप हिंसा मात्र-से बन्ध नहीं होता (दे हिंसा/३/६) अत सूत्रमें 'प्राणव्यपरोपणं दान्द व्यर्थ है ।] उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि भाव-लक्षण

वाला अन्तरग प्राणव्यपरोपण अर्थात् स्वहिंसा वहाँ भी (प्रमत्तयोग-में भी) है ही। कहा भी है—'प्रमादसे युक्त आत्मा पहले स्वयं अपने द्वारा ही अपना घात करता है, इसके बाद दूसरेका घात होवे अथवा न होवे।' ऐसा माननेपर यह दोष भी नहीं आता है कि—'जलमें, थलमें, आकाशमें सब जगह जन्तु ही जन्तु है। इम जन्तुमय जगत्में भिक्षुक अहिंसक कैसे रह सकता है? क्योंकि ज्ञान ध्यान परायण अप्रमत्त भिक्षुकको मात्र प्राणि वियोगसे हिंसा नहीं होती।

घ १४/५.६.६३/१ तदभावे (बहिरङ्गहिंसाभावेऽपि) चि अतरग हिंसादो चैव सित्थमच्छरस अधुपलभादो। जेण विणा ज ण होदि चैव त तस्स कारण। तन्हा अतरगहिंसा चैव सुद्धणएण हिंसा ण बहिरंगा त्ति सिद्धम्। —वर्षोंकि बहिरग हिंसाका अभाव होनेपर भी केवल अन्तरग हिंसासे सिक्थ मत्स्यके बन्धकी उपलब्धि हाती है। जिनके बिना जो नहीं होता है वह उसका कारण है, इसलिए शुद्धनयसे अन्तरग हिंसा ही हिंसा है, बहिरग नहीं, यह बात सिद्ध होती है।

दे.हिंसा/२/२-३ चैतन्य परिणामोंकी घातक होनेसे अन्तरग हिंसा ही हिंसा है।

२ निश्चय हिंसाको हिंसा कहनेका प्रयोजन

प्र सा /ता वृ./२१८/२६३/१३ शुद्धोपयोगपरिणतपुरूप पद्मजीवकुले लोके विचरन्नपि यद्यपि बहिरङ्गव्यहिंसामात्रमस्ति तथापि निश्चयहिंसा नास्ति। तत कारणाच्छुद्धपरमात्मभावनाबलेन निश्चयहिंसैव सर्व-तारपर्येण परिहर्त्तव्येति। —शुद्धोपयोग रूप परिणत जीवको इम जीवोंसे भरे हुए लोकमें विचरण करते हुए यद्यपि बहिरग हिंसा मात्र होती है। अतरग नहीं इस कारणसे शुद्ध परमात्म भावनाके बल द्वारा निश्चय हिंसा ही सर्व प्रकार त्यागने योग्य है।

३. बहिरंग हिंसाको हिंसा कहनेका प्रयोजन

अन /व./४/२८ हिंसा यद्यपि पुस म्यान्न स्वस्वपाप्यन्यवस्तुत् । तथापि हिंसायतनाद्विरमेद्भावशुद्धये।२८। —यद्यपि पर वस्तुके सम्बन्धसे प्रमत्त परिणामोंके बिना केवल बाह्य द्रव्यके ही निमित्तसे जीवको जरा भी हिंसाका दोष नहीं लगता, तो भी भावविशुद्धिके लिए भावहिंसाके निमित्तभूत बाह्य पदार्थसे मुमुक्षुओंको विरत होना चाहिए।२८।

४ जीवसे प्राण भिन्न हैं, उनके वियोगसे हिंसा क्यों हो ?

स सा /ता वृ./३३३-४४४/४२३/२२ कश्चिदाह जीवात्प्राणा भिन्ना अभि-न्ना वा। यद्यभिन्नास्तदा यथा जीवरय विनाशो नास्ति तथा प्राणाना-मपि विनाशो नास्ति कथं हिंसा। अथ भिन्नास्तहि जीवस्य प्राणघाते-ऽपि किमायातम्। तन्नापि हिंसा नास्तीति। तन्न [दे काय २।३] —प्रश्न—कोई कहता है कि जीवसे प्राण भिन्न है कि अभिन्न? यदि अभिन्न है तो जीवका विनाश ही नहीं हो सकता, तब प्राणोंका भी विनाश नहीं हो सकता। फिर हिंसा कैसे हो सकती है? यदि प्राण जीवसे भिन्न है तो जीवका प्राण घात होना ही कैसे प्राप्त होता है? इसलिए ऐसा माननेपर भी हिंसा सिद्ध नहीं होती। उत्तर—ऐसा नहीं है, कायादि प्राणोंके साथ कथ चित् जीवका भेद भी है और अभेद भी। वह कैसे सो बताते हैं [तम लोह पिण्डसे जैसे अग्नि पृथक् नहीं की जा सकती वैसे ही वर्तमानमें शरीर आदिसे जीवको पृथक् नहीं किया जा सकता, इस कारणसे व्यवहारसे दोनोंमें अभेद है। परन्तु निश्चयसे भेद है क्योंकि मरणकालमें शरीरादिक प्राण जीवके साथ नहीं जाते। [दे प्राण/२/३]

प प्र /टी /२/१२७ प्राणा जीवादिभिन्ना भिन्ना वा, यद्यभिन्ना' तर्हि जीव-वत्प्राणाना विनाशो नास्ति, अथ भिन्नास्तहि प्राणवधेऽपि जीवस्य वधो नास्त्यनेन प्रकारेण 'जीवहिंसैव नास्ति कथं जीववधे पापबन्धो भविष्यतीति। परिहारमाह। कथंचिद्भेदाभेद। तथाहि स्वकीयप्राणि टटते सति दु खोत्पत्तिदर्शनाद्बन्धव्यवहारेणाभेद सैव दु खोत्पत्तिस्तु हिंसा भण्यते तत्तश्च पापबन्धः। —प्रश्न—प्राण जीवसे भिन्न है या अभिन्न? यदि अभिन्न है तो जीवकी भीति प्राणोंका भी विनाश नहीं हो सकता। यदि भिन्न है तो प्राण वध होनेपर भी जीववध नहीं हो सकता और इस प्रकार जीव हिंसा ही नहीं टोती फिर जीव वधसे पापका बन्ध कैसे हो सकेगा? उत्तर—ऐसा न कहे क्योंकि जीव और प्राणोंमें कथंचिद् भेदाभेद है। वह इस प्रकार कि अपने प्राणोंके हरण होनेपर दु खकी उत्पत्ति देखी जाती है, इस कारण व्यवहारसे इनमें अभेद है। वह दु खोत्पत्ति ही वास्तवमें हिंसा कहलाती है और उससे पाप बन्ध होता है।

दे विभाव/५/५/१ यदि निश्चयकी भीति व्यवहारसे भी हिंसा न हो तो जीवोंको भस्मवत् मलनेसे भी हिंसा न होगी। और इस प्रकार माक्षमार्गके ग्रहणका अभाव हो जानेसे मोक्षमार्गका ही अभाव होगा।

५. हिंसा व्यवहार मात्रसे है निश्चयसे तो नहीं

पु.सि उ /५० निश्चयमशुद्धयमानो यो निश्चयतस्त्वमेव सप्रयते। नाश-यति करणचरण स बहि करणालसो बाल। —जो जीव निश्चयके स्वरूपको न जानकर उसको ही निश्चयके श्रद्धानसे अगीकार करता है, याने अन्तरग हिंसाको ही हिंसा मानता है वह मूर्ख बाह्य क्रियामें आलसी है और बाह्य क्रिया रूप आचरणको नष्ट करता है।

प प्र /टी /२/१२७ ननु तथापि व्यवहारेण हिंसा जाता पापबन्धोऽपि न च निश्चयेन इति। सत्ययुक्त त्वया, व्यवहारेण पाप तथैव नारकादि-दु खमपि व्यवहारेणैति। तदिदं भवता चेत्तर्हि हिंसां वृत्तं युज-मिति। —प्रश्न—फिर भी यह प्राणघात रूप हिंसा व्यवहारमात्रसे है और इसी प्रकार पापबन्ध भी निश्चयसे तो नहीं है। उत्तर—तुम्हारी यह बात बिलकुल सत्य है, परन्तु जिस प्रकार पापबन्ध व्यवहारसे है, उसी प्रकार नरकादिके दु ख भी व्यवहारसे ही हैं, यदि वे दु ख तुम्हें अच्छे लगते हैं तो हिंसा खूब करो।

६ भिन्न प्राणोंके घातसे न दु ख है न हिंसा

रा वा /७/१३/८-११/५४०/१३ अन्यत्वादधर्माभाव इति चेत्, न, तद्दु-खोत्पादकत्वात्। शरीरिणोऽन्यत्वात् दु खभाव इति चेत्, न, पुत्रकलत्रादिवियोगे तापदर्शनात्। १। बन्ध प्रत्येकत्वाच्च। १०। यद्यपि शरीरिशरीरयो लक्षणभेदान्नात्मात्वम्, तथापि बन्ध प्रत्येकत्वात् तद्वियोगपूर्वकदु खोत्पत्तेरधर्माभाव इत्यनुपालम्भः। एकान्त-वादिना तदनुपपत्तिर्घनाभावात्। ११। —प्रश्न—प्राण आत्मासे भिन्न है अत उनके वियोगसे अधर्म नहीं हो सकता। —उत्तर—नहीं, क्योंकि प्राणोंका वियोग होनेपर जीवकी ही दु ख होता है। —प्रश्न—शरीरी आत्मा प्राणोंसे भिन्न है अत उनके वियोगसे उसे दु ख भी नहीं होना चाहिए। —उत्तर—नहीं, क्योंकि पुत्र-कलत्रादि सर्वथा भिन्न पदार्थोंके वियोग होनेपर भी ताप देखा जाता है। १६. दूसरे, यद्यपि शरीर शरीरोंमें लक्षण भेदसे नानात्व है फिर भी बन्धके प्रति दोनों एक है अत शरीर वियोग पूर्वक होनेवाला दु ख आत्माको ही होता है। अत हिंसा और अधर्मका अभाव हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। १८। आत्माको निरय शुद्ध माननेवाले एकान्तवादीयोंके मतमें तो ठीक है कि प्राण वियोगसे दु खोत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वह आत्मा और शरीरका बन्ध स्वीकार नहीं करते। परन्तु अनेकान्तमतमें ऐसा मान्य नहीं हो सकता।

हिंसादान—दे अनर्थदण्ड ।

हिंसानंदी रौद्रध्यान—दे. रौद्रध्यान ।

हिजरी संवत्—दे. इतिहास/२ ।

हित—१. हितका लक्षण

रा वा /६/५/५/५/६४/१७ मोक्षपदप्रापणप्रधानफल हितम् । तद्विद्विषयम् स्वहित परहित चेति । = मोक्षपदकी प्राप्ति रूप प्रधान वा मुख्य फल मिलता है, उसको हित कहते हैं । वह दो प्रकारका है, एक स्वहित दूसरा परहित । (चा सा /६६/५)

क पा /१/१, १३-१४/९२१६/२७१/६ व्य ध्युपशमनहेतुर्द्रव्य हितम् । यथा पित्तज्वराभिभूतस्य तदुपशमनहेतुकटुकरोहिण्यादि । = व्याधिके उपशमनका कारणभूत द्रव्य हित कहलाता है । जैसे, पित्त ज्वरने पीडित पुरुषके पित्त ज्वरकी शान्तिका कारण कडवी कूटकी तू बड़ी आदिक द्रव्य हित रूप हे ।

* ज्ञानी व अज्ञानीकी हिताहित बुद्धिमें अन्तर दे मिथ्यादृष्टि /४ ।

२. हिताहित जाननेका प्रयोजन

भ आ /मू/१०३ जाणतस्सादहिद्व अहिदणियत्तीय हिदपवत्तीय । होदि यतो सेत्तमहा आदहिद्व आगमे दव्व १०३ । = जो जीव आत्माके हितको पहिचानता है वह अहितसे परावृत्त होकर हितमें प्रवृत्ति करता है । इस वास्ते हे भव्यजन । आत्महितका आप परिज्ञान कर लो १०३ ।

मो पा /मू/१०२ गुणगणविहसियगो हेयोपादेय णिच्छिओ साहू । ऋणज्जमयणे सुदो सो पाउइ उत्तम ठाण १०२ । = जो मूल व उत्तर गुणोंसे विभूषित है और हेयोपादेय तत्त्वका जिसको निश्चय है, तथा ध्यान और अध्ययनमें जो भले प्रकार लीन है, ऐसा साधु उत्तम स्थान मोक्षको प्राप्त करता है १०२ ।

* स्व पर हित सम्बन्धी—दे उपकार ।

हित संभाषण—दे सत्य/२ ।

हितोपदेश—दे उपदेश/२,३ ।

हिम—१ नन्दन वनका एक कूट—दे लोक/७ । २ पठ नरकका प्रथम पटल—दे नरक/५ ।

हिमपुर—विजयार्थकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर—दे विद्याधर ।

हिमवत्—कुण्डल पर्वतस्थ एक कूट—दे लोक/७ ।

हिमवान्—१ रा वा /३/११/१/१८-/६ हिममस्यास्तीति हिमवानिति व्यपदेशे अन्यत्रापि तत्सन्नय इति चेत् । रूढिविशेषवन्न-लाभात्तत्रैव वृत्ति । = (भरत क्षेत्रके उत्तरमें स्थित पूर्वापर लम्बायमान वर्षाधर पर्वत है । अपर नाम पञ्चशिखरी है ।] हिम जिसमें पाया जाय सो हिमवान् । चूँकि सभी पर्वतोंमें हिम पाया जाता है अतः रूढमे ही उसीके हिमवान् सज्ञा समझनी चाहिए । २. हिमवान् पर्वतका अस्थान व विस्तारादि । --दे लोक/३/४ । ३ हिमवान् पर्वतस्थ कूट व उसका स्वामी देव । --दे लोक/७ । ४ पत्रहृदके वनमें स्थित एक कूट--दे लोक/७ ।

हिमशीतल—कलिंग देशके राजा थे । अकलक देवने इनकी सभामें शास्त्रार्थ किया था । समय- ई श ८ का पूर्वार्ध (सि वि /१५ प. महेंद्र)

हिरण्य—म सि /७/०६/३६८/८ हिरण्य स्यादिव्यवहागतत्रम् । = जिममें रूप्य आदि व्यवहार होता है वह हिरण्य है । (द पा /टी /१४/१५/१३)

हिरण्योत्कृष्ट जन्मता क्रिया—दे सस्कार/२ ।

हिरण्यकशिपु—दक्षनाकुवशी एक राजा । दे, इतिहास/७/२ ।

हिरण्यगर्भ—१ मुकौशल मुनिका पुत्र था । अन्तमें नष्टपुत्रको राज्य देकर दीक्षा ले ली । (प पु /७/१०९-११२) २ योग दर्शनके आद्य प्रवर्तक—दे योगदर्शन ।

हिरण्यनाभ—जरासंधका सेनापति । युद्धमें युधिष्ठिर द्वारा मारा गया (पा पु /१६/१६२-१६३) ।

ही—दे एव ।

हीन—१ गणितकी व्यकलन प्रक्रियामें मूल राशिको ऋण राशिकरि हीन कहा जाता है । --दे गणित/II/१/४ । २ कायोत्सर्गका एक अतिचार --दे व्युत्सर्ग/१ ।

हीनयान—दे बौद्धदर्शन ।

हीनाधिकमानोन्मान—स मि /७/२७-६७/६ तत्र ह्यपमृष्य-लम्ब्यानि महाध्याणि द्रव्याणीति प्रत्यन । प्रस्थादि मानम्, तुलायु-न्मानम् । एतेन न्यूनानान्यरमे देयमधिकेनात्मनो ग्राह्यमित्येवमादि-कूटप्रयोगो हीनाधिकमानोन्मानम् । = मान पदमे प्रस्थादि मापनेके बाट आदि लिये जाते हैं, और उन्मान पदसे तौलनेके तराजू आदि बाट लिये जाते हैं । कमती माप तौलनेसे दूमरोंको देना, बढ़ती माप तौलनेसे स्वयं लेना, इत्यादि कुटिलतासे लेन-देन करना हीनाधिक मानोन्मान है । (रा वा /७/२७/४/५४/१४) [इसमें मायाका दोष आता है । --दे माया/२ ।

हीयमान—अवधिज्ञानका एक भेद—दे अवधिज्ञान/१ ।

हीराचंद—यह पचास्तिकाय टीकाके रचयिता एक पण्डित थे । जहानाबादके रहनेवाले थे । समय वि १७-१८ श, (प, का /प्र /३ पं, पत्रालाल ब्राक्लीजाल) ।

हीरानंद—मुप्रमिद्ध जगत सेठके वंशज तथा ओसवाल जैन थे । वि, १६६१ में सम्मेलित शिखरके लिए सध निकाला था । शाहजादा सनीमके कृपापात्र और जोहरी था (हिं जै मा इ /१३२ कामता) ।

हीलित—कायोत्सर्गका एक अतिचार—दे व्युत्सर्ग/१ ।

हुंडक संस्थान—दे संस्थान ।

हुंडावसर्पिणी—दे काल/८/१३ ।

हुल्लराज—अपर नाम हुल्लप था । यह बाजिजशके यक्षराज जीर लोकविम्बके पुत्र थे । तथा यदुवशी राजा नरसिंहके मन्त्री थे । जैन-धर्मके प्रहारा थे । अनेको शिलालेखोंमें इनका उल्लेख पाया जाता है । इ स १०८५ (ई ११६३), इ स. १०८७ में कोप्प महातीर्थमें जनमुनि सधको दान दिया । ममग-अ १०५७-१०६० (ई ११५२-११६८), (प २/प्र /५ H L. Jain)

हूनवंश—यहो कर्नरी राजाओंका वंश था । --दे इतिहास/३/३ ।

हूह—१ गन्धर्व नामा व्यन्तर जातिका एक भेद—दे, गन्धर्व । २ कानका एक प्रमाण विशेष—दे गणित/II/ १ ।

हह्रं अंग—ज्ञानका प्रमाण विशेष—दे गणित/1/१।

हृद—प्रत्येक वर्षधर पर्वतपर एक हृद है। जिसमेंसे गंगा आदि नदियाँ निकलती हैं।—दे लोक/३/८।

हृदयंगम—किंनर नामा व्यन्तर जातिवा एक भेद—दे किंनर।

हेतु—अनुमान प्रमाणके अंगोंमें हेतुका सर्व प्रधान स्थान है, 'यद्योक्ति इसके बिना केवल विज्ञप्ति उदाहरण आदिसे साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकती। अन्य दर्शनकारोंने इस हेतुके तीन लक्षण किये हैं, पर स्याद्वादमतानुलम्बियोंको 'अन्यथा अनुपपत्ति' रूप एक लक्षण ही इष्ट व पर्याप्त है। इस लक्षणकी विपरीत आदि रूपसे युक्ति होनेपर वे हेतु स्वयं हेत्वाभास बन जाते हैं।

१ भेद व लक्षण

१ हेतु सामान्यका लक्षण

१ अविनाभावीके अर्थमें

ध १३/५,५,५०/२८७/३ हेतु साध्याविनाभावि निम्न अन्यथानुपपत्त्ये-कलक्षणोपलक्षित ।=जो लिंग अन्यथानुपपत्तिरूप लक्षणसे उपलक्षित होकर साध्यका अविनाभावी होता है, उसे हेतु कहते हैं।

प सु ३/१५ साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतु ।१५।=जो साध्यके साथ अविनाभावित्वेन निश्चित हो अर्थात् साध्यके बिना न रहे, उसको हेतु कहते हैं।

न्या दी ३/१३१/७६/५ साध्याविनाभावि साधनवचनं हेतु । यथा-धूमवत्त्रान्यथानुपपत्ते इति-तथैव धूमवत्त्रोपपत्ते इति वा ।

न्या दी ३/१३१/६०/१५ साध्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वे सति निश्चयपथ-प्राप्तय खलु हेतौलक्षणम् ।=१. साध्यके अविनाभावी साधनके बोलनेको हेतु कहते हैं। जैसे—धूमयाना अन्यथा नहीं हो सकता, अथवा अग्निके होनेसे ही धूमवाला है। २. साध्यके होनेपर ही होता है अन्यथा साध्यके बिना नहीं हाता तथा निश्चय पथको प्राप्त है अर्थात् जिसका निश्चय हो चुका है वह हेतु है। (और भी दे साधन)।

न्या मू/घु/१/१/३७-३६ उदाहरणमाध्यमसाध्यमायन हेतु ।=१। तथा बंधन्यति ।३७।=उदाहरणकी समानताके माध्यके धर्मके साधनको हेतु कहते हैं ।=१। अथवा उदाहरणके विपरीत धर्ममें जो साध्यका साधक है उसे भी हेतु कहते हैं। (न्या मू/माध्य/१/१/३६/३८/११)।

२ स्वपक्षसाधकत्वके अर्थमें

ध.१/५.५.५०/२८/४ तत्र स्वपक्षमित्रये प्रयुक्त साधनानु ।=२। पयवी सिद्धिः लिप प्रयुक्त हुआ हेतु साधन हेतु है। (म म त/१०/३)।

३. फलके अर्थमें

पं. वा/ता/घु/१/६/१८ हेतु फल, हेतुशब्देन फल तथ भण्यत इति शेषः । फलप्राप्त्यनुपपत्तिरुपपत्तिः ।=फलको हेतु कहते हैं। प्रदन्-हेतु शब्दसे फल कहे गए जाता है। उत्तर-फलका कारण होनेसे उपचारमे इसको फल कहा है।

* साधनका लक्षण —दे साधन।

* साध्यका लक्षण —दे, पय।

* कारणके अर्थमें हेतु—दे, कारण/1/१/२।

२. हेतुके भेद—१ प्रत्यक्ष परोक्षादि


ति. प./१/३६-३६ दुविहो हवेदि हेतु । पश्यत्परोक्षभेदिति ।३६। सश्लेषत्वात् परपक्षत्वात् ।=दोषोष्ण हीदि पश्यत्वात् । ३६।=हेतु प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे दो प्रकार है । १। प्रत्यक्ष हेतु साक्षात् प्रत्यक्ष और परम्परा प्रत्यक्षके भेदसे दो प्रकार है । ३६। (ध १/१.१.१/५४/१०)।

दे कारण/1/१/२ [हेतु दो प्रकार है—अभ्यन्तर व माह्य। माह्य हेतु भी दो प्रकारका है—आत्मभूत, अजात्मभूत।

२. अन्य व्यतिरेकी आदि

प सु ३/१५-२६।

न्या दी ३/१३२-६८/८८-६६।



३. नैयायिक मान्य भेद

न्या दी १/१४२/८/१२ ते मन्वन्ते त्रिविधो हेतु -अन्वय-व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी चेति । = नैयायिकोंने हेतुके तीन भेद माने हैं—अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवलव्यतिरेकी ।

३. असाधारण हेतुका लक्षण

श्लो वा १/३/१०/३३/५५/२३ यदात्मा तत्र व्याप्रियते तदैव तत्कारणं नान्यथा इत्यसाधारणो हेतु । = नित्य भी आत्मा जिस समय उस प्रमिति को उत्पन्न करनेमें व्यापार कर रहा है तब ही उस प्रमाका कारण है । इस प्रकार आत्मा असाधारण हेतु है ।

४. उपलब्धि रूप हेतु सामान्य व विशेषके लक्षण

प मु. ३/६५-७७ परिणामी शब्द कृतकत्वात्, य एव, स एव दृष्टो, यथा घट, कृतकश्चाय, तस्मात्परिणामी, यस्तु न परिणामी स न कृतको दृष्टो यथा बन्ध्यास्तनधय, कृतकश्चाय तस्मात्परिणामी । ६५। अस्त्यत्र देहिनि बुद्धिर्व्याहारदे । ६६। अस्त्यत्र छाया छत्राव । ६७। उदेव्यति शकट कृत्तिकोदयात् । ६८। उदगाद्भरणि प्राक्तत एव । ६९। अस्त्यत्र मातुलिङ्गे रूप रसात् । ७०। नास्त्यत्र शीतस्पर्श औष्ण्यात् । ७१। नास्त्यत्र शीतस्पर्शो धूमात् । ७३। नास्मिन् शरीरिणि सुबमस्ति हृदयशब्दात् । ७४। नोदेव्यति मुहूर्तान्ते शकट रेवत्युदयात् । ७५। नोदगाद्भरणिर्मुहूर्तत्पुत्रं पुष्पोदयात् । ७६। नास्त्यत्र भित्तौ परभागाभावोऽवर्गभागदर्शनात् । ७७। = विधिरूप—१ शब्द परिणामी है क्योंकि वह किया हुआ है, जो-जो पदार्थ किया हुआ होता है वह-वह परिणामी होता है जैसे-घट । शब्द किया हुआ है इसलिए परिणामी है, जो परिणामी नहीं होता वह-वह किया हुआ भी नहीं होता जैसे-नौका पुत्र । यह शब्द किया हुआ है, इसलिए वह परिणामी है । ६५। २ इस प्राणीमें बुद्धि है, क्योंकि यह चलता आदि है । ६६। ३. यहाँ छाया है क्योंकि छायाका कारण छत्र मौजूद है । ६७। ४. मुहूर्तके पश्चात् शकट (रोहिणी) का उदय होगा क्योंकि इस समय कृत्तिकाका उदय है । ६८। ५. भरणीका उदय हो चुका क्योंकि इस समय कृत्तिकाका उदय है । ६९। ६ इस मातुलिङ्ग (पपीता) में रूप है क्योंकि इसमें रस पाया जाता है । ७०। प्रतिषेध रूप—१ इस स्थानपर शीतस्पर्श नहीं है क्योंकि उष्णता मौजूद है । ७१। २ यहाँ शीतस्पर्श नहीं है क्योंकि शीतस्पर्श रूप साध्यसे विरुद्ध अग्निका कार्य यहाँ धूँआ मौजूद है । ७३। (प मु. ३/६३) ३ इस प्राणीमें सुख नहीं, क्योंकि सुखसे विरुद्ध दुःखका कारण इसके मानसिक व्यथा मालूम होती है । ७४। ४ एक मुहूर्तके बाद रोहिणीका उदय न होगा, क्योंकि इस समय रोहिणीसे विरुद्ध अश्विनी नक्षत्रसे पहले उदय होनेवाले रेवती नक्षत्रका उदय है । ७५। ५ मुहूर्तके पहले भरणीका उदय नहीं हुआ क्योंकि इस समय भरणीसे विरुद्ध पुनर्वसुके पीछे होनेवाले पुष्यका उदय है । ७६। ६ इस भित्तिमें उस ओरके भागका अभाव नहीं है क्योंकि उस ओरके भागका साथ इस ओरका भाग साफ दिख रहा है ।

न्या दी १/१४२-४६/५५-४६/६ यथा-पर्वतोऽपमग्निमां धूमवत्त्वान्यानुपपत्ते इत्यत्र धूम । धूमो ह्यग्ने कार्यभूतस्तदभावेऽनुपपत्तयामानोऽग्नि गमयति । कश्चित्कारणरूप, यथा-‘वृष्टिर्भविष्यति विशिष्टमेधान्यथानुपपत्ते’ इत्यत्र मेघविशेष । मेघविशेषो हि वर्षस्य कारणस्वकार्यभूत वर्ष गमयति । ५२। कश्चित्द्विषेधरूप, यथा-‘वृष्टोऽयं शिक्षापरवान्यथानुपपत्तेरित्यत्र [शिक्षा] शिक्षा हि वृक्षविशेष सामान्यभूत वृक्ष गमयति । न हि वृक्षाभावे वृक्षविशेषो पटत इति । कश्चित्पूर्वचर, यथा—उदेव्यति शकट कृत्तिकोदयानुपपत्तेरित्यत्र कृत्तिकोदय । कृत्तिकोदयानन्तर मुहूर्तान्ते नियमेन शकटोदयो जायत इति कृत्तिकोदय पूर्वचरो हेतु शकटोदय गमयति । कश्च-

दुत्तरचर’, यथा—उद्गग्भरणि प्राक्कृत्तिकोदयादित्यत्र कृत्तिकोदय । कृत्तिकोदयो हि भरण्यादयोत्तरचरस्त गमयति । कश्चित्सहचर’, यथा मातुलिङ्गरूपवद्वितुमर्हति रसवत्त्वान्यथानुपपत्तेरित्यत्र रस । रसो हि नियमेन रूपसहचरितस्तदभावेऽनुपपत्तयामानस्तद्गमयति । ५४। स यथा—नास्य मिथ्यात्वम्, आस्तिक्यान्यथोपपत्तेरित्यत्रास्तिक्यम् । आस्तिक्य हि सर्वज्ञवीतरागप्रणीतजीवादितत्पार्थरुचिलक्षणम् । तन्मिथ्यात्ववतो न सभवतीति मिथ्यात्वाभाव साधयति । ५६। अस्त्यत्र प्राणिनि सम्यक्त्व विपरीताभिनिवेशाभावात् । अत्र विपरीताभिनिवेशाभाव प्रतिषेधरूप सम्यक्त्वसद्भाव साधयतीति प्रतिषेधरूपो विधिसाधको हेतु । ५८। नास्त्यत्र धूमोऽन्यनुपलब्धेरित्यत्रान्यभाव प्रतिषेध रूपो धूमाभाव प्रतिषेधरूपमेव साधयतीति प्रतिषेधरूप प्रतिषेधसाधको हेतु । = विधिसाधक—१ कोई कार्यरूप है जैसे यह पर्वत अग्निवाला है, क्योंकि धूमवाला अन्यथा नहीं हो सकता ‘यहाँ धूम’ कार्यरूप हेतु है ; कारण धूम अग्निका कार्य है, और उसके बिना न होता हुआ अग्निका ज्ञान कराता है । २. कोई कारण रूप है जैसे—‘वर्षा होगी, क्योंकि विशेष बादल अन्यथा नहीं हो सकते, यहाँ ‘विशेष बादल’ कारण हेतु है । क्योंकि विशेष बादल वर्षाके कारण है और वे अपने कार्यभूत वर्षाका बोध कराते हैं । ३. कोई विशेष रूप है । जैसे—‘यह वृक्ष है’, क्योंकि शिक्षा अन्यथा नहीं हो सकती, यहाँ ‘शिक्षा’ विशेष रूप हेतु है । क्योंकि शिक्षा वृक्षविशेष है, वह अपने सामान्य भूत वृक्षका ज्ञापन कराती है । कारण, वृक्ष विशेष वृक्ष सामान्यके बिना नहीं हो सकता है । ४ कोई पूर्वचर है, जैसे—‘एक मुहूर्तके बाद शकटका उदय होगा, क्योंकि कृत्तिकाका उदय अन्यथा नहीं हो सकता । यहाँ कृत्तिकाका उदय’ पूर्वचर हेतु है, क्योंकि कृत्तिकाके उदयके बाद मुहूर्तके अन्तमें नियमसे शकटका उदय होता है । और इसलिए कृत्तिकाका उदय पूर्वचर हेतु होता हुआ शकटके उदयको जनाता है । ५ कोई उत्तरचर है, जैसे— एक मुहूर्तके पहले भरणीका उदय हो चुका है । क्योंकि इस समय कृत्तिकाका उदय अन्यथा नहीं हो सकता’ यहाँ कृत्तिकाका उदय उत्तरचर हेतु है । कारण, कृत्तिकाका उदय भरणीके उदयके बाद होता है और इसलिए वह उसका उत्तरचर होता हुआ उसको जानता है । ६ कोई सहचर है, जैसे—‘मातुलिङ्ग (पपीता) रूपवात् होना चाहिए, क्योंकि रसवान् अन्यथा नहीं हो सकता’, यहाँ ‘रस’ सहचर हेतु है । कारण रस, नियमसे रूपका सहचारी है और इसलिए वह उसके अभावमें नहीं होता हुआ उसका ज्ञापन कराता है । ५४। निषेध साधक—१ सामान्य-इस जीवके मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि आस्तिकता अन्यथा नहीं हो सकती । यहाँ आस्तिकता निषेध साधक है, क्योंकि आस्तिकता सर्वज्ञ वीतरागके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वार्थका श्रद्धान रूप है, वह श्रद्धान मिथ्यात्ववाले जीवके नहीं हो सकता, इसलिए वह विवक्षित जीवमें मिथ्यात्वके अभावको सिद्ध करता है । ५६। २ विधिसाधक—उस जीवमें मिथ्यात्व नहीं है’ यह प्रतिषेध रूप है और वह सम्यग्दर्शनके गद्गावको साधता है, इसलिए वह प्रतिषेध रूप विधि साधक हेतु है । ३ प्रतिषेध साधक—‘यहाँ धूँआ नहीं है, क्योंकि अग्निका अभाव है’ यहाँ अग्निका अभाव स्वयं प्रतिषेध रूप है और वह प्रतिषेधरूप ही धूमके अभावको सिद्ध करता है, इसलिए ‘अग्निका अभाव’ प्रतिषेध रूप प्रतिषेध साधक हेतु है ।

५. अनुपलब्धि रूप हेतु सामान्य व विशेषके लक्षण

प मु. ३/७६-८६ नास्त्यत्र भूतले घटोऽनुपपत्ते १८२। नास्त्यत्र शिक्षावृक्षानुपपत्ते १८०। नास्त्यत्र प्रतिषेधसामर्थ्योऽग्निर्धूमांनुपपत्ते १८१। नास्त्यत्र धूमोऽनने १८२। न भविष्यति मुहूर्तान्ते शकट कृत्तिकोदयानुपपत्ते १८३। नोदगाद्भरणिर्मुहूर्तत्प्राक्तत एव १८४।

नास्त्यत्र समतुनागासुत्रागो नामानुपलब्धे ॥८५॥ यथास्मिन् प्राणिनि व्याधिविशेषोऽस्ति निगमयच्छानुपलब्धे ॥८७॥ अन्वयप्र देहिनि द्रुत्प्रमिष्टमयोगाभावात् ॥८८॥ अनेकान्तात्मक वस्तुकेान्तस्वरूपाणुपलब्धे ॥८९॥ = विधिरूप—१ इस भूतलपर घडा नहीं है क्योंकि उसका स्वरूप नहीं दीखता ॥९०॥ २. यहाँ शिक्षा नहीं क्योंकि कोई किसी प्रकारका यहाँ वृष नहीं दीखता ॥९०॥ ३ यहाँ-पर जिमकी सामर्थ्य किसी द्वारा रुकी नहीं है, क्योंकि यहाँ उसके अनुकूल धुआँ रूप कार्य नहीं दीखता है ॥९१॥ ४. यहाँ धुआँ नहीं पाया जाता क्योंकि उसके अनुकूल अग्नि रूप कारण यहाँ नहीं है ॥९२॥ ५ एक मुहूर्तके बाद रोहिणीका उदय न होगा, क्योंकि इस समय कृत्तिकाका उदय नहीं हुआ ॥९३॥ ६ मुहूर्तके पहले भरणीका उदय नहीं हुआ है क्योंकि इस समय कृत्तिकाका उदय नहीं पाया जाता ॥९४॥ ७ इस बरानर पलङ्ग्यानी तराजूम (एक परनेमें) ऊँचापन नहीं क्योंकि दूरमे परनेमें नीचापन नहीं पाया जाता ॥९५॥ प्रतिषेध रूप—१ जैसे इस प्राणीमें कोई रोग विशेष है क्योंकि इसकी चेष्टा नीरोग माद्वय नहीं पड़ती ॥९७॥ २ यह प्राणी दुखी है क्योंकि इसके पिता माता आदि प्रियजनोका सम्बन्ध छूट गया है ॥९८॥ ३ हृगरक पदार्थ निरय, अनित्य आदि एकेक धर्मवाला है क्योंकि केवल निरयत्व आदि एक धर्मका अभाव है ॥९९॥

६. अन्यय व्यतिरेकी आदि हेतुओंके लक्षण

न्या दौ ॥३॥४२-४४॥९६-९७॥ तत्र पञ्चरूपापपन्नोऽन्ययव्यतिरेकी । यथा-‘शब्दोऽनित्यो भवितुमर्हति कृतकत्वात्, यद्यत्कृतं तत्तद्वदित्य यथा घट, यद्यदनित्य न भवति तत्तत्कृतं न भवति यथाकाशात्, तथा चाय कृतक, तस्मादनित्य एवेति ।’ अत्र शब्द पक्षीकृत्यानित्यत्व साध्यते । तत्र कृतत्व हेतुस्तस्य पक्षीकृतत्वात्पक्षधर्मत्वमस्ति । सपक्षे घटादौ वर्तमानत्वाद्धिपक्षे गगनादाववर्तमानत्वादन्ययव्यतिरेकितम् ॥४२॥ पक्षमपक्षवृत्तिविपरिहृतं केवलान्वयी । यथा-‘अदृष्टादय कस्यचित्प्रत्यक्ष अनुमेयत्वात्, यद्यदनुमेय तत्तत्कस्यचित्प्रत्यक्षम्, यथा-‘न्यादि’ इति । अत्रादृष्टादय पक्ष, कस्यचित्प्रत्यक्षत्व साध्यम्, अनुमेयत्व हेतु, अन्यायन्यदृष्टान्त ॥४३॥ पक्षवृत्तिविपरिहृतत्वात् सपरिहृती हेतु केवलव्यतिरेकी । यथा-‘जीवच्छरीर मात्मक भवितुमर्हति प्राणादिमत्त्वात् यद्यत्सारमक न भवति तत्तत्प्राणादिमन् भवति यथा लोष्टम्’ इति । अत्र जीवच्छरीर पक्ष, सारमकर साध्यम्, प्राणादिमत्त्व हेतु लाष्टादिव्यतिरेकदृष्टान्त ॥४४॥ = १ जो पाँच रूपोंसे सहित है वह अन्ययव्यतिरेकी है । जैसे—शब्द अनित्य है, क्योंकि कृतक है, जो-जो किया जाता है वह-वह अनित्य है जैसे घडा, जो-जो अनित्य नहीं होता वह-वह किया नहीं जाता जैसे—आकाश । शब्द किया जाता है, इसलिए अनित्य ही है । यह शब्दका पक्ष करके उनमें अनित्यता सिद्ध की जा रही है, उस अनित्यताके सिद्ध करनेमें ‘किया जाना’ हेतु है वह पक्षभूत शब्दका धर्म है । अतः उसके पक्षधर्मरत्न है । सपक्ष घटादिमें रहने और विपक्ष आकाशादिकमें न रहनेसे मपक्षमत्त्व और विपक्ष वृत्ति भी है, हेतुका विषय ‘अनित्यरूप साध्य’ किसी प्रमाणमे बाधित न होनेसे अबाधित विषय और प्रतिपक्ष साधन न होनेसे असरप्रतिपक्ष भी विद्यमान है । इस तरह क्रिया जाना हेतु पाँच रूपसे विशिष्ट होनेके कारण अन्ययव्यतिरेकी है ॥४२॥ २ जो पक्ष और मपक्षमें रहता है तथा विपक्षसे रहित है वह केवलान्वयी है । जैसे—अदृष्ट (पुण्य-पाप) आदिक कितोके प्रत्यक्ष है, क्योंकि वे अनुमानमे जाने जाते हैं । जो-जो अनुमासे जाने जाते हैं वह वर किसीके प्रत्यक्ष हैं जैसे अग्नि आदि । यहाँ ‘अदृष्ट आदिक’ पक्ष है, ‘कितोके प्रत्यक्ष’ साध्य है परन्तु अनुमानसे जाना हेतु है और अग्नि आदि अन्यय दृष्टान्त है ॥४३॥ ३. जो पक्षमें रहता है, विपक्षमें नहीं

रहता और मपक्षसे रहित है वह हेतु केवलव्यतिरेकी है । जैसे—जिन्दा शरीर जीव सहित होना चाहिए, क्योंकि वह प्राणादिनामा है जो-जो जीव सहित नहीं होता है वह-वह प्राणादि वाना नहीं होता है जैसे नोष्ठ । यहाँ जिन्दा शरीर पक्ष है, जीव सहितत्व साध्य है, ‘प्राणादिक’ हेतु है और लाष्टादिक व्यतिरेकी दृष्टान्त है ।

७. अतिशायन हेतुका लक्षण

आप्तौ ॥१॥४ दोषान्गण्यार्हानिनि शेषाग्यतिशायनात् । क्वचिद्यथा स्वहेतु-भ्यो बहिरन्तरमनक्षय ॥४॥ = क्वचित् अपने योग्य ताप आदि निमित्तोंको पाकर जैसे सुवर्णकी कालिमा आदि नष्ट हो जाती है उसी प्रकार जीवमें भी क्वचित् क्वाचित् सम्पूर्ण अन्तरग व बाह्य मलोका अभाव सम्भव है, ऐसा अतिशायन हेतुसे सिद्ध है ।

८. हेतुवाद व हेतुमतका लक्षण

ध १३॥५५॥२०॥२०७॥ हिनोति गमयति परिच्छिन्नतर्यर्थात्मान चेति प्रमाणपञ्चक वा हेतु । स उच्यते कथ्यते अनेनेति हेतुवाद श्रुतज्ञानम् । = जो अर्थ और आत्माका ‘हिनोति’ अर्थात् ज्ञान कराता है उस प्रमाण पञ्चको हेतु कहा जाता है । उक्त हेतु जिसके द्वारा ‘उच्यते’ अर्थात् कहा जाता है वह श्रुतज्ञान हेतुवाद कहलाता है ।

सू पा ॥५॥, जयचन्द्र ॥६॥४४ जहाँ प्रमाण नय करि वस्तुकी निवधि सिद्धि जामे करि मानिये सो हेतुमत्त है ।

२ हेतु निर्देश

१. अन्यथानुपपत्ति ही एक हेतु पर्याप्त है

सि. वि ॥५॥४२३३६१ सतर्केणोद्यते रूप प्रत्यक्षत्वेतरस्य वा । अन्यथानुपपन्नत्व हेतोरेकलक्षणम् ॥२३॥

सि वि ॥टी॥५॥२५३४४३१ विपक्षे हेतुसद्भावनाधकप्रमाणव्यावृत्तौ हेतुसामर्थ्यमन्यथानुपपत्तेरेव । = प्रत्यक्ष या आगमादि अन्य प्रमाणोंके द्वारा प्रहण क्रिया गया साधन अन्यथा हो नहीं सकता, इस प्रकार उहापोह रूप ही हेतुका लक्षण है ॥२३॥ प्रश्न—विपक्षमें हेतुके सद्भावके नाधक प्रमाणकी व्यावृत्ति हो जानेपर, हेतुकी अपनी वीन सी शक्ति है जिससे कि साध्यकी सिद्धि हो सके । उत्तर—यह साधन अन्यथा हो नहीं सकता, इस प्रकारकी अन्यथानुपपत्तिकी ही सामर्थ्य है ।

न्या वि ॥५॥२॥१५४१७७ अन्यथानुपपन्नत्व यत्र तत्र त्रयेण किम् १ नान्यथानुपपन्नत्व यत्र तत्र त्रयेण किम् १ ॥१५४॥ = अन्यथा अनुपपन्नत्वके घटित हो जानेपर हेतुके अन्य तीन लक्षणमे क्या प्रयोजन और अन्यथानुपपन्नत्वके घटित न होनेपर भी उन तीन लक्षणोंसे क्या प्रयोजन है ॥१७७॥

प सु ॥३॥६४.६७ व्युत्पन्नप्रयोगन्तु तथोपपत्त्यान्यथानुपपत्त्यैव वा ॥६४॥ तावता च साध्यसिद्धि ॥६७॥ = व्युत्पन्न पुरुषके लिए तो अन्यथा अनुपपत्ति ही हेतुका प्रयोग ही पर्याप्त है ॥६४॥ वे लोग तो उदाहरण आदिके प्रयोगके बिना ही हेतुके प्रयोगसे ही व्याप्तिका निश्चय कर लेते हैं ॥६७॥

२. अन्यथानुपपत्तिसे रहित सब हेत्वाभास है

न्या वि ॥५॥७॥२०२॥२३२ अन्यथानुपपन्नत्वरहिता ये त्रिलक्षणा । अकिञ्चित्करात् सार्वात् तात् वय सगिरामहे ॥२०२॥ = अन्यथा अनुपपन्नत्वसे अन्य जो हेतुके तीन लक्षण किये गये हैं वे सब अकिञ्चित्कर हैं । उन सबको हम हेत्वाभास कहते हैं ॥२०२॥ (न्या, वि ॥५॥२॥१७४३२००)

३. हेतु स्वपक्ष साधक व परपक्ष दूषक होना चाहिए

प. सु. ६/७३ प्रमाणतदाभासौ द्रष्टव्योद्भाषितौ परिहृतापरिहृतदोषौ वादिन साधनतदाभासौ प्रतिवादिनो भूषण च ७३। = प्रथम वादीके द्वारा प्रयुक्त प्रमाणको प्रतिवादी द्वारा द्रष्ट बना दिया जानेपर, यदि वादी उस दूषणको हटा देता है तो वह प्रमाण वादीके लिए साधन और प्रतिवादीके लिए दूषण है। यदि वादी साधनाभासको प्रयोग करे, और पीछे प्रतिवादी द्वारा दिये दूषणको हटा न सके तो वह प्रमाण वादीके लिए दूषण और प्रतिवादीके लिए भूषण है। यही स्वपक्ष साधन और परपक्ष दूषणकी व्यवस्था है।

स. भ. त. १०/३ हेतु स्वपक्षस्य साधक परपक्षस्य दूषकश्च । = हेतु स्वपक्षका साधक और परपक्षका दूषक होना चाहिए।

४ हेतु देनेका कारण व प्रयोजन

प. सु. अन्तिम श्लोक परीक्षामुखमादर्श हेयोपादेयतत्त्वयो । सविदे माहशो बाल परीक्षादक्षवद्ब्रधाम् १। = परीक्षा प्रवीण मनुष्यकी तरह मुझ बालकने हेय उपादेय तत्त्वको अपने सरीखे बालकोंको उत्तम रीतिसे समझानेके लिए दर्पणके समान इस परीक्षामुख ग्रन्थकी रचना की है।

स. भ. त. १०/२ स्वेष्टार्थसिद्धिमिच्छता प्रवादिना हेतु प्रयोक्तव्य, प्रतिज्ञामानेणार्थसिद्धेरभावात् । = अपने अभीष्ट अर्थकी सिद्धि चाहने वाले प्रौढ वादीको हेतुका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। क्योंकि केवल प्रतिज्ञा मात्रसे अभिलषित अर्थकी सिद्धि नहीं होती।

* जय-पराजय व्यवस्था — दे न्याय/२।

३. हेत्वाभास निर्देश

१. हेत्वाभास सामान्यका लक्षण

न्या. वि. सू. २/१७४/२१० अन्यथानुपपन्नत्वरहिता ये विडम्बिता १७४। हेतुत्वेन परेस्तेषां हेत्वाभासत्वमीक्षते । = अन्यथानुपपन्नत्वसे रहित अन्य एकांतवादियोंके द्वारा जो हेतु नहीं होते हुए भी, हेतुरूपसे ग्रहण किये गये हैं वे हेत्वाभास कहे गये हैं।

न्या. दी. ३/१४०/८५/५ हेतुनक्षणरहिता हेतुवदवभासमाना खलु हेत्वाभासा । = जो हेतुके लक्षणसे रहित है, और कुछ रूपमें हेतुके समान होनेसे हेतुके समान प्रतीत होते हैं वे हेत्वाभास हैं। (न्या. दी. ३/१४०/१००/१) (न्या. सू. भाषा १/१/४/४४)

२. हेत्वाभासके भेद

न्या. सू. २/१०१/१२६ विरुद्धासिद्धमदिग्धा अर्किचित्करविस्तरा इति १०१। = विरुद्ध, असिद्ध, सन्दिग्ध और अर्किचित्कर ये चारों ही अन्यथानुपपन्नत्व रूप हेतुके लक्षणसे विफल होनेके कारण हेत्वाभास हैं। (न्या. वि. सू. २/१२९/१२४)

सि. वि. सू. ६/३२/४२६ एकलक्षणसामर्थ्याद्धेत्वाभासा निवर्तिता । विरुद्धानैकान्तिकासिद्धाज्ञाताविच्चिक्करादय ३२। = अन्यथानुपपत्ति रूप एक लक्षणकी सामर्थ्यसे ही विरुद्ध, अनैकान्तिक, असिद्ध अज्ञात व अर्किचित्कर आदि हेत्वाभास उत्पन्न होते हैं। अर्थात् उचित लक्षणकी वृत्ति विरत आदि प्रकारोंसे पायी जानेके कारण ही ये विरुद्ध आदि हेत्वाभास हैं।

श्लो. वा. ४/न्या. २/७३/४२६/७ पर भाषामें उद्धृत—सव्यभिचारविरुद्ध-प्रकरणसमाध्यसमातोतकाला हेत्वाभासा । = सव्यभिचारी, विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम, अतीतकाल ये पाँच हेत्वाभास हैं। (न्या. सू. १/४/४४)

न्या. दी. ३/१४०/८६/२ पञ्च हेत्वाभासा अमिद्धविरुद्धनैकान्तिकाना-त्ययापदिष्टप्रकरणसमाख्या' सपन्ना । = हेत्वाभास पाँच हैं—असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक, कालत्ययापदिष्ट और प्रकरणसम।

प. सु. ६/२१ हेत्वाभासा असिद्धविरुद्धानैकान्तिकाकिंचित्करा । = हेत्वाभासके चार भेद हैं—अमिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक और अर्किचित्कर।

स. म. २/४/१ विरोधस्योपलक्षणत्वात् वैयधिकरणम् अनवस्था सकर व्यतिकर सशय अप्रतिपत्ति विषयव्यवस्थाहानिगिति । = सप्त भंगी वादमें विरोध, वैयधिकरण्य, अनवस्था, सकर, व्यतिकर, सशय, अप्रतिपत्ति और विषयव्यवस्था हानि ये आठ दोष आते हैं।

* हेतुओं व हेत्वाभासोंके भेदोंका चित्र—दे न्याय/१।

* हेत्वाभासके भेदोंके लक्षण—दे वट-वह नाम।

हेतुवाद—दे हेतु/१।

हेतु विचय धर्मध्यान—दे. धर्मध्यान/१/५/१०।

हेत्वन्तर—न्या. सू. व. टी. ७/२/६/३११ अविशेषोक्ते हेतौ प्रतिपिह्वे विशेषमिच्छतो हेत्वन्तरम् ६। निदर्शनम् एकप्रकृतौ व्यक्तमिति प्रतिज्ञा कस्माद्ध तोरेकप्रकृतीनां विकाराणा परिमाणान् मृत्पूर्वकाणा शरावादीनां दृष्ट परिमाणं यावान्प्रकृतैर्बुद्धो भवति तावान्विकार इति दृष्ट च प्रतिविकार परिमाणम् । अस्ति चेद परिमाण प्रतिव्यक्त तदेकप्रकृतीनां विकाराणा परिमाणान् पश्यामो व्यक्तमदनेकप्रकृतीति । अस्य व्यभिचारेण प्रत्यवस्थान नानाप्रकृतीनां च विकाराणां दृष्ट परिमाणमिति । तदिदमपि शेषोक्ते हेतौ प्रतिपिह्वे विशेष ब्रुवतो हेत्वन्तर भवति । = विशेषोंका लक्ष्य नहीं करके सामान्य रूपसे हेतुके वट चक्रनेपर पुन प्रतिवादी द्वारा हेतुके प्रतिषेध हो जानेपर विशेष अशको विनष्टित कर रहे वादीका हेत्वन्तर निग्रहस्थान हो जाता है ६। उदाहरण—जैसे व्यक्त एक प्रकृति है यह प्रतिज्ञा है, एक प्रकृति वाले विकारोंके परिमाणसे यह हेतु है। मिट्टीसे बने शराव आदिकोंका परिमाण दृष्ट है, जितना प्रकृतिका व्युत्पत्ता है उतना ही विकार होता है और यह परिमाण प्रतिव्यक्त है। वह एक प्रकृति वाले विकारोंके परिमाणसे देखा जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि व्यक्त एक प्रकृति है। (श्लो. वा. ४/न्या. १६१/३७६/६ में डमपर चर्चा।

हेत्वाभास—दे हेतु/३।

हेमग्राम—श्रीयुक्त मन्त्रिनाथ चक्रवर्ती एम. ए. एन. टी. ने अपने प्रवचनसारकी प्रस्तावनामें लिखा है कि मद्रास प्रेमीटेन्सीके मलाया प्रदेशमें 'पोन्नुर्गॉव' को ही प्राचीन कालमें हेमग्राम कहते थे। (कुरल काव्य/प्र. २१)।

हेमचंद्र—१ काष्ठा मघकी गुर्वावनीके अनुसार (दे इतिहास) जय कुमारसेन (काष्ठा मघके मस्थापक) के शिष्य तथा पद्मनन्दिने गुरु थे। ममय-वि. ६०, (ई. ६२३)—दे इतिहास/४/६। २ गुजरातके धनुग्राममें चञ्चनामक वश्यके पुत्र थे। वचपनका नाम चण्देन था। पाँच वर्षकी आयुमें देवचन्द्र गणोमें दीक्षा ग्रहण की। तब इनका नाम हेमचन्द्र रखा गया और सोमदेवकी उपासना विभूषित हुए। ये श्वेताम्बराचार्य थे। कृतियों—गुजराती व्याकरण, मित्र हेम शानु-शामन, प्राकृत व्याकरण, अभिधान चिन्तामणि शेष (हेमी नाम-माला), अनैकार्यमग्रह देशीनाममाना, कायानुशासन, उन्दानु-शासन, प्रमाणमीमाना, अन्ययोग वचनच्छेद (दाशिशिताना स्याद्ध. मञ्जरी) अयोग व्यवच्छेद द्वात्रिंशतिना, अत्यारम्भनिवृद्ध, योगशास्त्र, द्वाधाय महाकाव्य, निच दृश्ये, नीत-परतौर, अन्तर्गनीच (दाशानु-

प्रेक्षा), त्रिपष्टि पुरुष चरित। समय—ई १०८८-११७३। (सि वि / ४२ प मरेन्द्र) (प प्र/प्र ७४, ११७, A, N Up) (का अ, प्र १७ A, N UP)।

हेमराज (पाडे)—यह पण्डित रूपचन्दके शिष्य थे। कृति—प्रवचनसार टीका, पञ्चास्तिकाय टीका, भाष्य भक्तामर, गोम्मटसार वचनिका, नयचक्र वचनिका, सितपद चौरासी बोल (रवेताम्बरियों-पर आक्षेप) समय—वि श १७-१८ (प का प्र/३प पन्नालाल) (हि जे सा इ/१३१ कामता)।

हैमवत—१. पहले भारतवर्षका ही दूसरा नाम रहा है। यथा—
 एम हैमवत वर्ष भारत नाम विश्रुतम्। (मरस्य/११२/२८) =आगे चलकर वह स्वतन्त्र एक वर्ष मान लिया गया है। यथा—इद तु भारत वर्ष ततो हैमवत परम्। (भारत भोग्म/६/७), (ज प/प्र/ १४२ A, N Up)। २ रा वा/३/१०/५/१७२/१७ हैमवन्नाम पर्वत तस्यादूरभव सोऽस्मिन्स्तोति वाणि सति हैमवतो वर्ष। = [अढाई द्वीपोंमें स्थित प्रसिद्ध द्वितीय क्षेत्र है] हिमवात् नामके पर्वतके पासका क्षेत्र, या जिसमें हिमवात् पर्वत है वह हैमवत है। २ हैमवत इस क्षेत्रका अस्थान व विस्तारादि—दे, लोक/३/३, ३ हैमवत क्षेत्रमें काल वर्तनादि सम्बन्धी—दे काल, ४ हिमवात् पर्वतपर स्थित एक कूट व देव—दे, लोक/७। ५ महाहिमवात् पर्वतस्थ कूट व उसका स्वामी देव—दे, लोक/७। ६ रुचक पर्वतस्थ एक कूट—दे, लोक/७।

हैमी नाममाला—दे शब्दकोष।

हैरण्यवत—१ रा वा/३/१०/१७/१८१/१६ हिरण्यवात् रुमिनामा पर्वतस्तस्यादूरभवरवाद्दरण्यवतव्यपदेश। = [अढाई द्वीपस्थ प्रसिद्ध

छटा क्षेत्र है] रुमिके उत्तर शिखरीके दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम समुद्रोंके बीच हैरण्यवत क्षेत्र है। २ हैमवत क्षेत्रका अवस्थान व विस्तारादि—दे लोक/३/३। ३ हैमवतक्षेत्रमें काल वर्तन आदि सम्बन्धी विशेषता—दे काल/४/१५। ४, रुमि पर्वतस्थ एक कूट व उसका स्वामी देव—दे लोक/७। ५ शिखरी पर्वतस्थ एक कूट व उसका स्वामी देव—दे लोक/७।

होयसल—यह नगर कर्नाटक (दक्षिण) में है। यहाँके राज्यके आधीन ही जैनियोंका प्रसिद्ध स्थान मूडविद्री रहा है। (घ/३। प्र ५)।

ह्यूनसांग—एक चीनी यात्री था। राजा हर्षवर्धनके समय भारतमें आया। समय—ई ६३०-६४५ (न्यायावतार)। प्र २ सतीश चन्द-विद्याभूषणके अनुसार वह ई ३२६ में भारत आया था। (वर्तमान भारतका इतिहास)।

ह्रस्व—घ/१३/५, ५, ४७/२४८/३। एकमात्रो ह्रस्व। = एक मात्रा वाला वर्ण ह्रस्व होता है।

ह्रस्व स्वर—दे अक्षर।

ह्री—१ हैमवत पर्वतस्थ एक कूट—दे लोक/७। २ हैमवत पर्वतस्थ महापद्म हृद तथा ह्रीकूटकी स्वामिनी देवी—दे लोक/७/३। रुचक पर्वतस्थ निरासिनी दिक्कुमारी देवी—दे लोक/७।

ह्रीमंत—राजगृहमें स्थित एक पर्वत—दे, मनुष्य/४।

इति चतुर्थः खण्डः

समाप्तोऽयं ग्रन्थः

